







सूत्रक और प्रकाशक-

लखमराज श्रीकृष्णदास,

मालिक-"श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम-प्रेस, बम्बई.

पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार "श्रीवेङ्कटेश्वर" इण्डियन प्रिन्सिपल वायव्यक्षेत्रीन हे ।





श्री ।

## जातिभास्कर-विषयानुक्रमणिका ।

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
मङ्गल ...	१	युधिष्ठिर और भीष्मका जातिके विषयमें	
उपोद्घात ...	१	संवाद ...	२५
व्याकरणसे जातिकथन ...	१	मतंग और इन्द्रका संवाद ...	२६
महाभाष्यमें जातिका लक्षण ...	२	मनु, हारीत, अत्रि और पराशर इन्हों का	
अन्य पण्डितोंके मतसे जातिका ल०	३	जातिके विषयमें कथन ...	१
गौतमसूत्रमें जातिका ल० ...	१	श्रुतिसृष्टियोंका वर्णोंकी कर्माधीन	
साधर्मवैधर्म्यसे जातिका ल० ...	४	जातिका कथन ...	३३
गौतमसूत्रमें जातिके २४ भेदोंका क०	१		
तर्कप्रकाशिकामें जातिका ल० ...	५	<b>ब्राह्मणखण्डः ।</b>	
सिद्धान्तमुक्तावलीमें जातिका ल०	१	सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ...	४४
वात्स्यायनके मतसे जा० ल० ...	६	सारस्वत कुलोंके अवतंक आदिका वर्णन	४६
पुरुषसूक्तमें जात्युत्पत्तिकथन ...	१	आन्यकुल अढाई घर ...	१
कृष्णयजुर्वेदमें जा० क० ...	७	चार घर ...	४७
शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें		तीसरी श्रेणी ...	१
जा० कथन ...	८	अन्य उत्तम श्रेणी ...	१
अथर्ववेदमें जा० क० ...	१	वामनजाई ...	१
तैत्तिरीयब्राह्मणमें जा० क० ...	९	दत्तापुर होशियापुरके सारस्वतों की	
शतपथब्राह्मणमें जा० क० ...	१	उत्तम श्रेणी ...	४८
मनुसंहितामें जा० क० ...	१	दूसरी श्रेणी ...	१
ब्रह्माण्डपुराणमें जा० क० ...	१०	जम्बू जसरोटा प्रान्तकी उत्तम श्रेणी	४९
हरिवंशमें जा० क० ...	११	मध्यम श्रेणी ...	१
महाभारतमें जा० क० ...	१२	तृतीय श्रेणी ...	१
विष्णुपुराणमें जा० क० ...	१	कांगडेके पहाडी सारस्वतोंकी	
हरिवंशमें जाति वंशावली ...	१	प्रथम श्रेणी ...	१
ब्रह्माण्डपुराणमें ...	१३	द्वितीय श्रेणी ...	१
लिंगपुराणमें ...	१४	सेणवी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ...	५२
विष्णुपुराणमें ...	१	दूसरी प्रकारकी उत्पत्तिका विस्तार	१
श्रीसद्भागवतमें ...	१	नर्मदोत्तरवासि सारस्वतब्राह्मणोत्पत्ति-	
मत्स्यपुराणमें ...	१५	कथन ...	१
महादेवका पार्वतीसे जातिविषयमें	१६	कान्यकुब्जोत्पत्तिकथन ...	५३
युधिष्ठिर और सर्षका जातिविषयमें क०	१७	कान्यकुब्जदेशका मान कथन ...	५५
भरद्वाज और भृगुका जातिविषयमें क०	२०		
गीतामें भगवान्का अर्जुनको जा० क०	२३		

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
गोत्र और कुलोंका निरूपण ...	५६	प्रवरोंका निरूपण ...	८९
कश्यप गोत्र कथन ...	५७	गौडब्राह्मणोत्पत्तिकथन ...	९१
अनोह ग्रामका वंशविस्तार ...	५८	श्रीगौडादिकी उत्पत्तिकथन ...	९४
वरुआ ग्रामवासियोंका वंश ...	६०	श्रीगौडोंके गोत्र प्रवर और टंकका निरूपण ...	९५
सखरेज ग्रामवासियोंका वंश ...	५९	जीर्णक्रम ...	९६
गौरीग्रामक वंशका वर्णन ...	५९	येंडतवालक्रम ...	९६
शिवराजपुर ग्रामके वंशवालोंका वर्णन ...	५९	अन्यभेद वर्णन ...	९६
शिवलीग्रामवासियोंका वंश ...	५९	वारह प्रकारके गौड ब्राह्मणोंका वर्णन ...	९६
ऊमरीग्रामवासियोंका वंश ...	६१	सनाढ्यब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	९८
पचोरग्रामवासियोंका वंश ...	५९	साढे तीन कुलकी गोत्रावली व० ...	९९
हरिवंशपुरग्रामवासियोंका वंश...	५९	मध्य देशवासी सनाढ्योंके भेद ...	९९
गूढरग्रामवासियोंका वंश ...	५९	उत्कल ब्राह्मणनिर्णय ...	१०१
चिङ्गसपुरके रहनेवालोंका वंश...	६२	मैथिलब्राह्मणोत्पत्ति ...	१०२
शांडिल्य गोत्र कथन ...	६३	वैवस्वतमनु ( चक्र ) ...	१०३
कात्यायन गोत्रका व्याख्यान ...	६५	कर्णाटक ब्राह्मणोत्पत्ति ...	१०४
भरद्वाज गोत्रका वर्णन ...	६७	तैलंगब्राह्मणोत्पत्ति ...	१०५
उपमन्यु गोत्रका वर्णन ...	७२	द्रविडब्राह्मणोत्पत्ति ...	१०७
संस्कृत गोत्र व्याख्यान ...	७६	महाराष्ट्रब्राह्मणोत्पत्ति ...	१०८
<b>दशगोत्रवर्णन ।</b>		महाराष्ट्रब्राह्मणोंके अल्ल गोत्रादिकोंका नकशा ...	१०८
१ कश्यप गोत्रका व्याख्यान ...	७८	तापीतीरस्थ काष्ठपुरवासि ब्राह्मणो- त्पत्ति ...	११२
२ गर्ग गोत्रव्याख्यान ...	७९	औदीच्यसहस्रब्राह्मणोत्पत्ति ...	११४
३ गौतमगोत्रव्या० ...	८०	श्रीसिद्धपुरका २१ पदका कोष्टक ...	११६
४ भारद्वाजगोत्रवर्णन ...	८१	॥ कुलचक्र ...	११७
५ धनंजय गोत्र व० ...	८२	नागरब्राह्मणोत्पत्ति ...	११७
६ वत्स गोत्र व० ...	८३	नागरोंके गोत्रप्रवरनिर्णयका चक्र ...	११८
७ वशिष्ठ गोत्र व० ...	८४	खडायल ब्राह्मणोत्पत्ति ...	११९
८ कौशिक गोत्र व० ...	८५	वायडा ब्राह्मणोत्पत्ति ...	१२०
९ कविस्त.गोत्र व० ...	८५	गिरिनारायण ब्राह्मणोत्पत्ति ...	१२०
१० पाराशर गोत्र व० ...	८६	गिरिनारायण ब्राह्मणोंकी शाखा अवटंक गोत्रादिका चक्र ...	१२८
विशेष वक्तव्य ...	८६	अन्य उत्पत्ति ...	१३०
हरयूपारीणब्राह्मणोत्पत्ति कथन ...	८९	कण्डोल ब्राह्मणोत्पत्ति ...	१३१

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
कंडोल ब्राह्मणोंका गोत्र अवटंक		१८ सूयाल	१३७
चक्र ... ..	१३२	१९ बौढाई	११
गढवाली वा पार्वती ब्राह्मणोत्पत्ति	१३३	२० दोवरयाल	११
सुरौला ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण	१३४	२१ पानौली	११
१ नौतियाल	११	२२ सुन्दरयाल	११
२ दोवाल	११	२३ कलास	११
३ खानीराई	११	२४ मिश्र	११
४ रतूडी	११	२५ किमोथी	११
५ गैरौला	११	२६ पूर्वीया	१३८
६ दीमरी डीमरी	११	२७ कोटारी	११
७ थापलयाल	११	२८ बदोला	११
८ माइथानी	१३५	२९ अन्थवाल	११
९ विजलावार	११	३० बोखण्डी	११
१० हतवाल कोटयाल	११	३१ योगदीन	११
११ सोती वा सुती	११	३२ मालकोटी	११
गंगारही ब्राह्मणोंकी विख्यात		३३ बालोदे	११
जातियां	११	३४ धनशाला	११
१ बुधाना	११	३५ प्राहरबल	११
२ डङ्गवाल	११	३६ देवरानी	११
३ सुकुलानी	११	३७ नोनी	११
४ उनयाल	१३६	३८ पोखरयाल	११
५ घिलदयाल	११	३९ पन्थारी	१३९
६ घौदयाल	११	४० मुसरहा }	
७ नौदयाल	११	४१ बालोनी }	११
८ मामगाई	११	४२ बीजौला }	११
९ नैथानी	११	४३ भादौला }	
१० जोयाल	११	खासब्राह्म	११
११ चन्दोला	११	पर्वतनिवासी कूर्माचलीय ब्राह्मण	११
१२ बर्यवाल	११	पाण्डेय	१४७
१३ कुकरैती	१३७	उपमन्युगोत्री मिश्र व वैद्य	१४३
१४ धासमुना	११	जोशी	११
१५ कैथोला	११	त्रिपाठी	१४२
१६ जोशी	११		
१७ धानी	११		

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
भट्ट ... ..	”	दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रका व०	१७८
उप्रेती ... ..	”	दिसावाल ब्राह्मणोत्पत्ति व०	१७९
पाठक ... ..	”	खेडवाल ब्राह्मणोत्पत्ति व०	१८०
पाटणी ... ..	१४३	खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रवरा- दिका चक्र ...	१८१
श्रीमाली ब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	”	रायकवाल ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	”
काची श्रीमाली ... ..	१४७	रोडवालादि ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	१८२
श्रीमाली ब्राह्मणोंके गोत्र, अवटंक, शाखा, वेद, प्रवर, कुलदेवीके निरायिका कोष्ठक ...	”	भार्गव ब्राह्मणोत्पत्ति कथन ...	१८३
गोत्र अल्ल वर्णन ....	१५२	मेदपाठ ब्राह्मणोत्पत्ति कथन ...	१८४
श्रीमाली ब्राह्मणोंकी चौदह लकडियोंके नामका कोष्ठक ...	१५३	मेवाड़ोंके गोत्रप्रवरादिका चक्र	१८६
वाल्मीकिगोत्रीय ख्यालयब्राह्मणोत्पत्ति वर्णन ...	१५५	मोतापालब्राह्मणोत्पत्ति कथन	१८७
वाल्मीकिब्राह्मणोंके गोत्रका चक्र	१५६	औदुम्बर, कापित्थ, वाटमूल, शृगाल- वाटीय ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	”
झाकट्टीपिब्राह्मणोत्पत्तिव० ...	”	अनावाला घाटीवाला ब्राह्मणोत्पत्ति- कथन ...	१८८
शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणोत्पत्ति व०	१५८	दूसरे अनेकविध ब्रा० उ०	
होडब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	”	माध्यंदिनखिस्तिया ब्रा० उ० ...	१९०
त्रिवेदी होड ब्राह्मणोंका गोत्रचक्र	१५९	गयावाल ब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	”
झालोरा ब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	१६१	नार्मदीय ब्रा० उ० ...	”
गुग्गुली ब्राह्मणोत्पत्ति० ...	१६३	सोमपुरे ब्रा० उ० ...	”
चित्तपावन कोंकणस्थब्राह्मणोत्पत्तिव०	१६४	बत्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	”
चित्तपावन ब्राह्मणोंका गोत्रप्रवरचक्र	१६५	अगस्त्य, अथर्ववेदी, अधिकारी अम्ब- लवशी, अष्टसहस्र, अशूद्रप्रतिप्राही, अरबतबकालु, अखेलु, अद्वैत, अहि- नरु, अराढथ, आचारलु, आभीर- गौड, आयर, आयंगर, उदेन्य ऋषि, इन्दोरिया, उडिया, उल्ल- कामें, ओझा, कनाराकामा इत्यादि ब्राह्मणोंके भेदोंका कथन ...	१९२
धृष्टयुपनाम चक्र ..	१६९	कन्यूडी, कमलाकर, कर्कल, कश्ता, कत्थक, कुनवीगौड, कुदगोरा, इत्यादि ब्राह्मणभेद कथन ...	१९४
बंगाली ब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	१७०	गिरि-उपाधि कथन ...	”
चारेन्द्रश्रेणीके ब्राह्मणोत्पत्ति व०	१७४	कोतवार, अन्ध्रवैष्णव, अम्माकोदागा कसलनाड, गणक, गर्गवंशी,	
सप्तशती सम्प्रदाय ...	१७५		
त्रैदिकश्रेणीब्राह्मण व० ...	”		
गदाधर ...	”		
विशेष विवरण ...	”		
काश्मीरी ब्राह्मण ...	१७६		
शुकब्राह्मणोत्पत्ति व० ...	१७७		
क्षुध्रीचकुलोत्पन्नब्राह्मणविवरण	”		

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
गिरधरोत्, व्यास, गुरु गोस्वामी.		शाखा कथन	.. २२५
गौडब्राह्मण, गंगापुत्र, गंगारी		पडिहार-वंश० शाखा क०	... "
इत्यादि ब्राह्मणभेद कथन ...	..	चावडा वंश	... २२६
गन्धर्वगौड, गंधरवाल ब्राह्मण भेद		टांक वा तक्षक	... "
कथन ...	१९६	जाट	... "
अग्रभिक्षु, अग्रदानी, आचार्य ब्राह्मणोंका		हून वा हूण	... "
कर्मसे नाम कथन ...	..	कट्टी वा काठी	... २२७
कन्हाडे ब्राह्मणोत्पत्ति कथन ...	१९८	वल्हा	... "
तलाजिया ब्रा० कथन ...	१९९	झाला मकवाणा	... "
गुरडा ब्राह्मणोत्पत्ति कथन ...	२००	जेठवा, जेटवा वा कमरी	... "
अम्माकोदागा ब्राह्मण वर्णन	..	गोहिल	... "
कोंकणदेशस्थ ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	..	सर्वथा वा सरिअस्य	... २२८
देवरुखब्राह्मणोत्पत्ति कथन	२०३	सिलार वा सुलार	... "
आभीरभिल्ल ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	..	डावी गौड, डोड, गेहरवाल, बड-गुजर,	
पांचाल उपब्राह्मणोत्पत्ति कथन	..	संगर, सीकरवाल, वैसदाहिया जोहिया,	
उपब्राह्मणों के ब्राह्मणके मुखसे		मोहिल, निकुम्प, दाहिरिया, राजधानी,	
गायत्री सुननेका कथन ...	२०५	दाहिमा इन्होंकी जातिका कथन	..
कुण्डगोलक ब्राह्मणोत्पत्ति कथन	२०७	विनाशाखा राजपूत जातियोंका वर्णन	२२९
( इति ब्राह्मणखण्डः )		राजस्थानकी जंगली जातियां ...	..
अथ क्षत्रियखंडः ।		खेती करनेवाली जातियां ...	..
वाल्मीकिरामायण, श्रीमद्भागवत और		महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिवर्णन ...	२३०
भविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी वंशावली-		महाराष्ट्रक्षत्रियोंके ९६ कुलोंके	
कोष्टक और उनके वंशका कथन	२०९	नामका कथन ...	२३१
चन्द्रवंशका वर्णन ...	२११	गहरवार वंश वर्णन ...	२३४
श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात् सूर्यवंशका		भारतके अन्य स्थानका निरूपण	..
वर्णन ...	४१५	गहरवार, सरनत, विसेन, चमर गौर,	
दिल्लीका चन्द्रवंश वर्णन ...	..	भटगौर, वामनगौर, जनवार, हल-	
यदुवंशवर्णन ...	२१८	वंशी, वसैया, सौनक, मौलप,	
राठोर राठोरे क्ष० वर्णन ...	२२३	उजैन, रुद्र, गौतम, वाजल, नाग-	
कुशवाह क्ष० वर्णन ...	..	केसी, घोसला, राजपूत इत्यादि जाति	
परमार क्ष० वर्णन ...	२२४	कथन ...	२३५
चाहुमान या चौहानका वंश और		वनाफर, देवसेवक पनवार, समर थला,	
शाखा कथन ...	..	शिकारवटेरा, बंढेरिया, कोरई,	
चालुक्य वा सोलंकीका वंश और		खेचर, भालासुलतान, तिलोई,	



विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
कनपुरिया, वीथर-गोली, वच्छ- गोती, राजकुमार, रैकवार, गर्गवंशी, पनवार, थोक, रघुवंशी इत्यादि		कौशिक जा० व०	...
जाति कथन	... २३७	खीची जा० व०	... "
खत्री जाति कथन	... २३८	खैरवा जा० व०	... "
अरोडवंश व०	... २४२	गाडा जा० व०	... "
ब्रह्मक्षत्रोत्पत्ति व०	... २४९	ओड जा० व०	... २६२
लवाणा क्षत्रिय जाति व०	... २५१	गौरवा जा० व०	... "
गढवाली राजपूतोंका व०	... २५३	कलहंस जा० व०	... "
गढवाली राजपूतोंके तीन भेद (कक्षा)		खांडायत जा० व०	... "
का कथन	" "	कांसार ढढेरा जा० व०	... "
प्रथम कक्षामें १ वर्धवाल २ असवाल		अगस्तवार जा० व०	... २६३
३ साजवान इत्यादि २७ वंशोंका		अजूरी जा० व०	... "
कथन	... "	अमेठिया	... "
दूसरी कक्षामें १ कुन्तीनेगी, २ सिपा- हीनेगी, ३ महार इत्यादि ३८		अहवन जा० व०	... "
वंशोंका वर्णन	... २५५	अहवासी जा० व०	... "
तीसरी कक्षामें १ बुंगेली, २ पानीसी, ३		अर्कवंश जा० व०	... "
कान्यूरी इत्यादि १२० सभी		आसिया जा० व०	... "
बहुत ही जातियोंका कथन	२६९	कठियारा जा० व०	... २६४
वैश्य जातिका कथन	...	कनकन जा० व०	... "
संन्यासी आदिका कथन	... "	कर्नाम जा० व०	... "
गुरुसिख डोम जौगी	... "	काकन जा० व०	... "
विश्वनोई	... ३७०	काछी जा० व०	... "
भोटिया	... "	काठी जा० व०	... "
रोम	... "	कान्हापुरिया जा० व०	... "
ब्रमायूके क्षत्रिय	... "	कासिप जा० व०	... "
ब्रमायू क्षत्रियमें राजवंश, चन्द्रराजा, रौतिला, महारा, फर्त्याल, नेगी, विष्ट, मण्डारी, तडागी इत्यादि कुलोंका		गोच्छा जा० व०	... "
वर्णन	... "	गोरखा जा० व०	... "
किरार जा० व०	... २६१	गोदो जा० व०	... "
कोरबा जा० व०	... "	गौराहर जा० व०	... "
		गोथल जा० व०	... "
		गौडक्षत्रिय जा० व०	... "
		गौतमक्षत्रिय जा० व०	... "
		गंगलावतपोता जा० व०	... २६६
		खारखार जा० व०	... "
		कोलटा जा० व०	... "

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
किनवर जा० व० ...	२६५	३३ झंवर ...	२८३
( इति क्षत्रियखण्ड )		—खरडझंवरोंकी ख्याति ...	”
वैश्यखण्डः ।		३४ कवरा ...	”
यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद प्रमाणसे		३५ डाड ...	२८४
वैश्यवर्णका कथन ...	२६६	३६ डागा ...	”
अग्रवाल अगरवाल जाति उत्पत्तिका		३७ गटाणी ...	”
वर्णन ...	२७३	३८ राठी ...	”
माहेश्वरीवैश्य उत्पत्तिका वर्णन	२७६	३९ विडहाला ...	२८५
( खांपखतानी )		३० दरक ...	”
१ सोनी ...	२७७	३१ तोसणीवाल ...	”
२ सोमानी ...	”	३२ अजमेरा ...	२८६
३ जाखेरिया ...	२७८	—ख्यात अजमेरा ...	”
४ सौढानी ...	”	३३ भंडारी ...	”
५ हुरकट ...	”	३४ छापारवाल ...	”
६ न्याती ...	”	३५ भरड ...	२८७
७ हेडा ...	”	३६ भूतडा ...	”
८ करवा ...	२७९	३७ वंग ...	”
९ कांकणी ...	”	३८ अटल ...	”
१० मालू ...	”	३९ ईनाणी ...	”
११ सारडा ...	”	४० मुराड्या ...	२८८
१२ काहला ...	”	४१ मन्साली ...	”
१३ गिलडा ...	”	४२ लढा ...	”
१४ जाजू ...	२८०	४३ मालपाणी ...	”
समदानियोंकी ख्यात ...	”	४४ सिकची ...	”
गुरुकी ख्यात ...	”	४५ लाहोटी ...	”
१५ वोहती ...	”	४६ गदइया ...	”
वोहतियोंके नामका चक्र ...	२८१	४७ गगराणी ...	”
१६ विदादा ...	”	४८ खटवड ...	२८९
१७ विहाणि ...	२८२	४९ लखोट्या ...	”
१८ बजाज ...	”	५० असावा ...	”
१९ कलंत्री ...	”	५१ चेचाणी ...	”
२० कासट ...	”	५२ मानूधन्वा ...	”
२१ कचोल्या ...	”	५३ मूधडा ...	२९०
२२ कालाणी ...	”	४ चौखडा ...	”
		५५ चण्डक ...	”

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
५६ बलदवा	... २९१	दसमत	... ३०४
५७ बालदी	... "	खोरारा	... "
५८ बूब	... "	बघेरवालके ५२ गोत्रका कथन	"
५९ बांगरड	... "	नरसिंहपुरा महाजनचैनी गोत्रोंका	
६० मडावेरा	... "	कथन	... ३०५
६१ तोतला	... "	खण्डेलवाल सम्प्रदाय कथन	... ३०६
६२ आगीवाल	... २९२	खण्डेलवालके ८४ नामोंके गोत्र, वेश,	
६३ आगसूड	... "	उत्पत्तिग्राम और देवीका कोष्टक	"
६४ परताणी	... "	पड्दर्शकोंके ९६ भेदोंका कथन	३०९
६५ नाबंधर	... "	बेलके गुथे हुए सातशतसंज्ञावलीका	
६६ नवाल	... "	कथन	... ३१०
६७ फलौड	... "	दिल्लीमण्डलके सम्पूर्ण जातिके	
६८ तापड्या	... २९३	महाजनोंका कथन	... ३१५
६९ मिणियार	... "	गहोइ वैश्यजातिका क०	... ३१७
७० धूत	... "	द्वादशश्रेणी नाम वैश्योंका कथन	"
७१ धुपड	... "	पल्लीवाल	... "
७२ मोदानी	... "	पुरावाल	... ३१८
७३ पौरवार	... "	भाटिया	... "
७४ देवपुरा	... "	अग्रहारी	... "
७५ मन्त्री	... २९४	धूसर	... "
७६ नौलखा	... "	उसमार वैश्य	... "
दूसरी ख्यात	... "	कुमार वैश्य	... ३१९
घाकडमाहेश्वरी	... २९५	खौवी	... "
महाजन माहेश्वरी पौकरा गोत्र	"	रस्तोगी	... "
खण्डेलवालमाहेश्वरी वैष्णव	... २९६	कसरवानी और कसौधन	... "
साडेबारह न्यात कथन	... "	लोहिया	... "
" दूसरी रिति	... "	सौनिया	... "
चौरासी वैश्य जातिकी नामावली	... २९७	शूरसेनी	... ३२०
गुजरात देशकी चौरासी न्यात	... २९८	वरसेनी	... "
दक्षिणकी चौरासी न्यात	... २९९	अयोध्यावासी	... "
मध्यदेशकी चौरासी न्यात	... ३००	जैसवार	... "
औसवाल महाजन वैश्य	... "	महोबिया	... "
जैनमतक चौरासी गच्छ	... ३०३	महुरिया	... "
गच्छोंकी उत्पत्ति समय	... ३०४		

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
वैश्यवनिया	... ३२०	दक्षिण भारतके वैश्य	... ३२८
काठवैश्य	... ११	उड़ीसाके वैश्य	... ३२९
जमेयवैश्य	... ११	बंगालके वैश्य	... ११
लोहना	... ११	गन्धवणिकू	... ११
रेवाडी	... ११	ताम्बूलवणिकू	... ३३०
काणु	... ३२१	नागर वैश्योंके भेद	... ३३३
रोतगी ( रोहितकी )	... ११	खडायत वैश्योत्पत्ति कथन	... १३४
रस्तौगी	... ११	श्रीमाली वैश्योंके भेदका कथन...	११
वैष्णव	... ११	श्रीमालियोंके १३५ गोत्रोंका कोष्टक	१३५
रू	... ११	लाड वणिकोत्पत्ति कथन	१३६
पुरवार	... ११	हरसौले वैश्योंके नामादि कथन	११
साध	... ११	भार्गव वैश्योत्पत्ति कथन	... ३३७
उमर	... ११	भट्टमेवाडे वैश्य जाति वर्णन	... ११
उनायां	... ११	नागदह वैश्योत्पत्ति कथन	... ११
माहुर वा माथुर	... ११	गोभुज वैश्योत्पत्ति कथन	... ११
कमलापुरी जौनपुरी वैश्योंका वर्णन	३२३	अडाडजां म्होड वैश्योत्पत्ति कथन	३३८
कथवनियें	... ११	झालोरा वणिकादिकी उत्पत्तिका कथन	११
कमाठी	... ११	( इति वैश्यखण्डः )	
कपडिया	... ११	विचारकोटिकी जातियां ।	
कुरुवार	... ११	भाट ब्रह्मभट्ट आदिका कथन	... ३३९
कोमाठी	... ११	बारह प्रकारके गौड और चार प्रकारके	
कंगोरा	... ११	कायस्थोंकी उत्पत्ति कथन	... ३४७
गुडिया	... ३२४	कल्पभेदसे दूसरे चित्रगुप्तकायस्थोंके	
गोरत	... ११	उत्पत्तिका कथन	... ३५६
गौरी	... ११	चान्द्रसेनीय कायस्थोत्पत्ति कथन	३५८
अढ्य	... ११	संकरकायस्थोंके जातिका निरूपण	३६१
ऊर्वला	... ११	वंगीय कायस्थजातिका कथन	३६२
कपोला वैश्य	... ११	अष्ट सिद्ध मौलिक कायस्थभेद व०	११
राजाशाही	... ११	द्विसप्त साध्य मौलिक कायस्थभेदवर्णन	११
साहू	... ११	उत्तरराठीयस्थजातिभेदवर्णन	... ६६९
वर्णवाल	... ११	वारेन्द्रकायस्थजातिभेदवर्णन	... ११
रौनियार वैश्योंका नाम कथन	... ३२६	कायस्थजातिकी रीतियोंका कथन	३७२
गुजराती वैश्य	... ३२८	कुरमी जाति वर्णन	... ३७४

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
खाती तक्षा	... ३८०	८ क्षत्ता, पारधी. निषाद् जा०	
खैरादी जातिवर्णन	... ३८४	कथन	... ४३०
राज-अट्टालिकाकार शिल्पी जाति		९ चाण्डाल जा० क०	... ११
वर्णन	... ११	१० मागध जा० क०	... ११
धीमार शिल्पी जातिवर्णन	... ३८९	११ वैदेहिक जातिकथन	... ४३१
माहोर जातिवर्णन	... ११	१२ सूत जाति कथन	... ११
वाथमवैश्य जातिवर्णन	... ३९०	( अष्टादशसमूह )	
गोप जातिवर्णन	... ११	१३ शाक्य, मणिकार, मीनाकार	
लोधा जातिवर्णन	... ३९१	जा० क०	... ४३१
लोहथमजातिवर्णन	... ३९३	१४ कांसार जा० क०	... ११
पहरी जातिवर्णन	... ११	१५ कीनाट जा० क०	... ४३३
तगा जातिवर्णन	... ११	१६ कुम्भार जा० क०	... ११
अथ मिश्रखंडः ३९३.		१७ पारशव जा० क०	... ११
अनुलोमजातिवर्णन	... ३९९	१८ लोहकार जा० क०	... ४३४
प्रतिलोमजातिवर्णन	... ४००	१९ बढई जा० क०	... ११
रथकार जातिवर्णन	... ४०१	२० सिन्दोल जा० क०	... ११
अठारह जातियोंका धर्मकथन	... ४०५	२१ सौषिर जा० क०	... ११
अष्टादश समूहोंका कथन	... ४०६	२२ नीली जा० क०	... ११
सप्त समूहोंका कथन	... ११	२३ किंशुक जा० क०	... ११
एकादश समूहोंका कथन	... ४०७	२४ सांखिल्य, शौषिक वावरा	
पंच समूहोंका कथन	... ११	जा० क०	... ११
सङ्करजातिका वर्णन	... ४०९	२५ पांशुल जा० क०	... ४३६
ब्राह्मणादिजातिका पिता, माता,		२६ संदोल जा० क०	... ११
जीविका, स्मृत्यादिका कोष्टक	४२३	२७ रोमक जा० क०	... ११
१ मूर्धावसिक्त जातिकथन	... ४२६	२८ बन्धुल जा० क०	... ४३७
२ अम्बष्ठ जातिकथन	... ४२७	२९ कुक्कुट, क्रोधिक, टांकसाली	
३ पारशवनिषाद् जा० क०...	४२८	जा० क०	... ११
४ माहिष्य जा० क०	... ११	३० ठठार जा० क०	... ११
५ उग्र जातिकथन	... ११	३१ मांग जा० क०	... ४३८
६ वैतालिक जा० क०	... ४२९	( सप्तसमूह )	
७ आयोगव जा० क०	... ११	३२ मालाकार जा० क०	... ४३८
		३३ शंवरिक, साली जा० क०	... ११

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
३४ शाल्मल, तंबोली जा० क०	४३०	६३ कुन्तल ( नापित ) जा० क०	४४७
३५ तेली जा० क०	...	६४ तीर्थनापित जा० क०	...
३६ प्राणिकार, चमार, जा० क०	४४०	६५ सैरिन्द्र जा० क०	...
३७ पुलकस, कोली जा० क०	...	६६ शिलिन्द्र, मर्दन जा० क०	४४८
३८ श्वपच जा० क०	४४१	६७ भोजक मागध जा० क०	...
( अन्त्यजसप्तसमूह )		६८ देवलक जा० क०	...
३९ रजक, घोवी जा० क०	४४१	६९ आभीर जा० क०	४४९
४० दुर्भर, चर्मकार जा० क०	...	७० मल्ल जा० का	४५०
४१ नट जा० क०	४४२	७१ चुचुभ जा० क०	...
४२ किंशुक, बुरुड जा० क०	...	७२ पौष्टिक जा० क०	...
४३ कैवर्त्त, धीवर तारु जा० क०	...	७३ मल्ल जा० क०	४५१
४४ मेद, गौण्ड, गोन्द, जा० क०	...	७४ सुव्रण जा० क०	...
४५ भिल्ल जा० क०	४४३	७५ अंधासिक जा० क०	४५२
( एकादशसमूह )		७६ वच्छक जा० क०	...
४६ तेरवामच्छ जा० क०	४४३	७७ छागलिक जा० क०	...
४७ शिरसू हाडी जा० क०	...	७८ शय्यापालक जा०	३५३
४८ क्रव्याधि जा० क०	४४४	७९ मण्डल जा० क०	...
४९ हस्तिक जा० क०	...	८० सूत्रधार जा० क०	...
५० कायक जा० क०	...	८१ कुरुविन्द जा० क०	४५४
५१ शाशेक जा० क०	...	८२ औरभ्र धनगर धरमिगुरु	
५२ भारुड जा० क०	४४५	जा० क०	४५५
५३ सौनिक जा० क०	...	८३ महांगु कलेकर जा० क०	...
५४ मातंग जा० क०	...	८४ धिग्वण जा० क०	...
५५ अन्त्यावसायी जा० क०	...	८५ भस्मांकुर जा० क०	...
५६ गोपक जा० क०	४४६	८६ क्षेमक जा० क०	४५६
५७ ब्रह्महत्यारा	...	८७ शुकुंश जा० क०	...
५८ मद्यपीनेवाला	...	८८ वानगर जा० क०	४५७
५९ सोना चुरानेवाला	...	८९ वेण जा० क०	...
६० गुरुस्त्रीगामी	...	९० शुद्धमार्गक जा० क०	...
( द्वादशी संकर जा० क० )		९१ मैत्रेय जा० क०	४५८
६१ कायस्थ	४४६	९२ मंगुष्ठ जा० व०	...
६२ कायस्थापित	...	९३ चित्रकार जा० व०	४५९
		९४ अहितुण्डिक जा० क०	...
		९५ सौष्कल जा० क०	...

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
९६ बालिक जा० क० ...	४६०	म्लेच्छजाति	... ४७५
९७ आवासिक जा० क० ...	"	जोला, शराक	... ४७३
९८ तुलुङ्क ( यवन ) जा० क०	४६१	व्यालमाही	... ५१
९९ छोट ( वैश्य ) जा० क०	"	प्रसाक	... ५५
१०० लिङ्गायत जा० क० ...	"	सूत	... ४७४
१०१ आवर्तक जा० क० ...	४५२	भट्ट	... ५१
१०२ पुष्पशेखर जा० क० ...	"	कलवार	... ४७५
१०३ मंगुकी वृत्तिजा० क० ...	"	दोलावाही	... ५१
१०४ कुशीलव जा० क० ...	४६३	कपाली	... ५१
१०५ श्वपच भंगी जा० क०	"	नवशायक	... ५१
सुवर्णकारभ्रत्रिय राजपूतके जा० क०	४६७	तैली, मालाकार	... ५१
१०६ अट्टालिकाकार, कोटके जा० कथन	... ४६८	तांबूलिक	... ४७६
१०७ तैलकार जा० क० ...	४६९	बारी, कर्मकार	... ५१
१०९ धीवर जा० क० ...	"	कुम्बकार	... ५१
लेट ...	"	नापित	... ५१
चाण्डाल	... ४७०	गंधवणिक	... ५१
चर्मकार, मांसच्छेदी	... ५१	कांस्थकार, शंखकार	... ५१
कोच काण्डार	... ५१	तन्तुवाय	... ६७७
हड्डि डुम ( डोम )	... ५१	कैवर्त	... ५१
वनचर	... ५१	गोप, आभीर	... ५१
गंगापुत्र	... ५१	अहर	... ४७८
युंगी	... ४७१	उरुगोला	... ५१
शुण्डी, पौण्ड्रक	... ५१	गद्दी	... ५१
राजपुत्र	... ५१	कमार	... ५१
कैवर्त	... ५१	कमारी	... ४७९
रजक, कोहाली	... ५१	असत	... ५१
सर्वस्वी, व्याध	... ५१	अगसाला	... ५१
दस्यु	... ४७२	कंसारी	... ५१
कूदरा	... ५१	सकुली	... ५१
महादस्यु	... ५१	धनकुटेमाली	... ५१
दागातीत	... ५१	वरवाल	... ५१
		बेलदार	... ४८९

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
अगरिया	... ४८०	कोला	... ४८३
अगसिया	... "	कोवर	... "
अहेरिया, फसिया	... "	कंचारा	... "
कतकारी	... "	कंचारी	... "
कतुवा	... "	गौद, गौड	... "
थरुभा	... "	गौरिया	... "
कम्बोह	... "	गेजगोरा	... "
कल्लन	... "	गूजर	... ४८४
कन्वाल	... ४८१	कोइरी	... "
कबराई	... "	खट्टूदर्शन	... "
कामगर	... "	खटीक	... "
कामडिया	... "	खरौत	... ४८५
कानडे	... "	खागर	... "
कनोता	... "	खाडरिया	... "
कालू	... "	खारवाल	... "
कावडा	... "	गढनायक	... "
कार्तिक	... ४८२	गरूरी	... "
कंजर	... "	गरसी	... "
किंगरिया	... "	गन्निग	... "
कीट	... "	गनीगार	... ४८६
किरात	... "	गांवारिया	... "
किक्कारी	... "	गान्धिल	... "
कुनेडा	... "	ग्रासिया	... "
कुसाटी, डवारी	... "	खूमडा	... "
कुर्वा	... "	गोला	... "
कुरुमार	... "	भुरजी	... ४८७
कुशली, सुशीर	... "	झालोरा=सच्छूद्रोत्पत्ति कथन	... "
कौजडा	... "	मंदग शूद्रोत्पत्तिक०	... "
कैकलर	... ४८३	लेवाकडवाशूद्रोत्पत्तिक०	... "
कोच	... "	अनुलोम जातिकी नामावली	... ४८८
कोडा	... "	खेतिहार किसान अराईन, उप-	
कोरी	... "	पर्व-इत्यादि जा० क०	
		हलवाई, आगरी, अभात	



विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
वर्णसंकर जातिज्ञानचक्र ...	४९०	तुरुष्कोकी उत्पत्ति कथन पद्मपुराणसे	५३७
सुरलोकनिवासि देवोंका वर्ण-		अन्य कईजातिकी उत्पत्तिकथन	५३८
संकरजातिज्ञानचक्र ...	४९३	राठोर क्षत्रियोंका प्राचीनत्ववर्णन	५३९
देवोंका वर्णनिर्देशकथन ...	४९४	जातिसे बाहर किया हुआ मनुष्य	
मनुष्यलोकसंकरजातिप्रसंगसे देव-		फिरजातिमें लेना आदिकथन ...	”
लोकस्थसंकरजातिक०	४९८	विवाहमें वाहनका नियम क० ...	५४०
पूर्वोक्तसे विशेष जातिधर्मका निरू-		आठ प्रकारका विवाह चतुर्वर्णमेंही	
पण विष्णुरहस्यके ३१ अध्यायसे	५०३	है मिश्रजातिमें नहीं इस विषयमें	
म्लेच्छजातिका विशेष लक्षणकथन		कथन	... ”
पद्मपुराणसे	५३१	पंथ, मत वा सम्प्रदायोंका कथन ...	५४२
मानवजातिमें दैत्यादिचिह्न कथन	५३२	चौसठ कलाओंका कथन ...	५४५
म्लेच्छजातिका विशेष लक्षण शिव-		ग्रंथसमाप्तिका मंगला चरण आदि	५४७
पुराण, धर्मसंहितासे ...	५३६		

इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# अथ जातिभास्करः ।

भाषाटीकासंवलितः ।

दोहा ।

गार गरा गणपति सुमारि, शम्भुचरण शिर नाय ।  
जातिभास्कर ग्रंथ शुभ, लिखित सुजन सुखदाय ॥

उपोद्घातः ।

जाति क्या वस्तु है, इस समय इसके विषयमें बहुत विवाद चल रहा है, कोई जन्मसे और कोई कर्मसे जातिका निर्णय करते हैं, परन्तु इसमें यथार्थ निर्णय क्या है, इस विषयको हम वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराणादिके प्रमाणोंसे निर्णय कर सर्वसाधारणके हितके निमित्त प्रकाश करते हैं । जातिशब्द जन् धातुसे क्तिन् प्रत्यय करनेसे बनता है, जिसके अर्थ जन्म और गोत्रके होते हैं । यद्यपि जाति एक प्रकारका छन्द, जाति फल, मालती-वेदकी शाखा आदि कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका प्रसंग न होनेसे उस विषयका उल्लेख नहीं किया जायगा । व्याकरणके मतसे किसी शब्दके प्रतिपाद्य अर्थको जाति कहते हैं, वैयाकरण चार प्रकारके शब्द बतलाते हैं, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार है, व्याकरणशास्त्रमें जातिका लक्षण इस प्रकार कहा है ।

आकृतिग्रहणा जातिर्लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक् ।  
सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह ॥१॥

जिस आकृतिके द्वारा कोई पहचाना जाय, उसको अर्थात् आकृतिको जाति कहते हैं, मनुष्यकी हाथ पैर आदि विशेष २ आकृति न जानने पर इसको यह मनुष्य है ऐसा नहीं जाना जा सकता, उसकी आकृति जानने पर मनुष्य जातिका बोध होता है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न आकृतियोंके जानने पर भिन्नभिन्न जातियोंकी पहचान होती है, मनुष्यको देखकर वृक्ष नहीं कहा जायगा, कारण कि मनुष्यकी और वृक्ष आदिकी आकृतिमें अन्तर है, मान लो कि यदि कोई मनुष्य वृक्षको न जानता हो तो उसको वृक्षकी पहचानके निमित्त वृक्षके ही शाखा पत्ते वस्त्रादिकी आकृति बताई जायगी जिससे वह व्यक्ति उस

आकृतिके द्वारा वृक्षको पहचान सकेंगा. आकृति देवकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका बोध नहीं होता इस कारण दूसरा लक्षण कहते हैं.

### लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक् ।

जो सम्पूर्ण लिंगोंको न ग्रहण करे अर्थात् सब लिंगोंमें जिसका शब्दरूप न हो तात्पर्य यह कि जो तीनों लिंग न हों जैसे ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण आदि, इन शब्दोंमें कोई पुँल्लिंग और कोई स्त्रीलिंग रूप है। इस लक्षणके अनुसार देवदत्त कृष्णदास आदि एकलिंगभागी संज्ञाशब्द भी जातिवाचक हो सकता है इसकारण पूर्वोक्त दोनों लक्षणोंका विशेष स्वरूप कहा जाता है.

### सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या ।

जो एक बार समझानेसे ही जान ली जाय, अर्थात् एकबार समझाने पर किसी एक जाति (श्रेणी) का ज्ञान अवश्य होता है, देवदास कृष्णदास प्रभृति एकलिंगभागी होनेपर भी दोनों व्यक्तियोंकी श्रेणी निर्दिष्ट नहीं समझी जायगी, आख्यातका अर्थ उपदेश है, एक बारके उपदेशसे जिसका सब जगह ग्रहण हो वह जाति है।

वेदके किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं गार्ग गार्गी आदि अपत्य-प्रत्ययान्त स्त्रीलिंगशब्द समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा है कि,

### गोत्रञ्च चरणैः सह ।

अर्थात् वेदके किसी एक देशके कठादि भाषा अध्येतृ आदि शब्द और अपत्यप्रत्ययान्त शब्द भी जातिवाचक होते हैं।

महाभाष्यमें जातिका लक्षण इसप्रकार कहा है।

### प्रादुर्भावविनाशाभ्यां सत्त्वस्य युगपद्गुणैः ।

### असवलिंगां बह्वर्थां तां जातिं कवयो विदुः ॥

सत्त्वके प्रादुर्भाव और विनाशके साथ रहनेवाले गुणोंसे जो एकसाथ मिलित हैं जो सब लिंगोंको नहीं भजती अर्थात् उत्पत्तिके साथ ही जिसमें जो गुण रहते हैं और विनाशके साथ समाप्त होते हैं ऐसी एकलिंगमें वर्तमान बहुत अर्थवाली जाती कहाती है। कोई २ पंडित कहते हैं कि सबका जो एक धर्म है वही जाति और ब्रह्म है।

सम्बन्धभेदात्सत्तैव विद्यमानगवादिषु । जातिरित्युच्यते तस्यां

सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थञ्च घात्वर्थं च

प्रचक्षते । सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः ।

गौ आदि सम्पूर्ण पदार्थ सम्बन्ध भेदमें जो सत्त्वरूप एक पदार्थ है उसीका नाम जाति

है, इसीमें सम्पूर्ण शब्द स्थिति करते हैं, यह जाति ही धात्वर्थ और प्रातिपदिकार्थ समझ-  
नेनी चाहिये, यह नित्य एवम् आत्मस्वरूप हैं, त्वत्तल इत्यादि भावार्थ प्रत्ययमें यह जाति  
को ही बतलाते हैं, अर्थात् इनसे जातिका अर्थ ही निकलता है, केवल जाति ही एक और  
नित्य है, व्यक्ति अनेक और अनित्य हैं.

### अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृतः ।

अनेक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति ( स्फुटता ) जातिको स्फोट कहते हैं । शब्द दो प्रकारके  
हैं- नित्य और अनित्य, एकमात्र स्फोटशब्द नित्य है और इसके अतिरिक्त जितने वर्णात्मक  
शब्द हैं वे सब अनित्य हैं । वर्णातिरिक्त स्फोटात्मक जो नित्य शब्द हैं उनके विषयमें  
शास्त्रोंमें अनेकानेक युक्ति देखी जाती हैं, उनमें प्रधान युक्ति यह है कि स्फोट न होनेपर  
केवल वर्णात्मक शब्दसे कुछ अर्थ ही नहीं समझा जाता, जैसे इसको सबही मानते हैं कि  
अकार, गकार, नकार, इकार इन चार अक्षरोंका जो अग्नि शब्द है उसके द्वारा वह्निका  
बोध होता है, किन्तु वह केवल चार अक्षरोंसे ही सम्पादित नहीं हो सकता है, कारण  
कि यदि इन चार अक्षरोंमेंसे किसी एकसे ही अग्निका बोध होता तो केवल अकार  
अथवा गकार उच्चारण करनेपर ही वह्निका बोध क्यों नहीं होता, इस दोषके दूर करनेको  
यह चार अक्षर मिलकर ही अग्निका बोध कराते हैं, यह कहना भी भांति है कि सब वर्ण  
आशु विनाशी हैं अर्थात् परस्पर वर्णके उत्पन्न होनेपर पहले २ सब अक्षर नष्ट हो जाते हैं,  
ऐसा हो तो अर्थबोधकी बात तो दूर है उनकी एकत्र स्थिति भी सम्भव नहीं है, इन चार  
वर्णोंसे प्रथम स्फोटकी अभिव्यक्ति अर्थात् स्फुटता उत्पन्न होती है, पीछे स्फोट द्वारा  
वह्निका बोध होता है.

### कैश्चिद्व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ।

कोई कोई कल्पना करते हैं कि सम्पूर्ण व्यक्ति इस जातिकी ध्वनिस्वरूप हैं. जातिको  
जो स्फोट कहा गया है. वह वाच्यवाचकको एकत्र मानकर कहागया है, इस प्रकार  
समझना चाहिये.

नैयायिकोंके मतसे सोलह पदार्थोंके अन्तर्गत जाति भी एक पदार्थ है, गौतमके  
इसका लक्षण इस प्रकार कहा है—

समानप्रसवात्मिका न्याय० अ० २ आह्निक० २ सू० ६७

समानः समानाकारकः प्रसवो बुद्धिजननमात्मस्वरूपं यस्याः

सा तथाचसमानाकारबुद्धिजननयोग्यत्वमर्थः।गौ०वृ०२।२।६७

अर्थात् जिस पदार्थसे समानताका बोध हो उसीका नाम जाति है जैसे मनुष्य पशु

इत्यादि, यह समानताका बोध जातिपरक दिखाया है, अवान्तरभेदसे नहीं, अवान्तर भेदमें जिसकी समानता होगी वह भी जाति कही जायगी । ब्राह्मण और शूद्रको हम एक श्रेणीमें कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मणका धर्म पृथक् है, शूद्रका पृथक् है ब्राह्मण संध्या पूजा करता है, शूद्र उसकी सेवा करता है, ब्राह्मणके गलेमें यज्ञोपवीत है, उसके गलेमें कंठी है, तो इस रूपमें यह एक जाति नहीं हैं, परंतु मनुष्यत्वमें दोनों समान वा एक हैं कारणकि मनुष्यत्व दोनोंमें है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायने स्वीकार की ।

समानताका बोध जिससे हो उसीका नाम जाति कहकर दूसरा नाम सामान्य भी दिया है जो जाति कहनेपर समझा जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समझा जाता है, इस जातिके बहुतसे लक्षण और भेद हैं, यथा हि-

साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं ( जातिः ) गौ० आहि० २ सू० १८

प्रयुक्ते हि हितौ यः प्रसंगो जायते सा जातिः, स च प्रसङ्गः  
साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानमुपानन्तः प्रतिषेध इति  
उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुरित्यस्योदाहरणसा-  
धर्म्येण प्रत्यवस्थानमुदाहरणं, वैधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतु-  
रित्यस्योदाहरणवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम् । प्रत्यनीकभावा-  
जायमानोऽर्थो जातिः वात्स्या० १ । २५९.

अर्थात् व्याप्तिको छोड़कर साधर्म्य और वैधर्म्य द्वारा जो दोष कहाजाय उसीका नाम जाति है ( छलादिभिन्नदूषणासमर्थमुत्तरम् ) छलादिके अतिरिक्त दोषके जो अयोग्य अर्थात् छलादि व्यतिरेक जिसमें कुछ दोष न मानाजाय उसीका नाम जाति है.

स्वव्याघातकमुत्तरम् । गौ. वृ. १ । २ । १८.

अपने प्रतिबन्धक उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अर्थ तात्पर्यसे शब्दको प्रयोग करे उस शब्दसे वह अर्थ न लेकर उसके विपरीत अर्थ मानकर जो मिथ्या दोष लगाया जाय उसको छल कहते हैं, जैसे 'हरिप्रसादमहं भक्षयामि' मैं हरिका प्रसाद भक्षण करता हूँ ऐसे स्थलमें यदि हरिशब्दका विष्णु अर्थ न लगाकर वानरके अर्थकी कल्पना करके क्या तुम वानरकी ज़ूठन खाते हो ? ऐसा दोष लगाया जाय, यह छल है, इसी प्रकार वाक्छल सामान्यछल और उपचारछल रहित असत् उत्तरको अर्थात् वक्ताद्वारा संस्थापित मत दूषण करनेमें असमर्थ अथवा अपने मतका हानिजनक जो उत्तर उसको जाति कहते हैं यह जाति अर्थ २४ प्रकारका है.

साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवर्ण्यवर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्रा-  
प्तिप्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्वर्थापत्यविशे-  
षोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः । न्या.

सू. अ. ५ अ. १ सू. १.

अर्थात् साधर्म्यसम, वैधर्म्यसम, उत्कर्षसम, अपकर्षसम, वर्ण्यसम, अवर्ण्यसम, विकल्प-  
सम, साध्यसम, प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम, ऽसंगसम, प्रतिदृष्टान्तसम, अनुत्पत्तिसम, संशयसम,  
प्रकरणसम, हेतुसम, अर्थापत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धि-  
सम, नित्यसम, अनित्यसम, कार्यसम इसप्रकार २४ भेद गौतमसूत्रमें जातिके कहे हैं ।  
तर्कभाषा और तर्कदीपिकामें भी इसी प्रकार जातिका विवरण कहा गया है । प्रभाकरका  
मत है कि, आकृतिद्वारा व्यंगित पदार्थको ही जाति कहना चाहिये, गुणत्व आदिका  
जातित्व नहीं मानना चाहिये ।

नैयायिकगणोंके मतसे गुणत्वप्रभृति भी जाति मानी जाती है, तर्कप्रकाशिकामें निम्न-  
लिखित जातिका लक्षण कहा गया है ।

### नित्याऽनेकसमवेतम् ।

जो पदार्थ नित्य अर्थात् ध्वंस और प्राग्भावरहित ( नष्ट न होनेवाला ) और समवाय  
सम्बन्धसे सब पदार्थोंमें वर्तमान है, उसीको जाति कहते हैं, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, घटत्व,  
कर्मत्व इत्यादि.

विचार करो, घटत्व अर्थात् घटगत जो एक विलक्षण धर्म है वह नित्य है कारण कि  
घट विनष्ट होनेपर भी घटत्वका नाश नहीं होता, घटत्व धर्म सब घटोंमें विद्यमान रहता  
है, कारण कि एक घट देखकर बार २ घट देखनेपर भी घट ही समझा जाता है, यह  
घटत्व घटमें समवाय सम्बन्धसे वर्तमान है, इससे घटत्व ही जाति हुई । सिद्धान्तमुक्ताव-  
लीमें भी जातिका लक्षण इसी प्रकार कहा है, भाषा परिच्छेदमें जाति दो श्रेणियोंमें  
विभक्त हुई है ।

सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परञ्चापरमेव च । द्रव्यादित्रिक-  
वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते । परभिन्ना च या जातिःसैवापर-  
तयोच्यते ॥ द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ।  
भाषापरिच्छेद ।

१ “ घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः । तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ” ।

सामान्य अर्थात् जाति दो प्रकारकी है; एक पर जाति दूसरी अपर जाति । व्यापक-जातिको परा जाति कहते हैं । जाति कहकर निर्दिष्ट द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थोंमें जो सत्ता है इसको भी परा जाति कहते हैं । सत्ता जाति किसी समय भी अपरा जाति नहीं होती । घटत्व पटत्व आदि जो जाति है, यह अपरा कहकर निर्दिष्ट है । यह कभी परा नहीं होती, परन्तु द्रव्यत्व प्रभृति जाति परा और अपरा दोनों जातिमें है ।

द्रव्यजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा अव्यापक सुतरां अपरापर घटत्वजातिकी अपेक्षा व्यापक मानकर परा हुई है "यश्च केषाञ्चित् कुतश्चिद्भेदं करोति तत्सामान्यविशेषो जातिः" । वात्स्या० २।२।७१.

वात्स्यायनका मत है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थसे पृथक् है इस भेदको मानकर सामान्य विशेषका नाम जाति है, जैसे गोत्व मनुष्यत्व इत्यादि, वैशेषिक दर्शनके मतसे छः भावपदार्थसे पृथक् एक पदार्थका नाम जाति है, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदार्थको जाति कहते हैं । वह सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारकी है, फिर सामान्य पर और अपरभेदसे दो प्रकारकी है ।

जातिशब्दका प्रयोग दर्शनादिमें कहां २ किस रूपमें है सो वर्णन किया, अब जातिशब्दसे जे वर्णविभाग है उसका निरूपण करते हैं, दार्शनिकजाति उन २ पदार्थोंमें निरूपित हो चुकी । जाति कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णोंका भी बोध होता है, भारतवर्षके सिवाय अन्य देशोंमें वहांके रहनेवाले भिन्न २ श्रेणी और भिन्न २ सम्प्रदायोंमें विभक्त होनेपर भी एक ही जाति कहलाते हैं, किन्तु भारतवर्षमें ऐसा नहीं है, यहां प्रधानतासे चार वर्णोंका निवास है, इन चार वर्णोंसे ही असंख्य श्रेणी, असंख्य शाखा और असंख्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति हुई है । धर्म और नीतिकी भित्ति अर्थात् आश्रयसे हिन्दूसमाजमें जातीयता संगठित है । इस लोक और परलोक सम्बन्धी सब विषयोंमें हिन्दू जाति और कर्मको मानते हैं । जाति-त्वके भङ्ग होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व नहीं रहता है । इस प्रकार अनिवार्य जातिभेद—प्रथा किसप्रकारसे प्रवृत्त हुई इसको कौन नहीं जानना चाहता ?!

चारों वेदोंके अन्तर्गत पुरुषसूक्तमें सबसे पहले चार जातियोंकी उत्पत्तिका वर्णन देखते हैं । ऋग्वेदमें इसका वर्णन इस प्रकार है—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्य कौ  
बाहू काष्ठरू पादा उच्येते । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू  
राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।  
ऋ. मं. १० सू. ९ मं. ११ । १२.

जिस पुरुषका विधान किया गया, उसकी कितने प्रकारकी कल्पना हुई, अर्थात् प्रजापति द्वारा जिस समय पुरुष विभक्त हुए तो उनको कितने भागोंमें विभक्त किया गया, इनके मुख बाहू ऊरु और चरण क्या कहे जाते हैं! (उत्तर) ब्राह्मणजाति इस पुरुषके मुखसे, क्षत्रिय जाति भुजासे, वैश्यजाति ऊरुद्वयसे और शूद्रजाति दोनों चरणोंसे उत्पन्न हुई, इस कारण ब्राह्मणादि चार जाति परमात्माके मुख, भुजा, ऊरु और चरण कहाते हैं। पुरुष-सूक्तमें जगत्की उत्पत्तिका प्रकरण है, सब चराचरोंकी उत्पत्तिका इसमें प्रसंग है, इसकारण यहां कल्पना शब्दसे उत्पत्तिका ही अर्थ लिया जायगा न कि अलंकारकी कल्पनाका अर्थ। अन्यत्र भी वेदमें उत्पत्तिका ही अर्थ आया है यथा 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्' ऋ. मं. १० सू. १९१ मं. ३ अर्थात् सूर्य चन्द्रमा जैसे विधाताने पूर्व कल्पमें बनाये थे वैसे ही इस कल्पमें बनाये हैं। यजुर्वेद अध्याय ३१ अथर्ववेद कं० १९।६।६ में भी पुरुषसूक्त है। ऋक्संहिताके साथ मंत्रोंका सब अंश मिलता है, केवल अथर्वमें ऊरुके स्थानमें "मध्यं तदस्य यद्वैश्यः" इस प्रकार पाठान्तर देखा जाता है। कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय संहितामें कुछ विशेषताके साथ लिखा है।

प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमीत  
तमग्निर्देवान्वसृजत गायत्री छन्दो रथन्तरं साम ब्राह्मणो  
मनुष्याणामजः पशूनां तस्मात्ते मुख्या मुखतो ह्यसृज्य-  
न्तोरसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्व-  
सृज्यत त्रिष्टुप्छन्दो बृहत्साम राजन्यो मनुष्याणामविः  
पशूनां तस्मात्ते वीर्यावन्तो वीर्याध्यसृज्यन्त, मध्यतः सप्त-  
दशं निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त जगती  
छन्दो वैरूपं साम वैश्यो मनुष्याणां गावः पशूनां तस्मात्त  
आद्या अब्रधानाध्यसृज्यन्त तस्माद्भूयांसोन्योभूयिष्ठा हि  
देवता अन्वसृज्यन्तपत्त एकविंशं निरमिमीत तमनुष्टुप्छन्दः  
अन्वसृज्यत वैराजे साम शूद्रो मनुष्याणामश्वः पशूनां  
तस्मात्तौ भूतसंकमिणावश्वश्च शूद्रश्च तस्माच्छूद्रो यज्ञेना-  
वकलतो नहि देवता अन्वसृज्यत तस्मात् पादावुपजीवतः  
पत्तो ह्यसृज्यताम् । तैत्तिरीय० ७।१।४।९.



( ८ )

## जातिभास्करः-

अर्थात् प्रजापतिने इच्छा की कि मैं प्रगट होऊं तो उन्होंने मुखसे त्रिवृत निर्माण किया; उसके पीछे अग्नि देवता गायत्री छन्द रथन्तर साम मनुष्योंमें ब्राह्मण, पशुओंमें अज (मुखसे) उत्पन्न हुआ, मुखसे उत्पन्न होनेसे ही वे मुख्य हैं। हृदय और दोनों भुजाओंसे पंचदश स्तोम निर्माण किये, उसके पीछे इन्द्र देवता, त्रिष्टुप् छन्द, बृहत्साम, मनुष्योंमें क्षत्रिय और पशुओंमें मेघ उत्पन्न हुआ, वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण वे वीर्यवान् हुए, मध्यसे सप्तदश स्तोम निर्माण किये। उसके पीछे विश्वदेवा देवता, जगती छन्द, वैरूप, साम, मनुष्योंमें वैश्य एवं पशुओंमें गौ उत्पन्न हुई, अन्नाधारसे उत्पन्न होनेके कारण वे अन्नवान् हुए, इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसे देवता भी पीछे उत्पन्न हुए उनके पदसे इक्कीस स्तोम निर्मित हुए, पीछे अनुष्टुप् छन्द वैराज साम मनुष्योंमें शूद्र और पशुओंमें अश्व उत्पन्न हुए, यह अश्व और शूद्र ही मूल संकमी है, विशेषतः शूद्र यज्ञमें अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इक्कीस स्तोमके पीछे और कोई देवता उत्पन्न नहीं हुआ, पादसे उत्पन्न होनेसे अश्व और शूद्र दोनों पत्त अर्थात् पादद्वारा जीवनरक्षा करनेवाले हुए।

शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें इस प्रकार लिखा है:-

तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्  
१४ । २८ पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रसृज्यतेन्द्रोधिपतिरासीत्  
१४ । २९ नवदशभिरस्तुवत शूद्रायर्वावसृज्येतामहोरात्रे-  
ऽधिपती आस्ताम् १४ । ३० ।

प्रजापतिद्वारा प्राण उदान और व्यान इन तीन द्वारा स्तव करनेपर ब्रह्मा सृष्ट हृत् ब्रह्मणस्पति अधिपति हुए, हस्त और पादांगुलि दश, दोनों हाथ दोनों पाद एवं नाभिका ऊर्ध्वभाग इन पंचदश द्वारा स्तव करनेपर क्षत्रिय सृष्ट हुए, इन्द्र अधिपति हुए, इसी प्रकार दश अंगुली और शरीरके ऊपर नीचे स्थित छिद्र रूप नौ प्राण, इन उन्नीसके द्वारा स्तव करनेपर शूद्र और वैश्य उत्पन्न हुए, अहोरात्र अधिपति हुए। अथर्ववेदके एक स्थलमें इस प्रकार लिखा है-

तद्दयस्यैवं विद्वान् व्रात्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् श्रेयां-  
समेनमात्मनो मानयेत्तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्ट्राय  
नावृश्चते अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं च चोदतिष्ठताम् । अथर्व०  
१५ । १० । १-३ ।

अर्थात् जिस राजाके घरमें ऐसे विद्वान् व्रात्य अतिथिरूपसे आगमन करें अपनी अपेक्षा उसका अधिक सन्मान करना श्रेष्ठ है ऐसा करनेसे उसके राजसन्मान वा राज्यकी कुछ

हानि नहीं होती, कारण कि इससे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्थानको प्राप्त हुए हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा है--

सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैदं सृष्टमृग्भ्यो जातं वैश्यं वर्णमाहुः  
यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुयोनं सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसृतिः  
३ । १२ । ९ । २ ।

यह सब संसार ब्रह्मा द्वारा सृष्ट हुआ है, कोई ऋक्से वैश्यवर्णकी उत्पत्ति, यजुर्वेद क्षत्रियकी योनि अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहते हैं, सामवेदसे ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति कहते हैं । शतपथब्राह्मणमें लिखा है—

भूरिति वै प्रजापतिर्ब्रह्म अजनयत् भुवः इति क्षत्रम् स्वरिति  
विशम्।एतावद्वै इदं सर्वं यावद्ब्रह्म क्षत्रं विद्।शत.।२।१।४।१३

भूः यह शब्द उच्चारण करके ब्रह्माजीने ब्राह्मणको उत्पन्न किया, भुवः शब्द कहकर क्षत्रियको और स्वःशब्द कहकर वैश्यको उत्पन्न किया । यह समस्त विश्वमण्डल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यसे ही परिपूर्ण है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा है—

दैव्यो वै वर्णो ब्राह्मणः असुर्ग्यः शूद्रः १ । २ । ९ । ७ ।

ब्राह्मणवर्ग दैवी सम्पत्तिवाला है, शूद्र आसुरी सम्पत्तिवाला है, इत्यादि वैदिक ग्रन्थोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि सृष्टिके आदिमें प्रजापति, ब्रह्मा, पुरुष आदि अनेक नामधारी परमात्मासे वेद ब्राह्मणादि चार वर्ण, गवादि पशु उत्पन्न हुए हैं और यह सब प्रमाण एक रूप होनेसे इनमें कोई विरोध भी नहीं है, मनुसंहितामें भी इन्हीं मंत्रोंके अनुवादरूपमें यह श्लोक है—

लोकानान्तु विवृद्धयर्थं मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं  
वैश्यं शूद्रञ्च निरवर्तयत् । मनुः १ । ३१ ।

लोकोंकी वृद्धिके निमित्त प्रजापतिने मुख बाहु ऊरु और चरणोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको निर्माण किया, कूर्मपुराण और श्रीमद्भागवतमें भी पुरुषसूक्तके अनुसार ही सृष्टि लिखी है, इससे स्पष्ट है कि सृष्टिकी आदिमें ही परमात्मा द्वारा पृथक् गुणकर्म स्वभाव सम्पन्न चार जातियें उत्पन्न हुई हैं इससे जो लोग कहते हैं कर्म करने पर जो जैसे थे पीछे उनके कर्मानुसार वर्ण निर्धारित हुआ यह बात ठीक नहीं है, पूर्व जन्मोंके कर्मानुसार वर्णकी उत्पत्ति है पश्चात् उनको कर्म सोंपे गये हैं, वर्णरचना नवीन नहीं है, वेदके साथ २ है और तृजनपद पढा हुआ है जिसके अर्थ उत्पन्न करनेके हैं, अब हम उन प्रमाणोंको सामने

रखकर उनकी मीमांसा करैंगे जिन प्रमाणोंको लेकर कोई कोई कहते हैं पीछे वर्णविभाग हुआ है; ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है—

ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान् दृष्ट्वा सिद्धिन्तु कर्मजाम् । ततःप्रभृति  
चौषध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ॥१॥ ससिद्धायां तु वार्तायां  
ततस्तासां स्वयम्भुवः । मर्यादाः स्थापयामास यथारब्धाः  
परस्परम् ॥ २ ॥ ये वै परिग्रहीतारस्तासामासन्बलीयसः ।  
इतरेषां कृतत्राणान् स्थापयामास क्षत्रियान् ॥३॥ उपतिष्ठन्ति  
ये तान्वै यावन्तो निर्भयास्तथा । सत्यं ब्रह्म यथा भूतं ध्रुवन्तो  
ब्राह्मणाश्च ते ॥ ४ ॥ ये चान्येऽल्पबलास्तेषां वैश्यसंकर्मसं-  
स्थिताः।कीनाशा नाशयन्तिस्म पृथिव्यां प्रागतन्द्रिताः॥५॥  
वैश्यानेव तु तानाहुः कीनाशान् वृत्तिसाधकान् । शोचन्तश्च  
द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः ॥ ६ ॥ निस्तेजसोऽल्पवीर्याश्च  
शूद्रास्तानब्रवीन् सः । तेषां कर्माणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यद-  
धात् प्रभुः ॥ ७ ॥ संस्थितौ प्राकृतायान्तु चातुर्वर्णस्य  
सर्वशः ॥ ८ ॥ अ० ७ । १५१-१५८ ।

ब्रह्मा स्वयम्भू भगवान्ने कर्मसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धिकी देखकर उसी फल मूल कृष्टप-  
च्यारूपसे सृष्टि की, अर्थात् जब ओषधी अन्नकी सृष्टि कर चुके तब प्रजागणकी वृत्तिका-  
उपाय स्थिर होनेपर स्वयम्भूने उनमें मर्यादा स्थापन की, उस सृजन की हुई प्रजा समूहमें  
जो परिग्रहीत और प्रजाका रक्षाकर्ता थे उनको क्षत्रिय और जो क्षत्रियोंके आश्रय होकर  
निर्भय चित्तसे सब भूतोंमें एकमात्र ब्रह्म विद्यमान है इस चिन्तामें दिन व्यतीत करते थे  
उनको ब्राह्मण, जो उनमें अल्प बलवाले कृषिकार्य द्वारा जीविका निर्वाह करते थे उनको  
वैश्य और जो दुःख शोकके परायण तेजहीन अल्पवीर्य एवं अन्य जातियोंकी सेवामें नियुक्त  
थे उनको शूद्र कहकर निर्देश किया, इस प्रकार ब्रह्माजीने उन चारों वर्णोंके कर्म धर्म और  
मर्यादाओंकी स्थापना की; इन प्रामाणोंसे यह अर्थ नहीं निकलता कि पूर्वकालमें एक वर्ण  
था पीछे उनकी जातिमें विभाग किया गया, परिग्रहीता आदि लक्षणवाले जो लोग थे वे  
ब्राह्मण कहे गये, जब एक ही प्रकारकी सृष्टि हुई तो उन प्रजापतिसे उत्पन्न होनेवालोंमें  
लक्षणोंके भेद क्यों होगये ? यदि एक ही स्थानसे प्रगट हुए तो सबका एक लक्षण पाया

जाता, पर ऐसा नहीं हुआ उन उत्पन्न हुई पुरुषोंमें चार प्रकारके लक्षणवाले पुरुष थे और वह लक्षण उनमें पूर्वकर्मानुसार थे इसी कारण 'दृष्ट्वा सिद्धिं तु कर्मजाम्' इसमें यह पद पढ़ा है. तब यह सिद्ध है जो मनुष्यरचना हुई वह प्रजापतिके मुख भुजा ऊरु और चरणसे हुई, उनमें मुखसे उत्पन्न हुई मनुष्य सब भूतोंमें ब्रह्म विद्यमान है इत्यादि चिन्ताशील थे, उनको ब्राह्मण संज्ञासे संयुक्त किया, भुजाओंसे उत्पन्न हुए जो रक्षणादि लक्षणसम्पन्न थे, उनकी क्षत्रिय संज्ञा की, इत्यादि । इन वचनोंसे चार जाति जन्मसे ही सिद्ध हैं न कि पीछे वर्ण-विभाग हुआ, विष्णुपुराण मत्स्यपुराण और मार्कण्डेयपुराणमें भी इसीप्रकार है हरिवंशमें लिखा है-

व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णुर्योगात्मा ब्रह्मसंभवः।दक्षः प्रजापतिर्भू  
त्वासृजते विपुलाः प्रजाः॥ १॥ अक्षराद्ब्राह्मणः सौम्याः क्षरात्क्ष-  
त्रियबान्धवाः । वैश्या विकारतश्चैव शूद्रा धर्मविकारतः॥२॥  
श्वेतलौहितकैर्वर्णैः पीतैर्नीलैश्च ब्राह्मणाः । अभिनिर्वृतिता  
वर्णाश्चिन्त्यमानेन विष्णुना ॥ ३ ॥ ततो वर्णत्वमापन्नाः  
प्रजा लोकचतुर्विधाः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव  
महीपते ॥४॥ ततो निर्वाणसम्भूताः शूद्राः कर्मविवर्जिताः ।  
तस्मान्नार्हन्ति संस्कारं न ह्यत्र ब्रह्म विद्यते ॥ ५ ॥

वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ अक्षररूपसे सौम्यगुणविशिष्ट ब्राह्मण, क्षररूपसे क्षत्रिय, विकाररूपसे वैश्य और धूमविकारसे शूद्र हुए ॥ २ ॥ इनके आन्तरिक रंग श्वेत लाल पीत और कृष्ण क्रमसे जानने । जब भगवान् विष्णुकी चिन्तनासे इस प्रकार वर्ण निर्गत हुए वह लोकमें वर्णत्वको प्राप्त होकर चार प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामसे विख्यात हुए और जो कि धूमसे प्रगट हैं इस कारण शूद्र कर्मोंसे रहित हैं ।

इस कारण इनके संस्कार नहीं होसकते, कारण कि इनमें वेदकी स्थिति नहीं है । इन प्रमाणोंसे भी यही विदित होता है कि चारों वर्णोंकी रचना भिन्न २ रूपसे है और उनमें अपने २ वह कारण विद्यमान हैं और उन कारणोंसे ब्राह्मणोंका श्वेत वर्ण अर्थात् मुखसे उत्पन्न होनेके कारण विशुद्धात्मा होनेसे अन्तरमें श्वेतता, क्षत्रियोंमें रजोगुण प्रधान होनेसे अन्तरमें लोहितपना, वैश्योंमें रज तम मिश्रित होनेसे अन्तरमें पीतपना, और शूद्रमें तम प्रधान होनेसे अन्तरमें नीलिमा विद्यमान है, इसकारण उसमें संस्कारका अवकाश नहीं है, यह ऊपरके रंगोंका वर्णन नहीं है; किन्तु आत्माके संस्कारका भीतरी वर्णन है । सत रज तम और रज तमके रूप हैं ।

महाभारतके शान्तिपर्वमें इसप्रकार लिखा है-

ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । ब्राह्मणानां शतं  
श्रेष्ठं मुखादेवासृजत् प्रभुः॥१॥ बाहुभ्यां क्षत्रियशतं वैश्या-  
नामूरुतः शतम् । पद्भ्यां शूद्रशतञ्चैव केशवो भरतर्षभ॥२॥

हे युधिष्ठिर ! फिर परमात्मा कृष्णने मुखसे सौ श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाहुओंसे सौ क्षत्रिय और ऊरुओंसे सौ वैश्य और चरणोंसे सौ शूद्रोंकी सृष्टि की, इन सब प्रमाणोंसे यह स्पष्ट विदित होता है कि संहिता, स्मृति, इतिहास, पुराण सबमें सृष्टिके आदिकालसे ही चारवर्णोंकी उत्पत्ति हुई चली आती है और जब साक्षात् वेद ही प्रत्येक सृष्टिके आरम्भमें चारों वर्णोंकी सृष्टि कथन कर रहा है, तब फिर दूसरे प्रमाणोंकी आवश्यकता क्या है ।

कुछ लोगोंकी ऐसी भी शंकाएँ हैं कि क्षत्रियोंमें कितने ही ब्राह्मण होगये हैं तथा कितने एक क्षत्रियोंने चारों वर्णोंकी प्रवृत्ति की ही है, यह बात उन लोगोंकी इस बातको तो सिद्ध नहीं कर सकती कि आदिगृष्टिमें चार वर्ण नहीं थे, प्रत्युत यही निश्चय होता है कि चार वर्ण सनातनके हैं, नहीं तो क्षत्रियसे ब्राह्मण होगये, यह कहना बन ही नहीं सकता, पहले क्षत्रिय थे तो पीछे ब्राह्मण होगये, इससे भी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति पूर्वकालीन सिद्ध है, ब्राह्मण होजानेका यह अर्थ नहीं है कि वे ब्राह्मण जातिको प्राप्त होगये किन्तु यह अर्थ है कि वे ब्रह्मभावको प्राप्त होगये क्षत्रियोंद्वारा वर्णोंकी प्रवृत्तिका अर्थ यही है कि राजाकी व्यवस्था ठीक होनेसे चारों वर्णोंकी निज २ धर्ममें प्रवृत्ति होती है, यही उनका वर्णोंको प्रवृत्त करना है, ऋषिसर्ग इनसे विलक्षण होता है उनकी सामर्थ्य विलक्षण होजाती है, वे गुरु-आदिके समीप रहनेके कारण उन्हींके वंशसे परिचित होजाते हैं, उदाहरणके निमित्त कुछ प्रमाण लिखते हैं । मनुके दौहित्र पुरन्धरा हुए, इनके आयु, आयुके पांच पुत्रोंमें एकका नाम क्षत्रवृद्ध था, क्षत्रवृद्धके पुत्र शुनहोत्र, शुनहोत्रके तीन पुत्र हुए, काश, लेश और गृत्समद । इनके शौनक हुए, जिन्होंने चारों वर्णोंकी प्रवृत्ति यथायोग्य की ।

विष्णुपुराण ४ । ८ । १ में लिखा है-

गृत्समदस्य शौनकश्चातुर्वर्ण्यप्रवर्तयिताभूत् ।

हरिवंशके उन्तीसवें अध्याय पूर्व प्रथममें लिखा है-

पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः । ब्राह्मणाः  
क्षत्रियाश्चैव वैश्याः शूद्रास्तथैव च ॥ श्लो० ॥ ८ ॥

गृत्समदके पुत्र शुनक हुए, इनसे शौनक हुए जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णोंकी विशेष व्यवस्था की, सायनाचार्य गृत्समदको ऋग्वेदका दूसरा मण्डल देखनेवाला कहते हैं वह लिखते हैं-

स च पूर्वमाङ्गिरसकुले शुनहोत्रस्य पुत्रः सन् यज्ञकालेऽ-  
सुरैर्गृहीतः इन्द्रेण मोचितः पश्चात्तद्वचनेनैव भृगुकुले शुन-  
कपुत्रो गृत्समदनामाऽभूत्, तथाचानुक्रमणिका “यः आंगि-  
रसशौनहोत्रो भूत्वा भार्गवः शौनकोऽभवत् । स गृत्समदो  
द्वितीयमण्डलमपश्यत् । गृत्समदः शौनको भृगुतां गतः  
शौनहोत्रो प्रकृत्या तु यः आंगिरस उच्यते ।

अर्थात् दूसरा मण्डल गृत्समदका देखा है यह पहले आङ्गिरसवंशी शुनहोत्रके पुत्रथे, यज्ञ-  
कालमें असुर इनको पकड़कर लेगये पीछे इन्द्रने इनको छुड़ाया, पीछे उसी देवताके कथना-  
नुसार वह भृगुकुलमें प्राप्त हुए और शुनक पुत्र गृत्समदनाम हुआ, यह प्रकृत आङ्गिरसकु-  
लमें और शुनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके वचनसे भार्गव और शुनक पुत्र हुए थे । हरिवंशके  
३२ अध्यायमें लिखा है—

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात् । एते त्वङ्गि-  
रसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया  
वैश्याः शूद्राश्च भरतर्षभ ॥ ४० ॥

अर्थात् वत्ससे वत्सभूमि, भार्गवसे भार्गभूमि हुई, भार्गवके वंशमें यह आङ्गिरसके पुत्र  
चार वर्णोंको प्राप्त हो गये अर्थात् चार वर्णोंके भावसम्पन्न हुए, हरिवंशके ३२ अध्यायमें  
लिखा है—

काशकश्च महासत्त्वस्तथा गृत्समतिर्नृप । तथा गृत्समतेः  
पुत्रा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशाः ॥

अर्थात् सुहोत्रके दो पुत्र हुए काशक और गृत्समति, गृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय  
और वैश्यभावसम्पन्न हुए । ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है ।

वेणुहोत्रसुतश्चापि गार्ग्यो नामा प्रजेश्वरः । गार्ग्यस्य गर्गभू-  
मिस्तु वत्सो वत्सस्य धीमतः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव तयोः  
पुत्रास्तु धार्मिकाः ।

वेणुहोत्रके पुत्र राजा गार्ग्यसे गर्गभूमि और वत्स इन दोनोंके पुत्र सुधार्मिक ब्राह्मण  
क्षत्रिय हुए, इन प्रमाणोंसे भी यह स्पष्ट है कि चारों वर्ण पूर्वकालके हैं, इसमें सन्देह  
नहीं कि अति प्राचीनकालमें क्षत्रिय भी इतने ब्रह्मभाव सम्पन्न थे कि ब्राह्मणोंने भी उनके

पास जाकर अध्यात्मविद्याकी शिक्षा ली थी और उनके पुत्रोंमें भी कभी कभी इतना ब्रह्मभाव समा गया था, कि वे राजकाज छोडकर सर्वथा अपना जीवन ईश्वरचिन्तनमें व्यतीत करदेते थे, इससे उनको ब्राह्मणरूपसे पुकारा गया है, यह अर्थ नहीं है कि वे ब्राह्मण जाति होगये, दूसरे कभी २ क्षत्रियोंके पाससे चारों वर्णोंने शिक्षा ली है किसीसे तीन वर्णोंने किसीसे दो वर्णोंने इससे वे उन राजोंके पुत्ररूपसे कहेगये हैं, जो क्षत्रिय सर्वथा ब्रह्मभावको प्राप्त होगये हैं तथा जो महातपस्वी होगये हैं जिन्होंने विवाहादि गृहस्थक्रिया नहीं की है, उनमें कितनोंहीके गोत्र, प्रवर चले हैं और उनकी शिक्षा माननेवालोंने उन गोत्रोंको स्वीकार कर लिया है, यह ऋषिक्षत्रोपेत द्विजाति कहाते हैं, लिंगपुराणमें लिखा है-

**हरितो युवनाश्वस्य हरितायत आत्मजाः । एते ह्यंगिरसः  
पक्षे क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥**

अर्थात् युवनाश्वके पुत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हुए, आंगिरस पक्षमें यह क्षत्रोपेत द्विजाति कहाते हैं । विष्णुपुराणकी टीकामें ४ । ३ । ५ । में हारितके विषयमें लिखा है-

**“यतो हरिताद्धारिता आंगिरसो द्विजा हरितगोत्रप्रवराः”**

अर्थात् हरितसे आङ्गिरस हारीतगण हुए यह हरित गोत्रके प्रवर हैं । श्रीभद्गावतमें लिखा है ।

**राभस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्तथा । तस्य क्षेत्रे  
ब्रह्म जज्ञे शृणु वंशमनेनसः ॥ ( ९ । १७ । १० । )**

पुरूरवाके पुत्र आयु, उनके राम, उनके रभस, उसके गभीर और अक्रिय उत्पन्न हुए । उसके यहां ब्रह्मवित् ( ब्राह्मण ) हुए । राजा पुरुसे आगे बारहवें पुरुषमें महाराज अप्रतिरथ उत्पन्न हुए, उनके विषयमें विष्णुपुराणमें लिखा है-

**अप्रतिरथः कण्वः तस्यापि मेधातिथिः । यतः काण्वाय-  
नद्विजा बभूवुः ४ । १९ । २ ।**

अर्थात् अप्रतिरथके पुत्र कण्व, कण्वके मेधातिथि, मेधातिथिसे काण्वायन ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुई । श्रीभद्गावतमें इसी विषयमें लिखा है-

**सुमतिध्रुवोऽप्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः । तस्य मेधाति-  
थिस्तस्मात्प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुमते रैभ्यो  
दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः । भा. स्क. ९ अ. २० श्लो० ७ ।**

इतिभारके सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ हुए । अप्रतिरथका पुत्र कण्व, कण्वके मेधातिथि

उनके प्रस्कण्वादिक ब्राह्मण हुए । सुमतिके पुत्र रैभ्य, उसका दुष्यन्त हुआ । श्रीमद्भागवतके कथनसे अजमीढके वंशमें प्रियमेधादिक ब्राह्मण हुए ।

**अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥१२१॥२१**

विष्णुभागवत और मत्स्यपुराणके मतसे क्षत्रियराज अजमीढके सप्तम पुरुषमें मुद्गलका जन्म हुआ उससे मौद्गल्यनाम क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए; यथाहि—

**मुद्गलस्यापि मौद्गल्यक्षत्रोपेता द्विजातयः । एते ह्यङ्गिरसः  
पक्षे संस्थिताः कण्वमुद्गलाः ॥ मत्स्य.**

मत्स्यपुराणमें दूसरे स्थानमें भी लिखा है—

**काव्यानान्तु वरा ह्येते त्रयः प्रोक्ता महर्षयः । गर्गाः संकृ-  
तयः काव्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥**

गर्ग, संस्कृति और काव्य, कविवंशी यह तीन महर्षि क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहे जाते हैं । भागवत, विष्णु, मत्स्य और ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है—

**गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद्ब्रह्म ह्यवर्तत । भा. १।२१।१९ ।**

गर्गसे शिनि, शिनिसे गार्ग्य उत्पन्न हुए । यह गार्ग्य गण क्षत्रियसे ब्रह्म ( ब्राह्मणत्व ) में परिवर्तित हो गये । पुराणोंमें लिखा है कि गर्गके भ्राता महावीर्य, उनका पुत्र उरुक्षय हुआ, इस उरुक्षयके तीन पुत्र हुए—त्र्य्यरुण, पुष्करी और कपि । यह तीनों क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए ।

**उरुक्षयसुता ह्येते सर्वे ब्राह्मणतां गताः । ( मत्स्यपुराण )**

श्रीमद्भागवतके स्कन्द ९ । २१ । १९ की टीकामें श्रीधरस्वामीने इस प्रकार लिखा है । 'येऽत्र क्षत्रवंशे ब्राह्मणगतिं ब्राह्मणरूपतां गतास्ते' अर्थात् ब्राह्मण होनेका भाव यह है कि वे ब्राह्मणताको प्राप्त हुए. तप भजन आदि करनेसे ब्राह्मण सदृश हो गये न कि उनकी नाति बदल गई और श्रीधरस्वामीका यह मत नहीं कि वे ब्राह्मणजाति होगये । इन श्लोकोमेंसे यह ध्वनि बराबर निकलती है कि उनके ऐसे आचरण थे जिनसे वे ब्राह्मणसदृश माने गये । विवाहादि संस्कार ब्राह्मणोंके साथ उनका नहीं था इस समय जो विश्वामित्र कौशिक कण्व आंगिरस मौद्गल्य वात्स्य काण्वायन शुनक हारित प्रभृति गोत्र देखेजाते हैं वे क्षत्रोपेत गोत्र हैं । यह महानुभाव अपनी तपश्चर्यासे ऋषिपदको प्राप्त हुए और इनके शिष्यरूपमें दूसरे वर्णोंने स्वीकारता प्राप्त की, अर्थात् उन उन गोत्रवालोंके पूर्व पुरुष जातीसे क्षत्रिय थे, कोई २ क्षत्रिय अपने कर्मोंद्वारा वैश्यभावको प्राप्त हुए हैं । भागवत ९।२।२३ में लिखा है—



## नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः ।

किं नेदिष्टका पुत्र नामाग हुआ, जो कर्मसे वैश्यताको प्राप्त हुआ । मार्कण्डेय पुराणका मत है कि नामाग वैश्यकन्याके साथ विवाह करनेके कारण वैश्यताको प्राप्त हुआ । कहीं २ वैश्यगण भी तपोवृद्धिके कारण ब्राह्मणोंके सदृश आचरणवाले कहे गये हैं । हरिवंश पुराण अ० ११ में लिखा है—

## नाभागारिष्टपुत्रौ द्वौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ । ११ । ९ ।

नाभागारिष्टके दो पुत्र वैश्य ब्राह्मण भावको प्राप्त हुए । यह सम्पूर्ण प्रमाण कर्मप्रधानता-परक हैं । जाति न बदलनेपरभी कर्मसे उन्नत वा अवनत जातिकी समानताको प्राप्त हुए कोई कोई वैश्यजातिके पुरुष तपश्चर्यामें इतने संलग्न हुए हैं कि ध्यानमें उनको वेदमन्त्रोंका दर्शन हुआ है और आजतक मन्त्रद्रष्टा कहकर विख्यात हैं । मत्स्यपुराण—अ० १३२ में लिखा है—

भलन्दश्चैव वन्द्यश्च संकृतिश्चैव ते त्रयः । ते वै मन्त्रकृतो  
ज्ञेया वैश्यानाम्प्रवराः सदा । इत्येकनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा  
यैश्च बहिष्कृताः ॥

अर्थात् भलन्द, वन्द्य और संकृति यह तीन वैश्य भी वेदमन्त्रोंके द्रष्टा हैं इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमें ऋषित्वको प्राप्त हुए ९१ जनोंने वेदोंके मंत्र देखे हैं और वेदमन्त्रोंके द्रष्टा होने तथा गोत्रप्रवर्तक होनेसे आर्षसर्गमें यह ब्रह्मभावसम्पन्न मानेगये हैं । जाति नहीं बदली है, नहीं तो मन्त्रोंके साथमें वैश्य ऋषि इस प्रकार नहीं लिखा जाता । महाभारत अनुशासन पर्व १४३ में लिखा है कि यदि कोई वर्ण अपने कर्म त्याग दूसरी जातिके कर्म करता है तो परजन्ममें उसी योनिमें प्राप्त होता है ।

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्राप्यं निसर्गाद्ब्राह्मणः शुभे । क्षत्रियो वैश्य-  
शूद्रौ वा निसर्गादिति मे मतिः ॥ ६ ॥ कर्मणा दुष्कृते-  
नेह स्थानाद्भ्रश्यति वै द्विजः । ज्येष्ठवर्णमनुप्राप्य तस्मा-  
द्भक्षेत वै द्विजः ॥ ७ ॥ स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजी-  
वति । क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा ब्रह्मभूय स गच्छति ॥ ८ ॥  
यस्तु ब्रह्मत्वमुत्सृज्य क्षात्रं धर्मं निषेवते । ब्राह्मण्यात्स  
परिभ्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ ॥ वैश्यकर्म च यो विप्रो  
लोभमोहव्यपाश्रयः । ब्राह्मण्यं दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमतिः

सदा ॥ १० ॥ स द्विजो वैश्यतामेति वैश्यो वा शूद्रतामि-  
यात् । स्वधर्मात्प्रच्युतो विप्रस्ततः शूद्रत्वमाप्नुते ॥ ११ ॥  
एभिस्तु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितस्तथा । शूद्रो ब्राह्मणतां  
याति वैश्यः क्षत्रियतां व्रजेत् ॥ १२ ॥

महादेवजी पार्वतीसे कहते हैं सहजमें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता, मेरे मतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र यह प्रकृति अर्थात् स्वभावसिद्ध हैं ( यह जन्मसे सिद्ध हैं यह प्रयोजन है ) दुष्कर्म करनेसे ब्राह्मण अपने धर्मसे पतित हो जाता है, इसलिये ब्राह्मण्य प्राप्त करके यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो क्षत्रिय वा वैश्य ब्राह्मणधर्म अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करते हैं वे अपने परिश्रमसे परजन्ममें ब्राह्मणत्वको प्राप्त कर लेते हैं और जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वको प्राप्त करके क्षत्रियधर्मसे जीविका निर्वाह करते हैं वे ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर ( क्षत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमें जन्म ग्रहण करते हैं और जो बुद्धिहीन ब्राह्मण लोभ मोहके कारण वैश्यकर्म ग्रहण करता है वह वैश्यत्वको प्राप्त हो परजन्ममें वैश्य ही हो जाता है, इसी प्रकार वैश्य शूद्र हो जाता है, ब्राह्मण अपने धर्मसे भ्रष्ट होता २ शूद्रत्वको प्राप्त होता है और शूद्रभी श्रेष्ठ कर्म करते २ परजन्ममें ब्राह्मणत्वको प्राप्त होजाता है ।

इन प्रमाणोंका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणको ब्राह्मणताकी रक्षा करनी चाहिये, ब्राह्मणको ब्राह्मणशरीर पाकर अपने निर्दिष्ट कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिये, बहुतसे लोग महाभारतके कुछ श्लोक उदाहरणमें देकर कहते हैं कि पहले सब एक ही वर्ण थे पीछे कर्मानुसार विभाग हुआ है, हम उनको यहां लिखकर उनपर विचार करेंगे—वनपर्व अ० १८० ।

सर्प उवाच ।

ब्राह्मणः को भवेद्राजन् वेद्यं किञ्च युधिष्ठिर । ब्रवीद्यतिमर्ति  
त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे ॥

युधिष्ठिर उवाच ।

सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । दृश्यन्ते यत्र  
नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ वेद्यं सर्प परब्रह्म निर्दुः-  
खमसुखञ्च यत् । यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः किं  
विवक्षितम् ॥

सर्प उवाच ।

चातुर्वर्ण्यं प्रमाणञ्च सत्यञ्च ब्रह्म चैव हि । शूद्रेष्वपि च

सत्यञ्च दानमक्रोध एव च ॥ आनृशंस्यमहिंसा च घृणा  
चैव युधिष्ठिर ॥ वेद्यं यच्चात्र निर्दुःखमसुखं च नराधिप ॥  
ताभ्यां हीनं पदञ्चान्यत्र तदस्तीति लक्षणे ॥

युधिष्ठिर उवाच ।

शूद्रे तु यद्भवेच्छुद्धम द्विजे तच्च न विद्यते । न वै शूद्रो भवे-  
च्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ यत्रैतच्छुध्यते सर्पं वृत्तं स  
ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सर्पं तं शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥  
यत्पुनर्भवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतीति च । ताभ्यां हीनमतो-  
ऽन्यत्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ एवमेतन्मतं सर्पं ताभ्यां  
हीनं न विद्यते । यथा शीतोष्णयोर्मध्ये भवेन्नोष्णं न  
शीतता ॥ एवं वै सुखदुःखाभ्यां हीनं नास्ति पदं क्वचित् ।  
एषा मम मतिः सर्पं यथा वा गम्यते भवान् ॥

सर्प उवाच ।

यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः । वयो जाति-  
स्तदायुष्मन् कृतिर्यावन्न विद्यते ॥

युधिष्ठिर उवाच ।

जातिरत्र महासर्पं मनुष्यत्वे महामते । सङ्करात्सर्ववर्णानां  
दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति  
सदा नराः । वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणञ्च समं नृणाम् ॥  
तावच्छूद्रसमो ह्येष यावद्रेदे न जायते ॥

सर्पने कहा है युधिष्ठिर ! तुम्हारी बातोंसे मुझे मलीमांति प्रगट हो गया कि तुम अति-  
बुद्धिमान् हो, मुझे यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य क्या बात है ?  
युधिष्ठिर बोले—हे नागराज ! स्मृतिशास्त्रके मतसे सत्य, दान, क्षमा, शील, निर्दोषता, तप  
और घृणा, जिसमें यह लक्षण देखे जायं वही ब्राह्मण कहा जा सकता है. सुखदुःख रहित  
ब्रह्म ही जाननेयोग्य है, जिसके प्राप्त होनेसे शोकादि विनष्ट हो जाता है, आप और क्या  
पूछते हैं ? सर्पने कहा, चारों वर्णोंके विषयमें वेद ही एकमात्र सत्य और प्रमाण माना  
जाता है, शूद्रमें भी सत्य, दान, अक्रोध, आनृशंस्य, अहिंसा और घृणा देखी जाती है,

और जहांतक विचार किया जाय, जिसमें सुख दुःख नहीं है, इस द्विपद वर्जित ब्रह्मके सिवाय और कुछ नहीं है, युधिष्ठिर बोले—जो ब्राह्मणके लक्षण हैं वह किसी शूद्रमें दिखाई दें और ब्राह्मणमें शूद्रके लक्षण दिखाई दें तो वह शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, जिसमें वैदिक आचार आदि देखेजाय वहां ब्राह्मण है और जिसमें वह लक्षण नहीं वह शूद्र है । आपने जो कहा कि सुखदुःखहीन कुछ जानने योग्य नहीं है; वह भी ठीक है, जिस प्रकार शीत और उष्णमें उष्ण और शीत नहीं होसकता है, उसी प्रकार कोई पद ही सुखदुःखहीन नहीं होसकता है, मेरी भी यही सम्मति है, आप क्या पूछते हैं ?

सर्पने कहा राजन् ! यदि वृत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहा गया तो वह कृति न होनेपर भी उसकी जाति वृथा है । युधिष्ठिर बोले—हे महासर्प ! इस मनुष्यजन्ममें सब वर्णोंका संकरत्व-हेतु होनेसे जातिनिणय करना महाकठिन काम है, सब वर्णके लोग ही सब वर्णोंकी स्त्रीमें सन्तान उत्पन्न करते हैं. सबका भक्ष्य, सबका मैथुन, सबका जन्म, मृत्यु एक प्रकार है, वास्तविकरूपसे जबतक वेदाधिकार मनुष्यको उत्पन्न न हो तबतक वह शूद्र ही रहता है \* इन वाक्योंसे यह बात सिद्ध न समझनी कि युधिष्ठिर महाराज जन्मसे जाति नहीं मानते वह जन्मसे ही जाति मानते हैं, कर्मकी प्रधानता जो कही है वह कर्मकी प्रशंसा मात्र है, यदि उनको यह बात स्वीकार होती तो फिर 'जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते' यह वचन क्यों कहते, हां यह बात उनको स्वीकार है कि कर्मके विना स्वयं जातिका निणय नहीं होता. इसलिये उनका अभिप्राय ब्राह्मणादि जातियोंको कर्ममें सदा सावधान होनेसे है, इस कारण उन्होंने कहा है एक दूसरे एक दूसरेसे मिल जायगे, स्वयं वण विवेक न रहैगा, इस कारण वे दुष्परीक्ष्य हो जायगे, इससे उनके लिये कर्मकी प्रधानताका निरूपण किया है, अभी आगेभी हम और समाधान करैंगे, एक दो प्रमाण पूर्वपक्षरूपसे और लिखेंगे । महाभारत शांतिपर्व १८८ । १८९ अ०—

असृजद्ब्राह्मणानेवं पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन् । आत्मतेजोऽभि  
निर्वृत्तान् भास्कराग्निसमप्रभान् ॥ ततः सत्यञ्च धर्मञ्च तपो  
ब्रह्म च शाश्वतम् । आचारञ्चैव ( धर्मञ्च ) शौचञ्च स्वर्गाय  
विदधे प्रभुः ॥ देवदानवगन्धर्वा दैत्यासुरमहोरगाः । यक्ष-  
राक्षसनागाश्च पिशाचा मनुजास्तथा ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया

ऋनीलकण्ठने इसपर अपना मत इसप्रकार कथन किया है—“ इतस्तु ब्राह्मणपदेन ब्रह्म-  
विदं विविक्षित्वा शूद्रादेरपि ब्राह्मणत्वमभ्युपगम्य परिहरति शूद्रे-तिवति शूद्रलक्ष्यकामादिकं न  
ब्राह्मणेऽस्ति न ब्राह्मणलक्ष्यकामादिकं शूद्रेऽस्ति इत्यर्थः । शूद्रोऽपि कामाद्युपेतो ब्राह्मणः  
ब्राह्मणोऽपि कामाद्युपेतः शूद्र इत्यर्थः ।

वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम । ये चान्ये भूतसत्त्वानां वर्णा-  
स्तांश्चापि निर्ममे ॥ ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणाञ्च  
लोहितः । वैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ॥

भरद्वाज उवाच ।

चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेषां खलु  
वर्णानां दृश्यते वर्णसंकरः ॥ कामः क्रोधोभयं लोभःशोक-  
श्चिन्ताक्षुधा श्रमः । सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्द्वर्णो  
विभिद्यते ॥ जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणाञ्च जातयः ।  
तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ॥

भृगुरुवाच ।

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् । ब्रह्मणा पूर्व-  
सृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः  
क्रोधनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः  
क्षत्रताङ्गताः ॥ गोभ्यो वृत्तिं समास्थाय पीताः कृष्युपजी-  
विनः । स्वधर्मे नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः ॥  
हिंसानृतप्रिया लुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः ॥ कृषणाः शौच-  
परिभ्रष्टास्ते द्विजा शूद्रतां गताः ॥ इत्येतैः कर्मभिव्यस्ता  
द्विजा वर्णान्तरं गताः । धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न  
प्रतिषिध्यते ॥ इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती  
विहिता ब्रह्मणा पूर्व लोभात्त्वज्ञानतां गताः ॥ ब्राह्मणा  
ब्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति । ब्रह्म धारयतां नित्यं  
व्रतानि नियमांस्तथा ॥ ब्रह्म चैव परं सृष्टं ये न जानन्ति  
तेऽद्विजाः । तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥  
पिशाचा राक्षसाः प्रेता विविधा म्लेच्छजातयः । प्रनष्टज्ञा-  
नविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥

भरद्वाज उवाच ।

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वैश्यः शूद्रश्च  
विप्रर्षे तद्ब्रूहि वदतांवर ॥

भृगुरुवाच ।

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः । वेदाध्यय-  
नसम्पन्नः षट्सु कर्मस्ववस्थितः ॥ शौचाचारस्थितः  
सम्यग् ब्रह्मनिष्ठो गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स वै  
ब्राह्मण उच्यते ॥ सत्यं दानमथोऽद्रोहः आनृशंस्यं त्रपा  
घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ क्षेत्रजं  
सेवते कर्म वेदाध्ययनसङ्गतः । दानादानरतिर्यस्तु स वै  
क्षत्रिय उच्यते ॥ विशत्याशु पशुभ्यश्च कृष्यादानरतिः  
शुचिः । वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ सर्वभ-  
क्ष्यरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स  
वै शूद्र इति स्मृतः ॥ शूद्रे चैतद्भवेत्क्षयं द्विजे तच्च न विद्यते ।  
न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥

अर्थात् ब्रह्माजीने प्रथम अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रभावशाली ब्रह्मनिष्ठ मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न करके स्वर्गप्राप्तिका उपायस्वरूप सत्यधर्म तपस्या ज्ञाश्वत वेद आचार और शौचको सृजन किया, पीछे देव, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र इन चार वर्णयुक्त मनुष्य जातिकी सृष्टि की । उस समय ब्राह्मण श्वेतवर्ण ( अर्थात् सत्त्वगुणयुक्त ) क्षत्रिय लोहितवर्ण ( रजोगुणयुक्त ) वैश्य पीतवर्ण ( रज और तमयुक्त ) शूद्र कृष्णवर्ण ( सर्वथा तमो- गुणयुक्त ) हुए । भरद्वाज बोले हे भगवन् ! सब मनुष्योंमें ही कोई न कोई गुण विद्यमान हैं । इससे केवल वर्ण [ गुण ] द्वारा मनुष्यका वर्णभेद नहीं किया जा सकता, देखिये सब मनुष्य काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा और परिश्रमसे व्याकुल होते हैं, सबके ही शरीरसे स्वेद, मूत्र, पुरीष, श्लेष्मा, पित्त और रुधिर निकलता है, इससे गुणद्वारा भी किसी प्रकार वर्णविभाग नहीं किया जा सकता । भृगुजीने कहा इस लोकमें वर्णोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है, समस्त संसार ही ब्रह्ममय है, मनुष्यगण प्रथम ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न होकर धीरे २ कर्मोंसे वर्णोंमें विभक्त हुए हैं, जिन ब्राह्मणोंने रजोगुणयुक्त होकर काम-

भोगप्रिय, क्रोधके वशीभूत होकर तथा साहसी और तीक्ष्ण होकर स्वधर्मका त्याग न किया वे क्षत्रियपनको प्राप्त हुए, जिन्होंने रज और तमोगुण युक्त होकर पशु पालन और कृषिका आश्रय कर लिया वे वैश्यपनको प्राप्त हुए, जो तमोगुण युक्त होकर हिंसक लुब्ध सर्व कर्मो-पजीवी मिथ्यावादी और शौचभ्रष्ट हुए, वे द्विज शूद्रत्वको प्राप्त हुए इस प्रकार भिन्न २ कार्य करनेसे ब्राह्मण ही पृथक् पृथक् वर्णोंको प्राप्त हुए हैं, इससे सब वर्णोंका ही नित्य धर्म और नित्य यज्ञमें अधिकार है । भगवान् ब्रह्माजीने सृष्टि करके जिनको वेदाधिकारी बनाया वही लोभके कारण शूद्रत्वको प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मण सर्वदा वेदाध्ययन, व्रत और नियमानुष्ठानमें तत्पर रहे, इस कारण उनकी तपस्या नष्ट नहीं हुई । ब्राह्मणोंमें जो परमार्थ ब्रह्मपदार्थको नहीं जान सके, वही निकृष्ट समझे गये, और ज्ञान विज्ञान हीन स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत आदि विविध म्लेच्छ जातित्वको प्राप्त हुए । भरद्वाज बोले हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका लक्षण क्या है ? यह मुझसे कहिये । भृगुजी बोले, जो जातिसंस्कारादि संस्कृत परम पवित्र वेदाध्ययनमें अनुरक्त रहकर प्रति-दिन संध्यावन्दन, स्नान, तप, होम, देवपूजा और अतिथि सत्कार इन छः कर्मोंको करते हैं, जो शौचाचारपरायण, नित्य ब्रह्ममें निष्ठावान्, गुरुप्रिय और सत्यनिरत होके ब्राह्मणोंका भुक्तावशिष्ट अन्न भोजन करते और जिनमें दान, अद्रोह, शान्ति, अनृशंसता, क्षमा, दया और तपस्यामें नितान्त आसक्त देखा जाय वही ब्राह्मण है, जो वेदाध्ययनसम्पन्न युद्ध-कार्यमें तत्पर, ब्राह्मणोंको धन दान कर प्रजासे कर ग्रहण करै, वह क्षत्रिय है, जो पवित्र होकर वेदाध्ययन और कृषि वाणिज्यादि कार्य करै वह वैश्य और जो वेदविहीन आचार-भ्रष्ट हो सर्वदा सब काम और सब वस्तु भक्षण करै वह शूद्र हैं यदि कोई ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होकर शूद्रके समान कर्म करै और शूद्र ब्राह्मणके समान कर्म करै, तो वह शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैं इन वचनोंको आश्रय करके बहुतसे महानुभाव कहते हैं कि, वर्णविभाग पीछेसे हुआ है, परन्तु यह बात समीचीन नहीं है जब कि सतरज, रजतम, तम इन तीन गुणोंके अनुसार स्वभाव जन्मसे होता है, तब वे पुरुष अपने २ स्वभावका अनुसरण करेंगे, और उनका वही वर्णविभाग होगा, इन श्लोकोंमें मुखादिसे मनुष्योंकी उत्पत्ति न कहकर स्थूलरूपसे प्रजापतिद्वारा सबको एकरूप निर्देश किया है, परन्तु वास्तवमें अंगविभागसे उत्पन्न होनेके कारण उनमें क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंके कर्म थे, इसीसे वे उन उन कर्मोंको करके अपने यथार्थ नामोंको प्राप्त हुए, इससे यही सिद्ध होता है कि जाति जन्मसे ही है, कर्मद्वारा जाति व्यक्त होजाती है और " वैश्यतां गताः " इत्यादि पदोंसे यह स्पष्ट है कि वे वैश्यभावको प्राप्त हुए, पर वैश्य प्रथम ही विद्यमान थे, अपने पितृजनोंके गुण कर्मकी भलीप्रकार रक्षा करें नहीं तो उस जातिसे च्युत समझे जायेंगे, इसीके द्योतक यह सब वचन हैं, और यह वाक्य सब पूर्वपक्षमें यदि रखकर विचार किया जाय तो पूरा निश्चय होजायगा कि जाति जन्मसे ही

कारण कि इन्द्रादि देवताओंमें, गौ अवादि पशुओंमें, वृक्ष लता गुल्मादिमें, गायत्री आदि छन्दोंमें भी वर्ण विभाग पाया जाता है, 'ब्रह्म वै बृहस्पतिः' ( ऐतरेय ) यान्येतानि देवत्रा ( देवेषु ) क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशानः, स विश्वम-उजव् । यान्येतानि देवजातानि गणशो व्याख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इति—श० कां० १४ अर्थात् बृहस्पति ब्राह्मण, इन्द्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशान यह क्षत्रिय हैं, उसने वैश्यकी रचना की जो देवजाति गणरूपसे निरूपण की गई वे वसु ८ रुद्र ११ आदित्य १२ विश्वदेवा १३ मरुद्गण ४२ वैश्य कहाते हैं । पशुओंमें 'ब्रह्म वा अजः । क्षत्रं वा अश्वः । वैश्यं च शूद्रञ्चानु रासभः श०' । अज ब्राह्मण, अश्व क्षत्रिय, गर्दभ वैश्य और शूद्र है, ग्रन्थके आरंभमें तैत्तिरीयके वचनसे चार वर्णोंके साथमें जिन २ पशु और छन्दोंकी सृष्टि हुई है, वह वह उसी वर्णवाले हैं, वृक्षोंमें 'ब्रह्म वै पलाशः' श० । पीपल ब्राह्मण है औषधियोंमें क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद् दूर्वा ऐत० । औषधि योंमें दूर्वा क्षत्रिय है, छन्दोंमें गायत्रश्छन्दसा ब्राह्मणः ऐत० । गायत्री छन्द ब्राह्मण, त्रिष्टुप् क्षत्रिय, और जगतकी वैश्य है । इसी प्रकार नक्षत्र ताराराशियोंमें भी स्वाभाविक वर्णविभाग है, यदि कर्म ही प्रधान होता तो वृक्ष औषधी छन्दादि वा पशुआदिमें वर्ण-विभाग नहीं होता, इससे यह कोई स्वभावसिद्ध नैसर्गिक बात है, यदि कर्मसे जातिविभाग जनसमुदायने च गया तो किसीको श्रेष्ठ और किसीको भूपति किसीको दास बनाकर बड़ा अन्याय किया, कारण कि, निष्कृष्ट बननेकी किसीकी इच्छा नहीं होती, सभी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं । यदि कर्मसे विभाग हैं तो प्रथम ब्राह्मणोंके होनेमें कौनसे कर्मका हेतु है और वह उनमें क्यों हुआ कारण कि, कर्मद्वारा विभागसे पहले उनके मतमें ब्राह्मणत्वकी सिद्धि नहीं है, इससे स्पष्ट है कि, कर्मविभाग वर्णविभागमूलक है न कि, कर्मविभागमूलक वर्ण-विभाग है; इसी बातको भगवान्ने गीतामें भी कहा है ।

**ब्राह्मणक्षत्रियविरां शूद्राणाञ्च परन्तप ।**

**कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ १८ । ११**

अर्थात् हे परन्तप । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए गुणोंके कारण विभक्त हुए हैं, स्वभाव जन्मसे होता है तो जन्मसे जो गुण हैं वह जातिके लिये हुए हैं, जब स्वभाव ईश्वरकृत है तब वर्णविभाग ईश्वरकृत है इससे चार वर्णोंके मुखादिद्वारा होनेसे—

**तेषां कर्माणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यदधात्प्रभुः ।**

उनके धर्मों और कर्मोंको प्रभु ब्रह्माजीने पृथक् विधान किया इससे सिद्ध है कि पहले वर्ण और पीछे उनके कर्मोंका विधान किया अर्थात् विधाताने ही सब वर्णोंको अपने २ कर्मोंमें नियुक्त किया है । जहां मुखसे ब्राह्मणकी उत्पत्ति है उसीसे अग्निकी उत्पत्ति



है 'यथा मुखादभिरजायत' इसीसे ब्राह्मणको आग्नेय कहा है, शतपथके चौदहवें काण्डमें देवताओंमें वर्णविभाग माना है 'प्रजापतिरकामयत' इस श्रुतिद्वारा देव मनुष्य छन्द पशु आदिकी वर्णद्योतक श्रुति लिख ही चुके हैं और जब पुरुषसूक्तका वेदमन्त्र चार वर्णोंकी उत्पत्तिके विषयमें गर्ज रहा है; तो प्रमाणाकारकी आवश्यकता क्या है और 'यदि कर्मभिर्वर्णतां गतम्' इसका यह अर्थ किया जाय कि कुछ समयके उपरान्त स्थूलरूपसे वर्णविभाग हुआ पहले सूक्ष्मरूपमें था तो भी यही सिद्ध होता है। 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस न्यायके अनुसार महामहिमावाले महर्षियोंने उन उन वंशोंके उत्पन्न हुए वर्णोंको दृढ किया न कि पिता क्षत्रिय और पुत्र शूद्र बनाया। पिता शूद्र और पुत्र ब्राह्मण बनाया, किन्तु उन्होंने यह नियम किया कि, 'सर्वर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः' सवर्णा स्त्रीमें सवर्णसे सजाति पुरुष उत्पन्न होता है, यह सदा स्थिर रक्खा वह जानते थे कि मधुर आमके बीजसे आम होंगे इमलीसे इमली होगी जैसे रंगके सूतसे कपड़ा बनाया जायगा उसका वैसा ही रंग होगा इसी प्रकार शमप्रधानादि गुणसे उत्पन्न ब्राह्मण ही होगा, इतर नहीं. यदि पढनेसे ही ब्राह्मण हो जाता तो 'शूद्रौ हि कवषो दीक्षां प्रविष्टः' जब शूद्र कवष दीक्षामें प्रविष्ट हुआ तो महर्षियोंने उसको बाहर किया और कहा समाज नियम भङ्ग करनेवाले कवषको दण्ड देना चाहिये और कहा "अत्रैनं पिपासा हन्तु सरस्वत्या उदकं मा पात्" यह प्याससे मरे सरस्वतीका जल न पी सके ऐसा कहकर उसको निर्जल देशमें निकाल दिया यदि कर्ममूलक वर्ण विभाग हो जाय तो विचारा कवष दीक्षासे क्यों निकाला जाता ? वह कर्मोंसे तो ब्राह्मण वर्णमें प्रवेश होने योग्य था। पीछे जो उसकी महिमा हुई वह उसके गुणोंके ही कारण हुई न कि ब्राह्मणोंके कर्मानुष्ठानसे और यदि कहीं किसीमें विशेषगुणोंके कारण कोई विशेषता हो जाय तो वह किसी नियमको भंग नहीं कर सकते, सब पशुओंके पुरीष गोबरके समान नहीं होसकते, सब गन्ध कस्तूरी नहीं होसकती। इसी प्रकार कवष जो पीछे उच्चपदको प्राप्त हुआ तो उससे वर्णविभागका नियम भंग नहीं समझा जायगा, इससे कुलक्रमागत ही मुख्यतया वर्णव्यवस्था है, यही इस ऐतरेय आख्यानसे सिद्ध होता है, यदि केवल ब्राह्मणके गुण धारणसे ही ब्राह्मण होजाता तो विश्वामित्रमें किन गुणोंकी कमी थी, वेद पढे थे परन्तु फिर भी उनको सहस्रों वर्षोंतक तपस्या करनी पड़ी और उनके चरुमें ब्राह्मणत्व होते हुए भी वशिष्ठादिने उनको ब्राह्मण न कहा वो मंत्रद्रष्टा हैं उनको भी ब्रह्मर्षि कहलानेको सहस्रों वर्ष तपश्चर्यासे ब्रह्मर्षिपद लाभ हुआ तो स्पष्ट ही है वर्णविभाग जन्मसे सिद्ध है, न कि कर्मसे और विश्वामित्रके समयमें भी, यह बात रहते इसके अनादित्व होनेमें शंका क्या है और अनेकों युग व्यतीत होते हुए वर्णकी शिथिलताके जो दो चार उदाहरण मिलते हैं वे वर्णभेदकी सनातनता सूचित करते हैं, यह बात सूक्ष्म दृष्टि देनेसे समझमें आजाती है, इससे सहस्रों युगोंमें वर्णविनिमयके दो तीन उदाहरण देखे जायँ तो वह गिनतीमें नहीं आसकते, न उनसे वर्णविभाग

शिथिल हो सकता है, न वैसा अब कोई अनुष्ठान करनेको समर्थ है और यदि वर्णविभाग पूर्वसे ही सुदृढ़ न होता तो यह वर्णविनिमयकी दो चार कथा लिखनेकी आवश्यकता क्या थी, कारण कि यह तो रीति ही थी, फिर इसके लिखनेका प्रयोजन क्या था और भी देखा जाता है ।

तद्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनि-  
मापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ  
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्  
श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा  
( छान्दो० ५ । १० ) ।

इस छान्दोग्य श्रुतिसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कर्मके अनुसार दूसरे जन्ममें शुभकर्मसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य योनि मिलती है, निन्दित आचरणसे कुचे शूकर चाण्डाल योनि प्राप्त होती है, इससे स्पष्ट है कि वर्णविभाग जन्मसे है न कि कर्मसे, यदि कर्मसे ही वर्णविभाग होता तो निरन्तर शस्त्रधारणकर्ता परशुरामजी क्षत्रियवर्णमें गिने जाते और महात्मा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य निरन्तर धनुर्वेदके पारंगत होनेसे ब्राह्मणत्वसे हीन होकर क्षत्रिय होजाते और तपश्चरण करनेवाला शूद्र रामचंद्रजीके द्वारा कभी निधनताको प्राप्त नहीं होता अनुशासनपूर्व अ० २७ में युधिष्ठिरने भीष्म पितामहसे पूछा है—

नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्टव्योऽस्तिनराधिप । क्षत्रियो  
यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजसत्तम ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्यं प्राप्नु  
याद्येन तन्मे व्याख्यातुमर्हसि । तपसा वा सुमहता कर्मणा  
वा सुतेन वा । ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥४॥

हे पितामह ! आपके सिवाय यह विषय किसीसे पूछने योग्य नहीं है । क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र यह ब्राह्मणत्वको बड़े तप कर्म वा शास्त्र किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ? यह आप मुझसे कहिये इसपर भीष्मपितामहने कहा—

ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्णैः क्षत्रादिभिस्त्रिभिः । परं हि  
सर्वभूतानां स्थानमेतद्युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ बह्वीस्तु संसरन्  
योनीर्जायमानः पुनः पुनः । पर्याये तात कस्मिंश्चिद् ब्राह्मणो  
नाम जायते ॥ ६ ॥

हे तात ! तीनों वर्णोंको ब्राह्मणत्व दुष्प्राप है कारण कि यह ब्रह्मत्व सम्पूर्ण प्राणियोंक

स्थान है अनेक योनियोंमें उत्पन्न होकर किसी समय ब्राह्मणके यहां जन्म लेता है इससे भी स्पष्ट है कि जाति जन्मसे होती है कर्मसे जातिका कोई प्रसंग नहीं है और जो मतंगका इतिहास है वह भी इस बातको समर्थन करता है कि जातिसे हीन कोई पुरुष भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त नहीं हो सकता. मतंगका वचन इन्द्रके प्रति—

**इदं वर्षसहस्रं वै ब्रह्मचारी समाहितः । अतिष्ठमेकपादेन  
ब्राह्मण्यं नाप्नुयां कथम् ॥ अहिंसादममास्थाय कथं नार्हामि  
विप्रताम् । अनु. प. अ. ॥ २९ ॥**

अर्थात् सहस्र वर्षपर्यन्त सावधानतासे मैं ब्रह्मचर्य धारणपूर्वक एक पगसे स्थित होकर अहिंसा और इन्द्रियदमनमें स्थित हो रहा हूँ मुझको ब्रह्मचर्यके प्रभावसे ब्राह्मणत्व क्यों न प्राप्त होगा । इन्द्रने इसका उत्तर दिया—

**श्रेष्ठता सर्वभूतेषु ततोऽर्थं नातिवर्तते । तदग्रे प्रार्थयानस्त्व-  
मचिराद्विनशिष्यसि ॥ ( अनुशासन प. अ. २७ । २९ ॥ )**

सब प्राणियोंमें श्रेष्ठता तपसे ही प्राप्त करनेकी इच्छासे तू ब्राह्मणत्वकी इच्छा करता है तो शीघ्र नष्ट होगा इस प्रकार मतंगको महान् तप करनेसे भी ब्राह्मणकी प्राप्ति न हुई और जो यक्ष युधिष्ठिरके संवादमें युधिष्ठिरजीने कर्मको ही द्विजत्वका कारण कहा है, यह कर्मकी प्रशंसा मात्र है, द्विजत्व शुद्धजन्मसे तो सिद्ध हो ही चुका है, कारण कि जब वेद वर्णोंकी उत्पत्ति कहता है, तब द्विजत्व सिद्ध ही है, कर्मको देखकर उनका विभाग करलिया, वास्तवमें वे पहलेसे ही ब्राह्मणादि हैं, नहीं तो फिर द्रौणादिकमें ब्राह्मणत्वका व्यवहार न होगा, भीष्मके वचनोंमें विरोध आवेगा और फिर युधिष्ठिरजीने भी तो यह स्पष्ट कहा है ( वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः ) विशेषकर ब्राह्मणको अपने कर्ममें परायण होना चाहिये, नहीं तो इससे निन्दाकी प्राप्ति होगी । इसी प्रकार नहुषके संवादमें भी युधिष्ठिरके वचनसे यह प्रतीत होता है कि निकृष्ट युगोंमें व्यभिचारादिकी विशेषतासे और वर्णसंकरकी विशेषतासे जातिमात्रसे उत्कृष्ट ब्राह्मण परीक्षाके योग्य हैं, ऐसे समयमें सत्य शमादि गुणयुक्त देखकर ब्राह्मणका निश्चय कर लेना यह अभिप्राय है । धर्म व्याघादिकेसंवादमें सत्त्वादि गुणोंका उत्कर्ष कथन ही तात्पर्य है । गीतामें यह स्पष्ट ही है ( श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ) अर्थात् अपना धर्म विगुण भी हो तो भी परधर्म ग्रहण न करे स्वधर्ममें मरण श्रेष्ठ है परधर्म भयका देनेवाला है । इस गीताके वचनसे स्पष्ट है कि वर्ण विभागहेतुक कर्मविभाग है न कि कर्म-विभागहेतुक वर्णविभाग है । मनुजीने भी यही कहा है—

**सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता**

जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ( मनु० अ० १० । २ ) सव-  
र्णैभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । ( याज्ञवल्क्य. )

चारों वर्णोंमें समान जातिवाली अक्षतयोनि स्त्रियोंमें विवाहपूर्वक अनुलोमविधि अर्थात् ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें क्षत्रियसे क्षत्रियामें जो सन्तान उत्पन्न होती है, वे अपने पिताकी जातिकी ही उत्पन्न होती हैं, यही याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, सवर्णोंकी सवर्णा स्त्रीमें वही जाति उत्पन्न होती है जो उनके पिताकी है । मनुजी कहते हैं—

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थ-  
मुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ब्राह्मणो जायमानो हि पृथि-  
व्यामधि जायते । ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥  
( अ० १ श्लो० ९८ । ९९ )

जन्मतेही ब्राह्मणका देह धर्मका अधिनाशी शरीर इस कारण है कि यह ब्राह्मण धर्मके निमित्त ही उत्पन्न होता है और धर्मसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे मोक्षका भागी होता है । ब्राह्मण जन्म पृथिवीमें सबसे उत्कृष्ट है इसीसे यह प्राणियोंके धर्म समूहकी रक्षाके लिये समर्थ है कारण कि सब धर्मोंका उपदेश ब्राह्मणसे ही होता है । हारीत कहते हैं—

ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव उत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ( १ । १३ )

ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ही ब्राह्मण होता है । अत्रि कहते हैं—

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते । विद्यया  
याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥ ( १३८ )

अर्थात् ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण कहाता है, संस्कारोंसे द्विज होता है, विद्यासे विप्र और तीनों वेदोंके ज्ञानसे श्रोत्रिय कहाता है । यदि अपने वर्णोचित कर्मोंको ब्राह्मण त्याग दे तो भी उसमें ब्राह्मणत्व माना जाता है । यथा हि—

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यश्च विप्रोऽ-  
नधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३७ ॥ यथा षण्ढोऽफलः  
स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला । यथा चाज्ञोऽफलं दानं तथा  
विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ ( अ० २ । १३८ )

जैसे काठका हाथी चमडेका मृग नाममात्रका है इसी प्रकारसे बेपढा ब्राह्मण नाममात्रको धारण करनेवाला होता है, जैसे नपुंसक स्त्रियोंमें फलवाला नहीं होता, जैसे गाय गायमें पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, जैसे मूर्खको दान देनेका फल नहीं होता इसी प्रकार वेदविद्यारहित

ब्राह्मणको दान देनेसे फल नहीं होता । इन मनुके श्लोकोंसे विद्यारहित ब्राह्मणमें भी ब्राह्मणत्व माना है । यदि कर्मसे जाति होती तो विद्यारहितमें तीनकालमें भी ब्राह्मण शब्दका प्रयोग नहीं होता । भाष्यकार पतञ्जलिने भी ( नज २ । २ । ६ ) इस सूत्रमें इस करिकाको लिखते हुए जन्मसे ब्राह्मण माना है ।

**तपःश्रुतं च योनिश्चेत्येतद्ब्राह्मणकारकम् । तपःश्रुताभ्यां  
यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ ( महाभाष्य. )**

तपस्या शास्त्र और योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं जो तपस्या और शास्त्र इनसे हीन है वह जातिसे ब्राह्मण हैं. इससे स्पष्ट है कि जाति जन्मसे ही है । यदि कहीं शास्त्रविहीन ब्राह्मणमें अब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हो तो वह पढेलिखे ब्राह्मणोंके मध्यमें उपचारसे प्रयोग हुआ जानना इससे भी जन्मसेही जाति स्पष्ट है और निःकृष्ट वर्ण यदि उत्तम कर्म करे तो भी भगवान् मनु उस उत्कृष्टतासे स्वीकार नहीं करते, यथाहि-

**अनार्यमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणम् । संप्रधार्याब्रवी-  
द्धाता न समौ नासमाविति ॥ मनु. अ. १० । ७३ ॥**

यदि नीचवर्ण शूद्र ब्राह्मणादिके कर्म करता हो और ब्राह्मणादि शूद्रोंके समान कर्म करते हों तो विधाताने यह इसका निश्चय किया है कि न तो वह शूद्र ब्राह्मणादिके समान है और न वह ब्राह्मण शूद्रके असमान है.

पराशरजी कहते हैं-

**दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । कः  
परित्यज्य दुष्टां गां दुहेच्छीलवतीं खरीम् ॥ ८ ॥ ३२ ॥**

दुष्टशीलवाला भी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शूद्र पूज्य नहीं है. खोटे स्वभाववाली गायको छोड़कर शीलवाली गधैको कौन दुहेगा अर्थात् गधैयाका दूध नहीं पिया जायगा, इससे भी जाति ही सिद्ध होती है । मनुजी राजधर्ममें कहते हैं-

**अविद्रांश्चैव विद्रांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् । प्रणीतश्चाप्रणी-  
तश्च यथाग्निदैवतं महत् ( अ० ९ । ३१७ )**

अविद्वान् हो चाहे विद्वान् हो ब्राह्मण महान् देवता है जैसे अग्नि प्रणीताधानवाली वा बिना आधानकी महान् देवता ही है । और भी बारहवें अध्यायमें मनुजी कहते हैं कि-

**स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्चतुर्वर्णा ह्यनापदि । पापान्  
संसृत्य संसारान् प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ( १२ । ७० )**

अर्थात्-चारों वर्ण आपत्तिहीन कालमें यदि अपने २ कर्मोंको त्याग करे दूसरे वर्णोंके

कर्म करै तो वह पातकी होकर संसारमें पडकर कुत्सित योनिको प्राप्त हो, जन्मान्तरमें शत्रुके दास होते हैं, इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि वर्णक्रम जन्मसे है न कि कर्मसे. इस लेखसे हमारा यह प्रयोजन नहीं कि ब्राह्मणादि वर्ण अपने २ कर्मोंका त्याग कर दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिये, कर्मत्यागसे ब्राह्मणादिकी बड़ी निन्दा है । इससे ब्राह्मणादि वर्णोंके जन्मके उपरान्त उत्कर्षता साधनके निमित्त संस्कार अवश्य ही उचित है, इससे उन २ वर्णोंका प्रभाव लक्षित होता है विना संस्कारके मणियोंमें भी मलीनता देखी जाती है, पर लोष्ट पत्थरमें वह बात नहीं होती । इससे विप्रकुलोंमें उत्पन्न जनोके ब्राह्मणत्वादि सिद्धिके निमित्त संस्कार करने चाहिये, न कि शूद्रोंके नामकरणमें । मनुजीका आशय जन्मसे जातिकी सिद्धि करता है ।

### मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य च जुगुप्सितम् ॥ ( २ । ३१ )

ब्राह्मणका नाम मङ्गलाचारयुक्त क्षत्रियका बलयुक्त और वैश्यका पुष्टियुक्त तथा शूद्रका जुगुप्सित नाम रखना चाहिये । जब कि, दशमें बारहवें दिन ब्राह्मणादिके यहां उत्पन्न हुए बालकोंके नाम उन उन वर्णोंके अनुसार ही शास्त्रने माने हैं, तब जन्मसे जाति निषेधका साहस कौन कर सकता है । कारण कि, जन्म लेते ही ब्राह्मणादिके गुण कर्म उसमें प्रगट नहीं हैं । इसी प्रकार स्मृतिकारोंने यज्ञोपवीतमें काल दण्डादिका समय पृथक् निरूपण किया है, जहां कहीं कर्म न करनेसे पतित लिखा है वह भयके निमित्त है, उसमेंसे जातिमात्रका ब्राह्मणांश किसी कालमें दूर नहीं होता । कारण कि वह रजबीजके प्रसंगसे बना है और जहां कहीं अवनति उन्नतिकी वर्णन किया है वह स्मृतिकारोंका रहस्य है कि, उन्नति बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है और अवनति बहुत सहजमें हो जाती है, इसकारण विनिपातसे सदा भय करना चाहिये, पर स्मृतिकारोंका यह कहीं सिद्धान्त नहीं है कि, किसी वर्णसे कोई दूसरा वर्ण समुन्नतिमें हो गया हो, योनि विद्या और कर्म यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं । यह बात भाष्यकारने स्वयं लिखी है तब यदि अन्य वर्ण विद्या और कर्मसे युक्त भी हों तब भी योनिसे रहित होनेसे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस समुदायमें एकके विनाशसे भी हीनता प्राप्त होती है, परन्तु नया वर्ण प्रगट नहीं होता । ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुआ कोई पुरुष यदि विद्या और कर्मको त्यागन करदे, अथवा विद्यायुक्त होकर भी कर्मसे पतित हो जाय, सुरापानादिसे विद्या और प्रकृष्ट कर्मोंकोभी त्यागदे तो उसमें योनि विद्या और कर्मका समुदाय प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा होनेसे वह ब्राह्मणत्वसे पतित हो जायगा । यह तीनों समुदाय ही ब्राह्मणकी उत्कृष्टताके साधक हैं । योनिमात्र वा योनि और विद्या होनेपर भी एक बातकी न्यूनतामें प्रतिष्ठाकी हानि है । इसी प्रकार अन्यवर्ण ब्राह्मणयोनिसे रहित हो, उत्तम विद्या और संस्कारवाला भी हो, यम नियमादि कर्मोंमें अनुरक्त भी हो, परन्तु एक

योनिमुदायके न होनेसे वह ब्राह्मणताको प्राप्त नहीं कर सकता । इससे इस जन्ममें अन्य वर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, इससे जो लोग म्लेच्छादिकोंको ब्राह्मणादि धर्म सिखाते हैं, उनको वर्णोंमें सम्मिलित करते हैं वे भाष्यकारके इस वचनसे कि-

### तपः श्रुतं च योनिश्च त्रयं ब्राह्मणकारकम् ।

तपस्या, कर्म और योनि तीन ब्राह्मणके कारक हैं, परास्त होते हैं । यदि कहे कि, योनिभेद वर्णविभाग मानाजाय तो गौ अश्वदिके समान आकृतिमें भेद होना चाहिये, परन्तु ऐसा न होकर सब वर्णोंमें एकसा ही रूप दिखाई देता है इससे योनिभेद वर्णभेद नहीं होसकता यह बात तुच्छ है । गवादिका प्रकृति भेद सिद्ध ही है, विधाताके नियमसे वैसा भेद है । उसीका अनुसरण करके कर्म भेदसे यह जातिभेद उत्पन्न हुआ है । कारण कि, कारणगुण कार्यके गुणोंका आरंभ करते हैं, इस प्राकृतनियमके अनुसार योनिभेदकी मूलकता प्राप्त होती है, यह श्रुति स्मृतिसे अनेकवार सिद्ध हो चुका है । ब्राह्मणादि वर्ण मनुष्यजातिके अवांतरभेद हैं न कि गोअश्वदिके समान एकांततः जातिकी पृथक्ता दिखानेवाले हैं, अवांतरभेद सब मनुष्य तिर्यगादि जातियोंमें पायेजाते हैं, यह विद्वानोंने अच्छे प्रकार समझ लिया है । उनमें परस्पर संकीर्णता नहीं है, यह स्वाभाविक भेद परीक्षक गण भले प्रकार जान सकते हैं । स्वरूपभेद ही भेदकी प्रयोजकता नहीं बताता, किन्तु गुणस्वभाव भी भेदका प्रयोजक है । अश्वजातिके कितने अवांतरभेद हैं, सुधी सज्जन इसका निरूपण कर सकते हैं, इससे वर्णोंके भेदमें योनिभेदको निवारण करनेको कोई समर्थ नहीं है । प्रकृतिका भेद वर्णभेद नहीं बतासकता, बद्धसे ब्राह्मण अल्पमति, क्षत्रिय, कातर, शूद्रोंकी बुद्धिमें कुशाग्रता दिखाई देती है और वीर्य भी उनमें दिखाई देता है, यदि इस पर आक्षेप किया जाय तो यह भी बड़ा अविचार होगा । इस समय कालदोषसे वर्णोंका निज २ अभिमान शिथिल होगया है, अपने २ कर्मोंको वर्णोंने त्याग दिया है, शास्त्रकी मर्यादा त्याग दी है, वर्णोंका परिचय नाममात्र से दिया जाता है, स्त्रियोंके चरित्र शिथिल ही नहीं, बरन् विलीन हो गये हैं, इस समय चारों ओरसे दुरवस्था खडी हो गई है, इससे ऐसा दिखाई देता है यदि वर्ण यथार्थरूपसे अपने कर्मोंमें प्रवृत्त होते तो कभी ऐसा नहीं होता । अवश्य ही ब्राह्मणके यहां ब्राह्मणोचित प्रकृतिवाले उत्पन्न होते हैं, मीठे आमके बीजसे मीठे ही फल उत्पन्न होंगे, यह प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमोंको अनुसरण करके ही आचार्योंकी मर्यादा स्थित रह सकती है । जहां कहीं इस नियममें कुछ व्यभिचार दिखाई दे तो अवश्य-ही उसमें कोई हेतु विशेष है । परन्तु उसका निदर्शन नहीं लिया जासकता, इस विषयमें यही न्यायमार्ग है, इसकारण सामाजिक उन्नति साधनमें यथाशास्त्र ही वर्तना उचित है, ब्राह्मण क्षत्रियादिके बालक ब्राह्मणादि, प्रकृतिके ही होने चाहिये, यह व्यवस्था त्याग देनेसे कदाचित् भी समा-

जकी सुव्यवस्था नहीं हो सकती । अब भी ब्राह्मणोंकी विद्याविशेषता, क्षत्रियोंकी स्वाभाविक वीरता, वैश्योंका घनाधिक्य इस विषयके जागते प्रमाण हैं और जो कोई कहते हैं सृष्टिकी आदिमें एक ही मनुष्यजाति थी और उसमें सांख्याचार्य ईश्वरकृष्णके सृष्टि भेदोंको कहते हैं कि—

**अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति । मानुषश्चै-  
कविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥**

अर्थात्—चौदह प्रकारके भूतसर्गमें दैवसर्गके ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच यह आठ भेद हैं, तिर्यग्योनियोंमें पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप ( चींटी कानख जूरे आदि ) स्थावर यह पांच भेद हैं, एक भेदवाली मनुष्यजाति है, ब्राह्मणादिका इसमें भेद नहीं आया, इसी प्रकार भागवतादिमें सृष्टिका विभाग कहते हुए एक ही मनुष्यजाति निरूपण की है, इस प्रश्नके उत्तरमें हमको यही कहना है कि ब्राह्मणादि मनुष्य सृष्टिके अवान्तरभेद हैं, सृष्टिका आरम्भ लिखनेमें सर्वथा सृष्टिके अवान्तरभेद नहीं भी दिखाये जाते, न गिनाये जाते हैं, क्या यह पांचही प्रकारका तिर्यक् सर्ग है इसके सहस्रों अवान्तरभेद क्या नहीं हैं, क्या वे सृष्टिके आदिसे योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं हैं, गो महिष आदिके भेदोंकी उपेक्षासे केवल तमप्रधानमात्रको लक्ष्य करके आचार्यने पांच भेदसे कल्पना कर दी है । इसी प्रकार रजोगुणकी प्रधानताको लक्ष्य करके ब्राह्मणादिक अवान्तर भेदको न दिखाकर एकमात्र मनुष्यजातिकी बात लिखी है, इससे योनिसिद्ध वर्णभेदमें हानि प्राप्त नहीं होती, कारण कि, देवता सत्त्वप्रधान हैं यद्यपि उनमें भी तम और रज है इसीप्रकार मनुष्यमें भी सत् और तम हैं, परन्तु प्रधान रजोगुण लेकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपसे व्यवहार किया है, वाचस्पति मिश्रने भी इस कारिकाकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि आचार्यको यहां ब्राह्मणादि भेदोंकी विवक्षा नहीं थी और इसके न कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णोंकी असिद्धि नहीं होती ( संस्थानस्य चतुर्ष्वप्येकविधत्वादिति ) संस्थान नाम अवयवोंका सन्निवेश यह इन चारों वर्णोंमें भेदको प्राप्त नहीं होता, अर्थात् सबके एकसे ही हाथ पैर होते हैं, यहां इनकी प्रकृतियोंमें भेद है, पर हमने यहां संस्थानभेदको भेद माना है, इससे ब्राह्मणादि वर्णोंका इस स्थलमें परिगणन नहीं किया, इसी प्रकार पुराणोंमें वेदोंकी विवक्षा जाननी, क्योंकि सब भेद तो कोई गिन ही नहीं सकता और जो भेद गिनाये हैं उनमें भी हजारों अवान्तर भेद रह गये हैं, अवान्तर भेदोंमें ब्राह्मणादि वर्णोंका प्रवेश होता है, बहुतसे पुराणोंमें सृष्टि-विभागमें यह भेद कहे भी हैं, वह हमने शुद्ध वाक्य ग्रन्थके आरम्भमें दिखाये भी हैं, स्वयं वेदमन्त्रोंसे ही वर्णविभाग दिखाया गया है, तब फिर इसमें शंकाका स्थल ही कहां है ? इससे जहां कहीं सृष्टिके आरम्भमें अवान्तरभेद न दिखाया गया हो, वहां भी इन वर्णोंकी योनि



सिद्धता किसी प्रकार विनष्ट नहीं होसकती, विचारशील पुरुष इस बातको समझ सकते हैं । और जो कहते हैं कि, योनिसिद्ध भेदवाले पशु गौ अध्यादिमें दूसरेका कार्य दूसरे अनुष्ठान नहीं कर सकते, इनके भेद विज्ञानमें बालकको भी शंका नहीं होती कारण कि भेद प्रत्यक्ष ही सिद्ध हैं । इनमें विजातीय पुरुषोंसे विजातीय स्त्रियें सन्तान नहीं प्रगट कर सकतीं और जो कोई खिचड़आदि संकरजातिका पशु होता है वह इन दोनोंसे अत्यन्त विजातीय होता है । परन्तु यह बात ब्राह्मण क्षत्रियादिमें नहीं देखी जाती उनमें सुशिक्षित शूद्र भी ब्राह्मण-कर्म करनेमें समर्थ होता है, कर्मभेदके विज्ञानके सिवाय इनमें किसीप्रकारका भेद विदित नहीं हो सकता, वर्णान्तरोंमें भी वर्णान्तरोंसे उत्पन्न हुई सन्तति उनके स्वरूपके समान ही होती है इससे यह जातिभेद योनिसिद्ध नहीं हो सकता । यह बात भी समीचीन नहीं है, अब भी बहुतसे शूद्र ब्राह्मणकर्म करते हुए देखे जाते हैं यह बात कही जाय तो प्रश्नकर्ता स्वयं ही शूद्रको ब्राह्मणके कर्म करनेवाला कथन कर्ता है । श्रुतिस्मृतिमें ब्राह्मणोंके कर्म देखो—

**यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशे । ( श्रुतिः )**

**( यजु० ३१ ॥ २१ )**

**देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मंत्रा ब्राह्मणा-  
धीनास्तस्माद्ब्राह्मणदेवताः ॥ ( स्मृतिः )**

जो इसप्रकारसे ब्राह्मण जानता है देवता उसके वशमें हैं और भी कहते हैं सब जगत् देवके अधीन है, देवता मन्त्रोंके अधीन हैं और वे मन्त्र ब्राह्मणोंके अधीन हैं इससे ब्राह्मण देवता हैं अर्थात् इस प्रवर्तमान प्राकृतिक जगच्चक्रको जो यथावत् जानकर यथेच्छ अन्यथा प्रवृत्त होसकै यही ब्राह्मणका कार्य है । किस शूद्रने इसका अनुष्ठान किया है, यदि कोई कहै कि, जगच्चक्रका अन्यथा अनुष्ठान तो अब कोई ब्राह्मण भी नहीं कर सकता तो यह भी कथन ठीक नहीं हो सकता । कारण कि, हमारी यह वर्णव्यवस्था इस कालके लिये तो प्रस्तुत नहीं हुई किन्तु सार्वकालिकी है, सब वर्णोंके कर्म क्या २ हैं जब कि हम इसका निणय करनेमें असमर्थ हैं, मनसे भी नहीं निर्णय कर सकते, तब वर्ण परिवर्तनका आग्रह किस प्रकार उचित हो सकता है, कोई भी जब इस कर्मव्यवस्थाको दूर नहीं कर सकता, तब इसकी व्यवस्थाके नियम दृढ करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये, वर्णभेदका परिज्ञान कर्मसे नियुक्त है । परन्तु वर्णभेदका प्रकृतिभेद मूल है, प्रकृतिभेदका कर्मभेद मूल है । यहां भी जात्यन्तरका समागम जात्यन्तरको उत्पन्न करता है । वह संकरजाति स्मृतियोंमें देख लो, गौ अश्वदिके भेदके समान हमको इष्ट नहीं है ऐसा हम पूर्वमें कह चुके हैं । और जो कोई मनुका यह वचन देते हैं कि 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्' अर्थात् शूद्र ब्राह्मणताको और ब्राह्मण शूद्रताको प्राप्त होता है यह उनके वचन हैं जिन्होंने सर्वथा मनुका शब्द नहीं देखा । वर्णसंकर प्रकरणमें लिखा है—

## शूद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चेत्प्रजायते । अश्रेयां श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तभाद्यगात् ॥ ( मनु० १० । ६४ )

अर्थात्—ब्राह्मणसे शूद्रकन्यामें उत्पन्न हुआ पारशव वर्ण होता है, यदि यह कन्या हो और ब्राह्मणसे विवाही जाय, उसके कन्या हो और वह भी ब्राह्मणसे विवाही जाय तो सातवीं कन्या भी ब्राह्मणसे विवाही जाय तो ब्राह्मणको उत्पन्न करती है, सातवीं पीढीमें माताका दोष दूर होकर बीजमें स्पष्ट ब्राह्मणत्व आता है, इस सातके बीचकी कन्यायें संकर जातिको उत्पन्न करती हैं । यहां ' प्रजायते ' इस पदसे कन्याकी परस्पाई दिखाई देती है कारण कि, प्रजनन स्त्रियोंमें ही होता है; न कि पुरुषोंमें । इसी प्रकार सातवीं ब्राह्मण कन्या शूद्रको उत्पन्न करती है, इस प्रकार सातवीं पीढीमें शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्यमें भी जानना । यही बातको महर्षि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—

### जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । याज्ञवल्क्य- स्मृतिः आचारा० ९६ ।

ब्राह्मणसे क्षत्रिया और वैश्यसे शूद्रमें उत्पन्नका श्रेयके संपर्कसे पाँचवें जन्ममें पिताके तुल्य वर्णकी प्राप्ति होती है, और शूद्रमें ब्राह्मणसे उत्पन्नका सातवें जन्ममें जात्युत्कर्ष होगा यह मिताक्षरामें स्पष्ट कहा गया है, इससे प्रसंग देखनेसे मनुजीके श्लोकका यही अर्थ संभावित होता है कारण कि, यहां संकर जातिका प्रकरण है, वर्णसंकरके विषयमें जो पिताका ब्राह्मण्य है वह सातवें युगमें माताका दोष दूर होनेसे शुद्ध दिखाई देगा, नया ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होगा कारण कि, बीजके सम्बन्धसे महर्षियोंद्वारा बहुतसे दूसरे वर्णकी स्त्रियोंमें ब्राह्मण सन्तति जन्मी हैं, परन्तु सामान्यरूपसे शूद्रोंको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कोई भी दृष्टान्त नहीं है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं । मनुजीने यथास्थलमें वर्णव्यवस्था योनिसिद्धही स्वीकार की है इसको हम कई बार कह चुके हैं 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति' यह श्लोक तो शुक्र शोणितकी अनुवृत्ति लेकर पिता वा माताके रजोबीजके दोषसे वर्णान्तरता स्वीकार करता है, तब कर्म वादियोंके तो यह सर्वथा प्रतिकूल ही पडता है और जातिको योनिसिद्ध मानता है । यदि कर्मप्रधान वर्णव्यवस्था होती तो ब्राह्मणके व्याहनेमात्रसे ही शूद्रकन्या ब्राह्मणी हो जाती और उसके पुत्रोंकी ब्राह्मणता सिद्धिमें सातवें पांचवें जन्मकी आवश्यकताका विचार क्या था । जब कि, ब्राह्मणसन्तति क्षेत्रदोषसे सातवें जन्ममें शुद्ध ब्राह्मणत्वको प्राप्त होती है, तो शूद्रोंके ब्राह्मणत्व होनेकी तो कथाही क्या है । इससे 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति' इसमें भी जन्मसे ही वर्णकी व्यवस्था विदित होती है यह बात निर्विवाद है ।

और जो कोई आग्रह परतन्त्र होकर कहते हैं कि, ब्राह्मणसे शूद्रोंमें उत्पन्न हुआ (अश्रेयान्)

किसी प्रकार ब्राह्मणीके पुत्रसे निकृष्ट होकर यदि ( श्रेयसा ) कल्याणरूप धर्माचरणसे ( प्रजायते ) युक्त हो तो ( सप्तमे ) सातवें ( युगे ) वर्षमें ( श्रेयसी ) पिताकी तुल्य जातिको प्राप्त होता है । और यह सातवां वर्ष उपनयनकालका बोधक है; इससे स्वकालमें उपनयन होने और वेदपाठ करनेसे उसमें द्विजकुमारोंसे कोई अपिशेषता नहीं; उपनयनके बलसे शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है, बिना उपनयनके द्विजकुमार भी शूद्र है, यही अर्थ यहां ठीक है; युगशब्दका अर्थ वर्ष ही लेना चाहिये, युगशब्दका जन्मका अर्थ लिया जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं, पर वर्ष वाचकताका प्रयोग देखा जाता है । कारण कि, वर्षके दो अयन युग कहलाते हैं । वर्षके अवयव चारमास चतुर्मासादि भी भासपक्षादि युगरूप हैं आठवें वर्षमें उपनयन कहनेसे वर्ष ही युग शब्दसे ग्रहण करना चाहिये और भी-

तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । उत्कर्षं चापकर्षञ्च  
मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ तस्माद्विजप्रभावेण तिर्यग्जा  
ऋषयोऽभवन् । पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥  
( मनु० १० । ७२ )

वे मनुष्योंमें इसी जन्ममें तप और वीर्यके प्रभावसे उत्कर्ष और अपकर्षताको प्राप्त होते हैं जिससे कि बीजके प्रभावसे तिर्यक् जातिमें ऋषि हुए पूजित और प्रशस्त भी हुए, इससे बीजकी ही प्रधानता है, इससे शूद्रको ब्राह्मण होना कर्मसे ही उचित है, इत्यादि आपत्तिकारोंका यह सब कथन अनर्गल है । कारण कि, पूर्व श्लोकमें ' प्रजायते ' पद पढा है, जो प्रपूर्वक जन् धातुका गर्भग्रहणमें प्रयोग होता है ।

सब श्रुति स्मृतिमें आठवें वर्षमें यज्ञोपवीतकालका निर्णय है, सातवें वर्षसे आठवें वर्षके ग्रहण करनेमें कोई प्रमाण ही नहीं है । और जब गुणकर्ममूलक जातिविभाग है तो शूद्रमें उत्पन्नमात्र होनेसे उसमें अश्रेयस्वपना कैसे मनुजीने कहा ? सातवें वर्षसे पहले अश्रेयस् कहनेवाले उसमें कौनसे गुण कर्म होंगे और जो ऐसा अर्थ करनेवालोंके अनुसार उपनयनके उपरान्त ही श्रेयस्त्व प्राप्त होता है तो फिर उसके विशेषानुकीर्तनसे फल ही क्या ? यज्ञोपवीतके उपरान्त सब ही श्रेष्ठ हैं, उपनयनसे पहले बालक कामचार होता है, क्षीरकण्ठवाले उसके लिये श्रेय वा अश्रेय कहनेकी क्या आवश्यकता है । इस कारण यह सर्वथा विपरीत कल्पना है । यदि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, यही बात सर्वथा अर्थमें मानी जाय तब भी यह साकांक्ष पद है इसमें यह विचार करना उचित है कि, क्यों शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, वह हेतु क्या है और जबतक उसका पूर्वापर न देखा जाय तबतक उसमें गुणकर्म मिलानेका उपयोग कैसे कोई कह सकता है ? प्रसंग देखनेसे पूर्वापरश्लोकोंका मिलान करनेसे ' श्रेयसा चेत्प्रजायते ' इस श्लोकके अनुसार इस पूर्वश्लोकके

हेतु निवारणमें कोई भी समर्थ नहीं है, पूर्वापर विरुद्ध अर्थ कि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है तीन कालमें भी सम्बन्धवाला नहीं हो सकता और देखो—

अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यहच्छ्रया । ब्राह्मण्याम-  
प्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं क्रेति चेद्रवेत् ॥ जातो नार्यामनार्या-  
यामार्यादार्यो भवेद्भुजैः । जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति  
निश्चयः ॥ तावुभात्रप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।  
वैगुण्याज्जन्मना पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ( मनु. १० ।  
६६ । ६७ । ६८ )

अर्थात्—एक तो ब्राह्मणसे शूद्रमें उत्पन्न हुआ दूसरा शूद्रसे ब्राह्मणमें उत्पन्न हुआ इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? यदि ऐसा सन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे शूद्रमें ब्राह्मणसे उत्पन्न साधु शूद्र होता है, जो ब्राह्मणमें उत्तम शूद्र श्रेष्ठ कौन हो इसपर कहते हैं ॥ ६६ ॥ शूद्रास्त्रीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र यदि स्मृतियोंमें कहे हुए पाकयज्ञादि गुणोंसे हो तो आर्य ही होता है और शूद्रसे ब्राह्मणमें उत्पन्न हुआ पुत्र प्रतिलोमज होनेसे अनार्य ही होता है यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥ ६७ ॥ वे दोनों पारशव और चाण्डाल संस्कारके योग्य नहीं यह शास्त्रकी मर्यादा है । पहला पारशव जन्मके दोषसे और दूसरा चाण्डाल प्रतिलोमज होनेसे संस्कारके योग्य नहीं है । इन श्लोकोंसे भगवान् मनुजी जन्मसे ही वर्ण स्वीकार करते हैं, वर्ण हेतुमें जन्म ही मुख्य है । फिर कथनमात्रसे शूद्र कैसे ब्राह्मण हो सकता है और जो शूद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते हैं वह भी इन प्रमाणोंसे परास्त होते हैं । जो युगशब्दका अर्थ वर्ष कल्पना करते हैं जन्मके समान उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, वर्षके अर्थमें तो सर्वथा ही प्रमाण नहीं, उलटा हास्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार मास पक्षादिका उनका अर्थ है, हमारे अर्थ किये हुएमें सातवीं पीढ़ीमें कन्यारूप वर्ण शुद्ध ब्राह्मणको उत्पन्न करेगा, इसमें 'प्रजायते' आदि पदोंपर ध्यान देना चाहिये और वादीके अर्थमें तो साहसके सिवाय कुछ भी सार नहीं है और जो ( तपोबीजप्रभावेण० ) यह श्लोक प्रमाण देते हैं उनको विचार करना चाहिये, तपस्या-दिके प्रभावसे ही भगवान् व्यासादिकने एक ही जन्ममें उत्कर्षताकी प्राप्ति की, पर विना तपस्याके तो सातवें जन्ममें उत्कर्ष ही होगा यह तो निश्चय ही है और उसमें भी बीजकी उत्कर्षताका विचार भी न भूलना चाहिये, यही मनुके सब टीकाकारोंका मत है । इसी प्रकार—

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिप-  
रिवृत्तौ । अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णोजघन्यंजघन्यं वर्णमापद्यते  
जातिपरिवृत्तौ ।

अर्थात्—धर्माचरणसे नीच वर्ण उच्च वर्णको और निकृष्ट आचरणसे उच्च वर्ण नीच वर्णको प्राप्त होते हैं, यह जो आपस्तम्बके वचन हैं यह भी मनुके समान अर्थवाले अनुलोम और संकर जातिके क्रमसे जन्मान्तरमें उत्कर्ष अपकर्षके साधक हैं । 'जातिपरिवृत्तौ' से यह स्पष्ट है कि, उत्तम जन्मका बारंबार सम्बन्ध होनेसे ( जननं जातिः ) जननार्थक जातिशब्द उपादान होनेसे, कि धर्माचरणसे जन्मान्तरमें उत्कर्षताकी प्राप्ति होगी और धर्माचरणसे जन्मान्तरमें उत्कर्षवर्णकी प्राप्ति होती है, यह उपनिषदादिके प्रमाणोंसे पहले कथन कर चुके हैं । इस जन्ममें तो उत्कर्षताकी प्राप्ति कोई शास्त्र सम्पादन नहीं करता, यदि इसी जन्ममें इन वचनोंसे सिद्धि होती तो 'जातिपरिवृत्तौ' पढनेकी आवश्यकता क्या थी, यह पद असंगत होजाता, इससे वर्णव्यवस्था योजिजन्मसे ही सिद्ध है गुण कर्मसे नहीं है यह सिद्धान्त है ।

और जो सत्यकाम जाबालको वेश्यापुत्र कहते हुए कहते हैं कि सत्यके आश्रयसे उससे उसको ब्राह्मण समझ लिया इससे जातिविभाग गुणकर्मसे जाना जाता है । कारण कि, जब ऋषिने उसका गोत्र पूछा तब माताने उसको उत्तर दिया कि—

बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद ।  
यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामोनाम  
त्वमसीति सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भोः ॥  
( छां० खं० ४।४ )

इस कथनसे युवावस्थामें बहुतोंके परिचरणसे पुत्रके गोत्रके न जाननेके उत्तरसे जबालाका वेश्यात्व प्रत्यक्ष है, नहीं तो क्यों वह अपने पतिका गोत्र न जानती और 'बहु चरन्ती' पदसे बहुतोंके समीप रहनेवाली ही बात प्रगट होती है, गौतमने उसको सत्यवाक् जानकर यह कहा कि, ( नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति, समिधं सोम्य आहर, उपत्वानेभ्ये, न सत्या-  
दगाः ) अर्थात्—अब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकता, हे सोम्य समिध ले आ, मैं तेरा उपन-  
यन करूंगा, जो कि, तैने सत्य नहीं त्यागा, इससे वेश्यापुत्र होना सिद्ध है, केवल सत्य-  
रूप गुणाश्रयसे गौतमने उसका यज्ञोपवीत किया इससे कर्ममूलक वर्णविभाग विदित होता है और भी लिखा है—

पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः । ब्राह्मणा क्षत्रि-  
याश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥ ( हरिवंश० २९ । ८ )

अर्थात् गृत्समदके पुत्र शुनक उसके शौनक और उसके वंशमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य प्रगट हुए इत्यादि पूर्वमें लिख चुके हैं इससे वर्णविभाग कर्ममूलक दिखाई देता है । यद्यपि कुछ समाधान इसका पूर्वमें किया है कुछ अब भी करते हैं, सत्यकाम जाबालकी कथा भी वर्णव्यवस्थाको जन्मसे ही प्रतिपादन करती है, जब कि पहले गुरुजन गोत्र ज्ञानसे ब्राह्मण-

कुलमें उत्पन्न हुएकी सम्यक् प्रकारसे परीक्षा करते थे तब शिष्य बनाते थे फिर गुणकर्म मूलक जातिविभागकी तो कथा ही क्याहै और यदि गुणकर्ममूलक जातिविभाग होता तो गौतम उससे गोत्र क्यों पूछते क्या उनकी इच्छामात्रसे वह ब्राह्मणत्वमें प्रविष्ट होकर यज्ञोपवीती नहीं होसकता था ? इससे गोत्रका पूछना जन्मसे ही जाति सिद्ध करता है, जन्मसे ही वर्णविभाग होनेसे गोत्र प्रवरकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा गुणकर्मानुसार सब ही ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण हो सकते हैं, फिर गोत्र प्रवरकी व्यवस्थाकी आवश्यकता क्या है और गोत्रप्रवर श्रुति स्मृति प्रतिपादित हैं । इससे वर्णविभाग जन्मसे ही सिद्ध होता है और जो सत्यसे उसको जाना इसका कारण यही है कि, असाधारण सत्यके आश्रयसे उसमें ब्राह्मणवीर्यसे उत्पत्ति जानकर स्फुटतासे उसका ब्राह्मणत्व समझ लिया; यहां ब्राह्मणजन्यत्व अनुमान ही स्फुट है न कि गुणकर्मसे, उसकी जातिका विभाग किया । अन्यथा उपनयनसे पहले तो उसमें ब्राह्मणत्वका सर्वथा अभाव है, बीजके प्रभाव और किसी उसके साथमें सत्यादि विशिष्ट गुणके विकाससे इस जन्ममें ब्राह्मणादि शब्दोंका व्यवहार होता है । और जवालाको वेश्या कहना नितान्त ही मूढता है ( बहुपरिचरन्ती ) का अर्थ 'अतिथीन्' बहुधा ( परिचरन्ती ) अर्थात् अतिथियोंके कार्यमें नियुक्त रहती थी, युवा अवस्थामें तू उत्पन्न हुआ था उसके उपरान्त ही पिताका शरीरपात होगया, मुझे गोत्रादि पूछनेका अवसर न मिला यह जवालाकी उक्तिका तात्पर्य है । बहुत कहनेसे क्या है उपनिषद्के समयमें भी योनिवृत्त वर्णव्यवस्था थी गुणकर्मसे नहीं थी । कारण कि, उपनिषदोंमें लिखा है कि—ये वै रमणीयाचरणाः ते रमणीयां योनिमापद्येरन्' ( ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा । छान्दो० ५ । १० खण्ड ) अर्थात् अच्छे कर्म करनेवाले ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, वैश्ययो-निको प्राप्त होते हैं । इन वचनोंसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती है, यह हम पूर्व भी कह चुके हैं । और शौनकके कुरुमें जो चारों वर्णोंके उत्पन्न होनेकी बात लिखी है यह बात भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं है । एक ही महर्षिकी भिन्न वर्णोंकी भार्याओंमें चार वर्णोंकी उत्पत्तिका सम्भव है, कारण कि, पहले उच्चम वर्ण अपनेसे अवर वर्णोंकी कन्या भी ग्रहण करते थे । मनुने ब्राह्मणकी चार भार्या वर्णन की हैं, वे ही यह संकर जातिके पुरुष हैं, कहीं विशेषता होनेसे पिताके वर्णके, कहीं सामान्यतासे माताके वर्णके स्मृतियोंमें गिनाये हैं, कलिमें इस प्रकारके विवाहका सत्य ही निषेध है । पुरातन कालमें सृष्टिके आरम्भमें किसी महर्षिके उत्कट गुणसे कहीं उत्कृष्ट वर्णकी प्राप्ति है वह कोई असाधारण बात है परन्तु श्रुति स्मृतिको लेकर जो ऋषियोंने व्यवस्था की है वह सबको ही अनिवार्य है । कारण कि, जिस समयतक सृष्टिका आरम्भ था, अनुष्ठान करनेवालोंका अभाव था उस समय धर्मव्यवस्थाका दृढबन्धन नहीं था, व्यवस्थाके आरम्भमें कहीं कहीं विशृंखल भी होता है इसे कौन नहीं मानता, परन्तु उस समयकी बात उठाकर विशृंखलताका प्रचार नितान्त ही विचार हीनताकी बात है इससे सतयुगमें किन्ही वीतहत्यादिकोंका किसी एक विशिष्ट

कारसे वर्णका परिवर्तन पुराणमें लिखा हो तो भी दृढ व्यवस्थाकी सिद्धिके कारण इस समय वह कर्तव्य उचित नहीं है। यह विचारशीलोंको सोचना चाहिये और जो महानुभाव ऋषि आदिमें मंत्रसूक्तको देखर ऋषिआदिमें वर्णव्यवस्थाका परिणमन आरोपण करते हैं उनको तो नमस्कार है वहां वह समय और कहां यह ? बुद्धिमानोंको कुछ तो सोचना चाहिये।

और जो वज्रसूची उपनिषद्को लेकर शमदमादि गुणसम्पन्न ब्राह्मण हैं इस बातका उल्लेख करते हैं। कमसे कम उनको इस बातका तो विचार करलेना चाहिये कि उपनिषदोंका विषय क्या है उनमें आत्मज्ञानियोंको ही ब्राह्मणत्व स्वीकार किया है यदि ऐसा होजाय तो ब्राह्मणजातिके श्रौतस्मार्त कर्मका लोप होजायगा, ब्राह्मण हुए बिना आत्मज्ञानमें उसका अधिकार नहीं है और जो महाभारतमें लिखा है। कि-

**ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु । दाम्भिको दुष्कृत-  
प्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत् ॥ यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च  
सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्विजः ॥**

अर्थात् यदि ब्राह्मण विकर्मोंमें पडकर दाम्भिक होजाय तो वह दुष्कृत करनेके कारण शूद्रके समान हो जाता है, और जो शूद्र इंद्रियजित् सत्यधर्ममें सदास्थित हो उसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ, आचरणसे ही ब्राह्मण होता है। इन श्लोकोंमें स्पष्ट यह लिखा है कि, ब्राह्मण शूद्रके सदृश हो जाता है न कि स्पष्ट शूद्र होता है, यदि जातिविभाग कर्ममूलक होता तो उसको स्पष्ट शूद्रही कहना उचित था, सदृशकी आवश्यकता क्या थी। इसी-प्रकार प्रशस्त गुणयुक्त शूद्रको ब्राह्मण कहना यह है कि मैं मानता हूँ, यहां वास्तविक अर्थ नहीं है, जैसे कोई कहे कि, मैं उसको चन्द्रमुखी मानता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि, लोक उसको चन्द्रमुखी मानते हैं, यहां नीच ऊंचका वर्णन कर्मकी स्तुतिके निमित्त है, कर्मसे जातिविभाग है, इसनिमित्त नहीं है। इलसे कर्ममूलक जातिविभाग सर्वथा असिद्ध है। यदि कर्ममूलक जातिविभाग होता तो यह वाक्य कैसे कहा जाता कि ब्राह्मण यदि निकृष्ट कर्म करे तो शूद्र सदृश होजाय वह तो शूद्र ही है वहां ब्राह्मण पद लिखनाही अनावश्यक है कारण कि, वह तो कर्मानुसार शूद्र ही है। और जब ब्राह्मण विकर्ममें स्थित हुआ शूद्रवत् हो जाता है तो इससे अधिक उसका योनिसिद्ध ब्राह्मण होनेका और प्रमाण क्या चाहते हो इस प्रकारके बहुतसे वाक्योंकी व्यवस्था पूर्वमें करचुके हैं।

यदि कोई दयानंदका मत अवलम्बन करके कहे कि, हम जातिविभाग कर्ममूलक है इस विषयमें केवल मंत्रभागही प्रमाण मानेंगे तो उनके विषयमें हमको यह कहना है कि, वह कौनसा मंत्र है जिसमें यह बात लिखी हो कि जाति विभाग गुणकर्ममूलक है और यदि बालकके समान किसीने ब्रह्मादि भाष्यभूमिकामें लिखा है कि—( पृ० २३३ सं० १९३४ )

ब्रह्म हि ब्राह्मणः क्षत्रं हीन्द्रः, क्षत्रं राजन्यः ॥ ( श. कां. ५  
अ. १ ब्रा. १ )

इसके अर्थ यों प्रकाशित किये हैं कि, परमेश्वरकी उपासनासे वर्तमान विद्यादि उत्तमगुणसे युक्त पुरुष ब्राह्मण होनेके योग्य है । इस प्रकारसे जो पुरुष परमैश्वर्यवान् शत्रुओंके क्षय करनेमें तत्पर, युद्धमें उत्सुक प्रजापालनमें तत्पर हो वह क्षत्रिय हो सकता है इत्यादि मंत्रोंके स्थानमें जो यह ब्राह्मण वाक्य लिखे हैं, यह भी गुणकर्मके योगसे ब्राह्मणत्वके साधक नहीं यहां तो हि शब्दसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि ब्राह्मण इस प्रकारका होता है, क्षत्रिय इस प्रकारका होता है, यह इन वाक्योंका तात्पर्य है न कि, इन गुणोंवाला जो हो वह ब्राह्मण होता है, और इन वाक्योंका तात्पर्यपहले निरूपण करचुके हैं कि, ब्राह्मणमें अग्नि-देवताके सम्बन्धसे ब्राह्मण्य है, बलके देवता इन्द्रके सम्बन्धसे क्षत्रियत्व है, इस अर्थमें भी सत्य ही कारणके गुणोंसे कार्यगुण आरंभ होते हैं इस न्यायसे वर्णोंकी स्थिति योनिसिद्ध ही है । ऋगादि संहिताओंमें भी कर्ममूलक वर्णविभाग नहीं देखते हैं किंतु 'ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्', 'पद्भ्यां शूद्रोऽजायत' इत्यादि उत्पत्ति मात्रसे ही ब्राह्मणादि वर्णोंका विधान है, और जो इसका प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर कल्पित अर्थ करते हैं उनसे पूछा है कि, आपके अर्थमें प्रमाण क्या है, जो वे० भू० में लिखा है कि इस पुरुषके मुख जो विद्यादि मुख्यगुण हैं सत्य भाषण उपदेश आदि जो कर्म हैं, उनसे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बलश्रीयादि लक्षणयुक्त क्षत्रिय, कृषि व्यापारादि गुण मध्यम उनसे वैश्य, पाद इन्द्रिय नीचत्व अर्थात् जड़बुद्धि इत्यादि गुणोंसे सेवागुण विशिष्ट शूद्र हुआ, इन वाक्योंसे परमेश्वरके विद्यादि गुणोंसे ब्राह्मणादिकी उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसमें भी यह विचार है कि, आपके दर्शनसे यह जीव ईश्वरका अंश ईश्वरसे उत्पन्न है नहीं । अथवा जीव प्रकृति ईश्वरसे पृथक्भूत है आपके मतमें जीव प्रकृति पृथक् २ हैं जो फिर ईश्वरके विद्यादि गुणोंसे जीवोंके विद्यादि गुणोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है, कारणगुणोंसे ही कार्यगुणोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध है । यदि उपदेशके द्वारा जीवमें परमेश्वरने वे गुण उत्पन्न किये ही तो ब्राह्मण मुख है यह उपचार संभव पहला दोष है, उपादानगुणोंका उपादेशगुणोंसे अभेदोपचारके दर्शनमें भी इतरका असंभव है, विद्यादिके उपदेशमें किसीप्रकार हेतुकी संभावना होती भी हो तथापि बल व्यापारादि उपदेशमें हेतुकी गन्ध भी नहीं है, तत्र क्षत्रिय भुजा हैं यह उपचार तो सर्वथा ही असंगत अर्थ है और जड़बुद्धि आदिके गुणोंका शूद्रमें उपदेश हुआ यह तो वद्वत ही विचित्र है, समान उपदेशमें किसीको कुछ किसीको कुछ यह बड़ी विलक्षण बात है, इस भेदका कारण क्या है यदि कहो कि, स्वभावसे ही भिन्न २ गुणोंकी उत्पत्ति है, तो स्वभावही ब्राह्मणादि वर्ण विभागका हेतु होनेसे ईश्वरके उपदेशकी असंगति प्राप्ति होगी, इस समय भी किसी वर्णको ईश्वरका साक्षात् उपदेश



होता है, उन २ गुणोंका ईश्वरके गुणों से जन्यत्व असंभव ही है, इससे यह नवीन अर्थ किसीप्रकार संगतिको प्राप्त नहीं होते इससे जो हमने पहले अर्थ किये हैं वही ठीक हैं । ईश्वरांश होनेसे जीवके वे २ गुण ईश्वरके गुणोंके द्वारा प्राप्त होनेसे यह जीवके गुणोंकी समूहता ईश्वरके गुणोंसे जन्य होनेसे सृष्टिकी आदिमें स्वतःही आरम्भ हुई और उसके आगे पिता पुत्रकी परम्पराके पुत्रादिकोंमें उन २ गुणोंकी उत्पत्ति प्राप्त होती गई, इससे भी वर्ण-विभाग योनिसिद्ध ही है ।

यदि कहो कि, पिताके गुण पुत्र में आते हों यह बात सर्वथा असंभव है, पुत्र और पिताका कार्यकारणभाव शरीरमात्रकी निष्ठावाला है, जीवनिष्ठ किसी प्रकार नहीं है, पिताके जीवसे पुत्रके जीवकी तो उत्पत्ति नहीं है, सो स्थूलशरीरके जो कुछ गुण हैं वह पुत्रादिकों शरीरमें प्राप्त होसकते हैं, परन्तु विद्यादिक शक्तिविशेष तो कभी किसी पुत्रमें नहीं आसकती, इससे तुम्हारा वर्णविभाग योनिसिद्ध सोपपत्तिक नहीं, इसपर कहते हैं-

यह सत्य है कि जीवोंका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है और यह गुण भी वर्णत्वकी प्रयोजकता करनेवाले जीवमात्रमें निष्ठावाले नहीं होसकते, कारण कि, वेदांत सिद्धान्तमें परमात्मा औ जीवात्मा दोनों ही निर्गुण वर्णन किये हैं, इस कारण स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीरोंसे युक्त अथवा तीनों अन्यतम विशिष्ट जीवमें उन उन गुणोंकी स्थिति मानी जायगी । यद्यपि स्थूल शरीरमें ही पिता पुत्रका कार्यकारणभाव मुख्य है, तो भी कस्तूरी लगे कपड़ेके समान उसकी गन्ध सूक्ष्मादि शरीरोंकी शक्ति विशेषसे पुत्रादिकमें अवश्य गमन करती है, यह अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध किसीसे खंडनके योग्य नहीं है, इसीसे 'वाचं मे त्वयि दधानि ' 'मनो मे त्वयि दधानि ' अर्थात्-तुझमें वाणी और मन स्थापन करता हूँ इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ भी संगत हो सकता है, इससे दर्शन तथा मन्त्रद्वारा भी वर्णविभाग योनिसिद्धा है, और मन्त्रोंमें भी वर्णविभागके समय ब्राह्मणादिका वर्णविभागमें उत्कर्ष सुना जाता है यथाहि-

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं  
प्रज्ञेयं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ ( अ० २० । २५ यजु. )  
न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः प्रयतनोरिव । सोमो ह्यस्य  
दायादः इन्द्रो अस्याभिशास्तिपाः ॥ ( अवर्थ अ० ५ । ३८ । ६ )

अर्थात्-जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती हैं, जहां अग्निके साथ देवतां निवास करते हैं उस पवित्र पुण्य-लोकको मैं देखूँ । ब्राह्मणकी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिये यह अग्निके समान पवित्र है, सोम इसका दायाद और इंद्र इसका कल्याण-रक्षक है, इन मन्त्रोंकी आलोचनासे भी वर्णविभाग योनिसिद्ध ही है, गुणकर्ममूलक जाति-भेदमें कोई तो प्रमाण होना चाहिये था । इसके अतिरिक्त 'ब्राह्मणोऽस्य मुखम् । पद्भ्यां

शूद्रो अजायत, न ब्राह्मणो हिंसितव्यः' इत्यादि वचनोंसे स्वयं सिद्ध है कि जातिविभाग योनिसिद्ध है ।

इसके सिवाय शाब्दिक आचार्योंके शिरोमणि महर्षि पतंजलि भी ब्राह्मण वर्णकी जाति योनिसिद्धही मानते हैं । ब्राह्मण शब्दकी सिद्धिके समय वह कहते हैं 'ब्राह्मोऽजातौ' कि, जातिमें ब्राह्मण और अजातिमें ब्राह्मणशब्द होता है, महर्षि कात्यायन भी कहते हैं 'शूद्राचा-महत्पूर्वा जातिरिति, इस वार्तिकमें शूद्रपदको जातिवाचक कहते हुए पुंयोगकी व्यावृत्तिमें जाति ग्रहण करके शूद्रकी भार्या भी शूद्रजाति होती है, यह स्फुट कथन करते हुए जन्मसे ही वर्णविभागकी सिद्धि करते हैं, यह वाचकवृन्द स्वयं ही जान सकते हैं, 'सकृदाख्यात-निर्ग्राह्या' इससे जातिलक्षण वृषलादिमें लेने हुए 'योनिर्विद्याकर्मचेति' इत्यादि पूर्वोक्त स्मृति और मन्त्रोंमें जब वर्णविभाग योनिसिद्ध है तब भाष्यकारादिकोंकी क्या कथा है, कि गुण-कर्ममूलक वर्णविभाग निरूपण करके यदि कहो आचार्योंने यह ब्राह्मणादिमें जातिव्यवहार आरोपण किये हैं, वास्तवमें नहीं तब यह प्रश्न हो सकता है कि यह आरोप किस हेतुवाला है, कहीं सादृश्यके सिवाय आहेंदुक आरोप तो सुना नहीं गया । उन २ कर्मोंसे सम्पन्न बहुतसे ब्राह्मणादिकोंमें बुद्धिपूर्वक जातिके सादृश्य आरोप किया होगा स्वतः ही बिना विचारे आरोपसे तो कोई स्वरसता प्रतीत नहीं होती । जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा यह चार प्रकारकी उपाधि शाब्दिक आचार्य मानते हैं इससे भाष्यकारोंके मतमें भी शब्दोंकी चार प्रकारकी विधि है, यदि कर्मको ही प्रवृत्तिनिमित्तक मानकर ब्राह्मण आदि शब्द प्रवृत्त हों तो क्रिया शब्दत्व ही इनमें संगतिको प्राप्त होगा, जातिशब्दत्व किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होगा । बहुतसे पाचकोंमें यह वचन क्रिया समान बुद्धिको प्रयुक्त नहीं करती; न कोई चित्तवाला पुरुष इसको जाति मानता है तब ब्राह्मण आदिका जातित्व जन्मसे ही सिद्ध होता है यह निर्विवाद सिद्ध है और जो कर्मपरायण लुहारादिमें जातिका व्यवहार है वह भी जन्मपरत्व ही है । इस प्रकारसे श्रुति, स्मृति, उपनिषद् पुराण द्वारा वर्णविभागकी सिद्धि जन्मसे ही सिद्ध होती है यह निष्कर्ष है ।

जो लोग शास्त्रविचारको आगे न लेकर साहसमात्रसे वर्णव्यवस्थापर आक्षेप करते हैं कि, इससे देशको हानि पहुँची है, जैसा कर्म करे उसको वैसा ही समझ लेना चाहिये, इसपर बुद्धिमान् विचारकर सकते हैं कि, इसमें कितनी वर्णकी विशृङ्खलता हो सकती है, एक ही कुलमें कितने वर्णविभाग हो जायँगे और एक ही जन्ममें कितने वर्ण बदलेंगे और फिर वर्णकी कोई व्यवस्था न रहनेसे संकीर्णताको प्राप्त होनेसे वर्णविभाग ही नष्ट होकर जाति ही नष्ट हो जायगी । इतिहासादिके देखनेसे स्पष्ट विदित होता है कि, जिस समय भारतवर्षकी पूर्ण उन्नति थी उस समय यह जन्मसिद्ध जातिविभाग पूर्णरूपसे दृढ हो रहा था, यदि जातिविभागही उन्नतिका प्रतिबन्धक है तो पूर्वकालमें भारतकी उन्नति कैसे थी ? हमारी समझमें तो वर्णविभागकी शिथिलता ही अवनतिका कारण है, जबसे वर्णोंने अपने २ कार्योंमें शिक्षि

हता स्वीकार की उसी समयसे यह जाति परतन्त्रकी श्रृंखलामें बँधकर धर्मकी उदासीनतासे बौद्धादि विविध मत प्रचारका कारणभूत होकर अपना अस्तित्व खो बैठी ।

वास्तवमें विद्यावृद्धिके विना ही जैसा जिसके विचारमें आता है वैसा ही वह कहने लगता है और इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर कोई भी सिद्धान्तका अवलम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कुल परंपरागत जातिविभागको अनुभव करते हुए भी यह लोग इसके त्यागमें उन्नतिका साधन कैसे समझते हैं । फिर दूसरे इस बातका भी विचार इन लोगोंको करना चाहिये कि प्रत्येक वर्णका आहार विहार भिन्न २ प्रकारका है फिर एकके आहार दूसरेके अनुकूल भी नहीं है और भारतीय जन केवल इसी देशके उन्नतिसाधक नहीं हैं किन्तु परलोकमें भी उनका दृढतर विश्वास है, सो प्रत्येक वर्ण अपने विशुद्ध सत्त्वकी रक्षाके लिये और विरुद्ध संस्कारकी निवृत्तिके लिये सांकर्य आहारका सेवन नहीं करते, देशकी प्रकृतिको अनुसरण करके उन २ वर्गकी शक्ति वृद्धिके निमित्त भिन्न २ आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैं । यह बात अप्राकृतिक नहीं है बहुत कह चुके हैं यहां इस कारण विस्तार नहीं करते और विचारनेकी बात है कि, इस प्रकार विवेकशील भारतवर्षमें वर्णविभागकी रीति किसी प्रकार भी काल्पनिक हो सकती, यदि एक ही कुलमें पिता पुत्रादिकोंमें भिन्न वर्णता हो तो उनके आहार विहारकी अनुकूलताका सामञ्जस्य किस प्रकारसे होसकता है ? नये मतके कर्णधार भी इस विषयमें बहुत भूलकर गये हैं, यह तो सोचना चाहिये कि, ब्राह्मण आदिके पुत्र शूद्रत्व आदिको प्राप्त हुए अपने पिताके कार्य किस प्रकारसे निर्वाह करसते हैं, क्या ऐसा होनेपर पुत्रों के विद्यमान होते हुए भी कुलोंके कुल नाश न हो जायगे, मानलो कि किसी ब्राह्मणका पुत्रशूद्रकर्मा होनेसे शूद्रके यहां पहुंचाया गया और उसके घर आने योग्य कोई वैसा कुमार न मिला तो एक वंश तो नष्ट हो गया, ब्राह्मणका वीर्यरज हो तो भी पुत्र शूद्र बन गया, यह वर्णान्तरताकी प्राप्ति तो किसी असम्बद्ध पुत्रोंकी नहीं हो सकती, अपने २ पुत्रों का प्यार किस प्रकार नष्ट होकर दूसरोंमें होगा और यह कैसी समाज-व्यवस्था होगी, कुछ बुद्धिमानोंको आंख खोलकर देखना चाहिये, कुल परम्परासे जो कारण गुण कार्यमें आये हैं, उनको छोड़कर प्रकृतिके विरुद्ध इसका क्या परिणामहोगा, इसपर कुछ विचार तो होना चाहिये था । और जो इसपर यह कहते हैं कि, नहीं बहुतसे पुत्र दूसरे वर्णोंसे मिल जायंगे, जिनमें जैसी योग्यता होगी वैसे कुलोंमें पहुँच जायंगे, इससे जाति-विभाग कर्मसिद्ध मानना ही उचित है और इसमें यह भी लाभ होगा कि जो उच्चवर्णमें जन्म होनेसे ही अपनेको कृतार्थ मान बैठते और श्रेष्ठ कर्म करनेसे विरक्त रहते हैं, यह दुरवस्था भी कर्मविभागसे जाती रहैगी और कर्मकी बात सदा जागती रहैगी, उत्पत्तिमात्रसे अपनेको उत्तम वर्ण होनेका अभिमान और इतर वर्णोंका उत्तम कर्म करनेपर भी अनादर यह बात जाती रहैगी और परस्पर प्रेम बढेगा इस कारण जन्मसिद्ध जाति विभागकी व्यवस्था ठीक नहीं है ।

इस पर हमारा यह कहना है कि, इस समय दुर्भाग्यवश जो यह दोष जातियोंमें प्रवेश कर गये हैं, उन दोनोंको दूर करके मतिमानोंको सनातन पन्थकी रक्षा करनी चाहिये, न कि दोषविशेषकी संभावनासे सनातन व्यवस्थाको ही नष्ट कर देना चाहिये । अव्यवस्थामें बहुत दोष होते हैं, इस कारण उन दोषोंके दूर करनेको व्यवस्था दृढरूपसे बांधनी चाहिये, न कि ऐसा करना उचित है, कि जो कुछ थोड़ा बहुत अवशेष है उसको नष्ट कर देना चाहिये, जिस प्रकारसे समाजके नव्यजनोंको संस्कार अभीष्ट है और वह संस्कार सनातन परिपाटी है इस प्रकारसे वर्णव्यवस्था भी है, दोनों ही दलोंको संस्कारके लिये विशेष करके यत्न करना चाहिये, बिना यत्नके कोई भी संस्कार सिद्ध नहीं होसकता इसीसे यत्नपूर्वक पूर्वकालीन व्यवस्थाके स्थापनाका आदर करना चाहिये न कि जो उसकी स्थिति है उसको दूरकरके नई व्यवस्थाके स्थापनाका द्रुना भार अपने शिरपर उठाया जाय, पूर्वसिद्ध व्यवस्थाके प्रचारमें अपने २ धर्मके अवलम्बनसे अवश्य ही उन २ कुलोंमें योग्य सन्तान उत्पन्न होंगे । उपपत्तिसिद्ध जो प्राकृतिक नियम हैं, उनके व्यभिचारसे अवश्य दोषकी प्राप्ति होगी, इस समय ब्राह्मणोंमें दृढ अपनी शक्तिके संस्कार नहीं हैं, इससे पुत्रादिकोंमें उनका विकास नहीं होता । परन्तु इस दुरवस्थामें भी बहुतोंके कुलसंस्कार विद्यमान हैं और देखे भी जा चुके हैं, जो जिन वर्णोंके कर्म हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये इसपर हमारे शास्त्रोंने बहुत बल दिया है यथार्थ धर्मके प्रचारमें इस कर्मालस्य दोषका सम्पर्क भी नहीं हो सकता और यदि कर्ममें आलस्य करनेवाले इस निन्दारूप पराभवको प्राप्त भी हों तो भी यह शास्त्रके अनुकूल ही हैं । परन्तु इस पराभवसे यथार्थ सिद्ध वर्णोंकी व्यवस्थामें वर्णोंकी परस्परमें विद्वेषरीति प्रचलित नहीं होसकती, कारण कि, उनका यह विश्वास है कि, ईश्वरने हमको जिस वर्णमें उत्पन्न किया है उसीके अनुसार कर्म करना चाहिये, उनके सन्तोषके लिये बहुत है, इससे दूसरे वर्णोंके साथ उनको ईर्ष्या भी नहीं होसकती, हां व्यवस्था न होनेसे विद्वेषका मूल यह ईर्ष्या उठ खडी हो सकती है, इस कारण ईश्वरने जिन वर्णोंमें जिनको उत्पन्न किया है उसमें सन्तोष मानकर अपनी और अपने जातिभाइयोंकी उन्नतिमें तथा विद्यावृद्धिमें, ईश्वरभक्तिमें सद्गुणोंके विकासमें सबको दृढ यत्न करना चाहिये, उत्तम वर्णोंको भी अपने अधीन इतर वर्णोंके साथ सौहार्द दिखाना चाहिये, प्रेम और सौहार्द दिखानेकी बहुतसी रीति हैं, एक साथ भोजन कर लेनेका नाम सौहार्द नहीं है और दूसरे वर्णोंके साथ घृणा प्रकाश करना भी शास्त्रका नियम नहीं है, जिन चरणोंसे शूद्रकी उत्पत्ति है भगवान्के उन्हीं चरणोंको समस्त वर्ण प्रणाम करते हैं, तथा उन्हीं चरणोंसे निकली गंगाजीमें सब कोई स्नान करते हैं, इससे अपने अपने कार्यमें समस्त वर्ण मुख्य हैं, इस कारण किसीको किसी वर्णके साथ विद्वेष वा घृणा प्रकाश करना बहुत ही अनुचित और अन्याय है । कारण कि, समस्त सृष्टि भगवान्की है, इससे एक दूसरेको प्यारकी दृष्टिसे देखना चाहिये और वह दृष्टि इस वेदवचनसे लेना चाहिये कि—

## ‘मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे’

अर्थात्—मित्र देवताकी दृष्टिसे सारे संसारको देखें सबके साथ प्रेमका वर्ताव करें ।

इस प्रकारसे वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें जो शंका इस समय उठ रही हैं उनका निरास करके हम इस समय चारों वर्णोंके जातिभेद जितने कि हमको प्राप्त हुए हैं लिखनेमें प्रवृत्त होते हैं । हमने इस ग्रन्थको चार खंडोंमें विभक्त किया है और एक एक वर्णके जितने भेद हमको मिले हैं वह क्रमशः ब्राह्मणादि खण्डोंमें प्रकाशित किये हैं, वैश्यखण्डके पीछे कुछ जातियोंका वर्णन दूसरे लोगोंकी सम्मतिपर लिखा है । इसमें जबतक उन जातियोंके विषयमें ऐकमत्य न हो तबतक वे विचारकोटिमें रक्खे गये हैं । कारण कि, इस समय प्रायः बहुतसी जातियें अपनेको ब्राह्मण वा क्षत्रिय कहलानेकी अभिशाषायें कर रही हैं, उन्होंने जो कुछ अपनी वंशावलियोंमें खेंचातानी की है उसका आभास भी हमने पाठकोंके सामने रख दिया है, विद्वान् लोग देखकर सत् असत्का विचार कर सकते हैं । चतुर्थ खण्डमें शूद्र सब वा सब संकर जातियोंका ही उल्लेख नहीं है उसमें भी दो चार जाति आभीर मेदू स्वर्णकारादि विचारकोटिकी हैं, हमने किसीको अपनी ओरसे कुछ नहीं कहा है केवल जिन वंशालियोंमें प्रमाणोंके अर्थ उलट फेरसे किये हैं जिनसे सर्व साधारणमें भ्रम हो जानेकी संभावना है उनके अर्थ शास्त्रमर्यादाके रक्षणके निमित्त यथार्थरूपसे कर दिये हैं । इसके ऊपर यदि किसी जातिके लोग अपने पुष्ट प्रमाण हमारे पास भजेंगे हम उनको दूसरी वारमें अवश्य लमादेंगे, हम किसी जातिकी उन्नतिमें बाधक नहीं हैं वे अपनेको जो चाहें सो कहें परन्तु जब शास्त्रके प्रमाणकी बात होगी तब हमको यथार्थ कहनेमें संकोच न होगा । इस समय ब्राह्मणोत्पत्ति-मार्तण्डमें बहुतसी ब्राह्मण जातियें लिखी हैं पर उसमें बहुतसी उत्पत्ति जनश्रुतिके आधार पर हैं बहुत ऐसी हैं कि, जिन ग्रन्थोंका पता उसमें लिखा है उन ग्रन्थोंमें वही नहीं मिलता है पर जाति पाई जाती हैं, इससे हमने भी उसमेंसे अनेक जातियें ली हैं । प्रथम दशविधि ब्राह्मणोंका उल्लेख करते हैं ।

**सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा उत्कलमैथिलाः । पंच गौडा  
इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥**

सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड, उत्कल, मैथिल यह पांच ब्राह्मण विन्ध्याचलके उत्तरमें निवास करते हैं । ( इत्युपोद्घातः )

**ब्राह्मणखण्डः ।**

**सारस्वतब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ।**

दशप्रकारके ब्राह्मणोंमें सारस्वत जाति पंजाब देशमें प्रसिद्ध है और वहीं इनका विकास भी विदित होता है, जिस प्रकार अन्य ब्राह्मण देशके नामोंसे विख्यात हुए हैं इसी प्रकार

सारस्वतीतीरवासी सारस्वत देशमें रहनेवाले ब्राह्मण सारस्वत कह जाते हैं । ( वायु पुराण अ० ४ खं० २ ) में लिखा है—

जनयामास पुत्रौ द्वौ सुकन्यायाश्च भार्गवः । आत्मवानं  
दधीच च तावुभौ साधुसम्मतौ ॥ सारस्वतः सरस्वत्यां  
दधीचाच्चोपपद्यते । भारुकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वतै-  
स्तथा ( मत्स्यपु. अ. ११४ श्लो. ६० )

भगु महार्षिकी स्त्री पुलोन्नकी कन्या पौलोमीको जिस समय पुलोमा राक्षस ले गया तब भयके कारण उसके आठ महीनेका गर्भपात होगया, गर्भच्युत होजानेसे ही वह बालक च्यवन कहा गया, उस बालकके तेजसे वह दैत्य तत्काल भस्म हो गया । इन च्यवन ऋषि की दूसरी पत्नी ( राजा शर्यातिकी कन्या ) से दधीच ऋषि उत्पन्न हुए । इनके पुत्रसारस्वत सरस्वती नदीमें उत्पन्न हुए, बासक दक्षिणका देश है । दूसरे सारस्वत नर्मदाके समीप भारुकच्छ, समाहेय और सारस्वत यह विन्ध्याचलके समीपके देश हैं, और श्रीहर्षचरित्रके आरंभ में लिखा है कि ब्रह्मलोकमें एक समय दुर्वासाके मुखसे कोई शब्द अशुद्ध निकल गया उस पर सरस्वती हँसी तब दुर्वासाने शाप दिया कि तুম मर्त्यलोकमें मानुषी हो, तब सरस्वती मानुषी होकर दधीचसे विवाही गई उसकी सन्तान सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुई । स्कन्द उपपुराणके हिंगुलाद्रिखण्डकी उत्तरसंहितामें लिखा है कि सिन्धु देशमें हिंगुल तीर्थके समीप दधीच ऋषिका आश्रम था । वहाँ सिन्धुनदी और सामरका संगम है तथा अनेक तीर्थ हैं । एक समय पृथिवीतलमें वर्षा नहीं हुई तब देवताओंने भूलोकमें आकर सरस्वती नदीके समीप सारस्वत तीर्थमें यज्ञानुष्ठान किया और एक कलशमें सौत्रामणि अमृत रक्खा और सरस्वती देवी की स्तुतिकी उस समय सरस्वतीने प्रत्यक्ष रूपसे दर्शन दे वर मांगनेको कहा तब देवता बोले—

भिषजोर्हसगागर्भात्पुत्रो भवति निश्चितम् ।

कि अश्विनीकुमारके वीर्यसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तो उसके द्वारा वर्षा होगी तब सरस्वतीने लज्जित हो कहा यदि अपना भाग और बल ब्रह्माजी अश्विनीकुमारको दें तो ऐसा हो सकता है । यह स्वीकार होनेपर अश्विनीकुमारने प्रसन्न हो देवीसे रमण किया और सरस्वतीके गर्भ रहा परन्तु छठे महोने वह गर्भस्त्राव हो गया जिससे देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई, ब्रह्माजीने अपने हाथमें वह गर्भ ले सौत्रामणि कलशमें धरा और सरस्वतीको दिया सरस्वतीने जलमें जाकर उस गर्भको देखा तो उस गर्भके दो रूप दीखे तब देवीने सोचा कि, इसमेंसे एक देवताओंको दूँगी और एक मैं रक्खूंगी, सौ वर्षमें वह गर्भ पुष्ट

हृवा और देवीने जो तटस्थ दृष्टिसे पुत्रको देखा तो वह लालरंग होगया, वेदमें यही लोहितेन्द्र नामसे विख्यात है, देवता वृष्टिके निमित्त इसको स्वर्गमें लेगये ।

### मन्नाम्नाप्यपरः पुत्रः सारस्वतदधीचकः ।

तव देवीने कहा यह दूसरा पुत्र मेरे नामसे सारस्वत दधीच कहावैगा, ब्रह्माजीने भी वरदान दिया है कि—

अयं पुत्रो दधीचस्तु सारस्वतकुलाधिपः । भविता मृत्यु-  
लोके तु ऋषीणां कुलपालकः ॥

यह पुत्र सारस्वत कुलका प्रवर्तक ऋषियोंका पालक होगा । वेदमर्ता आतृकर्ण्य ऋषि कर्त कन्यासे दधीचका विवाह हुआ फिर दधीचकी सन्तान बहुत हुई उनमें कुछ मुख्योंका वर्णन करते हैं । ब्रह्म, दाल्भ्य, जैमिनि, ताण्डव, दिकपाल, दक्ष, प्राची, कण्व, दाक्षायण, गोपाल, शंख, पाल, शाकिनी, शांभव, नंदी, आदी, समलाशरै, शक्ति, पातंजलि, पालाशी, गोमय, दीपदेव, निष्णुक, रुद्र, क्षेत्रपाल, सुसिद्ध, अपर, पर, धर्म, नारायण, तिमिर, धमिण, तैत्तिर, दुर्दुर, जमदग्नि, लगत, कपालि, सभ्यक, सुदर्श, शिशुमारक, च्यवन, शुकक, चन्द्र सुचन्द्र, मानद, आकन्दक, नन्द, मानक, मानसा, चंपक, व्यास, पिप्लाद, अघातुक देवल, घृतकौश्य, सूर्य, मर्क, अज, भैरव, कृष्णात्रि, विश्वपालक, नरपाल, तुम्बरु, तुलसि, वामदेव, वामनाकारक, ब्रह्मचारी, ब्रह्म, भैरव, नरकपालक, बक, दाल्भ्य, सुपुव, कपि यह अष्टासी ऋषि हुए हैं । सो ऋषि गोत्रोंके प्रवर जानना । गांग और सांस्कृति यह क्षत्रियोंके गोत्र जानने, अंगिरा गोत्र भी है । ब्रह्मक्षत्रियका दायद सुहोता हुआ इसका ज्येष्ठ पुत्र, सारस्वत कुलमें हुआ, दधीचके मालिनी, केशनी धूमिनी तीन कन्या हुई यह वंशानुवंश गोत्र बहुत चला ।

### सारस्वतकुलोंके अवटंक आदिका वर्णन पञ्चाजाति ।

आढ्यकुल अढाई घर ।

१ उपनाम गोत्र प्रवर वेदपूर्वशब्द १ कुमडिये जामदग्न्य-भार्गव च्यवन वत्स । आप्नवान् और्वे जामदग्न्य यजु० कुमारीयवाकुमारोपासक

२ जैतली गौतमवात्स्य । अंगिरस गौतम औसनम् ३ जैत अर्थात् कुलपृक्ष जयन्तीसे

३ झिंगण भारद्वाज अंगिरस बार्हस्पत्य झंगण ।

४ तिव्खे पाराशर वशिष्ठ शक्ति तुत्सु पराशर ३.

५ मोहले सोमस्तम्भ काश्यप अवत्सार नैध्रुव मुशल ।

चार घर ।

कुमडिये, जेतली, झिंगण, तिकखे, मोहले यह चार घर भी कहाते हैं गोत्रादि ऊपर लिखे हैं ।

तीसरी श्रेणी ।

तुमडिये, ( कुमडिये ) पेतली, ( जेतली ) पिंगण ( झिंगण ) पिकखे ( आंडले तिकखे ) मोहले ( मोहले ) गोत्रादि पूर्ववत् यह चार घरोंके नामान्तर किसी कारण कुछ न्यूनता किये हैं ।

अन्य उक्षम श्रेणी ।

वग्गे	प्रभाकर	परदल	श्यामपोतरे	भटूरिये	दत्त	चूर्णा	भोजेपोतरे
कालिये	झिब्वर	अर्णा	धन्न धन्न	पोतरे	मालिये	वाळी	शेतपाल
कपूरिये	वैद्य ( वारी )		खेतुपोतरे	नेत्रले	लव	कलिये	सिंधुपोतरे
रावडे	मुह्याल	प्रभाकर	वदेपोतरे	चूनीवालम्ब	मोहन	लखनपाल	द्रुवडे
सर्वलिये	"	ऐरी	गैधर	पंडित	पंडित	नाम	वखतलाडली
२ ( अष्टवंश )	पाठक मन्नन		शामादासी	२ सण्ड	ठंडे	भवी	पुश्रत
३	पाठक गड्डरे	पत्ती	भारद्वाजी	४ कुरल	ढौंकच	चित्रचोर	काठपाल
५	भारद्वाजी	छकडे	शारद घोरके	६ जोशी		अजपोत	पुकरणे
७	शोरी सज्जरेपुंज	मनोत	सिन्धुपाल	८ तीवाडी वन्दू		९ मरूढ	न्यासी

वायन जाई ।

अभिहोत्री	अग्रफक	आचारज	अल	अंगल	आरी	ईसर	ईसराज
ऋषि ( रिखि )	ऐरे	ओगे	कपाल	कुन्दि	कलन्द	कुसरित	कपाले
कुण्ड	कण्ड्यारे	कलि	काई	पल्हण	कर्दम	करडम	किरार
कुतवाल	कुररपाल	कलस	कुच्छी	कैजर	कोटपाल	कारडगे	काठपाल
खटवंश	खेती	खोरे	खिन्दडिये	गंगांहर	गांदर	गांधे	गजेस्
गन्दे	गांधी	गुटरे	घोटके	चनन	चित्रचोर	चुनी	घकपालिये
चवभे	चितचोट	चन्दन	चूडामन	जालप	चूनी	चूखन	छिब्वे
जालपोत	जोतशी	जक्की	जैठके	जयचन्द	जोति	जंलप	जसक
डिडूडि	जठरे	जचरे	झमाण	बेले	टाड	टगले	टनिक
तिवाड	ढगले	ढंगवाल	ठंडे	तिवाडी	त्रिपाणे	तेजपाल	तिनूनी
तल्लण	तोले	तोते	तिनमणी	दंगबल	तगाले	तंगणावते	दगाले
धायी	दिद्रिये	दवेसर	ढुबारे	नारद	धम्मी	धिन्दे	नाहर
प्रभाकर	नाभ	नाद	पराशर ।				

इस वंशसे ज्वार सत्तकवंश जिले हुशियार प्रचलित हुआ है लगभग ४०० वर्ष हुए जुएमें जीतनेसे ज्वार कहाया, अब इस ग्रामका नाम रामटटवाली है ।



पाधे ( पांघे )	पंजन	पाल	पुंज	पधि	पलतू	पुजे	पट्टू
परींजे	पंढे	पांढे	पिपर	पन्व	पठल	पठरू	पुच्छरतन
ब्रह्मा	वाहोये	ब्रह्मसुकुल	बटूरे	विजराये	विवडे	बन्दू	भाखरखोरे
भाखारी	भारद्वामी	भारथे	भिंढे	भूत	भणोत	भटरे	भाजी
भम्बी	भोग	भागी	भटेर	मज्जू	मोहन	मकावर	मन्दार
मरूद	मसोदरे	मन्दहर	मैत्र	मदरखम्भ	मेडू	मेहद	मच्छ
महे	मुसतल	मण्डहर	मधरे	यम्य	रतनपाल	रूपाल	रनदेह
रति	रमताल	रतनिये	रूथडे	रांगडे	लखनपाल	लालडिये	लकडफाड
लालीबच्चे	लुद्र	लडूद्र	लाहद	लुध	विनायक	वामुदेव	वशिष्ठ
विरद	व्यास	बटेपोतरे	विरार	श्रीखर	श्रीडट्टेवासुदेव	शेतपाल	शालिवाहन
सीढी	संगद	संधि	सूरन	सूदन	सहजपाल	सनखोतरे	सोयरी
सणवल	सैली	संगर	सांग	सुन्दर	सट्टी	हरद	हांसले
सधीर	हरिये	हरी	हंसतार ।				

यह जाति लाहौर अमृतसर प्रान्तसे गुरुदासपुर, वटाला, जलंधर, मुलतान, लुधियाना, उच्च, झङ्ग और शाहपुर तक निवास करती हैं। इनके सिवाय दत्तारपुर होशियारपुरके पृथक् हैं। जम्बू जसरोटाके डोगरे सारस्वत, तथा कांगडके सारस्वतोंमें अल्लसे ही जाति-विभाग माना है, नवीन नाम निकासके देशोंके अनुसार ही प्रायः पाये जाते हैं। इन, नेवले, रावडे, आदि पांच जातोंमें चूनी नहीं लिये गये हैं, इनके पहलेमें लम्ब हैं, दत्त और प्रभाकर दान प्रतिग्रह नहीं लेते, वगोभट्टारियोंकी पञ्जाजातिकी कन्या पञ्जाजातिमें ही व्याही जाती हैं, पर इस समय नेवाले, रावडे, सरवलिये पंडित और चूनिये भी वगोभट्टारियोंकी पञ्जाजातिमें कन्या देते हैं, अष्टवंश अपनी ही आठों जातिमें विवाह करते हैं, ऐसा ही होना चाहिये, जब तक समान कुलके व्याह होते रहेंगे वंश बने रहेंगे।

दत्तारपुर होशियारपुरके सारस्वतोंकी उत्तम श्रेणी ।

खजूरिये दुबे डोगरे पाधे घोहसनिये पाधे खिंदडिये पाधे ढोलवालवैये  
पाधे ददिये लखनपाल सरमायी

दूसरी श्रेणी ।

अल	कमाहटिये	कुटलैडिये	कालिये	गदोतरे	चपडोहिये	चिवभे	चंधियल
चिरणोल	छकोतर	जलरेथ्ये	जुआल	झुम्मुटियार	झोल	स्वाहाये	डोसे
ताक	ताडी	थानिक	दगड	दल्लोहल्लिये	पटडू	पन्याल	पंडित
बाधले	भरधियाल	भटोल	भसूल	भदोये	भटोहये	भटरे	मकडे
मुचले	मदोदे	मिश्र	मैते	भिरट	मुकाती	रजोहद	लाहद
लाठ	लई	बंटडे	श्रीधर	शारद	समनोल	सेल	संड

जम्बूजसरोटा प्रान्तकी उत्तम श्रेणी ।

मगोतरे ढप्पे वंभवाल सपोलिये पाधे केसर दवे मोहन खजूरेप्रोहत  
नाघ लब छिब्वर वढयाल लट बैद्य वालिये जम्बुआलपंडित ।

मध्यम श्रेणी ।

अधोत्रे पराशर मिश्र सप्नोत्रे कटोत्रे बड मस्रोत्रे सुध्रालिये  
कश्मारी पंडित वनालपाधे रैगे सुदाथिये केर्णिये पंडित वनगोत्रे ललोत्रे पन्धोत्र  
टगोत्रे भगोत्रे विरहानोच महिते भरैड सतोत्रे पुरोच ।

तृतीय श्रेणी ।

उपाधे गराडिये धरिऔच भरंगोल उदिहल घोडे धमानिये भलोच  
उत्रियाल धम्मे नभोत्रे भैनखरे कलंपरी चरगांट पटल भूरिये  
किरले चन्दन पिन्धड भूत कुन्दन चकोत्रे पृथ्वीपाल मुण्डे  
क्रीडे छछियाले पलाधू मरोत्रे कमनिये जलोत्रे पंगे मगडोल  
कम्बो जखोत्रे फनफण मनसोत्रे कुडिदव्व जरड वगनाछाल मगदियालिये  
कर्नाठिये जरंधाल वसमोत्रे माथर कठियाल जड वरात महीजिये  
कानूनगो जम्बे वढकुलिये मधोत्रे कालिये ऊनगोत्रे चाल्हा मखोत्र  
कफनखो शिन्धड वनोत्रे मच्छर खडोत्रे शरू ब्रह्मिये यन्त्रधारी  
खगोत्रे ज्ञावडू वरगोत्रे रजूलिये खिदडिये पाधे शाफाडू वच्छल रजूनिये  
गौडपुरोहित ठकुरेपुरोहित वटयालिये रतनपाल मशोच ढडोरिच वधोत्रे रोद  
गुहलिवे तिरपद वहल रेडाथिये गुड्डे यमनोत्रे विसगोत्रे लाडञ्चन  
गोकुलियेगुसाई थन्मथ बुधार लव्वनपाल गरहन दव्व वणदो लवादे  
गन्धरगाल दुहाल भूरे लभोत्रे शशगोत्रे सांगडे सशेच सेनहसन  
सूदन सुर्नचाल सरमाथी सुहण्डिये सुक्खे सिरखडिये सुयडे सोल्हे  
संगडोल सख्खण सिगाड सागुणिये सणाढोच ।

कांगडेके पहाडी सारस्वतोंकी प्रथम श्रेणी.

आचारिये ओसदि कसदु दीक्षित नाग पण्डित कश्मीरी पञ्चकर्ण मिश्रकश्मारी  
मदिहारी राइणे सोत्रि वेदवे ।

द्वितीय श्रेणी ।

खजूरे सुख्ख गलकढ गुटरे चिथू चलिवाले छुतवन डुम्रे  
डांगमार देहैडी धामुडू पनयाल पम्बर पोतअडोटोटोदिये पाधेसरोज पाधेखजूबू  
पाधेमहिते मनवाल मंगरुडिये मैते रक्खे रम्बे विष्टप्रोत । ”

अब हम थोडासा विवरण भी देते हैं । कुमडिये सारस्वतोंका शुरू यजुर्वेद, माध्यन्दिनी

शाखा, उपवेद धनुर्वेद, सूत्र कात्यायन, सारस्वत देश, सरस्वती नदी, बिल्व वृक्ष, कुलेश बाबा जयजय कुमार, पूज्य कार्तिकेय, औशनस तीर्थ है। जेतली अंगिराके गणमें गौतमवंशकी औशनस शाखामें कहे जाते हैं, (मथुरावृत्ति-श्रीगोकर्णेश्वर मन्दिरस्थ महामहेश आत्म-कुलदेवता) पञ्चाजातीय कुलदेवतार्चनपद्धतिमें लिखा है यह मथुराप्रांतके निवासी रहै, नीलरुद्र इनके उपास्यदेव हैं, अयन्तीशमीवृक्षका इनके यहाँ पूजन होता है इसको जंड भी कहते हैं, इस कारण इसके उत्सवको इस समय जंडी कहा जाता है सिंगणसारस्वत परमर्षि अंगिराकी भारद्वाजशाखामें हैं, इनका वेद शु० यजु० है, ज्ञ नाम बृहस्पतिका है ज्ञगण भारद्वाज ही ज्ञिगण नामसे प्रसिद्ध हैं, मांघ्यन्दिनी शाखा है, कुलदेवकी भाटियानी चण्डिका भवानी, भह गौतम नाई मेढा धर्मा गौतमभइ ही, असीरपूरीनां, रुवावी जवारी, सन्ने और टंडन यजमान, सतीदी निकास, ज्ञिगण भारद्वाजमें वावा पैडीके थंभमें सर्व ज्येष्ठ अचू, मध्यम नत्थू और कनिष्ठ सहोदर गौतमसे अचूपोतरे, नत्थूपोत्रे और गौतम पोत्रे यह तीन शाखा उत्पन्न हुई, गुसाई वावे और व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई। इनकी कुलदेवीकी मूर्ति भट्टके घर रहती है डाउडदेव सर्पमूर्त्तिका पूजन होता है, कहते हैं इस कुलमें किसी स्त्रीके गर्भसे सर्प जन्मा था और वह शान्तभावसे उसी घरमें रहता था, एक दिन नई आई हुई बधूने दुअश्रियां चूल्हमें आग बाल दी और वह सर्प भस्म हो गया। तबसे इनमें दुअश्रिया चूल्हा नहीं बनता सर्पकी पूजा होती है, नत्थूपोत्रे ज्ञिगणोंमें विहारी गुसाईके पुत्र मिश्र मूलचन्द्रजीसे कक्कांडवाले ज्ञिगणोंकी वंशावलीका आरम्भ होता है, मात कोरी और विवा चन्द्रतपा इनके कुलपूज्य हैं।

तिकवे महर्षि वशिष्ठके कुलप्रसूत हैं, सम्भव है तृत्सू शब्द जो वसिष्ठगणोंके सम्बन्धसे ऋग्वेद संसममण्डलके (उदद्यामिवेत् + +) तृत्सुभ्यो अकृणोदुलोकम्) मन्त्रमें आता है उससे बिगड कर तिकवा शब्द बना हो और तीखा स्वभाव इनका रहा हो, इस वंशमें बटके सात पत्रोंको सालके टुकड़े लपेट कर शुभकार्यमें पूजन करते हैं। वटवृक्ष ही इनका कुलेश, वीर माता कुलपूज्या है, वटवृक्ष शालोंमें संकररूपसे माना है (रुद्ररूपी वटस्तद्वत्) पद्मपु० इनके यजमान तालवाड हैं, इनके गोत्रादि पूर्वलिखित अनुसार हैं। इनकी शिखा दक्षिण तुर्क भट्ट, तामसी नाई, ततिला मिरासी, तेजपाल असारत धर्म विदित नहीं। उज्जे उज्जे पहावन्दे आडुडै आदि इनके कुलोंकी अल्ल हैं।

मोहले यह पञ्चाजातिम तटसे मिलाये गये हैं जबसे पम्बू इस जातिसे पृथक् किये गये हैं। कहते हैं कि पंचाजातिकी पंचायतके समय जब यह विचार होरहा था कि पम्बुओंको निकालकर किसको ग्रहण करें, उस समय कोठेसे एक मूसल अकस्मात् गिर पडा, पंचोनि इस घटनाको देखी समझकर मोहलोंको पंचाजातिमें ग्रहण किया कारण कि पंजाबी भाषामें मूसलको मोहला कहते हैं, मोहलोंका सोमस्तम्ब गोत्र है और स्तम्बशब्द जिसके अन्तमें आता है उसको द्रामुष्थायण वा दो कुलोंकी सन्ततिमें गिना जाता है। पुत्रिका पुत्र कृत्रिम

दत्तक आदि द्वाभ्युध्यायण कहे जाते हैं । प्रवर इनके लिख दिखे हैं, यह भरद्वाज नहीं हैं इन मोहले सारस्वतोंके यजमान शैगल खत्री हैं यह शैगल ही छागल्य हैं इसमें सन्देह नहीं । इनके तीन थम्भे हैं दिलवालिये सिरन्दिये और गुजरातिये । परन्तु यह देशानुसार नामान्तर हैं थम्भे नहीं हैं, गुदराल, भिरासी, चण्डी दास भट्ट और मेढा नाई, इनकी वृत्ति कमाते हैं ।

यद्यपि पम्बू इस समय पञ्चाजातिमें सम्मिलित नहीं हैं परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र है, चौजातीके कुलीन कपूर क्षत्रियोंकी यजमानी वृत्ति भी इनके हाथसे जाती रही है । पम्बू-संज्ञा पंवरानप्रदेशके निकास कारणसे प्रसिद्ध हुई है, यथार्थमें यह भी वसिष्ठकुलके कहे जाते हैं, इनकी कुलदेवी भगवती चण्डिका ईशपूज्य माता कही गई है । इनका महोत्सव वैशाखशुक्ल नवमीको होता है । इनकी दक्षिण शिखा, भट्टमाहल नाई मेढा है । इनके खोती पोतरे, मनोहर पोतरे और सरन पोतरे यह तीन थम्भे हैं ।

सारस्वतोंमें वामन जाइयोंकी जाति संज्ञा अनेक प्रकारकी है और वे अपने २ नामोंसे विख्यात हैं । अष्टकुलवाले अष्टवंश, षट्त्रिंशत्जातिवाले खिजाति और बारहजातिवाले बारी नामसे कहे जाते हैं । इस जातिके अनेक भेद और विस्तार होगये हैं, जिनका वर्णन उनकी क्लृप्त-चलीमें विशालरूपसे दीखता है । पर वास्तवमें ब्राह्मणोंकी जो शाखा सारस्वतीके किनारे सारस्वत देशमें बसी बही सारस्वत ब्राह्मणोंके नामसे विख्यात हुई ।

अब सेणवी सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं—सद्वाद्वि खण्डमें लिखा है कि जब परशुरामजी तीर्थयात्राके निमित्त शूर्पारक क्षेत्रमें आये और वहाँ श्राद्ध करनेकी इच्छा की तब बुलानेसे वहाँके ब्राह्मण नहीं आये, उस समय परशुरामने भारद्वाज, कौशिक, कृत्स, कौण्डिन्य, कश्यप, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि इन दश ब्राह्मणोंको श्राद्ध कक्षा-दिमें भोजन व्यवहार चलानेके निमित्त त्रिहोत्रदेशके पंचगौडान्तर्गत सारस्वत ब्राह्मणोंको मठ-ग्राममें, कुडुलांतमें, केलोशी और गोमांचल इत्यादि स्थानोंमें स्थापन किया । इनकी कुल-देवता मंगेश महादेव; महालक्ष्मी, ह्यालसा, शांता दुर्गा, नागेश, सप्तकोटेश्वरादिक हैं । इन दश ब्राह्मणोंके छायासठ कुल थे, उनमेंसे कुशस्थली, केलोशी इन दो क्षेत्रोंमें कौत्स, कृत्स्य और कौण्डिन्य इन तीन गोत्रोंको दश दश कुलसहित स्थापित किया, यह सब ऋष मुण सम्पन्न थे, और मठग्राम वरेण्य ( नाखे ) अम्बूजी और लोटली मिलके इन चार ग्रामोंमें छः कुल स्थापित किये । चूड़ामणि मयाक्षेत्रमें दशकुल तीन तीन देवताओंसे युक्त स्थापित किये । दीपवतीमें आठ कुल स्थापित किये, गोमांचलके बीचमें बारह कुल स्थापित किये, इस प्रकार छायासठ हुए । इनमें साष्टीकर पहला भेद और सेणवी दूसरा भेद है, तीसरा भेद-

**प्रथमस्तेष्वयं भेदः साष्टीकर इतीरितः । साणवात**

द्वितीयस्तु भेदस्तेषामुदाहृतः ॥ तथा च कोंकणा इत्थं  
भेदाः सन्ति ह्यनेकशः ।

कोंकण भी कहाते हैं, अब इसका कारण कहते हैं । कर्णाटक देशमें मयूरवर्मा नामक एक राजा था उसका पौत्र शिखिवर्मा इसने सारस्वत ब्राह्मणोंको छन्नूग्रामका अधिकार दिया, इस कारण शास्त्रमें छन्नू अंकका नाम षण्णवती है इस कारण षण्णवी उपनाम श्रेणवी हुआ है ।

अधिकारं षण्णवतिग्रामाणां च ददौ किल । एतद्ग्रामाधि-  
कारञ्च षण्णवीत्युपनामकम् ॥

कोंकण देशमें रहनेसे कोंकण नामवाले कहे गये हैं ।

दूसरी प्रकारकी उत्पत्तिका विस्तार ।

एक समय रामचन्द्रजी हिंगुला देवीका दर्शन करने गये तब वहाँ लक्षब्राह्मण भोजन करानेके संकल्प किया पर उस समय वहां ब्राह्मण न थे चोरोंके भयसे भाग गये थे, उस समय सरस्वती देवीका स्मरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगट हुई और रामसे मन-इच्छित मांगनेको कहा तब रामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंके निमित्त सरस्वतीसे कहा, सुनते ही सरस्वतीने पृथिवीमें अपने हाथ धिसे उसी समय पृथ्वीसे १२९६ बारसौ छानवे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, सरस्वतीसे पैदा होनेसे सारस्वत कहाये ।

सारस्वतास्तदोत्पन्ना दीप्तपावकसन्निभाः । त्रयोदशशतं  
तेषां दीप्तपावकसन्निभान् ॥

इसप्रकार उनको भोजन और सुवर्णदान देकर रामचन्द्रने अपना व्रत समाप्त किया और वे ब्राह्मण सारस्वत नामसे पृथिवीमें विख्यात हुए और चारों दिशाओंमें निवास करने लगे, इनके यजमान लवाणा क्षत्रिय हैं ।

अथ नर्मदोत्तरवासिसारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

महाभारत गदापर्वके तीर्थयात्रा प्रसंगमें लेख है कि, दधीच ऋषि बड़े तपस्वी थे उनकी तपस्या ढिगानेके निमित्त अलंबुषा अप्सरा भेजी ऋषि सरस्वती नदीमें स्नान कर रहे थे अप्सराको देखकर सरस्वती नदीमें उनका वीर्य स्वलित हुआ, वह वीर्य सरस्वतीकी अधिष्ठात्री देवीने ग्रहण किया और नौ महीने पीछे जब गर्भसे बालक जन्मा तब सरस्वती उस बालकको लेकर ऋषिके पास आई और सब वृत्तान्त सुनाया, ऋषिने बड़ी प्रसन्नतासे उस पुत्रको ग्रहण करके कहा—

मम प्रियकरं चापि सततं प्रियदर्शने । तस्मात्सारस्वतः पुत्रो

महांस्ते वरवर्णिनि । तवैव नाम्ना प्रथितः पुत्रस्ते लोकभा-  
वनः । सारस्वत इति ख्यातो भविष्यति महातपाः ॥

हे प्रियदर्शने ! जिससे कि तैने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महा-  
त्तपस्वी सारस्वत विख्यात होगा, वह पुत्र लेकर ऋषिने पालन किया और सब विद्या  
सिखाई कुछ कालमें इन्द्रदेवने दधीच ऋषिसे वज्र बनानेको उनके शरीरकी अस्थि मांगी  
ऋषि अस्थि देकर सायुज्यको प्राप्त हुए, पीछे बड़ी अनावृष्टि होनेसे वहाँके ऋषि इधर  
उधर गमन करने लगे, उस ममय सारस्वत मुनिने भी जानेकी इच्छा की तब सरस्वतीने  
उन्से कहा तुम कहीं मत जाओ तुम्हारे निमित्त भोजनका प्रबन्ध यहीं करूंगी, यह सुनकर  
ऋषि वहाँ ही रहे पीछे अनावृष्टि दूर हुई और सब ऋषि एकत्र हुए परन्तु वेद भूल गये थे,  
सारस्वत मुनिने उन सबको वेद अध्ययन कराया, ऐसे साठ सहस्र ऋषि सारस्वत मुनिके  
बालक हैं, वे सबही सारस्वत नामसे विख्यात हुए, परन्तु आदिमें जो ब्राह्मण जाति सरस्वती  
नदीके समीप निवास करनेवाली थी, वही सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुई ।

इति सारस्वतब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ कान्यकुब्जोत्पत्तिः ।

इस जातिका नाम कान्यकुब्ज क्यों हुआ इस विषयको हम आर्यग्रन्थ वाल्मीकिरामायणसे  
लिखते हैं ।

कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम् । जनयामास  
धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन ॥ १ ॥ तास्तु यौवनशालिन्यो  
रूपवत्यस्त्वलंकृताः । उद्यानभूमिमासाद्य प्रावृषीव शतह्रदाः  
॥ २ ॥ गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव ।  
आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः ॥ ३ ॥ ताः सर्वगुण-  
सम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः । दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं  
वचनमब्रवीत् ॥ ४ ॥ अहं वः कामये सर्वा भार्या मम  
भविष्यथ । मानुषस्त्यज्यताम्भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ ॥  
॥ ५ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः । अपहास्य  
ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत् ॥ ६ ॥ पिता हि प्रभु-

रस्माकं दैवतं परमं च सः । यस्य नो दास्यति पिता स  
 नो भर्ता भविष्यति ॥ ७ ॥ तासां तद्वचनं श्रुत्वा हरिः  
 परमकोपनः । प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान्प्रभुः ॥  
 ॥ ८ ॥ स च ता दयिता भग्नाः कन्याः परमशो-  
 भनाः । दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत् ॥ ९ ॥  
 किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते । कुब्जाः केन  
 कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ ॥ १० ॥ तस्य तद्वचनं  
 श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या-  
 शतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधर्षयितु-  
 मिच्छति । अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते ॥ १२ ॥  
 विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः । मन्त्रज्ञो  
 मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धिं कृत-  
 वान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ  
 दातु कन्याशतं तदा ॥ १४ ॥ तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं  
 महीपतिः । ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १५ ॥  
 स्पृष्ट्वामात्रे तदा पाणौ विकुब्जं विगतज्वरम् । युक्तं परमया  
 लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा ॥ १६ ॥ कन्या कुब्जाऽभ-  
 वन् यत्र कान्यकुब्जस्ततोऽभवत् । देशोऽयं कान्यकुब्जाख्यः  
 सदा ब्रह्मर्षिसेवितः ॥ १७ ॥

महोदयपुर निवासी महात्मा कुशनाभ राजाके घृताची रानीसे सौ कन्या जन्मी थीं जिसका  
 सम्बन्ध वह रूपयौवनसम्पन्न हुई तब बागमें विहार करनेको गई ॥ १ ॥ २ ॥ वहां वह गाने  
 बजाने और नाचने लगीं । हे राम ! वह सम्पूर्ण आभूषण पहरे बड़ी प्रसन्न हुई ॥ ३ ॥  
 उन सर्व गुणसम्पन्न रूपयौवनशालिनी कन्याओंको देखकर सर्वात्मा वायु प्रगट होकर उन  
 सबसे कहने लगे ॥ ४ ॥ मेरी इच्छा तुम सबके साथ विवाह करनेकी है इस कारण तुम सब  
 हमारी भार्या होजाओ तुम यह मानुषीभाव त्यागकर दीर्घ आयुको प्राप्त हो जाओगी ॥ ५ ॥  
 महापराक्रमी वायु देवताके यह वचन सुनकर वे सौ कन्या उनके वचनका निरादर  
 करती हुई बोलीं ॥ ६ ॥ पिता ही हमारे प्रभु और देवता हैं वह पिता जिसके निमित्त

हमको देंगे हमारे स्वामी वही हो सकते हैं ॥ ७ ॥ उनके यह वचन सुनकर वायु देव-  
ताने परम क्रोध करके उनके शरीरमें प्रवेशकर अपनी शक्तिसे सबके शरीर कुबड़े कर  
दिये ॥ ८ ॥ इस प्रकार वे सब कन्या भग्न होकर घर गईं उनको देखकर आश्चर्यसे राजाने  
पूछा ॥ ९ ॥ हे पुत्रियो ! यह तुम्हारे शरीरकी क्या दशा हुई, धर्मका तिरस्कार किसने किया  
किसने तुमको कुबड़ा कर दिया जो चेष्टा करनेपर भी तुम नहीं कह सकतीं ॥ १० ॥  
उन महाबुद्धिमान् कुशनाभके वचन श्रवण करके पिताके चरणोंमें शिर झुकाकर सौ कन्या  
कहने लगीं ॥ ११ ॥ हे राजन् ! सर्वात्मा वायु हमको धर्षण करनेकी इच्छा करता है और  
अशुभ मार्गमें स्थित होकर धर्मके देखनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १२ ॥ देवपराक्रमी  
राजाने उनके यह वचन सुन उन कन्याओंको विदा करके मंत्रियोंसे उनके विवाहसम्बन्धमें  
सम्मति की ॥ १३ ॥ इस प्रकार धर्मात्मा राजा कुशनाभने सुमन्त्रि करके वे सौ कन्या  
ब्रह्मदत्त महात्माको देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ और महा तेजस्वी राजाने ज्योंही ब्रह्मदत्तको  
बुलाकर परम प्रसन्न मनसे उन सौ कन्याओंको देनेका विचार किया ॥ १५ ॥ तब ऋषिके  
कर ग्रहण करते ही उन कन्याओंका समस्त रोग और कुबड़ापन जाता रहा और वह कन्या  
परमशोभाको प्राप्त हो ऋषिके साथ आश्रमको गईं ॥ १६ ॥ हे राम ! जिस देशमें वह  
कन्या कुब्जा हुईं उसी दिनसे वह ब्रह्मर्षि सेवित देश कान्यकुब्ज नामसे विख्यात हुआ और  
उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यकुब्ज नामसे विख्यात हुए ॥ १७ ॥ जब कि रघुनाथजीसे बहुत  
पहले देशका नाम कान्यकुब्ज विख्यात हो चुका था तब रामचन्द्रके समय कान्य और कुब्ज  
इन दो भाइयोंका यज्ञमें जाना और दानसे इनकार करना और फिर उनके नामसे  
इतने विशाल वंशोंका चलना समझमें नहीं आता, कारण कि, दानका त्याग कोई बड़ी  
विचित्र बात नहीं सहस्रोंने ऐसा किया है और करते हैं, दूसरे यदि यह वंशप्रवर्तक था  
तब कान्यवंश और कुब्जवंश ऐसे दो नामसे कुल चलते, एकसे नहीं इससे यह बहुत दूषित  
होनेसे सर्वथा दन्तकथा है ।

येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते । तेनैव नाम्ना तं  
देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ( महा० आ० अ० २।१२ )  
कान्यकुब्जेऽपिबत्सोममिन्द्रेण सह कौशिकः । ततः क्षत्रा-  
दपाक्रामद्ब्राह्मणोऽस्मीति चाब्रवीत् ॥ ( वन० ८७। १७ )

जिस देशमें जो चिह्न रहता है उसीके अनुसार पण्डित लोग उसका नाम रखते हैं ।  
इसी कान्यकुब्ज देशमें विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था और मैं क्षत्रियपनसे  
छूटकर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ ऐसा कहा । अब यह कान्यकुब्ज देश कहाँसे कहाँ तक है  
सो इसका मान कहते हैं ।



शृङ्गिणस्थलमारभ्य दालभ्यौकान्तमायतः । कोशलादक्षिणे  
देशः कान्यकुब्जः प्रचक्षते ॥

शृंगीरामपुरसे दालभ्य ऋषिके आश्रमपर्यन्त कोशलदेश नाम अयोध्यापुरीसे दक्षिणमें कान्यकुब्ज देश कहाता है, यद्यपि इस समय कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इटावा आदि स्थानोंमें कान्यकुब्ज बहुतायतसे फैल गये हैं तो भी लखनऊ, वाराणसी, उन्नाव; रायबरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, भगवन्तनगर आदि स्थानोंमें इनका मूलनिवास है और यही कान्य कुब्ज देश किन्हींके मतमें पञ्चाल देश कहा जाता है, कान्यकुब्ज देशवासी ब्राह्मणोंमें कुलमर्यादा मान आदिका अभिमान विशेष है और इनके पूर्व पुरुष तो विशेषकर्मपरायण थे, कारण कि इनकी उपाधियां बहुधा कर्मसे सम्बन्ध रखती हैं । अब हम इनके गोत्र और कुलोंका संक्षेपसे निरूपण करते हैं ।

कश्यपश्च भरद्वाजो शाण्डिल्यः सांस्कृतस्तथा । कात्याय-  
नोपमन्युश्च काश्यपश्च धनंजयः ॥ कविस्तो गौतमो गर्गो  
भरद्वाजस्तथैव च । कौशिकश्च वशिष्ठश्च वत्सः पारा-  
शरस्तथा ॥ इत्येते कान्यकुब्जानां गोत्राण्याहुश्च षोडश ।

अर्थात्—कश्यप, भरद्वाज, शाण्डिल्य, सांस्कृत, कात्यायन, उपमन्यु, काश्यप, धनञ्जय, कविस्त, गौतम, गर्ग, भरद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, वत्स, पाराशर यह सोलह गोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं इनमें पहले छः गोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं ।

कात्यायनोपमन्युश्च भरद्वाजोऽथ कश्यपः । शाण्डिल्यः  
सांस्कृतश्चैव षडेते गोत्रजोत्तमाः ॥

कात्यायन, उपमन्यु, भरद्वाज, कश्यप, शाण्डिल्य और सांस्कृत यह छः गोत्र कुलीन और षट्कुल नामसे विख्यात हैं । कान्यकुब्जोंकी दूसरी शाखा धाकर कहाती है उसमें—

पाराशराः काश्यपभरद्वाजधनञ्जया गौतमवत्सगर्गाः । वशि-  
ष्ठकाविस्तसुकौशिकाश्च उदाहृता धाकरका दशैते ॥

अर्थात्—पाराशर, काश्यप, भरद्वाज, धनञ्जय, गौतम, वत्स, गर्ग, वशिष्ठ, काविस्त, कौशिक यह दश गोत्र धाकरसंज्ञक कहलाते हैं । यह दश गोत्र आधे भी कहाते हैं और इस प्रकारसे ६॥ कहाते हैं और इनका विस्तार होकर वंशावलियोंमें ७२ गोत्र तक मिलते हैं । हम संक्षेपसे सोलह गोत्रोंका व्याख्यान कहते हैं ।

यहां यह भी लिख देना उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यकुब्जमें आस्पद और प्रतिष्ठाके नाम होते हैं । जो जिस ग्राम वा स्थानमें बसें उनका नाम भी लिखा होता है । यथा—पांडे, पाठक, त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, शुक्ल, मिश्र, उपाध्याय, भट्टाचार्य, अग्निहोत्री, वाजपेयी आदि । इनमें वेद पढनेसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि कहाये, अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक और भट्टाचार्य कहाये, यज्ञादिक कर्मानुष्ठान करने से वाजपेयी अग्निहोत्री अवस्थी और दीक्षित आदि कहाये, श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान करनेसे मिश्र, शुद्ध निर्मल गुण कर्माँके अनुष्ठानसे शुक्ल कहाये, जो जिस ऋषिके वंशमें हुए वह उनका गोत्र हुआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौत्रोंको मिलाकर गोत्र हुआ, कहीं पांच पुरुषोंके नाम होनेसे पंच प्रवर हैं, वंशावलियोंमें यह बात ध्यान देनेके योग्य है, कि, जो पुरुष अपने नामसे प्रसिद्ध हुआ उसका और उनके पिता दोनोंका नाम कान्यकुब्ज वंशावलीमें लिखा गया है और जो पिताके नामसे प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं लिखा, जैसे कश्यप गोत्रमें गंगाके पुत्र गौतम थे, यह विद्वान् होनेके कारण गौतमाचार्य कहाये और गंगा शाहबादमें रहनेके कारण शाहबादके मिश्र कहाये और गौतमाचार्य रामपुरमें रहनेके कारण रामपुरके मिश्र कहाये, गंगाके दूसरे पुत्र पिताके नामसे प्रसिद्ध हुए उनका नाम नहीं लिखा गया, इसी भाँति शांडिल्य गोत्रमें त्रिपुरके मिश्र बाबू १ खेमकरन २ हेमनाथ ३ यह तीन पुत्र लिये गये हैं, इनमें बाबू खानीपुरके मिश्र, खेमकरन भोजपुरके मिश्र, हेमनाथ हमीरपुरके मिश्र, त्रिपुरवाले कहाये । त्रिपुर कम्पिलाके मिश्र कहाये इससे यह विदित होता है कि, त्रिपुरके और भी पुत्र थे जो कम्पिलामें रहते थे और त्रिपुरके नामसे प्रसिद्ध हुए । बहुतसे पुरुष ऐसे भी हैं जो अपने और पिता दोनोंके नामसे प्रसिद्ध हैं । अब पहिले कश्यप गोत्रका व्याख्यान करते हैं—यद्यपि आदि सृष्टिके लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, जिससे वंशवर्णन एक प्रकारसे दुःसाध्य है और जो वंशावली मिलती है वह पांच छः सौ वर्षसे अधिककी नहीं है, इस लिये उन्हींपर निर्भरकरके लिखते हैं ।

#### कश्यपगोत्र ।

ब्रह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, उनके वंशमें बहुत समय पीछे देवलजी जन्मे, यह काश्मीरमें रहते थे वहांसे भदावरमें आये, भदावरके अधिपतिने इनका बहुत सन्मान किया और राजपंडित बनाकर अपने यहां रक्खा । देवलजीके पुत्र महाप्रतापी आशुदत्तजी त्रिपाठी नामसे प्रसिद्ध हुए और इनको अन्तर्वेद देशान्तर्गत शिवराजपुरके राजाने अपना पुरोहित नियत किया और इनसे यज्ञ कराया और दक्षिणामें शिवराजपुरके सहित साढे दश ग्राम दिये और आधे चिंगसपुरमें अपनी राजधानी बनाई, इस कारण चिंगसपुर कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंका आधा स्थान है उन ग्रामोंके नाम मनोह, वरुआ, सखरेज, गौरी, शिवराजपुर, शिवली, उमरी, पचोर, हरिवंशपुर, गूदरपुर, चिंगसपुर आधा, यह साढे दश ग्राम कश्यप-गोत्री कान्यकुब्जोंके हैं । आशादत्तजीके विश्वा पांच हैं, आशादत्तके ग्यारह पुत्र हुए उनमें

पहले धनीराम मनोहमें वसे, काशीराम, बरुआमें, राजाराम सखरेजमें, वंशगोपाल गोरीमें लोकनाथ शिवराजपुरमें बन्दीराम शिवलीमें हरिराम हरिवंशपुरमें चन्दन गूदरपुरमें और नन्दनराम चिंगसपुरमें रहे । यह सब जहां वंश उस ग्रामके तिवारी कहाये । इन सबके १० विश्वा हैं ।

### मनोहग्रामका वंशविस्तार ।

इस ग्राममें धनीराम तिवारीके हरी, धन्नी, लक्ष्मण और खेचर यह चार पुत्र हुए । हरी ख्यूरामें रहनेसे ख्यूराके तिवारी आशादत्ती कहाये, वि० ४ । धन्नी करिंगमें रहनेसे करिंगके तिवारी कहाये, वि० ७ । लक्ष्मण शिवपुरमें रहनेसे शिवपुरके तिवारी कहाये वि० ५ । खेचर औनहाग्राममें आवसथ्य अग्न्याधान करनेसे अवस्थी कहाये वि० ७ । हरीके दो पुत्र हुए बदरीनाथ और बोदल, बदरीनाथ इनमें पहले ख्यूराके आशादत्ती तिवारी कहाये वि० ४ । बोदल मनोहमें रहनेसे मनोहके वामन ग्रन्थी तिवारी कहाये वि० ६ । धन्नीके नन्दू और बोधूनन्दू दो पुत्र हुए यह चिलौली ग्राममें निवास करनेसे चिलौलीके तिवारी कहाये वि० ७ । बोधू रतनपुरमें रहनेसे रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ७ । लक्ष्मणके कल्याण और परमेश्वरीदत्त दो पुत्र हुए और लक्ष्मणपुरमें स्मार्त यज्ञ करके लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि० ५ । बदरीनाथके पुत्र हेमनाथ बदरकाके दीक्षित कहाये वि० १० । बोदलके केशवराम और कृष्णदत्त दो पुत्र हुए, केशवराम शिवलीमें रहनेसे शिवलीके अवस्थी कहाये वि० ८ । कृष्णदत्त मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये वि० ५ । कृष्णदत्तके उदय, शैम, प्रयाग और गोपाल यह चार पुत्र हुए और मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये वि० ५ । उदयके पुत्र हेमनाथ अटेर और परमसुख हुए, इनमें हेमनाथ मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये, वि० ८ । अटेर किरलुआके अभिहोत्री कहाये वि० १० । परमसुख लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि० ५ । खेमके चार पुत्र हुए, गंगा, पैकू, करनू, जन्नू इन नामोंसे प्रसिद्ध हुए, गंगा शाहबादमें वसनेसे शाहबादके मिश्र कहाये वि० ११ । पैकू ओहागके तिवारी कहाये वि० ८ । कन्नू वांगरमऊके दुबे कहाये वि० ७ । जन्नू नवायेंके अवस्थी कहाये वि० ८ । प्रयागके आशाराम, शिवदत्त और भद्रू यह तीन पुत्र हुए, आशाराम ख्यूराके तिवारी कहाये वि० ६ । शिवदत्त रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ४ । भद्रू मनोहके तिवारी कहाये वि० ४ । गोपालके शुद्धी, हंसराम और भवानी यह तीन पुत्र हुए, शुद्धी सखरेजके तिवारी कहाये वि० १० । हंसराम पडरीके तिवारी कहाये वि० । भवानी सखरेजके तिवारी कहाये वि० १० । अटेरके भीम, भैरव, बदरीनाथ, किदारनाथ यह चार पुत्र हुए, भीम कल्लुआके अभिहोत्री कहाये वि० ८ । भैरव कोड़ाके अभिहोत्री, वि० ८ । बदरीनाथ ख्यूराके अभिहोत्री वि० ८ । और किदारनाथ कठेरुआके अभिहोत्री कहाये, वि० ९ । परमसुखके कमल और देवसरकमल नामक दो पुत्र हुए, कमल नगराके मिश्र कहाये, ८ । देवसर विरामपुरके मिश्र कहाये, वि० ५ । गंगाके एक

पुत्र गौतमसे वेदाध्यायन करनेसे आचार्यपदवी पाकर रामपुरमें बसे, ये रामपुरी गौतमाचार्य मिश्र कहाये, वि० १० । पैकूके दो पुत्र शिवदत्त और भट्टदत्त हुए, यह दोनों ओहागके तिवारी कहाये वि० ८ । कन्नूके दिवोल और हरिहर दो पुत्र हुए, दिवोल आंटीके दुबे कहाये वि० ४ । हरिहर वीठलपुरके दीक्षित कहाये वि० १५ । जन्नूके दो पुत्र स्यूनी \* और सीरू हुए, स्यूनी पिहानीमें रहनेसे पिहानीके अवस्थी कहाये वि० ५ । सीरू नवायेमें रहनेसे वहांके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके पुत्र वेनी रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ४ । भवानीके धनई, मनई और शीतल तीन पुत्र हुए, धनई चांदीपुरके तिवारी वि० ८ । मनई वकसीरके तिवारी वि० ९ । शीतल मौरंगके तिवारी वि० ७ । किदारनाथके मन्ना और मोती दो पुत्र हुए, मन्ना सिरोजके अग्निहोत्री वि० ५ । मोती जनसारपुरके अग्निहोत्री वि० ४ । दिवोलके शिवोल भवदेव और भवानी तीन पुत्र हुए शिवोल वांगरके दुबे वि० ४ । भवदेव शिवरामपुरके दुबे वि० ५ । भवानी गलाथेके दुबे कहाये वि० ५ ।

हरिहरके श्रीकान्त, भदैन और बबुआ तीन पुत्र हुए । श्रीकान्त ऊगूमें बसनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि० २० । भदैन नौगांवमें रहनेसे नौ गांवके दीक्षित कहाये वि० १४ । और बबुआ बोदलपुरमें रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि० १५ ।

श्रीकान्तके खगेश्वर, धर्मेश्वर और वीरेश्वर यह तीन पुत्र कहाये । धर्मेश्वरका वंश हडहा और एकडलामें है । वीरेश्वरका वंश भगवन्तनगर औनहाँ सखरेज और विरह इन ग्रामोंमें है, खगेश्वरके लाल और हरिदत्त यह दो पुत्र हुए, हरिदत्तके देवीदत्त और दैद्यनाथ यह दो पुत्र हुए, आगे इनका वंश नहीं चला, लालके सन्त और बहोरे दो पुत्र हुए, सन्तके पुत्र अनन्तदेव हुए, इनका एक घर ऊगू तथा कुछ घर सकूरावादमें हैं, बहोरेके तीन पुत्र सदानन्द, भोलानाथ और भागवत हुए, सदानन्दके हरलाल और नैनसुख दो पुत्र हुए, हरलालके नन्दन और कुमार दो पुत्र हुए, नयनसुखके मुकुन्द हुए, भोलानाथके प्राणनाथ, प्राणनाथके हेमनाथ हुए, हेमनाथ, नन्दन और मुकुन्द यह तीनों बड़े प्रतापी हुए, इनके वंशजोंका निवास स्थान ऊगू है वि० २० । वहां यह तीनों आंक विख्यात हैं, कुमारके पुत्र बौदल हुए इनका वंश टेढा ग्राममें है वि० २० । भागवतके कुलमणि और जगन्मणि दो पुत्र हुए, इनका वंश न्योतनी और नारायणदास खेरेमें है, यह सब श्रीकान्तके दीक्षितः कहाये वि० २० ।

\* वंशावलीके पुरुषोंका नाम देखनेसे जाना जाता है कि यह वह अविद्या अंधकारका समय था जब कि यह वंशावली संगृहीत हुई है, कि नाम भी सार्थ वा उचित रूपके नहीं रखे जाते थे और तिवारी शब्द ही मिश्र वा दीक्षित निर्वाध कहाने लगते थे, वा दीक्षितके पुत्र तिवारी वा अग्निहोत्री ग्राममात्रके परिवर्तनसे होजाते थे, इससे स्पष्ट है कि पांच छः सौ वर्षसे पहलेकी यह पदवी प्राप्त नहीं है ।

## वरुआ ग्रामवासियोंका वंश ।

इस ग्राममें कार्गाराम तिवारीके सधारी, विहारी, गिरधारी, अनन्तराम, मनीराम और कुन्दन यह छः पुत्र हुए, सधारी सुगनापुरके दुबे कहाये, वि० ५ । विहारी नागपुरके दुबे वि० ५ । गिरधारी आंठीपुरके दुबे वि० ५ । अनन्तराम वरुआके तिवारी वि० ७ । मनीराम गोपालपुरके तिवारी वि० ७ । और कुन्दन बांगरमऊके तिवारी कहाये वि० ७ ।

## सखरेज ग्रामनिवासियोंका वंश ।

सखरेजमें राजारामके राधी, जानी, चतुरी और कन्है यह चार पुत्र हुए, राधे और जानी एकडाके तिवारी काहाथे वि० १० । चतुरी और कन्है हडहाके तिवारी कहाये वि० ९ । राधेके राय और विभाकर दो पुत्र हुए, राय अवनिहापुरके तिवारी वि० ७ । विभाकर जुईके तिवारी कहाये वि० ८ । चतुरीके तीन पुत्र चन्दन, मतिराम और सखाराम हुए, चन्दन हडहाके अग्निहोत्री वि० ८ । मतिराम सांपेपुरवाके तिवारी वि० ८ । सखाराम गोत्र ( जचपर ) के तिवारी वि० ८ । कन्है यदुनाथ और वन्दन दो पुत्र हुए, यदुनाथ असदीके तिवारी वि० ८ । वन्दन अर्चितपुरके तिवारी कहाये वि० ८ ।

## गौरी ग्रामके वंशका वर्णन ।

गौरी ग्राममें वंशगोपाल तिवारीके वाबू पुत्र हुए यह गौरीके तिवारी कहाये वि० ५ । वाबूके बेनी, मनऊ, सुन्दर, साहेब और हेमंचल यह पांच पुत्र हुए, यह पंचभैया तिवारी कहाये । बेनी जनपुरमें वि० ५ । मनऊ श्यामल पुरमें वि० ६ । सुन्दर विद्वानपुरमें वसे वि० ६ । साहव और हेमंचल विहारपुरमें वसे, यह जहां रहे वहां पंचभैया तिवारी कहाये । सुन्दरके खेम और जिज्ञासु दो पुत्र हुए, खेम मिधौलीके अवस्थो कहाये वि० ४ । जिज्ञासु खिर्मीपुरके अवस्थी कहाये वि० ३ ।

## शिवराजपुर ग्रामके वंशवालोंका वर्णन ।

शिवराजपुरमें लोकनाथके चार पुत्र हुए, उनके नाम कन्ते, चूके, आनन्दवन, वगुचार, क ते शिवराजपुरमें रहनेसे शिवराजपुरके तिवारी कहाये वि० ११ । चूके पंचभैया ग्राममें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० १० । आनन्दवन बरहमपुरमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० ८ । वगुचार शिवराजपुरमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० ८ ।

## शिवलीग्राम निवासियोंका वंश ।

वन्दीनाथके पुत्र लोकनाथ शिवलीमें रहनेसे शिवलीके तिवारी कहाये वि० ९ । लोकनाथके रमते, श्यामल और रंजन तीन पुत्र हुए, रमते फकहापुरके तिवारी कहाये वि० ९ । श्यामल दिलीपपुरके तिवारी कहाये वि० १० । रंजन ककरदहीके तिवारी कहाये वि० १० । रमतेके गौरी, गली, अंगद, मंगद चार पुत्र हुए, गौरी पुरवाके तिवारी वि० ३ । गली विहारपुरके तिवारी वि० ५ । अंगद चेचढीके तिवारी वि० ६ । मंगद शाहबादके तिवारी वि० ३ । श्यामलके कंसू और वंशू दो पुत्र हुए, कंसू नौवस्ताके तिवारी कहाये वि० ७ ।

हंसू वरुआके तिवारी कहाये वि० ५ । रंजनके भग्गी, भोला और दलपति तीन पुत्र हुए । भग्गी बीरपुरके तिवारी कहाये वि० ५ । भोला विहारपुरके तिवारी वि० ५ । दलपति गूद-पुरके तिवारी कहाये वि० ८ । कंसूके कश्यप और दिलीप दो पुत्र हुए, कश्यप विदारीके तिवारी वि० ५ । दिलीप दयालपुरके तिवारी कहाये वि० ।

**ऊमरीग्रामनिवासियोंका वंशवर्णन.**

ऊमरीमें परमानन्दकी पहली स्त्रीके वचनू हुए, यह ऊमरीके तिवारी कहाये वि० ६ । दूसरी स्त्रीसे हंसू, जीवन, देवी और शंकर यह चार पुत्र हुए, हंसू गुनरीके तिवारी वि० २ । जीवन चिचौलीके तिवारी वि० ८ । देवी वरगदपुरके वरगदहा तिवारी वि० ६ । शंकर धनूराके तिवारी कहाये वि० ५ । वचनूके नैनी और माखन दो पुत्र हुए, नैनी कुम्हरांवके तिवारी वि० ५ । माखन महोलीके तिवारी कहाये वि० ४ । माखनके चण्ड और मुण्ड दो पुत्र हुए, चण्ड भगेराके तिवारी वि० ९ । मुण्ड शिवपुरके तिवारी कहाये वि० ९ ।

**पचोरग्रामनिवासियोंका वंशवर्णन.**

पचोरमें सुखानंदके पुत्र वंशीधर दयालपुरके तिवारी कहाये वि० १० । वंशीधरके गन्नी, बोधू, नंदू तीन पुत्र हुए, गन्नी श्रीपतिपुरके तिवारी वि० १० । बोधू रतनपुरके गुलरिहा तिवारी कहाये, वि० १० । नन्दू चिचालीके तिवारी कहाये वि० ७ । नन्दूके गंगू और वोदल दो पुत्र हुए, गंगू पचोरके तिवारी वि० ५ । वोदल विरामपुरके तिवारी कहाये वि० ५ ।

**हरिवंशपुरग्रामवासियोंका वंशवर्णन.**

हरिवंशपुरमें हरिरामकी पहली स्त्रीसे गडरू पुत्र हुए सो हरिवंशपुरके तिवारी कहाये वि० ८ । हरिरामकी दूसरी स्त्रीसे सुखराम हुए, सो छीतूरके तिवारी कहाये वि० ८ । गडरूके सुखी, दुःखी, श्रीपत और सन्तू चार पुत्र हुए, सुखी बोधीपुरके ति० वा० ५ । दुःखी गडरीपुरके तिवारी वि० ४ । श्रीपति हरवाईके तिवारी वि० ५ । सन्तू सपरीपुरके तिवारी वि० ५ । श्रीपतिके हरजू, प्रसुजु दो पुत्र हुए, दोनों धरवाईपुरके तिवारी कहाये वि० ४ ।

**गूदरग्रामवासियोंका वंश.**

गूदरपुरमें चन्दनके पुत्र हरिनाथ गूदरपुरके तिवारी कहाये वि० १० । हरिनाथके राते, पाते, चन्दू, हर्षू, वछनू, माते यह छः पुत्र हुए, राते, पाते गूदरपुरके तिवारी वि० १० । चन्दू, हर्षू, वछनू वि० ७ । और माते वरुआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये वि० १० । चन्दूके कान्हरू और भावदास दो पुत्र हुए, दोनों वरुआके तिवारी कहाये वि० ७ । कान्हरूके रामनाथ, जगन्नाथ, वनजई, किशोर, धनीभूधर, जांगन, पुरुषोत्तम आठ पुत्र हुए, रामनाथ जगन्नाथ कठरेके तिवारी कहाये वि० १४ । धनजई गूदरपुरके वि० १२ । किशोर

अहंगपुरके वि० ११ । घेनी अनन्दपुरके तिवारी वि० १४ । भूधर छितावाले तिवारी वि० ४ । जागन झगडगामीके तिवारी वि० ४ । पुरुषोत्तम सिडुडाके तिवारी वि० ४ । भावदासकी पहली भार्यासे रमई वि० १७ । घाघ वि० १० । यह दो पुत्र हुए, दोनों जहांगीरावादी तिवारी कहाये वि० २० । १० इनकी दूसरी स्त्रीमें आर्चित, गल्लु, गणपति, माधव चार पुत्र हुए, चारों वरुआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये वि० १० । रमईकी पहली स्त्रीसे दमा, गोपाल, गोवर्द्धन, चत्तू यह चार पुत्र हुए । दमा सपईमें रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १० । गोपाल पडरीमें रहनेसे पडरीके तिवारी कहाये, वि० १६ । गोवर्द्धन कठेरुआमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० १९ । चत्तू जहांगीरवादमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० २० । रमईकी दूसरी स्त्रीमें आशाधर हुए, वह यमुनापार रहनेसे बीरबली तिवारी कहाये वि० ५ । घाघके नन्दराम, गजराम, महाशर्म यह तीनों पुत्र हुए । यह तीनों जहांगीरावादी तिवारी घाघके कहाये, वि० १७ । माधवके मुंभुआ नामक पुत्र गोपालपुरके तिवारी कहाये, विश्वा १३ । दमाके तीन पुत्र श्रीधर, लोकनाथ और लक्ष्मण सपईमें रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १७ । इनमें श्रीधर अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १० । और लोकनाथ वि० १८ । लक्ष्मण दमाके तिवारी कहाये वि० १७ । गोपालके रणधीर, जगन्नाथ दो पुत्र हुए, ये पडरीमें रहनेसे गोपालके तिवारी कहाये, वि० १८ । १७ । गोवर्द्धनके चक्रपाणी, कमलापति, मोहन, मुरलीधर, उमादत्त, धर्मेश्वर और प्रद्युम्न यह सात पुत्र हुए, यह सब कठेरुआमें रहनेसे गोवर्द्धनके तिवारी कहाये, इनमें चक्रपाणि और कमलापतिके वि० २० । मोहन मुरलीधरके १९ और शेष तीनोंके वि० १८ हैं । चत्तूके दिउता, लाला, रूपा, मोहन और हीरानन्द पांच पुत्र हुए, यह सब चत्तूके तिवारी कहाये, इनमें दिउताके १९ वि० हीरानन्दके १७ वि० शेष तीनोंके वि० २० हैं ।

### चिंगसपुरके रहनेवालोंका वंशवर्णन ।

यहांके रहनेवाले नन्दरामके सत्रिता नामक पुत्र हुए, यह चिंगसपुरके तिवारी कहाये वि० ५ । नन्दरामके वंशमें दिवता और जसराम अपने २ नामसे अभिहोत्री कहाये वि० ४ । चार यह चिंगसपुर आधा स्थान है ।

जहांगीरावाद अकबरके पुत्र जहांगीरने बसाया- इसकी स्थापना १६७४ संवत्में हुई, उस समयतक भारतमें ब्राह्मणोंकी गुणकर्मके अनुसार प्रतिष्ठा बढ़ती घटती रही, मानभर्यादा विद्या घटते रहे पर अब ढाई सौ वर्षके उपरान्त ही यह दशा है कि उच्च कुल चाहै जैसा निरक्षर भट्टाचार्य क्यों न हो वह ऊंचाही है और शेष दशगोत्री चाहै जैसे सुकर्मी क्यों न हों वह धाकरही हैं, यह अविद्या नहीं तो और क्या है । फिर कन्याविलापको बात या ठहरोनीकी बात तो क्या कहें । कलेजा मुखको आता है प्रतापनारायण मिश्रने सत्य कहा था ( सबसे बढकर दुर्दशा कान्यकुब्जकन्यानकी है ) भाइयो ! अब तो जागो और भाइयोंको अपनाकर जातिको पुष्ट करो । इति कश्यपगोत्र ।

अथ शाण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम् ।

ब्रह्माजीके पुत्र मरीचि मरीचिके कश्यप, कश्यपके यज्ञ करनेसे अग्निकुण्डसे शाण्डिल्य-  
ऋषि हुए। इनसे शाण्डिल्यगोत्र चला, अग्निका नाम हुताशन भी है और अग्निका गोत्र  
शाण्डिल्य कहा जाता है। शाण्डिल्यवंशमें एक पुरुष महाप्रतापी हुताशन हुआ, हुताशनके  
वंशमें बहुतकाल पीछे मनोरथ तिवारी हुए, इन्होंने बुन्देलखण्डके राजाको पुत्रेष्टि  
यज्ञ कराया, इन राजाका नाम अमरसिंह था और राजपुरोहितका नाम विश्वनाथ था  
विश्वनाथने मनोरथ तिवारीको अपनी कन्या व्याह दी, पीछे दतिया, उडैसा, और मदावरके  
राजाओंने इनको बुलाया, और तीनों शिष्य हुए, कुछ काल पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित  
गंगारामकी कन्यासे दूसरा विवाह किया, और उस समयसे वह तिवारीसे मिश्र कहाये  
इनकी निवासभूमि धतुरा थी, इस कारण यह धतुराके मिश्र कहाये वि० ४। इनकी  
पहली स्त्रीसे कमलनामि पुत्र हुए; वह मातासमेत मऊग्राममें रहे इससे मऊके मिश्र कहाये,  
वि० ४। दूसरी स्त्रीसे पद्मनाभ वि० ७। देवनाभ दो पुत्र हुए यह हमीरपुरके कहाये  
वि० ५। पद्मनाभके पुत्र हरिहर हमीरपुरके उपाध्याय कहामे वि० ३। देवनाभके पुत्र  
शारंगधर हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० ४। हरिहरके गंगाराम, वंशीधर, जगन्नाथ यह  
तीन हमीरपुरके उपाध्याय मिश्र कहाये वि० ३। शारंगधरके त्रिपुर और गदाधर दो  
पुत्र हुए, त्रिपुर कपिलाके मिश्र कहाये वि० १०। गदाधर हमीरपुरके मिश्र कहाये वि०  
५। त्रिपुरके बाबू खेमकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए। बाबू खानीपुरके मिश्र वि० ८।  
खेमकरण भोजपुरके मिश्र वि० ५। हेमनाथ हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० ४। गदाधरके  
गंगाधर और श्रीहर्ष यह दो पुत्र हुए, गंगाधर भोजपुरमें रहे, और वहांके दीक्षित कहाये  
वि० ५। श्रीहर्ष खानीपुरमें रहनेसे वहांके मिश्र कहाये, वि० ७। खेमकरणके पुत्र दारौ  
असनीमें रहनेसे असनीके शुक्ल कहाये, वि० ४। गंगाधरकी १ स्त्रीसे बाबू, बलराम।  
वीरेश्वर और उमादत्त यह चार पुत्र हुए, बाबू और बलराम अंटेरमें रहनेसे वहांके दीक्षित  
कहाये वि० १८। वीरेश्वर और उमादत्त बटपुरमें रहनेसे अपने नामसे दीक्षित कहाये  
वि० १५। गंगारामकी दूसरी स्त्री घेतलीसे गोपी और हंसराम दो पुत्र हुए, गोपी अपनी  
माताके सहित नौगाँवमें बसे, इससे वहांके मिश्र कहाये, वि० १०। हंसराम अंटेरीमें रहे  
और दीक्षित कहाये वि० १४। श्रीहर्षके परशू, हिमकर, ललकर और गोपीनाथ यह  
चार पुत्र हुए, परशू खानीपुरके मिश्र वि० २०। हिमकर भटेउराके मिश्र वि० १९।  
ललकर वि० १५ और गोपीनाथ असनीमें असनीके मिश्र कहाये वि० १। बाबूके विद्याधर  
बनवारी और रघुनंदन यह तीन पुत्र हुए और अंटेरमें रहनेसे अंटेरके दीक्षित कहाये,  
वि० १६। बलरामके कंगू, समाधान, वासी और चतुरी नामक चार पुत्र हुए, कंगू  
बटपुरमें रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि० २०। शेष तीनों अंटेरमें रहनेसे वहांके दीक्षित  
कहाये क्रमसे वि० १९। १८। १८। वीरेश्वरके मुरली, गिरिधारी, नित्यानन्द, शिरोमणि।



जगजीवन यह पांच पुत्र हुए यह सब बटपुरमें रहे, और वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० २० । जगजीवनके (१६) उमादत्तक (१७) बुधकेशव (११) यादव (१६) और गोविन्द (१५) यह चार पुत्र हुए, और बटपुरमें रहकर उमादत्तके दीक्षित कहाये वि० ( १७ । ११ । १६ । २५ ) परशूके पद्मपाणि, कमलपाणि, चक्रपाणि और वंशीधर यह चार पुत्र हुए, और चारों खानीपुरवाले परशूके मिश्र कहाये । वि० २० । हिमकरक शंकर, क्षेमराज, जयभद्र तीन पुत्र हुए, शंकरने भटोउरामें निवास किया वि० १९ । क्षेमराजने असनीमें निवास किया वि० १९ । जयभद्रने गंगासोंमें निवास किया वि० १९ । यह तीनों हिमकरक मिश्र कहाये, गोपीनाथके मथुरानाथ, प्रभाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, यह तीनों कन्नौजमें बसे, मथुरानाथ, प्रभाकर गोपीनाथी कन्नौजके मिश्र कहाये वि० १७ । श्रीधर गोपीनाथी धोविहामिश्र कहाये वि० २८ । कंगूके श्रद्धा, पुरुषोत्तम, माधवराम, भट्टाचार्य ये चार पुत्र हुए, यह चार वटेश्वरमें रहे और कंगूके दीक्षित कहाये वि० सबक २० । समाधानक चार पुत्र हुए उनका नाम इन्द्र, मुकुन्द, जागे और बदले हुए, यह चार बटपुरमें समाधानक दीक्षित कहाये, क्रमसे वि० ७ । ६ । ७ । ८ । मुरलीक लच्छू बिरजू और मोहन तथा दिवळ यह चार पुत्र हुए, यह चारों बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० १७ । १८ । १८ । १७ । जगजीवनके धर्म और शर्म दो पुत्र हुए यह बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० १८ । कमलपाणिक, लालमणि वि० १९ । लोकनाथ, विश्वनाथ, चतुर्भुज, यह चारों असनीवाले परशूके मिश्र कहाये वि० २० । जयभद्रके लछनू और बछनू दो पुत्र हुए यह दोनों गंगासोंवाले हिमकरके मिश्र कहाये वि० १७ । १६ । प्रभाकरक श्रीकंठ और माधव यह दो पुत्र हुए और गोपालपुरमें बसे गोपीनाथी मिश्र कहाये विश्वा १५ । श्रीधरके एक पुत्र चतुर्भुज हुए, यह असनीके गोपीनाथी धोबियामिश्र कहाये वि० १९ । श्रद्धाके चक्रपाणि, शेखर, और श्रीचन्द यह तीन पुत्र हुए, यह बटपुरमें रहे और कंगूके दीक्षित कहाये इनमें चक्रपाणि और शेखरके वि० १९ । और श्रीचन्दक १८ वि० हैं । धर्मके पुत्र जयकृष्ण बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० १५ । चतुर्भुजक सुक्खे, मुत्ते, बुद्धा और दीप यह चार पुत्र हुए, यह चारों पुत्र मीराकी सरायवाले परशूके मिश्र कहाये वि० २० । २० । १९ । २० । क्रमसे जानने । श्रीकंठके प्राणनाथ, केशवराम, हरिनन्दन यह तीन पुत्र हुए । भोजावादके गोपीनाथी मिश्र कहाये १२ । १३ । १४ वि० क्रमसे जानने । जयकृष्णके यज्ञपति, गृहपति, धीरेश्वर, यज्ञदत्त क्षेमकरण यह पांच बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये । वि० ६ । १५ । १५ । १४ । १४ । क्रमसे जानने । सुक्खेके गागम और प्राथम यह दो पुत्र हुए, यह दोनों मीराकी सरायवाले परशूके मिश्र रामपुरी कहाये दोनोंके विश्वा २० हैं, श्राणनाथके गदाधर और लक्ष्मण यह दो पुत्र हुए, और खानीपुरके मिश्र कहाये विश्वा १० । क्षेमकरणके रूपनारायण, सूर्यमणि और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए और बटपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० १४ । १५ । १४ क्रमसे जानने । दीनानाथके गोकुल,

समाधान, देवकीनन्दन और देवदत्त यह चार पुत्र हुए । यह चारों वटपुरी वीरेश्वरके मिश्र कहाये, वि० १३ । १२ । १३ । १३ । क्रमसे जानने । गोकुलके कृपाराम और भजन यह दो पुत्र हुए और वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये, विश्वा १३ । १२ क्रमसे जानने । भजनके काशीप्रसाद, रामप्रसाद यह दो पुत्र हुए और वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये विश्वा १२ दोनोंके जानने । काशीप्रसादके चन्द्रसेन, रामसहाय, कालिका यह तीन पुत्र हुए, इनमें चन्द्रसेन डौडियाखेरेके दीक्षित कहाये विश्वा ३ । रामसहाय वनिगांवमें वसे, और वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । कालिका कठौतामें रहे और वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । चन्द्रसेनके वंदीदीन, जागन, मनोहर और मोती यह चार पुत्र हुए, वन्दीदीन धतूराके तिवारी विश्वा ३ । जागन धतूराके अवस्थी वि० ३ । मनोहर कठौताके अवस्थी विश्वा ३ । मोती अमिलगहर्नाके अवस्थी कहाये, विश्वा ३ । रामसहायके दिवता, जसराम और जवाहिर तीन पुत्र हुए । दिवता भावपुराके अभिहोत्री कहाये विश्वा । ३ जसराम वटपुरके अभिहोत्री विश्वा ३ और जवाहिर खमराके मिश्र कहाये विश्वा ५ । कालिकाके मतिराम और कुन्दन दो पुत्र हुए, मतिराम लखनऊके उपाध्याय कहाये विश्वा २ । कुन्दन चिचोलीके उपाध्याय कहाये विश्वा ३ । इस प्रकार शाण्डिल्य गोत्रमें १७ पीढी और एकसौ तीस पुरुषा वंशकर्ता पाये जाते हैं ।

### कात्यायन गोत्रका व्याख्यान ।

श्रीब्रह्मर्षि विश्वामित्रजीके वंशमें उत्पन्न महर्षि कात्यायनजीके गोत्रमें चतुर्भुज द्विवेदी बड़े विद्वान् और प्रसिद्ध हुए । वे टिकरिया ग्राममें निवास करनेसे टिकरियाके दुबे कहाये वि० ४ । चतुर्भुजके पुत्र गार्गीदत्त हुए, यह बड़े विद्वान् और महाप्रतापी हुए, कंजपुरके राजाने इनको बुलाकर अपना गुरु बनाया, राजपुरोहित हेमनाथकी कन्याके संग इनका विवाह हुआ, और यह कंजपुरमें ही रहने लगे, इस कारण कंजपुरके मिश्र कहाये । वि० १० । इनकी पहिली स्त्रीसे एँडे, गँडे, खट्टे, मिट्टे यह चार पुत्र हुए, एँडे बदरकामें वसे इससे बदरकाके मिश्र कहाये वि० १० । गँडे सिरकिडामें वसे और वहांके दुबे कहाये वि० १० । खट्टे मिट्टे कंजपुरमें वसे और कंजपुरके मिश्र कहाये वि० १० । दूसरी स्त्रीसे दिउता और गोविन्द यह दो पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों कंजपुरके मिश्र कहाये वि० १० । एँडेके छः पुत्र मोहनलाल, काशीनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, पीया और महाशर्म हुए इनमें मोहनलाल और महाशर्म बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४ । १० क्रमसे जानने । काशीनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ तथा पीया यह बदरकाके मिश्र कहाये वि० १६ । १६ । १० क्रमसे जानने । गँडेके राधारमण, सूर्यप्रसाद, दयाराम, सेवाराम और गुलजारी यह पांच पुत्र हुए, इनमें राधारमण जगदीशपुरके मिश्र, वि० १० । सूर्यप्रसाद, सिर्किडाके मिश्र, वि० १० । दयाराम सरवरके मिश्र, वि० १० । सेवाराम पत्यौजाके मिश्र, वि० ८ । और गुलजारी नैथुवाक मिश्र कहाये वि० १० । खट्टेके पवननाथ, लोकनाथ और विश्वनाथ यह तीन पुत्र

हुए, पवननाथ वैजगांवके मिश्र कहाये, वि० १५ । लोकनाथ पासीखेरेके मिश्र वि० १४ । विश्वनाथ गलेथेके मिश्र कहाये वि० ११ । मिट्टेके अनन्तराम और चिन्तामणि यह दो पुत्र हुए, इनमें अनन्तराम राजापुरके अग्निहोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमें अग्निहोत्री कहाये वि० १० । चिन्तामणि गलाथेके मिश्र कहाये वि० १३ । मोहनलालके वेदमूर्ति, कमलनयन, मान्धाता यह तीन पुत्र हुए और तीनों बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४ । १३ । १४ । क्रमसे जानने । पीथाके एक पुत्र विज्ञानेश्वर हुए सो बड़वाके मिश्र कहाये वि० १४ । सेवारावके भगमी और भगवन्त यह दो पुत्र हुए, भगमी पर्योजाके दुबे कहाये वि० ७ । भगवन्त नठहारपुरके मिश्र कहाये वि० ६ । पवननाथके मुरलीधर, मल्लिनाथ, गोपीनाथ, ओंग मधुनाथ यह चार पुत्र हुए; और वैजगांवके मिश्र कहाये वि० १६ सवके । लोकनाथकी पहली स्त्रीसे मथुरानाथ हुए यह पासीखेरेके मिश्र कहाये वि० १५ । दूसरीसे कार्शानाथ, रतिनाथ, नीलकण्ठ । यह तीन पुत्र हुए, और गलाथेवाले मिश्र कहाये वि० १३ । १४ । १४ । क्रमसे जानने । विश्वनाथके एक पुत्र शंभुनाथ पासीखेरेके हुए, और गलाथेवाले मिश्र कहाये वि० १३ । अनन्तरामके पहली स्त्रीसे मथुरा, अयोध्या और प्रयाग तीन पुत्र हुए, मथुरा बदरकाके अग्निहोत्री वि० ५ । अयोध्या विहगांवके अग्निहोत्री कहाये वि० १० । प्रयाग मोतीपुरके अग्निहोत्री कहाये वि० ३ । अनन्तरामकी दूसरी स्त्रीसे मुन्ना और केशरी यह दो पुत्र हुए, मुन्ना चांदापुरके अग्निहोत्री वि० ८ । केशरी रामपुरके मिश्र कहाये वि० ५ । चिन्तामणिके केशी, रामनाथ और अनिरुद्ध यह तीन पुत्र हुए, केशी यह सुठियांके मिश्र वि० २० । रामनाथ आंकनके मिश्र, वि० १९ । और अनिरुद्ध कन्नौज ग्वाल मैदानके मिश्र कहाये वि० २० । विज्ञानेश्वरके एक पुत्र श्रीदत्त हुए सो लवानीके मिश्र कहाये वि० १२ । मल्लिनाथके एक पुत्र भावनाथ हुए सो बदसरायके मिश्र कहाये वि० १५ । गोपीनाथके एक पुत्र रामनाथ हुए पालीमें निवास किया और वैजगांवके मिश्र कहाये वि० १५ । मधुनाथके नृसिंहनाथ पुत्र हुए यह हड़हामें बसे और वैजगांवके मिश्र कहाये वि० १४ । केशीके हरिराम,, माधवराम यह दो पुत्र हुए, यह दोनों सुठियांके मिश्र कहाये विश्वा १७।१८ क्रमसे जानने । रामनाथके मोहन, कमल, प्रजापति और कन्ते यह चार पुत्र हुए, इनमें मोहन और कमल बदरकामें बसे, और आंकनके मिश्र कहाये वि० २० । २० । प्रजापति मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । कन्ते निवादामें बसे और आंकनके मिश्र कहाये वि० १८ । अनिरुद्धकी पहली स्त्रीके सदा, शंकर, हंसराम और शिरोमणि यह चार पुत्र हुए, यह चारों ग्वालमैदानवाले ( कन्नौजके ) अनिरुद्धके मिश्र कहाये वि० २०।२०।२०।२० क्रमसे जानने, दूसरी स्त्रीसे गंगाप्रसाद हुए, और अनिरुद्धके मिश्र कहाये वि० १८ । शंकरके लाले और बाले यह दो पुत्र हुए, और दोनों कन्नौजके मिश्र कहाये वि० २० । श्रीदत्तके पुत्र सुरेश्वर हुए और बांकीपुर ( लवनी ) के मिश्र कहाये वि० १२ । हरीसमके गनी, गोवर्द्धन, मार्कण्डेय

और भवन यह चार पुत्र हुए, गनी और भवन नौगवाले सुठियार्येके मिश्र कहाये वि० १७ । १७ । गोवर्द्धन और मार्कण्डेय सुठियार्येके मिश्र कहाये वि० २० । १८ । माधव-रामकी पहिली स्त्रीसे इन्द्रमणि, भावनाथ, टीकाराम तीन पुत्र हुए, और सुठियार्येके मिश्र कहाये वि० १९ । १८ । १९ । दूसरी स्त्रीसे राजाराम और वीरभद्र यह दो पुत्र हुए यह सुठियार्येके मिश्र कहाये वि० १८ । १७ । मोहनके मूके, प्रेम और तेज यह तीन पुत्र हुए और मुरादावादमें बसे और आंकिनके मिश्र कहाये वि० २० । २० । क्रमसे जानने, प्रजापतिके हीरानन्द, चतुर्भुज, योगेश्वर, सिद्धी, उर्वीधर और बदले यह छः पुत्र हुए । यह सब मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । कांतेके विद्याधर, रामदयाल, घासीराम, वीरेश्वर यह चार पुत्र हुए, और निवादावाले आंकिनके मिश्र कहाये वि० १७ । १६ । १६ । १८ । क्रमसे जानने । शिरोमणिके दत्त, दिवाकर, हेमनाथ तीन पुत्र हुए यह तीनों कन्नौज ग्वाल-मैदानके अनिरुद्धवाले मिश्र कहाये १९ । १९ । १९ विश्वे क्रमसे जानने । गंगाप्रसादके घना, बला, सतीदास, श्रीहर्ष यह चार पुत्र हुए । घना बला बौधीके मिश्र कहाये वि० १० । १० । सतीदास कन्नौजके मिश्र कहाये विश्वा १४ । श्रीहर्ष गोपामऊके मिश्र कहाये वि० १० । हीरा-नन्दके चाचे, देवमणि, भोले, पलटू, कृपा, सन्तोषी यह छः पुत्र हुए, इनमें चाचे, पलटू, सन्तोषी यह काकोरीमें बसे और मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । १९ । १९ क्रमसे जानने । देवमणि, भोले और कृपा यह मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । १८ । २० क्रमसे जानने । हेमनाथके मूले, धमने गंगाधर, विश्वनाथ और रघुनाथ वह पांच पुत्र हुए, और कन्नौज ( ग्वालमैदान ) के मिश्र कहाये वि० १९ । १९ । १९ । १९ । १९ क्रमसे जानने । चाचेके पराशर और खम यह दो पुत्र हुए, और काकोरामें रहे मांझगांवके मिश्र कहाये वि० १८ । १८ । मूलेके एक पुत्र कमलभाल पिहानीमें रहे और पिहानीके मिश्र कहाये वि० १० । गंगाधरकी पहली स्त्रीसे बन्दन, गुलाल और भगोले यह तीन पुत्र हुए, और कन्नौज ग्वालमैदानके मिश्र कहाये वि० १९ सबके क्रमसे । दूसरी स्त्रीके शंभु, वेदनाथ, माधव, हरिनाथ यह चार पुत्र हुए, और दरौलीमें रहे, और ग्वालमैदान कन्नौजके मिश्र कहाये वि० १९ । १९ । १९ । १९ क्रमसे जानने । इस प्रकार कात्यायन वंशमें १० पीढी और ११६ पुरुषा वंशकर्ता हुए ।

### भारद्वाज गोत्रका वर्णन ।

ब्रह्माजीके पुत्र अंगिरा, अंगिराके बृहस्पति, बृहस्पतिके भरद्वाज, भरद्वाजके वंशमें द्रोणाचार्य हुए, द्रोणाचार्यके अश्वत्थामा हुए इनके वंशमें बहुत समय उपरान्त सत्याधर, वामदेव परम प्रतापी हुए और तरी ग्राममें वास करनेके कारण तरीके शुक्ल कहाये वि० ४ । सत्याधरके पुत्र मधुकर विगहपुरमें रहनेसे विगहापुरके शुक्ल कहाये वि० ४ । वामदेवके पुत्र गुणाकर वनस्थीके पांडे कहाये वि० ७ । मधुकरके और गुणाकरके पुत्र पौत्रादिसे बहुतसी वंशवृद्धि हुई, मधुकरके यदुनंदन, चन्दन, मणिकंठ, कंजू, वंशी, दुर्गादत्त, धर्मदत्त, महासुख, मिश्री और

इन्द्रदत्त यह दश पुत्र हुए । चन्दन तरीके सुकुल वि० ६ । यदुनन्दन नवायेंके सुकुल वि० ५ । मणिकंठ पुरवाके सुकुल वि० २ । कुंजू गहरोलीके सुकुल वि० ४ । वंशी खरौलीके सुकुल वि० ४ । दुर्गादास भैंसोईके सुकुल वि० ५ । धर्मदत्त विगहपुरके सुकुल वि० ११ । महासुख गूदरपुरके सुकुल वि० ५ । मिश्री चन्द्रपुरके सुकुल वि० २ । इन्द्रदत्त ऊंचे गांवके सुकुल कहाये वि० ४ । गुणाकरके एक पुत्र जगदेव वनस्थीके पांडे कहाये वि० ५ । चन्दनके रुदी, पुरुषोत्तम और सन्त वह तीन पुत्र हुए, और तरीके सुकुल कहाये वि० ६ । ५ । ५ । यदुकी पहली स्त्रीसे एक पुत्र सत्यशील हुए वह नवायेंमें वसे और सत्यके सुकुल कहाये वि० ५ । दूसरी स्त्रीसे सर्वसुख नामक पुत्र हुए यह पाटनके सुकुल कहाये वि० १० । महासुखके आशादत्त, पद्मनाभ, रामचन्द्र यह तीनपुत्र हुए, और यह तीनों गूदरपुरके सुकुल कहाये वि० ५ । ५ । ५ । मिश्रीके शिवमणि और कुमनई यह दो पुत्र हुए, शिवमणि चौसाके सुकुल कहाये वि० ८ । कुमनई चन्दनपुरके सुकुल कहाये वि० ९ । जगदेवकी पहली स्त्रीसे भास्कर पुत्र हुए, यह वनस्थीके पांडे कहाये वि० ६ । दूसरी स्त्रीसे लाला, भोजराज, रामनाथ यह पुत्र हुए, लाला गौराके पांडे वि० ९ । भोजराज कपिलाके पांडे वि० १० । रामनाथ पटियारीके पांडे कहाये वि० १० । सर्वसुखके नाल घाटम और अजय यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों दिलीपपुरके सुकुल कहाये वि० १२ । शिवमणिके दिनकर, महँगू, पटोरे यह तीन पुत्र हुए, दिनकर चौसाके सुकुल वि० ७ । महँगू पटोरेको कोई सुकुल कोई मिश्र कहते हैं, इससे यह सुकुल मिश्र कहाये और चौसायें, हे वि० ८ । किसी वंशावलीका लेख है कि भानु सुकुलने महँगू पटोरेको राशिमें बैठाया, सो भानु सुकुलमें मिलनेके कारण दोनों सुकुल मिश्र विख्यात हुए, इनके वंशीय अवतक अपनेको भानुके सुकुल कहते हैं । कुमनईके सूर्यमणि, गोपीनाथ दो पुत्र हुए दोनों गौडहाके सुकुल कहाये वि० १० । भास्करके बल्लु और कुलीन दो पुत्र हुए, दोनों भीमपुरके पांडे कहाये वि० ७ । भोजराजके पूरन और भैरव दो पुत्र हुए, पूरन लखनऊके पांडे, वि० १९ । भैरव असली खोरीगलीमें निवास करनेसे खोरके पांडे कहाये वि० २० । रामनाथके भानु, कुंठवन, कृष्णादीन, सुक्खू यह चार पुत्र हुए, भानु वेलाके पांडे वि० ९ । कुंठवन पटियारीके पांडे कहाये, वि० ९ । कृष्णादीन पालीके पांडे वि० ८ । सुक्खू डौंडियाखेरेके पांडे कहाये वि० ९ । सूर्यमणिकी पहली स्त्रीमें एक पुत्र वृन्दावन हुए यह गौडहाके सुकुल कहाये वि० १० । दूसरी स्त्रीसे एक पुत्र जगदेव, दूसरे रामनाथ और तीसरे नारायण हुए, जगदेव महोलीके सुकुल वि० १० । रामनाथ सिकटियाके सुकुल कहाये ; वि० १० । नारायण गलाथेक सुकुल कहाये वि० १६ । गोपीनाथके होल, हरदास, जगई, कश्यप और भानु यह ५ पुत्र हुए, यह सब विगहपुरके सुकुल अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० ११ । १२ । १० । १३ । १० क्रमसे जानने । नाल सुकुलके देवमणि, अहित, तितई, वतनू, दिउता, ठकुरी और पडगा यह सात पुत्र हुए, और सब दिलीपपुरके सुकुल कहाये

वि० १२ । ११ । १२ । १२ । ११ । ११ । १० क्रमसे जानने । घाटमके एक पुत्र भागीरथ हुए, वह साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अजयके अम्बर और कान्ह यह दो पुत्र हुए, अम्बर घाटमपुरके सुकुल कहाये वि० ३ । कान्ह विरसाके त्रिवेदी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए वि० ११ । पूरनके वीरेश्वर, श्रीकृष्णी, शीतल, गिरधर, परम, हरिनाथ, मणिराम और गंगाराम यह आठ पुत्र हुए, वीरेश्वर, श्रीकृष्णी और शीतल यह तीनों गंगासोंके पांडे कहाये विश्वा२०।२०।२०। गिरधर, परम और हरिनाथ यह शिवपुरमें गंगासोंके पांडे कहाये वि० १२०।२०।२०। मणिराम और गंगाराम यह तूतीपारवाले गंगासोंके पांडे कहाये वि० २०।२०।२०। भैरवके प्राणनाथ, परमकृष्ण और जगदीश यह तीन पुत्र हुए । प्राणनाथ और परमकृष्ण यह गंगासोंके पांडे कहाये वि० २०।२०। जगदीश यह अमराके पांडे कहाये वि० १२ । भागीरथके चिन्ता, हीरा, दयाल, माधव और रेवन्त यह पांच पुत्र हुए । चिन्ता और दयाल साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० । १० । हीरा घाटमपुरके त्रिवेदी वि० १० । माधव हाजीपुरके त्रिवेदी कहाये वि० १० । हाजीगफूरखाने संवत् १६०१ में वसाया था । रेवन्त बिहारपुरके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अम्बरके रूप और जगदीश्वर यह दो पुत्र हुए, दोनों घाटमपुरके सुकुल कहाये वि० ३ । ३ । कान्हकी बडी स्त्रीमें वासुदेव और भोला यह दो पुत्र हुए, और सुठियार्यमें रहे और कान्हके त्रिवेदी जेठीवाले कहाये वि० १२ । १३ । छोटी स्त्रीसे खेमानन्द, पद्मधर, मणिकण्ठ, घनाकर, हरी और प्रभाकर यह छः पुत्र हुए, खेमानन्द, पद्मधर, मणिकण्ठ यह लड्डुरीके कान्हवाले त्रिवेदी कहाये, मिरसामें निवास किया वि० १४ । १३ । १४ । घनाकर नवार्यके सुकुल वि० १३ । हरी प्रभाकर असनीके सुकुल कहाये वि० १८ । १८ । नारायणके एक पुत्र बाबू हुए, सो गलाथेके सुकुल कहाये वि० १७ । होलके दो पुत्र हुए, रुद्री और भैरव, रुद्रीका दूसरा नाम उदयनाथ था, यह दोनों विगहपुरके सुकुल कहाये वि० १२।१२ हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि और माणिक यह दो पुत्र हुए यह दोनों विगहपुरके सुकुल कहाये वि० ८ । १० । नगईके एक पुत्र सकटे हुए, सो विगहपुरमें नगईके सुकुल कहाये वि० १२ । कश्यपकी पहली स्त्रीसे एक पुत्र ख्युराज हुए, सो विगहपुरमें ख्युरहाके सुकुल कहाये वि० १० । दूसरी स्त्रीसे भगदत्त, भास्कर और मकरन्द यह तीन पुत्र हुए यह तीनों विगहपुरके सुकुल अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए वि० १४।१०।१२। गंगारामके उद्धरणनाथ, रामेश्वर यह दो पुत्र हुए । उद्धरणनाथ सोनहामें गंगासोंके पांडे कहाये वि० १७ । रामेश्वर विद्वान् होनेसे भट्टाचार्य कहाये, और लखनऊ ऊंचे टोलेमें बसे, यह लखनऊके पांडे भट्टाचार्य कहाये वि० १८ । परमकृष्णके भूरे और भाष्कर यह दो पुत्र हुए और गंगासोंके पांडे कहाये वि० २०।२०। जगदीशके लाला, राम, वीरे और जीवन यह चार पुत्र हुए, और अमराके पांडे कहाये वि० १० । १४ । १४ । १४ । पद्मधरके कल्लू, सन्नु और येनी यह तीन पुत्र हुए यह त्रिवेदी लड्डुरी कान्हके तौधकपुरवाले कहाये । वि०

१२ । १२ । १२ । बाबूके छंगे, केशी और पसई तीन पुत्र हुए, छंगे गलाथेके सुकुल अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० २० । केशी टेढाके सुकुल कहाये वि० १८ । पसई गलाथेमें रहे और वहांके सुकुल कहाये वि० १४ । भैरवके लालमणि, तिलक और वनवारी यह तीन पुत्र हुए, और अपने २ नामसे उधन्नपुरके सुकुल कहाये वि० १३ । १० । १० । चन्द्रमणिकी पहली स्त्रीसे बलराम और मधुसूदन यह दो पुत्र हुए, दोनों विगहपुरके सुकुल कहाये वि० ५ । ८ दूसरी स्त्रीसे अनिरुद्ध और भीमसेन यह दो पुत्र हुए, दोनों भैंसईके सुकुल कहाये वि० १० । १० । माणिक्यके आदित्यराम, कल्याणमणि, हरिहर, देवमणि यह चार पुत्र हुए, यह चारों पाटनके सुकुल कहाये वि० ८ । १२ । १२ । ११ । भवदत्तके चन्द्राकर, दिवाकर, विष्णुदत्त, ( बिसई ) नारायण और जगन्नाथ यह पांच पुत्र हुए, इनमें पहले चार भवदत्तके सुकुल कहाये वि० २० । १८ । १७ । १५ । जगन्नाथ दिलीप नगरमें रहे और भवदत्तके सुकुल कहाये वि० १४ । भास्करके घनश्याम लालमणि दो पुत्र हुए, और विगहपुरी भास्करके सुकुल कहाये, वि० १४ । १० । मकरन्दके भास्कर, मोहन, धनराज, देशकर और घनश्याम यह पांच पुत्र हुए, यह सब विगहपुरी मकरन्दके सुकुल कहाये, वि० १० । १० । १० । १० । १० । रामेश्वरके एक पुत्र गोपीकान्त हुए, यह लखनऊके पांडे भट्टाचार्य कहाये, वि० १८ । भूरेके लाले, बाले, गंगू, कान्हर और भद्राधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचो खोरी गलीके पांडे कहाये वि० २० सबके । भास्करके छः पुत्र लाले, नरोत्तम, टौंडर, कन्वर; विश्वनाथ और मनीराम हुए, लाले कन्नौज खोरी-गलीके पहांडे काये वि० २० । नरोत्तम असनीके पांडे कहाये वि० २० । टौंडर कन्नौजकी खोरी-गलीके टौंडरहा पांडे कहाये वि० १८ । कन्हर कन्नौज खोरीगलीके पांडे कहाये वि० २० । विश्वनाथ गंगासों खोरीगलीके पांडे कहाये, वि० २० । मनीराम, तूतीपार, खोरीगलीके पांडे कहाये वि० २० । लालके लालू और वीरभद्र दो पुत्र हुए, लालू बिलासपुरके पांडे वि० १४ । वीरभद्र अमराके पांडे कहाये वि० १० । मनीरामके बिहारी, दलपति, यशपति, दिवोल यह चार पुत्र हुए, बिहारी मौराके पांडे वि० ७ । दलपति नारायणपुरके पांडे वि० ५ । यशपति नौगांवके पांडे वि० ५ । दिवोल विगहपुरके पांडे कहाये वि० ५ । वीरभद्रके नित्यानन्द, छेदी, मथनू, गंगा, खंजन, ज्वालानाथ और बद्रीनाथ यह सात पुत्र हुए, नित्यानन्द इटौंजाके पांडे वि० ७ । छेदी वागीशपुरके पांडे वि० १० । मथनू वनगांवके पांडे वि० १० । गंगा चम्पापुरके पांडे वि० ४ । खंजन मनोहके पांडे वि० ५ । ज्वालानाथ नाथपुरके पांडे वि० ४ । बद्रीनाथ हरिदासरके पांडे कहाये वि० ३ । जीवनके मोती मसा, चेतन, वचनू, केशरी और शिवा यह छः पुत्र हुए । मोती लखीमपुरके पांडे वि० ५ । गंगा बिरसापुरके पांडे वि० ८ । चेतन किन्तुरियाके पांडे वि० ५ । वचनू वररीके पांडे वि० ५ । केशरी जहानाबादके पांडे वि० ५ । शिवा बगराके पांडे कहाये वि० ५ । छंगे सुकुलके देवशर्म, दुल्भी, मकरन्द, यदुनाथ, पीतांबर, कमलापति, लोकनाथ यह सात

पुत्र हुए । यह सातों गलाथेक छंगेवाले सुकुल कहाये वि० १९ । १९ । १८ । १८ । १८

१९ । १८ क्रमसे जानने । लालमणिके बाला, वागीश, दो पुत्र हुए, बाला हफीजाबादमें रहे, और अपने नामके सुकुल कहाये वि० २० । वागीश न्यायशास्त्रमें पारंगत हुए, और भट्टाचार्य पदवी पाकर कन्नौजमें जाकर बसे, सो न्यायवागीशके सुकुल भट्टाचार्य कन्नौजके कहाये वि० २० । बलरामके मनसुखराम, अनन्तराम, हरिशंकर, दुर्गादास यह चार पुत्र हुए, और चारों भैसईके सुकुल कहाये वि० १० । ९ । ८ । १४ । अनिरुद्धके जगन्नाथ, रघुनाथ, यह दो पुत्र हुए और गलाथेक सुकुल कहाये वि० १० । १० । भीमसेनके उमा और धन्नी दो पुत्र हुए, उमा विगहापुरमें अपने नामसे सुकुल कहाये वि० ८ । धन्नी ओनहामें अपने नामसे सुकुल कहाये, वि० १३ । हरिहरके कसनी, घनश्याम, पुरुपोत्तम तीन पुत्र हुए, तीनों विगहपुरी हरिहरके सुकुल कहाये वि० १६ । १६ । १७ । दिवाकरके कमल, कल्यान, निली, कृष्ण, और गोविन्द यह पांच पुत्र हुए । यह पांचो विगहपुरमें दिवाकरके भवदत्तके सुकुल कहाये वि० १६ । १६ । १५ । १५ । १६ । गोपीकान्त पांडेके वंशीधर, मुरलीधर, मतिकृष्ण, शिरोमणि, चन्द्रमौलि, कमलापति, और श्रीयति ये सात पुत्र हुए, और सातों कन्नौजमें भट्टाचार्य पांडे कहाये वि० २० । २० । १९ । १९ । २० । २० । २० । मथनूक जयदेव एक पुत्र हुए, यह सवालपुरके पांडे कहाये वि० ७ । मुजले पहितियाके पांडे वि० ४ । बालाके वीरेश्वर, नन्दराम, रामनिवाज, हरिसेवक और जगन्नाथ यह पांच पुत्र हुए और पांचों हफीजाबादी बालाके सुकुल कहाये वि० २० । २० । २० । १९ । १९ । वागीशके चन्द्रमौलि, जयकृष्ण और कुमार यह तीन पुत्र हुए, तीनों कन्नौजमें न्यायवागीशके सुकुल भट्टाचार्य कहाये वि० १५ । १५ । १५ । जगन्नाथके हरि तथा पैकूहरी दो पुत्र हुए, यह विगहपुरमें अपने नामसे सुकुल किल्यात हुए, वि० १० । पैकू भी अपने नामसे विगहपुरी सुकुल कहाये वि० १८ । रामनाथके मणिकंठ एक पुत्र हुए, यह एकडलाके सुकुल कहाये वि० १२ । धन्नीके काशीराम, गोपी, विश्वेश्वर, रामेश्वर और सत्यधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों औनिहा ग्राममें धन्नीके सुकुल कहाये वि० १४ । १४ । १३ । १३ । १४ । कसनीके कल्याणकर और ललऊ दो पुत्र हुए, यह दोनों सातनपुरमें हरिहरके सुकुल कहाये वि० १२ । १३ । घनश्यामके इन्द्रमणि नामक एक पुत्र हुए, सो निवादाके सुकुल हरिहरवाले कहाये वि० १३ । पुरुपोत्तमके मोहन और रतन दो पुत्र हुए, यह दोनों विगहपुरमें हरिहरके सुकुल कहाये वि० १३ । १३ । वीरेश्वरके काशीराम, यदुवीर, रघुवीर, गयादत्त और गदाधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों हफीजाबादमें बालाके सुकुल कहाये, वि० २० । २० । २० । २० । २० । नन्दरामकी पहली स्त्रीमें विश्वनाथ, गोपीनाथ और अमरनाथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों सकूरावादी बालाके सुकुल कहाये वि० १७ । १७ । १८ । दूसरी स्त्रीसे हरिशंकर और चक्रपाणि यह दो पुत्र हुए और सकूरावादी बालाके सुकुल कहाये वि० १८ । १८ । पैकूके बेनीराम



लक्ष्मीराम, चतुर्भुज और विश्वनाथ यह चार पुत्र हुए, इनमें पहले तीन विगहपुरमें बसे और विश्वनाथ निवर्द्धमें रहे और सब पैकूके सुकुल कहाये वि० १९ । १९ । १९ । १९ क्रमसे जानने । गोपीके एक पुत्र गोकुल हुए वह औनिहामें धन्नीके सुकुल कहाये वि० १३ । मोहनके मुरलीधर, महासुनि, रेवतीनाथ यह तीन पुत्र हुए, मुरलीधर नांवीपुरके ( तिहारिया ) सुकुल कहाये वि० ११ । रतनके सोते, वसावन, नित्यानन्द और नन्दू यह चार पुत्र हुए, चारों निवाहाके सुकुल कहाये वि० १२ । १२ । १२ । १२ । काशीरामके यमुनादीन, देवीदीन, गंगादीन यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों हफीजा-वादमें बालाके सुकुल कहाये वि० २० । २० । २० । चक्रपाणिके रामचरन और शिवचरन यह दो पुत्र हुए, और शक्रावादी बालाके सुकुल कहाये वि० १९ । १९ । विश्वनाथके गुलाल और देवीदत्त यह दो पुत्र हुए, और दोनों बदरकामें पैकूके नुकुल कहाये वि० १६ । १६ । मुरलीधरके दशरथ असई, भोजराज, सुखमन, गंगाचरण, संकटादीन और विरजू यह सात पुत्र हुए, दशरथ और असई यह दोनों बदरकामें अपने नामसे सुकुल कहाये वि० १५ । १४ । भोजराम वसईके सुकुल कहाये वि० १२ । सुखमन विगहलीके सुकुल कहाये वि० ४ । गंगाचरण वरवाईके सुकुल कहाये वि० ७ । संकटादीन वरसुईके सुकुल कहाये वि० ४ । विरजू वरोलीके सुकुल कहाये वि० ४ । भोजराजके सन्तू, भगवान् और शक्तिवर तीन पुत्र हुए, सन्तू पतिहाके सुकुल वि० ५ । भगवानदीन अभसपुरके सुकुल वि० ५ । शक्तिवर भलईके सुकुल कहाये वि० ३ । सुखमनके विहारी, कोमल और गिरिवर यह तीन पुत्र हुए विहारी बेलके पांढे वि० ५ । कोमल सुसौराके पांढे वि० ४ । और गिरिवर मौरांवके पांढे कहाये वि० १० ।

इस प्रकार भरद्वाज गोत्रमें सत्याधरसे गिरिवर पर्यन्त २६५ पुरुषा वंशकर्ता और १६ पीढीहैं

## इति भरद्वाजगोत्रविवरणम् ।

### उपमन्युगोत्रका वर्णन ।

ब्रह्मार्जीके पुत्र वशिष्ठजी, उनके पुत्र व्याघ्रपाद, उनके उपमन्यु, उपमन्युके सिन्धुप्रद । सिन्धुप्रदके वंशमें बहुत समयके पीछे भूपानाम पंडित परम प्रतापी हुए, इन पंडितजीने पिनाकपुरके राजा धर्मपालको अपना शिष्य करके जुजुहूतपुरमें यज्ञ कराया, और राजपुरोहितकी कन्यासे भूपार्जीका व्याह हुआ तबसे यह भूपार्जी जुजुहूतपुरके दीक्षित कहाये वि० ५ । भूपार्जीके जानी और यागेश्वर दो पुत्र हुए, जानी जानापुरमें बसे और पाठक कहाये वि० ८ । यागेश्वर यज्ञपुरके दुबे कहाये वि० ४ । जानीके नभऊ और

गदाधर दो पुत्र हुए । नमऊ दरियावादी अवस्थी कहाये वि० ७ । गदाधर सेठपुरके पाठक कहाये वि० ८ । नमऊके कमल, नल और भट्ट तीन पुत्र हुए, कमल विसौराके अवस्थी वि० ५ । नल एकडालाके त्रिवेदी वि० ५ । भट्ट चन्दनपुरके वाजपेयी कहाये वि० ५ । गदाधरके कन्दर्प,सिताबू और बच्चू तीन पुत्र हुए इनमें,कन्दर्प नसुराके पाठक वि० ५।सिताबू जानापुरके पाठक, वि० ५ । बच्चू अंगईके पाठक कहाये वि० ८ । कमलके वंशी और गोपी दो पुत्र हुए, दोनों ओमीपुरके अवस्थी कहाये वि० ५ । ५ । घट्टके एक पुत्र जगन्नाथ चन्दनपुरके वाजपेयी कहावे वि० १० । सिताबूके पतिराखन और ब्रजलाल दो पुत्र हुए, पतिराखन शाहाबादमें जानापुरके पाठक कहाये वि० ५ । ब्रजलाल, मौरायेंके पाठक कहाये वि० ९ । गोपीके गोसल और धर्माई दो पुत्र हुए, वोसल वेनवामऊके पाठक वि० ४ । धर्माई मौरायेंके अवस्थी कहाये वि० ५ । धर्माकी पहली स्त्रीसे देवर्षि, सुरेश्वर, सिद्धनाथ, खांडे, जीवन, केदार, नन्दू और ब्रह्मदत्त यह आठ पुत्र हुए, देवर्षि सरवनके अवस्थी वि० १० । सुरेश्वर जयगांवके अवस्थी वि० १० । सिद्धनाथ दरियाबादके अवस्थी वि० १० । खांडे और जीवन मतिपुरके अवस्थी वि० ८ । ८ । केदार और नन्दू गौराके अवस्थी वि० १० । ८ । और ब्रह्मदत्त मौरायेंके अवस्थी कहाये, वि० १० । धर्माईकी दूसरी स्त्रीसे शिवदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन पुत्र हुए । शिवदत्त मौरायेंके मिश्र वि० ५ । देवदत्त मौरायेंके दुबे वि० ५ । यज्ञदत्त मौरायेंके वाजपेयी कहाये वि० ५ । ब्रह्मदत्तकी पहली स्त्रीसे जो आठ पुत्र हुए वे अठभैरवा अवस्थी कहाये । दूसरी स्त्रीसे परशुराम, कान्हकुमार और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए परशुराम, कान्हकुमार सिंहपुरके अवस्थी वि० १० । १० । दीनानाथ एकडालाके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके एक पुत्र हरदत्त हुए, यह वेनवामऊके पाठक कहाये वि० ५ । देवदत्तकी पहली स्त्रीसे विहारी नामक एक पुत्र हुए, यह पसिगवांके दुबे कहाये वि० ८ । दूसरी स्त्रीसे जीवन, जगनी, किन्दर औ हरसुख यह चार पुत्र हुए, जीवन रिवाडीके अग्निहोत्री, वि० ११ । जगनी जौनपुरके अग्निहोत्री वि० ८ । किन्दर दरियावादी अग्निहोत्री वि० १० । हरसुख बदरकाके अग्निहोत्री कहाये वि० ११ । यज्ञदत्तके विष्णुशर्मा, देवशर्मा, शिवशर्मा महाशर्मा, लक्ष्मीशर्मा यह पांच पुत्र हुए, और पांचों लखनऊके वाजपेयी कहाये वि० १७ । १८ । १८ । १७ । १८ । परशुरामके बडे और गोपाल दो पुत्र हुए, यह त्यौरासीमें वसे और अपने नामसे अवस्थी कहाये वि० १७।१७। कान्हकुमारके माधव और माते दो पुत्र हुए, और त्यौरासीके अवस्थी कहाये वि० २० । १९ । दीनानाथके प्रभाकर नामक एक पुत्र हुए, यह भी त्यौरासीके अवस्थी कहाये वि० २० । हरदत्तके सहतावन, वृन्दावन, पथेन्द्र और सर्वाधार यह चार पुत्र हुए, सहतावन सरमऊके मिश्र वि० ५ । वृन्दावन लखपुराके मिश्र, वि० ५ । पथेन्द्र परसुहियाके मिश्र वि० ४ । सर्वाधार गुर्दवानके मिश्र कहाये वि० ५ । विहारीके थलई और रुपई दो पुत्र हुए, थलई पहुआमें वसे और दीक्षित कहाये वि० ९ । रुपई भैंसईमें वसे

और दुबे कहाये वि० ५ । जगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों जौनपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ७ । ७ । ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो दरियावादी अभिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामें वसे वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माके मदन, माखन और मंगली यह तीन पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १५ । माखन कडरीके वाजपेई वि० १५ । मंगली रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी कहते हैं, शिवशर्माके सुन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लखनऊके वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मल, किसई और कुलमणि यह तीन पुत्र हुए, निर्मल खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२ । किसई, कुलमणि वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३ । १८ । लक्ष्मीशर्माके एक पुत्र कृष्णशर्मा हुए, सो लगनऊके वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । वडेके भोलानाथ, जगपति, रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्योंरासीके अवस्थी बडेके कहाये वि० २० । २० । २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी गोपालके त्योंरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रमई, जगनी, हारिकृष्ण, धरणीधर, मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्योंरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी कहाये, वि० २० । २० । २० । २० । २० । २० । २० । माधवके बाधू, बांके और मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योंरासीमें माधवके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । रूपईके दामोदर और कवितांडव यह दो पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकडलाके त्रिवेदी वि० ११ । कवितांडव विष्णुपुरके दुबे कहाये वि० १५ । ओकेश्वरके एक पुत्र छंगे हुए सो गोरामें वाजपेयी पुरवाके कहाये, वि० १६ । कुलमणिके गुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र हुए, गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहाये वि० १५ । १८ । मथुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराम मनीराम, विलौलाके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । १५ । कृष्णशर्माके पहलीस्त्रीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी कहाये, वि० १८ । दूसरी स्त्रीसे हीरा, बीसा, धत्री और तारा यह चार पुत्र हुए, यह चारों असनीके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । १९ । १७ । दामोदरके साहव, वादे, मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे त्रिवेदी कहाये वि० १० । १० । १२ । १३ । कवितांडवके कला और देवराज यह दो पुत्र हुए, कला कच्चौजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज जैराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ । छंगेके रामभद्र और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । काशीरामके लछनी, बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ और शिवदयाल यह सब

और दुबे कहाये वि० ५ । जगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों जौनपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ७ । ७ । ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो दरियावादी अभिहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामें वसे वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माके मदन, माखन और मंगली यह तीन पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १५ । माखन कडरीके वाजपेई वि० १५ । मंगली रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी कहते हैं, शिवशर्माके सुन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लखनऊके वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मल, किसई और कुलमणि यह तीन पुत्र हुए, निर्मल खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२ । किसई, कुलमणि वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३ । १८ । लक्ष्मीशर्माके एक पुत्र कृष्णशर्मा हुए, सो लगनऊके वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । वडेके भोलानाथ, जगपति, रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्योंरासीके अवस्थी बडेके कहाये वि० २० । २० । २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी गोपालके त्योंरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रमई, जगनी, हारिकृष्ण, धरणीधर, मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्योंरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी कहाये, वि० २० । २० । २० । २० । २० । २० । २० । माधवके बाधू, बांके और मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योंरासीमें माधवके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । रूपईके दामोदर और कवितांडव यह दो पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकडलाके त्रिवेदी वि० ११ । कवितांडव विष्णुपुरके दुबे कहाये वि० १५ । ओकेश्वरके एक पुत्र छंगे हुए सो गोरामें वाजपेयी पुरवाके कहाये, वि० १६ । कुलमणिके गुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र हुए, गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहाये वि० १५ । १८ । मथुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराम मनीराम, विलौलाके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । १५ । कृष्णशर्माके पहलीस्त्रीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी कहाये, वि० १८ । दूसरी स्त्रीसे हीरा, बीसा, धत्री और तारा यह चार पुत्र हुए, यह चारों असनीके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । १९ । १७ । दामोदरके साहव, वादे, मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे त्रिवेदी कहाये वि० १० । १० । १२ । १३ । कवितांडवके कला और देवराज यह दो पुत्र हुए, कला कच्चौजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज जैराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ । छंगेके रामभद्र और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । काशीरामके लछनी, बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ और शिवदयाल यह सब

और दुबे कहाये वि० ५ । जगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों जौनपुरके अग्निहोत्री कहाये वि० ७ । ७ । ७ । किन्दरके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो दरियावादी अग्निहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरामें वसे वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माके मदन, माखन और मंगली यह तीन पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १५ । माखन कडरीके वाजपेई वि० १५ । मंगली रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी भी कहते हैं, शिवशर्माके सुन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लखनऊके वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मल, किस्ई और कुलमणि यह तीन पुत्र हुए, निर्मल खटोलहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२ । किस्ई, कुलमणि वैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३ । १८ । लक्ष्मीशर्माके एक पुत्र कृष्णशर्मा हुए, सो लगनऊके वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये वि० १७ । बडेके भोलानाथ, जगपति, रायप्रसाद और देवादत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्योंरासीके अवस्थी बडेके कहाये वि० २० । २० । २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी गोपालके त्योंरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रमई, जगनी, हरिकृष्ण, धरणी-धर, सुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्योंरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी कहाये, वि० २० । २० । २० । २० । २० । २० । २० । माधवके बाबू, बांके और मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्योंरासीमें माधवके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । रूपईके दामोदर और कवितांडव यह दो पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकडलाके त्रिवेदी वि० ११ । कवितांडव विष्णुपुरके दुबे कहाये वि० १५ । ओकेश्वरके एक पुत्र छंगे हुए सो गोरामें वाजपेयी पुरवाके कहाये, वि० १६ । कुलमणिके गुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र हुए, गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहाये वि० १५ । १८ । मथुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराम मनीराम, विलौलाके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । १५ । कृष्णशर्माकी पहलीस्त्रीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी कहाये, वि० १८ । दूसरी स्त्रीसे हीरा, बीसा, धन्नी और तारा यह चार पुत्र हुए, यह चारों असनीके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । १९ । १७ । दामोदरके साहब, वादे, मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नामसे त्रिवेदी कहाये वि० १० । १० । १२ । १३ । कवितांडवके कला और देवराज यह दो हुए, कला कन्नौजके दुबे कहाये वि० ८ । देवराज जैराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ । छंगेके राममद्र और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । काशीरामके लछनी, बछनी, गंगू, यादव, रघुनाथ और शिवदयाल यह सब

चिलौलामें काशीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १७ । १६ । १६ । १६ । १७ । १७  
मनीरामकी पहली स्त्रीसे लाले, बाले और मनोरथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों भोजियामें मनी-  
रामके वाजपेयी कहाये, वि० १६ । १६ । १३ । इन मनीरामका दूसरा विवाह वटेश्वरमें  
हुआ; उस स्त्रीसे नित्यानन्द, महामुनि यह दोनों वटेश्वरमें अपने नामसे वाजपेयी कहाये,  
वि० १९ । १९ । पीथाके एक पुत्र जगनायक सो वाजपुरमें पीथाके वाजपेयी कहाये, वि०  
१७ । हीराके चत्ते, मत्ते, बीर और भगोले यह चार पुत्र हुए, इनमें तीन असनीमें वसे  
वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । २० । भगोले विहारमें वसे और हीराके वाजपेयी  
कहाये, वि० १९ । वीसाके कमले, उर्वीधर, केशव, गयादत्त, यह चार पुत्र हुए, कमले  
मौरहामें वीसाके वाजपेयी कहाये वि० १९ । उर्वीधर, केशव और गयादत्त ये तीनों असनीमें  
वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २० । २० । २० । धन्नीके भावनाथ, उदयनाथ, गिरधर  
और मुसऊ यह चार पुत्र हुए, और मौजमावादमें धन्नीके सुकुल कहाये, विश्वा १८ ।  
१८ । १८ । १८ । ताराके रघुनंदन नामक एक पुत्र हुए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी  
कहाये, विश्वा १८ । प्रयागके हरी और रघुनाथ यह दो पुत्र हुए और एकडलामें अपने  
नामके त्रिवेदी कहाये, विश्वा १९ । १३ । कलाके कुन्दन और अमई यह दो पुत्र हुए,  
कुन्दन कचियाके दुबे कहाये, वि० १० । अमई नरोत्तमपुरके दुबे कहाये, विश्वा ७ । देव-  
राजके वासुदेव, धरवास, वाल्मीकि और जनार्दन, यह चार पुत्र हुए, वासुदेव केसरमऊके  
दुबे, विश्वा १२ । धरवास इटावामें अपने नामके दुबे विश्वा । २० । वाल्मीकि स्यूराके  
दीक्षित कहाये, विश्वा । ८ जनार्दन रिवाडीके अभिहोत्री कहाये, विश्वा १० । रामभद्रके  
रामऋष्ण और कमलनैन यह दो पुत्र हुए, दोनों लखनऊ ऊंचेके वाजपेयी रामभद्रवाले  
कहाये, विश्वा १९ । १९ । प्रीतिकरके गणपति, पीताम्बर, नरहारि, वेनीदत्त, रामचन्द्र  
और बुद्धशर्मा यह छः पुत्र हुए, इनमें पांच लखनऊके ऊंचे प्रीतिकरके वाजपेयी कहाये, विश्वा  
१८ । १९ । १८ । १८ । २० । बुद्धिशर्मा खालेक वाजपेयी कहाये, विश्वा २० । रघुनाथके  
प्राणसुख, धूमल और चूडा यह तीन पुत्र हुए, यह अमदाबादमेंवसे और काशीरामके वाज-  
पेयी कहाये, विश्वा १८ । १८ । १८ । महामुनिके चन्द, आनन्द लाल, घनश्याम और  
माधवराम यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों वटेश्वरमें महामुनिके वाजपेयी कहाये, वि० १८ ।  
१८ । १९ । १८ । १८ । चत्तेके परशुराम और मुरलीधर यह दो पुत्र हुए, दोनों अस-  
नीमें हीराके वाजपेयी कहाये, विश्वा २० । २० । कमलेक परमेश्वरी नामक एक पुत्र हुए  
सो वीसाके वाजपेयी कहाये, विश्वा १९ । हीराके मानिक, श्याम, वदाम, हीरा, पुरन्दर  
और आत्माराम यह छः पुत्र हुए, यह सब एकडलामें हरीके त्रिवेदी अपने २ नामसे प्रसिद्ध  
हुए वि० १७ । १६ । २० । १८ । १६ । १४ । धरवासके घनश्याम, चन्द्रमणि और  
मनऊ तीन पुत्र हुए, इनमें घनश्याम, चन्द्रमणि इटावामें धरवासके दुबे वि० २० । २० ।  
और मनऊ नरोत्तमपुरमें धरवासके दुबे कहाये, वि० १९ । वाल्मीकिके शान्ति और

सन्तोष यह दो पुत्र हुए, शान्ति दरियावादी दीक्षित, वि० १० सन्तोष नैमिषके दीक्षित कहाये, वि० ७ । जनार्दनके चन्दन और मतिकर दो पुत्र हुए, चन्दन उज्जैनके अभिहोत्री वि० १० । मतिकर ऊगूके अभिहोत्री कहाये, वि० १३ । बुद्धिशर्माके लाला, लक्ष्मण, लोकी, शंकर, भीखू और मनोराम यह छः पुत्र हुए, और लखनऊके खालेके वाजपेयी कहाये, वि० २०।२०।२०।२०।२०।२०। चूडाके शिवनन्दन, स्यूनी और दिवनी, यह तीन पुत्र हुए, और असर्नामें काशीरामके वाजपेयी कहाये वि० १७।१७।१७। लालूके कामदेव और रामदेव यह दो पुत्र हुए, दोनों वटेश्वरमें महामुनिके वाजपेयी कहाये वि० २०।२०। मनऊके जगनू और नरोत्तम दो पुत्र हुए । जगनू चिलौलीके दुबे वि० ५ । नरोत्तम भैंसईके दुबे कहाये वि० ५ । शंकरके चूडा, टीका और देवदत्त यह तीन पुत्र हुए, और तीनों लखनऊके खालेके वाजपेयी कहाये, वि० २०।२०।२०। नरोत्तमके वसई, जानकी और बाबू तीन पुत्र हुए, तीनों सपईमें भैंसईके दुबे कहाये, वि० १२०।६।७। बाबूके एक पुत्र वल्लू हुए सो सपईमें भैंसईके दुबे कहाये, वि० ९। वल्लूके चन्द्र, बद्री और मकरन्द यह तीन पुत्र हुए । चन्द्र, बद्री विलवारेके दुबे वि० १० । ३ मकरन्द भोजपुरके दुबे कहाये, वि० ४ । बद्रीके एक पुत्र सेवकी उन्नावके दुबे कहाये, वि० २ । सेवकीके गोपाल और भूपराम दो पुत्र हुए, गोपाल परोमाके दुबे वि० ८ । भूपराम बरुआके दुबे कहाये वि० ४ । गोपालके जगवंशी, रघुवंशी, परिवर और यमराज ४ पुत्र हुए, जगवंशी औमीपुरके अवस्थी वि० २ । रघुवंशी, परिवर पिलौरीके अवस्थी, वि० ४ । ५ । यमराज दरियावादी मिश्र कहाये, वि० ३ । यमराजके लंकादहन, देवदत्त और ईश्वरी तीन पुत्र हुए, लंकादहन कपिडुलियोंमें गुर्दवानके मिश्र कहाये, वि० २ । देवदत्त एकडलामें अभिहोत्री कहाये वि० ९ । ईश्वरी मीठापुरके उपाध्याय कहाये, वि० २ । इसप्रकार उपमन्यु गोत्रमें २० पीढी और २०४ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता हुए हैं ।

इति उपमन्युगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ सांस्कृतगोत्रव्याख्यानम् ।

ब्रह्माजीके पुत्र भृगुजीके वंशमें सांख्यायन मुनि हुए, इनके पुत्र गगन हुए, इन गगनका दूसरा नाम गौर्व है । गगनके पुत्रसांस्कृत, सांस्कृतके पुत्र जीवाश्व बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके वंशमें पृथ्वीधर महाप्रतापी हुए, पृथ्वीधरको कौशिकपुरक राजाने बुलाकर आवसथ्य यज्ञ कराया, और पृथ्वीधरजीको अवस्थी कहा तबसे यह कौशिकपुरके अवस्थी कहाये वि० ५ । पृथ्वीधरके महीधर और घरणीधर दो पुत्र हुए, महीधर कौशिकपुरके सुकुल, वि० ५ । घरणीधर रूपगुणशीलसम्पन्न होनेके कारण त्रिगुणायत अवस्थी कौशिकपुरके कहाये, वि० ४ । महीधरके पुत्र नामूजी हुए, इनको पृथ्वीधरने यथाशक्ति अध्ययन कराया, परन्तु जब वृद्धावस्थाके कारण नपढा सके तब पूण विद्वान् होनेके लिये मनीराम वाजपेयीके पास

भेज दिया, मनीरामजीने इनको पूर्ण विद्वान् कर दिया और अपनी भुवनेश्वरी नामक कन्या का इनके साथ विवाह कर दिया और अपने समीप पुरैनियां ग्राममें बसाया तबसे नाम्जी पुरैनियाके सुकुल कहाये, वि० ५ । नाभूजीके बुजुरुक और खुर्दपति दो पुत्र हुए। बुजुरुक गुपालपुर (पुरैनियां) के सुकुल कहाये, वि० १८ । खुर्दपति बहारपुर (पुरैनियां) के सुकुल कहाये, वि० १२ । बुजुरुकके छत्रपति, आनन्दवन और मुक्ता यह तीन पुत्र हुए छत्रपति और मुक्ता पुरैनिया नभेलेके सुकुल, वि० १५ । १५ । आनन्दवन अकबरपुर (पुरैनियां) के सुकुल कहाये, वि० १५ । खुर्दपतिके खेमन, बहेरू और रूपन यह तीन पुत्र हुए। खेमन गौराके सुकुल, वि० १० । बहेरू गहिरीके सुकुल, वि० ५ । रूपन जाजमऊके सुकुल कहाये, वि० १० । छत्रपतिके गंगाराम माधवराम, शालग्राम तीन पुत्र हुए, गंगाराम डोमनपुरमें पुरैनियां नभेलेके सुकुल कहाये, वि० १६ । गंगाराम डोमनपुरसे अपने भाइयोंसमेत खजुहामें रहने लगे, यह छिन्नमस्ता देवीके अनन्य उपासक थे, एक समय बादशाह अकबर विजय करते हुए खजुहाके निकट आकर उतरे । गंगारामकी प्रशंसा सुनके इनको अपने समीप बुलाया, और इनका चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और खजुहा ग्रामका नाम फतिहाबाद रक्खा ! माधवराम असनी (पुरैनियां) के सुकुल, वि० १८ । शालग्राम नरवल पुरैनियांके सुकुल, वि० २० । मुक्ताके एक पुत्र रामचक्र हुए। सो गहिरी के सुकुल कहाये, वि० ५ । खेमनकी पहली स्त्रीसे गणपति हरिब्रह्म और ईश यह तीन पुत्र हुए, गणपति फतिहाबादमें पुरैनियां नभेलेके सुकुल कहाये, वि० २० । हरिब्रह्म अमोहमें पुरैनियां नभेलेके सुकुल, वि० २० । ईश असनीमें पुरैनियां नभेलेके सुकुल कहाये, वि० १९ । खेमनके दूसरी स्त्रीसे दारो नामक एक पुत्र हुए, सो असनीके सुकुल कहाये, वि० १० । बहेरूके देवीदीन, दरियाय, जवाहिर, जानकी, भीष्म यह पांच पुत्र हुए, देवीदीन गौराके सुकुल वि० ९ । दरियाव अठाके सुकुल, वि० ५ । जवाहिर गूदरपुरके सुकुल, वि० ७ । जानकी अकबरपुरके सुकुल, वि० ८ । और भीष्म गहरीके सुकुल कहाये, वि० ८ । रूपन के घना और घनश्याम दो पुत्र हुए, घना गौराके सुकुल, वि० १८ । घनश्याम जाजमऊके सुकुल कहाये, वि० १२ । गंगारामके रघुवंश और हरिवंश दो पुत्र हुए, रघुवंश फतिहाबाद में पुरैनियांके सुकुल कहाये, वि० १९ । हरिवंश डोमनपुरमें पुरैनियाके सुकुल कहाये, वि० १४ । गणपतिके विश्वनाथ, गोबर्द्धन, चेरैलाल यह तीन पुत्र हुए, तीनों फतिहाबादमें पुरैनियांके सुकुल कहाये, वि० २० । २० । २० । घनाके कृष्णी और ब्रजलाल दो पुत्र हुए, कृष्णी कौशिकपुरके मिश्र वि० २० । ब्रजलाल विजौलीके दुबे कहाये, वि० २० । घनश्यामके वीर, वनवारी और प्रजापति यह तीन पुत्र हुए, वीर जाजमऊके मिश्र वि० २० । वनवारी चंचैडीके मिश्र, मि० १८ । और प्रजापति इटावाके मिश्र कहाये, वि० १८ । वीर परम विद्वान् रूपवान् और गुणवान् थे, इनको देखकर अकबरबादशाहने मिश्र



जी कहकर आसन दिया तबसे वीरके मिश्र कहाये इनके भ्राता भी संगमें उत्तम वर्तविके कारण वीरके समान मिश्र कहाये और इनको अठारह विश्वा भयादा प्राप्त हुई, विश्वनाथके हृद्गुलाह, वन्दन और दुर्लचन्द्र यह तीन पुत्र हुए। यह तीनों फतिहाबादी पुरैनियां नमेलके मुकुल कहाये, वि० २०। १९। २०। दुर्लचन्द्रके भाऊ और शीतल यह दो पुत्र हुए, दोनों फतिहाबादी पुरनियांके नमेलमुकुल कहाये, विश्वा २०। २०। इस प्रकार सांस्कृतगोत्रमें ८ पीढी और ४२ पुरुषा वंशवृद्धि कर्ता हुए हैं। इति सांस्कृतगोत्र।

इति षट्कुलवर्णनम् ।

### अथ दशगोत्रवर्णनम् ( कश्यपगोत्रका व्याख्यान )

संवत् १५८४ में मदारपुरके अधिपति ब्राह्मणों और यवनोंमें बहुत युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुतसे ब्राह्मण मारे गये, केवल एक अनन्तराम ब्राह्मणकी स्त्री गर्भिणी थी सो बच रही, सो यवनोंके उपद्रवसे स्योना नाम नाईके साथ अपनी ससुरालको चली गई, स्योना नापित बहुत बृद्ध था, और मदारपुरके भुईहार ब्राह्मणोंका परम सेवक था, कुतमऊ ग्राममें उसकी ससुराल थी, अनन्तरामकी स्त्री पति देवर आदिके मारे जानेके कारण बहुत दुःखी रहा करती थी, और बहुत निर्बल हो गई थी, इस कारण बालकका जन्म बड़े कष्टसे हुआ, और माता तत्काल मर गयी, तब स्योना नाईने अपने पुरोहित कश्यपगोत्रीय चिलौलीके तिवारी सुख मणिके द्वारा उस ब्राह्मणीकी मृतकक्रिया कराई, और बालकका जातकर्म संस्कार कराया, और बालकका नाम गर्भू रखा, जब बालक आठ वर्षका हुआ तब पुत्रहीन सुखमणि तिवारीको स्योना नाईने पुत्ररूपसे बालक दे दिया, सुखमणिने उस बालकका वैदिक रीतिसे संस्कारकिया और वेदाध्ययन कराया, गर्भूके कुलमें नाईके उपकारको स्मरण करनेके निमित्त उस्तरे और कटोरीकी पूजा होती है, विश्वा ७। गर्भूके गौरी और गणेश दो पुत्र हुए, गौरी मदारपुरमें रहे, और कुतुमौवाके तिवारी कहाये विश्वा ९। गणेश विहारपुरके कुतुमौवाके तिवारीकहाये, विश्वा ९। गौरीके मोहन, परमसुख, रजनी और कगोरा यह चार पुत्र हुए, और चारों मदारपुरके कुतुमौवा तिवारी कहाये वि० ९। ९। ९। ९। गणेशके पुत्र जुगनू हुए, सो वितौरके अग्निहोत्री कहाये, विश्वा ५। मोहनके शांति सीताराम, कर्ण और जयरामयह चारपुत्र हुए, शांतिबडेराके तिवारी विश्वा ९। सीताराम लुकलपुरके तिवारी विश्वा ५। कर्ण तिरौलीके तिवारी विश्वा ५। जयराम गलाथेके तिवारीकहाये विश्वा ७। कमोरीके ठकुरी, लखनी, रंजन, त्रिभुवन और बहादुर यह पांच पुत्र हुए, ठकुरी गलहैयाके दुबे, विश्वा ४। लखनी नागापुरके दुबे विश्वा ३। रंजन सपुनापुरके दुबे, विश्वा ४। त्रिभुवन बिनहारपुरके दुबे विश्वा ३। बहादुर मगरायलपुरके दुबे विश्वा ७। जुगनूके रामकृष्ण, परमाई और गोवर्द्धन यह तीन पुत्र हुए, रामकृष्ण कृपा-नपुरके मिश्र वि० ५। परमाई भागीरथीके दीक्षित, वि० ४। गोवर्द्धन विधौलीके सुकुल

कहाये, विश्वा ५ । जयरामके साहेब नाम एक पुत्र हुए, सो भिगलानीके अवस्थी कहाये, विश्वा ४ । जयपाल विठूरके दुबे, विश्वा ४ । ठकुरीकी पहली स्त्रीसे भग्गा, जुडावन और शीतल यह तीन पुत्र हुए, भग्गा अमृतपुरके अग्निहोत्री, विश्वा ४ । जुडावन लखनऊके अग्निहोत्री, विश्वा ४ । शीतल कठेरुआके अग्निहोत्री कहाये, विश्वा ४ । रामकृष्णके देवकीनंदन नामक एकपुत्र हुए, सो नगराके मिश्र कहाये, विश्वा ३ । परमाईके एक पुत्र रतन हुए, सो क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा १० । गोवर्द्धनके पुत्र सुन्दर हुए, सो रिवाडीके सुकुल कहाये, वि० ४ । रतनके गोपी, गिरधर गोपाल, गंगा और देवदत्त यह पांच पुत्र हुए, गोपी मदारपुरमें क्यूनाके दीक्षित कहाये, वि० ४ । गिरधर शिवजीमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा ४ । गोपाल विहारपुरमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, वि० ३ । गंगा वाणापुरमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, वि० ९ । देवदत्त कुतमऊमें यज्ञके दीक्षित कहाये, वि० ७ । गोपीके थलई, रूपई, मोहन और भोगी यह चार पुत्र हुए, थलई, रूपई कुतमऊके दीक्षित, वि० ४ । ३ । मोहन कोडर्राके दीक्षित, वि० २ । भोगी शाहाबादके दीक्षित कहाये, वि० २ । गिरधरके खेम, चन्द, यज्ञपति, गुरुदत्त और शिवदीन यह पांच पुत्र हुए, इनमें खेम सेंहुडाके दीक्षित वि० २ । चन्द विहारपुरके दीक्षित, वि० २ । यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० ३ । गुरुदत्त गरहाके दीक्षित, वि० ३ । शिवदीन कलुहाके अग्निहोत्री कहाये, वि० ७ । गोपालके हरी बाबू, आशादत्त- सीरू और भीखू यह पांच पुत्र हुए । इनमें हरी और बाबू खिरौली के अवस्थी वि० ९।९ । आशादत्त ल्यूराके अवस्थी, वि० २ । सीरू मदनिहाके दुबे, वि० २ । भीखू ठाठविलारके दुबे कहाये, वि० २ । भीखूके मदन, भोगी और परमानन्द यह तीन पुत्र हुए, मदन विहारके दुबे वि० २ । भोगी इच्छावरके दुबे, वि० २ । परमानन्द लहुरीपुरके दुबे कहाये, वि० २ । परमानन्दके शीतल और शिवदत्त दो पुत्र हुए, शीतल तिवारीपुरके तिवारी, वि० २ । शिवदत्त नगराके मिश्र, कहाये, वि० ३ ।

इति कश्यपगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ गर्गगोत्रव्याख्यानम् ।

श्रीगर्गाचार्यजी यदुवंशियोंके पुरोहित थे, उनके वंशमें बहुतकाल पीछे महानन्द चौबे परम प्रतापी और प्रसिद्ध हुए, विश्वा ३ । महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडियाखेरेके चौबे कहाये वि० ५ । महेश्वरके श्यामल, सुन्दर और छविनाथ यह तीन पुत्र हुए । श्यामल पिहानीके चौबे विश्वा ३ । सुन्दर अगरीके चौबे, विश्वा २ । छविनाथ जिनखीपुरके चौबे, विश्वा २ । श्यामलके श्रीधर, मनोहर. विद्याधर और गोपाल यह चार पुत्र हुए । श्रीधर, पचोरके पांडे, विश्वा २ । मनोहर पिहानेके पांडे, वि० ४ । विद्याधर कनौजके पांडे वि० ५ । गोपाल पडरीके पांडे कहाये, विश्वा ३ । सुंदरके रंगनाथ और भावनाथ दो पुत्र हुए, रंगनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा ८ । भावनाथ सदनियाके

मिश्र कहाये. विश्वा ३ । गोपालके गुमानी, ठकुरी, चतुरी यह तीन पुत्र हुए, गुमानी शिवराजपुरके अवस्था, वि० २ । ठकुरी संवारिके अग्निहोत्री, विश्वा २ । चतुरी घोक्लीके उपाध्याय कहाये, विश्वा १ । रंगनाथके श्रद्धा, सहतावन और सन्तोष तीन पुत्र हुए, श्रद्धा त्रिपुरारिपुरके पाठक कहाये. विश्वा २ । सहतावन गुदरीपुरक पाठक कहाये, विश्वा २ । सन्तोष सिरौनाके पाठक कहाये, विश्वा २ । गुमानीके रजनी और किन्दर दो पुत्र हुए, रजनी उन्नावके दुबे. विश्वा १ । किन्दर गरगैयाग्रामके चौबे कहाये विश्वा २ । सन्तोषके गिरिधर, गोपाल दो पुत्र हुए, गिरिधर आमताराके पाठक विश्वा २ । गोपाल सांपीक तिवारी, विश्वा २ । गिरिधरक एक पुत्र भार्गव हुए सो छीतूपुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । भार्गवके मुरली और बोधन दो पुत्र हुए, मुरली खिउलिहाके दुबे, विश्वा २ । बोधन सदनियाके दुबे कहाये, विश्वा २ ।

इति गर्गगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ गौतमगोत्रव्याख्यानम् ।

ब्रह्मार्जाके पुत्र महामुनि गौतमर्जा न्यायशास्त्रके आचार्य हैं उनके वंशमें गौतमीगंगाके निकट घनावली ग्राममें माधवानन्द सुकुल न्यायशास्त्रके वेत्ता महागुणी हुए, उनकी पांचवीं पीढ़ीमें त्रिपुरमर्दन नाम सुकुल महाप्रतापी हुए और घनावलीके सुकुल कहाये, वि० ४ । त्रिपुरमर्दनके पुत्र क्षेमकर्ण अपने पिताक बसाये त्रिपुरारिपुरमें जाकर रहे, इस कारण त्रिपुरारिके सुकुल कहाये, वि० ४ । क्षेमकर्णके धनई, विजयी और अंगद यह तीन पुत्र हुए, धनई गहरवके तिवारी, वि० २ । विजयी-वादपुरके ति० वि० २ । अंगद बक्षनिहाके तिवारी कहाये, वि० ५ । धनईके यदुवंश और हरिवंश दो पुत्र हुए, यदुवंश चकलापुरक अग्निहोत्री, वि० २ । हरिवंश शुक्लपुरके अग्निहोत्री कहाये, वि० १ । विजयीके भगवन्त और भगवानदीन यह दो पुत्र हुए, भगवन्त भदेश्वरीके दुबे वि० १ । भगवानदीन गलौलीके दुबे कहाये, वि० २ । अंगदकी पहली स्त्रीमें रूपराम और शिवलाल दो पुत्र हुए, रूपराम चिलौलीके पांढे वि० २ । शिवलाल गुलौलीके पांढे कहाये वि० २ । दूसरी स्त्रीसे कंठमणि हुए, सो पोखराके मिश्र कहाये, वि० २ । रूपरामक कालेश्वर और नागेश्वर दो पुत्र हुए । कालेश्वर नौदसीके पांढे, वि० २ । नागेश्वर हरिहरपुरके पांढे कहाये वि० ३ । कंठमणिके परमसुख और महासुख दो पुत्र हुए, परमसुख जूंगरपुरके मिश्र, वि० २ । महासुख पोखराके मिश्र गौतमी कहाये, वि० २ । कालेश्वरके मधई भजनी और सीवन्त यह तीन पुत्र हुए, मधई त्रिपुरारिपुरके अवस्था, वि० ४ । भजनी गूंगरपुरके अवस्था वि० २ । और सीवन्त नवलपुरके अवस्था कहाये, वि० ४ । भजनीके मतिकर और यज्ञ दो पुत्र हुए, मतिकर वीरमपुरके दुबे वि० २ । यज्ञ भोगीपुरके अवस्था अपने नामसे विख्यात हुए वि० ४ ।

इति गौतमगोत्र ।

अथ भारद्वाजगोत्रवर्णनम् ।

भारद्वाज संहितामें लिखा है कि बाणत्रिद्याके प्रचार करनेवाले भरद्वाजजी बड़े तपस्वी हुए, उनके शिष्य तपोधन नाम ब्रह्मचारीने अपने गुरुजीकी आज्ञासे चित्रकूटके महाराज महिपाल अभिवंशोत्पन्नकी सौभाग्यवती नामवाली कन्यासे विवाह किया, और अंगेठा नाम ग्राममें रहे, वहां ब्राह्मणोंको बुलाय अभिहोत्र यज्ञ किया, तथा दान दक्षिणासे परम संतुष्ट किया, तब ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर तपोधनजीको अभिहोत्री कहा और भारद्वाजगोत्र प्रमाण दिया, उन तपोधनकी सातवीं पीढीमें धीरधर महाप्रतापी हुए और अंगेठाके अभिहोत्री कहाये वि० ४ । धीरधरके बालमुकुन्द, देवकीनन्दन, अघमोचन, मदमोचन और विहारी यह पांच पुत्र हुए, बालमुकुन्द ऐधीपुरके तिवारी, वि० ४ । देवकीनन्दन तिवारीपुरके तिवारी विश्वा ५ । अघमोचन चौंसाके दुबे, विश्वा ३ । मदमोचन मिहौनीके दुबे, विश्वा ३ । विहारी रूयूलहाके दुबे कहाये, विश्वा २ । बालमुकुन्दके हीरा, किसन और शंकर यह तीन पुत्र हुए, हीरा राधनपुरके सुकुल विश्वा ५ । किसन गाडूमऊके दीक्षित विश्वा ५ । शंकर पहितियाके पांडे कहाये विश्वा ४ । देवकीनन्दनके एक पुत्र दुर्गादत्त हुए, सो खौरिहाके तिवारी कहाये, विश्वा ४ । अघमोचनके एक पुत्र त्रिलोकी हुए, सो इच्छावरके उपाध्याय कहाये, विश्वा ३ । मदमोचनके अंबिकादत्त और दुलारे दो पुत्र हुए, अंबिकादत्त बरुआके दुबे विश्वा ४ । दुलारे इच्छावरके दुबे कहाये विश्वा ३ । विहारीके एक पुत्र मनऊ हुए, सो रेगांवके दुबे कहाये, विश्वा ४ । हीराके एक पुत्र शुभङ्कर हुए, सो राधनिके पांडे कहाये, विश्वा ५ । किसनके ब्रजलाल, बुलाकी, वनवारी, केदार, महानन्द और निहाल यह छः पुत्र हुए, ब्रजलाल, मगडैरुके दीक्षित, वि० ५ । बुलाकी रूयूरहाके दीक्षित विश्वा ५ । वनवारी जहांनाबादके दीक्षित, विश्वा ५ । केदार-डौंडियाखेरेके दीक्षित, वि० ८ । महानन्द कल्हारीके दीक्षित, विश्वा ३ । निहाल हडाडेके दीक्षित कहाये, विश्वा ३ । यह छहों गाडूमऊमें जा रहे इसकारण अपने २ स्थानके दीक्षित गाडूमऊके कहाये । शंकरके गंगाधर, शशिधर, शूलधर, यह तीन पुत्र हुए, गंगाधर भुसौरामें, शशिधर सनहामें, शूलधर अमौरामें पहितिहासे जाकर रहे इस कारण तीनों पहितियाके पांडे अपने २ स्थानके कहलाये, विश्वा ३ । ३ । २ । शुभंकरके श्रीपति और पिनाकी दो पुत्र हुए, श्रीपति किम्पुराके सुकुल वि० ५ । पिनाकी शान्तिपुरके सुकुल कहाये, वि० ३ । पिनाकीके एक पुत्र भूरे हुए कालिकापुरके सुकुल कहाये, वि० ३ । भूरेके शिवसहाय, रामसहाय, शिवसाल, गंगा, कौशिक और भवदत्त यह छः पुत्र हुए, शिवसहाय पुरवाके तिवारी, विश्वा २ । रामसहाय विनौरके तिवारी वि० २ । शिवलाल ऐनिके तिवारी वि० २ । गङ्गा पुरैनियाके दीक्षित वि० २ । कौशिक इच्छावरके अवस्थी वि० २ । भवदत्त पुरैनियाके दीक्षित कहाये वि० ८ । शिव-

लालके आनु, परममुख, पुरुषोत्तम, पूरन और रिपुमर्दन यह पांच पुत्र हुए यह सब ऐनीमें रहे, आनु पराक्षरी दुबे ऐनीके कहाये वि० २ । परममुखको कोई सन्तान नहीं हुई, इन्होंने भारद्वाज गोत्रके महंगूपटोरके दो पुत्रोंको राशि बैठाया, यह दोनों महंगू पटोरके मिश्र कहाये वि० ८ । पुरुषोत्तम उनइयांके दुबे वि० २ । पूरन मदेश्वरके दुबे वि० २ । रिपुमर्दनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब पूरनके पुत्रको गोद लिया । उसकी संतान रिपुमर्दनके नामसे राशि बैठारं दुबे कहाये वि० २ । पुरुषोत्तमके जनार्दन, शिवशंकर, हरिनाथ, शोभाराम, अर्गलस यह पांच पुत्र हुए, जनार्दन अंगोठाके अग्निहोत्री वि० ४ । शिवशंकर नागपुरमें जहानावादी उपाध्याय कहाये वि० २ । हरिनाथ महीशवादी उपाध्याय कहाये वि० २ । शोभाराम नरोत्तमपुरके नरैनियां अध्वर्यु कहाये वि० २ । अर्गलस सगुनापुरके अध्वर्यु और पाठक कहाये वि० २ । हरिनाथके रामभजन, नारायण, काशीराम और प्रयागू यह चार पुत्र हुए, रामभजन सौनिहांके पाठक वि० २ । नारायण गलाथेके पाठक वि० २ । काशीराम द्यौकलीके पाठक वि० २ । प्रयागू नागापुरके पाठक कहाये वि० २ । नारायणके यागेश्वरी, परमेश्वरी, भानु और यज्ञ यह चार पुत्र हुए, यागेश्वरी मगरायलके पाठक वि० २ । परमेश्वरी नवरलके पाठक, वि० २ । भानु चौसाके पाठक वि० ५ । यज्ञ जहानाबादके पाठक कहाये वि० ३ । इसमें नौ पीढीतक ५२ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता हैं ।

इति भारद्वाजगोत्रवर्णनम् ।

अथ धनञ्जयगोत्रवर्णनम् ।

श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध उत्तरार्द्धमें एक कथा है कि, द्वारकापुरीमें एक ब्राह्मणके जब जब सन्तान होती थी, तब २ मर जाती थी, अन्तमें वह मरे बालकोंको राजा उग्रसेनकी सभामें ले जाकर रख आने लगा और अनेक दुर्वचन कह आता था कि, तुम्हारेही अपराधसे मेरे बालक मरजाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे संतानकी रक्षा आपके अधीन है. एक समय जब वह मृतक बालकको सभामें रख रहा था, और दुर्वचन कह रहा था उस समय अर्जुन वहां बैठा था, उसने ब्राह्मणका आर्तनाद सुनकर पुत्रके बचानेकी प्रतिज्ञा की, और अन्य बालकके जन्मके समय बाणोंसे उसका घर छा दिया, इसपर भी बालक न बचा और होतेही मर गया, तब अर्जुन प्रतिज्ञामंग होनेसे अग्निमें जलनेको तयार हुआ, तब कृष्ण-चन्द्रजीने अर्जुनको समझाया, और साथ ले जाकर महानारायणके समीपसे ब्राह्मणके सब पुत्र लाकर उसको दिये, इससे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ. अर्जुनने उन बालकोंमेंसे एक पुत्र उस ब्राह्मणसे मांग लिया और उस बालकका नाम कृष्णानन्द रक्खा, तब भगवान् कृष्णचन्द्र-जीने अर्जुनसे कहा तुमने हमारे नामके अनुसार इसका नाम रक्खा, इससे हम वर देते हैं कि तुम्हारे नामसे इस बालकका गोत्र चलेगा, पश्चात् गर्गाचार्यसे उस बालकका यज्ञोपवीत कराया, अर्जुनने उस बालकको सान्दीपनि ऋषिके पास पढ़ने भेज दिया, यह पढ़कर पूर्ण

विद्वान् हुए, बहुत काल पीछे इनके वंशमें पुष्करानन्द और पुष्पानन्द दो भाई परमप्रतापी हुए, पुष्करानन्दका वंश नहीं चला, पुष्पानन्द नानपाराके तिवारी कहाये विश्वा ३ । पुष्पानन्दके रामशरण, शिवशरण, हरिभजन और शिवभजन यह चार पुत्र हुए, रामशरण नौगंजाके तिवारी विश्वा ३ । शिवशरण विहटाके तिवारी विश्वा ३ । हरिभजन कचौराके तिवारी विश्वा ३ । शिवभजन शृंगमपुरके तिवारी कहाये विश्वा ३ । रामशरणके सुरेश्वर और ग्रहपति दो पुत्र हुए, सुरेश्वर मन्मथारिपुरके दीक्षित विश्वा २ । ग्रहपति चरखारीके अवस्थी कहाये विश्वा ५ । शिवशरणके गिरधारी और यज्ञपति दो पुत्र हुए, गिरधारी मुन्द्रपुरके दुबे विश्वा २ । यज्ञपति यज्ञपुरके अवस्थी कहाये विश्वा २ । हरिभजनके एक पुत्र शिवशंकर पालीके अवस्थी कहाये विश्वा २ । शिवभजनके कलानिधि और ध्रुवनैन दो पुत्र हुए, कलानिधि तिलसराके अवस्थी विश्वा २ । ध्रुवनैन अम्बरसरके अवस्थी कहाये विश्वा २ । इस प्रकार धनत्रय गोत्रमें ३ पीढ़ी और १२ पुरुष वंशकर्ताओंका वर्णन है ।

इति धनञ्जयगोत्रवर्णनम् ।

अथ वत्सगोत्रव्याख्यानम् ।

ब्रह्माजीके वंशमें वत्स मुनि परम प्रतापी हुए, उनके वंशमें बहुत काल पीछे माधवानन्द, जी परम प्रतापी और महाविद्वान् हुए, यह द्यौकलीमें रहनेके कारण द्यौकलीके तिवारीकहाये वि० ३ । माधवानन्दके मदनगोपाल और गोवर्द्धन दो पुत्र हुए, मदनगोपाल सांपिनीके तिवारी वि० ३ । गोवर्द्धन अर्गलपुरके तिवारी कहाये वि० २ । मदनगोपालके कसनी, रोहन, झुन्नी और गयादत्त यह चार पुत्र हुए; कसनी बन्धनाके तिवारी वि० ७ । रोहन रौतापुरके तिवारी वि० २ । झुन्नी रायपुरके तिवारी वि० २ । गयादत्त मकनपुरके तिवारी कहाये वि० २ । कसनीके मौजीराम, जीवन और बद्री यह तीन पुत्र हुए, मौजीराम आकापुरके पांडे वि० ५ । जीवन वत्सरपुरके मिश्र वि० २ । बद्री हिंगुलपुरके मिश्र कहाये वि० २ । रोहनके शोभाराम और रूपई दो पुत्र हुए । शोभाराम सिमौनीके सुकुल वि० ४ । रूपई हथभरियाके दीक्षित कहाये वि० १ । झुन्नीके गणेशदत्त, सूर्यप्रसाद और शिवानन्द यह तीन पुत्र हुए गणेशदत्त पटनाके दुबे वि० २ । सूर्यप्रसाद रायपुरके दुबे वि० १ । शिवानन्द द्यौकलीके दुबे कहाये वि० २ । गयादत्तके रामदयाल और गौतम यह दो पुत्र हुए, रामदयाल हिरौलीके सुकुल वि० ४ । गौतम जयापुरके पाठक कहाये वि० ३ । मौजीरामके मुन्ना, गिरधर, खूबी और गोपाल यह चार पुत्र हुए, मुन्ना जानावलीके पांडे वि० ३ । गिरधर भदरसीके पांडे वि० ४ । खूबी सेढरपुरके पाठक वि० ४ । गोपाल मसवानपुरके पांडे कहाये वि० ४ । गणेशदत्तके एक पुत्र चिंतामणि द्यौकलीके अग्निहोत्री कहाये वि० ४ । सूर्यप्रसादके एक पुत्र मोहन सूर्यूरहाके दुबे कहाये वि० ३ । शिवानन्दके एक पुत्र भार्गव हुए, जो शिवराजपुरके दुबे

कहाये वि० ४ । गोपालके शंकर, शिवनन्दन और परमसुख यह तीन पुत्र हुए, शंकर रावत पुरके पांढे वि० ४ । शिवनन्दन धौकलीके पांढे वि० ४ । परमसुख ठकुरियाके पांढेकहाये वि० ४ । मोहनके हीरा, जगदेव, सुखमन, सिताब और बलदेव यह पांच पुत्र हुए । हीरा नौगार्येके-पांढे वि० ४ । जगदेव हरिदासपुरके पांढे वि० ४ । सुखमन सिमौनीके दुबे वि० ४ । सिताब व्यौसरिहाके दुबे वि० ४ । बलदेव स्यूलिहाके दुबे कहाये वि० ४ । भार्गवके मौरिहा, नगऊ, शिरोमणि, सुखराम और चन्दन यह पांच पुत्र हुए, मौरिहा फफुन्दके रावत कहाये वि० १ । नगऊ पडरी नेवलाके पांढे वि० ४ । शिरोमणि धौकलीके उपाध्याय वि० २ । सुखराम बन्धनाके पाठक वि० ७ । चन्दन मियाँगंजके पाठक कहाये वि० ५ । सितावक एक पुत्र परम अर्गलपुरके दुबे कहाये वि० २ । इस प्रकार वत्स गोत्रमें सात पीढीतक ३८ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता लिखे गये हैं ।

इति वत्सगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ वशिष्ठगोत्रव्याख्यानम् ।

प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठ ऋषि हुए जो सूर्यवंशके पुरोहित थे । उनके वंशमें बहुत काल पीछे अति प्रतापी महानन्द नामक पंडित हुए वह मौरार्येके एकावशिष्टी चौबे कहाये वि० ३ । महानन्दके एक पुत्र महिमान हुए सो मोतीपुरके चौबे कहाये वि० ३ । महिमानके काशीराम और प्रयागदत्त दो पुत्र हुए, काशीराम गोधनीके चौबे वि० ३ । प्रयागदत्त मितपुरके चौबे कहाये वि० ३ । काशीरामके राघव और भगीरथ दो पुत्र हुए, राघव जलारीके दुबे वि० ३ । भगीरथ लहरपुरके दुबे कहाये वि० २ । प्रयागदत्तके आनन्द नारायण और नंदराम तीन पुत्र हुए, आनन्द हन्नुपुरके तिवारी वि० २ । नारायण स्यूराके चौबे वि० १ । नंदराम स्यूराके पाठक कहाये वि० २ । राघवके महाबीर और भवानी दो पुत्र हुए, महाबीर ब्रह्मशिलाके दीक्षित वि० २ । भवानी वंगरियाके दीक्षित कहाये वि० २ । आनन्दक एक पुत्र वंशी सगुनापुरके दीक्षित कहाये वि० ३ । नारायणके नथमल और जमदग्नि दो पुत्र हुए, नथमल आंटीपुरके चौबे वि० ३ । जमदग्नि डौंडियाखेरेके चौबे कहाये एकावशिष्टी वि० २ । भवानीके सोहनी और मोहन दो पुत्र हुए, सोहनी रामपुरके अवस्थी वि० २ । मोहन सगुनापुरके दुबे कहाये वि० ३ । मोहनके एक पुत्र गोवर्द्धन कन्नौजके चौबे कहाये वि० ३ । इस प्रकार वशिष्ठ गोत्रमें सात पीढीतक १७ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता लिखे गये हैं ।

इति वशिष्ठगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ कौशिकगोत्रव्याख्यानम् ।

महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी जो तपोबलसे ब्रह्मर्षिपदको प्राप्त हुए, उन ऋषिका एक नाम कौशिक भी है, बहुतकाल पीछे इस वंशमें देवकीनन्दन नामक एक पंडित दो वेदके ज्ञाता हुए और भेदेसी ग्राममें निवास करके अनेक ब्राह्मणोंको बुलाय पुत्रेष्टियज्ञ किया. ब्राह्मणोंने इनको पुत्र होनेका आशीर्वाद देकर अवस्थीकी पदवी दी, सो यह भेदेसीके अवस्थी कहाये वि० ३ । देवकीनन्दनके एक पुत्र शोभादत्त भेदेसीके अवस्थी कहाये वि० २ । शोभादत्तके विश्वम्भर और वैजनाथ दो पुत्र हुए विश्वम्भर मुर्चापुरके अवस्थी वि० २ । वैजनाथ पिहानीके अवस्थी कहाये वि० २ । विश्वम्भरके रतिनाथ, चिन्तामणि यह दो पुत्र हुए, रतिनाथ कंपिलाके त्रिगुणायत वि० ३ । चिन्तामणि इटावाके त्रिगुणायत कहायेवि० ३ । वैजनाथके गिरिजापति, द्वारका, कुंजू, बलदेव और नासिकेत यह पांच पुत्र हुए गिरिजापति ऐठानके तिवारी वि० २ । द्वारका कपूरथलाके पाठक वि० १ । कुंजू कर्लिंगके दीक्षित, वि० १ । बलदेव जिलहपुरके तिवारी वि० २ । और नासिकेत इटावाके दुबे कहाये ( १ वि० ) चिन्तामणिके किशोर, गदाधर और गोपी यह तीन पुत्र हुए, किशोर कर्लिंगके मिश्र वि० ३ । गदाधर संकेतपुरके मिश्र वि० ३ । गोपी बहिरामपुरके मिश्र कहाये वि० २ । नासिकेतके एक पुत्र भगोले शिवराजपुरके दुबे कहाये वि० ३ । भगोलेके सुधाकर और शक्तिधर दो पुत्र हुए, सुधाकर शिवराजपुरके राउत वि० १ । शक्तिधर स्यूराके अभिहोत्री कहाये वि० १ । इस प्रकार कौशिक गोत्रमें छः पीढीतक अठारह पुरुषावंशवृद्धिकर्ता लिखे हैं।

इति कौशिकगोत्रव्याख्यानम् ।

अथ कविस्तगात्रव्याख्यानम् ।

श्रीब्रह्माजीके वंशमें कविस्तजी परम तेजस्वी हुए, उत वंशमें पंडित योगराज जो परम प्रतापी हुए, योगिराजजीके भद्रशील और महीधर दो पुत्र हुए, भद्रशील नसुराले दुबे वि० ३ । महीधर विलखारीके पाठक कहाये वि० ३ । महीधरके किन्नर और कन्दर्प दोपुत्र हुए किन्नर घाटमपुरके पाठक, वि० ३ । कन्दर्प विलखारीके पाठक कहाये वि० २ । किन्नरके हरदेव नामक एक पुत्र हुए सो नानामऊके पांडे कहाये वि० २ । कन्दर्पके जानकीनाथ, जयराम और कुन्दन यह तीन पुत्र हुए, जानकीनाथ किनावाके त्रिगुणायत वि० १ । जयराम गुगुरहाके दुबे वि० २ । कुन्दन विठ्ठलपुरके चौबे कहाये वि० १ । जयरामके मान्धाता, खेतली और रंगनाथ यह तीन पुत्र हुए, मान्धाता चंचेडीके चौबे वि० २ । खेतली कजरीके अवस्थी वि० ३ । रंगनाथ भटपुराके दुबे कहाये वि० २ । कुन्दनके चुन्नी, पुखराज और शक्तिधर यह तीन पुत्र हुए चुन्नी मगलपुरके मिश्र वि० २ । पुखराज चिलौलीके दुबे वि० २ । शक्तिधर शीतलाके अभिहोत्री कहाये वि० २ । इस प्रकार कविस्त गोत्रमें ५ पीढी तक १४ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता लिखे गये हैं ।

इति कविस्तगोत्रव्याख्यानम् ।



## अथ पाराशरगोत्रव्याख्यानम् ।

श्रीवेदव्यास मुनिके पिता पाराशरजीके वंशमें शक्तिधर पंडित परम प्रतापी हुए सो नागपुरी पाराशरी दुत्रे कहाये वि० ३ । शशिधरके महेश्वरी नामक एक पुत्र हुए, सो नागपुरी शुक्ल कहाये वि० ३ । महेशदत्तके हरिभजन, शिवभजन और रामभजन यह तीन पुत्र हुए, हरिभजन नागरपुरके दुत्रे वि० ४ । शिवभजन रामपुरके सुकुल वि० ४ । रामभजन नागपुरके तिवारी कहाये वि० ३ । हरिभजनके सधारी, महतू और गोविन्द यह तीनपुत्र हुए मधारी सिमोनीके पाराशरी दुत्रे वि० १ । महतू नरवरपुरके पारा० दुत्रे वि० १ । गोविन्द त्रसहीके पारा० दुत्रे वि० १ । शिवभजनके शंकर, विहारी और परमानन्द यह तीन पुत्र हुए, शंकर सिमोनीके पाराशरी अवस्था वि० २ । विहारी सिमोनीके पाराशरी मिश्र वि० २ । परमानन्द सिमोनीके पाराशरी दीक्षित कहाये वि० २ । रामभजनके विष्णुदत्त और पीतम दो पुत्र हुए, विष्णुदत्त गुदरियापुरके शुक्ल वि० २ । पीतम पहाडपुरके तिवारी कहाये वि० २ । विहारीके कामता और कालीचरण दो पुत्र हुए, कामता पटनेके मिश्र वि० २ । कालीचरण सिमोनीके पाराशरी पाठक कहाये वि० २ । इस प्रकार पाराशर गोत्रमें पांच पीढी तक १५ पुरुष वंशवृद्धि कर्ता लिखे गये हैं ।

इति दशगोत्रवर्णनम् ।

## विशेष वक्तव्य ।

इस प्रकारसे यह १६ गोत्र कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंमें मुख्य कहे जाते हैं । इनमें पहले लिखे हुए छः गोत्र षट्कुल कहाते हैं, शेष दश गोत्र धाकर कहे जाते हैं, इसके सिवाय ५६ गोत्र और भी हैं जिनका व्यौरा उन उन वंशावलियोंमें मिल सकता है इसमें सन्देह नहीं कि अब भी कान्यकुब्ज जातिमें ब्राह्मणत्व विशेष रूपसे झलकता है और खान पान आचार विचारमें कुछ २ शुद्धता है, परन्तु वरके ऊपरकी ठहरौनी जात्यभिमान और अविद्या इस जातिमें इतनी बढी हुई है कि इस जातिको रसातलमें लिये जाती है घरमें चूल्हेपर तवातक सावित नहीं है कुलीनताके अभिमानसे अपने पुत्रोंको पढाते तक नहीं कि हम पढाकर क्या करैगे कुलीनताकी खोजवाले आवैगे और हजार बारहसौ दे जायैगे आनंद करैगे इस चक्रमें कितनीही कन्या धनाभावसे कारी रह जाती हैं, और कितने ही दशगोत्री बालक कुमारही रह जाते हैं सभा भी बनती हैं पर ठीक उद्योग न करके विवाहादिके समय उसी कुरीतमें बहती रहती है, भगवान् इन लोगों पर कृपा करके इन्हें सुमति दें जिससे यह जाति अपने पुत्रोंको विद्यादान करै करावै और ठहरौनी जैसी महा अनर्थकारिणी कुरीतिको अपनेमें से निकाल बाहर करै । निर्धन भ्राताओंकी कन्याओंके विवाहमें योग्य दान ले दें तो देसका कल्याण हो सकता है ।

अथ सरयूपारीणब्राह्मणोत्पत्तिः ।

सरयू नदीके उत्तर किनारेको लोकमें सारव कहते हैं, वहांके उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंकी सारव संज्ञा है, इसीसे यह ब्राह्मण सारवापारीण वा सरयूपारीण वा सरवरिया नामसे संसार में विख्यात हैं । इनमें भी गर्ग, गौतम, शाण्डिल्य, पराशर, सावर्णि, काश्यप, वत्स, भरद्वाज, कौशिक; उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतकौशिक, गार्ग्य, कात्यायन, गर्दभीमुख, भृगु, मार्ग, अगस्त्य, कुंडिन तथा और भी अनेक गोत्र देखे जाते हैं, इनमें त्रिकुल, त्रयोदश तथा तृतीय श्रेणी यह तीन भाग हैं । गर्ग, गौतम, शाण्डिल्य, भरद्वाज, वत्स, घृतकौशिक, गार्ग्य, सावर्ण्य, गर्दभीमुख, सांक्रुत, काश्यप इन ग्यारह गोत्रोंसे तीन और तेरह, अर्थात् सोलह घर इन ब्राह्मणोंके भेद कहे हैं, गर्ग गौतम और शाण्डिल्य इन तीन कुलोंकी सन्तति त्रिकुल या प्रथम श्रेणीसे गिनी जाती है, पयासी, समुदार, धर्मपुरा, चौराकांचनी ( गुर्दवान ) बृहद्ग्राम ( बडगो ) माला, पाला, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफला तथा इटिया यही तेरह स्थान हैं, इन स्थानोंवाले दूसरी श्रेणीके हैं, इस प्रकारसे यह सोलह भेद हुए । अगस्त्य, कुण्डिन्य पाराशर, वशिष्ठ, मार्ग, कात्यायन, गार्ग्य, उपमन्यु, कौशिक तथा भृगु और इनके शिवाय अन्य गोत्रवाले सरयूपारीण तीसरी श्रेणीमें गिने जाते हैं, खोरिया, कौंडरिया, अगस्तपार, सिंघनजोडी, नैपूरा, करैली, हस्तग्राम, गुरौली, चारपानी, मीठाबोल, सोनोरा, मार्जनी, पोहिला, कोडाराम, कुसोरा, पिपरासी यह इनके स्थान हैं, इनमें गर्ग वंशवाले शुक्ल, वयसी, मधुवनी, माजनी, धरमा, भरसी, पयासी ग्रामोंके ब्राह्मण मिश्र कहाते हैं । सरया, सोहगौरा, धतुरा, चेतिया, गुरौली, पाला, टाडा, मिण्डी, नहौली, पोहिला, चौरा तथा सिंघनजोडी ग्रामोंके ब्राह्मण द्विवेदी और त्रिवेदी कहाते हैं । इटिया, माला, नागचोरी, हस्तग्रामधमौली, चारपानी, त्रिफला, इटार और अगस्तपार ग्रामोंके ब्राह्मण पाण्डेय कहाते हैं । कांचनी अर्थात् गुर्दवान्, बृहद्ग्राम अर्थात् बडगो, मीठाबोल, कोडारि, समुदार और सरार ग्रामोंके ब्राह्मण द्विवेदी कहाते हैं । नैपूरा तथा पिपरासी ग्रामोंके ब्राह्मण चतुर्वेदी कहाते हैं, सोनारा ग्रामके पाठक खोदिया और लखमाके उपाध्याय और करैली ग्रामके ओझा कहाते हैं । कौण्डिन्य गोत्रके शुक्ल मिश्र और त्रिवेदी कहाते हैं, इसके सिवाय और भी अनेक उपनाम हैं, यद्यपि सब ब्राह्मण समान कुलमें हैं, परन्तु पीछे कर्मवश उनमें भेद होगये, प्रथम उत्पत्ति कुलीन—जिनकी उत्पत्ति आरम्भसे उत्तम रूपसे चली आती है, दूसरे द्वामुष्यायण अर्थात्—दत्तक क्रीतक आदिरूपसे दूसरे कुलोंमें प्राप्त हुए, तीसरे पंक्तिपावन हैं, जिनकी स्थितिसे दूषित ब्राह्मणोंकी पंक्ति भी पावन हो जाती है यह सब वेद वेदांतके पारगामी और सदाचारनिष्ठ होते थे, छहों अंगोंका ज्ञाता दूसरा विनयी अर्थात्—विनयसम्पन्न, तीसरा योगी, चौथा सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाननेवाला, पाँचवां यायावर अर्थात्—एक रात्रिसे अधिक एक स्थानमें न रहनेवाला, ऐसे

ब्राह्मण पंक्तिपावन कहाते हैं, तथा अठारह विद्याओंमें किसी एकका ज्ञाता कर्मयुक्त पंक्ति-पावन है. सातवां त्रिनाचिकेत तीन अग्नि अर्थात्—गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयका उपासक, तीनों वेदोंका ज्ञाता, आठवें धर्मशास्त्रका ज्ञाता, नौमें नीति शास्त्रका भी पंक्तिपावन है, शम्भु एक ब्राह्मण भी पंक्तिदूषकोंमें बैठ जाय तो पंक्ति पावन करता है, नर्ग, गौतम, शाण्डिल्य, भृगु, सावर्णि, वत्स, भरद्वाज, कश्यप, गर्दभीमुख तथा गार्ग्य गोत्रके ब्राह्मणोंमें पंक्तिसंज्ञाका विरल प्रचार है, इनका विवाहसम्बन्ध और भोजन परस्पर ही होता है. जो ब्राह्मण पंक्ति सीमाको उलंघन कर बारहके ब्राह्मणोंमें विवाह करते हैं, उनकी त्रुटी संज्ञा है । सरयूपारीगोंमें पंक्तिमूल जिनकी कुलीनता आरंभसे चली आती है. यथा नगर, नदौली, वेयसी, बृहद्ग्राम, भरसी, धतुरा, मलांव, पिपरा, धर्मपुरा सोदि-आ. लखिमा आदि दूमरे पंक्तिसंज्ञक अर्थात् स्थितिपंक्ति यथा मधुवनी, रतनमाला, सिरजम भरया, सोहगौरा, चैतिया, बन्धुआदि तीसरे त्रुटि अर्थात्—पंक्तिसे च्युत, जैसे पयासी, पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों भेद ब्राह्मणोंके ज्ञान तथा मर्यादाके हेतु हैं, पंक्तिके सब ब्राह्मण देशकी सीमाके बाहर भी पंक्तिके घरोंको पाकर परस्पर कन्या सम्बन्ध करलेते हैं, पंक्तिके घरोंके सिवाय उत्पत्ति कुलीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्बन्ध सरवार देशकी सीमाके भीतर अपने तथा देशमर्यादाके हेतु परम्पराके कारण स्वदेशमें ही करते हैं, परन्तु पुत्रका विवाह स्वदेशके बाहर भी करलेते हैं, सरयूपारके देशोंमें कुछ ब्राह्मणोंके नामान्तमें घरआदि संज्ञा लगती है, उसका कारण यह है, कि वडगो—अर्थात् बृहद्ग्राममें भरद्वाज कुलके एक ब्राह्मण वास करते थे इसी ग्रामसे जाकर कुछ ब्राह्मण कुटुम्बसहित सरारग्राम जो तप्ती नदीके किनारे है, उसमें निवास करनेलगे, कालान्तरमें राजद्वेषके कारण सरारग्रामके समस्त निवासियोंका क्षय होगया, परन्तु उस कुलकी एक गर्भिणी बधू जो पहलेसे ही अपने पिताके घर चलीगई थी बचगई, जिसके उदरसे एक पुत्रने अपने नानाके यहां जन्म लिया, आठ वर्षकी अवस्थामें जब उस बालकको कुछ बोध हुआ, तब उसने अपनी मातासे पिता आदिका नाम पूछा, तब माताने रोरोकर सारा वृत्तान्त कहा, वह तेजस्वी बालक इस बातको सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ, और अपने मित्र साधो नामक एक ग्वालेको लेकर उस ग्राममें जहां उसके कुटुम्बका क्षय हुआ था पहुंचा, और इस भूमिको देख शोककुल हो कहने लगा, जब पूर्वपुरुषोंका यहां क्षय हुआ है तब मैं भी अपने प्राण यहीं त्यागन करूंगा, ग्वालेने उसको बहुत समझाया परन्तु जब वह किसी प्रकारसे न माना, तब ग्वालेने कहा तो नदीमें स्नान करके तुमको यह काम करना उचित है यह सुनकर बालक नदीमें स्नान करने चला गया ज्योंही ग्वालेने देखा कि वह आंख ओलट हुआ त्योंही ग्वालेने आत्मघात कर लिया, जब वह ब्राह्मण कुमार स्नान करके आया अपने मित्रकी यह दशा देखकर बड़ा दुःखी हुआ, और फिर धैर्य धर अपनी पैतृकभूमिमें निवास करना निश्चित किया, इस प्रकार स्वभूमि धारण करनेसे उसका नाम धरणीधर हुआ, उस दिनसे

उसके वंशजोंके नामान्तमें धर संज्ञा लगाई जाती है और इस कुलमें साधोनामक भ्वालेका पूजन उसी समयसे होता है, इसी सरारग्रामसे पंक्तिका प्रचार हुआ है, गोरक्षनाम ब्राह्मणके चार पुत्र हुए, राम आदि उनके नाम हुए, उनके वंशजोंके अन्तमें तवसे राम आदि संज्ञा लगाई जाती है, सरया ग्राम निवासी अपने वंशके अन्तमें यह लगाते हैं, दूसरे सोहगौराग्रामके ब्राह्मणोंमें कोई २ अपने नामके अन्तमें कृष्णशब्द लगाते हैं, इससे अपनेको कृष्णवंशोत्पन्न सूचित करते हैं, तीसरे मणिकुलोत्पन्न धतुरा नामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें मणिशब्द लगाते हैं, चौथे नाथ कुलोत्पन्न चैतिया ग्रामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें नाथशब्द लगाते हैं । ऊपर कहे हुए चारों कुलके ब्राह्मण अपना गोत्र श्रीमुख शाण्डिल्य कहकर उच्चारण करते हैं, यह श्रीमुखसंज्ञा व्यवहारमात्रकी है, और यह श्रीमुखसंज्ञा वत्स्य, आश्वलायन, बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, तथा गोत्र प्रवर दर्पणकारादि मुनियोंके ग्रंथोंमें तो नहीं देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रके लिये लगा लिया जाता है । त्रिकुलवालोंमें तो रामकृष्ण, मणि तथा नाथ शब्द लगाये जाते हैं । उन्हीं शब्दोंसे वह त्रिकुलमें समझे जाते हैं, नांदौजी ग्राममें एक नंददत्त नामक ब्राह्मण रहते थे, उनके वंशमें मेरु, फेरु और सुखापति यह तीन पुत्र हुए इनमें दो पुत्रोंके नामान्तमें नाथ और पतिशब्द प्रचलित हुआ, वह अब तक उनके वंशजोंमें चलता है, फेरुके वंशजोंके अन्तमें नाथ और पिण्डीग्रामनिवासी सुखापति वा सभापतिके वंशधर अपने अपने नामोंके अन्तमें पतिशब्द लगाते हैं, ग्रामका नाम पिण्डी इस कारण हुआ कि गौतमकुलके पंक्ति ब्राह्मणोंने सभापतिके हाथसे जलसे सानी सतुओंकी पिण्डी भोजन की और उनको पंक्तिमें मिलाया, गर्दभीमुख नामके समान पांच गोत्रकार ऋषि पांच पृथक् २ कुलोंमें उत्पन्न हुए हैं अर्थात् गर्दभी भृगुवंशमें, गर्दभीमुखवशिष्ठ, गर्दभी विश्वामित्र, गर्दभ आंगिरस तथा गर्दभीमुख कश्यपकुलमें हुए हैं' इससे नादौली ग्रामवासी ब्राह्मणोंके गोत्र गर्दभीमुख कहे जाते हैं । ( न कि गर्धभमुख ) इसके अन्तमें शाण्डिल्यशब्दकी योजना अनुचित बताई जाती है ।

अब प्रवरोंका निरूपण करते हैं ।

आंगिरस और भृगुके सिवाय यदि प्रवरके ऋषियोंमें एकभी प्रवरर्षि समान दीख पड़े तो सगोत्र कहना चाहिये. हरित, संकृति, कण्व, रथीतर, मुद्गल, विष्णुवृद्ध यह छः ऋषि स्वक्षत्रियकुलसे अंगिरस पक्षमें जानेके कारण केवलाङ्गिरस कहे जाते हैं, और वीतहव्य मित्रयु, शुनक तथा वेणु वह चार भृगुपक्षमें जानेके कारण केवल भार्गव कहे जाते हैं । गर्गवंशमें गार्ग्यगोत्री, इटिआ और कोडरि ग्रामोंके ब्राह्मणोंके पंच प्रवर अर्थात् अङ्गिरस, बार्हस्पत्य, भारद्वाज, गार्ग्य और श्येन्य हैं । सो नौरा, खोरिया, बडगांव इन तीनों गांवोंके ब्राह्मणोंके भारद्वाज गोत्र और आंगिरस, बार्हस्पत्य, भरद्वाज, यह तीन प्रवर हैं । इन ब्राह्मणोंका समान

गोत्र होनेसे विवाहसम्बन्ध वर्जित है। भरद्वाज, गर्ग, रौक्षायण और यह चारों भारद्वाज कहे जाते हैं, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुलमें उत्पन्न प्रथमकक्षाके त्रिकुल ब्राह्मणोंके अन्तर्गत तथा कांचनी, अर्थात् गुर्दवान, और दूसरी श्रेणीके अन्तर्गत ब्राह्मणोंका भी गौतम गोत्र है, और यह व्यार्षेय कहाते हैं, इनके प्रवर आंगिरस, औत्थय, गौतम हैं, इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं। सरैया, सोंहगौवा, धतुरा, चेतिया गुरौली, पाला तथा चौरा ग्रामोंके ब्राह्मणोंका शाण्डिल्य गोत्र है, और पिण्डीग्रामके ब्राह्मणोंका गोत्र गर्दभीमुख है, यह दोनों गोत्री व्यर्षेय कहाते हैं, और इनके प्रवर काश्यप, असित, देवल अथवा शाण्डिल्य असित देवल है। त्रिफला नैपुरा ग्रामोंके ब्राह्मणोंका कश्यप गोत्र है, और यह व्यार्षेय कहाते हैं। इनके प्रवर कश्यप आवत्मार और असित हैं। शाण्डिल्य कश्यप और गर्दभीमुख इन तीनों ब्राह्मणोंके ग्रामोंका समान प्रवर गोत्र होनेसे विवाह सम्बन्ध नहीं होता। कश्यप, निधुव, रेभ, तथा शाण्डिल्य, यह चारों समान गोत्र होनेसे परस्पर विवाह सम्बन्धके योग्य नहीं हैं। भार्गवकुलमें उत्पन्न वत्सगोत्री ब्राह्मण चारग्रामोंमें वास करते हैं। पयासी, समुदार, नागचौरी, पोहिला, चारपानी, और ईटार ग्रामवासी ब्राह्मणोंका सावर्णि गोत्र है, भृगुसावर्णि और वत्सगोत्रोंके पंचप्रवर भार्गव, च्यावन, आप्नवान और्व और जामदग्न्य है। इन गोत्रोंमेंभी परस्पर विवाह संबन्ध नहीं होता। भृगु, जामदग्न्य, वत्स, इन तीनोंकी संज्ञा श्रीवत्स कही जाती है। उसी प्रकार भार्गव, च्यवन, आप्नवान, उर्वज, सावर्ण्य, जीवन्ति, जाबालि ऐतिशायन, वैरोहित्य, अवटघ, मंडुज अनन्तर अर्थात् पहलेके योगसे जो उत्पन्न हुए हैं, आर्ष्टिसेन, देवरात और अनूप यह सब सगोत्री हैं। समान प्रवर होनेसे इनका परस्पर विवाह नहीं है। माण्डव्य, दर्भ संज्ञक, रैवतके साथ भृगु तथा जामदग्न्यादिका भी विवाह सम्बन्ध नहीं है। मलाव ग्रामके ब्राह्मणोंका गोत्र सांस्कृत है, और इनके तीन प्रवर आङ्गिरस, सांस्कृत्य और गौरवीत हैं। धर्मपुरा ग्रामके ब्राह्मणोंका गोत्र घृतकौशिक तथा प्रवर वैश्वामित्र घृतकौशिक है। कुसौरा और पिपरासी ग्रामोंमें कात्यायनगोत्रके ब्राह्मण निवास करते हैं, इनके तीन प्रवर वैश्वामित्र, कात्य और आक्षील हैं, मीठाबेल ब्राह्मणोंका कौशिक गोत्र है, इनके वैश्वामित्र आश्मरथ और वाधूल यह तीन प्रवर हैं, कात्यायन कौशिक और घृतकौशिक यह तीनों एकही गोत्रवाले होनेसे इनमें विवाह सम्बन्ध नहीं है, करैली ग्रामके ब्राह्मण अपने ग्रामको छोड़कर अन्यत्र निवास करते हैं इनका उपमन्यु गोत्र, और वासिष्ठ, ऐन्द्र, प्रमद, और भारद्वासव्य यह तीन प्रवर हैं। मार्जनीग्रामके ब्राह्मण वशिष्ठगोत्री हैं, यह अपनेको व्यार्षेय कहते हैं, इससे इनके वाशिष्ठ, आत्रेय, जातूकर्ण यह तीन प्रवर हैं, हस्तग्राम धमौलीके ब्राह्मणोंका पराशरगोत्र तथा वाशिष्ठ, शाक्त और पाराशर्य यह तीन प्रवर हैं। कुंडिन गोत्रके ब्राह्मणोंके वाशिष्ठ मैत्रावरुण और कौडिन्य यह तीन प्रवर हैं, वसिष्ठ, कुंडिन, उपमन्यु और पराशर इन चारोंके समानगोत्र होनेसे इनमें परस्पर विवाह-

सम्बन्ध नहीं होता । वेनके पुत्र पृथु हुए इनकी कन्याके एक पुत्र वसु हुआ, वसुके पुत्र उपमन्यु कहे जाते हैं उन्हींसे गोत्र चला है मित्रावरुणके एक पुत्र कुंडिन एकार्षेय हुआ; इनके वंश-वाले वाशिष्ठनामसे प्रसिद्ध हुए । अगस्त्य पार ग्रामके निवासी ब्राह्मणोंका अगस्त्य गोत्र है ] यह त्र्यार्षेय हैं अर्थात् आगस्त्य, माहेन्द्र और मायोभूव यह तीन प्रवरवाले हैं बेलग्रामके ब्राह्मणोंका भरद्वाज गोत्र और आंगिरस, वार्हपत्य तथा भरद्वाज यह तीन प्रवर हैं। सरयूके दक्षिण तटवर्ती कोई २ ब्राह्मण अपनेको मीठाबेल ग्रामवासी भरद्वाज गोत्री कहते हैं, पर मीठाबेलके ब्राह्मणोंका कौशिक गोत्र और वैश्वामित्र, आश्रमथ तथा वाधूल यह तीन प्रवर हैं । सो इनसे नहीं मिलते. विष्टौली, हरपुर, सिंहनजोडी आदि ग्रामोंके ब्राह्मण जो सरवार देशमें रहते हैं वे अपना गोत्र भार्गव बताते हैं और पञ्चप्रवर कहते हैं. पर भार्गवनामक गोत्र कहीं शास्त्रोंमें नहीं पाया जाता, पर सम्भव है कि विष्टौली ग्रामवासी ब्राह्मणोंका गोत्र भार्गव हो । अङ्गिराके दो पुत्र वत्स और भार्ग ऋगुके पक्षमें प्राप्त होकर वत्स और ऋगुके पुत्र भार्गव कहाये । जिनके भार्गव च्यावन आसवान् औरव और जामदग्न्य यह पांच प्रवर हैं, इस भाँतिसे वत्स गोत्रवालोंके दो भेद हुए, यथा जामदग्न्यवत्स तथा अजामदग्न्यवत्स जिनको गोत्र स्मरण न हो वह शास्त्रसम्मतसे कश्यपगोत्र जानलें, वा अपने पुरोहितके गोत्रको अपना जानें, परन्तु आचार्यके गोत्र और प्रवरोंमें विवाह न करें, इसमें यह श्लोक प्रमाण है (अविज्ञातः स्वगोत्रश्चेद्भवेदाचार्यगोत्रकः । आचार्यगोत्रप्रवरोद्वाहोऽप्यस्मिन्न सम्मतः॥मत्स्य.) आपस्तम्ब कहते हैं । एकार्षेया वाशिष्ठा अन्यत्र पराशरेभ्यः) अर्थात् वशिष्ठगोत्रवालोंका वाशिष्ठ ही एक प्रवर है, इसके पीछे पराशर उपमन्यु तथा कुंडिन होते हैं । यह हिरण्यकेशिकी सम्मति है, अत्रिकी कन्यामें विवाहसे पूर्व वशिष्ठजीसे जातूकर्ण उत्पन्न हुए । विवाह होनेपर कन्याका गोत्र पतिका गोत्र होता है, विवाहसे पहले पिताका गोत्र होता है, इसकारण जातूकर्णके प्रवरमें अत्रि और वशिष्ठ दोनोंही आये, इससे जातूकर्णकी सन्तान अत्रि तथा वशिष्ठ कुलमें विवाह नहीं कर सकती, कारण कि यह दोनों ओरके हुए, लौगाक्षि सांस्कृत और वशिष्ठ तथा कश्यपमें इनका विवाह सम्बन्ध वर्जित है, लौगाक्षि कश्यपके पुत्रका यज्ञोपवीत वशिष्ठजीने किया, प्रथम जन्म कश्यप कुलमें होनेसे रात्रिमें कश्यपके घर और वशिष्ठजीके यज्ञोपवीत करानेसे दिनमें वशिष्ठजीके समीप रहते थे इनके वंशज इसीकारण कश्यप और वशिष्ठमें होनेसे द्वामुष्यायण कहाये, प्रयोगपारिजात और आपस्तम्बसूत्रके अनुसार कश्यप, रेभ, रैभ्य, शांडिल्य, देवल, असित, सांस्कृत, पृतिमाश, अवत्सार और निध्रुव इन दश कश्यप गणोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध वर्जित है, यह सरयूपारीणोंका वंश निरूपण किया ।

इति सरयूपारीणब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ गौडब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

बंगदेशसे लेकर अमरनाथ पर्यन्त गौड देशकी स्थिति है ऐसा एक श्लोक आदिगौड-दीपिकामें लिखा है, यथा हि—

## गौडदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे । गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥

मध्यदेशके अवान्तर आरण्यदेश जिसको हरियाना और जंगलदेश कहते हैं तथा दिल्ली-का प्रान्त सुनपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र फल्गु, कैथल यमुनाके प्रान्तका देश, हस्तिना-पुर, मारवाड, झंझनु, फतेपुर, शेखावाटी; पुष्कर आदि प्रान्त, मत्स्य, विराट, भिवानी, आदि स्थानोंमें गौडब्राह्मणोंका निवास है । अयोध्याके उत्तर सरयू नदी और सरयूके उत्तर सारवार तथा गौड देश है, यह ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्ड रचयिताका मत है । मत्स्यपुराणमें श्रावस्तीपुरीका वर्णन गौडदेशमें किया गया है याथाहि—

श्रावस्तश्चमहातेजा वत्सकस्तत्सुतोऽभवत् । निर्मिता येन श्राव-  
स्ती गौडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ मत्स्य अ० १२ श्लो० ३० । उत्त-  
राकौशले राज्यं लवस्य च महात्मनः । आवस्ती लोकविख्याता  
श्राविता च लवस्य च ॥ वायु. भाग. २ अ. २६ श्लो. १९८ ।

यह श्रावस्तीपुरी गौडदेशमें इस समय भी सरयूनदीके उत्तर गोंडा नगरके समीप वर्तमान है, जिसदेशके सीमा पूर्वमें गंगा और गण्डकीका सङ्गम है; पश्चिम और दक्षिण दिशाओंमें सरयू है, उत्तरमें हिमालय है इसके मध्यकी भूमिका नाम गौड देश है गण्डकी नदीके पश्चिमकी भूमि गौडदेश कहाती है, इस स्थानमें जो ब्राह्मण सृष्टिके आरम्भसे निवास करते हैं वे आदिगौड कहलाते हैं, कहा जाता है, कि लगभग एक सहस्र वर्ष बीते हैं कि वंगदेशके राजाओंने पांच गौड ब्राह्मणोंको कार्यवश बुलाया था और दान मानसे सन्तुष्ट कर वहां रक्खा, तबसे इन लोगोंका स्थान वहां भी पाया जाता है; परन्तु वास्तवमें यह वंगवासी नहीं हैं; ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डमें लिखा है कि आर्यावर्तका नममेजयनामक एक राजा था, उसने यज्ञ करनेकी इच्छासे १४४४ शिष्योंके सहित बटेश्वरमुनिको बुलाकर यज्ञ किया, और बहुत दान दक्षिणा दी, जब अवभृथ स्नानके पीछे बटेश्वरमुनिको दक्षिणा देने लगे, तब उन्होंने राजप्रतिग्रहको स्वीकार न किया और आशीर्वाद देकर जानेलगे तब राजाने पानके बीडोंमें एक एक ग्रामका दान लिखकर मुनिशिष्योंको चलते समय एक एक बीडी दी उन शिष्योंने आनन्दसे ग्रहण करली जब वे मुनिशिष्य नदीपार होने लगे तब उनके जलके भीतर पैर प्रविष्ट होने लगे, तब उन्होंने विचारा कि हमारा जलके उपरका गमन कैसे नष्ट हुआ ? तब बीडी खोलकर देखें तो उसमें ग्राम दान लिखा देखकर जाना कि राजप्रतिग्रहके कारण जलके ऊपरकी गति नष्ट हुई, तब लौटकर सब राजाके पास गये, और कहा तुमने ऐसा क्यों किया ? तब राजाने बहुतसी स्तुति करके कहा बिना दक्षिणाके यज्ञ भी सफल नहीं होता, इस कारण मैंने ऐसा किया, यह कह उनको अपने गौडदेशमें रख लिया, तबसे वे ब्राह्मण

वहां रहने लगे और आदि गौड कहाये । इनमें भोजन आचारकी न्यूनता है, पक्वान्न बजार तकका खा लेते हैं, स्पर्शादिका दोष कम मानते हैं, इनमें प्रायः शुक्लयजुर्वेदी मध्यन्दिनी-शाखावाले बहुत हैं, सामवेदी भी हैं । देशान्तरमें आस्पदादिको अवटंक और नूख कह कर वर्णन करते हैं ।

संख्या	अवटंक	नूख	वेद	शाखा	सूत्र
१	किरीट		यजुः	माध्यन्दिनी	पारस्कर
२	हरितवाल	मिश्र	य०	मा०	पा०
३	इन्दौरिया	जोशी	य०	मा०	पा०
४	बवेरवाल	जोशी	य०	मा०	पा०
५	सेयल		य०	मा०	पा०
६	डाचोला	जोशी	य०	मा०	पा०
७	सुरेला	जोशी	य०	मा०	पा०
८	पादोपोता	जोशी	य०	मा०	पा०
९	मारश्या	परोत	य०	मा०	पा०
१०	पंचरंग्या	जोशी	य०	मा०	पा०
११	इच्छावत		य०	मा०	पा०
१२	तासोरया		य०	मा०	पा०
१३	अष्टान		य०	मा०	पा०
१४	कुंडालक		य०	मा०	पा०
१५	गिंडा		य०	मा०	पा०
१६	मोरीलिया	जोशी	य०	मा०	पा०
१७	तुंगा	जोशी	य०	मा०	पा०
१८	टिलावत	जोशी	य०	मा०	पा०
१९	विवाल	जोशी	य०	मा०	पा०
२०	भिवाल	जोशी	य०	मा०	पा०

इसके सिवाय देशवालीं ब्राह्मण और पछादे ब्राह्मण यह भी गौडजातिके दो भेद हैं, इनमें देशवाले और छादोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं हैं, देशवासियोंमें मिश्र, तिवारी, पूठिया, चौमोहरिया, गौतम, दुबे आदि होते हैं और यह अपनी जातिमें प्रतिष्ठित गिनेजाते हैं, प्रायः यह भी यजुर्वेदी और सामवेदी होते हैं, एक जाति इनमें शुक्लोंकी है, वह ब्राह्मणोंके सिवाय दूसरोंका अन्न नहीं ग्रहण करते, पर अब यह अनपढ होनेसे सम्मानमें गिरते जाते हैं, इस जातिमें यज्ञोपवीतमें कुछ विशेष खर्च होता है, पर प्रायः विवाहके समय यज्ञोपवीत करते हैं, जो बहुत कुरीति है, और बालकका छोटी उमरमें ही विवाह कर देते



हैं, यह भी प्रथा ठीक नहीं है। पर अब कुछ २ सुधरते जाते हैं, भगवान् समस्त ब्राह्मण आत्माओंको कर्मनिष्ठ और विद्यानिष्ठ होनेकी सुमति दें।

अब श्रीगौडादिकी उत्पत्ति कहते हैं।

गुजराती श्रीगौड ब्राह्मण मेडतवाल और खरसोदे आदि ब्राह्मणोंका वर्णन करते हैं, विक्रम संवत् ११९० मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी गुरुवारको गुजरात देशाधिपति महाप्रतापी राजा विजयसिंहने अपने गुजरातदेशमें दो सौ ब्राह्मणोंको दान मान और ग्रामादि देकर श्रीगौड ब्राह्मणोंकी जाति और उनका कुलगोत्र आचार गुजराती सम्प्रदायके अनुसार स्थापन किया, पूर्वमें ये भी सब गौड थे, और काश्मीरके श्रीहट्टनगरमें इनका निवास था, वहां काल पड जानेसे यह मालवेमें आकर रहे, वहांसे इनको राजा विजयसिंहने बुलाकर अपने यहां बसाया, इनका लक्षेश्वरीनामक लक्ष्मी कुलदेवी है, इनके भी नवे पुराने अनेक भेद हैं। ग्राम और वृत्तिके अनुसार इनके भी आस्पद आदि हुए, इनमें नये २२ घर हैं और ग्यारह मध्यम हैं; इनमें मेडतवासी ब्राह्मणके वंशमें जो हुए वह मेडतवाल ब्राह्मण कहाये, इसका अभिप्राय यह है कि; मालवेमें जो ब्राह्मण मेडत ( मेरठ ) से आये वे मेडतवाल कहाये, श्रीगौडोंमें जो भेद हैं सो यह हैं। मालवी श्रीगौड मालवदेशसे आये, यह वर्णाश्रम धर्मका भलीभांति पालन करते हैं, मेडतवाल मेरठसे आये, प्रवालिये श्रीगौड वागडनिवासी हैं, ये प्रायः धर्मकर्मसे प्रीति कम रखते हैं, मालवियोंमें नये पुराने दो भेद हैं, उनमें नयोंमें चार भेद हैं, खरौला ग्राममें रहनेसे खरौला श्रीगौड, खरसोदमें रहनेसे खरसोदिये श्रीगौड प्रसिद्ध हैं, इनमें शूद्रकन्यासे विवाह करलेनेसे एक डेरोला श्रीगौड कहाते हैं, पर यह सबसे पृथक् हैं। पहले यह सब गौड ब्राह्मण काश्मीरदेशके निवासी थे, लक्ष्मीके शापसे धनहीन होकर देशसे बाहर आये और अनेक प्रान्तोंमें फैल गये कोई मालवेमें, कोई मारवाडमें, कोई कोई वाडगमें जावसे, श्रीहट्ट ग्रामके निवासके कारण इनमें श्रीशब्द संयुक्त कर दिया गया है, डेरोले और प्रवालिये इन दोको छोडकर इनका परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है। लक्ष्मी कुलदेवीकी पूजा होती है, घृतपान होता है।

श्रीगौडोंके गोत्र प्रवर और टंक लिखते हैं।

संख्या	टंक	गोत्र	प्रवर	आस्पद	
१	वडेलिया	कुशक्स	३	पाठक	उ०
२	माद्रणिया	वत्सस्	५	जोशी	उ०
३	छालेचा	कौशिक	३	दुबे	उ०
४	काश्मीरा	गर्ग	३	जोशी	उ०
५	मोट्राशिया	कृष्णात्रेय	३	दुबे	उ०
६	मोट्राशिया	चन्द्रात्रेय	३	दुबे	उ०

## भाषाटीकासंवलितः ।

( ९५ )

७	नाहापला	भरद्वाज	३	पाठक	८०
८	माढासिया	कात्यायन	३	पाठक	८०
९	कपटावुठिया		३	दुबे	८०
१०	कपटाल्लिहा		३	दुबे	८०
११	मोडिया		३	पाठक	८०
१२	कपटा	अत्रि	३	दुबे	८०
१३	सुंडालोढा	मौद्गल	३	पंड्या	८०
१४	पंडोलिया	यास्क	३	दुबे	८०
१५	घोलकिया	शांडिल्य	३	दुबे	८०
१६	कपटावोटलिया	अत्रि	३	व्यास	८०
१७	शिहोलिया	वशिष्ठ	३	दुबे	८०
१८	मसूडिया	पाराशर	३	जोशी	८०
१९	मेटलाद	अत्रि	३	पंड्या	८०
२०	सुंदरिया	वामकक्ष	३	व्यास	८०
२१	कपटाटिपारिया	वत्सभू	३	जोशी	८०
२२	दर्भावत्या	भरद्वाज	३	जोशी	८०

## अथ जीर्णक्रमः ।

१	वज्रालिया	वत्सपी	५	दुबे
२	धोऋकिया	वत्सपी	५	उपाध्याय
३	उपलोटा	वत्सपी	५	पाठक
४	ढिंढणी	वत्स	५	जोशी
५	धाराशिणा	भरद्वाज	३	पंड्या
६	चिकणवारा	भरद्वाज	३	व्यास
७	चंचोलिया	भरद्वाज	३	दीक्षित
८	भडकोदरा	भरद्वाज	३	महता
९	कर्षडी	कश्यप	३	व्यास
१०	सांगमी	चन्द्रात्रेय	३	जोशी
११	दुंडावा	कृष्णात्रेय	३	जोशी
१२	चांगडिया	शांडिल्य	३	जोशी
१३	भागलिया	हारीत	३	पंड्या
१४	भारुजा	व्यास	३	दीक्षित

( ९६ )

## जातिभास्करः-

१५	खेडाला	विन्दुलस	३	देवा
१६	गर्भारिया	कौशिक	३	जोशी
१७	संघाणिया	मौनस	३	जोशी
१८	लांछला	गौतम	३	"
१९	जम्बूसरा	कौशिक	३	दीक्षित
२०	धाराशिणिया	शांडिल्य	३	जोशी
२१	धनपुरा	कश्यप	०	"

## मेडतवालक्रमः ।

१	जरगाला	अत्रि	३	पंड्या
२	खलासिया	सांस्कृत तिवाडी	३	बलायता सांस्कृत पंड्या
४	सिहोरिया	" पंड्या	५	बणोयला " "
६	हरेसदा	" "	७	वेटला " "
८	धामणोदरिया	" "	९	मेहलाण " "
१०	नवमोसा	" "	११	नलतडाकठगोला "

इति श्रीगौडभेद वर्णन ।

अन्यभेद वर्णन ।

षडशीवंशजानां हि नामानि प्रवदाम्यहम् । पराशराच्च  
पारीको विप्रो जातो महामनाः । दधीचेर्दाइनो विप्रो जातो  
वैश्यपुरोहितः । गौतमादादिगौडाश्च विप्रा जाता महौजसः ।  
खंडेलवालेति द्विजः खारिकात्समजायत । सारासुराच्च  
विप्रेन्द्रो जातः सारस्वतस्तदा । सकुमार्गात्ततो जातः  
सुकुवालो द्विजोत्तमः ।

अब छः वंशवाले ब्राह्मणोंको कहते हैं; पराशरसे पारीक, दधीचसे दाइमा ब्राह्मण वैश्य-  
पुरोहित हुए, गौतमसे आदि गौड बड़े प्रभाववाले हुए, खारीकसे खंडेलवाल, सारसे सारस्वत,  
और सकुमार्गसे सुकुवाल हुए ।

अथ बारह प्रकारके गौड ब्राह्मणोंका वर्णन ।

पद्मपुराणके पाताल खण्डके नामसे ब्राह्मणोत्पत्तिमार्त्तखण्डमें कहा है:-

मण्डपाचलसान्निध्ये मंडपेश्वरसन्निधौ । गौडास्तेऽपि च  
मांडव्यशिष्यास्ते गुरवः स्मृताः ॥ मांडव्यास्तत्र श्रीगौडा

गुरवः शंसितव्रताः । गौतमो दत्तवांस्तेषां गुर्वर्थं तान्ऋषीन्  
विभुः ॥ श्रीगौडास्तत्र शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः ।  
श्रीहर्षेश्वरसान्निध्ये गतवानृषिसत्तमः । श्रीगौडास्तस्य वै  
शिष्या गुर्वर्थं संप्रकल्पिताः । चतुर्थं तु सुतं तस्य हारी-  
ताय ददौ पुनः ॥ गृहीत्वा गतवान् सोऽपि देशे हर्याणके  
शुभे । हर्याणाश्चैव श्रीगौडा गुरुत्वे संप्रणोदिताः ॥ देशेऽ  
बुदे महारण्ये वाल्मीकाश्रमसंज्ञके । वाल्मीकाश्चैव गुरवो  
मुनिना संप्रकल्पिताः । वासिष्ठा ऋषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य  
महात्मनः । सौरभेये शुभे देशे सौरभा गुरवः स्मृताः ॥  
अष्टमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददौ ततः । तच्छिष्याश्चैव  
दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीर्तिताः ॥ ततस्तेभ्यो ददौ हंसान्  
शिष्यांश्च याजनानि वा । विप्रास्तु सुखदाश्चैव  
सुखसेना महौजसः ॥ दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाख्यमुनये  
ददौ । तान् गुरुत्वेन संपाद्य भट्टनागरसंज्ञकाः ॥ एकादशं  
तु पुत्रं तु सौरभाय ददौ ततः । सूर्यध्वजाश्च तच्छिष्या  
गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः । द्वादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ  
ततः । माथुरीयाश्च गुरवो वर्तन्ते बहवः स्मृताः ॥

पूरा विवरण इन श्लोकोंका कायस्थ उत्पत्ति प्रसंगमें मिलेगा यहां केवल गौडमात्रका प्रसंग  
लिखते हैं, चित्रगुप्तके वारह पुत्र १२ ऋषियोंको सौंपे गये हैं, उनके वंशके ब्राह्मण शिष्य  
और कायस्थ उन उन नामोंसे विख्यात हुए हैं । यहां गौडोंका वर्णन करते हैं । मंडपाचलके  
समीप माण्डव्य ऋषिके वंशमें जो हुए वे माण्डव्य श्रीगौड कहाये, इनको मालव्य श्रीगौड  
भी कहते हैं, इनमेंसे कुछ लंभित नगरमें रहनेसे लंभित कहाये, इन ऋषिके पास चित्र-  
गुप्तका एक पुत्रभी रहा, वह और उसकी जातिके नैगम कहाये, यह विस्तार कायस्थ उत्पत्ति  
प्रसंगमें देखो । गौतम ऋषिके वंशधर गौतमगौड कहाये, श्रीहर्षके वंशधर सरयूतट  
निवासी श्रीहर्षगौड कहाये, इनमें आधे श्रीगङ्गातटमें निवासके कारण गङ्गापुत्र कहाये,  
हारित ऋषिका आश्रम हर्याणा देशमें था, इनके वंशधर हर्याणा गौड कहाये, आबूगढके  
समीप वाल्मीकि आश्रम था, उनके वंशधर वाल्मीकि गौड कहाये, वसिष्ठके वंशधर वसिष्ठ  
गौड कहाये, सौभरि ऋषिका आश्रम सौरभ देशमें था, उनके वंशधर सौरभ गौड कहाये,

दुर्लभ देशमें दालभ्य ऋषिका आश्रम था, उनके वंशधर दालभ्य गौड कहाये, यह अहि-  
स्यली और कुंडलिनीमें भी रहे, हंसऋषिका आश्रम हंसदुर्गके समीप था, इनके वंशधर  
सुखसेन गौड कहाये, भट्टकेश्वरके समीप भट्टऋषिका आश्रम था, इनके वंशधर भट्ट गौड  
ब्राह्मण हुए, सौरभेश्वरके समीप सौरभऋषिका आश्रम था. इनके वंशधर सूर्यध्वज गौड  
ब्राह्मण हुए, माथुरेश्वरके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगरी है, इनके  
शिष्य माथुर चौबे वा माथुर गौड कहाये, इस प्रकारसे बारह ऋषियोंके वंशधर बारह  
नामके गौड कहाये, चित्रगुप्तके वारह पुत्र भी इन्ही बारह ऋषियोंकी सेवामें रहे इन्हींसे  
उनके भी वारह नाम हुए, और इन ऋषियोंके वंशधर उन २ कायस्थोंके पुरोहित हुए ।  
परन्तु पद्मपुराणमें बहुत खोज करनेपर भी हमको यह श्लोक नहीं मिले और इनकी रचना  
भी कुछ नव्यपन लिये हुए है, परन्तु उत्पत्ति प्रसंग देखनेसे यहां लिखे गये हैं ।

इति द्वादशगौडब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ सनाढ्य ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण ।

सनाढ्य ब्राह्मण भी गौड सम्प्रदायके अन्तर्गत हैं, इसमें सन्देह नहीं, सनाढ्य संहितामें  
इनका वर्णन है तिसका सार कहा जाता है ।

**सनाढ्या ब्राह्मणाः श्रेष्ठास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । सच्छ-  
ब्देन तपो ग्राह्यं तेनाढ्या ये द्विजोत्तमाः । ते सनाढ्या  
द्विजा जाता ह्यादिगौडा न संशयः ।**

सनाढ्य ब्राह्मण बड़े तपस्वी होनेसे श्रेष्ठ कहे गये हैं, भागवतादिमें सन् शब्दसे तपस्याऋ-  
ब्रह्म किया है उससे जो आढ्य हो वह सनाढ्य कहे जाते हैं, कहा जाता है कि जब  
श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारकर अयोध्यामें आये, उस समय यज्ञ करनेके निमित्त ब्राह्मणोंको  
बुलाया, यज्ञान्तमें जब ब्राह्मणोंको दक्षिणा देने लगे तब कुछ ब्राह्मणोंने तो दक्षिणा नहीं ली  
परन्तु साढे सातसौ ब्राह्मण जो यज्ञमें वरण लेकर बैठे थे, उन्हें साढे सातसौ ग्राम दक्षिणामें  
दिये, वे ग्रामोंके नामोंसे उपनामवाले पृथिवीमें विख्यात हुए, सनाढ्योंमें बड़ी विचित्रता यह  
है कि कहीं इनका कन्यासम्बन्ध कान्यकुब्जोंमें और कहीं गौडोंमें होता है, परस्पर तो  
होता ही है । गोत्रादि इनके सब पंच गौड जातियोंके हैं ।

अब साढे तीन कुलकी गोत्रावली कहते हैं ।

पाराशराः	आगस्त्याः	काश्यपाः	वात्स्याः
<p>पण्डित {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जरौली</li> <li>परा</li> <li>ओयरा</li> <li>बडिय</li> </ul>	<p>शंखधर {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अनवी</li> <li>दहेनी</li> <li>परशरी</li> <li>सोनायी</li> </ul>	<p>सिद्धि {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>शरहा</li> <li>रेहरिया</li> <li>वेटहा</li> <li>तारापुर</li> </ul>	<p>कटिहा मिश्रा {</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कटैया</li> <li>डूंगरपुर</li> <li>गन्धर्वपुर</li> <li>(च्यवनाः)</li> </ul>

अब मध्यदेशवासी सनाढ्योंके भेद लिखते हैं ।

देवपुरके रहने वाले आकरही तीन वेदके पढने वाले त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहरगा, खण-  
ग्रामके निवासी हैं । जोशी, गोदूपुरके रहनेवाले वरुआ खद्विकाके पुरोहित, त्रिपाठी,  
जोरीग्रामके कोतवाल, इटायाके वदौआके मिश्र, धामपुरके मिश्र, टोरग्रामके त्रिपाठी,  
लखीपुर ग्रामके नौ पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात हैं । करहलग्रामके भटेले, गडवार पुरके  
गेलचिया, वृगमा ग्रामके शांडिल्य, बडेपुरके असपा, सरायग्रामके कटारे, गगरौलीके गगरौ-  
लिया, कांकरौलीके कांकरौलिया, युगग्रामके मुचोतिया, बछगौजाके, बछगौजा, वैदेलाके  
वैदेले, कंजौलीके कजौलिया, ठमीलाके ठमोले, गिरदौली ग्रामके गिरदौलिया कुमार ग्रामके  
कुमार, भिरथरीके भिरथरी, करसौलीके करसौलिया, पचौरी ग्रामके पचौरिया, बुधैली ग्रामके  
बुधेलिया, दुगौलीके दुगौलिया, दुगरौलीके दुगरौलिया, नारौलीके नारौलिया, भूसौरिके  
भूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परवारी ग्रामके परवारिया, महावनीके चौबे, पटसारीके  
पटसारिया, हरेलाके हरेले, गोवरेलाके गोवरेले, चुरारीके चुरारी, दुगरौरीके  
दुगरौरी, वैदेलाके वैदेले. अन्य सेठिया, उदेनिया, इटाया ग्रामके त्रिगुणायी, दण्डोघटके  
दाण्डोतिया, परतानपुरके राजोरिया, नौचढेरपुरके दोरिया, जरासे ग्रामके कांकरा, व्यास-  
ग्रामके व्यास, कोई जगनवंशी अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना ग्रामके त्रिपाठी,  
इटावाके सावर्ण्य, औरैयाके औरैय, मेरापुरके घृतकौशिक, घटिग्रामके लहरिया, धन्नग्रामके  
करैया, स्वक्कीनिवारीके टेहगुरिया, मेरहा ग्रामके मेरहा, कोई जरौलिया, रेहरिया, काश्यप  
गोत्रके सरहैया, वत्सगोत्रके कटैया, च्यवन गोत्रके कारिहाके मिश्र, वात्स्यगोत्री डूगरिया,  
अगस्त गोत्रके उपाध्याय, कोई हरेनिया, कोई भारद्वाज, पटोलिहा, श्रोत्रिय, अग्निहोत्री  
बालकीव्यास, विनतरे वरुणा, पायक, गुवरेले, कमस्वाहा, कुमुवा, मेहरे, भारद्वाज, वैशंबरे,  
बदोल, वरवा, अबोल ग्रामके अबोले, वरनारके बरनारिया, चन्द्र ग्रामके वरु, टाकुके,  
टांकु, ठमोलाके ठमोले, रावत ग्रामके रावत, अक्खाग्रामके अक्खे, कीर्ति ग्रामके कीर्तिया,  
समरी ग्रामके समरिया, अण्डोलीके आण्डोलिया, उदेनीके उदेलिया, अस्थानीके आस्थेनिया,  
उपाध्याय, दूसरे उपमन्यु, जनूथर्याके जनू, औदगाके औदगा, बखानीके बखनिया, उम-  
ग्रके कुमरिया, हुचौरीके हुचोरिया, हुचवारीके हुचवारिया, उचैनीके उचैनिया, इसी प्रकार  
उटगारिया, हुच्छिता उच्छिता, महामौजी, सुकुलके कारण सुकुल, समाधीके कारण समाधिया  
सहोनिया, कहेनिया, साजोलिया, साकोलिया, सावर्णिया, सोती, षट्कर्मके अनुष्ठाता षट्-  
नावल, सेमरिया, औरैया, करसौलिया, कानोरिया, आगरोवा, रीलोवा, जोमसी, धुरैले,  
आधुनिया, अगनैया, होविया, अरेलियां, कामकर्या, कांकोलिया, कुम्भवारिया, कैला-  
रिया, कुकरेलिया, कोवादिया, करोलिया, ऋतरेनिया, करहेरिया, करौलीके करौलिया,  
काश्यप वंशके काशिप, कोई करनिया, कपरैला, कुलवानी, कुलवान, कांकरा, कोरो,  
कुसौलिया, कमैद्या, विशरैया, त्रिवरीलिया, वेदसार, भगोसा, भगोलिया, नाहिला

विनहेरिया, विवहैरी, नवग्रहेया, नवासिया, नैजासिया, विपर्या, नसौचा, नगांइवा, नैनेरिया, जोनहरिया, विदाहरिया, कोई दीक्षित, कोई उधारिया, घेरिया, जमोलिया, तुटोतिया, मुखरैया. महलोनिया, मरथौ, मुखरैया, अवरैया कोई मुद्दल, कोई मुडेनिया, मुखैया, सुद्ररैया, सिसोधिया, सिरोहिया, वरोलिया, शांडिल्य, शांडिया, सूरुतिया, सूरुटिया, सूरुत्रिया, नामनीया, ( यह वामन मंत्रके उपासक हैं ) घटोलिया, घरवासिया, कीरतिया, चौथरिया, चौरासिया, चौवे, चरौलिया, चरौरिया, चन्द्रोठिया. चलैया, चांदसोरिया, स्यारहिया, विचनगा, चुगला, वेबा, हरिया, चाहिया, चौधिया, निखिया, निहरिया, हेरिया, गारिया, इन्द्रा, इखरिया, झगरिया झुठया, झासेनिया, चलैया, ढंकारिया, अष्टक धारिया, ठठोलिया, ठठोलिया, भारिया, दीधरा, रावत, उभैया, डुंगवारिया, डुंगवारा, डुंगरोलिया, तुरौलिया, दुण्डिया, ढाढ, ठमोले, ऊडोचिया, तोहिया, तैहरैया, वरनैया, आइया, दुठिया, ठौठानिया, पाइसा, ( रावत ) रैवारा, ( राजोरिया, ) राजगीया, रौरहीया रौखिलीया, विधिभेदिया. साजोलिया, तिगुनायी, त्रिशूलिया, तीखे; तपरैया, “ तैहरैया, तेहरिया ” पलैया, चटसालिया, सेनवैया; विप्रैया; सुफलफलिया, लवानिया, अतय्या, यज्ञिया, तिहो-नगुरिया, तिहोनपालिया, तिरयंतिया, तामोलिया, विप्रिया, नृदनंगिया, सतरंगिया, भिरहेरिया डचेलिया, दुगोलिया दुरवारा, दुसेटिया, धामोटिया, धनहेरिया, धर्मध्वजीया, भाराम्रिया, ओरोलिया (भटेले) भेलेमिनया, भचोडया, भामेलिया, हरदेनिया,हरसानिया,हरखैया, पखैया, वसैया, गुलपारिया, दांता, गुणेचिया, गुननीया ( वसैया ) चिरंजीया, होत्रुपीया, श्रीयाथाना, पाथानिया, सुयशिया, अवस्थी दुबे, ( इनका कृष्णात्रि गोत्र है ) बुधोलिया, डीलवाहिमा, बुध-कैया, बुधोलिया, पेखडे, खेमरैया, औरगिरिया, खिडपांसिया, स्वाहैरया, खोइया, चनगीया, प्रगासिया, द्विधागुधनिया, सहिटाटिया, गिलोडिया, गिरिसैया, गांगोलिया, बुटोलियां, वसेठिया, डीलवारिया, विरहेरिया, विरहरूपिया, वदेनिया, सवारिया, वदैया, पीचुनिका, पंचगैया, पिपरौलिया, परसैया, देखैया, षट्कर्मिया, थपैया, थापकिया, थूनिया, स्नेहिया, अदिया, रघुनाथिया, मानिया, नरहेरिया, सतसैया, दोजेनिया, ( दीक्षित ) दुरसारिया, औरोलिया, मसैनिया, मटेले, वाचेडीया, भाईभेडी, हरदौनीया, हरसानीयका, गिलौठिया, रक्षपालिया,वालौठिया,वेशीडया, गुलपारिया, गडैवीया, गुननायी, ( वसैया ) चिरंजीया ( हौत्रुपीया ) त्रादीया, बीरिहेरिया, ( भारग्रामके निवासी ) सुजसीया, सानसैया, दौनैनीया, दौषता, दुर्हारिया, ( रक्षपालीया ) गीलौठिया, ( वालौठीया ) वसडा, लवार, मुधोलिया, बुधिकैया, खेमरैय्या, आरगैय्या, षड्यसिया, सौहरैया, खोइया, नवनीया, सीहंटीया, गीलौठोया, गीरसैय्या, गांगोलीया, तुठौलीया, ससष्टीया डीलवारीयका, विरहैरियका, विरहैरूपका, नवेदीया, सवारीया, वदैया, पूर्वनीया, पचगव्या, पिपरौलीया, दोषपीया, सजौलीया, निहौनगिरिया, विहौलपालिया, निखरैया, रदतंगीया तामोठीया, विप्रिया, ब्रहैमैत्रीया, सत्रंगीया, दुबे, दुबो-

ल्या, दुरवारक, घुसेठीया, धामौठीया, धानेरिया, धर्मव्वजीया, दाळरा. दारखारीया, गगुपीया<sup>१</sup>  
द्राखेनीया. ललीया, टङ्कारिया. गीठौठियां, गाठौलीया, खरेरीया, साखीसीपुरिया, वखरोरी  
ग्रामके वखरोरिया. डंडोचीया. उजौली ग्रामके ठाकोचीया, खरौठिया, कीट्याया, पुरहरिया,  
भमालीया, हुंचुगिरिया, हुगगरिया. विपरौलीया, ननदवैया, भटवालीया, कपैया, चांदोरिया,  
चांदमूरीया. सीहरा, गोले. चीधे, डेहरवारे, दुहार, हरदनीया. ववेसी ग्रामके ववेसीया, नाइसा  
गठयगा, अमरेले, गुलपारिया, वरेखरहरीया, तैहेलेना, गेहनया, अडवीया, मवेसीया, वरोरीया,  
चरनावालियां, वाम्बरीया, मातरौलीया, हथनीया, असतानीया । और भी अनेक प्रकारके  
अल्लखले सनाढ्य हैं, सातसौ ग्रामवासी होनेसे इनका सप्तशती नाम है, यह सब ग्रामके  
नामसे लिख्यात हैं । इस प्रकार यह सनाढ्य वंशकी परंपरा ग्रामोंके नामसे है । भाषा  
कवितामें इसका सार इस प्रकार है ।

कमलइतिहुनगुरिया महीसुरसाहिबारीजोय । सुविदित उपा  
ध्याय नामते यहि धरातल मधिसोय ॥ पांडे विशुचि  
अतिपांडुपुरके सतत बुधजन जान । लवकुशी मिश्र कहा-  
वहीं जिन कंजभद्र बखान ॥ ते मिश्र मीठे प्रथित जे  
द्विज स्वर्णपुरके वासि । चाडरिपुरस्थ न वदत तिगुना  
प्रयत बुधिराशि ॥ बारी निवासी चतुर्वेदी दुबे विद्या-  
धाम । तिन दुबेके सहोदर अवस्थी वेदविदगुणग्राम ॥  
दोहा—त्रिपुरपुरी भूपुर प्रवर, श्रेष्ठ त्रिपाठि महान ।  
चूरकोरपुरके विदित, पाठक विज्ञ सुजान ॥  
दीक्षितयुत द्विज सप्तशत, महीमान सब कोय ।  
है सनाढ्यकुल कमलरवि, साढेदश घर जोय ॥

यह सनाढ्योंका वंश निरूपण किया । सनाढ्य संहितामें यह लिखा है कि यह वंशावली  
भविष्यपुराणमें है परन्तु भविष्यपुराणमें हमको यह वंशावली देखनेमें नहीं आई ।

इति सनाढ्यवंशोत्पत्तिः ।

अथ उत्कलब्राह्मणनिर्णयः ।

इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युम्न इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयम-  
भूत् सुद्युम्नस्यापराजितम् ॥ ( मत्स्य. अ. १२ श्लो. १६ )  
उत्कलो वै गयस्तद्वद्धरिताश्वश्च वीर्यवान् । उत्कलस्यो-  
त्कला नाम गयस्य तु गया मता ॥ १७ ॥ हरिताश्वस्य



दिक् पूर्वा विश्रुता कुरुभिः सह । इत्थं राष्ट्रत्रयं जातं पौरवं  
समनुत्तमम् ॥ १८ ॥ तेषामेकस्तु राजेन्द्र उत्कलश्चेति  
चोच्यते । ( शक्तिसंगमतत्रे देशव्यवस्थाखण्डे )

जगन्नाथः प्रान्तदेशस्तूत्कलं परिकीर्तितः । तस्य देशे  
जानपदा ब्राह्मणा व्रतशालिनः ॥ ते द्विजाश्चोत्कला जाता  
संज्ञा इत्थं प्रकीर्तिता ॥

इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए, इलसे जो सुद्युम्न नामसे विख्यात हैं उसके महापराक्रमी  
उत्कल, गय और हरिताश्व यह तीन पुत्र हुए, इनमें उत्कल, गयने गया वसाया और  
हरिताश्वने पूर्वमें निवास किया. तीनोंके नामसे तीन देश विख्यात हुए, उनमें जगन्नाथ  
प्रान्तमें उत्कल देश है; वहाँके व्रतशाली ब्राह्मणोंकी संज्ञा उत्कल कही जाती है ।

अथ मैथिलब्राह्मणोत्पत्तिः ।

गण्डकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं शिवे ।  
विदेहभूः समाख्याता तैरभक्ताभिधः स तु ॥

गण्डकीके किनारेसे पूर्व चम्पारण्यके अन्ततक विदेह भूमि कही जाती है; इसको इस  
समय तिर्हुत कहते हैं, विकुक्षिके छोटे भाता निमिके वंशका वृत्तान्त ऐसा है कि इन्होंने  
गौतम ऋषिके आश्रमके समीप जयन्त नगर बसाया इन्हींके वंशमें राजा जनक हुए हैं,  
इनको यज्ञमें शाप हुआ जिससे यह विदेह कहाये इनके शरीरके मथन करनेसे महाराज मिथि  
अगट हुए, जैसा कहा जाता है—

अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुर्भूतो महायशाः । नाम्ना मिथि-  
रिति ख्यातो जननाज्जनकोऽभवत् । राजासौ जनको नाम  
विख्यातो भारतेऽखिले ॥ ( वायुपु० खं. २ अ. २७. )

अरणीसे शरीर मथनेके कारण मिथि नामक पुरुषका जन्म हुआ, जन्म होनेसे जनक  
कहाये इन्होंने अपने नामसे मिथिलापुरी बसाई, राजा जनकके अश्वमेध यज्ञमें सहस्रों  
ऋषियोंका समागम हुआ था; उस समय शास्त्रार्थमें याज्ञवल्क्यजी सब ऋषियोंसे श्रेष्ठ समझे  
गये और याज्ञवल्क्यजीके शिष्य अनेक ग्रामोंको लेकर उस देशमें निवास करने लगे ।

ते सर्वे मैथिला जाताः स्वाध्यायव्रतशालिनः ।

और मैथिल देशमें निवास करनेके कारण वे सब ब्राह्मण मैथिल कहाये । यह ब्राह्मण  
अबतक भी बड़े विद्वान् शास्त्रज्ञाता होते हैं, परन्तु मत्स्यभोजनकी कुप्रथा इनमें बढी हुई है  
इसको त्याग देना ही उचित है ।

इति पञ्चगौडोत्पत्तिः ।

एक चक्र लिखते हैं जिससे देशोंके नाम और उनका स्थापन तथा ब्राह्मणोंके नामारंभ जाने जाते हैं ।

वैवस्वतमनु ।

इक्ष्वाकु

इला वा सुद्युम्न

शर्याति

पुरूरवा

उत्कल

निमि

सुकन्या च्यवन

भोम

{ उत्कल देश वसाया मिथिर  
ब्राह्मण उत्कल  
हुए

दधीच

कांचनप्रभा

मिथिला वसाई मैथिल  
ब्राह्मण हुए

सारस्वत

जहु

इससे सारस्वत वंश

सुहोत्र

चला

अजक

बलाकाश्व

कुश

कुशनाभ

वायुने इनकी

सौ कन्या कुब्ज

करदीं इससे

देशका नाम

कान्यकुब्ज हुआ

यही नाम ब्राह्मणोंका हुआ ।

कर्णाटकाश्च तैलङ्गा द्राविडा महाराष्ट्रकाः ।  
गुर्जराश्चेति पंचैव द्राविडा विन्ध्यदक्षिणे ॥

## अथ कर्णाटकब्राह्मणोत्पत्तिः ।

कृष्णानदीके दक्षिण ओर सहायद्रि पर्वतसे पूर्व हिमगोपालसे उत्तर और द्रविडके पश्चिममें कर्णाटक देश है । एक समय वहाँके राजाने महाराष्ट्र देशसे ब्राह्मणोंको बुलाकर अपने राज्यमें बसाया और उनको अनेक ग्राम दानमें देकर अपने यहाँ दान मान सन्मानसे रक्खा तथा चावेरी तुंगभद्रा कपिला आदि नदियोंके किनारोंके वासस्थान देवमंदिर भी उनको दिये, बहुत काल निवास करने और उस देशके आचार विचार स्वीकार करनेसे उनकी उपाधि कर्णाटकी ब्राह्मण हुई, इनके छः भेद हैं । सवासे १ षट्कुल २ व्यासस्वामिमठसेवक ३ राघवेन्द्रस्वामि-सठसेवक ४ उडपीतुलमठस्वामिसेवक ५ इनमें उत्तरादिमठसेवक सर्व श्रेष्ठ हैं, यह शैव और वैष्णव दोनों सम्प्रदायोंमें होते हैं । इनमें वैष्णव वैष्णवोंके साथ और शैव शैवोंके साथ खान पानका व्यवहार रखते हैं, सेडपि, तुलव, मठस्वामिके सेवकोंका विवाह सम्बन्ध अपने वर्गमें होना है, सवासे कर्णाटक और षट्कुल कर्णाटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार सम्बन्ध होता है; तथा उत्तरादिमठसेवक व्यासस्वामिमठसेवक इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है । इसमें कर्णकमागोल, कुण्ड, आदि अनेक भेद हैं । देशमें प्रमाण " कृष्णाया दक्षिणे तद्वद्-द्राविडात्पश्चिमोत्तरे । महाराष्ट्रात्पूर्वभागे त्रिलिङ्गादक्षिणे तथा ॥ पश्चिमे किञ्चिदेवैव प्रभूतधन-धान्यवान् । देशः कर्णाटकः प्रोक्तः प्रशस्तः पुण्यकर्मणि ॥ "

## अथ तैलंगब्राह्मणोत्पत्तिः ।

" उत्कलादक्षिणे तद्वद्द्राविडादुत्तरेऽपि च । पूर्वोत्तरायां ककुभौ यः कर्णाटकदेशतः ॥ महाराष्ट्रात्पूर्वभागे पश्चिमे च समुद्रतः । तैलङ्गदेशो विख्यातः प्रभूतबुधमंडितः " अर्थात्—उत्कलके दक्षिण द्राविडके उत्तर कर्णाटकके पूर्वोत्तर वे महाराष्ट्रके पूर्व समुद्रके पश्चिम अर्थात्—श्रीशैलसे चोलास्थानके मध्यतक तैलङ्ग देश है, पुरानी कथा है कि, जैमुनि देशमें एक धर्मदत्त राजा था, वह योगबलसे नित्य प्रभात काशी स्नानको जाया करता था । रानीने राजासे हठ की कि मैं भी आपके साथ नित्य काशी चला करूंगी, राजाने यह बात स्वीकार की और रानीको भी प्रतिदिन लेजाने लगा, एक दिन रानी काशीमें ही रजस्वला हुई और राजाने तीन दिन काशीमें रहना निश्चय किया, इसी अवसरमें शत्रुओंने राजाका नगर आ घेरा, राजाने योगबलसे सब वृत्तान्त जानकर ब्राह्मणोंसे कहा न जानेसे नगर अशत्रुओंसे पीडित होता है जानेसे पत्नीको यहाँ छोड़ना पडता है, क्या करूँ ? तब ब्राह्मणोंने राजाको उस अवस्थामें पत्नी सहित स्वदेश गमनकी व्यवस्था दी, इस पर राजा प्रसन्न हुआ और चलते समय कह गया कि कभी समय पडने पर हमारे यहाँ आना, राजाने घर जाकर शत्रुको जीता, धर्मराज्य करने लगे, एक समय काशी क्षेत्रमें अकाल पड गया तब बहुतसे ब्राह्मण राजाका वचन स्मरण कर जैमुनि नगरमें गये, राजाने उनका बड़ा सन्मान किया और उनके खान, भोजन, स्थानादिका सब प्रबन्ध कर दिया उस समय उस नगरके दक्षिणी ब्राह्मणोंने इन

उत्तरवासियोंका सम्मान देख इनसे द्वेषभाव माना, और जहां तहां शास्त्रार्थ करना आरंभ करदिया राजाके सामने भी बड़ाई छोटाईपर शास्त्रार्थ आरंभ किया, तब राजाने एक घडेमें सर्प बन्द करके कहा जो कोई सत्य बता देगा इसमें क्या है वही बड़ा समझा जायगा, उन जैमुनि ब्राह्मणोंने कहा हमारी सम्मतिसे इसमें सर्प. तब उत्तरवासी विचारने लगे हम क्या कहें तब उसी समय ब्रह्मचारीके वेशमें ब्रह्मण्यदेव प्रगट हुए और उन उत्तरदेशी ब्राह्मणोंसे कहा मैं विप्रविनोदी वंशमें उत्पन्न हूं और तुम्हारी जोरसे मैं इस घटके भीतरका वृत्तान्त कह देता हूं. तुम किसी बातकी चिन्ता मत करो, ब्राह्मणोंने उस बालकमें चमत्कार देखकर यह बात स्वीकार करली, और बालकने राजाके समीप जाकर कहा कि मैं उत्तरदेशीय ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे कहता हूं इस घडेके भीतर सुवर्णकी श्रीऋष्यजीकी मूर्ति है, राजाने जो हँसकर पात्र खोला तो उसमें निश्चयही सुवर्णकी मूर्ति दीखी, इसपर जैमुनि ब्राह्मण पराजित होकर चलेगये, और राजाने बडे सम्मानसे उत्तरवासियोंको रक्खा और ये उत्तरीय तैलंग कहाये इनमें छः भेद हैं उसका इतिहास इस प्रकार है कि तैलंग देशमें एलेश्वरोपाध्याय नामक एक ब्राह्मण था उसकी एक कन्या अत्यन्त सुंदरी थी, एक समय कल्याणपंत नाम स्वर्णकार दूर देशका रहनेवाला इनके पास आकर ब्राह्मणवनके विद्या पढने लगा, उपाध्यायने, उसकी सुमति विचार कर उसे अपनी कन्या दे दी और कन्याके प्यारके कारण उसे अपने घरमें रखलिया, कुछ समय बीतनेपर कल्याणपन्तके पुत्र हुआ, जब बालक सोलह वर्षका हुआ तब मंगलसूत्रके समय सुवर्णकी परीक्षा करनेके समय यह बात जानी गई कि कल्याण पन्त सुनार है, उपाध्यायको यह जानकर बडा दुःख हुआ और उन तीनोंको अलग रखकर विद्वानोंको बुलाकर सभा कराई और शुद्धिका उपाय पूछा तब पंडितोंने कहा हम सबमें आप बडे हो आपही इसका निर्णय करो. यह सुनकर उपाध्याय बोले कि थोडे दिनोंका संसर्ग होता तो प्रायश्चित्त लगता, यहां तो चालीस वर्ष संसर्गको होगये इस कारणसे इस विषयमें जाति विभाग करता हूं, जो ब्राह्मण अपने संसर्गके नहीं हैं परदेशके हैं वे वेलाटि अथवा वेलनाडी नामसे प्रसिद्ध होंगे ( वेल—बहिरभाग नाडू—देश अर्थात्—देशसे बाहरके ) और उनमें भी जो पहले स्वग्राम दग्ध होनेसे यहां आकर रहे वे 'वेगिनाडू' ( वेगी—दग्ध, नाडू—देश ) कहावेंगे और जो थोडे समयसे स्वदेशाधिपतिके मरण होने और देशमें अनाचार आदि होनेसे यहां आकर रहे हैं वह 'मुर्किनाडू' नामसे विख्यात होंगे ( मुर्कि—मरण, नाडू—देशाधिपति अर्थात्—देशाधिपतिके मरण दुःखसे जो देशको छोडकर यहां आरहे वे मुर्किनाडू कहाये ) फिर तीन देशोंसे आये द्विजोंसे ऋग्वेद पाठी ब्राह्मणोंने कहा तुम 'कर्णकर्मा' अर्थात् (कर्मकरनेमें कुशल) नामसे विख्यात होंगे, अपने संसर्ग जो हैं वे तिलगाणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होंगे और छठी कासलनाडू नामक जाति प्रसिद्ध हो, इस प्रकार जातिके भेद स्थान किये; इनमें ऋग्वेदी और आपस्तम्बी विशेष हैं याज्ञवल्क्य सम्बन्धी वाजसनेयी न्यून हैं, इनका विवाह सम्बन्ध निज २ वर्णोंमें होता

हैं अन्यत्र नहीं इस प्रकार उपाध्यायने छः भेद स्थापन किये, पीछे तैलंग ब्राह्मणोंमें वाज-सन्धि शाखावालोंमें अनुमकुडल और कोतकुडल यह दो भेद हुए, इन ब्राह्मणोंको अखल भी कहते हैं, दुबल्ल अर्थल्ल ऐसे दो भेद हैं अर्थात्—यह इनके दूसरे नाम हैं और आर्योंका उपदुरीवारु नामसे व्यवहार है. काकुल पाटि वारु, बढमाह इस प्रकारके और भेद हैं, इनमें नियोगी ब्राह्मणोंके चार भेद हैं, आसवेल नियोगी १ पाकनाटि नियोगी २ पेसलवाई नियोगी ३ नन्दवर्तु नियोगी ४ इनके विवाह सम्बन्ध भी स्वर्गमें होते हैं। कहीं २ पाकनाटि नियोगी और आरुवेल नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, तैलंग ब्राह्मणोंके यजमान वेरिवार शूद्र जाति, नायडशूद्र, मुद्दलादिशूद्र और वैश्यनामधारक कोमटी जातिवाले हैं।

इसी जातिमें गोस्वामी बल्लभाचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ है। वेळारि जाति तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट हुए इनके पिता गणपति भट्ट और पितामह गंगाधर भट्टने अनेक सोमयज्ञ किये थे उसी पुण्यके प्रतापसे करखंब ग्रामनिवासी लक्ष्मणभट्टकी पत्नी इल्लमागा गर्भवती हुई जब सातवां महीना प्रारंभ हुआ तब लक्ष्मणभट्टजी यज्ञपूर्तिमें ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छासे बन्धुवर्गोंके सहित काशीको चले और हनुमान घाटपर एक स्थानमें डेरा किया और ब्राह्मण-भोजन कराया। पीछे काशीमें यह समाचार फैला कि कोई यवन काशीपर आक्रमण करेगा यह समाचार सुन यह अपने देशको लौटे और अठारवीं मंजिलमें जब चम्पारण्य पहुँचे तब वहाँ इनकी पत्नीके नौमाससे पूर्वही गर्भ का प्रसव हुआ उस समय संवत् १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशी रविवार था, पिताने बडा आनंद मनाया यह चाम्पारण्य नागपुरके आगे रायपुर नाम ग्रामसे ७ कोस पूर्व है. अब इसको चम्पाझर कहते हैं वहाँसे इनको लेकर लक्ष्मण भट्ट काशी आये और इन्होंने सब विद्या माध्वानंदतीर्थके पास पढ़ी और महाप्रभुजीने अनेकोंको परास्त किया और पंढरपुरके राजाको अपना सेवक करके पृथिवीकी परिक्रमा की, मधुमंगल ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मीसे विवाह किया, संवत् १५६९ भाद्रकृष्ण दशमीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका गोपीनाथ नाम हुआ यह थोड़े कालही भूमिपर विराजे तब महाप्रभु चरणाद्रिमें चले आये यहां इनके संवत् १५७२ पौष कृष्ण नवमी शुक्रवारको विट्ठलनाथका जन्म हुआ, इनके सात पुत्र हुए, उनमें बड़े पुत्र श्री गिरिधरजी संवत् १५९७ कार्तिक सुदी १२ को जन्मे, श्री गुसाईजीने इनको आचार्य गद्दी और गोवर्द्धननाथकी मुख्य सेवा सौंपी, दायभागमें मथुरेशजीका स्वरूप दिया, दूसरे पुत्र गोविंदरायजी संवत् १६०० मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको जन्मे, दायभागमें श्रीविट्ठलेशरायका स्वरूप मिला, तीसरे पुत्र श्रीवालकृष्णजीका जन्म संवत् १६०६ आश्विनकृष्ण त्रयोदशीको हुआ, इनको श्रीद्वारिकानाथजीके स्वरूपकी सेवा मिली. चतुर्थ पुत्र श्रीगोकुलनाथजी का जन्म संवत् १६०८ मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीको हुआ इनको सेवाके लिये श्रीगोकुलनाथजीका स्वरूप मिला, पंचम पुत्र रघुनाथजीका जन्म संवत् १६११ कार्तिकसुदी १२ को हुआ इनको सेवाके निमित्त श्रीगोकुलचन्द्रमाजीका स्वरूप मिला. छठे पुत्र यदुनाथजीका जन्म

संवत् १६१३ चैत्रसुदी ६ को हुआ. जब दायभागमें इनको श्री बालकृष्णजीका स्वरूप देने लगे तो छोटा स्वरूप जानके नहीं लिया. इनके वंशमें बहुत समयके पीछे काशीस्थ श्रीगिरिधरजी महाराजने श्रीमुकुन्दरायजीका स्वरूप लिया है, इस प्रकार अरेलग्राममें छः पुत्रोंका जन्म हुआ; पीछे श्रीमद्गोस्वामी विट्ठलनाथजी उस ग्रामसे उठकर श्रीगोकुलमें आकर रहने लगे और श्रीनाथजीकी सेवाका बहुत बड़ा विस्तार किया जिससे इनका यश समस्त देशमें व्याप गया। वीरबल, टोडरमल आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी भाय्यामें सप्तम पुत्र श्रीघनश्यामजी संवत् १६२३ मार्गशीर्षकृष्ण १३ को जन्मे. इनको दायभागमें मदन मोहनजीका स्वरूप दिया, इस कारण वल्लभसंप्रदायमें सात गद्दी हैं. इन्होंने सुर्वाधिनी आदि कई ग्रन्थ बनाये और वे श्रीविट्ठलदासजीको सौंप काशीजीमें आये और संन्यास ग्रहणकर ४० दिनपर्यन्त निराहार रहकर भगवद्भावको पधारे। लक्ष्मणभट्टके साथमें जो ब्राह्मण थे उनमें कितने एक कर्णाटक द्रविड और तैलंग थे गोकुलमें भी ब्राह्मणोंका समाज बहुत रहा, भारद्वाजगोत्री श्रीविट्ठलनाथजी मुख्य हुए, पीछे विट्ठलनाथजीके वंशस्थ पुरुषोंने मेवाडमें श्रीएकलिंगेश्वर क्षेत्रके अन्तर्गत सिहार वगरीमें श्रीनाथजीकी स्थापना करके निवास किया, वहां ब्राह्मणोंके उपनाम कहे हैं। रेहि, पंचनदी, लदार्व, सिन्हरी, कांठोब्ब, वोटी, श्रीमच्चक्रवर्ती, नरी, भदरसा, कज्जा, शिघोरी, नडी और दिल्लीके बादशाहने जो ग्राम प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको दिये उन ग्रामोंके नामसे उनके नाम विख्यात हुए, यथा गिद्धा लंबुका, जोगी, याहि, तिघर आदि कर्णाटक द्रविड जो ब्राह्मण वहां जाकर रहे वे भी उन २ नामोंसे विख्यात हुए, अपने २ वर्गमें इनका भी कन्याविवाह सम्बन्ध होता है, वे कर्णाटक, द्रविड, गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, व्रज, कामवन, आमेर, मालवा, बूंदी, रतलाम, अनूपशहर, काशी, प्रयाग, वीवीपुरा, बुन्देलखण्ड आदि नगरोंमें रहे और उन २ नामोंसे विख्यात हुए, यह तैलंग ब्राह्मणोंके अन्तर्गत भइ ब्राह्मणोंका वंश कहा।

इति श्रीवल्लभाचार्योत्पत्तिः।

अथ द्रविडब्राह्मणोत्पत्तिः।

पूर्वी विन्ध्याचलके उत्तर भागमें नर्मदा नदीके किनारेपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोंमेंसे कुछ ब्राह्मण दक्षिणयात्रा करते हुए द्रविड देशमें आये, वहां पाण्ड्य द्रविड देशका राजा था, उसने इन ब्राह्मणोंका तेज प्रताप देखकर बहुत सन्मान किया, और ग्रामादि देकर उनको अपने स्थानमें रक्खा और क्षेत्रादिका दान दिया, वे पूर्वमें तो उत्तरी भाषा बोलने वाले थे, पश्चात् वहां निवासके कारण वही भाषा बोलने और वैसे ही आचार पालनमें बतपर हुए, वे ब्राह्मण वैकटाचल, कांची मंडल प्रसृतिसे कावेरी, कृतमाला, ताम्रवर्णी, कुमारी

टोक पर्यन्त व्याप्त हैं वे सब द्रविड कहाते हैं, उनमें सम्प्रदाय तथा ग्राम भेदसे अनेक भेद हुए हैं, यथा पुदुर द्राविड, तुसंगुठ द्राविड चोलदेश द्राविड, तुर्पुनारि द्राविड, कानसिम द्राविड, अष्टसाहस्र द्राविड, त्रिसाहस्र द्राविड, साहस्र द्राविड, कंडमाणिक्य, बृहच्चरण, औत्तरेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकारके माध्यम मुक्काण द्राविड, चार प्रकारके शोलिया द्राविड वडहाल द्राविड, तिलंग द्राविड, पंचरात्र द्राविड, आदिशैव द्राविड, तीन प्रकारके काचि वटारण्य, पक्षितीर्थ निवास भेदवाले, चार प्रकारके वरमा द्रविड तन्ना इयार द्रविड, तल्लीमुवाईर द्रविड, इस भांति चौबीस प्रकारके द्रविड उस देशमें प्रसिद्ध हैं, इनका विवाह सम्बन्ध स्वर्गमें होता है कितनोंका भोजन सम्बन्ध स्वर्गमें, कितनोंका अन्यवर्गमें भी है।

इति द्रविडब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ महाराष्ट्रब्राह्मणोत्पत्तिः ।

महाराष्ट्र देशके पूर्वमें वर्द्धम अर्थात् वरार पश्चिममें सञ्जाद्रि पर्वत, नासिक, त्र्यम्बक, इगतपुरी, खण्डाला और सतारा, उत्तरमें तापी नदी, दक्षिणमें हुबली धारवाड ग्राम है, पूर्वमें प्रतिष्ठानपुरके अधिपति पुरुरवा राजाके वंशमें महासष्ट्र नामक एक राजा था, उसका बड़ा राज्य था, इसीसे उस देशका नाम महाराष्ट्र हुआ, उस राजाने यज्ञ करनेके निमित्तसे दीक्षा ली, और उत्तर दिशाके ब्राह्मणोंको बुलाया उन ब्राह्मणोंने विधिपूर्वक यज्ञ कराया, राजाने प्रसन्न हो उनको बहुत सा दान दिया, पीछे उनको ग्रामादि देकर अपने नामसे उनको निवास कराया, तबसे वह महाराष्ट्र ब्राह्मण कहाये इन्हींको दक्षिणी ब्राह्मण कहते हैं, इनमें जाति भेद नहीं होता शाखाभेद होता है, ऋग्वेदी यजुर्वेदी सामवेदी आपस्तम्बी आदि अनेक भेद हैं, कन्यासम्बन्ध अपनी शाखामें करते हैं, भोजन सम्बन्ध सब शाखाओंमें होता है, नागर खण्डमें इनका कुछ वृत्तान्त है, गुजरात देशमें बडनगर एक गांव है वहां रुद्र कोटि तीर्थ है, अनगिन्त दक्षिणी ब्राह्मण एक समय उन रुद्रके दर्शनको घरसे चले और सबने आपसमें शपथ की कि जिस किसीको शिवजी दर्शन सबसे पीछे होगा, वह पापी और जातसे बाहर किया जायगा, तब शिवजीने उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक कोटि रूप धारणकर उन करोड ब्राह्मणोंको एक साथ दर्शन दिया, तबसे उस स्थानका नाम रुद्रकोटि हुआ अब इनका अल्लगोत्रादि लिखते हैं ।

संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी
१	जोशी	भरद्वाज	३	यजु०	माध्यन्दिनी	मातापुरी
२	गीते	वच्छस	३	य०	"	"
३	विहवार्दे	उपमन्यु	३	य०	"	"
४	कांयदे	हारितस	३	ऋ०	शाकळ	बालाजी
५	मूले	कश्यप	३	य०	माध्यन्दिन	नृहरि

## भाषाटीकासंवलितः ।

( १०९ )

संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी
६	वैद्य	गार्ग्य	५	य०	माध्य०	गणपति
७	गोहे	पराशर	३	य०	"	केशवगोविन्द
८	जोशी	कृष्णात्रि	३	य०	"	मल्लारी
९	पाठक	वच्छस	३	य०	"	गणपति
१०	देशपांडे	सांख्याय०	३	य०	"	व्यङ्कटेश
११	शुक्ल	हारितस	३	ऋ०	शाकल	महालक्ष्मी
१२	वंडवे	कश्यप	३	ऋ०	"	महासरस्वती
१३	पुंड	कौशिक	३	यजु०	आपस्तंब०	तुलजापुरी
१४	धर्माधिकारी	जामदग्न्य	५	ऋ०	शाकल	मातापुरी
१५	गुरुजी	गार्ग्य	५	य०	कण्व	"
१६	महाजन	वत्सस	५	य०	"	"
१७	कुलकर्णी	अत्रि	३	य०	"	गोपालकृष्ण
१८	रालेगणकर	मौनभार्ग	३	ऋ०	शाकल	तुलजापुरी
१९	अग्निहोत्री	काश्यप	३	य०	आपस्तंब तु.	को. योजे
२०	मूले	कृष्णात्रि	३	य०	माध्य०	सप्तशृंगी
२१	पिंगले	हारित	३	य०	आपस्तम्ब	तुलजापुरी
२२	भालेराव	कौडिन्य	३	ऋ०	शाकल	रासीन
२३	वैद्य	गार्ग्य	३	य०	आपस्तंब	मातापुरी
२४	देसाई	मौनभार्ग्य	३	ऋ०	शाकल	बोधन
२५	कानगो	भरद्वाज	५	य०	आपस्तंब	मातापुरी
२६	रहकोले	भरद्वाज	३	यजु०	आपस्तम्ब	मातापुरी
२७	लामगांवकर	धनंजय	३	ऋ०	शाकल	मातापुरी
२८	कुलकर्णी	जमदग्नि	५	ऋ०	शाकल	सप्तशृंगी
२९	पाटील	विश्वामित्र	३	ऋ०	शाकल	मातापुरी
३०	स्मार्त	वसिष्ठ	१	ऋ०	शाकल	मातापुरी
३१	जोशी	वच्छस	५	य०	कण्व	मातापुरी
३२	मूले	श्रीवत्स	३	य०	आपस्तंब	कुन्दनपुर
३३	हडगे	कश्यप	३	ऋ०	आश्वलायन	बोधन
३४	मदन	अत्रि	३	य०	आपस्तंब	कुन्दनपुर
३५	वांडी	मौनमाग	५	ऋ०	शाकल	आपनी
३६	भगवन.	कौडिन्य	३	ऋ०	शाकल	रासनिवो



( ११० )

## जातिभास्करः-

संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी
३७	जोशी	लोहित	३	य०	माध्यन्दि०	कोल्हापुर
३८	जोशी	भरद्वाज	३	ऋ०	शाकल	योगेश्वरी
३९	पन्नावरी	शांडिल्य	३	ऋ०	शाकल	कोल्हापुर
४०	सामक	हारितस	३	साम०	राणायणी	मातापुर
४१	लेकुरवाले	वात्स्यायन	५	य०	माध्यन्दि०	मोहनीराज
४२	पंचभैया	उपमन्यव	३	य०	माध्यन्दि०	मोहनीम्हा
४३	ऋषि	भारद्वाज	३	य०	माध्यन्दि०	साकांत
४४	धर्माधिकारी	उपमन्यव	३	य०	माध्यन्दि०	मोहनीराज
४५	रनभोर	काश्यप	३			
४६	करविद	विश्वामित्र	३			
४७	दवडे	गौतम	३			
४८	वोवडे	काश्यप	३			
४९	गोजे	काश्यप	३			
५०	देवदास	काश्यप	३			
५१	कचर	काश्यप	३			
५२	विचारे	भरद्वाज	३			
५३	कावले	वच्छस	५			
५४	सप्तऋषि	उपमन्यु	६			
५५	दह्याल	गार्ग्य	५			
५६	देव	भरद्वाज	३			
५७	भोकरे	कौशिक	३			
५८	मौजे	भारद्वाज	३			
५९	लेले	काश्यप	३			
६०	शाहणे	शांडिल्य	३			
६१	चादुपाले	पाराशर	३			
६२	लघु	वशिष्ठ	३			
६३	सावले	काश्यप	३			
६४	खादार	काश्यप	३			
६५	कायदे	कौशिक	३			
६६	सोगदे	धनंजय	३			
६७	समुद्र	मौनस	३			
संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी
६८	राणे	अत्रि	३			
६९	आवारे	काश्यप	३			
७०	आंचवले	मुद्गल	३			
७१	जिराफे	काश्यप	३			
७२	आदनने	मुद्गल	३			
७३	कंठ	वच्छस	३			
७४	गोरटे	कौशिक	३			
७५	बोल्हे	भरद्वाज	३			
७६	दह्यडरान	वशिष्ठ	३			
७७	गाडाले	भारद्वाज	३			
७८	पाफले	काश्यप	३			
७९	सीवपाटकी	वशिष्ठ	३			
८०	रेवते	गौतम	३			
८१	भडके	गौतम	३			
८२	कमलपाटकी	कृष्णात्रेय	३			
८३	निझ	काश्यप	३			
८४	सोनटके	वच्छ	३			
८५	वेदरी	वशिष्ठ	३			
८६	अवटी	काश्यप	३			
८७	वारगजे	कृष्णात्रि	३			
८८	हडप	वशिष्ठ	३			
८९	शुक्रं	मौनस	३			

## भाषाटीकासंवलितः ।

( १११ )

संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर
९०	गाजरे	उपमन्यव	३	१२१	नीसीदे	गौतम	३
९१	गजगट	भार्गव	३	१२२	शुक्ल	शाण्डिल्य	३
९२	कोलेश्वर	काश्यप	३	१२३		कात्यायन	३
९३	चतुर	कृष्णात्रि	३	१२४	मांडे	काश्यप	३
९४	तांभोली	मुद्गल	३	१२५	थठ	भारद्वाज	३
९५	डुकरे	वशिष्ठ	३	१२६	आयाचित	वशिष्ठ	३
९६	तवनीसु	काश्यप	३	१२७	मगरी	काश्यप	३
९७	मोताले	जातूकर्ण	०	१२८	चौक	यास्क	३
९८	वाघ	विदर्भ	०	१२९	मुजुमदार	विश्वामित्र	३
९९	उपासनी	गौतम	३	१३०	परसायू	माण्डव्य	३
१००	तिलिवे	भारद्वाज	३	१३१	सेटे	कौशिक	३
१०१	पाठक	भारद्वाज	३	१३२	क्षीरसागर	वशिष्ठ	३
१०२	सेवाले	व्याघ्रपात्	३	१३३	औताडे	भरद्वाज	३
१०३	रोधे	गार्ग्य	५	१३४	महाजनजारी	श्रीवच्छ	३
१०४	घोलप	कौण्डिन्य	३	१३५	पिलपिले	गौतम	३
१०५	काथे	अत्रि	३	१३६	भटली	कृष्णात्रि	३
१०६	यज्ञोपवीतम्	मार्कण्डेय	०	१३७	उल्हे	भारद्वाज	३
१०७	आपटे	धनंजय	३	१३८	कापशे	कौण्डिन्य	३
१०८	गायधानी	सांकृत्य	३	१३९	कोरडे	कौण्डिन्य	३
१०९	सीगणे	वच्छ	५	१४०	आमीर	भरद्वाज	३
११०	बोधले	काश्यप	३	१४१	घुले	काश्यप	३
१११	तानवडे	कृष्णात्रि	३	१४२	तोवरे	काश्यप	३
११२	कली	भरद्वाज	३	१४३	रोटे	गौतम	३
११३	डोंगरे	पारोशर	३	१४४	विडवाई	शाण्डिल्य	३
११४	विजापुरे	वशिष्ठ	३	१४५	महात्मे	वच्छ	५
११५	भोलेरव	पैंग्य	३	१४६	नवग्रहे	आंगिरस	३
११६	एकवीटे	वशिष्ठ	३	१४७	वाकडे	पराशर	३
११७	सरोक	गर्ग	३	१४८	सावकार	काश्यप	३
११८	मुकुटकर	लोगाक्षि	३	१४९	भोपे	भारद्वाज	३
११९	काकडे	गर्ग	३	१५०	वेणी	भारद्वाज	३
१२०	वैद्य	वशिष्ठ	३	१५१	पतकी	गौतम	३
				१५२	परमार्थी	आत्रेय	३

संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर	संख्या	उपनाम	गोत्र	प्रवर
१५३	सौनटे	मौनस्व	३	१५७	व्यापारी	अग्नि	३
१५४	पंजपारे	प्रथमात्र	०	१५८	बेटो	पराशर	३
१५५	पावड	उपमन्यव	३	१५९	पितले	वच्छ	३
१५६	डुबे	काश्यप	३	१६०	मानके	विश्वामित्र	३

इति उपनाम ।

इस जातिके यजमान साढे बारह जातिके हैं वे सब शूद्र वर्ण हैं उनका वर्णन महाराष्ट्र क्षत्रिय वंशावलीके पीछे लिखा है ।

अथ ताप्तीतीरस्थकाष्ठपुरवाशिब्राह्मणोत्पत्तिः ।

स्कन्दपुराणान्तर्गत तार्पीमाहात्म्यमें रुद्र कहते हैं:—एक समय भगवान् रामचन्द्रजी नापीके समीप जव वनमें आये तब वहां श्राद्ध करनेके निमित्त हनुमानजीसे एक शिला मंगाई और उसपर श्राद्ध किया ।

वने काष्ठपुरे चोक्तञ्च स्थापिता द्विजसत्तमाः ।

और उस स्थानका नाम काष्ठपुर रखकर वहां ब्राह्मणोंका स्थापन किया, वे काष्ठपुरवासी ब्राह्मण कहाये । यहां ज्ञान दानका बड़ा पुण्य है, यह महाराष्ट्र सम्प्रदाय है ।

अथ औदीच्यसहस्रब्राह्मणोत्पत्तिः ।

पुराणसार संग्रहके तथा श्रीस्थलप्रकाश ग्रन्थके लेखसे विदित है कि संवत् ८०२ में चाव-डावन राजाने पाटन शहर बसाया उसके बंगमें सौलंकी क्षत्रियवंशी चामुंड राजा हुआ, चामुंडके एक पुत्र मूल राज हुआ, मूलराजने बहुतकालपर्यन्त राज्य किया, पीछे वह अपनी विरक्ति प्रगट करके उद्धारका उपाय सोचने लगा, गुरुके कहनेसे उसने उत्तराखण्डसे ब्राह्मणोंको बुलाया और सिद्धपुर क्षेत्रदर्शनकी लालसासे विमानोंमें बैठकर ब्राह्मण वहां गये ।

गंगायमुनयोः संगद्ग्रामं पंचोत्तरं शतम् ।

च्यवनस्याश्रमात्पुण्याच्छतं वै सोमपाथिनाम् ॥

सरय्वाः सिन्धुवर्यायाः शतं च धूतपाप्मनाम् ।

वेदशास्त्ररतानां च कान्यकुब्जाच्छतद्वयम् ॥

तिग्मांश्रुतेजसा तद्वच्छतं काशिनिवासिनाम् ।

कुरुक्षेत्रात्तथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः ॥

प्रयागसे १०५ च्यवनके आश्रमसे १०० सरयूके किनारेसे १०० कान्यकुब्जसे २०० काशीसे १०० कुरुक्षेत्रसे ७९ ब्राह्मण आये ।

समीयुर्मुनिपुत्राश्च गंगाद्वाराच्छतं द्विजाः ।

नैमिषाच्च समीयुर्वै शतं च क्रतुवेदिनाम् ॥

तथा चैव कुरुक्षेत्राद् द्वात्रिंशदधिकं शतम् ।  
इत्थं समागता विप्राः सहस्राधिकशोडश ॥

गंगाद्वारसे १०० नैमिषारण्यसे १०० कुरुक्षेत्र प्रान्तसे १३२ इस प्रकार १०१६ ब्राह्मण आये राजाने उनका बड़ा सत्कार किया, और उनको अनेक प्रकारके दान देने लगा, ब्राह्मणोंने कहा हम प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तुम घर जाओ हम तो यहां तीर्थमें कुछ काल निवास करेंगे । राजा यह सुन दुःखी हो घर चला आया, कुछ कालमें वे ब्राह्मण स्त्रियोंको अग्निहोत्र सौंपकर पांच रात्रिके निवास करनेको दर्धाचिके आश्रममें गये, इस अवसरमें राजाने अनन्त वस्त्रालंकार उनकी स्त्रियोंको दान करनेके निमित्त अपनी रानीके हाथ भेजे, जिस समय वे स्त्री रानीको देखने लगीं और वस्त्राभूषण देखकर लुभाई, रानीने कहा यह मैं विष्णु देवकी प्रीत्यर्थ तुम्हारे लियेही लाई हूं, स्त्रियोने वे सब वस्त्रालंकार ग्रहण किये, परन्तु जब ब्राह्मण अपने आश्रमोंमें आये तब वे अपनी स्त्रियोंसे बोले यह कहाँसे आये, स्त्रियोने जब वृत्तांत सुनाया तब क्रोधकर उन्होंने मूल राजाके नाश करनेके निमित्त हाथमें जल लिया, तब स्त्रिय बोलीं यदितुम राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करैंगीं, तुम राजासे इच्छित पदार्थ ग्रहण करो, यह सुन ब्राह्मणोंने क्रोध शान्त किया, राजा यह वृत्तान्त सुनतेही ब्राह्मणोंके पासआया और बड़े दान मानसे उनको सन्तुष्ट किया और सुवर्णके सिंहासनोपर बैठाकर कार्तिक पूर्णिमाको उन ब्राह्मणोंको सिद्धपुरका दान कर दिया, दश ब्राह्मणोंको काठियावाडके अन्तर्गत सिहोर ग्रामका दान किया ।

श्रीस्थलादष्टकाष्ठासु ग्रामांश्च विविधांस्तथा ।  
चंद्रसप्तैकसंख्याकान् ब्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः ॥  
इत्थं पञ्चशतेभ्यश्च दानार्थं पुनरुद्यतः ।  
अथ सिंहपुरादष्टकाष्ठासु स्वर्णसंयुतान् ॥  
एकाशीति शुभान्ग्रामान्ब्राह्मणेभ्यो ददौ ततः ।  
इत्थं पञ्चशतेभ्यश्च भूसुरेभ्यो नृपोत्तमः ॥  
राज्ञा पदातिदानैश्च सहस्रं तोषिता द्विजाः ।  
ततो जाता द्विजेन्द्रास्ते सहस्राख्या महर्षयः ॥  
उदीच्यास्तत्र चान्ये ये मुनिपुत्राः सुबुद्धयः ।  
एकीभूत्वा स्थिताः सर्वे तस्मात्ते टोलकाः स्मृताः ॥

सिद्धपुरकी अष्ट दिशाओंमें अनेक ग्राम हैं उनमें ४७९ ब्राह्मणोंको २७१ ग्रामका दान दिया, इस प्रकार ५०० ब्राह्मण सिद्धपुर सम्प्रदायी, सहस्र औदीच्य हुए, फिर सियोरेके आठ दिशाओंमें जो ८१ ग्राम थे वह ४९० ब्राह्मणोंको दिये, यह ५०० ब्राह्मण सिहोर सम्प्रदायी कहाये, इस प्रकार यह सहस्र औदीच्य ब्राह्मण हुए, और जिन सोलह ब्राह्मणोंने राजप्रतिग्रह नहीं किया और टोली बांधकर बैठे, वे टोलक औदीच्य ब्राह्मण कहाये, गोत्रादि इनके जो भेद हैं सो चक्रमें समझ लेना ।

संख्या	अवतंक	गोत्र	प्रवर	संख्या	वेद	शाखा	कुलदेवी	गणपति	यक्ष वा	शिव	भैरव	शर्म
१	देव	भार्गव	६	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी	गणपति	यक्ष वा	शिव	भैरव	शर्म
२	ग्रथमं पदं पुत्राय दत्त द्वितीय मित्रे दत्तं पदं या गोत्र-एकमेवास्ति				ऋक्	आश्वलायनी	आशापुरी	वक्रतुंड	वीरेश्वर		आनंद	सोम
			अतद्वः		गोत्रादिकं							
३	पंड्या	कौशिक	३	ऋग्वेद	आश्वला०	विघ्नेश्वरी	महोदर	महोदर	सोमेश्वर	सोमेश्वर	कालभैरव	विष्णु
४	त्रिवाही	वल्लभ	५	सामवेद	कौथुमी	महागौरी	विघ्नविना०	विघ्नविना०	देवेश्वर	देवेश्वर	कालभैरव	दत्त
५	दुबे	गौतम	३	ऋग्वेद	आश्वला०	हिगबाज	महोदर	महोदर	सोमेश्वर	सोमेश्वर	असितांग	सोम
६	ठाकुर	वच्छस	६	यजुर्वेद	माध्यन्दिनी	भद्रकाली	विघ्नविना०	विघ्नविना०	वीरेश्वर	वीरेश्वर	काल	भव
७	दुबे	पाराशर	३	यजु०	मा०	सा	बहुरूप	बहुरूप	वीरेश्वर	वीरेश्वर	काल	सोम
८	उपाध्याय	कश्यप	३	यजु०	मा०	उमा	महोदर	महोदर	कुबेर	कुबेर	काल	भव
९	दुबे	भारद्वाज	३	यजु०	मा०	चामुंडा	महोदर	महोदर	वीरेश्वर	वीरेश्वर	काल	सोम
१०	दुबे	शांडिल्य	३	यजु०	मा०	महालक्ष्मी	गजकर्ण	गजकर्ण	सोमेश्वर	सोमेश्वर	वटुक	सोम
११	पंड्या	शौनक	३	यजु०	मा०	महागौरी	विघ्नविना०	विघ्नविना०	सोमेश्वर	सोमेश्वर	असितांग	सोम
१२	त्रिवाही	वशिष्ठ	३	रामवेद	कौथुमी	शुभ्रा	वक्रतुंड	वक्रतुंड	सोमेश्वर	सोमेश्वर	वटुक	भव
१३	ठाकुर	मौनस	३	यजु०	मा०	घारपीठ	महोदर	महोदर	वीरेश्वर	वीरेश्वर	रुर	दत्त
१४	जानि	गर्ग	३	यजु०	मा०	अंबा	वक्रतुंड	वक्रतुंड	नागेश्वर	नागेश्वर	भीषण	भव
१५	दुबे	कुच्छस	३	यजु०	मा०	उमा	महोदर	महोदर	सोमेश्वर	सोमेश्वर	महाकाल	विष्णु
१६	दुबे	उदालक	३	यजु०	मा०	उमा	महोदर	महोदर	सोमेश्वर	सोमेश्वर	वटुक	सोम
१७	दुबे	कृष्णात्रेय	३	यजु०	मा०	शुभ्रा	बहुरूप	बहुरूप	सोमेश्वर	सोमेश्वर	वटुक	सोम
१८	दुबे	कौडिन्य	३	यजु०	मा०	महाकाली	लक्ष्मोदर	लक्ष्मोदर	वीरेश्वर	वीरेश्वर	असितांग	दत्त
१९	पंड्या	माण्डव्य	३	यजु०	मा०	महागौरी	प्रसन्नवदन	प्रसन्नवदन	वीरेश्वर	वीरेश्वर	वटुक	दत्त
२०	उपाध्याय	उपमन्यु	३	ऋग्वेद	आश्व०	वहुस्मरा	विघ्नविना०	विघ्नविना०	सोमेश्वर	सोमेश्वर	आनंद	भव
२१	दुबे	श्वेतात्रि	३	यजु०	मा०	जया	एकदन्त	एकदन्त	सोमेश्वर	सोमेश्वर	रुर	दत्त

इनमें तीन औदीच्य ब्राह्मणोंका परस्पर भोजन और विवाह सम्बन्ध किया हुआ रूढ़ि और शास्त्रसे बाधक नहीं है, यदि कोई बाधक मानते हों तो उनको विचारना चाहिये कि गुजरात प्रांतमें औदीच्यकी कन्या टोलकियोंमें और टोलकियोंकी कन्या औदीच्योंमें हैं, १०१६ औदीच्य जो बसे पीछे उनके इष्टमित्र जो आये, वह निःकृष्ट जातियोंका आचार्यत्व करलेन्गे। इस कारण ऊपर लिखे तीन कुलोंके साथ उनका भोजन विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनबी गौर, गोला गौर, काछिया गौर, ग्रन्थप गौर, गरजी गौर, कोली गौर, मोची गौर कहाये। गौर, कच्छ, वागडिया, पार करिया, खरडी, संवा, कालावाडी, संवा, सुखसंवा इन नगरोंमें जाकर उन्होंने निवास किया, और भिन्न २ आचार होनेसे सबका संवा (समूह) पृथक् हुआ और जो मारवाडी औदीच्य गुर्जर देशमें रहे, वे छोटे संवा कहेजाते हैं और जो मारवाड अन्तर्वेद मध्यदेश मालवामें रहे, वे बडसंवा कहाये, राजाकी दी हुई पदवीका नाम अवटंक कहाता है। इनमें मुख्य राजाके अधिकारी ठाकुर कहाते हैं, राजकर्मचारी महता कहाते हैं, पंचकुलमें मुख्योंको पंचोली चतुर योधाको भट कहाते हैं, राजगुरुको रावल, शुद्ध आजीविका वालेको शुक्ल कहाते हैं; पुगण कथा वांचने वालोंको व्यास कहाते हैं, शेष नाम हुवे आदि प्रसिद्ध हैं।

अब टोलक औदीच्य ब्राह्मणोंका उत्पत्ति कहाते हैं। औदीच्य प्रकारमें मुनि और सुमेधा संवादमें कहा है कि, टोलक ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार है, इसपर सुमेधाने मुनियोंसे कहा कि, कुछ मुनिपुत्र जो अपनी टोली बांधे दान प्रतिग्रहके भयसे पृथक् बैठे थे, शिवजीकी आज्ञासे मूल राजाने उनको बुलाकर बड़ा सन्मान किया, और मनइच्छित मांगनेको कहा तब वे ब्रह्मतेजके वृद्धिकी इच्छा करके बोले कि लोकमें जिसको खंवात कहाते हैं उसको स्तंभतीर्थके सहित तथा ग्रामों सहित दान करो। राजाने तत्कालही छः ब्राह्मणोंको साठि-बोडोंके सहित स्तम्भ तीर्थका दान किया, और खंवातकी आठों दिशाओंमें ब्राह्मणोली आदि चौदह ग्रामोंका दान किया, इस प्रकार सोलह ब्राह्मणोंको दान किया, तथा उनकी स्त्रियोंको भी वस्त्रालंकारसे भूषित किया, तथा चार लाख गौओंका दान किया, इनको जो ग्राम दिये गये हैं उनमें १३ को पादर और तीनको उपपादर कहाते हैं, एक सरखेज दूसरा उत्तर संडा और तीसरा अंकलाव कहाता है, उत्तर संडाके उपाध्याय कश्यप कहाते हैं, शेष दो अवतार भेद हैं और छठे कनीज ग्रामके व्यास जो अपना ग्राम त्यागकर अहमदाबादके विविपरामें आकर रहै इस कारण उनका नाम धीपरा पौलस्ती पडा, उसमें के जो अहमदाबाद; आलिद्रा वास्तना, नायका, मारवाड, विरमगांव, हाटकी, रडु, धोलकाके इत्यादि स्थानोंमें जाकर रहे, वे उनके नामसहित पौलस्ती कहे जाते हैं; मातरके जानिके चार भेद हैं, जानिभट शुक्ल और आकचीआ; डमाण ग्रामके उपाध्याय पद बदलकर भट पण्ड्या और शुक्ल इस प्रकार कहे जाते हैं, खेडाके पंड्या कुलका पद परिवर्तित होकर व्यास हुआ है, और वे यजुर्वेद छोडकर ऋग्वेदी हुए हैं, खंवातके कृष्णात्रि पण्ड्या त्रिपण्ड्याकी तीन शाखा हुई, जो पांचा दसा बीसा कहाती हैं, ब्राह्मणोंमें मौलपण्ड्या पूर्वी उजम हैं, परन्तु विवाहीनता और कुग्राम

धासके कारण हीनत्वको प्राप्त होगये हैं, टोलकिये ब्राह्मणोंका यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा है, यदि दूसरी शाखावाले दीवें तो जानना कि यह सिद्धपुरसे आये हैं, आगे इनका कुलचक्र लिखते हैं ।

गौ० दि० सं०	ग्राम नाम	अवटक	गोत्र	प्रवर वेद	शा० कुलदेवी	गणपति	भैरव	शर्म	नदीशिव
७ ई०	खंवात २	पंड्या १	कृष्णात्रिगो०	३ य० मा०	शुभा	वक्रतुंड	काल	सोम	महीसागरसंगम
३ अ०	ब्राह्मणोली	पंड्या	कश्यप	३ " "	उमा	एकदंत	आनंद	मित्र	नीलकंठकोटेश्वरौ
५ ई०	हरियाली	पंड्या	कश्यप	३ " "	उमा	" "	" "	" "	" "
४ खेडा	"	"	"	३ " "	क्षेमप्रदा	विभ्रराज	संहार	दत्त	वाजखडीसंगमोवात्रकनदी
२ अ०	सिन्धुवा २	पंड्या १	वसिष्ठ	३।३ " "	भद्रकाली	वक्रतुंड	रुरुआनंद	दत्त	महिनदी
			वत्स		उमा	एकदंत	मित्र		
८ पू०	कनौज	व्यास	पौलस्त्य	६ " "	गौरी	एकदंत	भीषण	भव	महेश्वरीनदी
४ ई०	मातर	जानि	शाण्डिल्य	३ " "	शुभा	गजकर्ण	महाकाल	विष्णु	वात्रकनदी
५ उ	डमाण	उपाध्याय	भारद्वाज	३ " "	चासुण्डा	महोदर	आनंद	मित्र	खेडीवासलीनदी
४ ई०	भरकुंड	व्यास	आगिरस	३ " "	क्षेमकरी	विभ्रराज	संहार	दत्त	वात्रकनदी
८ पू०	मडुधा	व्यास	कश्यप	३ " "	अन्नपूर्णा	महोदर	आनंद	मित्र	मनोहरनदी
३ नै०	ऋग्ण	जोशी	सांख्य	३ " "	महालक्ष्मी	गजकर्ण	भीषण	भव	महीनदी
५ ई०	दरेवो १	कश्यप	काश्यप	३ " "	शिवा	डुडिराज	आनंद	मित्र	खेडीनदी
	पुरोहित	पुरोहित	"	३ " "	गौरी	"	भीषण	भव	"
९ ई०	कोचरप	व्यास	वच्छस	६ " "	उमा	एकदंत	"	"	सारुमती

१ उत्तरखंडा २ सरखेज ३ अंकलाव यह तीन उपपादर हैं ।

पूर्वैर सम्प्रदायान्तर्गत टोलकिया ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति पूर्ण हुई ।

अथ नागर ब्राह्मणोत्पत्ति ।

स्कन्दपुराणके नागर खण्डसे सार ग्रहण कर नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहता हूँ । शौन-  
कके पूछनेसे सूतजीने कहा कि, आनर्त देश जहां इस समय द्वारका है इस वनमें शंकरका  
निवास है, वहां शूलपाणि भगवान् ने अपने स्वरूपविशेष लिंगका पात किया, और वह भूमिको  
भेदकर पातालमें प्रविष्ट होगया, इस कारण वहां अनेक उत्पात हुए, तब इन्द्रादिक देवता-  
ओंने आनकर कहा आप इस अपने चिह्नरूप तेजको धारण कीजिये, तब भगवान् बोले  
इस मेरे स्वरूपकी जगत् पूजा करै तो मैं इस तेजको आकर्षण करूँ, ब्रह्माजी बोले प्रथम  
मैं ही पूजा करता हूँ पीछे सब जगत् करैगा: यह कहकर ब्रह्माजीने पूजा की और पीछे सुव-  
र्णका एक लिंग ब्रह्माजीने वहां स्थापन कर उसका नाम हाटकेश्वर रक्खा, और पातालमें  
उसका पूजन चार पदार्थका देनेवाला है, शंकरने अपने ज्योतिर्लिंगको जिस मार्गसे उद्धार  
किया, उसके नीचेसे जलकी धारा निकली, वह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कहाई, इस  
हाटकेश्वरके दर्शन करनेसे और वहांकी गंगामें स्नान करनेसे सहस्रों प्राणी स्वर्गमें गमन  
करनेलगे, तब इन्द्रने उस तीर्थको मृत्तिकासे भर दिया, यह देख नागोंने यहां एक बिल  
बनाया और पातालसे निकलकर इस भूमिमें गमनागमन करने लगे ( ततो नागबिलं स्यात्  
सर्वस्मिन्वसुधातले ) उसी दिनसे पृथ्वीमें वह स्थान नागबिल नामसे विख्यात हुआ, जब इंद्रको  
वृत्रासुरके वधसे ब्रह्महत्या लगी, तब नागबिलके मार्गसे पातालमें जाकर गंगास्नान कर शंक-  
रका पूजन कर ब्रह्महत्यासे मुक्त हुआ, फिर यह बात विचारकर कि जो इस मार्गसे स्नान  
करैगे सबही शुद्ध होजायेंगे, इंद्रने हिमालयके रक्तशृंग नामक पर्वतखंडसे उस मार्गको बन्द  
करदिया, पीछे उस पर्वतपर अनेक मंदिर और तीर्थ हुए, उस देशका चमत्कार नामक एक  
राजा कुष्ठरोगसे पीडित था, एक मुनिके आदेशसे राजाने उस पर्वतपर स्थित शंखतीर्थमें  
स्नान किया तत्काल राजाका रोग दूर होगया, तब प्रसन्न हो राजाने वहांके ब्राह्मणोंसे  
कहा आपकी कृपासे मेरा रोग दूर हुआ, इसकारण आप मन्त्रच्छिन्न दान ग्रहण करो,  
उन्होंने कहा हम राजप्रतिग्रह नहीं लेते हैं तुम आनंदसे घर जाओ । राजा उदास हो  
अपने घर चला गया, वे ब्राह्मण अपने तपोबलसे आकाशमार्गसे तीर्थोंमें जाया करते थे,  
एक समय वे पांच दिनके लिये पुष्कर क्षेत्रको गये, जब राजाने यह बात जानी कि ७२  
ऋषियोंमें इस समय कोई नहीं है, तब उसने अपनी दमयन्ती रानीको मूषण वस्त्र लेकर  
ऋषिपत्नियोंको प्रलोभन देनेको भेजा वहां रानी अनेक वस्त्रालंकार लेजाकर बोली आज  
विष्णुप्रबोधिनी एकादशी है, विष्णुकी प्रीतिके अर्थ तुम चाहै जितने वस्त्रालंकार लेसकती  
हो, चार स्त्रियोंके सिवाय सब तपस्त्रियोंकी स्त्रियोंने बड़े चावसे वे वस्त्रालंकार ग्रहण किये,  
जिन चार स्त्रियोंने नहीं लिये उनके पति चारों ब्राह्मण शुनःशेफ, शस्त्रेय, बौद्ध और दांत  
आकाशमार्गसे अपने आश्रममें आये । और अड़सठ ऋषिपत्नियोंके प्रतिग्रह करनेके



कारण आकाश गति नष्ट होनेसे पैरों आने लगे, उन चारों ब्राह्मणोंने अपनी स्त्रियोंसे राजाकी रानीका यह वृत्तान्त जान क्रोधकर उसको शाप दिया कि तैने यह आश्रम प्रतिग्रहसे दूषित किया इसकारण तू पाषाणकी शिआ होजा, रानी तत्काल शिला होगई । राजा यह जानकर ऋषियोंको प्रसन्न करनेके निमित्त चला, तत्काल वे चारों ऋषि राजाका आगमन विचार अपनी स्त्रियों और अग्निहोत्रके सहित कुरुक्षेत्र चलेगये, राजाने उस शिलारूप रानीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां पूजाका प्रबन्ध किया. पीछे कुछ दिनोंमें वे ६८ ब्राह्मण वहां पहुंचे और वस्त्रालंकारसे युक्त देव स्त्रियोंसे पूजा तब उनसे कारण जानकर वे भी शाप देनेको उद्यत हुए तब स्त्रियोंने कहा यदि राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करैंगी तब ब्राह्मणोंने वह जल पृथिवीपर डालदिया जिसके कारण वह पृथिवी दग्ध होकर ऊषर होगई और ब्राह्मणोंने क्रोध त्यागन किया, राजा यह जानकर वहां गया और ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रार्थना की, तब ब्राह्मण बोले तेरे कारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर बनाकर तुम उसका दान करो, राजाने एककोस लम्बा चौडा एक नगर बनाकर कोट बांधकर तीन मार्ग और चार मार्गोंसे युक्त करके अडसठ घरोंमें सब पदार्थ भरकर शास्त्रानुसार चमत्कारपुरका दान करदिया. और आप तपस्या करनेको बैठ गया, पीछे तपस्यासे शंकर प्रसन्न हुए, और अचलेश्वर नामसे वहां निवास करनेका वचन दिया, चैत्रकृष्ण चतुर्दशीको उस पुरकी प्रदक्षिणासे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है । उन अडसठ ऋषियोंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि जब २ हमारे घरोंमें विवाहादि कार्य सम्पन्न होगा पहले दमयन्तीका पूजन करैंगे, कन्या पहले दमयन्तीका दर्शनकर पीछे वेदीमें जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इस दिनसे नागर ब्राह्मण और वैश्योंमें दमयन्तीका पूजन होता है, इस प्रकार चमत्कार पुरमें अडसठ गोत्र स्थापन हुए, और उनमेंसे चार गोत्रवाले सपोंके भयसे चलेगये और शेष चौंसठ उसी स्थानमें पूर्वोक्त आठ वंश उच्च कोटिके अष्टा कुल हुए, सपोंके भयका कारण ऐसा लिखाहै कि, आनर्त देशमें एक प्रभंजन नामक राजा था उसके वृद्धावस्थामें एक पुत्र हुआ जिसको ब्राह्मणोंने गंडान्त योगमें जन्म लेनेके कारण सर्वनाशी बताया, तब वह राजा चमत्कारपुरमें तपस्वियोंके पास आकर अपने सब वृत्तान्त सुनाकर प्रार्थना करने लगा तब तपस्वी बोले कि हम १६ ब्राह्मण प्रतिमास तेरे पुत्रके कल्याणार्थ शांति करैंगे, राजाने सामग्री भेजदी, शान्तिका उपचार करने पर भी राजमहलमें आधिव्याधि बढ़ने लगी, तब ब्राह्मण ग्रहोंको शाप देनेको उद्यत हुए, तब अग्निने प्रगट होकर कहा कि, ग्रहोंका दोष नहीं है तुम १६ ब्राह्मणोंमें एक त्रिजात नामक ब्राह्मण बडा निकृष्ट है उसके दोषसे ग्रह आहुति नहीं लेते, उसको त्याग कर शांति करोगे तो शांति होगी, और उसके नीचत्वकी परीक्षा यह है कि, इस स्वेदके जलमें तुम सब कोई स्नान करो, इसमें जो त्रिजात होगा उसके तत्काल विस्फोटक रोग होगा; तब शुकिके निमित्त ब्राह्मणोंने उसमें स्नान किया, तब उनमेंसे एकके विस्फोटक

रोग होगया वह तत्काल लज्जित होकर पुरके बाहर चला गया, और पन्द्रह ब्राह्मणोंके जप हवनसे राजकुलमें शांति हुई, इधर वह त्रिजात ब्राह्मण वनमें जाकर विचारने लगा, कि माताके व्यभिचार दोषसे मैं इस दशाको पहुंचा, पश्चात् विचार करके तपस्या करनेको बैठा, इधर चमत्कारपुरमें नहुष वंशका एक क्रथनाम ब्राह्मण था, उसने नागपंचमीके दिन नागतीर्थपर खेलते हुए एक नागबालकको लकड़ीसे मार डाला उसकी माता उस बालकको ले रोती हुई पातालमें अनन्तके सम्मुख गई, तब शेषने नागोंका विलाप सुनकर कहा पृथ्वीके ऊपर हाटके-श्वर क्षेत्रके समीप जाकर जिसने इस बालकको मारा है, नाग उसको नष्ट करके समस्त चमत्कारपुरको भस्म कर दें. नागोंने तत्काल अपने विषसे चमत्कार पुरको नष्ट करना आरंभ किया, मृत्युसे बचे शेष ब्राह्मण नगर छोडकर भागने लगे, यह दशा जाति भाइयोंकी देखकर वह त्रिजात रोने लगा तब उसने शिवजीकी स्तुति की और शिवने प्रसन्न हो उससे वर मांगनेको कहा तब उसने कहा हमारा पुर नागोंने घेर लिया है, इसकारण वहाँके सब नाग क्षय होजायँ और ब्राह्मण फिर निवास करँ, यह वर दो; शंकर बोले सब नागोंको मारना तो उचित नहीं है, पर मैं एक मंत्र देता हूँ जिसके शब्द सुनने मात्रसे नाग विषरहित होजायँगे. तुम ब्राह्मणोंके साथ जाकर यह शब्द उच्चारण करो, जो नाग इस मंत्रको सुनकर पातालमें प्रवेश नहीं करँगे; वे सब विषरहित हो जायँगे ।

न गरं न गरं चैतच्छ्रुत्वा ये पन्नगाधमाः ।

तत्र स्थास्यन्ति ते वध्या भविष्यन्ति यथा सुतः ॥

न गरं, विष नहीं है ऐसा सुनकर जो नीच सर्प वहाँ रहेंगे वे अवश्य वधको प्राप्त होंगे, यह सुनकर त्रिजातने अन्य ब्राह्मणोंके साथ न गरं न गरं ऐसा कहते उस स्थानमें प्रवेश किया और उस मंत्रके श्रवण मात्रसे सब नाग पातालमें चले गये, उस दिनसे चमत्कार पुरका नाम वृद्ध नगर या बडनगर पडा और त्रिजातको मुख्य मानकर वे सब ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे, उपमन्यु, कौच और कैशौर्य गोत्रके ब्राह्मण सर्पोंसे नष्ट हुए, शुनकादि गोत्रके उनके पितर थे और त्रिजात ब्राह्मणके संग जितने गोत्रके ब्राह्मण आये उनका वृत्तान्त चक्रमें लिखा गया है ।

संख्या	गौत्र	पुर० सं.	संख्या	गोत्र	पुर० सं०
१	कौशिक	२६	३२	मैधुव	५५
२	काश्यप	८७	३३	पैनिक्त	७०
३	लक्ष्मण	२१	३४	गोभिल	५
४	भारद्वाज	३	३५	पिकाश	५
५	कौडिन्य	१४	३६	औशनस	३

( १२० )

## जातिभास्करः--

६	रैभ्य	२०	३७	दाशर्षा	३
७	पाराशर्य	८	३८	लौगाक्ष	६०
८	गर्ग	२२	३९	रैणिस	७२
९	हारीत	२३	४०	कापिल	७७
१०	भार्गव	२५	४१	शार्करास	७७
११	गौतम	२६	४२	श्लेणाक्ष	७७
१२	आयुभायन	२०	४३	शार्कव	१००
१३	माण्डव्य	२३	४४	दान्व्य	७७
१४	वहवृच	२३	४५	कात्यायन	३
१५	सांक्रत्य	१०	४६	वैदक	३
१६	वशिष्ठ	१०	४७	कृष्णात्रेय	५
१७	आंगिरस	५	४८	दत्तात्रेय	५
१८	आत्रेय	१०	४९	नारायण	१००
१९	शुक्लात्रेय	१०	५०	शौनकेय	०
२०	वात्स्य	५	५१	जालवा	०
२१	कौत्स	२	५२	गोपाल	०
२२	शाण्डिल्य	५	५३	जामदग्न्य	०
२३	मौद्गल्य	२०	५४	शालिहोत्र	०
२४	बौधायन	३०	५५	कार्णिक	८
२५	कौशल	३०	५६	भागुरायण	०
२६	अथर्व	५५	५७	मात्रिक	०
२७	मौनस	७७	५८	त्रैणव	०
२८	याजुष	४०	१	उपमन्यव	०
२९	च्यवन	३७	२	क्रौंच	०
३०	अगस्ति	३२	३	कैशोर्य	०
३१	जैमिनि	१०	६९	भार्गवद्वितीय	५

उन कौशिकादि गोत्रोंके ४८ संस्कार विधाताने कहे हैं, यह त्रिजात ब्राह्मण ब्रह्माजीके वरदानसे भर्तृयज्ञ नामसे विख्यात हुआ, नगरमें रहनेवाले नागर ब्राह्मण विख्यात हुए, इनके दश भेद और चौंसठ गोत्र हैं. त्रिजातने पंद्रह सौ ब्राह्मण लाकर बसाये पर जैसे पूर्वमें अडसठ ब्राह्मणोंका लाभ अधिकार था, इन पंद्रह सौका सामान्य और मध्यम रीतिसे हुआ, पीछे और बहुतसे ब्राह्मण यहां आनकर रहे। इस स्थानमें, शंखतीर्थ, ब्रह्मदेव-

मंदिर, बालमंडनतीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपदतीर्थ, गोकर्णतीर्थ, नागतीर्थ, सिद्धेश्वर, महादेव, सप्त र्षितीर्थ, आगस्त्याश्रम, चित्रश्वरपीठ ऐसे अनेक तीर्थ हैं । एकसमय दुर्वासाजी उस नगरमें आये और देवमंदिर बनानेके लिये उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे भूमिकी याचना की. पर ब्राह्मणों ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब क्रोधकर दुर्वासाने शापदिया कि तुम सब मदोन्मत्त होकर पिता पुत्रतकसे छूट जाओगे, ऐसा कहकर जब दुर्वासा जाने लगे तब एक सुशील ब्राह्मणने उठकर उनको रोका और कहा आप यहां देवालय निर्माण करै, तब दुर्वासाने वहां देवकी स्थापना की । इधर ब्राह्मणोंने यह बात जानकर कि सुशीलने दुर्वासाको भूमि दी है, तब उन्होंने क्रोधकर कहा आजके उस ब्राह्मणका नाम दुःशील होगा, और नगरसे बाहर निवास होगा तब उसने पुरके बाहर अपना स्थान बनाया, उसके वंशधर तबसे बाह्यगारन वा वारड नागर हुए. अब यहांके तीर्थोंको सुनो, धुंधमारेश्वर, द्रयातीश्वर चित्रशिला, नलशायी, विश्वामित्रकुंड, त्रिपुश्रकर, सारस्वत, उमामहेश्वर, कलशेश्वर, रुद्रकोटेश्वर, भ्रूणगर्न उज्जयनी पीठ, चर्म, मुण्डा, साम्वादित्य, वटेश्वर महादेव, नरादित्य सोमेश्वर, नलतीर्थ शर्माष्टातीर्थ, परशुरामडोह, चमत्कारेश्वरी देवी, आनर्तेश्वर महादेव, स्कन्दशक्ति, यज्ञ-भूमि, विवाहदेवी, रुद्रशीर्षशिव, वालखिल्याश्रम, सुवर्णाश्रम, महालक्ष्मी, आमवृद्धा देवी, श्रीमातुः, पादुका, ब्रह्मतीर्थ, ब्रह्मकुण्ड, गोमुख लोहयष्टिका, कामप्रदा देवी, राजवापिका, श्रीरामेश्वर, आनर्ततीर्थ, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, भट्टिकातीर्थ, कात्यायनीदेवी, क्षेमकरी देवी, शुक्लतीर्थ, मुखारतीर्थ, कर्णोत्पलतीर्थ, वटेश्वर महादेव, याज्ञवल्क्याश्रम, पंचर्षिडा, गौरी, वास्तुपाद, अजाग्रह, दीर्घिका, धर्मराजेश्वर, मिष्टान्नेश्वर, तीनगणपति, जाबालेश्वर, अमरकुण्ड, रत्नादित्य, गततीर्थ, इत्यादि अनेक हैं इनमें स्नानकरने और दर्शन करनेसे अनेक मनोकामना पूरी होती है । हाटकेश्वर सबमें मुख्य हैं इनमें गर्ततीर्थनिवासी ब्राह्मणोंसे ब्रह्मलोकसे लौटे हुए राजा सत्यसंघका संवाद हुआ कि आप हमको पुर बनाकर दान करो, राजाने कहा मैं तो सब त्यागकर तपस्या करता हूँ, आप इन मेरे दिये चमत्कार पुरमें रहनेवाले नागर ब्राह्मणोंकी सुश्रूषामें रहो तब नागर ब्राह्मण उनको बडनगरमें लेगये, और उनकी सम्मतिसे सब कार्य करनेलगे, और उनकी बडी वृद्धि हुई । नगर बनिये और चितोड नागर बनिये यही गर्त तीर्थवासी कर्मत्यागी ब्राह्मण हैं, अब बाह्यनामक नागर ब्राह्मणोंके भेदका निरूपण करते हैं । एक पुष्पनामक ब्राह्मणने एक ब्राह्मणका वधकर उसकी स्त्री और धनको ले शुद्धिके लिये हाटक क्षेत्रमें आया ब्राह्मणोंसे प्रायश्चित्त पूछा सब नागरोंने उसका तिरस्कार किया, परंतु एक चण्डशर्मा ब्राह्मणने कहा कि, पुरश्वरणसप्तमीका व्रत करनेसे इस पापका क्षय होगा, पुष्प तो इस व्रतके आचरणसे शुद्ध हो गया और अपने धनका छठा भाग चण्डको दिया, इसपर नागरोंने पंचायत करके उसको जातिच्युतकर दिया, और यह भी नियम किया कियाकि जो कोई इसकेसाथसंबंध करैगा वह हमारे समूहसे बाह्य होगा, पुष्पने सूर्यकी तपस्या की और उसके कल्याणका वर मांगा,

भगवान् भास्करने कहा ब्राह्मणोंके वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, परन्तु यह नागर ब्राह्मणोंके भेदमें बाह्य नागर नामसे पृथिवीमें विख्यात होगा। इसके पुत्रादिक जो होंगे उनका भी राजसभामें मान्य होगा, यह कहकर भगवान् सूर्यदेव अन्तर्धान हुए। तब पुष्पने चंडसे सब वृतांत कहा। और उसको साथले नगरसे बाहर हुआ और सरस्वतीके दक्षिण तटपर महत् स्थान बनाकर दोनों शंकरकी आराधना करने लगे, वहां चण्डने नगरेश्वर महादेवकी स्थापना की, पुष्पने पुष्पादित्य सूर्यकी स्थापना की, चण्डशर्मा की शाकंभरी स्त्रीने सरस्वतीके तटपर दुर्गादेवीकी स्थापना की उस दिनसे वहां शाकंभरी देवी प्रसिद्ध हुई, और बाह्यनागरोंका वह स्थान पुत्रपौत्रादिसे विशेष वृद्धिको प्राप्त हुआ। एक समय विश्वामित्रके शापसे सरस्वती नदी रुधिरवाहिनी हुई, इस कारण वहां राक्षसोंका निवास विशेष रूपसे होने लगा और ब्राह्मणोंको भी भक्षण करनेलगे, तब बाह्यनागर वह स्थान छोड़कर दूरचले गये, तब कांदिशिक नागरोंका भेद पृथक् हुआ समयपर सरस्वती शायकी अवधि पूरी होनेसे फिर स्वच्छ हुई, एक समय ब्रह्माजीने हाटकेश्वरमें यज्ञ किया तब कैलाससे अडसठ मात्रिकार्ये आईं। ब्रह्माजीने उन अडसठ देवियोंको नागरोंके अडसठ गोत्रमें स्थापन किया, और कहा विवाहादि मंगलकार्यमें जो तुम्हारी पूजा होगी उससे तुम वृष्ट होगी, पूजा न करनेसे अनिष्ट होगा, तबसे वहां देवियोंने निवास किया। इनमें अष्टकुली ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अष्टकुली उत्तमतामें यह कथा है कि, एक समय इंद्रने भगवान् विष्णुसे कहा कि, श्राद्ध करनेसे जहां मुक्ति हो सो कहिये, विष्णुजीने कहा हाटकक्षेत्रमें कन्या संक्रांति होनेपर चतुर्दशी या अमावस्यामें अष्टकुली नागरोंसे श्राद्ध करानेसे मनोका-मना सिद्ध होगी। हाटकक्षेत्रमें उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण आनर्त राजाके दानके भयसे हिमालय पर तपस्या करते हैं, उनसे श्राद्ध कराओ यह सुनकर इंद्र हिमालयपर जाकर उन ब्राह्मणोंसे बोले, तुम श्राद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेवके क्षेत्रमें चलो, यदि न चलोगे तो तुमको शाप दूंगा। तब वे कश्यप, कौंडिन्य, ओंक्षणश, शार्कव, द्विष, कपिष्ठ, और उषिक यह आठ गोत्रवाले ब्राह्मण इंद्रके साथ गया कूपमें आये और इंद्रको श्राद्ध कराया, जिसमें देव पितर जो प्रेतरूप हुये थे उनकी मुक्ति हुई, और इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बाल्मंडन तीर्थके समीप इंद्रने शंकरकी मूर्ति स्थापना की आघाट नामका एक उत्तम नगर वहांके निवासियोंको दिया। पीछे अष्टकुली ब्राह्मणोंको बुलाकर कहा यह शंकरकी पूजा आप संभालो और बारह ग्राम आपको देता हूं तब इन ब्राह्मणोंने इस देवधनको स्वीकार न किया, और कहा इससे हमारा कल्याण न होगा। उनमेंसे देवशर्माने हाथ जोड़कर कहा यह आपकी देवपूजाका कार्य मैं चलाऊंगा, पर आप मुझे पुत्र दीजिये। इंद्रने प्रसन्न होकर कहा तुम्हारा पुत्र वंशवृद्धि करनेवाला सत्यसंध बड़ा विख्यात होगा, और मैंने जो चतुर्वक्रेश्वर महादेवकी पूजाके निमित्त बारह ग्राम दिये हैं, इनमें जो ब्राह्मण रहेंगे वे मांगलिक कृत्योंमें इनका श्राद्ध करके नांदीश्राद्ध करेंगे तो कोई विघ्न नहीं होगा अन्यथा विघ्न होगा शेष सप्तकुली

ब्राह्मणोंको इंद्रने कहा यद्यपि इनको लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी, परन्तु निर्धन ही रहेंगे, और निष्ठुर होकर भक्तोंका त्याग करैंगे, यह कहकर इंद्र अपने स्थानको गये ।

अब नागर ब्राह्मणोंका भेद वर्णन करते हैं । प्रथम बहत्तर गोत्रके जो ब्राह्मण बडनगरमें रहे वे बडनगरे कहे जाते हैं । उनमें भिक्षुक और गृहस्थ यह दो भेद कहे जाते हैं । विलासनगरके ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है, जो पृथिवीराजरायसेमें लिखी है, कि संवत् ९३६ में गुजरातमें वीसलदेव नामक एक राजा था, उसने अपने नामसे एक वीसलपुर नामक नगर बसाया और पाप दूर होनेके निमित्त वहां एक यज्ञ किया, उसमें बडनगरे ब्राह्मण आये थे, राजाने उनसे दान लेनेको कहा उन्होंने निषेध किये पीछे राजाने ताम्बूलमें वीसलनगर उनको लिखकर दे दिया जब उनको विदित हुआ तब अपने सम्बन्धियोंका उसमें निवास कराया । यह नगर सिद्धपुरसे दक्षिणमें वारह कोस है, बडनगरसे पूर्व पांच कोस है वे वहांके निवासी उस दिनसे विसलनगरे ब्राह्मण विख्यात हुए, उनमें दो संवा हैं एक विसलनगरा दूसरा अहमदाबादी, इनमें परस्पर कन्याका लेन देन नहीं है, फिर वीसल देवने ब्राह्मणोंको साटोद, कृष्णोर साचोर यह तीन ग्राम वीडेमें दान दिये, उस दिनसे साटोदरे, कृष्णोरे और साचोरे नागर विख्यात हुए यह पहले सब बडनगरे थे, परन्तु अब पृथक् होगये हैं, पीछे कहे बाह्यनागरोंसे वारडनागर एक जाति प्रगट हुई है, उसका विवरण इस प्रकार है कि, अन्य जातिके ब्राह्मणकी कन्याके साथ व्याह करके पीछे जातिमें दंड देकर जो रहते हैं, वे वारड हैं पीछे दुर्वासाने जो पृथ्वीके निमित्त प्रश्न किया, उसका उत्तर सुशील ब्राह्मणने दिया. इस कारण उसके वंशके ब्राह्मण प्रश्नोत्तरे कहाते हैं, कोई कहते हैं आहिच्छत्र ग्रामका रहनेवाला एक ब्राह्मण एक समय घरसे बाहर यात्राको गया, मार्गमें रात्रिको ग्रामान्तरमें टिका, रातमें एक राक्षस आकर उसे घरके एक बालकको उठा ले गया, इस ब्राह्मणने अपनी मंत्रविद्याके सामर्थ्यसे बालकको राक्षससे प्रत्याहरण किया, पिशुन अर्थात् दुष्टसे हरण किया इस कारण, उस वंशके पिशुनहर नागर हुए, यह पिशुनहरही प्रश्नोत्तर नामसे विख्यात हुआ है, बाह्य नगरमेंही कांदिशीक भेद है वेही कदाचित् प्रश्नोत्तरे हो सकते हैं, उनमें अष्टकुली बडनगरे उत्तम कहे जाते हैं क्षेत्रस्थापनाके समय ब्राह्मणोंके ८४ गोत्र थे, उनमें १२ गोत्र खडायते ब्राह्मणोंके निकलजानेसे शेष ७२ गोत्र रहे, उनका वर्णन नागरोंके प्रवराध्याय ग्रन्थमें लिखा है, सो देख लेना । नागरोंकी उत्पत्तिका वर्णन नागरखंडके १९३-१९५ अध्यायमें लिखा है, इनमें अब अपने वर्गमें ही भोजन सम्बन्ध होता है अन्यमें नहीं, तथा अपने वर्गमें ही कन्यादान करते हैं बडनगरे विलासनगरे तो एक एकके घरमें जलपानतक नहीं करते, सूरतमें जलपान कर लेते हैं । दक्षिण हैदराबाद मैसूरमें भोजन व्यवहार है, परन्तु यथार्थमें धर्म स्थिति जिसमें रहै वही बात उत्तम है । इति नागरभेद वर्णन ।

इति पंच द्रविडाः ।

सं	अवतंक	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	देवी	गण	देवता	भागज	शर्म
१	देवपत्रक	प्रौक्ष्ण	वसिष्ठशक्तिपराशर	यजु०	माध्य०	भागरी	खासला	हाटकेश्वर	भालापाटण	शर्म
२	दुवे	कपिट्टला				"	"	"		गो २२
३	मेतातलखा	आकुभाण	वसिष्ठ कौण्डिन्य मित्रावरुण	यजु०	माध्य०	"	"	"		दत्त
४	पंड्या भूधर	भारद्वाज	भरद्वाज आंगिरस बाह्वृत्पत्य	ऋ०	आश्व०	"	"	"		तात
५		शर्कराक्ष	मृगुच्यवनआप्नुवानौ- दुम्बरजामदग्नि	ऋ०	आश्व०	"	"	"		मिश्र
६	वासमेढा साके	गौतम	गौतमआंगिरस अ चित्य	यजु०	माध्य०	"	"	"	"	दत्त
७	जानि	गार्ग्य	आंगिरसभारद्वाजबाह्वृ- त्पत्यच्यवन गंगा			"	"	"	"	शर्म
८	प्रावडी	कौण्डिन्य	वसिष्ठकौण्डिन्य मित्रावरुण	साम०	कौषीतकी	"	"	"		दत्त

इति नागराणां गोत्रप्रवरनिणयचक्रम् ।

अथ खडायत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते ह ।

पद्मपुराणके कोटि अर्बुद माहात्म्यमें लिखा है कि, जिससमय विष्णुभगवान्के कर्णमल (श्रुतिमल वेदोच्चारणके अशुद्ध दोष) से मधुकैटभ उत्पन्न हुए, उससमय भगवान्ने कोट्यर्क (प्रकाशमय) रूप धारण कर उसका वध किया, तब ब्रह्माजीने स्वयं स्तुतिकरके उस स्वरूपकी मूर्ति स्थापन की, श्वेतमूर्ति नंद सुनंदसे संयुक्त स्थापन की, कार्तिकशुक्ल एकादशीके दिन यह रूप प्रगट हुआ, उनके पूजन करने अर गणेशका अर्चन करनेसे अनेक मनुष्य स्वर्गमें गमन करने लगे, भगवान् विष्णु और गणेशजीने निज अंशसे रहनेका वचन दिया ।

तत्र कृता महापूजा कोट्यर्कस्य महात्मनः ।

खण्डपूर्वोद्विजैः सर्वैर्वैष्णवैश्च महात्मभिः ॥

सबसे प्रथम खंडशब्द पूर्ववाले द्विजों अर्थात् खडायत ब्राह्मणोंने और वैष्णवोंने भगवान् की पूजा की. एक समय एक देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते २ सरस्वति नदीके किनारे जाय, वहां उसने दुर्गादेवीकी पूजा की, पीछे वहांसे वारह योजन दूर कोट्यर्क तीर्थकी म हिमा सुनकर अपनेमें शक्ति न देख देवीकी प्रार्थना की, तब देवीने महावीरजीके द्वार उसको वहां पहुंचाया और उनको वहां रहनेको कहा तबसे वहां उस देवशर्मासे प्रतिष्ठित होकर महावीरजी विराजे वहां कपालेश्वर शंकर विराजमान हैं । दूसरी कथा इस प्रकार है कि, विद्या विनय सम्पन्न एक धीर नामक ब्राह्मण था, वह एक समय बहनगरमें आया वहां उसने हाटकेश्वर भगवान्का दर्शन करके स्तुति की कि, मैं दरिद्रता और जातिके विरोधसे बहुत दुःखी हूं, आप कृपा करें, तब भगवान् शंकरने कहा तुमको सुख होगा, और कहा कपालमोचनके समय मैंने तुम अठारह ब्राह्मणोंका यज्ञके निमित्त समागम किया और यज्ञके उपरान्त वर मांगनेको कहा तब वे स्वयं निश्चय न करके स्त्रियोंसे पूछने गये और स्त्रियोंसे खटपट करने लगे इस कारण—

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे स्त्रियः प्रष्टुं गृहे गताः ।

ताभिः सार्द्धं खटपट्टे संप्रवर्ते पुनः पुनः ॥

ततः सर्वे द्विजा जाताः खडायतेति संज्ञया ।

उन सबका खडायत नाम हुआ उनके वंशभा खडायत कहाये, और अठारह ब्राह्मणोंको मैंने दो दो सेवक बहनगरसे बुलाकर दिये, वे खडायत वैश्य कहाये, इनके कर्म पुराणोक्त मंत्रोंसे होते हैं, परन्तु विवाह चतुर्थी कर्ममें चरुभक्षणके समय बाल नामक धान्यकी दाल का चरु बनाकर ग्रहशांति पूजा हवन नहीं होता, कोई रामेश्वरकी पूजा करते हैं । पीछे एक नगर बनाकर ब्राह्मणोंको दिया, सब प्रसन्न हुए, पर तैने मेरा वचन नहीं सुना, इस कारण तू दरिद्री हुआ अब तुम कोट्यर्क तीर्थमें कपालेश्वरके समीप निवास करो, वहां तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे, शंकर यह कहकर अन्तर्धान होगये, ब्राह्मण उस क्षेत्रमें जाकर कष्टसे मुक्त हुआ । खडायते ब्राह्मणोंके गोत्र इस प्रकार हैं । जनक, कृष्णात्रेय, कौशिक, वशिष्ठ, भरद्वाज, गार्ग, वत्स यह सात गोत्र हैं । और वाराही, खरानना, चामुण्डा, बाल-गौरी, बंधुदेवी, सौरभी, आत्मछन्दा यह सात कुलदेवी हैं । कपालेश्वर नीलकण्ठेश्वर चर्म-क्षेत्र सूर्यक्षेत्र श्रीगलितेश्वर शकलेशतीर्थ, वाल्मीकिजीका आश्रम भी यहां है, खंडपूर भी यहीं है । इति खडायतविप्रोत्पत्तिः ।

इति गुर्जरसम्प्रदायः ।



अब वायडा ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।  
वायुपुराणमें मारुतकी उत्पत्ति प्रसंगमें लिखी है ।

**अत्रेरभून्महातेजा वाडवो मानसः सुतः ।  
तसुवाचात्रिस्तनयं प्रजाः सृज समेच्छया ॥**

ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि, अत्रिके वाडव नामक एक मानसी पुत्र हुआ, ऋषिने उसको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तब वाडवजीने एक लक्ष वर्षपर्यन्त तपस्या की तब ब्रह्मादिक देवताओंने वरदान मांगनेको कहा तब सूर्यके समान प्रकाशमान वाडव ऋषिने विष्णु आदि देवताओंसे कहा कि यदि आप प्रसन्न होकर वर देते हो तो यही दीजिये कि पृथिवीमें मानसी सृष्टिकी वृद्धि हो । तब देवताओंने कडा तुमको अयोनिंसंभव दर्भके संतान होंगे । जब वायुदेव सर्गरी बनकर उत्पन्न होंगे तब उनकी शुश्रूषाके निमित्त तुम्हारे दर्भसे उत्पन्न पुत्र होंगे । चौबीस ब्राह्मण, अडतालीस वैश्य, शूद्री भार्याके सहित वर्तमान होंगे ।

**तेषां समुद्रवाः सर्वे वणिजो वायडाभिवाः ।**

**भविष्यांति द्विजाः सर्वे तन्नामानो विचक्षणाः ॥**

फिर अडतालीस वैश्योंसे चौबीससहस्र वायडा वैश्य होंगे और चौबीस दर्भके ब्राह्मणोंसे १२ द्वादश सहस्र ब्राह्मण भूमिमें उत्पन्न होंगे, तबतक तुम यहां बड़ी वापी निर्माण कर निवास करो, चार कुंड यहां विश्वकर्माजी निर्माण करैंगे ।

**वायडाख्यं पुरं श्रेष्ठं वणिग्विष्विभूषितम् ।**

वायड नामका एक नगर वैश्य और ब्राह्मणोंसे विभूषित होगा, और यह तीर्थ होगा, यह कहकर जब देवता चले गये तब वे ऋषि वहां निवास करने लगे, पीछे जब दितिके गर्भसे ४९ मरुद्गण जन्मे तब उनके पोषणके निमित्त इन्द्रने वाडवऋषिको बुलाकर कहा तुम दर्भसे २४ वायडे ब्राह्मण और उनके सेवक वायडे वैश्य शूद्र भार्यायुक्त दुगुने उत्पन्न करो ।

**वायडाख्या भविष्यन्ति सर्वेषां देवता मरुत् ।**

यह सब वायडा नामसे विख्यात होंगे और सबके देवता मरुत् होंगे, पहले चौबीसकी मर्यादा स्थापन की है, इस कारण चौबीस सहस्र ब्राह्मण, अडतालीस सहस्र वैश्य होंगे, कुलदेवता तुम्हारी स्थापन की हुई वापी होगी, ब्राह्मण यहां आकर चौलकर्म करैंगे यह सुनकर वाडवादिख्यने ब्राह्मण और वैश्योंको भार्याके सहित उत्पन्न किया, ब्रह्माने भाद्रपद शुक्ल षष्ठीको उन बालकोंको स्नान कराया, इसकारण वह स्नापिनी षष्ठी कहाई और सातवें महीनेसे चैत्र शुक्ल षष्ठीको दोलारोहण कराया, इसकारण वह हिण्डोलनी षष्ठी कहाई । उस

िनका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नहीं होती । वहां वाहवादित्यके तपोबलसे विश्व-  
कर्माने वायुडोंके निमित्त बडा स्थान निर्माण किया. वहां १२ मातृका और १२ महादेवके  
निवास स्थान हैं; अम्बिका, माटघला, खाटघला, अखिला, जाखिला, ल्यम्बजा, ख्यम्बजा,  
आख्याता, नयना, सिद्धमाता, आशापुरी, श्रीरञ्जना, यह बारह मातृका और रामेश्वर  
भीमेश्वर, त्रिशेश्वर, पवनेश्वर, विश्वेश्वर, बालुकेश्वर, उत्तरीश्वर, विल्वकेश्वर, सिद्धेश्वर,  
कर्दमेश्वर, नीलकण्ठेश्वर, हनुमदीश्वर यह बारह महादेव हैं । विवाहमें सब चौहट्टेमें जाकर  
स्नान करते हैं, क्षेत्रपालकी पूजा बलि करते हैं ।

इति वायुविप्रवेणिगुत्पत्तिप्रकरणम् ।

अब उनेवाल ( उन्नत ) वासी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह उन्नत क्षेत्र भी तीर्थ  
है, इसके उत्तरमें ऋषियोया नदीके तटपर ब्राह्मणोंने ब्रह्मेश्वर नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है,  
जहां विद्या और तपसे ऋषि बडे उत्कृष्ट हैं ।

उन्नासितं पुनस्तत्र यत्र लिंगं महोदये ।

तदुन्नतमिति श्लोकं स्थानं स्थानवतां वरम् ॥

उसे उन्नतस्थान कहते हैं, जहां शंकरकी लिङ्गारूप मूर्तिकी पूजा साठ सहस्र वर्ष तपस्या  
करके ऋषियोंने बडे उत्साहसे की इस कारण उस स्थानका नाम उन्नत हुआ । शंकरने  
वहां ब्राह्मणोंकी बडी भक्ति देखकर विश्वकर्मा द्वारा एक नगर निर्माण कराया, और यह  
पश्चिम समुद्रके समीप काठियावाडमें देववाडा ग्रामके पास जिसको ऊना कहते हैं, वही  
नगर इसीके चारों ओर नक्षत्र देश है, जहां शंकर दिगम्बर रूपसे विचरे हैं, वहांके  
ब्राह्मणोंको शिवजीने जब यह नगर दान किया तबसे उनमें निवास करनेवाले ऊनेवाल  
ब्राह्मण कहाये, यहां शंकरका पूजन होता है, यह भी तीर्थ है ।

इत्युन्नतवासिब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

अब गिरिनारायण ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।

प्रभासखण्डके वस्त्रापथक्षेत्र माहात्म्यमें लिखा है—नारदजी बोले—

महापुण्यतमे क्षेत्रे शुचौ वस्त्रापथे द्विजाः ।

गिरिनारायणास्ते वै निवसन्ति पितामह ॥

गिरिनारायणारूपा वै कथमेषामभूत्किल ॥

हे पितामह ! वस्त्रापथमें जो गिरनारे ब्राह्मणोंका निवास है उनकी उत्पत्ति कहो, उनका  
यह नाम कैसे हुआ ? ब्रह्माजी बोले, एक समय भगवान् विष्णु और शंकर चन्द्रकेतु राजाके  
ऊपर कृपा करनेके निमित्त रैवताचलपर स्थित हुए, और विचारनेलगे ब्राह्मणोंके बिना

हमारी स्थिति कैसे होसकती है यह विचारकर अपने रूप ब्राह्मणका स्मरण किया, और आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारण कर, रैवताचल पर्वतपर आये, और हिमालयकी गुहाआदिमें बैठनेवाले ऋषियोंके पास आकर कहा है मुनीश्वरो ! शिव और विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति धारणकर रैवताचलपर बैठे हैं, वहां जाकर तुम उनका दर्शन करो । वहां जाकर ऋषियोंने गिरिनारायण नामसे स्तुति की तब भगवान्ने दर्शन दिया और कहा तुम सबको यहां निवास करना उचित है और मैंने अपना नाम गिरिनारायण धारण किया है तुम्हारी भी—

**गिरिनारायण इति ममाख्या कथिता मया ।**

**यथा त्वहं तथाऽप्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥**

यहां रहनेसे गिरिनारायण संज्ञा होगी और चन्द्रकेतु राजा यहां आनकर तुमको ग्राम देगा, और अश्वमेध यज्ञ यहां चन्द्रकेतुका पुत्र करेगा. चौसठ गोत्रोंके ब्राह्मणोंको चौसठ ग्राम देगा और मैं वामन रूपसे यहां एक वामन नगर बनाऊँगा जो बावनस्थी ( इस समयकी वनस्थली ) नामसे विख्यात होगा, यह जूनागढसे पश्चिम चार कोस है, अब तुम यहां निवास करो, समय समयपर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, भगवान् इस प्रकार ब्राह्मणोंकी स्थापना करके अन्तर्धान हुए, रविवारको रेवती नक्षत्रमें रैवताचलपर्वतके ऊपर रेवती-कुण्डमें स्नान करके राधादामोदरका दर्शन करना यह पांच रकार दुर्लभ हैं ।

**गिरिनारायण ब्राह्मणोंके शाखा अष्टक गोत्रादिका चक्र ।**

संख्या	अवतंक	ग्रामादि	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा
१	जानि	जैतपराघोडादरा	भारद्वाज	३	य०	माध्यन्दिनी
२	भट	सिंघाजीया	भा०	३	ऋ०	आश्वलायन
३	जोशी	पाणिछन्दा	भा०	३	य०	माध्यन्दिनी
४	जोशी	वामावढामाघव०	भा०	३	य०	मा०
५	जोशी	दिवेचा	भा०	३	य०	मा०
६	जोशी	सोमपुरा	भा०	३	य०	भा०
७	मेता	पसवलिया	कश्यप	३	य०	मा०
८	भट	कंसादिया	कश्यप	३	य०	मा०
९	जोशी	स्वस्थानिया	कश्यप	३	य०	मा०
१०	परोत	लिवोडिया	कौच्छस्	३	सा०	कौथुमी
११	ठाकर	चाट	कौच्छस्	३	ऋ०	आश्व०
१२	तिवाडी	"	कौच्छस्	३	सा०	कौथु०
१३	ठाकर	बाधरा	कौच्छस्	३	य०	मा०
१४	व्यास	दात्राणीय	कौरवस्	३	य०	मा०

भाषाटीकासंवलितः ।

( १२९ )

१५	पंड्या	मगजूपरा	कौरवस्	३	य०	मा०
१६	जोसीओसा	खेरिवा	कौरवस्	३	य०	मा०
१७	ठाकर	वानणसिया	मानस	३	य०	मा०
१८	ठाकर	मारडिया	सदामस	३	य०	मा०
१९	ठाकर	भाडेरा	सदामस	३	य०	मा०
२०	ठाकर	खेरिया	सदामस	३	य०	मा०
२१	जोशी	खांमलिया	सदामस	३	य०	मा०
२२	जोशीभट	शाकलिया	वशिष्ठ	१	य०	मा०
२३	उपाध्या०	माधुपुरा	वशिष्ठ	१	य०	मा०
२४	पाठक	चोरवाडा	कृष्णात्रेय	३	य०	मा०
२५	पुरोहित	माधुपुरा	कृष्णात्रेय	३	य०	मा०
२६	ठाकर	नगरौत	कृष्णा०	३	य०	मा०
२७	०	पठियार	कृष्णा०	३	य०	मा०
२८	जोशी	पाजोधा	कृष्णा०	३	य०	मा०
२९	जोशी	पिखोरिया	कृष्णा०	३	य०	मा०
३०	ठाकर	चोपडा	शाण्डिल्य	३	य०	मा०
३१	ठाकर	ठिलाकर	शाण्डिल्य	३	य०	मा०
३२	उपाध्याय	बालगामित्रा	शाण्डिल्य	३	य०	मा०
३३	ठाकर	कंकासिया	वत्स	५	साम०	कौथुमी०
३४	पंड्या	गिदंडिया	वत्स	५	साम०	कौथु०
३५	भट	कोठदिया	वत्स	५	साम०	कौथुमी०
३६	आवडि	भदेश्वर	कौशिक	३	मा०	म०
३७	जोशी	वगसदिया	कयसि	१	मा०	म०
३८	जोशी	लौडिया	भारद्वाज	३	य०	मा०
३९	जोशी	कांकडिया	कौरवस्	३	य०	मा०
४०	होजा	खेरिया	कौरवस्	३	य०	मा०
४१	उपाध्याय	कौशिकेया	कृष्णात्रि	३	य०	मा०
४२	जानि	पीपलिया	भारद्वाज	३	य०	मा०
४३	जोशी	मीठापरा	भारद्वाज	३	य०	मा०
४४	ठाकर	आहिरिया	सदामस	३	य०	मा०
४५	ठाकर	मांडेरा	सदामस	३	य०	मा०
४६	जोशी	चोरवाडा	भारद्वाज	३	य०	मा०

( १३० )

## जातिभास्करः-

४७	जोशी	मोडविया	वत्सस	५	सा०	कौथु०
४८	पंड्या	माधुपुरा	सदामस	३	य०	मा०
४९	जोशी	पठियारमाधुपुरा	कृष्ण०	३	य०	मा०
५०	नायक	माधुपुरा	कृष्णा०	२		
५१	जोशी	बुधेचा	काश्यप	३	य०	मा०
५२	जोशी	आजिकिया	कृष्णा०	३	य०	मा०
५३	जोशी	पाखरिया	कृष्णा०	३	य०	मा०
५४	दुधे	"	"	"	"	"
५५	कलकिया	"	"	"	"	"
५६	पाठक	वालदरा	काश्यप	३	य०	मा०
५७	व्यास	धिवोडिया	०	०		मा०
५८	जोशी	लाटोदरा	शांडिल्य	७	साम०	कौथु०
५९	ठाकुर	पसेजिया	०	०		
६०	प्रोत	प्रालकिया	काश्यप	३	य०	मा०
६१	प्रोत	आजकिया	काश्यप	३	य०	मा०
६२	उपाव्या	टिडसरिया	भारद्वाज	३	य०	मा०
६३	जोशी	मलालिया	०	०		
६४	पंड्या	खिलखिल	भारद्वाज	३	य०	मा०
६५	पंड्या	मीतिया	०	०		
६६	पंड्या	वारडला	भारद्वाज	३	य०	मा०
६७	पंड्या	नगिचरणी	०	०		
६८	पंड्या		शांडिल्य	३	य०	मा०

## अन्य उत्पत्ति ।

गिरनार—यह काठियावाडमें जैनसम्प्रदायका एक तीर्थ है, यहां गुजरात देशमें ८४ प्रकारके गुजराती ब्राह्मणोंमेंका एक भेद है गिरनारगडसे निकास होनेके कारण यह गिरनार कहाये. इनके दो भेद हैं एक जूनागढ गिरनार दूसरा चोरवदा गिरनार, अर्थात् जो जूनागढके आसपास हैं वे जूनागढगिरनार कहाते हैं जो चोरवदनामक कसबेके रहनेवाले हैं वे चोरवदनामक गिरनार कहाते हैं, चोरवदनगर पटन सोमनाथ और मंगलौरके बीचमें है और अजक्यामसे निकास होनेसे तीसरा भेद अजक्य गिरनार कहाता है अजवध श्रेणीको एक विद्वान्ने निम्नश्रेणीका लिखा है. इनमें बहुतेको शुक यजु तथा सामवेद है ।

अब कंडोल ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं—  
स्कन्दपुराणमें स्कन्दजी शिवजीसे पूँछते हैं—

### कण्डूलस्थानपर्वस्य माहात्म्यं वद शंकर ।

हे शंकर ! आप कण्डूल स्थान पर्वका माहात्म्य कहिये । सौराष्ट्रदेशान्तर्गत पांचालदेशमें बडवाढगांवसे वायुकोणमें बारह कोस पर कण्वाश्रम जिसको इस समय कंडोल कहते हैं वर्तमान है, वहां कण्व ऋषिका निवास था. एक समय उस स्थानमें मान्धाता राजा दर्शनको आया और ऋषिसे कुछ कार्य सम्पादनके लिये कहा तब ऋषिने कहा मैं यहां एक नगर स्थापन करना चाहता हूं आप उसकी रक्षा करना. राजा स्वीकार कर चले गये, फिर ऋषिने भगवान् भास्कर और महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनों आये तब ऋषिने नगर बसानेकी इच्छा प्रगट करके दोनों देवताओंसे रक्षा चाही, दोनोंने स्वीकार किया. और महावीरजी बोले मैं ब्रह्माजीकी आज्ञासे यहां आया हूं, आप इस स्थलमें अठारह सहस्र ब्राह्मण और ३६ सहस्र वैश्य स्थापन करो चारों युगमें इस स्थानका नाम क्रमसे कण्वालय, कलुषापह, कापिला और कलिमें कण्डूल नाम होगा, यहां ब्रह्मकुण्डके स्नानसे अनेक पाप दूर होंगे. तब महावीरजीके यह कह कर चले जानेपर कण्वजीने ब्राह्मणोंके लानेके लिये गालवजीको आज्ञा दी, गालवजी प्रभास और रैवताचल पर होते हुए सरस्वतीके किनारे रहने वाले ब्राह्मणोंके पास आये और इनकी स्तुति की तब प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंने गालवसे वर मांगनेको कहा तब गालव बोले यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे गुरुदेव एक स्थान बनाना चाहते हैं, इसलिये आप सब वहां चले, तब वचनबद्ध होनेके कारण ऋषियोंने वहां जाना स्वीकार किया, इतनेमें सौराष्ट्रदेशके यज्ञोपवीतधारी बहुतसे वैश्य भी वहां आये, उन्होंने गालवको देखकर कहा हमको महावीरजीने इस स्थानमें आनेकी प्रेरणा की है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, हम सेवा करैंगे, गालवजीने कहा पांचालदेशमें कण्वनाम महाऋषि है, पापापनोदन-तीर्थपर उनका स्थान है, वह एक नगर स्थापन करना चाहते हैं, आप ३६ सहस्र वैश्य इन ऋषियोंके साथ चलकर वहां निवास करै, वैश्योंने उनके वचनगौरवसे यह बात स्वीकार की, गालवजी सबको लेकर आये, कण्व ऋषि बडे प्रसन्न हुए और गालवजीसे वर मांगनेको कहा तब गालवजी बोले यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इनमेंसे छः हजार मेरे नामसे स्थापन किये जाय, गुरुने तथास्तु कहा विश्वकर्मासे नगर बनवाय वहां सब ब्राह्मणोंको स्थापन किया और यज्ञ करके वह नगर ब्राह्मणोंको दान कर दिया, और अठारह गोत्र उन ब्राह्मणोंके किये, छत्तीस सहस्र वैश्य इनके सहायकरूपसे स्थापित किये, वहां सूर्यदेवने साक्षीरूपसे व कुलार्करूपसे रहना स्वीकार किया सब देवताओंने अपने २ नामसे वहां तीर्थ स्थापन किये, गालवके स्थापन किये गालववैश्य कहाये, गालववैश्य कानोंमें कुंडल पहारते हैं, और कपोला वैश्य भी उन्हींका नाम है ।

गालवस्थापिता ह्येते गालवाः सन्तु नामतः।त एवापि  
कपोलाख्याः कपोलाद्भुतकुण्डलाः । प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता  
गुरुदेवार्चने रताः । येषां प्राग्वा भवेद्वाडो मदीयस्थापना-  
त्मकः ॥ ते प्राग्वाडा अमी ज्ञेयाः सौराष्ट्रा राष्ट्रवर्द्धनाः ॥

और जो प्राग्वाड व वैश्य गुरुसेवाके निमित्त विचरते हैं वे प्राग्वाडव नामसे विख्यात हैं, इनका वाडा ( रहनेका समूह ) ( प्राक् ) पूर्व दिशामें है, इस कारण यह प्राग्वाड कहते हैं, दूसरा नाम सोरठ वैश्य हैं यद्यपि इनके भी अनेक गोत्र हैं तथापि जो ब्राह्मणों के गोत्र हैं वही इनके जानना, चामुण्डा, अम्बिका, गंगा, महालक्ष्मी, कलेश्वरी; भोगादेवी वरा, घाघा, यह इनकी कुलदेवी हैं वैश्योंसे कण्वने कहा तुम निष्कपट भावसे ब्राह्मणों के सेवा करना. और ब्राह्मणोंसे कहा तुम्हारे गौतमादि अठारह गोत्र प्रवर और वेद शास्त्र इस प्रकार होंगी यह बात नीचे लिखे चक्रमें समझ लेना ।

मदीयस्थापनायो गात्सर्वे काण्वा भवन्ति हि ।

मेरी स्थापनाके योगसे वे अठारह सहस्र ब्राह्मण सब काण्व अर्थात् कंडोल ब्राह्मण होंगे औ सदाचारी होंगे, चामुंडा, सामुद्री देवी, रजकायलि मातर, नित्या, मण्डिता, सिद्धा, पिप्पलवासिन यह आपकी कुलदेवी होंगी, तुम जहां निवास करोगे कुलदेवता पूजित होकर वहीं तुमका फल देंगे, इति कण्डोलब्राह्मणोत्पत्तिः ।

इति गुर्जरसंप्रदायः ।

कंडोलब्राह्मणोंका गोत्र अष्टकं चक्र ।

	अवटंक	गोत्र	वेद	शाखा
१	पण्ड्या	गौतम	य०	मा०
२	०	सांस्कृत	०	०
३	जोशी	गार्ग्य	सा०	कौ०
४	भट	वत्स	य०	मा०
५	पण्ड्या	पाराशरा	य०	मा०
६	जोशी	उपमन्यु	य०	मा०
७	व्यास	उपमन्यु	य०	मा०
८	अच्यारु	उपमन्यु	य०	मा०
९	०	बन्दल	य०	मा०
१०	०	वशिष्ठ	य०	मा०

११	०	कुत्स	य०	मा०
१२	०	पोल्कस		
१३	०	काश्यप	य०	मा०
१४	०	कौशिक	य०	मा०
१५	०	भारद्वाज		
१६	०	कपिष्ठल	अथर्व	मा०
१७	०	सारंगिरि	अथर्व	मा०
१८	०	हारीत	सा०	कौ०
१९	०	शाण्डिल्य	य०	मा०
२०	०	सनकि	सा०	कौ०
२१	अध्याह०	वत्स	य०	मा०

इति कण्डोरुजातिब्राह्मणानां गोत्रादिचक्रम् ।

गढवाली या पर्वती ब्राह्मण ।

पर्वती ब्राह्मणोंके तीन भेद पाये जाते हैं । सुरोला गंगाही और खश । एक राजा कमकपाल जो चन्दनपुरगढमें रहता था, उसके वंशधर सुरोला कहाते हैं, जहां उसका निवास था, उनकी संतानविशेषकर कुछ ऐसे विभागमें रहती थी जो कि अब चांदपुरीके परगनेमें विख्यात है, जैसे पट्टी, तेली, सिली, कपूरी, सिरगांव और रामगढ उनमेंसे जो दूसरे उनके साथ थे, और जो उनके वंशधरोंमें थे, जैसा कि सुरोलके भाइयोंका गोत्र था, वहीं उनके साथ थे, परन्तु जो नीचेके मुल्कमें वसे थे वे गंगाही वा गंगाराही अर्थ गंगाकी घाटीके रहनेवाले हैं, राजा जिन ब्राह्मणोंके हाथका भोजन करता था, जो कि ब्राह्मण ऊपरके देशमें उसके साथ रहते थे, उनके साथ और कोई ब्राह्मण भात आदि रसोई नहीं खाते थे और जो ब्राह्मण नीचेके भागमें रहते थे उनको ऐसे भोजनके बनानेका अवसर ही नहीं पढताथा, इस प्रकार इन दो ब्राह्मणोंके बीचमें अन्तर पड गया, और सुरोला ब्राह्मणोंकी जाति दृढता पकडती गई जो देशके ऊपरी भागमें रहते थे, वे गंगाही ब्राह्मणोंके हाथके बनाये चावलके खानेमें असम्मत थे, यद्यपि प्रथम वह एक ही जाति थी, परन्तु पीछेसे यह दो जाति बन गई ।

यद्यपि गंगाही ब्राह्मणोंमें और उनमें बहुत ही कम अन्तर है, तो भी इस जातिके प्रत्येक पुरुष शिष्टाचारसम्पन्न है । सुरोला ब्राह्मण गंगाही की कन्यासे विवाह कर सकता है, परन्तु इस प्रकारसे वह गंगाहीकी सन्तति कही जाती है । चाहे वे जातिके दायभागी ही क्यों न हों ।



खस वा खसिया ब्राह्मण शूद्रके हाथका खाते हैं, इनके भेद धोवल, घटियारी, कनयानी गरवाल, मुनवाल, पपानोई, उपरेती, चौवाल, कुठारी, घुसरी, दौर्वास, सनवाल, धुत्तीला, पानडी, लोमडारी, चवनराज, फुलौरिया, ओलिया, ननियाल, चौदसी, दलाकोटी, बुढाकोटी घुलारी, घुलाती, पंचोली, बनेरिया, गरमोला, वलौनियां, बिरारिया, बनारी आदि हैं, तथा इनका सम्बन्ध भी शूद्रोंमें पाया जाता है ।

### सुरौला ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण इसप्रकार है ।

१ नौतियाल—इनके पुरुषा नौतीपट्टी तल्लीचांदपुरके ग्राममें रहते थे, इस कारण इनका नाम नौतियाल पडा, यह नीलकण्ठ देवीदाय गौड ब्राह्मणोंकी संतान हैं, जो गौड देश बंगाल प्रान्तसे आकर वहां रहे थे, ऐसा विदित होता है कि सन् ७०० ईसवीमें यह चांदपुर के राजा कनकपालके साथ पूजा करनेके निमित्त आये थे । यह पूजा करनेमें टिहरी और गढवालमें विख्यात है ।

२ दोवाल—यह इस निमित्त कहाते हैं, कि दोवपट्टी, तल्ली चांदपुरके गांवके रहनेवाले हैं. यह अपनेको कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, कि दासपाल और कर्मजीत दो ब्राह्मण कन्नौजसे आये यह भी राजा कनकपालके साथ थे, ऐसा मालूम होता है कि यह राजकुमारके साथ किसी ऊंचे पदपर थे और इनके पास बहुत धन था, इन्होंने बहुत अच्छे २ मंदिर बनवाये, जो श्रीनगर और उसके दूसरे प्रान्तमें उन्हींके नामसे अबतक विद्यमान हैं ।

३ खानीनाई—यह नाम इस कारण हुआ है कि खनौरा ग्राम सिली चांदपुरकी पट्टीमें है इससे इसका यह नाम हुआ । यह अपनेको गौडब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, जो कि धारंग-घर और महेश्वर नामसे विख्यात थे, यह राजा कनकपालकी गढवालकी चढाईमें विद्यमान थे, इनके वंशधरोंमें से ब्रिटिश गवर्नमैण्ट अपने यहां कानूनगो रखती है ।

४ रतूडी—यह नाम इस कारण पडा कि सिली पट्टी चांदपुरके समीप रतूडाग्राम है वहां के यह निवासी हैं और अपनेकी आदिगौडकी संतान बताते हैं यह लोग भी पुजारीकार्य करते हैं, और गौड देशसे कनकपालके साथ आना बताते हैं, यह अपना निवास १२०० बारहसौ वर्षका बताते हैं ।

५ गैरोला—इनका निकास गैरौली ग्राम पट्टीतल्ली चांदपुर है यह भी अपनेको आदि-मौडकी सन्तान बताते हैं, और गयानन्द तथा विजयानन्दके वंशधर अपनेको कहते हैं, यह भी राजा कनकपालके साथ आये थे और गढवालकी उच्चश्रेणीके मुखियाओंमें गिनेजाते हैं ।

६ दीमरी डीमरी—इनका निकास दिमार ग्राम पट्टीतल्ली चांदपुरसे है, यह अपनेको द्रविड ब्राह्मण होनेकी उपपत्ति रखते हैं । इनका कर्तव्य बद्रीनाथजीकी सेवा पूजाका है, यह भी राजा कनकपालके साथ आये और राजाकी कृपासे इस मंदिरकी सेवा पूजा पाई ।

७ थापलयाल—इनका निकास थापलीग्राम पट्टी सिली चांदपुरसे है यह भी अपनेको आदिगौड ब्राह्मणोंकी संतान कहते हैं, जैचंद्र, माइचंद्र और जैपाल यह अपने स्थानसे निष्कासित कियेगये

और यह गौड कहाये, यह ग्यारहसौ ११०० वर्षके निवासी विदित होते हैं, और पुजारी पनका आधिपत्य करते हैं ।

८ माइथानी—इनका निकास माइथाना ग्राम पट्टी तल्लीचान्दपुर है, यह भी अपनेको आदिगौड कहते हैं, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपालके समयसे चांदपुर गढमें वसे थे, और यह भी पूजाके काममें आरम्भसेही संलग्न हैं ।

९ विजलावार—एक बैजू नामक गौड ब्राह्मण ११०० वर्षके लगभग हुआ । पर्वतपर आनकर बसा, उसकी सन्तान विजलवार कहाई ।

१० हतवाल कोटयाल—यह भी गौड ब्राह्मणोंके वंशधर सुदर्शन और विश्वेश्वर दो भाई ९०० वर्षके लगभग हुए यहां आनकर वसे थे । हथवाल और कोटयान कहाये, इनमें पहले तो हट और दूसरे कोटी पट्टी दसौलीमें बसे और नौतयाल ब्राह्मणोंसे इस जातिके पुरुषाओंने मिलाप करके तथा राजासे मिलाप करके एक पर्वतकी बडी चट्टान जिस्को ब्रह्मकपाल कहते हैं वहांकी पूजाका अधिकार प्राप्त किया ।

११ सोती वा सुती—इस जातिके ब्राह्मण लगभग १२०० वर्ष हुए कि गुजरातसे आनकर गढवालमें रहे थे, और इनका कर्म भी पुजारियोंके समान था । सिवाय इन जातियोंके नीचे लिखी गुरेला ब्राह्मणोंकी गढवाली जातियां हैं, दाई, उनदीले, मालती, लेम्बवाल, लखेरा माजखोला, गुजयालदी, गर्द, दूढगया वीर, पाटी, मसेता, झंडी, मदूरी, भटोला, चमोली, गोस्वाल, वर्षवाल, वगीसारी आदि यह सब जातियां भी आईं और चांदपुर गढमें राजा कनकपालके साथ इस जातिके मनुष्योंने कुछ भलाई करके अपना नाम प्रसिद्ध किया ।

नीचेकी जातियाँ गंगारही ब्राह्मणोंमें विख्यात हैं ।

१ बुधाना—इस जातिका निकास बुधानी पट्टी चालनस्यूंसे है । वहांके अधिपति कृष्णानन्द थे, यह भी अपनेको आदिगौड कहते हैं, और बारहसौ वर्षका आबाद हुआ बताते हैं । ऐसा विदित होता है कि उस समय यह लोग संस्कृत और ज्योतिषके बडे प्रेमी थे । यह बहुतसे विद्यार्थियोंको विद्या पढाते थे जिसके कारण राजाकी इनपर बडी कृपा थी, इस जातिमें वि कारण बहुतसे सभ्योंसे सरकारी मालगुजारी नहीं लीजाती थी ।

२ डंगवाल—इनका निकास डंगीगांव पट्टी असवालस्यूंसे है । यह अपनेको द्रविड वंशसे मानते हैं और १२०० वर्ष हुए दक्षिणसे आया मानते हैं, यह भी पूजा किया करते हैं और यह अपनेको धरनीधर हिर्मी पिर्मीकी सन्तान कहते हैं । जो पहले गढवालमें आकर बसे थे ।

३ सुकुलानी—इनका निकास ग्राम सुकलाना जो टिहरी राज्यकी असूर पट्टीमें है, यह अपनेको कान्यकुब्ज ब्राह्मण कहते हैं । और एक सहस्र वर्षके लगभग आया हुआ बताते हैं, यह पुराने राजाओंके यहां मन्त्रीका काम करते थे, यह अपनेको केशरचन्द्र और रामेश्वरके वंशधर कहते हैं ।

४ उनयाल-यह अपनेको मैथिल ब्राह्मण कहते हैं। कोई ४०० वर्ष हुए कि यह ऊर्नागांव पट्टी इहवालस्थूंमें आकर बसे थे। यह यंत्रमंत्रविद्यासे अपनी आजीविका करते हैं, और गढवाल निवासी अपने पूर्वपुरुषोंको लछमन बनाते हैं।

५ धिलडयाल-यह अपनेको आदिगौड कहते हैं। यह अपनेको लूथमदेव और गंगदेवकी सन्तति कहते हैं। कोई ८०० वर्ष हुए कि यह गढवालमें आनकर बसे हैं, इनको संस्कृतका बड़ा प्रेमथा। और राज पुरुषोंके साथ इनका घनासम्बन्ध था। घीरीगांवमें रहनेके कारण ग्रह धिलडयाल कहाये।

६ धौदयाल-इनका निकास धौद गांवसे है। इनके पुरुषा ईजू, बीजू और रूपचन्द इस ग्राममें रहते थे। यह अपना सम्बन्ध गौड ब्राह्मणोंसे बताते हैं और अपने पुरुषाओंको राजपूतानेका वासी मानते हैं, और २०० वर्ष हुए गढवालमें आया बताते हैं राजाकी कृपासे वे बहुतसे गांवोंके अधिपति हो गये। ढूँढयालस्थूंके समान इस ग्रामके यह लोग थोकदार समझे जाते हैं, और पूजा भी करते हैं।

७ नौदयाल-यह अपनेको हरिहर और शशधर दो भाई जो गौड ब्राह्मण थे उनकी सन्तान बताते हैं। पहले यह चिरिङ्गामें रहे पीछे तीनसौ वर्ष नीचे नोदीगांव पट्टीचपरकोटमें आकर बसे और नौदयाल कहाये यह खस राजपूतोंके पुरोहित हैं।

८ मामगाई-यह एक गौडब्राह्मण सक्ननी जो कि गौड ब्राह्मण उज्जैनका निवासी था उसकी औलाद अपनेको बताते हैं और ३०० वर्षसे गढवालमें निवास कहते हैं, उसके पुत्र शीतल, विधिजोत, वीरसू और डीपू यह मालती ग्राममें रहते थे. इनके चाचा, मामाके नामसे यह मामगाई कहाये यह भी खस राजपूतोंके पुरोहित हैं।

९ नैथानी-इनका निकास नैथाना गांव पट्टी मनयारस्थूंसे है। यह भी पूरनमल और इन्द्रपाल दो कान्यकुब्ज भाइयोंके वंशधर हैं और ७०० वर्षसे अपना आगमन बताते हैं, पूजा आदि कार्य करते हैं।

१० जोयाल-इनका निकास जीवाई ग्राम पट्टी घंमरस्थूंसे है। यह अपनेको दक्षिणी महाराष्ट्रकी सन्तान कहते हैं, इनके पुरुषा वासुदेव और विजयानन्द विलिहार दक्षिणसे कोई ३०० वर्ष हुए आकर बसे थे।

११ चन्दोला-यह जन्धरी ब्राह्मण पंजाबके वंशधर हैं। थोला मोला और मूलराज यह तीन भाई कोई ४०० वर्ष हुए चन्दोसी जिला मुरादाबादसे गये थे।

१२ वर्थवाल-यह जाति गौडब्राह्मणोंकी वंशधर है, चार भाई अवल, सवल, सूरजकमल और मुरारी कोई ५०० वर्ष हुए गुजरातसे आयेथे वर्थवाल ग्राम पट्टी दांगूमें है उसीसे यह वर्थवाल कहाये।

१३ कुकरैती—यह गुरुरपट्टीके निवासी हैं; कोई ६०० वर्ष हुए एक वीलवाल ब्राह्मण जो कि विलीहाट दक्षिणसे आया था, वह कुकरकट्टा ग्राममें रहनेके कारण कुकरैती कहाया, राजाके यह कृपापात्र रहे और राजपूत तथा खशोंका पौरौहित्य करते हैं ।

१४ धासमुना—यह भी अपनेको गौडब्राह्मण रुक्मजीकी सन्ततिमें बताते हैं जो कि ४०० वर्ष हुए उज्जैनसे गढवालमें आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीरदेव और माधोदास, धसमान, गांव पट्टी मोहरस्युं परगना चौकोटमें निवास करनेके कारण धासमुना कहाये यह भी राजपूत और खशोंके पुरोहित हैं ।

१५ कैथोला—यह गुजराती भाटकी सन्तति हैं, आळ ताल, रामवितल रामदास और नारायनदासभाट गुजरातसे ५०० वर्ष हुए आये और राजपूत तथा खशोंके भाट कहाये ।

१६ जोशी—यह लोग कमायूँके रहनेवाले और पूजाकर्म करनेवाले हैं, यह २०० वर्ष हुए कमायूँसे गढवालमें पहुंचे, यथार्थमें यह द्रविड ब्राह्मण हैं जो कि दक्षिणसे आये थे और गढवालमें इस खानदानके नौरंगदेव, श्योरंगदेव आये थे, यह वास्तवमें ज्योतिष विद्याके ज्ञाता हैं ।

१७ धानी—यह भी गौड ब्राह्मण हैं, विष्णुदास, किशनदास और हरिदासके वंशधर हैं । दोसौ वर्षसे गढवालमें बसे हैं, इनका कार्य भी पुजारीपन है ।

१८ सूयाल—यह गुजराती भी भाटोंके वंशधर हैं, और तीन भ्राता सुई, वाजल और वैज-नारायण जो लगभग ५०० वर्षके गढवालमें पहुंचे हैं यह भी पौरौहित्य वा पूजाकार्य कर्ता हैं ।

१९ वौढाई—यह जातिभी गौड नौटियाल ब्राह्मणोंके वंशधर हैं, वह गांव बैठालमें कोई ६०० वर्षहुए, आनकर बसेथे और इनका भी उपरोक्त कार्य है ।

२० दोवरयाल—यह जाति कोई छः सो वर्ष हुए पंजाबसे आनकर बसी थी, और दोव-रागांवमें आनकर रहे । यह जलंधरी ब्राह्मण हैं, पूजा आदि इनका कृत्य है ।

२१ पानौली—यह अपनेको गौड ब्राह्मणोंके सम्बन्धका कहते हैं, यह गढवालमें कोई ८०० वर्षके लगभग हुए आया बताते हैं, यहभी एकप्रकारसे पौरौहित्य कर्म करते हैं ।

२२ सुन्दरयाल—यह भी दक्षिणी भाटजाति हैं । यह गढवालमें कोई ३०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर बसे हैं । और महीदेव सबसे प्रथम सुन्दरौलीमें आकर बसे थे ।

२३ कलास—यह गुजरातके भाट गढवालमें कोई ६०० वर्ष हुए आनकर बसे थे ।

२४ मिश्र—यह महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं कोई १०० वर्ष हुए कुमाऊँसे आकर गढवालमें बसे हैं ।

२५ किमोथी—यह द्रविड ब्राह्मण दक्षिणसे आकर कोई १२०० वर्ष हुए गढवालमें बसे थे ।

२६ पूर्वीया—यह भी कनोजिये ब्राह्मण कन्नौजसे आये हुए हैं, और कुमाऊंके गांव-पाटियामें कोई १००० वर्ष हुए बसे पीछे कोई १०० वर्ष हुए गढवालमें गये और अब वहां पूर्वीये कहाते हैं ।

२७ कोठारी—यह कमायूंसे कोई २०० वर्ष हुए गढवालमें गये हैं, यह सुकुल वंश कहा जाता है ।

२८ वदोला—यह एक ओजल नामक गौड ब्राह्मण का वंश है यह उज्जैनसे कोई ४०० वर्ष हुए आकर बसा है, और गांव वदोली यही बिचला उदयपुरमें निवासके कारण वदोला कहाये ।

२९ अन्धवाल—यह पंजाबके जालन्धरी ब्राह्मणोंकी सन्तान हैं और १०० वर्षसे वहां इनका निवास है, इस जातिका यह नाम इस कारण हुआ कि यह ग्राम अनैथ पट्टीकपोल-स्युंमें आकर प्रथम बसे थे ।

३० बोखण्डी—यह महाराष्ट्र ब्राह्मण विलिहार दक्षिणसे आये हैं कोई ३०० वर्ष हुए. यह बोखण्डी खातीकी पट्टीमें आकर बसे थे इस कारण बोखण्डी कहाये ।

३१ जोगदीन—वह कमायूंके पंडा हैं यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम और देवदीन २०० वर्ष हुए गढवालमें जाकर बसे थे और तोलासेलाकी पट्टी जोगदीमें निवास करनेके कारण जोगदीन कहाये ।

३२ मालकोटी—यह अपनेको गौड ब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, और ३०० वर्षसे गढवालमें बसे हैं, इनके पुरुषा सदाल नागपुरकी पट्टी मालकोटमें आकर बसे थे इस कारण यह मालकोटी कहाये ।

३३ वालोदे—एक चन्द्रशाखन नाम द्रविड ब्राह्मण ५०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर यहां बसे और वालोदे कहाये ।

३४ घनसाला—कहते हैं भमदेव और सगनदेव गौडब्राह्मण गुजरातसे आये थे ( गुर्जरगौड ) और ३०० वर्ष हुए यहां बसे ।

३५ प्रारहबल—यह दोराहटा कमायूंसे आकर २०० वर्षसे बसे हैं यह भी गौडसन्तान हैं और पूजापाठ करते हैं ।

३६ देवरानी—आख और ताख गुजरातके दो भाट थे कोई ४०० वर्ष हुए गुजरातसे आकर बसे हैं ।

३७ नौनी—कहा जाता है यह गोवर्द्धनके सन्तान हैं जोकि एक साठी ब्राह्मण गुजरातसे आकर नौनगांव सितोसियूनकी पट्टीमें आकर बसा था इसको ५०० वर्ष व्यतीत हुए हैं यह भी पूजापाठ करते हैं ।

३८ पोखरयाल—यह जाति एक विलिहाट दक्षिण निवासी वीलवाल ब्राह्मण गरुरासेनके वंशधर हैं ४०० वर्षसे यह इस देशमें स्थित है और पूजापाठ करते हैं ।

३९ पन्थारी—कहा जाता है दोहुभाई अन्तू और पन्तू जलन्धरसे आये हुए जलन्धरी ब्राह्मण थे, यह चौकोटके पन्थार ग्राममें ३०० वर्ष हुए आबकर बसेथे यह भी पूजा पाठ करते हैं ।

४० मुसरहा } यह दोनों जातिके जलन्धरी- ब्राह्मण पंजाबसे आकर कोई ५०० वर्ष  
४१ वालोनी } केलगभग इस देशमें बसे हैं ।

४२ बीजौला } यह दोनों उज्जैनसे आये द्रविडब्राह्मणकी जाति है पर यह विदित  
४३ भादौला } नहीं हुआ कि निवास कहां आकर किया. यह गंगारी ब्राह्मणोंकी

जातिके भेद हैं इनके सिवाय और भी बहुतसी जातियां अपनेको गंगारी ब्राह्मण कहती हैं पर वास्तवमें वे हैं नहीं पर वे कहते हैं हम भी ग्रामोंके नामसे ही नामवाले हैं, कुछ दूसरे भी वंश हैं पर वे ब्राह्मण हैं जैसे चौकरहा, नौगाई, घनसाला, सुन्दली, कठौलिया, परौरिया, भूरदोला, धमवान, खेतवाल, धिदवाल, भदवाल, कोटया. वूदरी, मैदोलिया, कुलासरी, वालोदी, जालोदरो-नखवाल, विलारिया, कोटवाला, सेलिया, भदाला, बोतयाल, गौनयाल, विजौरा, थुलदी, कुरहा, खनतवाल, कुन्दारा, और खारी, मून्दयापि, कन्दयाला, दुरारा, झूदाल, फरसोला, नोला, कुलयाल, खनसिर्ला, पानूनी, सिटवाल, झंगरयाल, घुरवान, बीलवाल, कनी, छगला, भटवान, सेतरो, खगोरा, समारी, दर्दगाल संगारी, वुसाई, वर-सोतिया, शृंगवाल, चोकयाल, कन्धारी, धमकवाल, नागवाल, वंगथाली, सारंगवाल, विज-राकोट, थालासी, खानाई, उपारती, भंगवान, डंकोटी, कुसूवाल, नगरसाली, तिमिरवाल, चितवन, चौदयाल आदि नामवाले हैं ।

नीचे लिखी जातिके खस ब्राह्मण हैं ।

पण्डा ( केदारनाथके ) जैसे हागवंस, लुवारी, कपरान, सुन्धारा, भीरहा, बावीलवाल, दुरयाल, ( श्यामके भक्त ) श्याम कहाते हैं ।

राय या भाट ।

यह गढवाली ब्राह्मणों का वर्णन हुआ ।

पर्वतनिवासी ।

कूर्माचलीयब्राह्मण । +

ब्राह्मण—जो देशसे आकर यहां बसे हैं उनमें विद्या इत्यादि शुभगुण होनेसे यहां चन्द्र-वंशी राजाओंके गुरु पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री, दर्बारी हुए, इन्हींकी सन्तान कुमाऊंकी उच्च ब्राह्मण जाति हुई वे पंत-पांढे, बोशी, भट्ट उपेती, पाठक, मिश्र इत्यादि कहलाते हैं । कुछ इनकी सन्तान आदिमें ब्राह्मणोंसे मिल गईं. उनके आचार

× ग्राम सिल्लाटी जिला नैनीताल निवासी पं. रामदत्तब्योतिर्विद् द्वारा प्रेषित ।

विचार सम्बन्ध उन्हींके तुल्य होगये हैं, अधिकांश पंत पांडे इत्यादि उच्च कक्षा में हैं । इस समय भी शिक्षित सभ्यनेता यही लोग हैं अंगरेजीविद्यामें भी निपुण हैं उच्चराजपदोंमें हैं ।

पन्त-भारद्वाजगोत्री ( भारद्वाजांगिरस बार्हस्पत्येति त्रिप्रवर माध्यन्दिनी शाखी ) महा-राष्ट्रजातिके पं. जयदेवपन्त दक्षिण कोंकण ( कोतवान ) देशसे १० वीं शताब्दीमें काली-जीके दर्शनार्थ गंगोलीमें आये-सामयिक मणकोटी राजाने रिवाडी ग्राम जागीरमें दिया और ठहरादिया पीछे उपड़ा ग्राम दिया दश पीढियोंके बाद सरम, श्रीनाथ, नाथू, भौदास ये चार घराने हुए । तीन घरानेके मांस नहीं खाते चौथे ( भौदास ) घरानेके खाते हैं । सर्वत्र कुमाऊंमें पंथ वा पंत कहलाते हैं । कुमाऊंके राजाके गुरु राज-वैद्य, पौराणिक हुए अब नौकरी पेशा है ।

पंत ( पाराशरगोत्री ) जयदेव पन्तके साथ उनके बहनोई दिनकरराव पाराशरगोत्री दक्षिण कोंकण देशसे आये । मणकोटी राजाने ( कोटचूडा ) ग्राम जागीर दिया । गंगोलीके चिटगल, कार्लाशिला ग्रामोंमें पाराशरी पन्त रहते हैं ।

( पांडेय ) ।

भारद्वाजगोत्री पांडे । अववसे श्रीवल्लभ उपाध्याय बदरीनाथ यात्राको आये, गणना-थमें अनुष्ठान किया; उनकी विद्वत्ता और यांत्रिक सिद्धियां देखकर कुमाऊंके राजाने सत्रह आली जमीन जागीर दी, और विनयपूर्वक ठहरालिया, गुरुपद भी दिया, पाटिया, पिलखा भौंसोडी, कसून, त्यूनरा आदिके पांडे कहलाते हैं उक्त ग्रामोंमें रहते हैं । कांडे लोहनामें रहनेवाले कांडपाल वा कन्याल तथा लोहनी कहलाते हैं । लोहेका हवन करनेसे लोहहोत्री वा लोहनी कहलाये ।

गौतमगोत्री पांडे । सारस्वत ब्राह्मण पं० बालराजपांडे ज्वालामुखी कांगडा पंजाब प्रांतसे यात्रार्थ आये । काली कुमाऊं दरबारमें पहुँचनेपर राजाने रोकलिया “ धोली ” ग्राम जागीर दिया । पुरोहित भी बनाया । इनके ४ पुत्र हुए बड़े भाईकी सन्तान धोलीके पांडे; दूसरे भाई दानाग्रामके पांडे, तीसरे पल्युंके पांडे हैं महादेवकी सन्तान नैपालराज्यमें है । पांडे खोला, संग्रोली, दौताई जि. मेरठमें भी यही पांडे हैं ।

वत्सभार्गव गोत्री पांडे और मिश्र । पषीमिश्र-कोट कांगडेसे राजा संसारचन्द्रके समय आये, राजाके वैद्य हुए इनकी सन्ततिमें अनुपशहरके मिश्र हैं । सीराके और मझेडाके पांडे भी इसी कुलमें हैं ।

काश्यपगोत्री वरखोरा पांडे । महनीपांडे कन्नौजसे आये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे इनके सिंह और नृसिंह दो पुत्र हुए । पांडे ग्राम सिलौटीमें सिंहकी सन्तान हैं-बेडती पानमें नृसिंहकी सन्तान हैं राजाने वरखोरा ग्राम जागीर दिया, वरखोरा पांडे इस हेतु कहलाये ।

उपमन्युगोत्री मिश्र और वैद्य-

उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागसे कालीकुमाऊंमें आये । पांडे कहलाये, राजाके वैद्य हुए मिश्र और वैद्य पांडे कहलाते हैं । दिवतियाके मिश्र कुञ्जके वैद्य हैं, छावातामें भी यही वैद्य हैं । शिमलटिया पांडे । राजा सोमचन्द्रके समय राजगुरु पांडे कुमाऊंमें अवधसे आये । शिमला, सालम, ढोलीग्राम अल्मोडाके चम्फनौला मोहल्लेमें रहते हैं कुमाऊंके सब लोग इनका बनाया भोजन खा सकते हैं पांडे कहलानेवाले और भी कुछ ब्राह्मण हैं उनका ठीक २ परिचय नहीं मिला ।

जोशी [ ज्योतिषीका अपभ्रंश जोशी है ]

गर्गगोत्री सुधानिधि चौबे अवध देशके उन्नाव जिलेमें दधियाखेडाकं रहनेवाले राजा सोमचन्द्रके साथ दशवीं शताब्दीमें झूंसीसे कुमाऊंमें आये, राजज्योतिषी और राजमन्त्री चतुर्वेदीजी हुए । ज्योतिषी होनेसे जोशी कहलाये । सेलाखोला, झिजाड कलौन कोतवाल ग्राम आदिके जोशी इसी कुलमें हैं । यह घराना कुमाऊंका मुख्य राजमंत्री रहा । यह दीवान जोशी कहलाते हैं, अनेक विद्वान् राजनैतिक नेता इनमें हुए, वर्तमान समयमें भी अनेक उच्च राजपदोंमें हैं अंग्रेजीके अनेक प्रेजुएट हैं, चौबे गर्ग गोत्री वंशमें हैं, यह कान्यकुब्ज चौबे हैं ।

आंगिरसगोत्री जोशी । अवधसे नाथूराज विजयराज दो भाई कत्यूरी राजाके समय यात्रार्थ आये राजाने दरबारका ज्योतिषी नियत किया, रोडीग्राम जागीर दिया, माला सर्प और गल्लीके जोशी इसी कुलमें हैं इनमें नामी २ ज्योतिषी हुए । अब भी अनेक अच्छे २ ज्योतिर्विद् इस कुलमें हैं । सन् १६२६ से गल्लीके जोशी दीवान कहलाये ।

मालाके जोशियोंका तिथिपत्र प्रसिद्ध रहा । कौशिकगोत्री जोशी-पं० कृष्णानंद जो कौशिकगोत्री ढोढी नेपालराज्यसे देवदर्शनार्थ आये गंगोलीके माणकोटी राजाने भेरंगमें पुष्करी ( पोखरी ) ग्राम दिया, राज्यका ज्योतिषी बनाया । राजा राजबहादुरचन्द्रके समयसे चन्द्रराजाओंके ज्योतिषी हुए । भेरंगके जोशी कहलाते हैं दरवानाके शिलोटी ग्राममें भी रहते हैं । अच्छे २ नामी ज्योतिषी इस कुलमें हुए, इनका पंचांग भी कुमाऊंमें मुख्य है । यह ज्योतिषी कृष्णानंदजी वंगदेशी नदियाके कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ।

उपमन्युगोत्री जोशी-प्रयागराजके समीप जयराज मकाऊ ग्रामके रहनेवाले श्रीनिवास द्विवेदी १४ वीं शताब्दीमें राजा थोहरचन्द्रके समय कुमाऊंमें आये, राजाने चौकीगांव दिया । काशीसे ज्योतिष पढआये जोशी कहलाये, चन्द्रराजाओंके मंत्री हुए, यह कुल भी दीवान कहलाता है, इनमें अनेक विद्वान् और उच्च राजकर्मचारी हुए, दन्यामें रहनेसे दन्याके जोशी कहेजाते हैं । ललोटा जोशी । पचारद दुबे कान्यकुब्ज सकुटुम्ब वदरीनाथ यात्राको आये. मणकोटी राजासे ज्योतिषकी वृत्ति मिली, लटोली प्रभृति ५ ग्राम.



जागीर मिले ललोटा जोशी कहलाते हैं, ज्योतिषकी वृत्ति करते हैं। अनेक नामी विद्वान् ज्योतिर्विद् इनमें हुए हैं। भारद्वाजगोत्री जोशी—कन्नौजके निकट असनी ग्रामके निवासी त्रिवेदी लंकराज शुक्ल यात्रार्थ इधर आये, कुमाऊंके राजाने शिलग्राम जागीर देकर रोक लिया, ज्योतिषके विद्वान् थे अल्मोडा और निसोत्तमें रहते हैं, चीनाखाणके जोशी उच्च राजपदोंमें हैं, मकेडी, खेर्द—जोशी खोलामें रहते हैं ज्योतिष वृत्ति और नौकरी वृत्ति करते हैं।

### त्रिपाठी ।

गौतमगोत्री त्रिपाठी । दक्षिण गुजरात देश “अमलावार” वडनगरके निवासी साम-वेदी श्रीचन्द्र त्रिपाठी गौतमगोत्री चन्द्ररायके आरंभमें बदरिकाश्रमकी यात्राको आये, कत्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्धियां देखकर रोक लिया, अल्मोडाकी भूमि जागीरमें दी। कुमाऊंके अनेक ग्रामोंमें और अल्मोडामें यह त्रिपाठी रहते हैं, अनेक विद्वान्, कर्मकांडी, वैदिक, पौराणिक, पंडित इनमें होते रहे।

### भट्ट ।

विश्वामित्र गोत्री अच्युत भट्ट दक्षिण तैलंगदेशसे मणकोटी राजाके समय कुमाऊंमें यात्रार्थ आय इनको शास्त्रज्ञ देखकर राजाने रोक लिया यह विसाड षल्युं, खेती ग्राम सेरमें रहते हैं। अच्छे विद्वान् इस कुलमें होते रहे हैं। कुछ लोग डोटी नैपालको गये, भट्ट तीन प्रकारके यहां बसे हैं। उपरोक्त वंशके अतिरिक्त दो प्रकारके भट्ट और भी हैं इनके भिन्न २ गोत्र हैं पञ्च द्राविड ब्राह्मण भट्ट—दक्षिण द्रविड देशसे राजा भीष्मचन्द्रके समय कुमाऊंमें आये, द्वाराने हलवाई नियुक्त किया, यह कुल हलवाईका पेशा करते हैं।

मध्यदेशके आये हुए भट्ट ब्राह्मण वागेश्वरादि तीर्थोंके तटोंमें रहे, वे ग्रहण तथा शनिका दान लेनेकी वृत्ति करते रहे।

### उप्रेती ।

दक्षिण द्रविड देशके महाराष्ट्र ब्राह्मण शिवप्रसाद मणकोटी राजाके समय यात्रार्थ आये, काली देवीके दर्शनको गंगौली गये, राजाने उप्रेडा प्राय देकर विनय पूर्वक रोक लिया। राजाके मंत्री हुए। चन्द्र और गोर्खा राजाओंने भी अनेक ग्राम दिये, खेती, सूपाकोट, वांक विण्डा इत्यादि ग्रामोंमें रहते हैं, उप्रेती व उप्रेती कहे जाते हैं।

### पाठक ।

शांडिल्य गोत्री कान्यकुब्ज पाठक आस्पद नरोत्तम वेदपाठी अवधसे शांडीपाली ग्रामके रहनेवाले यात्रार्थ आये। राजाने मणिकानली ग्राम दिया फिर पठक्यूडा ग्राम चन्द्र राजा-ओंने दिया।

पाटणी ।

अवधसे—कान्यकुब्ज ब्राह्मण मिश्र आस्पदके कुमाऊँ सोरमें बस राजाके समय आये, चन्द राजाओंने पीछे पाटण ग्राम दिया, यह पाटणी कहे जाते हैं ।

अवस्थी—मैथिलब्राह्मण कत्यूर राजाके समय अस्कोटमें आये यह रजवार दरवारके पुरोहितहैं । झा वा—ओझा—तिरहुत मिथिलासे नेपाल होते हुए अस्कोटमें पहुँचे रजवारमें वृत्ति मिली । उपाध्याय—नेपालसे आये, यह कर्मकाण्डी ब्राह्मण हैं ।

कोठारी—कोकण दक्षिण देशसे सूर्यप्रसाद दीक्षित आये, कुठारका काम राजाने दिया, कुठारी कहे जाते हैं ।

कर्नाटक—कृष्णात्रिगोत्री वसिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कर्नाटक देशसे आये, कुमाऊँमें रहे उनके कुलमें कर्नाटक हैं । विष्ट, मनटीनया, पनेरु दक्षिणसे आये, वडुवा शंकराचार्य स्वामीके साथ आये ।

ब्राह्मणोंकी अनेक जातियां पेशेके और ग्रामके नामसे प्रसिद्ध हैं । रानीका गुरु, गुरु-रानी, मठरक्षक. मठपाल, दुर्गापाल, हरी बोला, बेलवाल हैडिया सनवाल इत्यादि पेशेके और ग्रामके नामकी संज्ञा कई सैकड़ों हैं । अधिकांश कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, सारस्वत, मैथिल, गोड, द्राविड यहां पाये जाते हैं । यहां की संज्ञा ब्राह्मणोंकी देते हैं यथा—

कपिलाश्रमी तोलिया ।

दुर्गपाल वमेटा \* इत्यादि ग्रामके नामसे या पेशेसे ये जाति हुई हैं । कान्यकुब्जादिके वंशज ये मठपाल गरजोला सब ब्राह्मण हैं गौड सनाढ्य भी इनमें मिले हुए हैं । ठीक २ पता नहीं सत्ती नैलिया लगता करीब २ सौ तीन सौ से अधिक संज्ञा याचक ब्राह्मण यहां हैं, सुनाल पलडिया मुख्य २ का हाल ऊपर आगया है ।

बिलवाल भसाल

दिम्वाल नन्वाल

सनवाल डुमका

सुपाल खोलिया \*

गुनी दाणी

मूलनिवासी यहांके राजी किरात भिल्ल हूण शक डोम आदि हैं । राजी (वनमानुष) वत् हैं ।

मध्यकालमें राजपूत खाशिया तीन सहस्र वर्षके रहनेवाले राजपूत वंशसे हैं । आदम पर्वती ब्राह्मणोंमें कराव होता है, यह हल भी जोतते हैं । खश ब्राह्मण खश पुरोहित पीतलके अम्भूषण पहनते हैं, इससे पीतलिया ब्राह्मण कहते हैं ।

अथ श्रीमालिब्राह्मणोत्पत्तिः ।

स्कन्द पुराणके कल्याण खण्डमें लिखा है कि—एक समय गौतम ऋषिने हिमालयके समीप भृगुतुंग क्षेत्रमें शिवजीकी आराधना की शंकरने वर मांगनेको कहा तब गौतमजी बोले, ऐसा स्थान

वताइये जहाँ निर्भय होकर तपस्या करूँ तब शिवजीने कहा सौगन्धिक पर्वतके उत्तर अर्बुदा-  
ग्न्यसे वायव्य कोणको जाओ, वहाँ त्र्यम्बक सरोवरके समीप आश्रम बनाओ, वह जगत्प्रसिद्ध  
तीर्थ होगा। तब गौमर्जिने वहाँ जाकर कठिन तपस्या की तब ब्रह्मादिक सब देवतोंने  
आकर वर दिया कि, आजसे यह गौतमाश्रम नामसे विख्यात होगा, और सब देवता यहाँ  
निवास करेंगे, यह कहकर देवता चलेगये इसी आश्रमका नाम श्रीमाल क्षेत्र हुआ है,  
उसका कारण यह सुना है कि भृगु ऋषिकी अद्वैतरूपिणी श्रीनामकी एक कन्या थी, नार-  
दजीने विष्णु भगवान्के निमित्त उस कन्याके देनको कहा, भृगु सम्मत हुए, तब भगवान्  
विष्णुने नारदके वचनसे माघ शुक्ल एकादशीको उसका पाणिग्रहण किया। तब नारदजी  
बोले भगवन् ! अब इस वृद्धो त्र्यम्बक सरोवरमें स्नान करायाजाय तब यह अपने स्वरूपको  
पहचानेगी; स्नान करतेही वह दिव्यगात्र अर्थात् लक्ष्मी स्वरूपको प्राप्त होगई, सब देवता  
विमानोंमें बैठ स्तुति करने लगे। तब लक्ष्मीने देवताओंसे कहा जैसा यहाँका आकाश विमा-  
नोंसे शोभित है, वैसी यहाँकी पृथ्वी घरोंसे शोभित होजाय, अनेक गोत्रके ऋषि मुनि यहाँ  
आवें, मैं उनको यह भूमि दान करूँगी, अपने अंशसे मैं यहाँ निवास करूँगी, देवताओंने  
तथास्तु कहा। विश्वकर्माने वहाँ सुन्दर नगर बनाया तब ब्रह्माजी बोले—

**श्रियमुद्दिश्य मालाभिरावृता भूरियं सुरैः ।**

**ततः श्रीमालनाम्ना तु लोके ख्यातमिदं पुरम् ॥**

श्रीके उद्देश्यसे देवताओंकी विभागमालासे यह पृथिवी व्याप्त हुई है इस कारण श्रीमाल  
नामसे यह नगर विख्यात होगा। इसी अवसरमें विष्णुजीके दूत अनेक ऋषि मुनियोंको  
बुलाकर लाये। कौशिकी; गंगा तटवासी गयाशीर्षि, कालिंजर, महेंद्राचल, मलयाचल,  
शूर्पारक, गोकर्ण, गोदावरी, प्रभास, उज्जयंत, गोमती, नंदिवर्द्धन, सौगन्धिक,  
पर्वत, पुष्कर, वैडूर्यशिखर, च्यवनाश्रम, गंगाद्वार, गंगा यमुनाके समीपवर्ती देशोंसे, प्रयाग,  
कुरुक्षेत्र, जामदग्न्यपर्वत हेमकूट, सरयू, सिन्धु समीपी आदि अनेक तीर्थोंसे, ४५००० सहस्र  
ब्राह्मण आये। उनको बडे सत्कारके साथ घरोंमें सब सामग्री रखकर लक्षदान करने लगी।  
और सबसे पहले गौतमकी पूजाकी इच्छा की, इसका सिंध देशवासी ब्राह्मणोंने विरोध  
किया, तब आंगिरस ब्राह्मणोंने कहा तुम महातपस्वी गौतमका विरोध करते हो, इसकारण  
तुमसे वेद पृथक् हो जायगा, वे यह सुनकर चले गये, वे सिंधुपुष्करणे कहाते हैं। जब  
लक्ष्मीने कहा पृथिवी ब्राह्मणोंको दान दी और साथमें चार लाख गायें दीं। वरुण देवताने  
उससमय लक्ष्मीके वक्षस्थलमें १००८ सुवर्णके कमलोंकी माला पहराई, उसके पत्रोंमें  
स्त्रीपुरुषोंके प्रतिबिम्ब दीखने लगे, और वह प्रतिबिम्बके स्त्रीपुरुष भगवतीकी इच्छासे कम-  
लोंसे बाहर प्रगट हो जाये, और लक्ष्मीसे कहा हमारा नाम और कर्म क्या है, भगवती  
बोली हे प्रतिबिम्बोत्पन्न ब्राह्मणों तुम नित्य साम गान किया करो, और इस श्रीमाल क्षेत्रमें

कलाद नामवाले ( जिनको त्रागड सोनी कहते हैं ) होंगे; और ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंके आभूषण बनाना तुम्हारा काम होगा ।

श्रीमाले च ततो यूयं कलादा वै भविष्यथ ।  
भूषणानि द्विजेन्द्राणां पत्नीभ्यो रत्नवन्ति यत् ।  
कर्तव्यानि मनोज्ञानि संसेव्याश्च द्विजोत्तमाः ॥

इसप्रकार ये प्रतिविम्बसे उत्पन्न ८०६४ कलाद त्रागड ब्राह्मण हुए. उनमेंसे वैश्यधर्मी, बसोनी हुए, यह पठानी सूरती अहमदावादी खम्बार्ती ऐसे अनेक भेदवाले हुए, यह जिन ब्राह्मणोंके पास रहे उन्होंने नामसे कलाद त्रागड ब्राह्मणोंका गोत्र चला । इस प्रकार यह त्रागड ब्राह्मण भी अध्ययन करते और भूषण बनाते रहे, फिर ब्राह्मणोंके धनादि रक्षाके लिये विष्णुने अपनी जंघासे गूलर, दण्डधारी दो वैश्य उत्पन्न किये और उनको ब्राह्मणोंकी सेवामें लगाया, गोपालन व्यापार उनका कार्य हुआ और ९०००० नव्वे सहस्र वैश्योंने वहां निवास किया, और उनके स्वामी ब्राह्मणोंके गोत्रसे उन वैश्योंके गोत्र हुए, उस नगरके पूर्ववासी प्राग्वाट पोरवाल कहाये, दक्षिणके पटोलिया, पश्चिमके श्रीमाली, और उत्तर के उर्वला कहाये ।

प्राग्वाटदिशि पूर्वस्यां दक्षिणस्यां धनोत्कटाः ॥

तथा श्रीमालिनो याम्यामुत्तरस्यामथो विशः ॥ ४७ ॥

फिर उनके पुत्र पौत्रादिसे वह वंश वृद्धिको प्राप्त हुआ । फिर भगवान्ने उन ब्राह्मणोंको वस्त्रादि प्रदान करनेकी इच्छासे वैश्योंको जंघासे उत्पन्न किया, और उन ब्राह्मणोंकी सेवामें नियुक्त किया, उन्ही ब्राह्मणोंके गोत्र उनके गोत्र हुए, और वे पटवा गुजराती वैश्य कहाये वे सब कोई ब्राह्मण और वैश्य भगवान्के अन्तर्धान होनेपर उस श्रीमाल क्षेत्रमें निवास करने लगे इस क्षेत्रमें अनेक तीर्थ हैं, विवाहमें कुल्दीपकी पूजा होती है, एक पात्रमें शंख लालसूत्र मिश्री लाल पीताम्बर वादाम वस्त्र कौशेय जल दुग्ध पात्र कुमकुम पुष्प इत्यादि पदार्थ लेके कन्याके घर आते हैं । शंखका जल कन्यापर छिडककर वह वस्त्रादि तिलककर कन्याको देते हैं, और जबतक वर कलेवा करै, वधूको गुप्त स्थानमें रखते हैं, इसी प्रकार कन्याकी माता कुमकुम पुष्प म्शेड, नारियल, लाल साडी, पानसुपारी, फूल, चावल, गुड, कंकोडी, नेत्रोजन, मशी यह लेकर वरके स्थानपर जाती हैं । इस प्रकार पहला फेरा होता है, दूसरे फेरेमें साधेकी गठडी, तीसरेमें घृतपात्र, चौथेमें गुडपात्र, पांचवेंमें मृत्तिकापात्र, छठेमें वरी पापड, सातवेंमें सेव ले जाती हैं, इस प्रकार वरकी माताको तिलक कर फिर घरको लौटती हैं, पीछे कन्याकी माता अपने घर आय शुद्ध भूमिपर लाल सूतकी बत्ती बनाय घीका टीपक बालती है । इसकी प्रजासे देवता पितर प्रसन्न होते हैं. विवाहमें

शंखका शब्द और वेदपाठ होता है वह अपने घरसे कम्बल ओढ शस्त्र हाथमें लिये चोरके समान कन्याके घर जाकर गोधूमकी पिट्टीकी बनी हुई गौरीको लेकर अपने घर आता है फिर बरघोडेके समय वह गौरी और नारियलको लेकर विवाहको आता है, आधीरातके समय वरकी माता और स्त्री घरमें मंगलद्रव्योंसे स्नान करके वह पहले दी हुई दो साडी पहन मंगलद्रव्य ले एक स्त्रीके हाथमें जलपात्र झारी और नारियल, दूसरीके हाथमें दीपपात्र लेकर कन्याके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमार्गसे उनकी अगौनी कर लेजाती और वेदीमें खडाकर तिलक करती है, वही सुपारी आदि परस्पर ली दी जाती है, जलपात्रमें जल और दीपकमें परस्पर घृत डालती हैं, परस्पर गुड खिलाती हैं कन्या और वरकी माता दीपक ले चार प्रदक्षिणा करती हैं, फिर आच्छिन्न करके विदाके समय कठिनतासे हाथ छुडा कर घरको आती हैं, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके बनाते, जलकुण्डा करते इत्यादि अनेक कुलचार करते हैं, अब इनके कुलप्रवर गोत्रादि कहते हैं । वर्तमानकालमें ब्राह्मणोंके चौदह गोत्र हैं, परन्तु मूल ग्रन्थमें अठारह हैं, प्रथम काश्यप गोत्र और तीन प्रवर हैं । काश्यप वत्स और नैध्रुव उनकी कुलदेवी योगेश्वरी है, सो सब चक्रमें आगे लिखते हैं, यह अठारह गोत्र त्रागढ और श्रीमाली ब्राह्मणोंके जानने । श्रीमालियोंके चौदह गोत्रोंके नाम स्पष्ट हैं, शेष अंगिरसादि गोत्रवालोंका वंश नहीं मिलता लक्ष्मीकेविवाहमें जो ४५००० ब्राह्मण आये, वह सब श्रीमाली कहाये, उनके साथमें श्रीमाली वैश्य पोरवाल वैश्य श्रीमाली सोनी, पटवे, गाठे और गूजर आदि भी वहां रहनेवाले श्रीमाली नामसे अभिव्यक्त हुए, विवाहादिमें इनसे कर लिया जाता है । इनमेंसे ५००० ब्राह्मण भोजक हुए, जो इस समय जैन धर्म पालन करते हैं, इनकी वृत्ति श्रावक लोगोंकी है, ओसवाल वैश्योंके उपाध्याय गोर कहाते हैं, यह वैश्योंके हाथका भोजन करते हैं ५००० श्रीमाली सुमारे गुजरातमें आये सो कच्छ गुजरात और काठियावाडमें रहते हैं, यह धोधारी, खम्बाती, सूरती, अहमदाबादी आदि भेदोंसे विख्यात हैं । शेष ३५००० मारवाड मेवाड जोधपुर आदि स्थानोंमें आरहे, यह मारवाडी श्रीमाली कहे जाते हैं । इनमें एक भेद दसकोसीश्रीमाली कहाता है, एक श्रीमाली ब्राह्मण एक विधवा स्त्रीको लेकर दूसरे ग्राममें जारहा, पीछे सन्तान होनेपर अपनी योग्यतावाले ब्राह्मणसे विवाह करते हैं, वे दसकोसी श्रीमाली कहाते हैं, यह अहमदाबाद जिलेमें पाये जाते हैं, श्रीमालियोंमें चौदह गोत्र और दो वेद हैं, उनमें सात गोत्रके यजुर्वेदी हैं, उनके नाम गौतम, शांडिल्य, चन्द्रास, जलवान, मौदुलास वा मौददूल ( मुद्गल ) कर्पिजलस, और हरितस हैं, सामवेदी भी सात गोत्रके हैं, उनके नाम शौनकम्, भरद्वाज पराशर कौशिकम् वत्सम् औपमन्यव और कश्यप हैं, इनका विवाह सम्बन्ध स्वर्गमें होता है, यह कोकिल ऋषिके मतको मानते हैं, इनमें मरनेके पीछे स्त्री अपने पिताके गोत्रमें मिलती है, वह ४५ सहस्रसे अधिक जो पांच सहस्र ब्राह्मण आये सो पुष्करणे वा षोकरणे ब्राह्मण कहाये ।

ते तु पुष्टिकराः प्रोक्ता उत्तमांधमभेदतः ।  
ये गौतमापमाने तु वेदबाह्या द्विजैः कृताः ॥ ६० ॥

उसमें भी भेद हैं जो सैधवारण्यवासी ब्राह्मण आये थे और गौतमके अपमान करनेसे ब्राह्मणोंने उनको वेदबाह्य किया, तो वे ब्राह्मण सिंधदेशमें जाकर रहे सो उत्तम, और देश-वाली मध्यम कहाये यह लौकिक बात है । कमलके प्रतिबिम्बसे जो उत्पन्न हुए वे कशाद त्रागड ब्राह्मण कहाये ।

पद्मानां प्रतिबिम्बैश्च ये चोत्पन्ना द्विजातयः ॥  
ते त्रागडाः समाख्यातां द्विजा ह्येव न संशयः ॥

श्रीमालक्षेत्रका नाम भिन्नमाल हुआ है, इसका कारण यह है कि, कुण्डपा नामक एक श्रीमाली ब्राह्मण गुजरात देशमें सौगंधिक पर्वतसे एक इक्षुमती नामक कन्याको व्याह करके लाया, और कहा कि मैं पातालसे कंकोल नामक नागकी कन्याको व्याह करके लाया हूँ, यह सुनकर सब श्रीमालियोंने उसको धन्यवाद दिया, उसी समय एक सादिका नामक राक्षसी जो श्रीमालियोंकी कन्याओंको हरणकर कंकोल नागके स्थानमें छोड़ आती थी, उनके लिये कुण्डपाके पुत्रोंने नागराजकी प्रार्थना कर उन कन्याओंके विषयमें कहा कि आपने हमारे कुलकी कन्याओंकी रक्षा की है, इस कारण विवाहादिमें श्रीमाली मात्र आपका पूजन करैंगे ऐसा कहकर उन कन्याओंको नागराजके वहांसे ले आये, तबसे आजतक श्राद्ध तथा विवाहोंमें कंकोल नागका पूजन श्रीमाली करते हैं, पीछे श्रीमालनगर उजाड पडा रहा, श्रीपुंज नामक आवूके राजाने उसे बसाया, भोजके समयमें माघ कवि इसी वंशमें हुआ है, प्रबोधचिन्तामणिमें लिखा है कि यह कवि खर्चीला बहुत था, भोजराजने उसको लाख रुपये दिये थे, तो भी उसकी मृत्यु धनके कष्टसे हुई, तब राजाने क्रोधकर श्रीमालनगरवासियोंको धिक्कारा, और उस नगरका नाम भिल्लमाल वा भिंडमाल रक्खा, जब अनहलवाला पाटण बसा तब भिल्लमाल टूटा और जो श्रीमाली पाटनमें आकर बसे, वह कुरुदेवी महालक्ष्मीकी मूर्ति साथ लेते आये, और उसकी पूजा होती है । यह श्रीमाली और त्रागड ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कही । यह लेख ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डका है ।

काची श्रीमाली ।

यह कच्छदेशम श्रीमाली ब्राह्मणोंका एक उपभेद है ।

श्रीमाली ब्राह्मणोंके गोत्र अवटंक शाखा वेद प्रवर ।

कुलदेवीके निरायिका कोष्टक ।

सं०	अवटङ्क	उपनाम	गोत्र	प्रवर	वेद	शाखा	कुलदेवी
१	ओज्ञा	टोकर	सनकस	गृत्समद	साम.	कौथुमी	वरयक्षिणी
२	त्रिवाडि	टोकर	"	"	"	"	वीजयक्षिणी

( १४८ )

## जातिभास्करः-

सं०	अ०	तप०	गो०	प्र०	वेद०	शा०	कुल०
३	त्रिवाडि	वालासरा	"	"	"	"	"
४	जोशी	चीपि	"	"	"	"	"
५	त्रावाडि	वाकुलिया	"	"	"	"	"
६	व्यास	वाकुलिया	"	"	"	"	"
७	ओझा	"	"	"	"	"	"
८	व्यास	उबलिया	"	"	"	"	"
९	दुबे	मटकर्ई	"	"	"	"	"
१०	तिवाडी	सांगढा	"	"	"	"	"
११	त्रयाडी	जेखलिया	"	"	"	"	"
१२	दुबे	उमामणा	"	"	"	"	"
१३	ओझा	भोपाल	भारद्वाज	आंगिरस	साम	वा कौथुमी	बंधुदेवी
			बाह्रस्पत्य	यजु०	वा०		
			भारद्वाज			माध्य०	
१४	त्रिवाडी	भोपाल	"	"	"	"	"
१५	व्यास	भोपाल	"	"	"	"	"
१६	मोहित	डाभिया	"	"	"	"	"
१७	व्यास	चोखाचटणीरिणा	"	"	"	"	"
१८	त्रिवाडी	कोठिया	"		अग्नि०भार०साम वा	"	"
					बाह्रस्पत्य	यजु०	
१९	जोशी	भोपाल	"	"	"	"	"
२०	दुबे	नवलखा	"	"	"	"	"
२१	व्यास	नवलखा	"	"	"	"	"
२२	ओझा	नवलखा	"	"	"	"	"
२३	दुबे	फाडिया	"	"	"	"	"
२४	दुबे	नरेचा	"	"	"	"	"
२५	पंढ्या	नरेचा	"	"	"	"	"
२६	ओझा	नरेचा	"	"	"	"	"
२७	ओझा	गरिया	"	"	"	"	"
२८	बोहोराव	त्रवाडी	"	"	"	"	"
२९	त्रवाडी	गाधेया	पाराशर	३	वशिष्ठशक्ति	साम	कौथुमी
३०	व्यास	गाधेया	पाराशर	"	"	"	वरुण

भाषाटीकासंवलितः ।

( १४९ )

सं०	अव०	उप०	गो०	प्र०	वेद०	शा०	कुल०
३१	त्रवाडी	कोटिया	"	"	"	"	"
३२	त्रवाडी	त्रंडिसा	"	"	"	"	"
३३	त्रवाडी	लाडआ	"	"	"	"	"
३४	त्रवाडी	नरेचा	"	"	"	"	"
३५	त्रवाडी	उपलिया	"	"	"	"	"
३६	ओझा	शल्या	कौशिक	उ०विश्वा०	साम	कौ०	सिद्धा
			देवराज	औद्दालक			
३७	त्रवाडी	काणोदरा	"	"	"	"	"
३८	अवस्ति	शल्या	"	"	"	"	त्र्यम्बका
३९	त्रवाडी	शल्या	कौशिक	प्रवर ३	"	"	व्याघ्रेश्वरी
४०	जोशी	सनखलपुर	"	"	"	"	"
४१	जोशी	वडवाणिया	"	"	"	"	"
४२	जोशी	आंशलिया	"	"	"	"	"
४३	जोशी	नरेचा	"	"	"	"	"
४४	ठाकर	डिमिया	"	"	"	"	"
४५	ठाकर	शिरखटिया	"	"	"	"	"
४६	"	"	"	"	"	"	"
४७	दुबे	वौरसधा	"	"	"	"	"
४८	त्रिवाडी	कुदाली	"	"	"	"	"
४९	दुबे	पहाडपुर	"	"	"	"	"
५०	दुबे	उपरससाकुमार	"	"	"	"	"
५१	दुबे	केशिविकार	"	"	"	"	"
५२	दुबे	ज्ञो०	"	"	"	"	"
५३	दुबे	झगडुआत्र	"	"	"	"	"
५४	दुबे	शिरखडिया	"	"	"	"	"
५५	दुबे	मुंडिया	"	"	"	"	"
५६	दुबे	माकडिया	"	"	"	"	"
५७	ठाकुर	उनामणा	"	"	"	"	"
५८	ठाकुर	वजुरिया	"	"	"	"	"
५९	दुबे	टोटाणिया	"	"	"	"	"
६०	बोहरा	चमारिया	कौशिक	प्रवर ३	साम	कौथुम्भी	वी
६१	पोहरा	पुंतार	"	"	"	"	"



सं०	अव०	उप०	गो०	प्र०	वेद०	शा०	कुल०
६२	मोहित	पारकरा	"	"	"	"	"
६३	प्रोहित	हाल	"	"	"	"	"
६४	प्रोहित	२॥ सनापरा	"	"	"	"	"
६५	पंड्या	झोडिया	"	"	"	"	"
६६	पंड्या	जोऊरिया	"	"	"	"	"
६७	पंड्या	भाद्रडिया	"	"	"	"	"
६८	त्रवाडि	शिखुडिया	"	"	"	"	"
६९	त्रवाडी	दशोचरा	वच्छस ५ भृगु च्यवनः ५	साम	कौथुमी	आत्मदा	
७०	अग्निहोत्री	दशौचरा	वच्छस ५ और्य	अग्नि	साम	कौथुमी देवीनदी	
७१	अवस्थी	दशोचरा	"	जमदग्नि	"	"	बनागणी
७२	दुबे	कोडिया	"	जमदग्नि	"	"	बानानणि
७३	दुबे	दशोचरणिया	"	"	"	"	"
७४	जोशी	पढेचा	"	"	"	"	"
७५	दुबे	पढेचा	"	"	"	"	"
७६	त्रवाडी	सामला	"	"	"	"	"
७७	त्रवाडी	मेहर औपमन्यव ३ अगस्त्य अरुण		साम	कौथुमी	नदिवागिनी	
७८	त्रवाडी	जाजरला अगस्त्य इध्मवाह		साम	कौ०	नदी	
७९	त्रवाडी	आइया कश्यप कश्यप वत्सनेधृत		"	"	योगेश्वरी	
८०	त्रवाडी	करचढा	"	"	"	"	
८१	त्रवाडी	द्रहवाडीया	"	"	"	"	
८२	त्रवाडी	वाडसुहालिया कश्यप प्रवर ३		साम	कौथुमी	योगेश्वरी	
८३	त्रवाडी	पावडी	"	"	"	"	
८४	जोशी	चंड	"	"	"	"	
८५	जोशी	पंचपीडिया	"	"	"	"	
८६	व्यास	पंचपीडिया	"	"	"	"	
८७	बोहोरा	पुरेच्या	"	"	"	"	
८८	भट	बोरभा	"	"	"	"	
८९	अवस्ती	लोह	"	"	"	"	
९०	बोहरा	बावडिया	"	"	"	"	
९१	जोशी	गौतमीवागौतम	८ गौतमजीतथ्य	आंगि०	यजु०	माथ्यंदिली-महालक्ष्मी	
९२	दुबे	गौतमीवा	"	"	"	"	

भाषाटीकासंबलितः ।

( १५१ )

पं०	अव०	उप०	गोत्र०	प्रवर	वे०	शा०	कु०
९३	दुबे	लंपाडवा	"	"	"	"	"
९४	दुबे	साछलवाडिया	"	"	"	"	"
९५	दुबे	पुछत्रोड़	"	"	"	"	"
९६	ठाकर	लापसा	"	"	"	"	"
९७	वोहोरा	पीडिया	शांण्डिल्य	३ आत्रेय	आचनरैभ्य	"	क्षेमकरी
९८	दुबे	पेसा	"	"	"	"	"
९९	दुबे	काकिडिया	"	वाआशल्यदे.	शांडिल्य	"	"
१००	दुबे	धौगलवाडिया	"	वा दे०	असितमांडव्य	"	"
१०१	वोहोरा	धौवलवाडिया	"	"	"	"	"
१०२	पंड्या	धौवलवाडिया	"	"	"	"	"
१०३	दुबे	आशोल्या	"	"	"	"	"
१०४	दुबे	वेलडिया मोद्रलसू	३ आंगिरस	भारमा	मौद्रल यजु०	मा०	चामुण्डा
१०५	दुबे	चापानेरिया	"	"	"	"	"
१०६	दुबे	गोधा	"	"	"	"	"
१०७	दुबे	हाडिया चांद्रास	१११	नउमवाआत्रेया,,			महालक्ष्मीवा
१०८	दुबे	अरण	"	गाविष्टपूर्णति,,			चामुंडायक्षिणी
१०९	दुबे	केलवाडिया	"	"	"	"	"
११०	दुबे	वातडिया	"	"	"	"	"
१११	दुबे	भाटिया	"	"	"	"	"
११२	दुबे	वौनेया	"	"	"	"	"
११३	दुबे	जोशी	वालड	"	"	"	"
११४	दुबे	कोचर	लवणस १२	नढमवार,,	"	दुर्गा	वा चामुंडा
११५	व्यास	वालोट्रस	वालोट्रसन	उत्थय आंगिरस	"	"	"
११६	दुबे	पाटक	लौडवान	"	"	"	"
११७	दुबे	पानोलिया	कर्पिजलसू	वसिष्ठ	भारद्वाज	"	"
११८	दुबे	कोचर	इन्द्रप्रमद	य०	मा०	चा०	"
११९	महेता	रमणेवा	"	"	"	"	"
१२०	दुबे	रमणेवा	"	"	"	"	"
१२१	दुबे	जीवाणेचा	प्रवर ३	"	"	"	"
१२२	दुबे	खांडिया	"	"	"	"	"
१२३	दुबे	जमिया	"	"	"	"	"
१२४	ओझा	घाघलिया	"	"	"	"	"

( १५२ )

## जातिभास्करः-

सं०	अव०	उप०	गो०	प्रवर	वे०	शा०	कु०
१२५	दुबे	वालिया	"	"	"	"	"
१२६	दुबे	रेटिया	"	"	"	"	"
१२७	दुबे	उपाध्या	"	"	"	"	"
१२८	दुबे	पाठक	"	"	"	"	"
१२९	दुबे	वदरखाना	"	"	"	"	"
१३०	जोशी	स्वयंदेव	"	"	"	"	"
१३१	व्यास	स्वयंदेव	"	"	"	"	"
१३२	ओझा	आचडिया	हारित	पंचप्रवर	"	"	"
१३३	दुबे	पाठक	"	"	"	"	"
१३४	दुबे	चरूचा	"	"	"	"	"
१३५	दुबे	आचडिया	"	"	"	"	"
१३६	दुबे	चौकना	"	"	"	"	"
१३७	दुबे	कुंतेचा	"	"	"	"	"
१३८	दुबे	शिलेवा	"	"	"	"	"
१३९	होता	७वलासणा	शिरोरोहीहिया	शिरसुंडिया	मनसुंडिया		

रठभद्रिया

लाम

१४ गोत्र अष्ट ।

न्याचेष्टा

सं०	अवटंक	उपनाम	कुल०
१	त्रवाडी	टीकर	-१०
२	ओझा	त्रपिप	१३
३	व्यास	माधे	५
४	ओझा	शल्या	८
५	त्रवाडी	दशोत्तर	६
६	त्रवाडी	मेहेर	१
७	त्रवाडी	जाजरोला	१२
८	दुबे	नपंटया	६
९	दुबे	०	४
१०	दुबे	काकडिया	४
११	दुबे	कामेर	३
१२	दुबे	कलवाडिया	४
१३	दुबे	पंतोनिया	१०
१४	ओझे	०	१

कुल०

वटयक्षिणी

कमला

वालगौरी

नागिनी

योगेश्वरी

अरिष्टा

महालक्ष्मी

क्षेमकरी

चामुण्डा

श्रीमालीबाह्याणोंकी चौदह छकडीयोंके नामका कोष्टक ।

सामवेद छकडी		यजुर्वेद छकडी	
१ भोपाल	१ लहा	१ परेचा	१ उपरससा
२ रोक़र	२ भाद्रडिया	२ पहत्तर	२ गंगाठ
३ शला	३ त्यसु	३ खजुरिया	३ कोरका
४ गावरेज	४ पावडात्र	४ टंकसाली	४ कोटखुहा
५ कणाद्र	५ लाडया	५ करचंडा	५ झझुवाडिया
६ मेहेर	६ काश्यप	६ खांडा	६ करयणिया
	१ चामुंडा		१ मटाकिया
	२ चडक		२ उनमक्षिया
	३ मनसुडिप		३ सहीसरा
	४ कटिया		४ वेणगणा
	५ कातेचा		५ मशकसुकीया
	६ रुपेचा		६ पाहणकुट

सामवेद छकडी.

यजुर्वेद छकडी.

१ दशोत्र	१ खानलिया	१ खाकमीचा	१ छहगणा	१ रंकासणा
२ ऐयात्र	२ पदशल्या	२ पूरना	२ दातिया	२ मलिया
३ जादरोला	३ चित्रोडा	३ चरैना	३ धसकरा	३ नरउदय
४ डवलया	४ कपिछलार	४ चडा	४ मीनीसात्र	४ बकरा
५ नाकलाया	५ बलवाटिया	५ जोखना	५ चालुआ	५ उणा
६ भाभट	६ उपरसा	६ मुंडा	६ चांचणचोर	६ नवलवा
	१ मानवेचा			
	२ मठघालेचा			
	३ कुतेचा			
	४ आजरामरि			
	५ माक्षिया			
	६ फलपहुआ			
	१ फटिया			
	२ राणिया			
	३ नरेचा			
	४ लपाडया			
	५ गौतमा			
	६ लपसा			

सं०	गोत्र	प्रवर	शर्म	देवी	गणपति	ग्रक्ष	शिव	भैरव
१	सनकस्	सहोत्र गोचर्मद गुत्समद.	नंद	वरुणाग्निं	अननीन	वत्स	वनकेश्वर	आनंद
२	भारद्वाज	आंगिरस भारद्वाज	शिव	बंधुयक्षिणि	उधियादुधीय	रामेश्वर	नवलकेश्वर	ईशान
३	पाराशर	वशिष्ठ शक्ति पाराशर	त्रि	वटयक्षिणी	नर्क	चित्रेश्वर	पारेश्वर	सिद्धिदास
				कमली				
४	कौशिक	आंगिरस देवराज औद्दालक	भव	बालगौरी	स्वर्ग	कामेश्वर	व्यम्बकेश्वर	काल
५	वत्सस	मृगुच्यवन आनुवा. और्व. जम.	भिन्न	नागिनी	गोवत्सल	गनगजी	धारेश्वर	मंगलमूर्ति
६	उपमन्यव	औपमन्यव मृगु० और्व	भूत	योगेश्वरी	सिद्धिविनायक	उपयी	सुरभुरेश्वर	बटुक
७	काश्यप	काश्यप वत्स नैध्रुव	भूत	अरिष्टा	मृत्यु	लक्ष्मणेश्वर	कश्यपेश्वर	जटिल
८	गौतमस	गौतम आंगिरस औतथ्य	दास	महालक्ष्मी	साथ्य	दमयन्तीश्वर	चंडेश्वर	ग्रामपाल
९	चान्द्रस	आत्रेय औतथ्य गौतम	नाग	क्षेमकरी	हुंडिराज	देव	प्रभूतेश्वर	रुद्रचन्द्र
१०	शांडिल्य	आशैल देवल शांडिल्य	सोम	चामुंडा	उदय	त्रिशूल	जडेश्वर	असितांग
११	लौडवान	आंगिरस औतथ्य लौडवान्	गुप्त	वरानना	कर्म	धनेश्वर	भूतेश्वर	प्राणदास
१२	मौडलस	आंगिरस भाडम मौडलस	धीश	वरानना	आय	हर्यस	गंगेश्वर	देववत्सल
१३	कपिलस	वशिष्ठ भारद्वाज इन्द्रप्रमद	दत्त	सुरभक्तिग	अभय	दुर्धर	नागेश्वर	रस्तांग
				स्थय				
१४	हरितस	हरितस ?	देवी	दत्तचंडी	अजन	सूर्य	जागेश्वर	वटपाल

वाल्मीकिगोमित्रीयरव्यालयब्राह्मणोत्पत्तिः ।

पद्मपुराणके पातालखण्डमें लिखा है कि—

तत्रैकदा तु वाल्मीकी रामाल्लब्धधनो महान् ।  
श्रीमद्रामसहायेन सर्वसंभारसम्भृतः ॥  
सरस्वत्यग्निकोणे तु कृत्वा स्थानमनुत्तमम् ।  
उत्तमं मण्डपं कृत्वा गौतमादीन् महामुनीन् ॥  
वाल्मीकिर्वरयामास क्रतुर्जातस्तथोत्तमः ॥

वाल्मीकिजीने रघुनाथजीसे बहुतसा धन पाकर सरस्वतीसे अग्निकोणमें यज्ञ करना आरम्भ किया और गौतमादि मुनियोंका वरण किया । वह आश्रम ३६ कोस चौड़ा और ५२ कोस लम्बा था, वाल्मीकिजीने यज्ञ करके गौतमादि ऋषियोंसे प्रार्थना की कि जिस प्रकार मेरे आश्रमकी प्रतिष्ठा हो, सो कार्य होना चाहिये । तब ऋषियोंने कहा ऐसा ही होगा ।

सर्वे ते शिष्यलक्षैकमुत्तमा वेदवित्तमाः ।  
तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि विमलानि च ॥  
त्रयोदशशतान्युच्चैः संजातानि महात्मनाम् ।  
पञ्चाशच्च सहस्राणि गोरक्षणनियोजिताः ॥  
गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विबुधोत्तमैः ।  
अष्टौ च चत्वारिंशच्च ब्राह्मणानां सहस्रशः ॥  
रव्यग्रे प्रेषिता ह्येते ते वै रव्यालयाः स्मृताः ।

उन ऋषियोंके पास उस समय एक लाख शिष्य थे उनमेंसे उन्होंने पचास सहस्रको गोरक्षामें नियुक्त किया, वे सब गोमित्रीय ब्राह्मण कहाये, अडतालीस सहस्र सूर्यके सम्मुख भेजे गये वे रव्यालय कहाये । उन सबकी निर्मलगोत्र संख्या तेरह सौ थी शेष दो सहस्र जो रहे वे वाल्मीकि नामसे विख्यात हुए ।

वाल्मीकास्ते तु विज्ञेया विख्याता भुवनत्रये ।

इन ब्राह्मणोंका शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा है, कोकिलमुनिका मत—यह मानते हैं; इनके सेवक ग्यारह सौ कायस्थ भी वाल्मीक कायस्थ कहाये, इन ब्राह्मणोंका निवास वाल्मीकपुर ( वालम ) में है । हलसे भूमिशोधनके कारण इनका नाम हलहल भी कहते हैं, यह कर्मनिष्ठ सात्विकी और दबालू होते हैं, अब इनके नाम गोत्रका चक्र लिखते हैं—

## वाल्मीकिब्राह्मणानां गोत्रचक्रम् ।

सं० गोत्र	प्रवर	१०	मुद्गल	आंगिरसब्राह्ममुद्गलाः	
१	भारद्वाज	०	जमदग्नि	जमदग्निभार्गवऔर्वाः	
२	वशिष्ठ	वशिष्ठ	१२	अंगिरस	अंगिरसब्राह्ममुद्गलाः ।
३	काश्यप	काश्यपवत्ससैधुवाः	१३	कुत्स	मांधाताअंगिरसकौत्साः
४	गार्ग्य	काश्यपवत्ससैधुवाः	१४	कौशिक	०
५	आत्रेय	आत्रेयअर्चनानाराशावाश्वाः	१५	विश्वामित्र	विश्वामित्रदैवतदैवश्रवसाः
६	गौतम	०	१६	पुलस्त्य	०
७	वत्स	०	१७	अगस्त्य	विश्वामित्रस्मररथवावुलाः
८	कौण्डिन्य	वसिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्याः	१८	शांडिल्य	०
९	भार्गव	भार्गवच्यवनाप्तवान् आर्षिषेणअनुपेक्षाः	१९	कात्यायनभार्गवच्यवनऔर्वजमदग्निवत्साः	इति वाल्मीकिब्राह्मणोत्पत्तिः ब्रा. उ. मार्तण्ड ० ।

अथ शाकद्वीपिब्राह्मणोत्पत्तिः ।

भविष्यपुराणके १३३ अध्यायमें कहा है—

**कृष्णपुत्रोऽतितेजस्वी साम्बो जाम्बवतीसुतः ।**

**सूर्यस्य च महाभक्तः प्रासादं स चकार ह ॥**

किं कृष्णके महातेजस्वी जाम्बवतीसे उत्पन्न पुत्र साम्बने सूर्य देवकी भक्तिके निमित्त एक बड़ा महल बनाया, उसमें भगवान् सूर्यकी मूर्ति स्थापित की, और पूजाके निमित्त गौरमुख-ऋषिसे कहा, उन्होंने कहा हम मंदिरकी पूजाका प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तब साम्बने इसके निमित्त सूर्यका आराधन किया, तब प्रसन्न होकर सूर्यदेव कहने लगे—

**ममार्चनेऽस्मिन् द्वीपे तु ह्यधिकारी न कोपि च ।**

**शाकद्वीपे ते वसन्ति वर्णाश्चत्वार एव च ।**

**मगश्च मगसश्चैव मानसो मन्दगस्तथा ॥**

अर्थात् मेरे पूजनका अधिकारी यहां कोई नहीं है, शाकद्वीपमें चार वर्ण मग, मगस, मानस और मन्दग यह निवास करते हैं, इनको तुम यहां लाकर बसाओ ।

**साम्बः सूर्यवचः श्रुत्वा चारुह्य गरुडं द्रुतम् ।**

**शाकद्वीपात्समानाय्य चाष्टादशकुलोद्भवान् ॥**

**कुमारान् स्थापयामास चन्द्रभागानदीतटे ।**

**त्रे तु नित्यं पूजयन्ति सूर्यं भक्तिपुरःसराः ॥**

साम्ब यह बात सुनकर गरुडपर चढ़कर शाकद्वीपको गये और शाकद्वीपसे १८ कुलके कुमारोंको लाकर चन्द्रभागा नदीके किनारे स्थापन किया, वे सूर्यभगवानकी नित्य पूजा करने लगे ।

तन्मध्ये मन्दगाश्चाष्टौ भगाश्च दशसंख्यकाः ।  
ततः साम्बो भोजकन्याः समानाय्य प्रयत्नतः ॥  
भगाख्यदशविप्रेभ्यो दत्तवान् विधिपूर्वकम् ॥

वे साम्बपुरमें निवास करने लगे. उन अठारहमें आठ कुल मन्दगवर्णोंके शूद्र थे और दश कुल भगवर्णोंके ब्राह्मणवर्ण थे, साम्बने भोजवंशकी कन्याओंसे उन ब्राह्मणकुमारोंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया ।

ततो जाताश्च ये पुत्रास्ते तु भोजकसंज्ञकाः ।  
ब्राह्मणेन समानाश्च तापसिव्यंगधारकाः ॥  
वेदपाठविपर्यासान्मगास्ते परिकीर्तिताः ।  
भोजने मौनिनः सर्वे ऋषिवत्कूर्चधारकाः ॥  
वर्चाचर्याश्चाष्टवर्षे च ह्यमाहकविधारकाः ।  
सव्याहृतोर्हि सूर्यस्य गायत्र्या जपतत्पराः ॥  
अग्निहोत्ररतास्सर्वे मद्यं संस्कारपूर्वकम् ।  
सौत्रामणौ ब्राह्मणवत्पानं कुर्वन्ति ते मगाः ॥  
अष्टभ्यः शककन्याश्च दत्तास्ते शूद्रकाः स्मृताः ।  
तेऽपि सूर्यस्य भक्ताश्च मंदमा नात्र संशयः ॥

उन कुमारोंके जो बालक उत्पन्न हुए वे भोजक कहाये, वे सब ब्राह्मणोंके समान कर्म करनेवाले हुए, कपासका बना भीतरसे पोला सांपकी कैंचलीके समान यज्ञोपवीत सरीखा वस्त्र धारण करते हैं वह १३२ अंगुलका उत्तम, १२० का मध्यम और १०८ का अधम होता है, यह अव्यंग आठवें वर्षमें धारण कराते हैं, वेदका उलट पुलट पाठ करनेसे यह मग नामसे प्रसिद्ध हैं, भोजनके समय मौन रहते, ऋषियोंके समान डाढी रखते हैं, वर्च अर्थात् सूर्यकी अर्चा कहते हैं, उनके पूजक होनेसे यह वर्चाचर्य कहे जाते हैं, आठवें वर्षमें अव्यंग धारण करते हैं, अमाहक पठितांगसार अव्यंगका पर्याय हैं, मैथुन और सूतक के समय यह उतार दिया जाता है, यह तीनों व्याहृतिपूर्वक सूर्यगायत्री जपते और अग्निहोत्र



करते हैं, अभिमंत्रित मद्य सौत्रामणिके समान पीते हैं, जो आठ कुलके ये उनको शर्कोकी कन्या दीगई वे शूद्रकुल हुए, वे भी सब सूर्यके भक्त हुए परन्तु मंदगही कहाये ।

इति शाकद्वीपब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणोत्पत्तिः ।

१२२० सालिवाहनशाके में प्रतिष्ठानपुर (मुंगीपहन) का एक राजा जिसका नाम बिम्ब था उसने कोंकणदेशमें जाकर राज्य किया, और पीछे अपने गुरु रघुनाथके पुत्र पुरुषोत्तमको उस देशमें बुलाकर उनको उत्तरकोंकणकी सब वृत्ति दी, पुरुषोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुरसे अपने सब इष्टमित्रोंको वहां बुला लिया, और इस प्रकार विशेष वृत्ति मिलनेसे शुक्लयजुर्वेदियोंका वहां समूह एकत्र होगया, पीछे राजाकी मृत्यु होनेपर भी इनकी वृत्ति पूर्ववत् चलती रही, पीछे जब चित्तपावन पेशवाका राज्य हुआ. उस समय वेन राजा कोंकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पंक्तिमें महाराष्ट्र ब्राह्मणोंको भोजनके निमित्त आम्रह किया. जब दक्षिण कोंकणमें यह बात उठी तब उत्तर कोंकणकी वृत्तिवाले पुरुषोत्तमभट्टके संबन्धी शुक्लयजुर्वेदियोंके संग कराडे और चित्तपावनोंका बहुत विरोध हुआ कुछ दिनों पीछे उत्तम कोंकणमें वसाईके पलशीवन कुट्ट गावमें एक तुकंभट अभिहोत्री रहते थे, १६६८ शाकेमें चित्तपावन उन्होंने उनका अभिहोत्र भंग किया. तब तुकंभटने अपने शुक्लयजुर्वेदियोंको साथ लेकर सतारेंमें पहुंचकर छत्रपतिसे अपना दुःख निवेदन किया, और छत्रपतिजीने निर्णय करके उनका अभिहोत्र फिर चलवाया; परन्तु वहांके लोग इनको पळशीकर नामसे पुकारने लगे, और कोई २ दक्षिण कोंकण इनको ईर्षासे पळशी नामसे पुकारने लगे, परन्तु यह शुक्लयजुर्वेदी अद्यापि उत्तर कोंकणमें रहते हैं और इस समय भी उत्तम कर्मकाण्डमें रत रहते हैं । इस समय यह महाराष्ट्र सम्प्रदायके अन्तर्गत हैं, इन माध्यन्दिनीय शुक्लयजुर्वेदी ब्राह्मणोंका उपनाम तथा गोत्र और कुलचार सब देशस्थोंके समान है, महाराष्ट्रोंसे इनका भोजन और कन्या सम्बन्ध होता है ।

इति शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ म्होडब्राह्मणोत्पत्तिः ।

पद्मपुराणके पातालखंडमें लिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिरने धौम्यऋषिसे गुजरात देशके घर्मारण्य तीर्थका माहात्म्य पूछा तो उन्होंने कहा उस स्थानमें ब्रह्माजीने बड़ी तपस्या की और विष्णु भगवान्से वर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओंने वहां निवास करनेको तीन गुणोंके सहित निर्माण किया ।

गणैस्त्रिभिस्त्रिभिः कालैर्ब्राह्मणाः प्रकटीकृताः ।

अष्टादशसहस्राणि त्रैविद्यास्ते द्विजोत्तमाः ॥

अर्थात् तीनों गुणोंके सहित १८००० सहस्र ब्राह्मण उत्पन्न किये वे इससे त्रैविद्य त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण कहाते हैं, इनमें छः सहस्र विष्णुने, छः सहस्र ब्राह्मणे और छः सहस्र शंकरने उत्पन्न किये, यह सात्त्विक राजसिक तामसी हुए, इनकी सेवाको शूद्र और वैश्य उत्पन्न किये, इनके चौबीस गोत्र हैं सो चक्रमें लिखते हैं ।

त्रिवेदी म्होडब्राह्मणोंका गोत्रचक्र ।

संख्या	गोत्र प्रवर	देवी	वेद	शाखा	गुण
१	गार्ग्यायनसू-भार्गवच्यवन आप्नुवान्\और्व	जमदग्नि	५	शांता साम कौथुमी सात्त्विक	उत्तम
२	गांगानस-विश्वामित्र विल्वकात्यायन	३	सुखदा यजु	माध्यन्दिनी राजस	मध्यम
३	कृष्णात्रेय-आत्रेय और्ववान् शावाश्व	३	भट्टयोगिनी य०	मा०	तामस अधम
४	माण्डव्य-भार्गवच्यवन शांत आप्नुवान्	जामदग्नि	५	धारमधारिका य०	मा० ता० अ०
५	वैशम्पायन-आंगिरस अम्बरीष यौवनाश्व	३	लिम्बजा य०	मा० ता० अ०	
६	वत्स-भार्गव, च्यवन, आप्नुवान् वत्स	पुरोधस	५	आनजा य०	मा० सा० उ०
७	कश्यप-कश्यप वत्स नैधुव	३	गोत्रडा	० ० ता० अ०	
८	धारणस-अगस्ति दातृव्य इध्मवाह	३	छत्रजा	य० मा० सा० उ०	
९	लौगाक्षि-काश्यपावत्सार शारस्तम्ब	३	महायोगिनी य०	मा० रा० म०	
१०	कौशिक-विश्वामित्र देवरात उद्दालक	३	यक्षिणी	य० मा० रा० म०	
११	उपमन्यु-बलिष्ठ प्रमह भारद्वाज	३	गोत्रडा	य० मा० रा० म०	
१२	वात्स्यायन-भार्गवच्यवन दांत आप्नुवान्	भारद्वाज	५	भट्टारिका य०	मा० रा० म०
१३	वत्सर-भार्गवादि पञ्च	५	चंडिका	य० मा० सा० उ०	
१४	भारद्वाज-आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज	३	श्रीमती	० ० सा० उ०	
१५	गाम्भेय-गार्गेय गांगीय शंखणिः	३	सिंहरोहा	० ० रा० म०	
१६	शौनक-भारद्वाज गृत्समद शौनक	३	महाकाली	य० मा० ता० अ०	
१७	कुशिक-विश्वामित्र देवरात उद्दालक	३	तारणा	,, ,, ता० अ०	
१८	भार्गव-भार्गव च्यवन जैमिनी आप्नुवान्	मथि	५	चासुण्डा ,, ,, ता० अ०	
१९	पैग्य-अत्रि अर्चिः कण्व	३	द्वारवासिनी	,, ,, सा० उ०	
२०	आंगिरस-आंगिरस औतथ्य गौतम	३	मातंगी	,, ,, रा० म०	
२१	अत्रि-आत्रेय और्ववान् शावश्व	३	चंद्रिका	,, ,, सा० उ०	
२२	अधमर्षण-भारद्वाज गौतम अधमर्षण	३	दुर्गा	,, ,, सा० उ०	
२३	जैमिनी-विश्वामित्र देवरात उद्दालक	३	विशालाक्षी	,, ,, रा० म०	
२४	गार्ग्य-भार्गव च्यवन आप्नुवान्	३	नन्दा	,, ,, रा० म०	

ब्रा० उ० मार्तण्डमें लिखा है त्रैविद्यब्राह्मणोंके बकुला नाम स्वामी हैं। इनका निवास वहां मोहूरपुरमें हुआ वहां अनेक देवीदेवताओंका निवास हुआ मातंगीदेवीका इनके विवाहादिमें विशेष पूजन होता है। ब्रह्मावर्तके अन्तर्गत सरस्वतीके दक्षिण तटपर है। कलिमें वह धर्मारण्य मेहूरपुर है, जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यकी यात्रा करते यहां आये तब एक रात रहे वहां रातको एक स्त्रीके रोनेका शब्द सुनपडा, जब रामचन्द्रजीने जाकर रोनेका कारण पूछा तब उसने कहा मैं इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता हूं, ब्राह्मण चलेगये उनको लाकर बसाइये, तब रामचन्द्रजीने वहां त्रैविद्यब्राह्मणोंको लाकर बसाया और गोभुजवैश्योंको भी फिर स्थापन किया। ब्राह्मणोंको एक ताम्रपत्र ग्रामप्रदान सम्बन्धमें लिखा दिया। भगवान् रामचन्द्र तीर्थयात्रा करके घरको लौट गये, जब कलिके आरम्भमें आमनामक बौद्धधर्मी राजा इस देशका हुआ, तब उसने रामचन्द्रका वह ताम्रशासन नहीं माना, और ब्राह्मणोंसे कहा या तो हनूमानजीके दर्शन कराओ नहीं तो ग्राम छीनलंगा, तब उनमें पन्द्रह सहस्र ब्राह्मण तो प्रारब्धको प्रबल मान कर्त्तव्यमूढ हो बैठ रहे, कि अब इस ग्राममें हमारा अंश नहीं रहा, शेष तीन सहस्रोंने कहा तुमने शास्त्रमें पारंगत होकर प्रारब्धको ही मुख्य माना इससे तुम चतुर्वेदी म्होड नामसे विख्यात होंगे, परन्तु हम उद्योगको मुख्य मानकर जायंगे और हनूमानजीका दर्शन करैंगे, और ६४ गोत्रके ७२ वर्गोंमेंसे एक एक को साथ चलनेके लिये कहा कि जो कोई अपने वर्गसे नहीं आवेगा वह स्थान और अपने वर्गसे भ्रष्ट समझा जायगा न वैश्योंसे वृत्ति मिलेगी, न विवाहसम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुर्वेदी ब्राह्मणोंके घरोंसे बीस बलात्कारसे और त्रिवेदी म्होडोंमेंसे ग्यारह ब्राह्मण भक्तिसे हनूमानजीके दर्शनको निकले, उसमें वह बीस तो मार्गमें ही बैठ गये कि दर्शन हो या नहीं; पर ग्यारह जितेंद्रिय होकर रामेश्वरको गये, और वहां अन्न जल त्यागकर बैठे, तब हनूमानजीने दर्शन दिया, और उनका दुःख देख अपने दाहिने बायें अंग के दो रोम देकर कहा कि राजाकी यह बायें अंगको रोम दिखाना जब वह क्रोध करै, तो कहना तेरा राज्य भस्म हो, और तुम नगरके बाहर चले आना, जब नगर जलै और राजा शरण हो तब दूसरी पुडिया डालनेसे शांति कर देना; वे चिह्न लेकर ब्राह्मण ग्राममें आये, और राजाको चमत्कार दिखाया राजाने अपराव क्षमा कराया; और धर्मारण्यके सिवाय सुखवासपुर एक और ग्राम उनके रहनेको दिया, चतुर्वेदी सुखवासपुरमें रहे, कुछ सीतापुर और कुछ श्रीक्षेत्रमें जा रहे उनमेंसे जो बीस चतुर्वेदी ब्राह्मण अधविचर्मसे फिर आये थे, वे दोनों जातियोंसे पृथक् हो आचार भ्रष्ट होनेसे जेठी मल्ल म्होड ब्राह्मण कहाये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित डूप मल्ला म्होडोंके गोत्र पहले कहे हैं, इनकी कुलदेवी लिम्बजाशक्ति धर्मेंश्वर महादेवसे पश्चिमकी ओर इसका स्थान है। तथाहि—

चातुर्वेद्या महाराज संस्थिताः सुखवासके ।  
केचित् सीतापुरे वासं श्रीक्षेत्रे चापरेऽवसन् ॥  
हनूमन्तं प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः ।  
केचिन्मल्लाश्च संजाताःकेचिच्छौडिकयाजकाः ॥

उनमें जो ग्यारह वे इग्यार्षण नामसे विख्यात हुए, वे स्थान वृत्तिसे दूर होकर साभमती नदीके किनारे और ऊपर जहां तहां निवास करने लगे, यह जो त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण थे इनके घरमें गाये बहुत थीं उनके चरानेके निमित्त विद्याहीन ब्राह्मणोंके मूर्ख वालक नियुक्त किये, वे सब गौड़ोंमें ही रहते थे, ग्रामकी कुमारी तथा विधवायें उनको अपने घरोंसे भोजन ले जाती थीं, दोष संसर्गसे कुछ उनमें कन्या और विधवायें उनके संसर्ग हो गर्भवती हुई, यह देखकर उनके माता पिताओंको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने वे कन्या और विधवा जिन २ से दूषित हुई थीं उन २ को देदीं, उनकी वो कार्नीन और गोलक संतान धेनुज म्होड नामसे विख्यात हुईं, और वह उनकी जातिसे भिन्न हुईं पूर्व ब्राह्मणोंका उनके साथ विवाहादि सम्बन्ध बन्द होगया । यह मोहेरपुरके पूर्व सात कोसपर धेनुज नगरमें रहते हैं । यह ब्राह्मणत्वसे गिरगये हैं ।

भिन्ना जातिस्तथैतेषां सम्बन्धो नैव तैः सह ।  
धेनुजा म्होडसंज्ञा ये लोके विख्यातकीर्तयः ॥  
धेनुजाख्यं पुरं तत्र स्थापितं वाऽहेतवे ।

और दूसरे म्होड ब्राह्मणोंके त्रिपाला म्होड, खीजढिया, संवाके म्होड, तांजलिये म्होड, और सुरती कपड बंजी, सरसेजी; कच्छी, हालारी, घोघारी, आदि देश ग्राम भेदसे अनेक सम्वाके भेद हैं, इस ह्योड जातिमें अहमदावादके पास सरखेज ग्राम हैं, वहां सामवेदी शिवराम ह्योड ब्राह्मण अच्छे पंडित थे, इन्होंने शांतिचिन्तामणि आदि कई ग्रन्थ बनाये, इन ब्राह्मणोंके दिव, कोडिनार, जूनागढ, कृतियाणु, पोरवन्दर, झालावाड, हलवद, घागद्रु, मोरवी, बीकानेर, राणेपुर, सियोर, भावन्नगर, अहमदावाद, सूरत, धोलका, भरुच, अंकलेश्वर, विरमगांव, काशी, जामनगर, मांडवी, मुज, नगर यह चौबीस ग्राम हैं, इनमें यह अपनी आजीविका करते हैं ।

इति ह्योड ब्राह्मणोत्पत्तिः । ( गुर्जरसंग्रहायः )

अथ झालोगब्राह्मणोत्पत्तिः ।

ब्राह्मणोत्पत्ति सारसंग्रहमें लिखा है कि विवाह समयमें प्रजापतिका वीर्य उमाके अवलो-  
कनसे पतित हुआ उस समय सत्य कहनेसे शंकरने कहा—

यावन्त्यः सिकता रेतसः प्लुताश्चतुरानन ।  
तावन्त एव मुनयो भवन्तु तव तेजसा ॥

कि तुम्हारे वीर्यसे इस रेतके जितने कण भीगेंगे उतने ही तपस्वी वालखिल्यनामके प्रगट होंगे, ऐसे कहते हैं ८८१२८ तत्त्वज्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, और जहां वह प्रगट हुए वह आश्रम पांच कोसके मध्यमें वालखिल्य आश्रम कहाया, उनमेंसे ६०००० साठ हजार सूर्यकी उपासना करते हुए, सूर्य लोकमें गये । ४९५ ने गंगा यमुनाके मध्यमें तप किया, वे अन्तर्वेदी ब्राह्मण कहाये ।

( गंगायमुनयोर्मध्ये तेषुस्ते परमं तपः )  
परे नव सहस्राणि जम्बुवत्यास्तटे गताः ॥  
रक्षिता गरुडेनैव पतमाना द्विजोत्तमाः ॥  
ततः पञ्चशतान्येव पंचयुक्तानि वै द्विजाः ॥  
द्वारकायां गतास्ते वै रक्षार्थं स्थापिता हरेः ॥  
अष्टादश सहस्राणि ह्यष्टाविंशच्छताधिकाः ॥  
ते सर्वे मुनिशार्दूलाश्चक्रुः स्वाश्रममुत्तमम् ॥

९ नौसहस्रने जम्बुवतीके किनारे तप किया वे जम्बु ब्राह्मण कहाये, पांचसौ ब्राह्मण द्वारकामें गये वे गुग्गुली ब्राह्मण कहाये ॥ १८१२८ अठारह हजार एकसौ अट्ठाईस जो आश्रम करके रहे वे गारीला ब्राह्मण कहाये, गारीले ब्राह्मणोंके १२८ गोत्र हैं शेष एकसौ पचपन गोत्रोंका विभाग वैदिक ग्रन्थोंमें है ६०००० में से ३२ ऋग्वेदके गोत्री, ३३ शाखा हैं वह इस प्रकार हैं, काश्यायण, आग्रयण, आग्रायण, वा ग्रीवायण, बृहत्, धाम, च्यवन, वसुहारुणि, सत्यश्रव, उत्तश्रव, उद्दालक, बृहत्तर, धूम्रायण, बृहद्बभ्रु, गर्हित, काष्ठायन, शाकटायन, मण्डूक, नैध्रुव, मरीचि, शाकल्य, काश्यप, वात्स्य, शौशिर, मुद्गल, आत्रेय, गोलक, जातूकर्ण, रथीतर, अभिमाहर और बलाक ।

यजुर्वेदियोंके ३३ गोत्र और ८६ शाखा हैं वे गोत्र इस प्रकार हैं; पौलस्त्य, वैजश्रुत, क्रौंच, सानुनी, चपल, धावमान, माण्डव्य, गौतम, गार्गी, कात्यायन, भरद्वाज, पाराशर्य, अभिमान्, अनुलोम्य, शांडिल्य, पौलिश, पुशल, चान्द्रमास, अरुण, ताम्रायण, काण्वायन, अर्म, वत्स, नरायण, जामदग्नि, वशिष्ठ, शक्ति, पतञ्जलि, आलवि, हारुणि, मार्गव, पौण्डकायण, सायकायणिः ॥

इसी प्रकार सामवेदके ३२ गोत्र १३ शाखा हैं वे इस प्रकार हैं । विश्वामित्र, देवराज, चितिद, गालव, कुशिक, कौशिक, ब्रूहन्त, सान्तम, उदधि, खलवानैल, जावालि, याज्ञवल्क्य,

आहुल, सैन्धवायन, गोभिलायन, शौरिकि, लांगलि, कुथम, औदल. सरलद्वीप, अंशम, अपा-  
वयन, वेदवृद्ध, वैशाख, भाजुकि, लोमगायन, लौगाक्षि, पुष्पजित्, कंदु, राणायणयन ।

इसी प्रकार आथर्वणोंके ३१ गोत्र और नौ शाखा हैं. औतथ्य, गौतम, वात्स्य, सौदेव,  
वर्चस, शांडिल्य, कपि, कौडिन्य, मांड्य, त्रय्यारुणि, कौनक, नोलक, औदवाह, वृहद्रथ,  
शौल्कायन; संविद्य, सोमदत्ति, सुशर्मक, सावर्णि, पिप्पलाद. हास्तिन, शांशपायन, जांजलि,  
मुञ्जकेश, अंगिरा, अग्निवर्चस, कुसुद, आदिगुह, पथ्य, रोहिण, रौहिणायन, यह इकतीस  
गोत्र हैं, यह सब एक सौ अट्ठाईस होते हैं, परंतु सात गोत्र उसी समय नहीं रहे इससे १२१  
रहे । झालोरामें रहनेसे झालोरा ब्राह्मण कहाये उनके १२८ गोत्र हैं ।

जम्बु ब्राह्मणोंके वैगायन, वीतिहव्य, पौल, अनुसातिक, शोनकायन, जीवंति, कावेदी,  
पार्षति, वैहेति, निर्विरूपाक्षि, आदित्यायनि, मृतमार, पिंगाक्षि, जहिन, वीतिन. स्थूल, शिखा-  
पर्ण और शार्कराक्ष, यह १८ गोत्र हैं ।

अन्तरवेदी ब्राह्मणोंके व्याघ्रपाद. उपवीर, लैलव, कारलायन, लोभायन, स्वतिकार, चांद्रालि,  
गाविनी, शैलेय, सुमना और वैधृत यह ग्यारह गोत्र हैं ।

गुग्गुली ब्राह्मणोंके कौडिन्य, शौनक, वात्स्य, कौत्स, शांडायनीक यह पांच गोत्र हैं,  
२८३ गोत्र होते हैं ।

ब्रह्माजीने कालोरा ग्राममें रहनेवाले ब्राह्मणोंके निमित्त एक कलशमें होमकरके १८१२८  
कन्या उत्पन्न कीं, और उनसे उनका विवाह करदिया, वे सब झालोरा कहाये, इनका स्थान  
इस समय शमीदूर्वा नामसे विख्यात हैं, इसको जाल्योदशमी कहते हैं ।

इति झालोरा ब्राह्मणोत्पत्तिः । ( गुर्जरः )

अथ गुग्गुलीब्राह्मणोत्पत्तिः ।

स्कन्दपुराणान्तर्गत द्वारका माहात्म्यमें लिखा है कि—

ब्रह्मविष्णुशिवैश्वर्यं वरान् दत्त्वा महर्षयः ।

स्थापिता द्वारकायां च देवदेवेन विष्णुना ॥

स्वीयाश्रमविशुद्धयर्थं समिद्गुग्गुलजुह्वकाः ।

सर्वपापविनिर्मुक्तास्तेन गुग्गुलिकाः स्मृताः ॥

जिस समय वालखिल्य ऋषियोंको बरदान दिया उस समय भगवान् विष्णुने कुछ ब्राह्मणों  
को द्वारकामें स्थापित किया उन्होंने वहां अपने आश्रमकी शुद्धिके लिये समिधा और गुग्गुलुसे  
होम किया, वह इस कर्मसे सब पापसे रहित हुए, और गुग्गुली ब्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामें  
श्रेष्ठ ब्राह्मण निजकर्ममें तदपर हुए, इनको दान देनेसे द्वारकाकी यात्रा सफल होती है ।  
इनका यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा और कुलदेवता श्रीद्वारकाधीश हैं, २७ अवटङ्क हैं, इनमें  
बारह नष्ट हो गये हैं १५ मिलते हैं जो मिलते हैं उनके नाम लिखते हैं ।

( १६४ )

जातिभास्करः-

१	मीन	८	भट	१५	घेगटा
२	वायडा	९	चुवानभट	१६	ठाकोर
३	पाढ	१०	पढीयार	१७	चारणवोरठाकोर
४	पाठक	११	मांडियार	१८	घेघटाठाकोर
५	पुरोहित	१२	उपाध्याय	१९	कणबीगोरठाकोर
६	जोशी	१३	व्यास	२०	होराठाकोर
७	द्विवेदी	१४	घटकाई	२१	पिंडारियाठाकोर

इति गुग्गुलुब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ चित्तपावनकोंकणस्थ ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

स्कन्दपुरके सद्वाद्री खण्डमें महादेवजी कहते हैं कि एक समय परशुरामजी समुद्रसे भूमि मांगकर शूर्पारक क्षेत्रमें निवास करते हुए वहां ब्राह्मण-स्थापनकी इच्छा करने लगे और प्रभात समयमें सागरके किनारे खड़े थे कि—

चितास्थाने तु सहसा ह्यागतांश्च ददर्श सः ।

का जातिः कश्च धर्मश्च कस्थाने चैव वासनम् ॥

कैवर्तका ऊचुः—

ज्ञातिं पृच्छसि हे राम ज्ञातिः कैवर्तकीति च ।

तेषां षष्टिकुलं श्रुत्वा पवित्रमकरोत्तदा ॥

ब्राह्मण्यं च ततो दत्त्वा सर्वविद्यासु लक्षणम् ।

चितास्थाने पवित्रत्वाच्चित्तपावनसंज्ञकाः ॥ १७ ॥

वहां अकस्मात् चिताभूमिके निकट कुछ पुरुष आकर खड़े हुए, उनसे परशुरामने पूछा तुम कौन हो वे बोले हम कैवर्त हैं, हमारा साठ गांवका समूह है, परशुरामने चितास्थान पर उनको अपने तपोबलसे ब्राह्मणत्वमें परिवर्तित किया और चितास्थानपर पवित्र होनेसे चित्तपावन उनका नाम रक्खा, वे सब परशुरामकी कृपासे गौर वर्ण विद्या सम्पन्न हो गये, उनको चौदह गोत्र और साठ उपनाम दिये, पीछे प्रारब्धयोगसे उन्होंने परशुरामकी ही परीक्षा करनी चाही तब परशुरामके शापसे ही वे निन्द्य और सेवा कर्म परायण हुए, पीछे परशुरामजीने इनको चिपलोन नाम ग्राममें वसाकर यथा स्थानमें गमन किया, इनमें बहुतोंका तैत्तिरीय शाखा सम्बन्धी यजुर्वेद है यह लोग व्यापारनिष्ठ और गुणी होते हैं, भोजन व्यवहार इनका महाराष्ट्रमें होता है। कन्यासम्बन्ध कोंकणस्थोंमें होता है, माघव ऋत शतप्रश्नावलीमें ऐसा लिखा है कि सद्वाद्रीके पश्चिम ओर गृहस्थी वेद शास्त्र

संपन्न चौदह ब्राह्मण रहते थे, दैवयोगसे सागरतीरवासी वर्वरम्लेच्छ उनको पकडकर लेगये ( नीता सागरमध्यस्थैर्म्लेच्छैर्वरकादिभिः ) और उनकी संगतिसे वे कर्मभष्ट होगये; उनकी संतानें हुई पीछे वे अपना ब्राह्मणत्व विचार परशुराम की शरणमें गये और परशुरामने अपने तपोबलसे उनको शुद्ध किया उनको पूर्वोक्त चौदह गोत्र और साठ उपनाम दिये, इनकी चित्तशुद्धि की, इस कारण इनका नाम चित्तपावन हुआ, तैत्तिरीय और शाकल यह इनकी दो शाखा निर्धारित कीं, इनका एक भेद कर्कल है वह मत्स्यभोजी कन्याविक्रयकर्ता पक्षि-पालक और मधुरभाषी होते हैं, सद्वाद्वि खण्डका २२ वां अध्याय इस विषयमें देखन-चाहिये, इसमें तीसरा भेद किरवन्त है यह पानोंका व्यौपार करनेके और उनके कीडे मारनेके कारण किरवन्त कहाये और निन्द्य हुए, कोई किलवन्त भी कहाते हैं, जवल और कुडव ऐसे उनके दो भेद और हैं, यह समान प्रवर्गमें कन्यासम्बन्ध कर लेते थे इससे एक भेद सप्रवर हुआ ४१० शाकेमें इस दोषसे यह मुक्त हुए हैं ।

इति कौकणस्थचित्तपावनब्राह्मणोत्पत्तिः

अथ गोत्रप्रवरचक्रम् ।

संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या	संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या
१	चित्ठे	१ अत्रि	१	१८	वैशंपायन	१ नैतुंदन	१
२	आठवले	२ अ०	२	१९	भांडभोके	२ नै०	२
३	फडके	३ अ०	३	२०	भिडे	१ नै०	३
४	मोने	४ अ०	४	२१	सहस्रबुद्धे	२ नै०	४
५	जोगळेकर	५ अ०	५	२२	पिंपळखरे	३ नै०	५
६	वाडदेकर	६ अ०	६	२३	पटवर्द्धन	१ कौडिन्य	१
७	चिपळूणकर	७ अ०	७	२४	फणशे	२ कौ०	२
८	चाफेकर	८ अ०	८	२५	आचारी	१ कौडिन्य	३
९	चोळकर	९ अ०	९	२६	मालशे	१ वत्स	१
१०	दामोळकर	१० अ०	१०	२७	उकिडवे	२ व०	२
११	भांडभोके	११ अ०	११	२८	गांगल	३ व०	३
१२	पेंडसे	१ जम०	१	२९	जोशी	४ व०	४
१३	कुण्टे	२ ज०	२	३०	काळे	५ व०	५
१४	भागवत	२ ज०	३	३१	घाघरेकर	१ व०	६
१५	बाल	१ ब्राभ्रव्य	१	३२	सोहनी	२ व०	७
१६	बेहेरे	२ बा०	२	३३	गोरे	३ व०	८
१७	काळे	१ बा०	३	३४	दामोळकर	४ व०	९



( १६६ )

## जातिभास्करः-

संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या	संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या
३५	किडमिडे	१	विष्णुवर्द्धन	१	६६ सोवनी	५ भा०	११
३६	नेने	२	वि०	२	६७ जोशी	६ भा०	१२
३७	परांजपे	३	वि०	३	६८ आखवे	७ भा०	१३
३८	मेंहदळे	४	वि०	४	६९ राहाळकर	८ भा०	१४
३९	मंडलीक	१	वि०	५	७० कण्या	९ भा०	१५
४०	देव	२	वि०	६	७१ करवे	१ गार्ग्य	१
४१	वेलणकर	३	वि०	७	७२ गाडगीळ	२ गा०	२
४२	लिमये	१	कपि	१	७३ लोंढे	३ गा०	३
४३	खांबेटे	२	क०	२	७४ माटे	४ गा०	४
४४	माडल	३	क०	३	७५ दाबके	५ गा०	५
४५	जाडल	४	क०	४	७६ जोशी	१ गा०	६
४६	काळे	१	क०	५	७७ थोरात	२ गा०	७
४७	विद्वांस	२	क०	६	७८ घाणेकर	३ गा०	८
४८	करंदीकर	३	क०	७	७९ खंगले	४ गा०	९
४९	मराठे	४	कपि	८	८० केलणकर	५ गा०	१०
५०	साने	५	क०	९	८१ गोरे	६ गा०	११
५१	रराटे	६	क०	१०	८२ वझे	७ गार्ग्य	१२
५२	भागवत	७	क०	११	८३ भुसकुटे	८ गा०	१३
५३	दलाल	८	क०	१२	८४ सुतार	९ गा०	१४
५४	चक्रदेव	९	क०	१३	८५ वैद्य	१० गा०	१५
५५	घारप	१०	क०	१४	८६ बेंढेकर	११ गा०	१६
५६	आचवल	१	भारद्वाज	१	८७ भट	१२ गा०	१७
५७	टेण्डे	२	भा०	२	८८ भागवत	१३ गा०	१८
५८	दरवे	३	भा०	३	८९ म्हसकर	१४ गा०	१९
५९	घंवाल	४	भा०	४	९० केतकर	१५ गा०	२०
६०	घांगुरडे	५	भा०	५	९१ दाबके	१६ गा०	२१
६१	रानडे	६	भा०	६	९२ राजमाचीकर	१७ गा०	२२
६२	गोळे	१	भा०	७	९३ गद्रे	१ कौशिक	१
६३	वैद्य	२	भा०	८	९४ बाम	२ कौ०	२
६४	मनोहर	३	भा०	९	९५ भाद्रे	३ कौ०	३
६५	घैसास	४	भा०	१०	९६ वाड	४ कौ०	४

भाषाटीकासंवलितः ।

( १६७ )

संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या	संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या
९७	आपटे	५ कौ०	५	१२८	पालकर	९ क०	१४
९८	बर्वे	१ कौ०	६	१२९	ठोंसर	१० क०	१५
९९	वापये	२ कौ०	७	१३०	ओगले	११ क०	१६
१००	भावये	३ कौ०	८	१३१	बिबलकर	१२ क०	१७
१०१	आगाशे	४ कौ०	९	१३२	बडवे	१३ क०	१८
१०२	गोडबोले	५ कौ०	१०	१३३	कान्हेरे	१४ क०	१९
१०३	पाळन्दे	६ कौ०	११	१३४	मटकर	१५ क०	२०
१०४	देवधर	७ कौ०	१२	१३५	फाळके	१६ क०	२१
१०५	सटकर	८ कौ०	१३	१३६	सुंकले	१७ क०	२२
१०६	कानिटकर	९ कौ०	१४	१३७	भट	१८ क०	२३
१०७	देवल	१० कौ०	१५	१३८	तरणे	१९ क०	२४
१०८	वर्तक	११ कौ०	१६	१३९	दामोदर-	२० क०	२५
१०९	खरे	१२ कौ०	१७	१४०	भेलाढ	२१ क०	२६
११०	शेंड्ये	१३ कौ०	१८	१४१	कुडवे	२२ क०	२७
१११	कोलटकर	१४ कौ०	१९	१४२	वेद्रे	२३ क०	२८
११२	फाटक	१५ कौ०	२०	१४३	कायशे	२४ क०	२९
११३	खुळे	१६ कौ०	२१	१४४	साठे	१ वशिष्ठ	१
११४	लावणेकर	१७ कौ०	२२	१४५	बोडस	२ व०	२
११५	लेले	१ कश्यप	१	१४६	ओक	३ व०	३
११६	गानू	२ क०	२	१४७	बापट	४ व०	४
११७	जोग	३ क०	३	१४८	वागुल	५ व०	५
११८	लवाटये	४ क०	४	१४९	धारप	६ व०	६
११९	गोखले	५ क०	५	१५०	गोगटे	७ व०	७
१२०	दातार	१ क०	६	१५१	भामे	८ व०	८
१२१	करमरकर	२ क०	७	१५२	पोकसे	९ व०	९
१२२	शिन्ने	३ क०	८	१५३	विसे	१० व०	१०
१२३	जोशी	४ क०	९	१५४	गोवडे	११ व०	११
१२४	वेलणकर	५ क०	१०	१५५	कारलेकर	१ व०	१२
१२५	भानु	६ क०	११	१५६	दातार	२ व०	१३
१२६	छत्रे	७ क०	१२	१५७	दांडेकर	३ व०	१४
१२७	खाडिलकर	८ क०	१३	१५८	पेंडसे	४ व०	१५

( १६८ )

## जातिभास्करः-

संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या	संख्या	उपनाम	गोत्र	गोत्रसंख्या	
१५२	घारपुरे	५	व०	१६	१९१	डोंगरे	शां०	१७
१६०	पर्वःये	६	व०	१७	१९२	केळकर	शां०	१८
१६१	अभ्यंकर	७	व०	१८	१९३	विद्वांस	शां०	१९
१६२	दात्ये	८	व०	१९	१९४	काळे	शां०	२०
१६३	मोडक	९	व०	२०	१९५	मांइल	शां०	२१
१६४	सावरकर	१०	व०	२१	१९६	भोगले	शां०	२२
१६५	भातखंडे	११	व०	२२	१९७	सहस्रबुद्धे	शां०	२३
१६६	दाणेकर	१२	व०	२३	१९८	काणे	शां०	१
१६७	कोपरकर	१३	व०	२४	१९९	टिळक	शां०	२
१६८	वैद्य		व०	२५	२००	कानडे	शां०	३
१६९	विनोद		व०	२६	२०१	नित्सुरे	शां०	४
१७०	दिवेकर		व०	२७	२०२	गोडसे	शां०	५
१७१	नातु		व०	२८	२०३	पाटणकर	शां०	६
१७२	महाबल		व०	२९	२०४	शिंत्रे	शां०	७
१७३	साठये		व०	३०	२०५	व्यास	शां०	८
१७४	राणे		व०	३१	२०६	घनवटकर	शां०	९
१७५	सोमण	शांडिल्य		१	२०७	लावणेकर	शां०	१०
१७६	गांगल	शां०		२	२०८	पद्ये	शां०	११
१७७	भाटये	शां०		३	२०९	मये	शां०	१२
१७८	गणपुले	शां०		४	२१०	चेहरे	शां०	१३
१७९	दामले	शां०		५	२११	रिसबुड	शां०	१४
१८०	जोशी	शां०		६	२१२	सिद्धये	शां०	१५
१८१	परचुरे	शां०		७	२१३	उपाध्ये	शां०	१६
१८२	थत्त	शां०		८	२१४	राजवाडकर	शां०	१७
१८३	ताम्हनकर	शां०		९	२१५	सिधोरे	शां०	१८
१८४	टकले	शां०		१०	२१६	कौंशिकर	शां०	१९
१८५	आंवडेकर	शां०		११	२१७	पलनिटकर	शां०	२०
१८६	धामणकर	शां०		१२	२१८	वाटवेकर	शां०	२१
१८७	लुळपुळे	शां०		१३	२१९	नरवणे	शां०	२२
१८८	तीवरेकर	शां०		१४	२२०	पावसे	शां०	२३
१८९	माटे	शां०		१५	२२१	कोपरकर	शां०	२४
१९०	पावगी	शां०		१६	२२२	माटे	शां०	२५

गौत्रसंख्या	उपनामसंख्या	गौत्र	प्रवरोंके नाम
१	११	अत्रि०	आत्रेयार्चनानसश्यावाश्वेति ३
२	३	जामदग्न्य	
३	३	वाध्वय	
४	५	नैतुंदन	
५	३	कौडिन्य	
६	९	वत्स	भार्गवच्यवनाप्रवानौर्वजामदग्न्येति पंच भार्ग- वोर्वजामदग्न्येति त्रयः
७	७	विष्णुव.	आंगिरसपौरकुत्सत्रासदस्येवेति०
८	१४	कपि	आंगिरसवार्हस्पत्यकापेयेति अन्यान्यपित्राणि पक्षाणि सन्ति ।
९	१५	भारद्वाज	आंगिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति त्रयः ।
१०	२२	गर्ग	आंगिरससेन्यगार्ग्येति ३ पंच वा ।
११	२२	कौशिक	विश्वामित्रदेवरातोद्वालकेति त्रयः ३ ।
१२	२९	कश्यप	कश्यपवत्सनेध्रुवेति त्रयः ।
१३	२१	वशिष्ठ	वशिष्ठशक्तिपराशरेति त्रयः ।
१४	४८	शाण्डिल्य	असितदेवलशाण्डिल्येति त्रयः ।

अथ षष्ट्युपनामचक्रम् ।

१ अभ्यंकर	१६ गाडगीळ	३१ ताम्हनकर	४६ वत
२ आठवले	१७ गडबोले	३२ तुळपुळे	४७ भाडमोंके
३ आचवल	१८ गोखले	३३ श्चे	४८ मराठे
४ उकिडवे	१९ गांगल	३४ दर्वे	४९ माइल
५ करवे	२० घेवाल	३५ दावके	५० रानडे
६ करंदीकर	२१ घांगुरंडे	३६ धामणकर	५१ लिमये
७ काळे	२२ चित्तळे	३७ नेने	५२ लोंडे
८ कारलेकर	२३ चापेकर	३८ नातु	५३ वेलणकर
९ किडमिडे	२४ क्षत्रे	३९ परांजपे	५४ वैशंपायन
१० कुंटे	२५ जोशी	४० पटवर्द्धन	५५ शित्रे
११ केळकर	२६ जोग	४१ फडके	५६ साठे
१२ कोकेकर	२७ जोगळेकर	४२ फणशे	५७ सोमण
१३ खाडिलकर	२८ टेंबे	४३ वर्वे	५८ सोवनी
१४ खोत	२९ टकले	४४ वाल	५९ सोहनी
१५ गणपुले	३० डोंगरे	४५ बेहरे	६० सहस्रबुद्धे

इति चक्रम् ।

## बंगाली ब्राह्मण ।

बंगदेशमें राठी और वारेन्द्र वैदिक प्रकृति कई एक श्रेणीके ब्राह्मण निवास करते हैं उनमें राठीय ब्राह्मण विशेष सम्मानित और संख्यामें अधिक हैं। इन्होंने कान्यकुब्ज देशसे वहां गमन किया है। यह किस समय और क्यों वहां गये सो विस्तारसे कहते हैं।

बौद्धधर्मके प्रादुर्भाव कालमें उसके अप्रतिम तेजके प्रभावसे बंग विहारादि देशोंमें सनातन आर्यधर्मकी प्रभा प्रायः अस्तमित होगई थी। नये धर्मके प्रतिघातसे प्राचीन आर्यधर्म थरथर कम्पित होता था। लोकमें उस समय नये धर्ममें अनुराग होने लगा था। वैदिक क्रियाकाण्ड भयके कारण लोप होने लगा, जब कालक्रमसे भगवान् शंकराचार्यने जन्म ग्रहण कर १०३२ मर्तोका निराकरण कर बौद्धोंको सर्वथा परास्त किया, और आर्यधर्मकी उन्नति होने लगी। जिस समय महाबल पराक्रान्त राजा आदिशूर बंग सिंहासनपर विराजमान थे, उस समय ब्राह्मणोंके वर्मकी अवस्था शोचनीय थी। एक समय राजा आदिशूरने पुत्रेष्टि यज्ञ करनेकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; बंगालमें उस समय ब्राह्मणगण वेदादि शस्त्रोंसे अनभिज्ञ, आचारभ्रष्ट और ब्राह्मण्यशक्तिविहीन थे। उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन वा कार्यसिद्धिकी संभावना न जानकर वेदपारगामी, यज्ञकार्यविशारद, सद्दशभूत पांच ब्राह्मणोंके भेजनेको कान्यकुब्जाधिपति महाराज वीरसिंहके निकट दूत भेजा। कान्यकुब्ज राजाने उनकी प्रार्थनाके अनुसार वेदविशारद, क्रिया दक्ष, महाप्रभावशाली पांच गोत्रके पांच ब्राह्मण भेज दिये। इन ब्राह्मणोंने शके ९९९ में उस देशमें गमन किया था। “ आदिशूरो नवनवत्यधिकनवशतीशताब्दे पञ्च ब्राह्मणानानयामास,, । विद्यासागर-कृत कृष्ण-चरित्र ।

कान्यकुब्जात्समानीतान्दूतेन द्विजपंचकान् ।  
वेदशास्त्रेष्ववगतान्त्सर्वास्त्रे च विशारदान् ॥  
गोयानारोहितान्विप्रान्खड्गचर्मादिभिर्युतान् ।  
पत्तिवेशान्त्समालोच्य विषादो जायते हृदि ॥  
अश्रद्धा जायते राज्ञ इति ज्ञात्वा द्विजोत्तमाः ।  
आशीर्वादार्थनिर्माणं मल्लकाष्टोपरि स्थितम् ॥  
तदा काष्ठं सजीवं स्यात्फलपल्लवसंयुतम् ।  
इति दृष्ट्वा नृपस्तस्मिन्कम्पान्वितकलेवरः ॥  
स्तोत्रं च बहुधा तेषामकरोत्स नृपोत्तमः ।

इति देवीवरघटकृतकारिका ।

देवीवर-घटककृत-कारिकामें लिखा है । कान्यकुब्ज देशसे दूतोंके द्वारा बुलाये हुए वेदशास्त्रमें निपुण, संपूर्ण अस्त्रोंमें पंडित, ढाल तलवार लिये, बैलोंकी गाडीमें बैठे, पांच ब्राह्मणोंको राजद्वारमें उपस्थित हुआ देखकर दूतोंने राजासे कहा । राजा उनके वीरवेशकी कथा सुनकर दुःखी हुआ । वे ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाकी अश्रद्धाभावको जान गये । उसको आशीर्वाद देनेको जो निर्माल्य लाये थे वह निकटवर्ती एक मल्लकाष्ठके ऊपर स्थापन कर दिया । उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि अर्घ्यस्थापनमात्रसे ही वह शुष्क मल्लकाष्ठ उसी क्षणमें फलपत्तोंसे शोभित होकर सजीव हो उठा । यह देखते ही वह तृपश्रेष्ठ भयसे कंपित शरीर होकर उन ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगा ।

तब ब्राह्मणोंने प्रसन्न होकर राजाको आशीर्वाद दिया फिर राजाने उन पांच महापुरुषोंके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया इस यज्ञके अमोघ प्रभावसे संवत्सरमें राजाको पुत्र हुआ । उस समय राजाने विविध प्रकारकी सामग्रीसे उन ब्राह्मणोंको तृप्त कर अपने देशमें रहनेका बड़ा अनुरोध किया । वह राजाकी भक्ति और विनयसे संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा करते हुए राजाने पञ्चकोटि, कामकोटि, हरिकोटि, कंकग्राम और वटग्राम ये पांच ग्राम उनके निवास करनेको दे दिये । जिनमें वे निवास करने लगे, इन पांच महापुरुषोंसे वंगदेशमें राठी वारेन्द्र श्रेणीके ब्राह्मण समूह उत्पन्न हुए और उनके सहित जो पांच जन अनुचर थे उनके सकाशसे उस देशमें कायस्थ जन उत्पन्न हुए ।

भट्टनारायणो दक्षो वेदगर्भोऽथ छान्दडः ॥  
 अथ श्रीहर्षनामा च कान्यकुब्जात्समागतः ।  
 शाण्डिल्यगोत्रजश्रेष्ठो भट्टनारायणः कविः ॥  
 दक्षोऽथ काश्यपः श्रेष्ठो वात्स्यः श्रेष्ठोऽथ छान्दडः ॥  
 भरद्वाजकुलश्रेष्ठः श्रीहर्षो हर्षवर्द्धनः ।  
 वेदगर्भोऽथ सावर्णो यथा वेद इति स्मृतः ॥  
 पञ्चकोटिः कामकोटिर्हरिकोटिस्तथैव च ।  
 कंकग्रामो वटग्रामस्तेषां स्थानानि पंच च ॥

इति कुलदीपिका ।

कुलदीपिकामें लिखा है । भट्टनारायण, दक्ष, वेदगर्भ, छान्दड और श्रीहर्ष ये कान्यकुब्ज देशसे आये थे । कवि भट्टनारायण शाण्डिल्यगोत्री, दक्ष काश्यपगोत्री, छान्दड वात्स्यगोत्री, हर्षवर्द्धन हर्ष भारद्वाजगोत्री, वेदगर्भ सावर्णगोत्रमें उत्पन्न वेदकी तुल्य हुए पञ्चकोटि, कामकोटि, हरिकोटि, कङ्कग्राम, वटग्राम ये पांच इनके स्थान थे ।

भट्टः षोडशोद्भूता दक्षतश्चापि षोडश ।  
चत्वारः श्रीहर्षाज्जाता द्वादशा वेदगर्भतः ।  
अष्टावथ परिज्ञेया उद्भूताश्छान्दडान्मुनेः ॥

इति कुलरमः ।

भट्टसे सोलह पुत्र, दक्षसे सोलह, श्रीहर्षके चार, वेदगर्भके बारह और छान्दडके आठ सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए इस प्रकार इन पांच महात्माओंसे ५६ पुत्र हुए हैं ।

इन ५६ को रहनेके निमित्त राजाकी आज्ञासे एक २ ग्राम मिला था । ये जिस २ ग्राममें रहे उनकी सन्तान उसी उसी गांवके नामानुसार बोली जाती थी । उनको गाईं अर्थात् ग्रामवासी कहने लगे ।

भट्ट नारायणके १६ पुत्र थे इन्होंने राजासे १६ ग्राम भेंटमें पाये थे इस कारण षोड-शागाईंकी उपाधि प्राप्त थी ।

वन्धः कुसुमो दीर्घाङ्गी घोषली वटव्यालकः ।  
पारी कुली कुशारिश्च कुलभिः सेयको गडः ॥  
आकाशः केशरी माषो वसुयारिः करालकः ।  
भट्टवंशोद्भवा एते शांडिल्ये षोडश स्मृताः ॥

इति कुलदीपिका ।

कुलदीपिकामें लिखा है । वन्ध, कुसुम, दीर्घाङ्गी, घोषली, वटव्यालक, पारी, कुली, कुशारि, कुलभी, सेयक, गड, आकाश, केशरी, माष, वसुयारी, करालक ये शांडिल्यगोत्री भट्टके सोलह कुमार जन्मे थे ।

दक्षके सोलह पुत्र हुए उन्होंने सोलह ग्राम पाये । उनको भी सोलह गांवकी उपाधि प्राप्त हुई ।

चट्टोऽम्बुली तैलवाटी पोडारिर्हडगूढकौ ।  
भूरिश्च पालधिश्चैव पर्कटिः पुषली तथा ॥  
मूलग्रामी च कोयारी पलसायी च पीतकः ।  
सिमलायी तथा भट्ट इमे काश्यपसंज्ञकाः ॥

इति कुलदीपिका ।

चट्ट, अम्बुली, तैलवाटी, पोडारि, हड, गूढक, भूरि, पालधि, पर्कटि, पुषली, मूल-ग्रामी, कोयारी, पलसायी, पीतक, सिमलायी, भट्ट ये काश्यपगोत्री दक्षके कुमार हुए ।

श्रीहर्षके चार पुत्र, उसके अनुसार यह वंश चारगाईं कहाया ।

आदौ मुखटी डिण्डी च साहरी राइकस्तथा ।  
भारद्वाजा इमे जाताः श्रीहर्षस्य तनूद्भवाः ॥

इति कुलदीपिका ।

मुखटी, डिण्डी, साहरी. राइक ये चार पुत्र भारद्वाज गोत्र श्रीहर्षके उत्पन्न हुए । वेदगर्भके बारह पुत्र हुए, उनके अनुसार इनको बारह गाँई की उपाधि मिली ।

गांगलिः पुंसिको नन्दी घण्टाकुन्दसियारिकाः ।  
साटो दायो तथा नार्या पारी वाली च सिद्धलः ॥  
वेदगर्भोद्भवा एते सावर्णे द्वादश स्मृताः ॥

इति कुलदीपिका ।

गांगलि ( गंगोली ), पुंसिक, नन्दीग्रामी, घण्टेश्वरी, कुन्दग्रामी, सियारिक, साटे, दायी, नार्या, पारीहाल, वाली, सिद्धल, ये विख्यात वारह पुत्र सावर्ण गोत्र वेदगर्भके हुए ।

छन्दडके आठ पुत्र हुए उनके अनुसार वे आठ ग्रामी कहाये ।

काञ्चिविह्वी महिन्ता च पूतितुण्डश्च पिप्पली ।  
घोषालो वापुलिश्चैव काञ्जरी च तथैव च ॥  
सिमलालश्च विज्ञेया इमे वात्स्यकसंज्ञकाः ॥

इति कुलदीपिका ।

काञ्चिविह्वी, महिन्ता, पूतितुण्ड, पिप्पली, घोषाल, वापुलि, काञ्जरी, सिमलाल ये वात्स्य-  
गोत्री छान्दडके पुत्र हुए ।

आदिशूरके बुलाये ब्राह्मणादिके वंशोंके कई एक पुरुष गत होगये इन वंशोंको विद्या चर्चा और सदाचारका लोप होने लगा । इनके दोषोंके निवारणकी इच्छासे आदिशूरके दौहित्रिवंशके अधस्तन सप्त पुरुष वंगाधिपति महाराज वल्लालसेनने कुलकी प्रथा संस्थापित की । उन्होंने नौ लक्षणोंको कुलीनताका गुण निर्धारित किया वे ये हैं:--

आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम् ।  
निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणम् ॥

इति कुलदीपिका ।

कुलदीपिकामें लिखा है । आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, कर्मनिष्ठा, श्रेष्ठ वृत्ति, तप, दान यह नौ कुलके लक्षण हैं । ब्राह्मणादि वंशोंमें जिनमें नौ गुण पाये गये उनको उस राजाने कौलीन्य पदवी प्रदान की । राठीय ब्राह्मणोंके ५६ ग्राम थे । उनमें



कन्य, चट्ट, मुखटी, घोपाल, पूतितुण्ड, गांगोली, कांजीलाल और कुन्द्रग्रामी ये आठ गाँई संपूर्ण रूपसे नवगुण--विशिष्ट थे इस कारण इनको कौलीन मर्यादा प्राप्त हुई। पालधी, पर्कटी सिमलायी, वापुली आदि चौतीस गाँई। आठ गुण विशिष्ट थे, इसकारण इनको श्रोत्रिय संज्ञा प्राप्त हुई। और दीर्घांगी, पारिहा, कुलमी, पोडारी प्रभृति चौदह गाँई न्यून गुणोंसे संयुक्त थे इस कारण इनकी गौण कुलीन संज्ञा हुई। इनके सिवाय वंशज नाम और प्रकारके ब्राह्मण हैं, ये सब कुलीन निःकृष्ट वंशमें कन्या लेने देनेसे अपने माहात्म्यसे रहित हो गये। उन्हींकी वंशज संज्ञा हुई है। वंशजोंकी मर्यादा गौण कुलीनोंके बराबर है।

### वारेन्द्र श्रेणीके ब्राह्मण ।

कान्यकुब्ज देशसे आया हुआ पंच ब्राह्मणरूप यह महावृक्ष बंगाल देशमें रोपित हुआ। राठी और वारेन्द्र श्रेणी उनकी दो शाखा मात्र हैं। दोनों श्रेणी ही आदिशूरके बुलाये पंचयाज्ञिक ब्राह्मणोंसे अपनी उत्पत्ति वर्णन करते हैं। राठीय कुल शास्त्रके मतसे पांच ब्राह्मणोंके नाम भट्टनारायण, दक्ष, वेदगर्भ, छान्दड और श्रीहर्ष हैं। और वारेन्द्रोंके मतसे उनके नाम नारायणभट्ट, सुसेन, पराशर, गदाधर और गौतम हैं। परन्तु गोत्र दोनों पक्षोंमें एक ही प्रकार हैं। किस समय और किस प्रकार कान्यकुब्ज संतान दो श्रेणीमें विभक्त हुए इसका यथार्थ निर्णय करना कठिन है। कोई कोई अनुमान करते हैं कि, सात आठ पुरुषोंके उपरान्त कान्यकुब्ज गणकी विलक्षण वृद्धि हुई। तब उनके मध्यमें गृह विच्छेद प्रारम्भ हुआ, तब वे दो भागोंमें विभक्त होकर पृथक् पृथक् दो स्थानोंमें निवास करने लगे। जो राठदेश अर्थात् भागीरथीके पश्चिम और गंगाके दक्षिण तीरके मध्यवर्ती स्थानोंमें निवास करने लगे उनकी राठीय संज्ञा हुई और जो वारेन्द्र देश अर्थात् पद्मा नदीके उत्तर एवं करतोया और महानदीके मध्यवर्ती प्रदेशमें वास करने लगे वे वारेन्द्र नामसे अभिहित हुए। कोई कोई कहते हैं, इन महाराजा बल्लालसेनने कौलीन मर्यादा व्यवस्थापनके पहले ब्राह्मणोंको दो श्रेणीमें विभक्त किया था। जो हो श्रेणी बन्धनसे प्रथम दोनों श्रेणीका ज्ञातित्वसम्बन्ध एकबार लोपसा होकर परस्पर आहार, व्यवहार, आदान प्रदानादि रहित हो गया था। दोनों श्रेणीकी वर्तमान अवस्था देखनेसे यह एक ही आदिपुरुषसे सम्भूत हैं यह बात सहसा प्रतीत नहीं होती।

वारेन्द्रोंने भी राजाके समीपसे निवासके निमित्त एक एक ग्राम प्राया था। उनमें एक शत गाँई हैं, उनमें पन्द्रह गाँई प्रधान हैं। महाराजा बल्लालसेनने इनके मध्यमें भी कौलीन प्रथा स्थापित की थी सुतराम् इनके मध्यमें श्री कुलीन श्रोत्रिय और कष्ट श्रोत्रिय यह तीन श्रेणी हैं। मैत्र, भीम, रुद्र, वागत्री, संयामिनी, लाहिडी और भादुडी ये एक गाँई कुलीन हैं। करञ्ज, नन्दनावासी, भटोशाली, चम्पटी, मम्पटी, लाडुली कामदेवक और आदित्य यह गाँई सिद्ध श्रोत्रिय कहाये। अशिश्ट ८५ गाँई गौड और कष्ट श्रोत्रिय कहकर विख्यात हुए हैं, वारेन्द्रके वंशजोंको काप कहते हैं।

सप्तशती सम्प्रदाय ।

पञ्च ब्राह्मणके आगमनसे पहले बंगदेशमें ब्राह्मणोंके सात सौ घर थे । यह विद्या ब्राह्मण्य और आचारादि विषयमें कान्यकुब्जोंसे न्यून थे । इनके गोत्र भी पंचगोत्रके बाहिर थे, इस कारण कान्यकुब्जोंके साथ जातिवंशसे इनका मिलन न हुआ । इनकी सप्तशती नामसे विख्यात एक पृथक् संप्रदाय अश्रद्धेय होकर निवास करती थी । इनके मध्यमें आरथ, बाल-खावि, जगाये, भगाये, पिखूरी, मुलकजूरी, गाई आदि इनकी उपाधि थी ।

इस समय सप्तशती ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं, इससे बोध होता है कि कितने एक इनमेंसे कालक्रमसे राठी, वारेन्द्र और वैदिक श्रेणीमें मिल गये । कोई कोई नीच जातियोंके पौरोहित्य स्वीकार करके तथा कोई निरुद्ध दान ग्रहण करनेसे वर्णब्राह्मण, कोई कोटि अग्रदानी कोई २ ग्रहविप्र नामसे विख्यात हुए, ओर जो उनमें विशेष तेजस्वी और समृद्धशाली थे उनके बीचमें दो चार घर अब भी स्वभावमें स्थिति करते हैं ।

वैदिक-श्रेणी ।

वैदिक नामसे प्रसिद्ध इस देशमें ब्राह्मणोंकी और एक संप्रदाय है । यह भी दो श्रेणीमें विभक्त हैं । दाक्षिणात्य वैदिक पाश्चात्य वैदिक । यह द्राविडादि दक्षिण देशनिवासी हैं और वहींसे आये हैं । वे दाक्षिणात्य वैदिक हैं, और जो वाराणसी आदि पश्चिम देशके निवासी अथवा दाक्षिणात्योंसे पीछे आये हैं वे पाश्चात्य वैदिक कहे जाते हैं ।

गदाधर ।

बंगाल प्रान्तके नदिया जिलेकी राठी और वारेन्द्र ब्राह्मणोंकी साम्प्रदायिक अल्ल है ।

विशेषविवरण ।

कुलीन-यह बंगाल प्रान्तके राठीय ब्राह्मणोंकी एक जातिका सर्वोच्च भेद है, राठीय ब्राह्मणोंके मुख्य भेद वंशज, श्रोत्रिय, कष्टश्रोत्रिय, सुधाश्रेष्ठी और कुलीन हैं, इनमें कुलीन सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, यदि कोई कुलीन अपनी पुत्री किसी सुधाश्रेष्ठी कष्टश्रोत्रिय आदिको देना चाहै तो उसका कुलीनत्व सदाके लिये नष्ट हो जाता है, और यदि कोई श्रोत्रिय आदि अपनी कन्या किसी कुलीनको व्याह दे तो वह भी कुलीन हो जाता है, इससे कुलीनोंकी कन्याओंकी दशा उनके उत्तम मध्यमके पदविचारसे जो होती है वह कथनसे बाहर है, इनका विचार तो कान्यकुब्जोंसे भी बढ़कर माना जाता है । राजा बल्लालसेनने गुणोंके विचार पर वहांके ब्राह्मणोंके तीन विभाग किये कुलीन, श्रोत्रिय और वंशज, जो सभी प्रकार कुल-गुण सम्पन्न थे वह कुलीन, जो वेदपाठी कर्मठ थे वे श्रोत्रिय और जो साधारण स्थितिके थे वे वंशज कहाये । इनमें कुलीनोंकी मान मर्यादा बहुत बढी, यह कन्यादान कुलीनोंके सिवाय अन्यत्र नहीं करते, श्रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहै तो बहुतसा धन लेकर उसकी कन्याको व्याहते हैं । श्रोत्रिय आदि यह समझते हैं कि कन्या यदि कुलीनके घर

जायगी, तो कन्याकी सन्तान भी कुलीन कही जायगी । कुलीन ब्राह्मण सौ सौ दो सौ व्याह करते हैं और वारी २ फिर समुरालमें जाया करते हैं प्रायः उन कन्याओंका समय पीहरमें ही बीता करता है और पतिदेव समय २ पर जाकर भेंट सत्कार लाते रहते हैं और इस प्रकारसे एक २ समुरालमें वरसौ वाढ़ फेरा होता है, स्त्रिये अपने पतिको, पति स्त्रीतकको पहचान नहीं सकते, एक पतिके परलोकगत होनेसे अनेकों विधवा हो जाती हैं, इन वंशोंमें कुलीतिये जो हो रही हैं यदि यह ठीक कर दी जाय तो ब्राह्मण जातिका बड़ा उपकार हो ।

काप यह भी बंगाली ब्राह्मण जातिका भेद है, यह वारेन्द्र समुदायके अन्तर्गत है । कहते हैं कि यह मन्त्र बलसे मेघ वर्षा देते थे, इस कारण इनकी वारीन्द्र संज्ञा हुई इनकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है कि मधु मोइत्र नामक कुलीन ब्राह्मणके कई स्त्री थीं । उनकी पहली स्त्रीसे काप हुए, यह मधुमुइत्र अतरई नदी ( जो बंगाल स्टेट रेलवेसे मिलान करती है ) के किनारे एक नये गांवका रहनेवाला था । यह भी कुलीनोंके सन्तान कई विवाहोंके अधिकारी हैं उसके प्रथम विवाह की आख्यायिका इस प्रकार है कि—एक समय एक अकुलीन ब्राह्मण कुलीनोंके मध्यमें जीमनेको चला गया; वहां उसका अपमान हुआ तब उसने कुलीन होनेका प्रयत्न किया, और अपनी कन्या किसी कुलीनको देनी निश्चय कर अपनी स्त्री कन्या और गऊको साथ ले नावपर सवार होकर जहां मधुमोइत्र रहता था उसी गांवके किनारे गया, उसने वहां मधुमोइत्र नामक कुलीन ब्राह्मणका पता पूछा, जिससे पूछा यह मधुमोइत्र ही था यह उस समय सूर्यको अर्ध दे रहा था, इसने कहा मधु मैं ही हूँ कहिये क्या आज्ञा है । तब इस अकुलीनने कहा यातो आप हमारी कन्या व्याह लें नहीं तो मैं यहीं कुडुम्ब और गौ समेत नावको डुबोकर मर जाऊंगा, मधु दयावान् था, उसने इसकी करुणा भरी बात सुनकर दयार्द्र हो उस कन्यासे विवाह कर लिया । मधुके पूर्व पुत्रोंने इस बातसे बहुत बुरा माना, और उसी दिनसे वे अपने पितासे पृथक् रहने लगे, उस समय वृद्ध मधुका पालन उसका एक कुलीन जीजा करता था, मधुने क्रोध करके अपने पुत्रोंको ( काप ) अर्थात् कर्तव्यविहीन कहकर पुकारा उस दिनसे वह वंश काप कहाया । यह वंश कुलीन और श्रोत्रियोंके मध्य माना जाता है ।

गंगोली—यह बंगाली राठी ब्राह्मण समुदायका कुल नाम है, इसका अपभ्रंश अब गंगो है, यथा गंगोपाध्याय, यह कुल उस ग्रन्थमें प्रतिष्ठित समझा जाता है, बल्लालसेनने जिन ब्राह्मणोंको गङ्गाके समीपी नगरोंकी उपाध्यायी दी थी, वे गङ्गोपाध्याय कहाये, कोई कहते हैं इसका अपभ्रंश गङ्गोली हो गया है परन्तु अब तो गङ्गोली ही विख्यात पदवी है ।

### कश्मीरी ब्राह्मण ।

कश्मीर देशनिवासी ब्राह्मण कश्मीरी ब्राह्मण कहाते हैं, सौन्दर्य विद्या सद्गुण सम्पन्नता इनमें इस समयतक वर्तमान हैं, इस जातिने आज तक भी हीनता नहीं दिखाई जैसा कि अन्य ब्राह्मण जाति हीन होकर विचर रही है । यह अपनी मान मर्त्यादाको इस समयतक

निवाह रहे हैं, इनका कुलपद पंडित कहाता है । दूसरे ब्राह्मणोंके समान इनके गोत्र प्रवर भी हैं इनका विवाह देखने योग्य होता है ।

गुह—यह दक्षिणी राठी ब्राह्मणोंकी एक जाति है ।

अथ शुक्रब्राह्मणोत्पत्तिः ।

श्रीवेंकटेश माहात्म्यमें लिखा है कि छाया शुक्रके विवाह होनेपर उन्होंने बेंकटाचल पर्वत में आके पद्मसरोवरके समीप कठिन तपस्या की ।

**प्राप्य कृत्वा तपस्तीव्रं सरोम्बुजदलैःसृजन् ।  
समेयान्मानसान्पुत्रानष्टोत्तरशतं द्विजान् ॥**

वहां कमलपत्रोंसे एकसौ आठ मानसी पुत्रोंको उत्पन्न किया, और भागद्वाजादि छः गोत्र उनके किये और वेंकटेशजीके अर्चनादिमें उनको नियुक्त किया, उस दिनसे ब्राह्मण तथा उनकी संतान शुक्र ब्राह्मण नामसे विख्यात हुई । यह द्रविण संप्रदायी हैं ।

अथ दधीचकुलोत्पन्नब्राह्मणविवरणम् ।

दधीच संहितामें लिखा है ( जो कि नीलकंठ विरचित है ) कि ब्रह्माजीने अथर्वण ऋषिको उत्पन्न करके कर्दमकी कन्या शांतिके साथ विवाह किया, उनके एक कन्या और एक पुत्र हुआ, कन्याका नाम नारायणी और पुत्रका नाम दधीचि हुआ, यह भाद्र शुक्ल-ष्टमीको जन्मे थे, तृणविन्दुकी कन्या वेदवतीके साथ इनका विवाह हुआ, एक समय इनकी तपस्यासे भीत हो इन्द्रने अप्सरा भेजी उनको देखकर ऋषि मोहित हुए, उस समय उसका वीर्य खलित होन लगा, तब ब्रह्माजीने सारस्वतीको वीर्य धारणके लिये प्रेषित किया, और कहा यदि तुम यह वीर्य धारण न करोगी, तब पृथ्वी भस्म हो जायेगी, सारस्वतीने तत्काल जाकर अपने योग बलसे उस वीर्यको कंठ, कान नाभि और हृदय इन चार स्थानोंमें धारण किया, और उस वीर्यसे चार पुत्र उत्पन्न हुए जो कंठसे उत्पन्न हुआ वह और उसके वंशके सब ब्राह्मण श्रीकण्ठ सारस्वत हुए, जो कर्णसे उत्पन्न हुए वह कर्णाटक-सारस्वत, नाभिसे उत्पन्न हुए सो सारस्वतोंका अधिपति और हृदयपर वीर्यके गिरनेसे हरिदेव सारस्वत हुआ । इनके वंशको स्थिर रखनेका वर दे देवी स्वर्गको गई ।

**कण्ठे जाताश्च श्रीकण्ठाः कर्णे कर्णाटकाः स्वयम् ॥**

**तव नाभौ च यो जातः सारस्वतकुलाधिपः ॥**

**हृदिजो हरिदेवोऽस्ति सर्वे सारस्वताः स्मृताः ॥**

पीछे ऋषिके औरससे तृणविन्दुकी कन्या वेदवतीमें पिप्पलाद ऋषिने जन्म ग्रहण किया, यह बड़े तपस्वी हुए इनका विवाह अनरण्य राजाकी पद्मा नामक कन्यासे हुआ, इनके इस स्त्रीमें बृहद्ब्रह्म, गौतम, भार्गव, भारद्वाज, कौत्सक वा कौशिक, कश्यप, शांडिल्य, अत्रि, पराशर, कपिल, गर्ग, कनिष्ठ वत्स वा ( मम्मा ) यह बारह पुत्र हुए, इनमें एक एकके बारह

२ संतान हुई । और दधीचका वंश बहुत बड़ा, कल्पांतरके भेदसे इनकी अनेक कथा हैं ।  
अत्र छन्यात् अर्थात् छःजात ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह गौड जातिके अन्तर्गत हैं ।

ब्रह्माजीको वंशपरंपरामें एक ब्रह्मर्षि पुत्र हुआ, उनके वंशसे पारब्रह्म, पारब्रह्मके कृपाचार्य, कृपाचार्यके दो पुत्र हुए, इनमें छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र हुए, पराशरके वंशमें पारिख, दूसरा सारस्वत, उसके वंशमें सारस्वत; तीसरा ग्वाल इसके वंशधर गौड; चौथा गौतम इसके वंशधर, गुर्जर गौड, पांचवा शृङ्गी इसके वंशमें सिखवाल ब्राह्मण हुए, दधीच कुलमें ही दायमा ब्राह्मण हुए । वह कथा ऐसी है कि दधीच ऋषिकी सत्यप्रभा नामक स्त्री अपने पतिका परलोक गमन मुनकर अपने गर्भको पीपलके नीचे त्याग भस्म होगई, पीछे स्वर्गमें जाकर बालकके निमित्त बहुत दया आई तब उसने देवीकी प्रार्थना की, मूल प्रकृतिने उसके वंशमें अपने पूजनका विशेष विधान स्वीकार कराकर उस बालकके पालनेको आई और पीपल वृक्षके नीचे उस बालककी स्थिति होनेसे उसका नाम पिप्पलाद हुआ, और दयापूर्वक पालित होनेसे उस वंशके ब्राह्मण दायमा कहाये, इनको कपालात्मा देवीका जो पुष्करसे वीसकोस हैं, अवश्य दर्शन करना चाहिये, इनके भी भेद ग्रामोंके नामसे हुए, दायमा ब्राह्मणोंके ग्यारह गोत्र माध्यन्दिनी शाखा शुक्लयजुर्वेद है; छन्यातोंकी उत्पत्ति जनश्रुति और भाटोंसे सुनकर लिखी गई, इनका एक भेद असोप मारवाडमें सुना जाता है ।

### दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रादिका वर्णन ।

संख्या	गौतमगोत्रशाखा	१५ अवटंक	सं०वत्सशाखा	१७अ.भार्गवगोत्रशाखा	१२अ.
१	पाठोधा	जोशी	१	रतावा व्यास	१ इनाण्या व्यास,
२	पलोड	"	२	कोलिवाल "	२ पथाण्य "
३	नाहावाल	"	३	बलदवा "	३ कासल्या "
४	कुम्भ्या	"	४	दोलाण्या "	४ शिलणोधा "
५	कंठ	"	५	चोलखा "	५ कुराडवा "
६	बुढाढरा	"	६	जोपट "	६ जाजोध "
७	खटोल	"	७	इटोद्या "	७ खेवर "
८	बुडसुणा	व्यास	८	पोलगला "	८ विसाव "
९	वगडवा	"	९	नोसरा "	९ लाडनवा "
१०	बेडवन्त	"	१०	नामावाल "	१० बडागणा "
११	वानणसीदरा	"	११	अजमेरा "	११ कडलवा "
१२	लेलेधा	"	१२	कुकडा "	१२ कापडोद्या "
१३	काकडा	"	१३	तरणावा "	कौच्छसगोत्रशाखा ११
१४	भगवाण्ठी	"	१४	अवडिग "	१ डिडवाण्या व्यास
१५	भुवाल	"	१५	डिडियेल "	२ मालोद्या "
			१६	मुस्या "	३ धावडोदा "
			१७	भग "	४ जाडल्या "

## भाषाटीकासंबलिनः ।

( १७९ )

संख्या	अवटंक	संख्या	अवटंक	संख्या	अवटंक	संख्या	अवटंक
५	डोमा आचार्य	६	ल्यालि व्यास	काश्यपगोत्रशाखा ८ ।	आत्रेयगोत्रशाखा १४		
६	मुडेल	७	वरमोय	१ चोराईडा	१ सुटवाल		
७	माणजवाल	८	इन्दोरवाल	२ दिरोल्या	२ जुजणोद्या		
८	सोसी	९	हलसुरा जोशी	३ जामावाल	३ डुवास्या		
९	गोटेचा	१०	भटाल्या	४ शिरगोडा	४ सुकल्या		
१०	कुडाल	११	गदिया व्यास	५ रायथला			
११	त्रेतावाल	१२	सोल्याणि	६ वडवा	गर्गगोत्रशाखा १		
भारद्वाजगोत्रशाखा १२ । पाराशरगोत्रशाखा २ ।				७ वलाया	१ तुलस्या		
१	पेडवाल	१	मेडा	८ चोलक्या			
२	शुक्ल	२	पाराशर्या	शांडिल्यगोत्रशाखा ५ :			
३	करेशा		कपिलगोत्रशाखा १	१ खणा			
४	मालोधा	१	चीपडा	२ वेडिया			
५	आशोपा			३ वेड	मम्मशाखा—		
				४ गोठडावाल । इस शाखाके लोग अनाचार			
				५ दहेवाल के कारण म्लेच्छरूप होगये ।			

## दिसावालब्राह्मणोत्पत्तिः ।

कहा जाता है कि ब्रह्माजीने ऋषिद्विकी इच्छासे गुजरात देशमें वलास नदीके समीप ब्रह्मक्षेत्रमें विश्वर्मासे एक दर्शनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया, जो आवडीसा कहाता है, उसमें सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके दर्भसे १८ सहस्र ब्राह्मण निर्माणकर उस नगरमें स्थापित किये, और सिद्धमाताकी उपासनाका उपदेश किया, पीछे देवताओंने उनको कन्या दी और भारद्वाज, वशिष्ठ, शांडिल्य, कौशिक, श्वेतमुख, पौलस्त्य, पराशर और कश्यप इन आठ ऋषियोंसे ब्रह्माजीने कहा आप अपने नामके गोत्रोंसे इनका विवाह कराओ, ऋषियोंने वैसा ही किया. देवकन्याओंने कहा जबतक इस वंशमें कोई प्रतिग्रह न लेगा तबतक हम यहां निवास करैंगी, पीछे उन ब्राह्मणोंकी सेवाके निमित्त ब्रह्माजीने ३६००० वैश्य स्त्रियों सहित सेवक रूपसे दिये, वे वैश्य दिसावाल कहाये, इन सबका ब्रह्मनाम गोत्र है, कलिनने अपने आगमनकालमें ब्राह्मणका वेष धारणकर ब्राह्मणोंकी प्रतिज्ञा नष्ट करनेको दिसा नगरमें प्रवेश किया और उस नगरमें एक ब्राह्मणके यहां कन्यादान हो रहा था वहां कलिराजाने ब्राह्मणके रूपसे विवाद चलाया कि विना प्रतिग्रहके विवाह नहीं होता, यद्यपि हम प्रतिग्रह नहीं करते हैं पर यदि यह ब्राह्मण प्रतिग्रह करै तो हम भी कर सकते हैं । उस समय दिसावाल बनियोंने प्रार्थना की, वे ब्राह्मण कलिकी मायासे मोहित

होगये. और दान लिया. कलियुग तो तत्काल अन्तर्धान होगया, पर ब्राह्मणोंके घरकी देवांगनार्ये तत्काल प्रतिग्रह दोषके कारण पतियोंको छोड स्वर्गमें गई, तब दिसावाल वैश्योपर ब्राह्मणोंने क्रोधसे आघात करना आरंभ किया, तब वे व्याकुल होकर जो दसाड नामकगांवमें रहे वह दसादिसावाल हुए, जो दिसामें रहे, वे बीसा दिसावाल हुए और जो दोनों गांवको छोडकर तीसरे गांवमें बसे वे पंचादिसावाल हुए, और यह कर्षहीन होनेसे सत् शूद्र हुए, जब नवदुर्गमें ब्राह्मण देवीकी उपासनामें बैठे थे उस समय एक ऋषि वायडापुरमें आये और उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे विवाहार्थ एक कन्या मांगी; पर किसीने न दी, तब क्रोधसे उन्होंने शाप दिया कि यहांकी कन्याओंका पाणि ग्रहण जो ब्राह्मण वायडा करेगा वह तत्काल मर जायगा यह जानकर ब्राह्मण बडे दुःखी हुए, और कन्याओंको साथ ले दिसा गांवमें आये और सिद्ध माताकी स्तुति की, तब देवी बोली यहां १६ सहस्र कन्या तुम्हारे पास हैं, और दो सहस्रकी कमी है, सो दो सहस्र झारोले ब्राह्मणोंकी कन्या एक दैत्य हरण करके ले गया है, उसको मारकर वे कन्या लाओ मैं सहायता करूंगी। तब वे ब्राह्मण उस दैत्यको मारकर वे कन्या लाये तब वायडे और झारोले दोनों कोटिके ब्राह्मणोंने मिलकर दिसावाल ब्राह्मणोंको उन अठारह सहस्र कन्याओंका संकल्प किया, इन दिसावाल ब्राह्मणोंमें धोरी चौधरी व्यास जोशी रावल पण्ड्या अध्यारु मेहता आदि अवटंक हैं। इति, यह भी गुर्जर सम्प्रदाय कहा जाता है।

### अथ खेडवाल ब्राह्मणोत्पत्तिः।

गुर्जर देशमें एक ब्रह्मखेट नामक नगर है, उस देशमें वेणुवत्स नामक एक राजा इल्व नगर ( ईडर ) निर्माण करके रहता था, उसके कोई पुत्र न था, एक समय उस देशमें द्रविड देशके ब्राह्मण तीर्थयात्राके उद्देश्यसे आये और अपना उत्तरीय बल्ल नदीपर बिछाकर उन्होंने नदी पार की, राजाने नाविकोंसे यह वृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुलाया और पुत्र होनेके निमित्त उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब दान लेनेका समय आया तब उन दोनों द्रविड भ्राताओंमेंसे बडे भाईकी इच्छा दान लेनेकी हुई, और चौदहसौ ब्राह्मण उसके साथी हुए, छोटे भाईने दान लेनेसे अनिच्छा प्रकट की, और उसके साथी २५० ब्राह्मण हुए, राजाने यह गडबड देख ईडरके द्वार बंद करादिये तिसपर भी वह २५० ब्राह्मणोंसहित नीत लांघकर गांवके बाहर होगये, वे खेडेसे बाहर हो जानेके कारण खेडावाल ब्राह्मण कहाये, वे इस समय धर्मकर्मनिष्ठ गुजरातमें ओड, उमरेट प्रांतमें तैलंग, द्राविड देशमें चीनपट्टन, मदुरा, पंचनद, तंजापुर, तिणवल्ली आदि गांवोंमें प्रसिद्ध हैं, राजाने इन ब्राह्मणोंको फिर भी ताम्बूलोंमें लिखकर लकारान्त चौबीस गांव दिये और चौदहसौ ब्राह्मणोंको सुवर्ण और गोदान देकर ब्रह्मखेटकपुरमें बसाया, राजाका मंत्री लाड वैश्य था, उसने इस जातिके ब्राह्मणोंको अपने पौरोहित्यमें वरण किया, खेडावाल ब्राह्मणोंमें एक खेडुआ ब्राह्मण जाति है, यह औदुम्बर ब्राह्मणकी वृत्ति करते हैं।

खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रवरादिका चक्र ।

सं० ग्राम	कुलदेवी	गोत्र	प्रवर	वेद शाखा
१ मुरेली	उमादेवी	शांडिल्य	शांडिल्यअसित देवल	ऋ० आश्व.
२ राहोली	मलावी	कंपिलआंगिरस	बार्हस्पत्य च्यवन उपमन्यव समानऋ. आ.	
३ विष्णोली	विश्वावसु	उपमन्यव	उपमन्यव वत्साश्रित	भारद्वाज ऋ० आ०
४ त्रिणोली	कुलेश्वरी	चित्रानस	चित्रानस विश्वामित्र देवराज	ऋ० आ०
५ आत्रोली	दिवाकरवाई	जातूकर्ण्य	जातूकर्ण्य विश्वामित्र वच्छस	य० म०
६ पंचोली	आशापुरी	भारद्वाज	भारद्वाज आंगिरस बार्हस्पत्य	ऋ० आ०
७ सिंगोली	मोराही	उपनस	विश्वामित्र देवराज औहज	ऋ० आ०
८ मोघोली	महालक्ष्मी	वन्सस	उरपराप्रव भारद्वाज जमदग्नि च्यवन	ऋ० आ०
९ वडेली	चामुण्डेश्वरी	गौतम	गौतम आंगिरस औतथ्य	ऋ० आ०
१० कंगाली	महालक्ष्मी	शामानस	शामानस भार्गव च्यवन और्वजमदग्नि	ऋ० आ०
११ बडेली	वडेयी	लम्बुकरणस	लंबुकरण असित देवराज	ऋ० आ०
१२ शिहोली	श्रिया	काश्यप	काश्यप अक्छंद नैध्रुव	सा० कौ०
१३ शियोली	महालक्ष्मी	कौंडिन्य	कौंडिन्य वशिष्ठ मित्रावरुण	ऋ० आ०
१४ रेनाली	भूलेश्वरी	लातपस	बार्हस्पत्य सामानस इन्द्रवाह	य० मा०
१५ लिहाली	रविदेवी	सजानस	आंगिरस गौतम भारद्वाज	य० मा०
१६ नानोली	नित्यादेवी	विल्वस	आगस्त्य बेनाद्य जानायत	अ० सा०
१७ आदरोली	पिठायी	पौनस	आंगिरस बार्हस्पत्य आस्तीक	सा० कौ०
१८ काछेली	कृष्णायी	कृष्णात्रि	अशिक विश्वामित्र देवल	य० मा०
१९ मारेली	विल्वई	गार्ग्यस	आंगिरस बार्हस्पत्य भारद्वाज	ऋ० आ०
२० भूपेली	बेहेमायी	मुद्गल	मुद्गल आंगिरस भारद्वाज	ऋ० आ०
२१ खुटाली	मालाया	लौकानस	विश्वामित्र देवराज औहल	य० मा०
२२ कालोली	पिठार्ह	बार्हस	३	अ० सा०
२३ चंगोली	चंगोली	आंगिरस	अत्रि अर्चन शिवशिव	य० मा०
२४ हिरोली	हिरायी	आंगिरस	आंगिरस नैध्रुव शौनक	य० मा०

अथ रायकवालब्राह्मणोत्पत्तिः ।

पूर्व कालमें सत्यपुंगव नाम एक महर्षि थे वे १२९२ शिष्योंके संग नन्द्यावर्तमें निवास करते थे, एक समय गुजरात देशान्तर्गत कठोदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त इन ऋषिराजको बुलाया, और यज्ञ कराकर उनको कठोदर, कुवेरथली, कणभार, कुजाडु कलोली यह पांच गांव देकर शिष्यों सहित वहीं निवास कराया, मुनिराज लक्ष्मीकी आराध-



घना करते हुए वहां रहने लगे, एक समय प्रसन्न हो जपके समय लक्ष्मीने आकर ऋषिसे वर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगई थी, और लक्ष्मी अन्तर्धान हुई कि ऋषिकी आंख खुली, पीछे जाकर और लक्ष्मीका आगमन जानकर 'क रायः क रायः' ऐसा कहने लगे अर्थात् ( लक्ष्मी वा धन कहा है ) और शिष्योंसे कहा तुमने हमको जगाया नहीं इसकारण तुम सब रेक्ववास ( रायकवाल ) नामसे विख्यात होंगे अर्थात् ( रायः ) लक्ष्मी ( क ) कौनसे स्थलमें है, ऐसे स्थानमें निवास होनेसे रेक्ववास नाम हुआ, इनके गोत्र कुत्स, वत्स, वशिष्ठ, गालव, भरद्वाज, उपमन्यव, कृष्णात्रेय, कश्यप, शांडिल्य, अत्रि, कुशिक, पाराशर, गौतम, गर्ग, उद्दालक, कौशिक, आंगिरस, कात्यायन यह अठारह हैं, कुलदेवी ललितांबिका, मूलनाथ, शिव, स्थान कठोदरपुर, यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा कोकिल मतको मानते हैं, इनमें कुछ कालसे बड़े छोटे दो तडे होगये हैं । संवत् १९३० मेषके सूर्य वैशाख शुक्लपक्षमें द्वितीयाके दिन राजा रामने दोनोंको एकत्रित किया था । इति रायकवालोत्पत्तिः । गुर्जरसम्प्रदायः ।

### अथ रोडवालादिब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अब रोयडा नापल, वोरसदा, हरसोरा, गोरवाल, बावीसा और गारुड ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, पूर्वी औदीच्य ब्राह्मण जो सिद्धपुर क्षेत्रमें निवास करते थे उनमेंसे कितने एक ब्राह्मण मारवाड देशमें गये, वहां जो रोयडा ग्राममें बसे वे रोयडा, दूसरे बजवाण गांवमें रहनेसे उसी नामसे युक्त हुए, यह बहुधा कृषि करते और कचित् २ पढते भी हैं, इनकी कुलदेवी राजेश्वरी है, इनका भोजन व्यौहार वडादरा और म्होड ब्राह्मणोंमें होता है, इससमय यह जाति गुजरात देशमें कठलाद, सरोडा, बीकानेर, महमदाबाद, धोडासर इन पांच ग्रामोंमें निवास करती है, दूसरे पूर्वी सहस्रऔदीच्य ब्राह्मणोंके दो बालक विद्यामें पण्डित हुए, गुजरात देशके एक राजाका ऐसा नियम था कि जो विद्वान् स्त्रीसहित उसके यहां जाकर अपनी विद्याकी परीक्षा देता उसको ग्राम मिलता । इन दोनोंने विचारा कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, राजा गृहस्थी हुए बिना ग्राम न देगा, इससे यह दोनों अन्य जातिकी स्त्रियोंको साथ लेकर अपनी भार्याकी समान सूचित करते हुए राजसभामें गये, तब राजाने इनकी विद्यासे प्रसन्न होकर एकको वोरसद दूसरेको नापल ग्राम दिया, नापलके अधीन दूसरे नौगांव थे, नापु, वोरियु, गाना, मोगरी, नावलि, वेमी, नोमेण, सिंगराय और पुरी उनके नाम थे, पीछे जब वे उन कन्याओंको त्यागने लगे तब उन्होंने कहा यदि तुम हमारा प्रतिग्रह न करोगे तो राजासे हम सब भेद खोल देंगी. तब भयसे उन्होंने उनको रख लिया, इससे वह अपनी पूर्व जातिसे बहिष्कृत हो नापल और वरसौदे कहाये, यह यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखावाले हैं, इनका भोजन और कन्यासम्बन्ध अपने वर्गमें ही होता है, हरसोलेकी उत्पत्ति इसप्रकार है कि गुजरातमें हरिश्चंद्रपुर एक ग्राम है, वह इस समय हरसोल कहाता है, यह अहमदाबादसे

ईशानमें २२ कोस है, कोई कहते हैं सामलजी इसी पुरीमें विराजते हैं । रुद्रगया माहात्म्यमें इसका उल्लेख है, वहाँके राजाने एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्मणोंको दिया जो ऋत्विक् हुए थे, इस कारण ग्रामके नामसे वे हरसौले ब्राह्मण कहाये, और उनके सेवक वैश्य भी हरसौले कहाये ।

ब्राह्मणोंके मुद्गल, कौशिक, भरद्वाज, पाराशर, आदि छः गोत्र हैं । इनकी कुलदेवी अष्टादश हाथवाली सर्वमङ्गला है, सामलजीमें इनका दर्शन होता है, यह ब्राह्मण इस समय सूरत म्हाडबंदर खानदेश जिला निमाड काशी हरसौल आदि ग्रामोंमें पाये जाते हैं, गोरवाल, बावीसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है, कि एक समय उदयपुरके राजाने सहस्रऔदीच्य ब्राह्मणोंको बुलाकर यज्ञ कराया, उमकी दक्षिणामें बावीस और गोलनामक नाम और बहुत सा सुवर्ण दान किया, वहाँ रहनेवाले वे ब्राह्मण उन्हीं २ नामोंसे विख्यात हुए । वहाँ एक गरुडगलिये ब्राह्मण हैं । यह यथार्थमें गरुड थे यह ब्राह्मणोंमें निष्ठुष्ट हैं, अधम चाण्डालादि जातियोंके यहां कर्म कराते हैं, तिथि ग्रह देखते हैं वह भी गुर्जर सम्प्रदायान्तर्गत हैं ।

इति रोयडादि उत्पत्ति ।

अथ भार्गवब्राह्मणोत्पत्तिः ।

वायुप्रोक्त रेवाखण्डमें शंकर कहते हैं कि, रेवा नदीके उत्तरकी ओर भृगुर्जाने बड़ी तपस्या की और शंकरके वरदान तथा लक्ष्मीजीकी कृपासे वह स्थान भृगुक्षेत्र कहाया, एक समय भृगु और लक्ष्मीका कलह हुआ तब ब्राह्मणोंने भृगुके भयसे स्थानके भयसे असत्य बोला इस पर लक्ष्मीने वहाँके चतुर्वेदी ब्राह्मणोंको शाप दिया कि तुममें एकता न होगी और लक्ष्मी बहुत काल तुम्हारे यहां न रहेंगी । इसपर उसी भृगुकच्छमें शंकरका भृगुजीने बडा तप किया तब शिवने प्रसन्न हो वर दिया कि यह स्थान वेदशास्त्रसम्पन्न ब्राह्मणोंसे संयुक्त होगा, पीछे भृगुकी ख्याति नाम स्त्रीमें श्रीनामक कन्या उत्पन्न हुई, उसका विवाह जब भगवान् विष्णुसे हुआ तब नारदादि ऋषि और सब देवता तथा कश्यपादि महर्षि वहाँ आये, तब लक्ष्मीने विष्णुजीकी सम्मतिसे वहाँ बारह हजार ब्राह्मणोंको स्थापन किया ।

ब्रह्मचर्यव्रतस्थानां पदं ब्राह्मजयैषिणाम् ।

द्वादशैव सहस्राणि सन्ति वै सुरसत्तम ॥

चौबीस सहस्र प्राजापत्य और बारह सहस्र ब्रह्मपदकी इच्छावाले वहाँ लक्ष्मीने स्थापन किये वे सब भार्गव ब्राह्मण कहाये ।

पंचत्रिंशत्सहस्राणि वैश्यानामत्र संस्थितिः ।

विश्वकर्मकृतानां च तेषु तिष्ठन्तु वै द्विजाः ॥

और पैंतीस सहस्र वैश्य विश्वकर्माने वहां उनकी सेवाको स्थापन किये वे भार्गव वैश्य कहाये यही गौनागौना तीर्थ है वहीं इनके विवाह होते हैं ।

भृगुक्षेत्रं स्थिता ये तु भार्गवास्तव संज्ञया ॥

भृगुक्षेत्रमें रहनेके कारण यह भार्गव कहाते हैं, इन ब्राह्मणोंमें भी दस वीसभेद हैं, कामलेज ग्रामोंमें जो भार्गवोंका जन्म है वे धर्ममें बड़ा आलस्य करते हैं, इनका भृगुक्षेत्री ब्राह्मणोंसे कन्या सम्बन्ध नहीं होता । भृगुक्षेत्रके ब्राह्मण स्वकर्मनिष्ठ हैं ।

इति भृगुब्राह्मणोत्पत्ति गुर्जर सम्प्रदाय ।

अथ मेदपाठब्राह्मणोत्पत्तिः । ( ब्रा० उ० मार्तण्डके मतसे )

अब मेवाड़े ब्राह्मण और वैश्योंकी उत्पत्ति पद्मपुराणके पातालवण्डके एकलिंग क्षेत्र माहात्म्यके अनुसार लिखते हैं । जब नारदजीसे तक्षक आदि नागोंने अपने वंशके विनाशका होनहार वृत्तान्त सुना तब वामुकी नाग मेवाड़देशमें जहां एकलिंगेश्वर महादेवजी विराजते हैं, वहां आनकर शंकरकी सेवा करने लगा, तब शंकरने प्रसन्न हो नगावी उपद्रव शांतिके लिये कहा कि, मेरे स्थानके स्तूप तीर्थभूमिमें तुम एक पुर निर्माण करके वहां ब्राह्मणोंको स्थापन करो, वे तुमको आर्शावाद् देंगे उससे तुम्हारी शान्ति होगी और उन ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये वैश्य नुतार आदि दूसरी जाति स्थापन करो मैं और कात्यायनी उस पुरमें निवास करेगी, भट ब्राह्मणोंको दान देने से तुम भय हरण करनेवाले हुए, इस कारण उस पुरका नाम भयहर होगा, और हरके भक्त जो ब्राह्मण इसमें निवास करैंगे इस कारण इस पुरका दूसरा नाम भट्टहर होगा, और ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रोंसे इस पुरका रक्षण करते रहेंगे, इस कारण इस पुरका नाम नागर भी होगा, और पुरके अनुसार ब्राह्मणोंके भी तीन नाम होंगे, भयहर, मेवाड़े और नागर मेवाड़े कहाँगे । ऐसा कहकर शंकरने कुछ ब्राह्मणोंका दर्शन कराया और कहा यह चौबीस गोत्रके ब्राह्मण हैं, इनको श्रीभट्टहरपुरमें स्थापन करो और इनकी सेवाके निमित्त चतुर्गुण वैश्य स्थापन करो, और उनसे आधे वास्तुविद्यामें कुशल, मेवाड़े सुतार सुनार, छुहार, तम्बोली, नापित सब स्थापन करो यह सब मेवाड़े नामसे विख्यात होंगे ।

श्रीभट्टहरेर्भट्टान्मेदपाठान्द्विजोत्तमान् ॥ ४७ ॥

चतुर्विंशतयो गोत्रपतयः पुण्यवृत्तयः ।

वणिजो भट्टसंयुक्ता मेदपाठाः पुनस्त्वमी ॥

शिल्पिनापि च ते भट्टमेदपाठा गुगान्विताः ॥५२॥

भट्ट मेवाडी ब्राह्मणोंके शिष्य दूसरी जातिके भी होंगे उनका मेरे समीप त्रयंवायपुरमें निवास कराना वेत्रवायमेवाडे ( त्रवाडी मेवाडे ) कहावेंगे, और चौरासी ग्रामोंकी वृत्ति करनेसे चौरासी मेवाडे कहावेंगे, यह भट्ट मेवाडे ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रहेंगे, इनमें एक चौथी ज्ञातिवाला भेद हुआ । जो चौबीस गोत्रसे पृथक् हुआ, अर्थात् प्रत्येक गोत्रसे पृथक् वृत्ति करनेके कारण चौबिसे नामसे विख्यात होगा और बन्धुत्वकरणमें विख्यात होगा, सो—

स्वबन्धुत्वेन विख्यातो बन्धुलः पंचत्रिंशकः ।

स्वतन्त्रः स तु विज्ञेयो ज्ञातौ परमशोभनः ॥

भट्टो सुख्यतमस्तेषां गुरुत्वेनोपगीयते ॥६५॥

बन्धुल ज्ञाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञातिभेद स्वतन्त्र होगा । परन्तु भट्ट मेवाडे इनके गुरुरूप रहेंगे यह कहकर शंकर अन्तर्धान होगये, और विश्वकर्माको बुलाकर वासुकीने नगर निर्माण किया और यह सब जाति स्थापन की, श्रीभट्ट हरपुरका दान किया, इस क्षेत्रमें गणपति, कात्यायनी, देवी, भट्टार्क, शिव, एकलिंग महादेवजी मुख्य हैं, भट्टमेवाडे ब्राह्मण जो चौबीस गोत्रके हैं, उन सबोंकी बन्धुके समान प्रीति करनेसे और रक्षण करनेसे बन्धुल नामसे पंचोसा विख्यात हुआ, इनका भट्टमेवाडे ब्राह्मणोंमें भोजन व्यवहार जाति सम्बन्ध एकत्र होता है, कहीं विवाह सम्बन्ध अपने ही वर्गमें करते हैं, भट्ट मेवाडे वैश्य सुतार सुनार ताम्बोली आदि जो स्थापन किये उनका कर्म उनके वर्णानुसार ही जानना और जिस समय राजा जन्मेजयने सर्पसत्र किया था और आस्तीक द्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, तब वासुकीने प्रसन्न हो वहां नागदहपुर निर्माण किया, और वहां कुछ ब्राह्मण और वैश्य स्थापन किये उन ब्राह्मण और वैश्योंका नाम नागदह हुआ ।

ततो नागदहं नाम पुरं निर्माय वासुकिः ।

ब्राह्मणान्कतिचित्तत्र स्थापयामास तत्पुरे ॥ ११० ॥

सेवाथै द्विजवर्गानां वणिजो द्विगुणास्ततः ।

नागदाहेति नामानः स्थापिताः प्रत्यवर्तयन् ॥१११॥

यह ब्राह्मण और वैश्य भट्ट मेवाडोंके आधीन रहे, एक मुखागर कहावत चली आती है कि, एक समय एक नागकन्याका विवाहोत्सव आरंभ हुआ, तब जो वर व्याहने आया उसके मुखकी विषली वायुसे व्याकुल हो गांवके द्वार ( भगोल ) तक भाग गया । इस कारण उसके अनुनायी और वंशके भट्टमेवाडे कहाये, तब उसके छोटे भाईने उससे विवाहकी इच्छा की वह भी विषली वायुसे व्याकुल हो चौहट्टे तक भाग गया । उसके वंशके चौरासी मेवाडे कहाये, तीसरा भाई मूर्छित हो भूमिपर गिरा तब नागकन्याकी सखी बोली जब ऐसा

हैं तो तेरे साथ व्याह कौन करेगा ? तब नागकन्याने सोच विचार कर एक गुडका नाग बनाय विष उतारनेके लिये मूर्छित वरके ऊपर डाला, वह उठकर खड़ा होगया और उसने उस कन्याके साथ विवाह किया, उसके वंशके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेवाडे कहाये, इन त्रिवाडियोंमेंसे एकने म्होडब्राह्मणकी कन्यासे विवाह किया, और अपने जातिवालोंकी नसुनी इस कारण वे जातिसे पृथक् हुए और राजस मेवाडे कहाये, इन सबमें अब भी नागकी पूजा होती है, गुडमय नाग विवाहके समय षोडशोपचारसे पूजा जाता है व्याहके समय वर मूर्छित होकर पलंगपर लेट जाता है, दुलहन पास आकर गुडके छींटे देती है तब वर उठ कर नागकी पूजा करता है पीछे विवाह होता है ।

### मेवाडोंके गोत्र प्रवरादि चक्र ।

सं०	गोत्र	प्रवर	अवटंक
१	कृष्णात्रेय-	कृष्णात्रेय,	अर्चि, अजा- वत्सश्चेति ।
२	पाराशर-	वशिष्ठः	सित्थः पाराशरश्चेति ।
३	कात्यायन-	कपिलः,	कात्यायनः विश्वा- मित्रश्चेति ।
४	गर्ग-	गर्गः	च्यवनः अंगिरश्चेति ।
५	शांडिल्य-	शांडिल्यः	असितो देवलश्चेति ।
६	कुशक-	कुशकः	अघमर्षणः विश्वा- मित्रश्चेति ।
७	कौशिक-	कौशिकः	देवराजः विश्वा- मित्रश्चेति ।
८	वत्स-	वत्सः	च्यवनः और्वः आप्नु- वान् जमदग्निश्चेति ।
९	वात्स्य-	वात्स्यः	च्यवनः मोद्गलः जमदग्निः ईषवश्चेति ।
१०	भारद्वाज-	भारद्वाजः	आंगिरसः बार्हस्प- त्यश्चेति पंड्या उपाध्या
११	गार्ग्य-	गार्ग्यः	च्यवनः आंगिरसः ईषः बार्हस्पत्यश्चेति ।

सं०	गोत्र	प्रवर	अवटंक
१२	उपमन्यु-	उपमन्युः	उत्थयः आंगि- रसः भारद्वाजः बार्हस्पत्यश्चेति ।
१३	कौंडिन्य-	कौंडिन्यांगिरसः	बार्हस्पत्याः ३
१४	गौतम-	गौतमांगिरसौ	तथ्येति ।
१५	काश्यप-	काश्यपः	कृच्छ्रतप्तः मानातिः लोहितः भार्गवश्चेति । अध्यारु पंड्या ।
१६	माण्डव्य-	माण्डव्यः	मण्डकेयः विश्वामित्रश्चेति ।
१७	चन्द्रात्रेयः	वत्सः	कृत्स्नश्चेति ।
१८	भार्गव-	भार्गवः	च्यवनः आप्नुवान् और्वः जमदग्निश्चेति ।
१९	गालव-	गालवः	तपयक्षः हारीतः उपकल्पितः जयन्तश्चेति ।
२०	विष्णुवृद्ध-	पौतुम्युः	उत्पुत्रः सदस्यश्चेति
२१	मुद्गल-	मौद्गल्यांगिरसः	बार्हस्पत्यश्चेति ।
२२	मौनस	मौनसभार्गव	वैतष्वसश्चेति ।
२३	वार्द्धि-	वार्द्धिः	दालभ्यवार्हस्पत्याः ।
२४	अत्रि-	अत्रिगाविच्छ	पूर्वातिथ्यश्चेति ।

इति मेदपाठब्राह्मणोत्पत्तिः ।

पंचद्रविडमध्ये गुर्जराः ।

अथ मोतापालब्राह्मणोत्पत्तिः ।

स्कन्दपुराणके तापीमाहात्म्यमें रुद्रभगवान् कहते हैं कि, जब श्रीरामचन्द्रजी तापी नदीके समीप आये तब सुमन्त ऋषिसे कहा मैं यहां खानकरके कुछ दान करूंगा तब ऋषिने कहा हम तो दान नहीं लेंगे पर हिमालयकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां स्नान करने आये हैं, वे प्रार्थनासे दान ले लेंगे, रामचन्द्रजीने महावीरद्वारा उनको बुलाया और वही प्रार्थनासे दान दिया और वहां एक रामसरोवर बनाकर उस तापीके किनारे मुक्ति स्थानमें जिसे अब मोतगांव कहते हैं अठारह सहस्र ब्राह्मणोंको स्थापन किया वे सब मोताल कहाये, उनके चरण धोनेका जो जल बहा उससे मुक्तिदा नदी बह निकली, इन मोताल ब्राह्मणोंका एक भेद ओरपाल कहा जाता है, (तदोरुपत्तनं क्षेत्रं तदेव शिरसंयुतम्) वही नागतीर्थके निकट उरुपत्तन क्षेत्र है, इसीको ओरपाल कहते हैं यह शिरस गांवसे मिला हुआ है, रामचन्द्र भगवान्चे इस स्थानमें भी ब्रह्माजीको बुलाकर १८००० अठारह सहस्र ब्राह्मणोंकी स्थापना की (सहस्राष्टादश विप्रा (माने) स्थापयामास राघवः) यह सब ओरपाल मोताले कहाये । उस क्षेत्रका नाम रामक्षेत्र हुआ, इन सबकी कण्व शाखा और सात गोत्र हैं । भारद्वाज, हारीत, गर्ग, कौण्डिन्य, कश्यप, कृष्णात्रेय और माठर । तापी और समुद्र संगम स्थानपरभी रामचन्द्रजीने गंगातटवासी ब्राह्मणोंको बुलाकर वहां यज्ञ करके स्थापन किया और भगवान्की आज्ञासे वहां गंगाजी प्रगट हुई ।

अष्टादश सहस्राणि गोत्राणि द्वादशैव तु ।

स्थापयामास रामोऽपि भुक्तिमुक्तिप्रदान्द्विजान् ॥४६॥

उस समय उन ब्राह्मणोंके बारह गोत्र थे परन्तु अब इनमें भी ऊपर लिखे सात गोत्र मिलते हैं, यह ब्राह्मण भी सिरस कहाये, मोता और पाल और सिरस यह तीन ग्रामके ब्राह्मण मोताले कहाते हैं और कोकिल मुनिके मतको मानते हैं, इनकी स्त्री पति मरजानेके पीछे फिर पिताके गोत्रमें मिल जाती है । श्रीमाली, दिसामाल, रायकवाल और कंडोल ब्राह्मण भी कोकिल मतको मानते हैं यथा हि—

मौक्तिकादिद्विजाः सर्वे कोकिलस्य मुनेर्मतम् ।

मन्यन्ते ब्राह्मणाश्चान्ये तथा दिक्पालवासिनः ॥

इति मोतालादिब्राह्मणोत्पत्तिः । गुर्जरसम्प्रदायः ।

अथौदुम्बरकापित्यवाट मूलशृंगालवाटीयब्राह्मणोत्पत्तिः । ( ब्राह्मणोत्पत्ति मा० )

हरिवंशके भविष्यपर्वमें लिखा है कि जिस समय शंकरने त्रिपुरका वध किया तब उनमेंसे जो बहुतसे असुर बचे वे सब जम्बूमार्गमें जाकर ऋषियोंकी निवास भूमिमें वृक्षोंके

आश्रित तप करने लगे, कोई उदुम्बर ( गूलर ) के वृक्षका आश्रय करके रहे. वे उदुम्बर गण कहाये, और जो कपित्थ ( कैथ ) के वृक्षका आश्रय करके रहे वे कपित्थगण कहाये । और कितने एक शृगाल बाटीमें तप करनेवाले बडके झाडका आश्रय करके तप करने लगे वे वाटमूलगण कहाये, जब उनकी तपस्थासे ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर मांगनेको कहा उन्होंने अपने बदला लेनेकी इच्छा की तब ब्रह्माजीने कहा चराचरमें कोई शंकरसे बदला ले नहीं सकता, तब दैत्योंने पद्मपुरमें जाकर शंकरका तप आरम्भ किया, पीछे शंकरने प्रसन्न हो दर्शन दिया, और कहा जो कि तुमने मेरी भक्ति की है, और ऋषियोंसे दीक्षा ली है, तथा हिंसादिका त्याग किया है, इस कारण तुमको वर देता हूं कि तुम ऋषियोंके साथ स्वर्गमें गमन करोगे और शेष तपस्वी ब्रह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहे हैं उनको मेरे लोककी प्राप्ति होगी ।

**औदुम्बरान्वाटमूलान् द्विजान्कापित्थकानपि ।  
तथा शृगालवाटीथान्धर्मयुक्तान्दृढव्रतान् ॥**

और उदुम्बर वृक्षके आश्रयवाले औदुम्बर, वाटमूल, कपित्थ, शृगालवाटीय ब्राह्मण कहावेंगे और धर्मात्मा दृढव्रत रहेंगे, मेरा पूजन करनेसे इच्छित गति होगी, यह कहकर भगवान् शङ्कर अन्तर्धान हुए, और लोगोंके वंशधर कपित्थादि ब्राह्मण कहाये । पर यह कथा हरिवंशमें नहीं है ।

इति औदुम्बरादिउत्पत्तिः । द्रविडमध्ये गुर्जरसम्प्रदायः ।

अथ अनावाला भाटेला ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

स्कन्दपुराणके उत्तरखण्ड अनादिपुर माहात्म्यमें लिखा है कि—

**एकदा त्रिपुरं जेतुं शिवः सर्वार्थसाधनः ।  
अष्टादशसहस्राणि ब्राह्मणान्ब्रह्मवादिनः ॥  
वरयामास शान्त्यर्थमनादिपुरपत्तने ।**

एक समय शङ्करने अनादिपुरमें अठारह सहस्र ब्राह्मणोंका त्रिपुरवधके निमित्त वरण किया और त्रिपुरको मारकर वहां उन ब्राह्मणोंको स्थापन करके वहां तीर्थ स्थापन किये पीछे बहुतकाल बीतनेपर वहांसे ब्राह्मण गंगाकिनारेको चले गये, त्रेतायुगमें जब रामचन्द्र-बीने तीर्थ प्रस्तावमें व्रतके लिये तीर्थ पूछा तो अगस्थजीने कहा यहांसे अनादिपुर एक स्थान एकसौ बीस कोस है, आप वहांके ब्राह्मणोंको गंगातटसे लाकर स्थिर स्थापन करो और वहीं व्रत करो तब रघुनाथजीने हनुमानजीके द्वारा उन ब्राह्मणोंको बड़ी कठिनतासे बुलवाया, महावीरजी उनको गंगालानेकी प्रतिज्ञासे बुला लाये । रामचन्द्रजीने उनका

पूजन किया और चैत्रशुक्ल चतुर्दशीके दिन पृथिवीमें बाण मार कर गंगा प्रगट की वही रामगंगा कहलाई वहां श्रीरामचन्द्रजीने ग्यारह दिन यज्ञ किया, पीछे जब ब्राह्मणोंको दान देने लगे तब उन्होंने दान लेनेसे सर्वथा असन्तुष्टता दिखाई, तब श्रीरामने कहा जो तुम लोग श्रुतिस्मृति विहित दान धर्म नहीं मानते तो आगेको तुम वेदाध्ययनसे हीन हो जाओगे, अध्ययन यज्ञ और दान यह तुम्हारे तीन रहेंगे, यह कह विश्वकर्माको बुलाय नगर बनवाय उन अठारह सहस्र ब्राह्मणोंको रहनेको दिया, उनमें एक भाग स्त्रीविहीन था, उनके निमित्त नागकन्याको लाकर विवाह दिया, सीता महारानीने नागकन्याओंको मनुष्य-रूप दिया, उन वंशोंमें आजतक कपालकी वेर्णामें बाणाकारका चिह्न दीख पढता है, फिर रघुनाथजीने उन ब्राह्मणोंको नौसौ नौ ग्राम दिये, और बारह गोत्र अवटक सहित किये, वे ये हैं कश्यप, रभ्य, गौतम, पराशर, उशना, गालव, अगस्त्य, गार्ग्य, सांग्यायन, कण्व, वच्छस, वसिष्ठ और नायक. दो इनमें अवटक हैं, सूरत नगरके निकट तीन कोसपर एक वादियाव ग्राम है जिसको संस्कृतमें वादिताप्यक्षेत्र कहते हैं वहां संवरण राजाने तापीके साथ विवाह किया, उसमें अनादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुलाये और वरणमें उनको एक सौ सोलह ग्राम दिये, तथा सम्वरणेश्वर महादेवका स्थापन किया, उनमेंसे दो गोत्रके ब्राह्मण वरियाव ग्राममें रहगये, १० अनादिपुरमें चले गये, सर्वकार्यमें कुशल नायक कहाये, परिपूर्ण कुशल वंशी कहाये उनमें जिन्होंने दरिद्रोंकी दरिद्रता दूर की वे वारिणा कहाये । तथा च—

नायकाः सर्वकार्येषु वशिनो विषयेषु च ।  
 निवारयन्ति ये तेषां दरिद्राणां दरिद्रताम् ॥  
 वारिणास्तेन प्रोक्ता ते वारिताप्ये स्थिता अपि ॥  
 एवं नानाविधानास्ते काले भिन्नेन कर्मणा ।  
 वसंत्यद्यापि विख्यातेऽनावालेऽनादिपत्तने ॥

इसप्रकार वे सब अनादिपुर ( अनावलाग्राममें ) अद्यापि निवास करते हैं यह सब प्रतिग्रहसे पराङ्मुख हुए हैं । इन अठारह हजार ब्राह्मणोंमेंसे बारह हजार ब्राह्मणोंने जो नागकन्याओंका प्रतिग्रह किया और रामचन्द्रजीने नौसौ ग्राम दिये वे अबतक अनावलें जिमीदार देसाई कहे जाते हैं और जिन्होंने नागकन्या तथा प्रतिग्रह दोनों स्वीकार न किये वे भाटेले अनावला कहे जाते हैं । भाटेला शब्द कर्मभ्रष्टताका वाचक है । यह लोग कृषिकर्म करते हैं, इनमें कन्याविक्रय भी होता है, भाटेला देसाई अनावलाका भोजन व्यवहार एक पंक्तिमें होता है । कन्याव्यवहारमें भाटेलेके कन्या लेते हैं, देते नहीं ।

इति अनावलाभाटेला देशाई उत्पत्तिः । गुर्जरसम्प्रदायः ।



अब दूसरे अनेकविध ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।

माध्यंजनखिस्तिया ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ।

यह ब्राह्मण तापी नदीके किनारे श्रीरामचन्द्रजीके स्थापन किये हुए हैं । यह श्रौतस्मार्त कर्ममें निष्ठ हैं, आचार और भाषाव्यवहार गुजराती और महाराष्ट्रोंका मिलकर है इनकी वस्ती तापी नदीके निकटवर्ती ग्रामोंमें है, अब यह कर्म त्याग कर चुके हैं इसकारण व्यापारनिष्ठ हैं इस कारण खिस्तिये ब्राह्मण कहाते हैं, यह व्यापार नौकरी विशेष करते हैं, आचारसम्पन्न थोड़े हैं ।

इति खिस्तिया ब्राह्मणाः ।

गयावालब्राह्मणोत्पत्तिः ।

विष्णु भगवान्ने गयापुरको दवाकर अपनी सेवाके निमित्त जो ब्राह्मण स्थापित किये वे गयावाल ब्राह्मण कहाये । यह विष्णुजीके वरदानसे छत्र चमर धारण करनेवाले बड़े प्रतापी हुए, इनकी कृपासे पितृगणकी मुक्ति मानी गई है । इनके वचनोंसे श्राद्धकी पूर्ति मानी जाती है, गयामाहात्म्य इनके विषयमें देखना चाहिये ।

इति गयावालब्राह्मणाः ।

नार्मदीयब्राह्मणः ।

ओंकार तथा मांधातृ प्रान्तमें नर्मदा तटपर निवास करते हैं, काम्बोज ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि ब्रह्मदेशसे ईशानकोणमें काम्बोज(कम्बोडिया)देश है, वहाँके निवासी काम्बोज ब्राह्मण कहाते हैं, इस देशमें इरावती नदी बहती है, यह ब्राह्मण गौडाचारके समान हैं ।

सोमपुरे ब्राह्मण ।

सौराष्ट्र अर्थात् सोरठ देशमें सोमपुरी प्रभास पाटणमें सोमेश्वर महादेवजीके समीप चंद्रमाने अपना क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, और ब्राह्मणोंको वरण किया और उनको दान मानसे सन्तुष्ट किया, और उन ब्राह्मणोंका वहाँ निवास कराया, वे सब सोमपुरे ब्राह्मण कहाये ।

कपिल क्षेत्रके रहनेवाले कपिल ब्राह्मण कहाये, लाट देशके लाट ब्राह्मण कहाये, नारदजीके स्थापित किये नारदीय ब्राह्मण कहाये, नादोर्य, भारती, नन्दवाणे यह ब्राह्मणोंके नाम ग्रामभेदसे जानना, मैत्रायणी ब्राह्मण तापीतट निवासी हैं ।

अब बत्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।

सखाद्रि खण्डके प्रमाणसे कहा जाता है कि—स्कन्दजी कहने लगे हैं मांगहके पुत्र मयूर नामक राजाने अहिक्षेत्रसे कुटुम्बसहित बुलाकर ब्राह्मणोंको स्थापन किया, और ३२ ग्राम देकर उनको उसी नामसे वरण किया । कदम्ब क्लाननमें तीन, गोकर्णमें चार, युक्तिमतीके किनारे दो ग्रामोंको स्थापन किया । सीताके दक्षिण किनारे ध्वजपुरीमें ब्राह्मणोंको स्थापन किया, अजपुरीमें चार ग्राम करके स्थापन किया, अनन्तेशके समीपमें दश ग्रामोंको स्थापन किया, और नेत्रवतीके

उत्तर किनारे एक ग्रामको स्थापन करके उनके मध्य गजपुरीमें नृसिंहजीको स्थापन किया, जहाँ पूर्वमें सिद्धेश्वर और पश्चिममें लवणसागर है, उत्तरमें कोटिलिंगेश और दक्षिणमें सीता है, वह संसारमें वैकुण्ठ ग्राम नामसे विख्यात है, शेष नेत्रवतीके उत्तर किनारे नौ ग्रामोंको स्थापन करके वहाँ आये हुए श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको प्रदान कर दिये, वह ब्राह्मण वहाँ आनंदसे रहने लगे, पीछे राजा मयूरवर्मा अपने बालक पुत्र चंद्रांगदको राज्य समर्पण कर तपस्या करने वनको चला गया, उस समय वे ब्राह्मण बालक राजाके राज्यसे चले गये, पीछे जब चंद्रांगद बड़ा हुआ तब उन ब्राह्मणोंको फिर प्रार्थना कर बुला लाया, और एक परचूड़ा श्रेष्ठ नगर बसाकर उन ब्राह्मणोंको स्थापन किया, और उन उन ग्रामोंके नामानुसार उनके नाम हुए यथा—

कारेऊनामके ग्रामे चतुर्भेदांश्च संख्यया । तथा कर्काटि-  
मध्ये तु ह्यष्टभेदांश्चकार सः ॥ तथैव मरणे ग्रामे द्वितीयं  
भेदविस्तरम् । कानुवीनां तु मध्ये च भेदौ द्वौ द्वौ च  
पार्थिवः ॥ पांडिग्रामे वेदसंख्यास्तद्वत्कोडीलनामके ।  
मागवे ग्रामके चैव वेदवद्भेदमंहसः । मित्रनाडुग्राममध्ये तद्व-  
त्पार्थिवनन्दनः ॥ निर्मार्गकग्राममध्ये चकार ऋषिसंख्य-  
कम् । सीमन्तुग्राममध्ये तु नवभेदांश्चकार सः ॥ शिव-  
वल्ल्यां विशेषज्ञस्त्रिंशद्भेदं शतोत्तरम् । अष्टादशादि तद्वच्च  
चत्वारिंशच्च मध्यमाः ॥ अथाष्टावजपुर्या च तथा नीलां-  
बरे कृताः । कूटेऽष्टौ गृहभेदाश्च द्वयं स्कन्दपुरे कृतम् ॥  
पश्चिमे षोडश ग्रामा ह्येवं भेदान्विभज्य च । श्रीपांडिग्रा-  
ममुख्ये तु पंच भेदाश्चकार सः ॥ तथैव कौंडिलग्रामे  
द्वौ द्वौ भेदौ कृतौ सुदा ॥ कारमूरुग्राममध्ये द्वौ भेदावाह  
पार्थिवः । तथैव चोज्जये ग्रामे भेदानाह स षोडश । तदर्थं  
कर्तुमार्गे तु भेदानाह महीपतिः ॥ चीरकोडी ग्रामकोऽन्यं  
सदसद्भेदमाह सः ॥ १० ॥

अर्थात् कारेऊ ग्राममें चार भेद करके स्थापन किये वे कारेऊ ब्राह्मण कहाये, कर्काटी ग्रामके आठ भेदवाले कर्काटी ब्राह्मण कहाये, दो भेदवाले मरणग्रामके मरणनामवाले, कानु-  
वीग्रामके दो भेदवाले कानुवी, पांडीग्रामके चार भेदवाले पांडी, कोडिलग्रामके कौडी  
( कोंकणदेश निवासी ) चार भेदवाले, मागव ग्रामवासी मागव, मित्रनाडु ग्रामवासी मित्र-

नाडु, सात भेदवाले निर्मार्गिक ग्रामके निर्मार्ग, नौ भेदवाले सीमान्तुग्रामके सीमान्तु, एक सौ तीस भेदवाले शिववल्ली ग्रामके शिववल्ली, अठारह, चालीस; तथा आठ भेदवाले अजपुरी और नीलांबरमें बसनेवाले अजपुरी, आठ भेदवाले कूट ग्रामवासी कूट, दो भेदवाले स्कन्द-पुरवासी स्कन्द, पश्चिममें सोलह ग्रामोंमें इस प्रकार निवास कराया, पांच भेदवाले पांडी ग्रामवासी पांडी दो भेदवाले कौंडिल ग्रामवासी कौंडिल, दो भेदवाले कारमूरु ग्रामवासी कारमूरु, सोलह भेदवाले उज्जयग्रामवासी उज्जय, कर्तुमार्गमें इससे आधे इसीनामवाले चीर-कोडी ग्रामवासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये !

वामीजुरुग्रामके तु द्विभेदं वै चकार सः ।  
 पुरग्रामे च चत्वारि वल्लमंजे त्रयं तथा ॥  
 हैनाडुग्रामके नाम वेदवद्भेदमाचरेत् ।  
 तथैव इचुकुके ग्रामे षड् भेदानाह भूमिपः ॥  
 केमिंजे भेदमेकं च पालिंजद्विनयं तथा ।  
 शिरपाडिमहाग्रामे पञ्चभेदाञ्चकार सः ॥  
 कोडिपाडिग्राममध्ये भेदं सऋषिसंख्यकम् ।

दो भेदवाले वामीजुरु ग्रामके वामीजुरु, चार भेदवाले पुर ग्रामके पुरग्रामी, तीन भेदवाले वल्लमजग्रामवासी वल्लमंजी कहाये । चार भेदवाले हैनाडुग्रामवासी हैनाडु, छः भेदवाले इचुकु ग्रामवासी इचुकु, एक भेदवाले केमिंज ग्रामवासी केमिंज, दो भेदवाले पालिंज ग्रामके पालिंज, पांच भेदवाले शिरपाडिके शिरपाडि, सातभेदवाले कोडिपाडिग्रामके कोडिपाडि ब्राह्मण कहाये । यह कोंकणदेशमें रहते हैं । इस प्रकार इनके ग्रामोंका ७३ संख्याका विस्तार है । ग्रामोंमें २०६ गृहभेदोंको इस राजाने स्थापन किया, परन्तु यह सब ३२ ग्रामवासी कहकर विख्यात हैं ।

इति द्वात्रिंशद्ग्रामवासिब्राह्मणोत्पत्तिः । ( ब्राह्मणोत्पत्ति०—मा० )

अगस्त्य ब्राह्मण—अगस्त्यगोत्री ब्राह्मण अपनेको अगस्त्यब्राह्मण कहते हैं, ऋतुऋषिने अगस्त्यके पुत्र इध्मवाहको गोद लेकर अपना वंश चलाया यही अगस्त्य ब्राह्मण कहाये ।

अथर्ववेदी—यह उड़ीसाके ब्राह्मणोंमें वेदानुसार एक जाति है ।

अधिकारी ब्राह्मण—यह बंगाल तथा उड़ीसाके ब्राह्मणोंका एक भेद है यह प्रायः चैतन्यस्वामिके शिष्य होते हैं यह उपाधिभेद है पहले इनके पूर्वज शास्त्रादिमें अधिकार रखते थे इस कारण यह पदवी पाई ।

अम्बलवासी—यह ट्रावनकोरके पुजारी ब्राह्मणोंकी संज्ञा है कोई इनको नांबूरी जातिमें मानते हैं ।

अष्टसहस्र--यह द्रविड ब्राह्मणोंका स्मार्त भेद है, यह आर्कट त्रिचनापोली तंजौर तिव्वा-बेली मदुरा आदि स्थानोंमें पाये जाते हैं कानडी और तैलंगा भाषा बोलते हैं। शाकर और रामानुज दोनों सम्प्रदाय मानते हैं, मद्यमांसका किसीप्रकार सेवन नहीं करते; भाँके मध्य चन्दन या सिन्दूरका गोलाकार तिलक लगाते हैं।

अशूद्रप्रतिग्रहीः--वे ब्राह्मण जो शूद्रोंके यहांका दान नहीं लेते।

अरबतवकाल--कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है। माधवाचार्यकी सम्प्रदाय है।

अरवेळु--यह तैलंगी ब्राह्मणोंका एक गोत्रभेद है।

अद्वैत--बंगाल प्रान्तमें सतीपुरके वारेन्द्र ब्राह्मण जीवब्रह्मकी एकता माननेसे अद्वैत संज्ञक हैं।

अहिनरू--महाराष्ट्रोंका कुलभेद है।

अराढ्य--एकप्रकारके तैलंगी उपब्राह्मण हैं यह अर्द्धमुंडित लिंगायत हैं।

आचाररू--दक्षिणप्रान्तमें श्रीवैष्णवब्राह्मणोंका एक भेद है।

आभीरगौड--जो गौड ब्राह्मण आभीरजातिकी पुरोहिताई करते हैं।

आयर--यह द्रविड देशके स्मार्त ब्राह्मणोंकी जातिका एक भेद है यह वर्माभी कहलाते हैं, इनके चोला, वर्मा, सदायर, जवाली, इनजे यह पांच भेद हैं।

आयंगर--दक्षिणी वैष्णवब्राह्मणोंका सरनमें आयंगर है यह भी विशेष प्रशंसनीय हैं।

उदेन्य--सनाढ्य ब्राह्मणोंके २४ कुलोंमेंसे एक कुल है।

ऋषि-कहा जाता है इस नामकी एक जाति ब्राह्मणोंकी है पर हमारे देखनेमें नहीं आई यह तो एक प्रकारके ब्राह्मणोंका पद है।

इन्दौरिया-यह एक गौडब्राह्मणोंका भेद है, इंदरगढसे निकास होनेके कारण यह इन्दौरिये कहाये।

उडिया--उडीसा देशके ब्राह्मण साधारणतः उडिया कहाते हैं, यह जगन्नाथपुरीमें रहते हैं। परन्तु इनका पद साधारण स्थितिका है।

उलचकामे--माइसोरमें कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है।

ओझा--यह मैथिल ब्राह्मणोंकी घोटक एक पदवी है, परंतु आजकल ओझासे तांत्रिकोंका भी बोध होता है, इतनाही नहीं आजकल वढई छुहारभी अना वंश ओझाओंसे मिलाकर मैथिल होनेका दावा करते हैं, खाती लोगोंको यह बिचार करना चाहिये कि क्या आपको भी परशुरामजीका भय सवार हुआ था, जो यज्ञोपवीततक त्यागन करके पहिये बनाने लगे।हां जो यथार्थ ब्राह्मण हैं और प्रमाण रखते हैं;उनसे हमको किसी प्रकारका इतराज नहीं है।

कानाराकामा--यह कनारी ब्राह्मणोंका एक भेद है, यह तैलंग देशके निवासी कानाराकामा ब्राह्मण वैदिक हैं, और तैलंगी कहाते हैं।

कान्यूडी—यह एक पहाडी ब्राह्मणोंकी कन्दूरी जाति है चांदपुरके परनेमें कन्यूडा एक गांव इ इसके निकासके कारण यह कन्यूडी कहाते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं भी कहते हैं।

कमलाकर—यह महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें अल्लका एक भेद है ।

कर्कल—चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्मणोंकी अतिसमुदायकी अल्ल है ।

( कश्ता—महाराष्ट्रमें अधमश्रेणीके ब्राह्मण कश्ता कहाते हैं, यह पूना और खानदेशमें विशेषरूपसे रहते हैं और कृषि करते हैं इनको ब्राह्मण नहीं भी मानते बहुत कालसे इनका आचार भ्रष्ट हो गया है । )

कत्थक—यह गायनसम्बन्धी कार्य करनेवाली एक जाति है और यह अपनेको ब्राह्मण कहते हैं परन्तु दूसरे ब्राह्मण और इन लोगोंकी मान मर्यादामें बहुत भेद है, यह कत्थक गौड और कत्थक मैथिल दो प्रकारके भेदवाले हैं, यह राजपूताना युक्तप्रदेश बनारस बस्ती आजमगढ रायबरली आदि स्थानोंमें पाये जाते हैं ।

कुनवीगौड—यह पद उन गौड ब्राह्मणोंका है जो कुर्मी वा कुनवी लोगोंके यहां पुरो-हिताई करते हैं ।

कश्नोरा—यह गुजराती नगरोंका एक भेद कहा जाता है यह तीनों वेदोंके नामधारी भिक्षुक विशेष हैं ।

### गिरे ।

यह भगवान् शंकराचार्यके शिष्योंकी एक उपाधि जो संन्यासियोंको दीगई है उसका भेद है इस सम्प्रदायमें दस नाम हैं सरस्वती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, वन, गिरि, आरण्य, पर्वत और सागर । इनमें सरस्वती, भारती और पुरी नामोंका सम्बन्ध शृङ्गेरी मठसे है । तीर्थ और सम्बन्ध द्वारिकाके शारदामठसे हैं । वन और आरण्यका सम्बन्ध जगन्नाथ पुरीके गोवर्द्धनमठसे है । गिरि पर्वत और सागरका सम्बन्ध हिमालयके जोशीमठसे है सिद्धान्त सबका एक है ।

कोतवार—युक्त प्रदेशके मिर्जापुर प्रान्तमें इस जातिका निवास है । यह गौड ब्राह्मणोंका भेद है, कोई इसे पदवी कहते हैं ।

अन्ध्रवैष्णव—यह रामानुजसम्प्रदायके तैलंगी ब्राह्मणोंकी अल्ल है ।

अम्माको दागा—यह कुर्गदेशकी ब्राह्मणजाति है । यह कावेरी ब्राह्मण भी कहाते हैं । यह कुर्गके दक्षिणी पश्चिमी किनारोंपर रहते हैं । कावेरीको पूजते हैं, मद्यमांस सेवी नहीं हैं ।

कसलनाडू—तैलंगी ब्राह्मणोंकी अल्लका भेद है, कदाचित् यह शब्द कोमल नाडूसे बिगडा हो इनका निकास ओडप्रदेशान्तर्गत कोसला नगरी है । वहांसे यह तैलंगमें जाकर बसे है ।

गणक—बंगाल आसाम उड़ीसामें यह उन ब्राह्मणोंकी संज्ञा है जो ज्योतिष शास्त्रसम्बन्धी कार्य करते हैं, यद्यपि ज्योतिःशास्त्रका विज्ञान बहुत उच्च है परन्तु अब तो राहुकेतु देख-

नेका काम साधारण रूपके गणकोंका रह गया है अब तो यह ब्राह्मण भी जो गणक हैं मध्यमश्रेणीके गिने जाते हैं। यही लोग पर्वतमें जोशी कहाते हैं। बंगाल आसाममें गणक, कहीं नक्षत्र ब्राह्मण, कहीं ग्रहविप्र, कहीं ग्रहाचार्य और कहीं दैवज्ञ कहाते हैं “ विप्रश्च ज्योतिर्गणानाद्देदनाच्च निरन्तरम् । वेदधर्मपरित्यक्तो वभूव गणको भुवि” ( ब्रह्म वै० ) अर्थात् निरन्तर ज्योतिष गणनामें लगे रहनेसे और वेदधर्मका अनुष्ठान न करनेसे यह ब्राह्मण गणक कहाये ।

गर्गवंशी—जो ब्राह्मण गर्ग ऋषिकी संतान हैं वे गर्गवंशी ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय गर्गगोत्री हैं वे गर्गवंशी क्षत्रिय हैं। यह फैजावाद आजमगढ मुलतानपुरमें विशेषरूपसे निवास करतेहैं ।

गिरधरोत व्यास—यह मारवाड प्रदेशमें पुष्करणे ब्राह्मणोंकी जातिअल्ल है। इन व्यासस-ज्ञक ब्राह्मणोंके आदिपुरुष गिरिधरजी राय थे यह अमरसिंहजीके यहां नौकर थे। जिन्होंने आगरेकी लडाईमें स्वामीके निमित्त प्राणत्याग कर दिये थे, युद्धके कारण इनका शव जलाया न जासका, इस कारण यह गाडे गये, वहां इनकी मानता होती है। श्रावण शुक्ल तृतीया इनकी स्मृतिसूचक तिथि मानी जाती है, उसदिन कोई त्यौहार इस वंशवाले नहीं मनाते न नया वस्त्र पहरते हैं। मारवाडमें दाहिनी ओरको चोंच रखकर पगडी बांधी जाती है। परन्तु यह बाई ओरको चोंच रखकर पगडी बांधते हैं। राज्यसे इनको प्रतिष्ठा प्राप्त है।

गुरु—शिक्षक ब्राह्मणवंशके पुरुष गुरु कहाते थे परन्तु अब यह किन्हीं किन्हीं विप्रवंशों की जाति अल्ल हो गई है।

गोस्वामी वा गुसाई—यह वैष्णवोंकी वल्लभाचार्य सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है, यहाँ भी तैलंग ब्राह्मण हैं। एकभक्त इनमेंसे गोकुलमें आ रहे उनके वंशज गोकुलिये गुसाई कहाये, इनका बडा ऐश्वर्य है, इनके उपास्य राधाकृष्ण हैं। दूसरी सम्प्रदायोंके आचार्य भी गोस्वामी कहाते हैं।

गौड ब्राह्मण—यह भी मध्यप्रदेशकी एक ब्राह्मण जाति है। जव्वलपुरसे नागपुर पर्यन्त गौड ब्राह्मणोंकी वस्ती है। इस कारण उस देशका नाम गौडवाना हो गया है। कोई इनको कारा ब्राह्मण कहते हैं। कारण कि उस देशमें जंगल बहुत है। कोई इनको 'गौर, अर्थात् शुक्ल वा शुद्ध नामसे पुकारते हैं अर्थात् यह सब माच्यन्दिन शुक्लयजुर्वेदाध्यायी कहाते हैं इनका सूत्र आपस्तम्ब है। कप्वशाखा है। इनमें कोई ऋग्वेदी आश्वलायन सूत्रवाले भी हैं।

गंगापुत्र—गंगायमुनाके किनारे रहनेवाली सामान्य एक जाति है। यह गंगायमुनाकेकिनारे घाटोंपर बैठते हैं। स्नानको आये हुए यात्रियोंको चन्दन आदि देते हैं। यज्ञोपवीत पहराते हैं। असली गंगापुत्रकी उत्पत्ति तो संकरता लिये है। यथा हि—

## लेटात्तीवरकन्यायां गंगतीरे च शौनक । बभूव सद्यो यो बालो गंगापुत्रः प्रकीर्तितः॥

( ब्रह्मवैवर्तपु० )

लेट जातिके पुरुषसे तीवरकन्यामें गंगाकिनारे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गंगापुत्र कहाया । उसके वंशके सब गंगापुत्र कहाये । परन्तु अवघट वालियोंका काम गौडादि सब ब्राह्मण भी करते हैं । और अपनेको गंगापुत्र भी कह देते हैं । इनको संकर वंशमें नहीं गिनना चाहिये ।

गंगारी—यह एक प्रकारके पर्वती ब्राह्मणोंका एक भेद है । यह गंगाजीके किनारे रहते हैं । इनमेंका एक भेद सारोला है । परसारोला इनसे उच्च गिने जाते हैं । सारोला उच्च नीचका विचार रखते हैं गंगारी नहीं रखते । सारोलोंका एक भेद गैरोला है, सारालाका पुत्र वा कन्या यदि व्यभिचारसे उत्पन्न कन्या वा पुत्रसे व्याही जाती है तब वह गंगारी गहरौला कहाते हैं और जब विवाहितासे उत्पन्न हुएके साथ विवाह होता है तब सारोला गंगारी कहाते हैं परन्तु अलखनन्दासे परली ओरके चारों वर्ण गंगारी कहाते हैं । इनमें से घडियाल कंसमार्दिनी के पुजारी हैं उनयाल महिषमार्दिनी कालिका आदिके पुजारी हैं इनके अनेक भेद हैं यथा घिडियाल, दादाई, उनयाल, मलासी, कोयाल, सिमथल, कनपूडी, नौतयाल, थपलयाल, रातूरी, दोभाल, चमोली, हटबाल, डधोडी, मालागुरी, करयाल, नौनी सौमाती, विजिलवार, धुरानस, मनरी, भदावाली, महीन्याके जोशी और डिमडी । गढवाली ब्राह्मणोंमें इनका वर्णन कर चुके हैं ।

गन्धर्व गौड—गुजरातमें गानेबजानेवाली ब्राह्मणोंकी एक जाति है ।

गन्धरवाल—यह कुरुक्षेत्रमें आदिगौडोंके कुलका एक भेद है यह प्रतिष्ठित समझे जाते हैं ।

### अग्रभिक्षुः अग्रदानी, आचार्य ।

बंगाल प्रान्तमें जो ब्राह्मण मृतकके वस्त्रादिका दान लेते हैं । सूतकमें तथा दशमास पिण्डीमें तथा आशौचमें जो ब्राह्मण हाथी घोडा पालकी डेरे आदिका दान लेते हैं वे अग्रभिक्षु वा अग्रदानी कहाते हैं । एकादशा तीजा आदि शाव अशौच है, उसमें दान लेनेके कारण ब्राह्मणजाती उच्चभावसे पतित हुई, और स्पर्शसे भी वंचित हुई । युक्तप्रदेशमें यह महाब्राह्मण, वाकटशा, बंगालमें अग्रदानी, उडीसामें अग्रभिक्षु और पश्चिममें आचार्य माने जाते हैं । यह जाति इसमें तो सन्देह नहीं कि ब्राह्मण हैं परन्तु इनके यहां सदा मृतक अशौचका ही अन्न धन आता है, इस कारण यह ब्राह्मणोंके उच्च व्यवहारसे पृथक् हो गये हैं । इनका सम्बन्ध इन्हींके वर्गमें होता है । प्रायः इनमें पढे लिखे लोग बहुत कम पाये जाते हैं, परन्तु अब कुछ लोग पढ गये हैं, एक महाशयने आचार्य भास्कर नामकी एक पुस्तक हमारे पास भेजी है । उसका सारांश यह है कि, हमलोग आचार्य हैं,

और आचार्य एक बड़े महत्त्वका पद है । ( आचार्यवान् पुरुषो वेद ) इत्यादि महत्त्वसूचक पद शास्त्रमें आये हैं । तब हम आचार्य कहाते हुए निकृष्ट कोटिमें कैसे गिने जासकते हैं ? दूसरे ब्राह्मण भी तेरहवीं सत्रहवीं जीमते हैं, वे निकृष्ट क्यों नहीं इत्यादि इसपर हमारा कहना यह है कि, आचार्य शब्द जो शास्त्रोंमें आया है उस रूपमें तो कटया जाति नहीं आती, यज्ञोंमें आचार्य होते हैं, शास्त्रोंके आचार्य होते हैं, यथा साहित्याचार्य सांख्याचार्य आदि कर्मठाचार्य कर्मकांडी आदि वह आचार्यपद बेशक उस महत्त्वका है, परन्तु जो जाति केवल अशौच पर्यन्त सपिण्डी श्राद्ध तक ही दानादि ग्रहण करती है, शुद्धिके पीछे फिर किसी दानका अधिकार नहीं रखती । वह उत्तम कोटिमें कैसे हो सकती है, क्योंकि ग्यारहवें दिनके श्राद्धमें कर्ता श्राद्ध करनेके पीछे फिर भी अशुद्ध ही है । यथा ( आद्यश्राद्धमशुद्धोऽपि कृत्वा चैकादशेऽहनि । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥ मिताक्षरा ) फिर अशौचके अर्थ तो यही है कि, यह पुरुष अशुचि है, इसके यहांका भोजन पान निषेध है, जब अशुद्धिके हाथका भोजन पान निषेध है, उस अवस्थामें अशौचका अन्नपान भोजन करनेसे मनुष्य उस अशुचिवालेके समान होजाता है और फिर यह लोक अशौच अवस्थामें सबका अन्नादि ग्रहण कर लेते हैं तब फिर यह उत्तम कोटिमें आचार्य शब्द मात्रसे नहीं हो सकते । मनुजी कहते हैं—

**गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।  
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥**

गुरुके मृतक होनेपर पितृमेध करता हुआ शिष्य भी प्रेतहारोंके साथ दशरात्रमें शुद्ध होता है । तब जो निरन्तर प्रेत क्रियामें संलग्न हैं तब उनके साथ दूसरी श्रेणीके ब्राह्मणोंकी एक पंक्ति कैसे हो सकती है ? हां, इनमें जो कोई विद्वान् होकर निरन्तर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करै शास्त्रानुसार श्रेष्ठ दान लें यजन याजन करावें, आशौचका अन्नपान न लें तब स्वर्गादिकमें कुछ न्यूनता हो सकती है, परन्तु ब्रह्मवैवर्त कहता है—

**लोभी विप्रश्च शूद्राणामग्रे दानं गृहीतवान् ।  
ग्रहणे मृतदानानामग्रदानी बभूव सः ॥**

जिन लोभी ब्राह्मणोंने शूद्रोंसे प्रथम दान लिया तथा मृतकका दान लिया वह अग्रदानी कहाये । हमने यह शास्त्रमर्यादासे लिखा है, किसीके साथ हमारा द्वेष नहीं है । न हम किसीकी उन्नतिमें बाधक हैं ।

यहांसे आगे कौकण आभीर भिन्न ब्राह्मण पर्यन्त जो जातियें हैं तथा कुण्ड गोलक जातियें हैं यह बहुत कुछ ब्राह्मणत्व खोये हुये हैं, परन्तु यह वहां वहां ब्राह्मण कहे जाते हैं इस कारण हमने भी इनका स्वरूप लिखा है । यह ब्राह्मणजुव हैं ।



अथ कन्हाडे ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम् ।

सह्याद्रि खण्डमें स्कन्दजी पूंछते हैं, हे देवदेव ! काराष्ट्र ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहो, वेदवती नदीके उत्तर और कृष्णा नदीके दक्षिण भागमें दशयोजनके मध्यमें कारोष्ट्र देश है उस देशके ब्राह्मण कन्हाडे नामसे विख्यात हैं ।

**तद्देशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ।**

इनकी देशमें निन्दा है नरबलिके कारण यह निन्दित हैं, इन्होंने व्यभिचारसे उत्पन्न रेतको रासभकी अस्थिसे प्रक्षेप किया ।

**खरस्य ह्यस्थियोगेन रेतः क्षिप्तं विभावकम् ।**

**तेन तेषां समुत्पत्तिर्जाता वै पापकर्मिणाम् ॥**

इस देशमें विकराल स्वरूपा मातृका पूजित होती है, यह ब्राह्मण प्रति वर्ष इन मातृकाकी पूजा करते हैं, इनका भोजन दूसरे ब्राह्मणोंकी पंक्तिके साथ नहीं है, पुरीश, अत्रि, कौशिक, वत्स, हारीत, शांडिल्य, माण्डव्य, देवराज और सुदर्शन यह इन ब्राह्मणोंके गोत्र हैं, इन्होंने गरदा देवीका यज्ञ किया था इस कारण इनकी सर्वत्र विजय हुई इससे यह देवीको नरबली देते थे, इनमें तीन असामियोंका नाम पद्या है, यह केवल गायत्रीके जाननेवाले हैं ( पदमात्रं तु गायत्रीपारगाः कोंकणे स्थिताः ) कथा इस प्रकार है कुमुद्वती नदीके किनारे सुमुख नाम एक ब्राह्मण रहता था, उसको कामदेवने प्रसन्न होकर वसंतोत्सव नामक एक गेंद दी, और ऋषि उस गेंदको लेकर वहां रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राह्मणी उस आश्रममें आई, और ऋषिको नमस्कार करके खड़ी हुई, ऋषी बोले तेरे पुत्र होगा, ब्राह्मणाने आश्चर्यसे कहा, पुत्र तो होगा पर देवीके वरदानसे विष देनेमें कुशल होगा, कारण कि देवीने कहा है पुत्रकी इच्छा हो तो प्रति तीसरे वर्ष मेरी प्रीतिके निमित्त विष दानका व्रत करना, ऋषि देवाज्ञाको बलवान् समझकर चुप होगये, पीछे उस गेंदको हाथमें लेकर पीछे गर्दभकी एक अस्थि वहां पड़ी थी उसको छुआकर उस गेंदको रख दिया, उस गेंदके स्पर्शसे एक बड़ा दृढांग पुरुष उत्पन्न हुआ, और गर्दभके समान उसने शब्द किया, उसने ऋषिकी आज्ञासे उस स्त्रीसे रति की, उससे जो पुत्र हुआ वह खर संभव गोलक कहाया, यह सब इस वंशके गोलक कहाये, बलिदानके कारण हव्य कव्यसे रहित हैं । दूसरी कथा इस प्रकार है कि सह्याद्रि खंडके प्रथमाध्यायमें लिखा है. परशुराम क्षेत्रमें नदीपुर नाम एक क्षेत्र है वहां कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका निवास था, उनमें अवगुण संपन्न व्यभिचारोत्पन्न एक ब्राह्मण था, उसकी सामीप्यतासे अन्य ब्राह्मण भी दोषी हुए, जब वह मर गया तब दूसरे ब्राह्मण अपनेको संसर्ग दोषसे भ्रष्ट हुआ जानकर शास्त्र प्रमाणसे प्रायश्चित्त करके कृष्णा नदीके तटपर कराड नामक क्षेत्रमें आकर रहे, इस कारण कन्हाडे कहाये ।

करहाटाभिधे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः ।  
भिन्ना ज्ञातिः साभवद्वै करहाटाभिधानतः ॥

उनमें जो भ्रष्ट हुए वे पद्या कहाये ।

तेषां मध्ये च ये भ्रष्टास्ते पद्याख्या भवन्ति हि ॥

यह पद्या भी अपांक्त हुए, इनको एक वेदका अधिकार है, यह सांग ऋग्वेद पढते पढाते हैं, अपने पद ( देश ) में रहनेसे पद्ये कहाये, करहाटमें रहनेसे कन्हाडे कहाये ।

स्वस्मिन्नेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकीर्तिताः ॥  
करहाटे तु सत्क्षेत्रे करहाटाभिधाः स्मृताः ॥

यह शाके ९१५ में षट्कर्मधिकारी हुए हैं, गोत्र चंद्रिकामें इनके गोत्र प्रवर लिखे हैं ।  
अ० मा० पृ० ३३२ में देखो ।

अथ तलाजियाब्राह्मणोत्पत्तिः ।

यह तलाजिया जाति नामसे ब्राह्मण हैं । स्कन्द पुराणका लेख है कि जब रामचंद्रजी शम्बूक नामक शूद्रको मारकर ब्राह्मणके बालकको जिवाय दोष शांतिके लिये प्रभास क्षेत्रमें गये वहांसे सौराष्ट्र देशमें आये, जहां तराल नामक राक्षसोंको मारकर देवीने उसको भूमिमें गाड उसके ऊपर रैवतका शृंग स्थापित करके उसपर अपना स्वरूप द्वारवासिनी नामसे स्थापन किया, और वहांके धीवर गण बड़ी भक्तिसे देवीकी पूजा करते, और छटमार करते थे, रामचन्द्रजीने वहां आयकर देवीका दर्शन किया और ब्राह्मणभोजन कराय उनको दक्षिणा दी पीछे महाराजने वहांके ब्राह्मणोंको सुवर्ण मुद्रा देनेका विचार किया, ब्राह्मणोंने यह सुनकर प्रसन्नतासे आगमन किया, लालचवश वहांके कुछ धीमर भी ब्राह्मणोंका वेप धारण करके उनमें आनमिले, तब रघुनाथजीने यह जानकर कि यह संकरता फैलानेवाले महा-अपराधी हैं रामने उनके मारनेकी इच्छा की, तत्काल देवीने प्रगट होकर कहा मेरे भक्तोंको आप न मारो रामने कहा आगे इनसे बड़ा अनर्थ होगा देवीने कहा ।

ततो देव्यब्रवीद्राममेते ब्राह्मणवेशिनः ।

बंदिनः समजायन्तां सशिखाः सूत्रधारिणः ॥

यह सब लोग शिखा सूत्रधारी कलियुगमें बन्दी कहलावेंगे, और मेरे वरसे इनकी काया पलट होगी तब वे धीमर त्रिनामक ग्राममें गये वहां यज्ञोपवीत लिया द्विकर्ण ग्राममें कर्ण-वेध कराया उनके सात गोत्र स्थापित हुए, यह नाममात्र ब्राह्मण नाम मंत्रसे ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं ।

केवलं द्विजमात्रास्ते सोपवीती ह्यमंत्रकाः ।

तडाडजा द्विजास्ते वै जाता रामप्रसादतः ॥

त्रिप्राप्त और द्विरुर्णमें तिवारा करनेसे तडाजिये नामसे विख्यात हुआ इनको—

पादाङ्गुष्ठोदके दक्षे न श्राद्धे चाधिकारिता ॥

इनको ब्राह्मणोंके पार्वतीर्थ लेनेका अधिकार नहीं और श्राद्धमें अधिकार नहीं है । यह गांव गुजरातके निकट गोळवाड देशमें आवनगरसे पश्चिम बारह कोसपर तुलजापुर वा तलाजा नामसे विख्यात है, इनकी कुलदेवी द्वारवासिनी है, इनका जथा इससमय तलाजा झांझमेर पीथरुर सथरा उचडी आदि ग्रामोंमें है, रघुनाथजी इसप्रकार तीर्थयात्रा करके अयोध्यामें लौटे ।

इति तडाडजा ब्राह्मणोत्पत्तिः गुरजरसंप्रदायः ।

गुरडा ।

यह राजपूतानेमें निम्न श्रेणीके ब्राह्मण कहाते हैं, वाभी वलाई ढैढ आदि अछूत जातियोंके यहांकी वृत्ति करनेके कारण वह निम्न श्रेणीमें गिनेजाते हैं, कोई इनको ब्रह्माजीके पुत्र मेघ ऋषिकी सन्तान मानते हैं, कोई कहते हैं इन्होंने मरी गायको उठाकर फेंका था, इससे यह पतित हैं, कोई कहते हैं यह गुरुमक्त होनेसे गुरडा कहाते हैं ।

अम्माकोदागा ।

यह कुर्ग देशकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी ब्राह्मण भी कहाते हैं यह कुर्गके दक्षिणी पश्चिमी किनारोंपर रहते हैं, कावेरीको पूजते हैं, मद्य मांससेवी नहीं ।

अथ कोंकणदेशस्थब्राह्मणोत्पत्तिः ।

सहाद्विखण्डसे लेकर संक्षेपसे लिखते हैं, शौनक कहते हैं कि—

केरलाश्च तुरंगाश्च तथा सौराष्ट्रासिनः ।

कोंकणाः करहाटाश्च करनाटाश्च वर्वराः ॥

इत्येते सप्त देशाश्च कोंकणाः परिकीर्तिताः ॥

केरल, तुरंग, सौराष्ट्र, कोंकण, करहाट, कर्नाटक और वर्वर यह सात देश कोंकण कहाते हैं, एक समय महर्षि भार्गव श्रुक्तिमती नदीके किनारे स्नानके निमित्त गये वह स्नान कर रहे थे कि उस समय कुछेक गर्भवती विधवा क्षिप्र्य भूकसे व्याकुल हुई वहां आई और ऋषिसे कहा कि हम ३२ ग्रामवासी श्रोत्रिय वंशकी स्त्री हैं परन्तु कर्म रेखासे हम विधवा हुई, और गर्भवती होजानेके कारण बंधुजनोंने हम लोगोंको त्याग दिया, अब हम आपकी शरण हैं यह दीन वचन सुन ऋषिने उनपर दया की और क्रोश स्थानपर ले जाकर उनको वसाया और कहा—

क्रियतामत्र संवासः संतनिर्वो भविष्यति ।  
 गोलका इति नाम्ना वे रूपाणि यास्यन्ति विश्वयम् ।  
 अवैदिकी क्रिया सवः पुराणपठनं न च ॥  
 क्व लिंगस्पर्शनं योगः सर्वेषामत्रिगोत्रकम् ॥  
 पारशब्दं कारवेलं वायनं चोलुकं तथा ।  
 कपित्थं चेति पञ्चैव ग्रामाः स्युः सुखकारकाः ॥

तुम्हारी संतान गोलक नामसे विख्यात होंगा, वेद पुराणरहित सब क्रिया तुम्हारी होंगी, शिवलिङ्गस्पर्शका उनको अधिकार न होगा, सबका अत्रि गोत्र होगा, पार कारवेल वामन चोलुक कपित्थ इन पांच ग्रामोंमें यह सन्तनि निवास करैगी, नामः मात्राके ब्राह्मण होकर यह कलियुगमें विचरण करैगे ।

पातित्यग्रामनामा वै भुक्तिमत्याश्च दक्षिणे  
 तत्राऽष्टौ ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः समावाताः समार्यकाः ॥  
 शूद्राणां वाहका जाताः पतितास्ते न संशयः ।  
 पातित्यग्रामकोऽन्यस्तु कोटिलिंगेशसत्रिधौ ॥  
 तत्र ये ब्राह्मणाः सन्ति ततमुद्राकिनाश्च वै ।  
 कूटसाक्षिप्रदानेन पतितास्ते न संशयः ॥  
 पातित्यग्रामकोऽन्यश्च वक्रनद्यास्तटे शुभे ।  
 तत्र विप्रा वेदबाह्यास्तन्तुमात्रा द्विजातयः ॥  
 गायत्रीजपमात्रेण ब्राह्मणा इति तान्विदुः ।  
 ख्याता लोकेषु सर्वत्र स्वग्रामाभिधयैव ते ॥

भुक्तिमतीके दक्षिण किनारे पातित्य ग्राम है वहां आठ श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी स्त्रियों सहित आये, वे शूद्रोंके वाहक होनेसे पतित होगये । कोटिलिंगेशके समीप दूसरे पातित्य ग्राममें जो तप्त मुद्रा भुजाओंमें लगानेवाले ब्राह्मण निवास करते हैं वे मिथ्या साक्षी देनेके कारण पतित होगये हैं, वक्र नदीके किनारे दूसरे पातित्य ग्रामके निवासी ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण मात्राके ब्राह्मण हैं, बस गायत्रीजप मात्रसे ही वे ब्राह्मण हैं, वे पातित्य ग्रामके नामसे पतित ब्राह्मणही कहाते हैं ।

कुडालकं पट्टिकंच मट्टिनागाभिधं तथा ।  
 रामेण निर्मिता विप्राः स्थिता ग्रामचतुष्टये ॥  
 षट्कर्मरहिता ये तु राजन्ते भुवनेश्वर ।  
 वक्ष्यामि राजशार्दूल ग्राममन्यं बहिष्कृतम् ॥  
 वेलंजीति तमित्याहुः सीतायाश्चोत्तरे तटे ।  
 कृत्वा मिथुनहत्यां च प्रचरन्ति नराधमाः ॥  
 सौराष्ट्रब्राह्मणाः सर्वे शुद्धिं प्राप्नुश्च यत्र वै ॥  
 तदाप्रभृति तं ग्रामं वेलंजीति वदन्ति हि ॥  
 तत्र स्थितान् द्विजान् सर्वान्पतितान्प्रवदन्ति हि ।  
 तेषां दर्शनमात्रेण पातित्यं चानुयास्यति ॥

कुडालक पट्टिक मट्टिनाग ब्राह्मण रामके स्थापित किये इन चार ग्रामोंमें निवास करनेसे ग्रामके नामसे विख्यात हुए, यह भी छः कर्मोंसे रहित हैं, अब दूसरे बहिष्कृतोंको कहते हैं, सीताके उत्तर किनारे वेलंजी ग्राम है वहांके निवासी ब्राह्मणोंने मिथुनहत्या की, इसकारण वे वेलंजी ग्रामनिवाससे वेलंजी मिथुनहर ब्राह्मण कहाये, वे सब पतित हैं और उनका दर्शन भी अनिष्ट है ।

केरले संस्थिता विप्राः केरलास्ते प्रकीर्तिताः ।  
 तौलवे तौलवाश्चैव हैगा कोटास्तथैव च ॥  
 नैम्बुरुब्राह्मणाश्चैव यम्बराद्रिद्विजास्तथा ।  
 परस्परं प्रकुर्वन्ति कन्यासम्बन्धमेव च ॥  
 हैगाख्या ब्राह्मणाश्चैव कन्यकाया ह्यलाभके ।  
 नैम्बुरुब्राह्मणानां वै कन्यां गृह्णन्ति केचन ॥

अर्थात्—केरलके रहनेवाले केरल, तौलवके तौलव, हैगाके हैगा, कोटाके कोटा, नैम्बुरुके नैम्बुरु, यम्बराद्रिके रहनेवाले यम्बराद्रि ब्राह्मण कहाये, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर होता है, जब हैगा ब्राह्मणोंको कन्या नहीं मिलतीं तब वे नैम्बुरु ब्राह्मणोंकी कन्या लेते हैं । इनमें किसीकी केरली किसीकी तौलवी और दूसरोंकी कर्णाटकी भाषा है ।

इति कोंकण तथा पतितादिभेदः ( ब्राह्मणोत्पत्ति मा० )

अथ देवरुखब्राह्मणोत्पत्तिः ।

वासुदेव चित्तले नामका एक चित्तपावन ब्राह्मण था, उसने बावडी, कूप बनाकर अनेक धर्मानुष्ठान किये । उसने बारह वर्ष तक देवीकी आराधना की, उसको वाक्सिद्धि हुए पीछे वह परशुराम क्षेत्रमें श्मशानके समीप सरोवर बनानेकी इच्छासे धनके मदसे मत्त हो गुणी ब्राह्मणोंतकसे मृत्तिका निकलवाने लगा । एकसमय देवरुखकी ओरसे वेदशास्त्रसम्पन्न ब्राह्मण-समूह वहां आया, उनमें सब कन्हाडे थे, उन्होंने स्त्री पुरुषोंको मृत्तिका ढोते देखकर उस ब्राह्मणसे पूछा यह क्या बात है, ब्राह्मणने सब वृत्तान्त सुनाया । वे सुनकर बड़े आश्चर्यमें हुए और उससे कहा तुम भी तो मृत्तिका निकालो, वासुदेवने प्रार्थना की पर वे वाद विवाद करनेलगे । तब उस ब्राह्मणने शाप दिया तुम्हारी पंक्तिमें जो भोजन करैगे तथा सह-वास करैगे वे दरिद्री होंगे और तुम भी तेजोहीन लोकनिध होगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके कारण तुम्हारा नाम देवरुख होगा १४१९ शकेमें यह चित्तपावनके शापसे देवरुख ब्राह्मण हुए ।

अथ आभीरभिल्लब्राह्मणोत्पत्तिः ।

कहावत प्रसिद्ध है कि एकसमय भगवान् रामचन्द्र जब विन्व्याचलके समीप तापीके तटपर आये तब एकसमय उनको भिल्लोंके समूहने आकर कहा हमारे कृत्यके निमित्त ब्राह्मणोंकी आवश्यकता है और तपस्वी ब्राह्मण हमारे कृत्यमें आते नहीं इसकारण हमको ब्राह्मण दीजिये, यह सुनकर कृपापरवश हो रघुनाथजीने उनसे कहा मैं भूमिमें सात रेखा करता हूं तुम एक एकपर चढो तब जब वे पहली रेखापर खडे हुए तब रामचन्द्रने उनसे कहा तुम कौन हो वे बोले हम भिल्ल हैं, पर भिल्लकर्म छोडके शुद्ध स्वभाववाले हैं, दूसरी रेखापर खडे होकर अपनेको विश्वकर्मा जातीय बताया, तीसरीपर शूद्र, चौथीपर सच्छूद्र, पांचवी पर वैश्य, छठीपर क्षत्रिय और सातवीं रेखापर जब चढे तब अपनेको ब्राह्मण बताया और सर्वगुण सम्पन्न हुए । तब रामचन्द्रजीने कहा भिल्ल जातिके कर्मधर्ममें तुम्हारा अधिकार होगा, तुम अभिल्ल और अभीर ब्राह्मण कहाओगे, कानुबाई रानुबाई कुलदेवी होंगी, विवाहादिमें इन्हींकी पूजा करना, नवरात्रमें प्रतिवर्ष नारा लपेटना, अखंड दीपक बालकर पूजा करना ।

इति भिल्लब्राह्मणोत्पत्तिः । ( इति महाराष्ट्रसम्प्रदायः )

अथ पांचालउपब्राह्मणोत्पत्तिः ( ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डे )

अब शिवागमसे\*शैव पांचालोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।

पंचवक्रात्समुत्पन्नाः पंचभिः कर्मभिर्द्विजाः ॥

मनुर्मयस्तथा त्वष्टा शिल्पिकश्च तथैव च ॥

दैवज्ञः पञ्चमश्चैव ब्राह्मणाः पंच कीर्तिताः ॥

\* शिवागमसे किस ग्रन्थका ग्रहण है यह ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डमें नहीं लिखा और लिंगपुराणमें यह कथा नहीं है ।

मनुः संहारकर्ता च मयो वै लोकपालकः ।  
 त्वष्टा चोत्पत्तिकर्ता च शिल्पिको गृहकारकः॥  
 दैवज्ञः सर्वभूषादिकर्ता वै हितकाम्यया ॥

अर्थात्—भगवान् शंकरके पांच मुखसे पांचकर्मवाले द्विज उत्पन्न हुए उनके नाम मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पि और दैवज्ञ हुए, मनुका कार्य शास्त्रादिक निर्माण. मय—लोगोंके कार्यमें आने-वाले काष्ठादि पदार्थोंके निर्माता, त्वष्टा—लोकहितकारी पदार्थोंका निर्माता, शिल्पी—देवमन्दिरादिका निर्माता, दैवज्ञ,—सुवर्ण आदि अलंकारोंका निर्माता हुआ । तथाच—

ऋग्वेदश्च मनोश्चैव यजुर्वेदो मयस्य च ॥  
 सामवेदस्त्वाष्ट्रकस्य त्वथर्वा शिल्पिकस्य च ।  
 सुषुम्णाभिवेदोऽसौ दैवज्ञानां प्रकीर्तितः ॥

मनुका ऋग्वेद, मयका यजु, त्वष्टाका साम, शिल्पीका अथर्व, दैवज्ञका सुषुम्णा (इनका रहस्य ) नामक वेद हैं, यह सब उपब्राह्मणरूप हैं, अब ब्रह्मपांचालों का वर्णन करते हैं ।

विश्वकर्मनिर्देशेन पुरा सृष्टा विरंचिना ।  
 चत्वारो मनवो लोकनिर्मिताः सृष्टिहेतवे ॥  
 यो विरंचिः स वैराजः प्रजापतिरुदारधीः ।  
 अन्तराले गणानाञ्च वरिष्ठो लोककारकः ॥  
 वैराजस्य सुखाज्ज्ञे विप्रः स्वायम्भुवो मनुः ।  
 स्वरोचिषो मनुः क्षत्री ब्राह्मणो बाहुमण्डलात् ॥  
 रैवताख्यो मनुर्वैश्यो वैराजस्योरुमण्डलात् ।  
 तामसाख्यो मनुः शूद्रो वैराजस्यांघ्रिमण्डलात् ॥

विश्वकर्मा जगदीश्वरकी आज्ञासे वैराज ( प्रजापति ) ने चौदह लोक निर्माण करके चार मनु उत्पन्न किये, उनके मुखसे ब्राह्मणकी सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू मनु हुए, बाहूसे क्षत्रिय सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले क्षत्रियरूप स्वरोचिष मनु हुए, ऊरूसे वैश्यसृष्टिको उत्पन्न करने-वाले वैश्यरूप रैवत मनु हुए और चरणोंसे शूद्र सृष्टिके करनेवाले तामस मनु हुए ।

स्वायम्भुवस्य षट् पुत्रा ज्येष्ठोऽथर्वा प्रकीर्तितः ।  
 सामवेदो यजुर्वेदः क्रमाद्ऋग्वेद एव च ॥  
 वेदव्यासः पंचमोऽथ प्रियव्रत उदीरितः ।

एते षण्मुख्यविप्राश्च तूपविप्रानथो शृणु ॥  
 आद्यः शिल्पायनश्चैव गौरवायन एव च ।  
 कायस्थायन आख्यातस्ततो वै मागधायनः ॥  
 अथर्वादय आद्याश्च मनोः स्वायम्भुवस्य ते ।  
 षट् पुत्रा मुख्यविप्राश्च कथिता वेदवादिभिः ॥  
 ऋग्वेदादिकवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम् ।  
 ते मुख्यवेदिनः सर्वे मुख्यब्राह्मणसंज्ञकाः ॥  
 स्वायम्भुवमनोः पुत्राः प्रोक्ताः शिल्पायनादयः ।  
 चत्वार उपविप्राश्च कथिता वेदवादिभिः ॥  
 आयुर्वेदादिवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम् ।  
 ते चोपवेदिनः सर्वे ह्युपब्राह्मणसंज्ञकाः ॥

अर्थात्—स्वायम्भु मनुके क्रमसे साम, यजु, ऋक्, अथर्व, वेदव्यास और प्रियव्रत यह छः ब्राह्मण हुए । यह मुख्य ब्राह्मण हैं । इनके पीछे चार उप ब्राह्मण हुए, वे शिल्पायन, गौरवायन, कायस्थायन और मागधायन नामसे विख्यात हुए, और अथर्वादिक छः पुत्र मुख्य ब्राह्मण हैं वे वेदमंत्रोंके पढनेके अधिकारी हैं, शिल्पायनादि चार पुत्र उप ब्राह्मण हैं, वे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्पवेदके पढनेके अधिकारी हैं, मुख्य ब्राह्मणोंका शिखा यज्ञोपवीत गायत्रीमें अधिकार है और—

तथा चोपविप्राणां गायत्रीश्रवणं स्मृतम् ॥

उपब्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके मुखसे सुन सकते हैं ।

अथर्वणस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीर्तितः ।  
 तस्मादाथर्वणाः प्रोक्ताः सर्वे शिल्पिन एव च ॥  
 शिल्पायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येष्ठश्च लोहकृत् ॥  
 सूत्रधारः प्रस्तरारिस्ताम्रकारः सुवर्णकः ॥  
 पांचालानां च सर्वेषां शाखा वै वैश्वकर्मणी ।  
 तेषां वै पंचगोत्राणां प्रवरं पंचकं स्मृतम् ॥  
 तेषां वै रुद्रवदैवत्यं त्रिष्टुप् छन्दस्तथैव च ।



अथर्वका उपवेद शिल्पवेद है इस कारण सब शिल्पी आथर्वण होते हैं इन उपपांचालोंमें शिल्पायनके पुत्र लोहकार, सूत्रधार, प्रस्तरारि ( पत्थरकी नकाशी करनेवाला ) ताम्रकार और सुवर्णक हुए, इन सबोंकी वैश्यकर्म शाखा, कौंडिन्य, आत्रेय, भारद्वाज, गौतम, काश्यप यह गोत्र और सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान यह पांच प्रवर हैं, आश्वलायन, आपस्तम्ब, वोषायत्त, दाक्षायण, और कात्यायन यह पांच सूत्र हैं, रुद्रदेवता त्रिष्टुपूछन्द और रुद्र गायत्रीका अधिकार है ।

शिल्पवेदश्च शिल्पानां पंचानां परिकीर्तितः ।  
 अध्ययनं च तत्रैव संहितापंचकं स्मृतम् ॥  
 शिल्पायनसुतो ज्येष्ठो मनुः शिष्यत्वमेव वै ।  
 पपाठ संहितामाद्यां धातुवेदस्य लोहकृत् ॥  
 सूत्रधारो द्वितीयोऽथ मयशिष्यत्वमादरात् ।  
 संहितां सूत्रयाराख्यामपठत् कोकमेव च ॥  
 शिल्पायनसुतस्तक्षा शिल्पः शिष्यत्वमादरात् ।  
 सशैलसंहितां तस्मात्पपाठ भृगुनन्दन ॥  
 अथ ताम्रकरः शिष्यः शिल्पिकस्याभवत्पुरा ।  
 शिल्पायनसुतस्तुर्यस्त्वपठत्ताम्रसंहिताम् ॥  
 नाडिधमोऽथ शिष्योऽभूद्देवज्ञस्यैव पंचमः ।  
 सुतः शिल्पायनस्यैव पपाठ स्वर्णसंहिताम् ॥

इनको शिल्पवेदकी पांच संहिता पढनी चाहिये शिल्पायनके बड़े पुत्रने मनुका शिष्य बनकर उनसे धनुर्वेदकी संहिता पढी, सूत्रधारने मयका शिष्य बनकर सूत्रधार संहिता और कोक संहिता पढी, तक्षाने शिल्पीका शिष्य बनकर शैलसंहिता, अध्ययन की । ताम्रकारने त्वष्टाका शिष्य बनकर ताम्रसंहिता पढी, स्वर्णकारने दैवज्ञ शिष्य बनकर सुवर्ण संहिता पढी, इस प्रकार पांचोंने पांच शिल्पसंहिता पढी, यह उपब्राह्मण पीछे ध्रष्ट होते २ सब कर्मोंसे रहित होगये, उस समय विश्वकर्माके मुखसे उत्पन्न हुए, मनु मय आदि पांच देवतावाले थे ।

नित्यं नैमित्तिकं कर्म द्विजातीनां यथाक्रमम् ।  
 पितृयज्ञं भूतयज्ञं दैवयज्ञं तथैव च ॥  
 जपयज्ञं ब्रह्मयज्ञं पंचयज्ञांश्चरन्ति वै ।  
 एवं त्रिविध आचारः कर्तारस्ते द्विजातयः ॥

पांचाल ब्राह्मणोंको तो षट् कर्म करनेका अधिकार है, यज्ञ करना कराना, पढना पढाना, दान लेना देना यह षट् कर्म हैं, स्नान तीन कालकी संध्या अग्निहोत्र यह सब ब्राह्मणोंके हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म पांचालोंको करने चाहिये, पितयज्ञ ( श्राद्धतर्पण ) भूतयज्ञ ( बलि-हरण ) देवयज्ञ ( देवपूजन ) जपयज्ञ ( गायत्रीजप ) ब्रह्मयज्ञ ( वेदपाठ ) यह सब कर्म ब्राह्मणोंके हैं, उपब्राह्मण पुराणोक्त कर्म करते हैं ।

इति पांचाल उपब्राह्मणोत्पत्तिः ।

अथ कुंडगोलकब्राह्मणोत्पत्तिः ।

शुद्धकमलाकरमें यमका वाक्य है कि—

अमृते जारजः कुंडो मृते भर्तरि गोलकः ।  
 जारजातः सवर्णायां कुंडो जीवति भर्तरि ॥  
 मृते गोलकनामा तु जातिहीनौ च तौ स्मृतौ ।  
 असवर्णासु नारीषु द्विजैरुत्पादिताश्च ये ॥  
 परपत्नीषु सर्वासु कुण्डास्ते गोलकाः स्मृताः ।  
 मातृवर्णा न ते प्रोक्ताः पितृवर्णा न च स्मृताः ॥  
 अविवाह्याः सुताश्चैषां बन्धुभिः पितृमातृतः ।

आदित्यपुराणे ।

चतुर्णामपि वर्णानां जीवतामन्यसंभवः ॥  
 कडस्तु संकरी ज्ञेयो मृतानामथ गोलकः ।  
 जातिहीनः समातृणां ग्राहयेत्कर्मनामनी ॥  
 योज्यो देवपुरे राज्ञा वर्णसंकरभीरुणा ।  
 कुंडो वा गोलको विप्रः संधयोपासनमात्रवित् ॥  
 स्नानभोजनसंध्यासु देवेषु संपठेच्च तत् ।  
 एवमेव द्विजैर्जातौ संस्कार्यौ कुंडगोलकौ ॥  
 मनुः—जातो नार्याम नार्यायामार्योदर्यो भवेद्गुणैः ।  
 जातोप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥

अनयोः श्राद्धे निषेधनाह याज्ञवल्क्यः—  
 रोगी हीनातिरिक्तांगः काणः पौनर्भवस्तथा ।  
 अवकीर्णी कुण्डगोलौ कुनखी श्यावदन्तकः ॥  
 श्राद्धे वर्ज्य इति शेषः ।

परस्त्रियोंमें कुंड गोलक पुत्र उत्पन्न होते हैं, पति जीवित होते जाय पुरुषसे जो पुत्र उत्पन्न होवै वह कुण्ड है और पतिके मरनेपर जो जायसे उत्पन्न हो वह गोलक है, चाहे, वे अपने २ वर्णमें उत्पन्न होवें तथापि वे दोनों जातिसे हीन हैं, सय जातिकी परस्त्रियोंमें ब्राह्मणोंसे उत्पन्न होवें वे कुण्ड गोलक कहे जाते हैं; उनका वर्णधर्म न मातासे मिलता है न पितासे । उनके साथ पूर्वके सम्बन्धियोंका विवाह नहीं होता; यह कुण्ड गोलक संकर जातिमें हैं. चारवर्णोंमें पतिके जीते अन्य पुरुषसे उत्पन्न हुआ कुण्ड और पतिके मरनेपर उत्पन्न हुआ गोलक कहाता है ऐसा आदित्यपुराणका लेख है । राजाको ऐसे पुरुषोंकी योजना देव-द्वारमें करनी चाहिये, उनकी माताओंके नाम तथा कर्मोंसे इनके नाम कर्मोंकी व्यवस्था करनी । कुण्ड गोलक ब्राह्मणोंको स्नान संध्या भोजनके समय वंदीजन जैसा वचन कहना सन्ध्योपासन मात्र करना कोई कहते हैं ब्राह्मणसे उत्पन्न कुण्ड गोलकका संस्कार करना । मनु कहते हैं, नीच स्त्रीमें उत्तम वर्णसे उत्पन्न हुए कुण्ड गोलक संस्कारके योग्य हैं, उत्तम वर्णकी स्त्रीमें नीचसे उत्पन्न कुण्ड गोलक संस्कारके योग्य नहीं है । याज्ञवल्क्यने रोगी, हीनांग, अधिकांग ( छंगा ), काना, पौनर्भव, अवकीर्णी, कुण्ड गोलक, काले वा बुरे नखोंवाला, श्यामदन्तक, काले दांतवाला इतने पुरुषोंको श्राद्धमें जिमानेका निषेध किया है ।

इति कुण्डगोलकोत्पत्तिः ।

इति श्रीमुरादावादवास्तव्यविद्यावारिधिपंडितज्वालाप्रसादमिश्र-  
 संकलिते जातिभास्करे प्रथमः खण्डः समाप्तः । श्रीरस्तु.



## अथ क्षत्रियखण्डारंभः ।

वाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत और भविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी वंशावली आरंभ करते और उनके वंश लिखते हैं ।

परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः । स एवासीद्दिवेश्वं  
कल्पान्तेऽन्यं न किञ्चन ॥ तस्य नामैः समभवत्पद्मकोशो हिर-  
ण्मयः ॥ तस्मिञ्जज्ञे महाराज स्वयम्भुश्चतुराननः । मरीचिर्मन-  
सस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । दाक्षिण्यां च ततोऽदित्यां  
विवस्वानभवत्सुतः ॥ ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत ।  
श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान्स आत्मवान् ॥ इक्ष्वाकुनृगशर्या  
तिदिष्टधृष्टकरुषकान् । नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च तथाविभुः ॥

( भागवत ९, स्कन्ध १ अध्याय )

वेदप्रतिपाद्य क्षत्रिय जातिमें सर्वप्रथम सूर्यवंश विख्यात है, दूसरा चंद्रवंश है, इन्हीं वंशोंके क्षत्रियोंके नामसे और भी अनेक वंश विख्यात हुए हैं इत्कारण हम वंशावली लिखते जिससे अपने २ पुरुषोंका ज्ञान क्षत्रियोंको होता जायगा ।

श्रीनारायण ।

ब्रह्मर्षी

मरीचि ————— अत्रि

कश्यप

विवस्वान

वैवस्वतमनु

इक्ष्वाकु	नृग	शर्याति	धृष्ट	करुष	नरिष्यन्त	पृषध्र	नभग	कवि	इल
विकुक्षिआदि १०० पुत्र		इसके वंश		इसके वंश-					
पुरञ्जय वा काकुत्स्थ		में आनर्तने		घर कारुषक					
अनपृथु		कुशस्थली		उत्तरमें					
विश्वगन्धि		बसाई		सूर्यवंशकी					
आर्द्र				शाखा नियत					
युवनाश्व				की					

श्रावस्त	नाभाग	त्रिशंकु	दिलीप
बृहद्ध	अम्बरीष	हरिश्चन्द्र	रघु
धुंधमार	सिन्धुद्वीप	रोहित ( रोहितनगरका	अज
दृढाश्व	अयुतायु	हरित बसानेवाला )	दशरथ
हर्यश्व	ऋतुपण	चम्प ( चम्पापुरका बसानेवाला )	रामचंद्र
निकुंभ	नल	विजय	
बृहणाश्व	सवकाम	भरुक	
सेनजित	सुदास	वृक	
शुवनाश्व	अरुमक	वाहुक ( असित )	
मान्धाता	मूलक	सगर	
पुरुकुत्स	सत्यव्रत(दशरथ)	केशी	
अनरप्य	ऐडविड	असमंजस	
त्रिघन्का	विश्वसह	अंशुमान	
त्रय्यारुण	खट्वांग	दिलीप	
सत्यव्रत	दीर्घबाहु	भगीरथ	
		श्रुतसेन	

इक्ष्वाकुके दूसरे विकुक्षिके पुत्रका नाम निमि था, इन्होंने एक बार यज्ञ किया उस समय यज्ञमें वशिष्ठ और निमिका परस्पर क्लेश हुआ और दोनोंने दोनोंको प्राणरहित होनेका शाप दिया, तत्काल दोनोंने शरीर त्यागन कर दिया, वशिष्ठजीने तो मित्रावरुणके कीर्त्यसे जन्म लिया, और निमिके जीवित करनेका उनके ऋत्विजोंने यत्न किया, तब निमिने कलेवर स्वीकार न करके सबके पलकोंपर निवास स्वीकार किया, तब ऋत्विजोंने अरणी-द्वारा निमिका देह मथा, उस मथनसे जो पुरुष प्रगट हुआ वह मिथि हुआ, इनसे यह वंश पृथक् होकर निमिवंश कहाया और इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई ।

शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः ॥  
 अशपत्पतताहेहो निमिः पंडितमानिनः ॥४॥  
 निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मवर्तिने ॥  
 तवापि पतताहेहो लोभाद्धर्ममजानतः ॥ ५ ॥  
 इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः ॥  
 मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥  
 तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभून्मे देहबन्धनम् ॥७॥

देवा ऊचुः—

विदेह उष्यतां काय लोचनेषु शरीरिणाम् ॥  
देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥  
जन्मना जनकः सोऽभूद्रैदेहस्तु विदेहजः ॥ १३॥  
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ।

( भागवत नवमस्कन्ध अ० १३ )

१ निमि	१५ कृतरथ	२९ अरिष्टनेमि	४३ श्रुतसेन
२ मिथि ( मिथिला )	१६ देवमाढ	३० श्रुतायु	४४ नयसेन ( जव )
३ जनक	१७ विस्तृत	३१ सुपार्थ	४५ विजय
४ उदावसु	१८ महाधृति	३२ चित्ररथ	४६ आर्द्र ( ऋज )
५ नन्दिवर्द्धन	१९ कृतिरात	३३ क्षेष्की	४७ शुनक
६ केतु	२० महारोमा	३४ समरथ	४८ दीतहव्य
७ देवरात	२१ स्वर्णरोमा	३५ ऊर्ध्वकेतु	४९ धृति
८ बृहद्रथ	२२ ह्रस्वरोमा	३६ सोमरथ	५० बहुलाश्व
९ महावीर्य	२३ सीरध्वज	३७ सत्यरथ	५१ कृति
१० सुधृति	२४ कुशध्वज	३८ उपगुरु	( इति निमिवंश )
११ धृष्टकेतु	२५ धर्मध्वज	३९ उपगुप्त	
१२ हर्य	२६ कृतध्वज	४० एनगुप्त	
१३ मरुत	२७ केशीध्वज	४१ युयुधान	
१४ प्रतीप	२८ बाहुमान	४२ सुभाषण	

( भानुमान )

चन्द्रवंशका वर्गन ।

ब्रह्माजी

।

अत्रि

।

समुद्र

चन्द्र इला

बुध

पुरूरवा

आयु

नहुष

ययाति

यदु	[ इनके छः पुत्र हुए ]	पुरु	तुर्वसु ( उरुउरस )
क्रोष्टु	शतजित वा सहस्रजित पांचवा	जनमेजय	बहि
वृजिन्वान	हैहय वेणुहयहय	प्राचीनवान	सुवह्नि ( गोधागु )
स्वाहि	धर्मनेत्र ( नौवां सन्तान )	प्रविधान	त्रिशानि
उभंग वा रुषद्रु	सहेता ( सहन )	प्रधीर	करधम
चित्ररथ	भद्रसेन	मनस्यु	मरुत
शशबिन्दु			
पृथुश्रवा	दुर्दम	चारुपद	यशमति ( दुष्मंत )
सुर्यश	कर्नक	सुधन्वा	वरुथ ( इनके आठपुत्र )
उशना	कृतवीर्य	बहुगव	द्रुह्य बंध
तितिक्षु	सहस्रार्जुन ( १०० पुत्र हुए )	संयाति	सेतुं पुरदेश
मरुत	शरसेन	अहयाति	और ( आरद्वान ) गांधार
कम्बल	शर		
बर्हिष	धृष्टि	रौदाश्व	गांधार गंध
			धर्म
रुक्मकवच	कृष्ण	धृताचि	धर्मसेन धर्मवृत्त
रुक्मेषु	जयध्वज	रंतिनार	दृढसेन प्रहित ( प्रचेता )
पृथुरुक्म	कुत्स		प्रचेता
हविष्मान्	यंग	तसु	कान सभानर

भाषाटीकासंवलितः ।

( २१३ )

ज्यामघ	तालजंघ(इनकी पांचशाखा)	सुमति	गोमान	कालान्ध
				सुज्ञय
सुव्यापि	वीतिहोत्र	रैभ्य	कशानु	पुरञ्जद
विदर्भ	दृष्टा			
		दुष्मन्त(दुष्यन्त)	करन्धम	जनमेजय
कौशिक	युवन ( अनंत ) ( तीसरावंशधर )			महाशाल
लोमपाद	दुर्जय	भरत	मेरु	महाम्ना
धृति		वितथ	मस्त	उशीन्
जीमूत		मन्यु	दुष्मन्त	वृग ( इन्के
ऋषभ		बृहत्क्षेत्र		नौ पुत्र )
			कसुन	( कुरुस्थान )
		सुहोत्र		!

कलिंगर केरल पांडु चोल

		हस्ती			
भीमरथ				कृमि	
नवरथ	अनमीढ	ऋक्ष			
द्वरथ	शान्ति	जर्हु		दर्शन	
		सम्बरण		शिदि	
शकुन्ति	सुशान्ति	अजकाश्व			
	पुरुजाति	कुश	कुरु	पृथुदर्भ	
करम्भक	बाह्यश्व	बलाकाश्व	सुधनु	परीक्षित	
				अङ्ग	
		इसके कम्पीलय कुशिक(कुशांव)	सुहोत	जनहु	
				अनव	
कुरु	{	यनीवर	बृहदश्व		
देवरात		सुज्ञय	सुकुल	गाधि	च्यवन
		पांच पुत्र	द्वए	विश्वामित्र	कृती
				सुरथ	विदूरथ
				दिविरथ	



( २१४ )

## जातिभास्करः-

देवक्षेत्र	सुकुल	देवरात	विश्रिय	सार्वभौम धर्मरथ
				जयसेन
मघु	मौकुलय	शुनःशेफ अष्टक उपरिचर	राधिक	चित्ररथ
कुरुवंश	दिवोदास	बृहद्रथ	अयुतायु	सत्यरथ
अनु	मित्रायु	कुशाग्र	क्रोधन	लोमपाद
द्रवरस	सोमक	वृषभ	देवतिथि	पृथुलाक्ष
पुरुद्वत (पुरुद्वत)	सृञ्जय	सत्यहित	ऋक्ष	
शुरुहोत्र	धनु	पुष्पवान	भीमसेन	वय
अंशु	सोमदत्त	जनहु	दिलीप	दंद्र
सत्त्वत	सोमक	ऊर्ज	प्रतीप	भद्ररथ
	जंन्तु	बृहद्रथ	शांतनु	बाह्मीक बृहत्कर्म
सात्वत	पृषत	जरासन्ध	विचित्रवीर्य	सोमदत्त
	सम्पत्	पाण्डु	धृतराष्ट्र	शल बृहद्भानु
	द्वुपद	अर्जुन भीम युधिष्ठिर	दुर्योधन	बृहत
	धृष्टवस्र-द्रौपदी	अभिमन्यु मकुल सहदेव		
		परीक्षित		
वृष्णी	देववृष	अन्धक		
अश्विभिन्न	युधाजित	कुरुंर	भंजमान	जयद्रथ
सिनी	वृष्णि	सुतवा (धृष्णु)	विदूरथ	बृहद्रथ
सत्यक	चित्ररथ	विलासा	शूर	
	आदि १२			
सुसुधान	पुत्र	कषोतरोमा	शिनी	विश्वजित
ऋय	अनु	भोज		कर्ण
कुणि	अन्धक	हृदिक		वृषसेन
सुगन्धर	दुन्दुभी	देवमीढ		पुथुसेन

भाषाटीकासंवलितः-

( २१५ )

		दरदोत ( अहिद्योत )	शूर		
		पुनर्वसु	वसुदेव		
		आहुक	श्रीकृष्ण		
		देवक	उग्रसेन		
		हस्ती	कंस	दुर्वृद्धि	रिपुञ्जय
अजमीढ	देवमीढ	पुरुमीढ	( भीलोंके पूर्वज )	बहुंरथ	
बृहदश्व	यवीनर		( मल्लाटके )		
बृहद्धनु	कृतमान		( १०० पुत्र )		
बृहत्काय	संत्यघृति		श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात्	सूर्यवंश ।	
जेय	दृढनेमि		श्रीरामचन्द्रजी	प्रतिकाश्व	
			कुंश	सुप्रतीक	
विशद	सुदमा		अतिथि	अरुदेव	
सेनजित्	सार्वभौम		निषध	सुनक्षत्र	
रुचिराश्व	मिहित		नल वा नभ	पुष्कर	
पार	रुक्मन्त		पुण्डरीक	अन्तरिक्ष	
प्रथुसेन	सुपार्श्व		मेघधन	सुतपा	
सुर्कृति	सुमति		वल	अभिन्नजित	
वलराज	सन्नति		शल	बृहद्राज	
अनूह	कृति		वज्रनाभ	वर्हकेतु	
विष्वकसेन	उग्रायुध		सोजन्स ( शंखण )	कृतज्ञय	
उदकसेन	क्षेम		व्युषिताश्व	रणज्ञय	
मल्लाट	सुवीर		विधृति	संजय	
हिरण्यनाभ	शक्य		सन्वत् ७७० में चित्तौर लिया ।		
पुष्य	शुद्धोद		वैरजित ( वैरिजित )		
सुदर्शन	सांगल		दिल्लीका चन्द्रवंश ।		
अग्निवर्ण	असंमजित ( प्रसेनजित )		दुरंवर		
शीघ्र	रोभक		परीक्षित	सोढपाल	

( २१६ )

## जातिभास्करः-

मरु	सुरथ	जनमेजय	शूरसेन
प्रमृश्रुत	सुमित्र	असमंजस	सिंहराज
संधि	( इसकी पांच पीढीके मेवाडके	अधन	अमरगोद
अमर्षण	( राणाओंका वंश आरंभ होता है )	महाजन	अमरपाल
अवस्वान्	महारथी	यशरथ	सरवहि
विश्वसाह	अतिरथी	धृतवान	पधरत
प्रसेनजित्	अचलसेन	उग्रसेन	मंदपाल
तक्षक	कनकसेन	शूरसेन	तीसरावंश
बृहद्वल	महामदनसेन	श्रुतरसेन	महाराज
बृहद्रण	सुदन्त	रंभराज	श्रीसेन
उरुक्रिय	विजय वा ( अजयसेन )	वाचल	महिपाल
वत्सवृद्ध	पद्मादित्य	सूतपाल	महाबलि
प्रतिव्योम	शिवादित्य	नरहरदेव	स्वरूपवर्ति
भानु	हारादित्य	यशरथ	नेत्रसेन
सहदेव	सूर्यादित्य	भूपत	सुमुखधन
बृहदश्व	सोमादित्य	सेअवंश	जेतमल
बाहुमान	शिलादित्य	मेधावी	कलङ्क
केशवगोठ	दूनशल	श्रवण	कलमन
नागादित्य	सेनपाल	कीकन	सिरमर्दन
भोगादित्य	खेमराज ( पाण्डुशाखासमाप्त )	परदथ	जयवंग
देवादित्य	( दूसरावंश शेषनाग सम्बन्धी )	दस्तुनभ	हरगूज
आशादित्य	विसर्व	अदेलिक	हीरसेन
कालभोज	सूरीन	हन्तवर्ण	अन्तिनय
ग्रहादित्य	शीर्ष	धुन्धपाल	( इसने राज्या-
बन्पा-बाया-इसने	अहंगमाल		धिकार सैनिक
			मंत्रीको देदिया )

( चौथावंश । )	सुश्रम	( चौथावंश )	( पांचवां वंश )
धुंधसेन	दृढसेन	चंद्रमौरी वा चंद्रगुप्त	अग्निमित्रः
संधवज	सुमति	वारिसार	वसुमित्र
महारांग	सुवल	अशोक	भद्रक
नद	सुनीय	सुयशा	पुल्लिद
जीवन	सत्याजित्	संगत	घोष
उदय	विश्वजित्	शालिशूक	वज्रमित्र
जेहुल	रिपुंजय	सोमशर्मा	भागवत
( यह अन्तिम राजा हुआ )		शतधन्वा	देवभूति
आनंद	( दूसरावंश । )	बृहद्रथ	
राजपाल	प्रद्योत ( सुनकका वंश )		
( यह पर्वतमें सुखवंतके	पालक ( छठावंश । )		चकोर
हाथ से मारा गया )	विशाखयूप	भूमित्र	शिवस्वांति
( चन्द्रवंशी मगधवंश । प्रथम )	राजक	नारायण	अरिन्दम
मार्जारी	नंदिवर्द्धन वा तक्षक	सुशर्मा	गोमती ( गोमतीपुत्र )
सोमापी	( तीसरावंश । )	( सातवां वंश )	पुरीमान
श्रुतश्रवा	शेषनाग	कृष्ण ( आंध्रवंश )	मेदशिरा
अयुतायु	किडक वा काकवर्ण	शान्तकर्ण	स्कन्द
निरमित्र	क्षेमधर्मा	पूर्णमास	यज्ञश्री
सुनक्षत्र	क्षेत्रज्ञ	लम्बोदर	विजय
बृहत्सेन	विधिसार	चिविलंक	चंद्रविज्ञ
सेनजित्	अजातशत्रु	मेघस्वाति	सलोमधी ( पुलोमन )
श्रुतंजय	दर्भक	अनिष्टकर्म	
विप्र	अजय	हालेय	इति प्राचीनवंशावलिः ।
शुचि	नंदिवर्द्धन	तलक	
क्षेम्य	महानन्द	पुरीषभीरु	
सुव्रत	सुमाल्य	सुनंदन	
धर्म			

१ कुशके वंशमें नरवर और आमेरेके राजा हैं दूसरेमें कृष्णके संतान जिनमें जैसलमेरके राजा हैं, कुशकी संतान कहवाहे कहे जाते हैं, वडगूजर जो अब अनूप शहरमें वसते हैं, अपनी उत्पत्ति उसी वंशसे बताते हैं, अब हम उन २ क्षत्रियोंकी वंशावली कुछ लिखते हैं जो इस समय क्षत्रियोंके नामसे प्रचलित है । यद्यपि मुख्यरूपसे ३६ जाति कहकर विख्यात हैं, परन्तु उनमें कुछ विशेष भी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकमें ।

( २१८ )

जातिभास्करः-

१ इक्ष्वाकु	१३ डावी	२५ अभिपाल
२ सूर्य	१४ मकवाना	२६ वल्ला
३ सोम वा चंद्र	१५ नरुका	२७ काला
४ यदु	१६ असुरिया	२८ भागडोल
५ चाहुमान ( चौहान )	१७ सिलार वा सिलारा	२९ मोतदान
६ परमार	१८ सिन्द	३० मेहर
७ चालुक्य ( सोलकी )	१९ सेपट	३१ कुगैर
८ पडिहार	२० हनवान्हण	३२ कुर्जिया
९ चावडा	२१ किरजाल	३३ चाडल्लि
१० डोडिया	२२ डुरैरा	३४ पोकरा
११ राठौर	२३ राजपाली	३५ निकुम्य
१२ गोहिल	२४ धानपाली	३६ सुलाल

चन्द्रवरदारईकी पुस्तकसे ।	कुमारपालचरितसे ।	गुजराती पुस्तकसे
१ रवि वा सूर्य	इक्ष्वाकु	गोतचार गोहिल
२ शशि वा सोम	सोम	अनिगोहिल
३ यदु	यदु	कट्टी वा काठी
४ ककुत्स्थ	परमार	किसैर
५ परमार	चौहान	निकुम्य
६ चौहान	चालुक्य	वरवेटा
७ चालुक्य	छिंदक	वावस्वा
८ छिन्दक	सिलार ( राजतिलक )	मारू
९ सिलार	चापोत्कट	मकवाना
१० अमीर	प्रतिहार	दाहिमा
११ भक्वाना	कलंक	डोडिया
१२ गोहिल	कूपाल ( कूर्पट )	वल्ला
१३ चापोत्कट	चन्देल	वधेल
१४ पडिहार	औहिल	यदु
१५ राठौर	पौलिक	नेठवा
१६ देवला	मोरी	जाडेजा
१७ टांक	मकवाना ( चन्दुपाणक )	जिट
१८ सिन्धु	धान्यपालक	सोलंकी
१९ अनंग	राज्यपालक	परमार
२० पौतक	दहिया	कावा
२१ प्रतिहार	तुरुन्दलीक	चावडा

## भाषाटीकासंवलितः ।

( २१९ )

( चन्द्रवरदाईकी पुस्तकसे )	( कुमारपालचरितसे )	( गुजरातीपुस्तकसे )
२२ दधिखटु	निकुम्प	चूडासभा
२३ कारट्टपाल	हूण	खांट
२४ कोटपाल	बला ( छपी पुस्तकमें यह नाम नहीं )	खेरा
२५ हूल ( हूण )	हरियड	रावली
२६ गौड	भोखर	मसानिया
२७ निकुम्प	पोखर	पालनी
	( छपी पुस्तकमें विशेषनाम )	
२८ राजपालिक	सूर्य	हला
२९ कनिवा ( कविनीय )	सैधव	झाला
३० कलचुरक वा कलचुरी	चंदुक	दाहरिया
इनमें चार कुल	राट	बाहुस्या
अग्निसे उत्पन्न	शक	सर्वेया (क्षत्रियतगसार)
होनेसे चन्द्र कविने	करपाल	पडिहार
बड़े माने हैं ।	वाडल	चौहान
३१ सदावर	अमंग	
	नट ( जट )	
३२ दौयमत्त		
३३ गोहिलपुत		
३४ हरितट		
३५ कमाष		
३६ मट ( जट )		
३७ धान्यपालक		
( वीचियोंके भाटसे । )	( टाटसाहिबकी शुद्ध की हुई नामावली )	( दूसरे नाममें जो पाये जाते हैं वे विशेष हैं । )
गेहलाते	इक्ष्वाकु काकुत्स्थ वा सूर्य	शिञ्जुनाग
परमाल	इन्दुसोम वा चन्द्र	मौर्य
चौहान	गहिलोत वा गहलोत	२४ शाखा सुङ्ग
सोलंकी	यदु	४ शाखा काण्व
राठौर	तुंवर	१७ शाखा अन्ध्र
तवर	राठौर	१३ शाखा गुप्त

वडगूजर	कछवाहा	०	बौद्धेय
पडिहार	प्रमार	३५ शा०	मोखरी
माला	चाहुमान वा चौहान	२६ शा०	लिच्छवी
यदु	चालुक्य वा सोलंकी	१६ शा०	मैत्रक
कछवाहा	परिहार	१२ शा०	वाकाटक
गौड ( इनकी शाखा है )	चावडा	१ शा०	चन्देल
सेंगर	टाकटांक वा तक्षक		कलचुर ( हैहय
वह्ला	जिटजेटी वा जाट		पाल
खरवड	हन वा हूण		सेन ( घरु )
चावडा	काठी		गंगावंशी
दाहिमा	वह्ला		कदम्ब
डाहिया	झाला	२ शा०	पल्लव
वैस	जेठवा कामरी		सेन्द्रक
गेहरवाल	गोहिल		सिन्द
निकुम्प	सर्वेया		वाण
देवट ( देवडा )	सिलार		काकतीय
जोहिया	डावी		इसके सिवाय औ
सीकरवाल	गौट	५ शा०	भी प्रसिद्ध
दावी	डोडा वा डोढ		कुल है
डोढ	गेहरवाल		
मोरी	वडगूजर	३ शा०	
मोखरा ( मोखरी )	सेंगर	१ शा०	
अमीर	सीकरवाल	१ शा०	
कलचुरक ( हैहय )	वैस	१ शा०	
अग्निपाल	डाहिया		
अस्वरिया ( वा सर्जा )	जोहिया		
हूल ( हूण )	मोहिल		
मानतवला	निकुम्प		
नालिया	राजपाली		
चाहिल	दाहिमा		१ शाखा,
	इसके सिवाय हूल शहित्या		

प्रत्येक वंशमें शाखा और गोत्रका उच्चारण होता है. यह जान लेना. एक बड़ी आवश्यक बात है, इससे वंशकी मुख्य २ बातें धर्मविषयक सिद्धान्त तथा आदि निवासस्थान विदित हो जाता है प्रत्येक राजपूतको इसका कंठरचना आवश्यक है, इस गोत्रका विवाह सम्बन्धमें बड़ा काम पडता है, वंश शाखा प्रशाखा (खांपों) में विभक्त होते हैं. उनके अन्तमें ओत आवत वा सोत पद पितृसूचक होते हैं. जैसे सक्तावत, चन्दावत कर्मसोत आदि, सक्तावत सक्ताके सन्तान चन्दावत. चन्दाके सन्तानादि जिन कुलोंकी शाखा नहीं है वे इक्का वा अकेला कहाते हैं ।

वर्षिण जातियोंकी बहुतसी नामावली भी राजपूतोंके वंशसे निर्गत हुई है. इस विषयका वर्णन आगे चलकर किया जायगा ।

सबसे प्रथम क्षत्रिय जाति सूर्य और चन्द्र इन दोहा वंशोंमें विभक्त थी, पीछे उनमें विशेष गुरुओंके सहत्त्वसे अनेक नाम हुए, और इन दो वंशोंके साथ चार अम्बिकुल जिला नैसे छः नाम हुए, और फिर चन्द्रसूर्य वंशोंकी शाखा प्रशाखा मिलकर छत्तीससे भी अधिक होगई ।

१ गहिलोत गहलोत इस वंशके स्वामी और छत्तीस कुलके भूषण. सूर्यवंशी महागणा चित्तौराधीश हैं, यह रामचन्द्रजीके असली वंशधर माने जाते हैं. सूर्यवंशी अंतिम राजा सुमित्रसे इनका सम्बन्ध है, इनके कुलका विस्तारसे वर्णन मेवाडके इतिहास राजस्थानमें लिखा है, यहां हम उनके नाम और गोत्रके विषयमें कुछ लिखेंगे, जो कनकसेनके समयसे प्राप्त हुए हैं, और उन देशोंके आधीन रहे हैं; जिस राजाने दूसरी शताब्दीमें अपने असली राज्य कौशलदेशको छोडकर सौराष्ट्रमें सूर्य वंशको स्थापित किया ।

विराटके स्थानपर जो कि पाण्डवोंके वनवास समयमें उनके रहनेका प्रसिद्ध स्थान था, इक्ष्वाकूके वंशधरने अपना वंश स्थापित किया. और उसके वंशधर विजयने थोडीसी पीढियोंके उपरान्त विजयपुर (विराटगढ) स्थापित किया, येही वल्लभीपुरके राजा कहाये, और एक सहस्र वर्षतक वल्लभी वा बालकराय उपाधिको सौराष्ट्रके राज्यवंशोंने क्रमशः धारण किया । गजनी वा गयनी उनकी दूसरी राजधानी थी, जहांसे अंतिम राजा शिलादित्य और उनका कुटुम्ब छठी शताब्दीमें पार्थियनों द्वारा बाहर किया गया. उसके ग्रहादित्य नामक पुत्रने ईडरका छोटासा राज्य प्राप्त किया, और इस परिवर्तनसे उसीके नामपर उस वंशका नाम पडगया और रामका वंश गहिलोत कहलाने लगा, पीछे ईडरके जंगलोंसे आहड वा आनन्दपुर जा बसनेके कारण यह नाम बदलकर अहाडिया होगया. इस नामसे यह वंश बारहवीं शताब्दीतक प्रसिद्ध रहा, जब ज्येष्ठ भाता राहपने बाहुवलसे मोरी राजासे छीनी, चित्तोडकी गद्दीका अपना स्वत्व त्यागकर डूंगरपुरमें अपना राज्य स्थापित किया, जो आजभी उनके वंशवालोंके आधीन है, और अहाडिया उपाधिको आजतक वे लोग धारण



करते हैं, उसके छोटे भ्राता महापने अपनी राजधानी सीसोद स्थापित की, जिसके कारण इस वंशका तीसरा नाम शिशोदिया हो गया पर मुख्य गुहिलोत लिखा जाता है, यह चौबीस शाखाओंमें विभक्त है जिनमें अब थोड़ी शेष हैं ।

१ अहाडिया	डूंगरपुरमें	१४ ऊहड	} यह भी प्रायः मिलते नहीं ।
२ मांगलिया	मरुभूमिमें	१५ ऊसेवा	
३ सीसोदिया	मेवाड़में	१६ निरूप	
४ पीपाडा	मारवाड़में		
५ कैलाया	} यह संख्यामें थोड़ेपायेजाते हैं प्रायः अब मिलते नहीं	१७ नादोड्या	} यह प्रायः अब लुप्त हैं ।
६ गहोर		१८ नाधोता	
७ धोरणिया		१९ भोजकरा	
८ गोधा		२० कुचेरा	
९ मजरोपा		२१ दसोद	
१० भामिला		२२ भटेवरा	
११ कंकोड		२३ पाहा	
१२ कोटेचा		२४ पूरोत	
१३ सोरा			

यदु-भारतकी समस्त जातियोंमें यदुवंश बहुत प्रसिद्ध है । यह वंश चन्द्रवंशकी उच्चकोष्ठिका है, यदुवंश क्षय होनेपर कृष्णकी सन्तान जावुलिस्तानतक गई, और गजनी तथा समरकन्दके देशोंको बसाया, और पीछे फिर भारतको लौटे और पंजाब पर अधिकार जमाया, पीछे मरुभूमिमें आये, और वहांसे लड़वा, जोड़िया और मोहिला लोगोंको निकाल कर क्रमशः तन्नोट देराबल और सम्बत् १२१२ में जैसलमेर बसाया, जो कृष्णके वंशधर भट्टी ( भाटी ) लोगोंकी वर्तमान राजधानी है, यदुही नाम भाटी रूपमें परिणत होगया है, राठोरीके आक्रमणसे यद्यपि इनका अधिकार कम होगया है पर, स्वभाव वही है. इसीकी एक शाखा 'जाडेजा' जाति है यह लोग अपनेको साम्यपुत्र कहते हैं, अब इस जातिके लोग कई कारणोंसे सिन्धके मुसलमानोंसे ऐसे मिलजुल गये हैं कि अपना जाति अभिमान सर्वथा खोदिया है, यह सामसे जाम बन गये हैं और इनका एक छोटासा राज्य जाम राज्य कहलाता है, करौलीके राजा जिनकी मथुराजी जागीर है, इसी वंशके राजा हैं, मरहटोंके बड़े बड़े सरदार इसी वंशके हैं । ( यदुवंशकी आठ शाखा हैं । )

- |          |                  |
|----------|------------------|
| १ यदु    | करौलीके राजा ।   |
| २ भाटी   | जैसलमेरके राजा । |
| ३ जाडेजा | कच्छभुजके राजा । |
| ४ समेचा  | सिन्धके निवासी । |

५ मुडैचा	}	अज्ञात
६ विडमन		
७ वददा		
८ सोहा		

तंवर वंशभी यदुवंशकी शाखामें माना जाता है, इसको ३६ राजकुलोंमें स्थान प्राप्त है, चन्द वददाई इसको पाण्डवोंके वंशमें बतलाता है। महाराज विक्रमादित्य इसी वंशमें प्रगत हुए हैं, ओर इसी वंशके अनंगपाल तंवरने सम्वत् ८४८ में उजाड हुई दिल्लीको फिरसे बसाया था, इसकी बीसवीं पीढीमें दूमरा अनंगपाल हुआ, जिसने सम्वत् १२२० में निःसन्तान होवेके कारण अपने धेवते चौहान पृथिवीराजको दिल्लीके सिंहासन पर बैठाया । इस समय इनके अधिकारके ठिकाने तुवरगढका इलाका था जो चम्बल नदीके दाहिने किनारे उसके और यमुनाके संगमकी ओर स्थित है, तथा जैपुर राज्यमें पाटन तुअर बाटी का छोटीसी जागीर है, वहांका जागीरदार अपनेको इन्द्रप्रस्थके प्राचीन सम्राटोंका वंशधर मानता है ।

राठौर, राठोरे—अपनेको श्रीरामचन्द्रके पुत्र कुशका वंशज कहते हैं, परन्तु उनके भाट उनको कश्यपसे दितिकन्यामें उत्पन्न होभा मानते हैं परन्तु प्रामाणिक लोग राठौरोंको कुशिकवंशी मानते हैं । यह चन्द्रवंशी अजमीडके वंशधर कन्नौजके बसानेवाले कृशानानकी गद्दीके किम प्रकार अधिकारी हुए, इस वंशका अन्तिम राजा जयचन्द्र पृथिवीराजका जनन कराकर जब स्वयं गंगामें डूब मरा, तब इसका पुत्र सियाजी मरुस्थलीकी ओर चला गया वहां उसने मडोरके परिहारोंको नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया, मुगल सम्राटोंको आधी भिजय इन्हींकी तलवारसे भिली है, राठौरोंकी २४ शाखा हैं ।

धान्यक, भडेठ, चकित, धूहडिया, खांवरा, वदूरा, छाजीरा, रामदेवा, कवरिया, हट्टुडिया, मालावंत, मुण्डु, कटेचा, मुहोली, गोगादेवा, महेचा, जयसिंहा, मुरसिया, जोरा इत्यादि इनका गौतम गोत्र, माध्यन्दिनीशाखा, शुक्र गुरु, गार्हपत्य अग्नि, पंखिनी कुलदेवी है ।

कुशवहा ( कछवाहा ) यह कुशके वंशके हैं । कोशल देशमें दो शाखा निकलीं जिनमें एकने सोन नदीके किनारे रोहतास बसाया, दूसरी लाहरके समीप कोहारीके दरोंमें जावसी कुछ समयके उपरांत इन्होंने निरवर वा नरवरका प्रसिद्ध किला बनाया, जो नलके रहनेका स्थान था, जो इस समय सैन्धियाके आधीन है, दशवीं शताब्दीमें इन्होंने अपने स्थानसे निकल मीनाओंको और बडगूजरोंको राजौरसे निर्वल करके और कुछ भूमि लेकर आमेरको स्थापन किया, इनके विभाग गडबड हो गये हैं परन्तु वर्तमान विभाग जिन्हें कोठारियां कहते हैं बारह हैं । इनमें ग्वालियरके कछवाहे दूबकुंडके कछवाहे नरवरके कछवाहे विख्यात हैं । ग्वालियर वालोंमें, लक्ष्मण, वज्रदामा, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, महीपाल, त्रिभुवनपाल, विजयपाल, शूरपाल, अनंगपाल, इनके वंश मुख्य हैं । अग्निवंश

जब कि क्षत्रिय जाति निस्तेज होगई तब ब्राह्मणोंने आवू पर्वतपर नैर्ऋत्य कोणमें एक कुण्ड खोदा और दैत्योंको पराजित करनेके लिये आहुति दी। पहले जो अग्निकुण्डसे पुरुष निकला उसकी आकृति वीरों जैसी न थी। इसीसे ब्राह्मणोंने उसे द्वारपाल बनाकर बैठा दिया, फिर मन्त्र पढ़कर आहुति देनेसे एक पुरुष निकला और हथेलीसे बननेके कारण उसका नाम चालुक्य हुआ, फिर तीसरा पुरुष निकला उसका नाम परमार (पृथ्वीहार वा पडिहार) हुआ चौथी बार अग्निकुण्डसे एक पुरुष तीर्थकाय उन्नत ललाटवाला प्रगट हुआ वह धनुष्य बाण और नलबाण लिये प्रगट हुआ। चतुर्थाभि हानसे उसका नाम चौहान हुआ, और उसने दैत्योंको परास्त किया, परमार वा पडिहार चालुक्य वा सोलंकी और चौहान यह अग्निवंशी हैं।

परमार अग्निवंशियोंमें बहुत प्रभावशाली हुए, अन्तक कहावत चली जाती है 'पृथिवी परमारोंकी है' यह पुराणी कहावत है कर्तव्यसे लेकर समुद्रतक इनका वंश किसी समयमें था, इनके स्थान माहेस्वर, धार, भांडू, उज्जैन, चन्द्रभागा, जिर्दार, आवूचन्द्रावती, मऊ, मंदाजा, परमावती, ऊमरगोट, देवरगोट, पट्टन प्रसिद्ध हैं, ऐसा विदित होता है इनकी राजधानी माहेस्वरी रुवसे प्रथम थी, धारानगर और भांडू, इन्होंने बसाया था, इस वंशमें राजा भोज परमार ही था, परमार कुलकी ३५ शाखा हैं जिसमें विहल शाखा बहुत प्रसिद्ध है उनके नाम लिखते हैं।

बोरी—इसमें चन्द्रगुप्त और गुहिलोत्तोंसे पहलेके चित्तोरके राधा हुए।

सोडा—सिकन्दरके समयके सोगडी भारकी मरुभूमि धारके राजा।

सांखला—पूगलके जागीरदार मारवाडमें।

खैर—इनकी राजधानी कैराडू।

ऊमरा, समूरा—प्राचीन समय मरुभूमिमें थे।

वेहिल वा विहिल—चन्द्रावतीके राजा।

मैपावत—मेवाडान्तर्गत विजोल्याके वर्तमान जागीरदार।

बुल्हर—उत्तरीय मरुभूमिमें।

कावा—सौराष्ट्रदेशमें प्रसिद्ध और अब सिरोहीमें पाये जाते हैं।

ऊमट—मालवाके अन्तर्गत ऊमट बाडेके राजा।

रेहवर, दुण्डा, सोरटिया, हरेर—यह मालवाके अन्तर्गत आसिये जागीरदार हैं।

इनके सिवाय चौदा खेचड, खुगडा, वरकोटा, पूनी, सम्पल, भीवा, कालपुर, कालमोह, कोहला, पूसया, कहोरिया, धुंभदेवा, वरहर, जीप्रा, पौसरा, धूता, रिकुम्बा और टीका।

चाहुमान या चौहान।

चौहानोंका वंश अनहलसे लेकर पृथिवीराजके समय ३९ राजाओंमें समाप्त होता है, चौहानोंकी २४ शाखा हैं जिनमें बून्दीकोटाके राजवंश सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं जो

हाडौती नामसे प्रसिद्ध हैं सांचौरके चौहान बहुतही प्रसिद्ध हैं, गागरौन और राधोगढके खीची सिरोहिके देवडे, जालौरके सोनगडे, सूण्वाह और पावागढके पावेचे यह सब वीर पुरुष हैं, २४ शाखाओंके नाम लिखते हैं. यह माध्यन्दिनी शाखावाले हैं. चौहान, हाडा, खीची, सोनगण, देवडा, पाविया, संचोरा, गाण्डवाल, मदीरिया, निर्वाण, मालानी, पूर्विया, सूर्या, नादडेचा, संक्रेचा, भूरोचा, बालेचा, तत्सेरा, चाचेरा, रासिया, चांदू नकुंप, भाबर और वंकट ।

चालुक्य वा सोलंकी ।

सोलंकियोंका निवासस्थान लोकोट ( लाहौर ) कहा जाता है. नकी शाखा माध्यन्दिनी है, यह वंश सोलह शाखाओंमें विभक्त है ।

१ बघेल—बघेल खण्डके राजा राजधानी बांशूगढ । पीथापुर थराद और अदलज आदिके राव ।

२ वीरपुरा—खणावाडाके राव

३ वेहिल—मेवाडान्तर्गत कल्याणपुरके जागीरदार राव उपाधि युक्त ।

४ भूरता } जयसलमेरान्तर्गत वारूटेकरा  
५ कालंचा } और चाहिरमें ।

६ लंबा—मुलतान के निकट रहनेवाले ।

७ तोगरू } पञ्चनदमें रहनेवाले स्वधर्मभ्रष्ट है ।  
८ विक्रू }

९ सोलके—दक्षिणमें पाये जाते हैं ।

१० सिरवरिया—सौराष्ट्र देशके अन्तर्गत गिरनारमें रहनेवाले ।

११ राओका—जयपुरमें टोंडाके इलाकेमें रहनेवाले ।

१२ राणकरा—मेवाडमें अन्तर्गत देसूरीमें रहनेवाले ।

१३ स्वरूरा—मालवा देशान्तर्गत आलोट और जावडाके निवासी ।

१४ तांतिया—चन्दभड सकुनवरी ।

१५ अलमेचा—भूमिहीन ।

१६ कालामोर—गुजरात निवासी ।

पडिहार ।

पडिहार वंशमें नाहड राव प्रसिद्ध हुआ है, माण्डोवर ( मन्दोदरी ) पडिहारोंकी राजधानी थी, यह मारवाडका मुख्य नगर था, यह जोधपुरके उत्तर पांच मीलमें हैं, पडिहार वंश राजपुतानेमें विखस हुआ है, कोहारी, सिन्धु और चम्बल नदियोंके संगमपर इ

वंशनी एक वस्ती है, पठिहारोंकी १२ शाखा थीं जिनमें मुख्य ईदा और सिन्धु थी, इनके लोग खली नदीके किनारे पाये जाते हैं।

चावडावंश—किर्वा समय बहुतही प्रसिद्ध था, इनका वंश पेवाडके पुरुषोंके संग विवाह सम्बन्ध करते देखा गया है, इनकी राजधानी नौराष्ट्रके समुद्री किनारेके पास दीव बन्दरका शूष था यह शूषके उपासक कहे जाते हैं, चावडा वंशकी एक शाखा डावीं कही जाती है।

टांक वा तक्षक—तक्षक एक बहुत पुराना राजवंश है, कोई २ इसको सीथिन वंशमें मानते हैं, राजस्थानके अनेकभागोंमें जुटा तक्षक और टांकजाति पाई जाती है, तक्षकही नागवंश कहाना है, शालिवाहन इषी कुलका नाग जाना है, आसेरगढ टांक लोकोंका निवासस्थान था, इसमें सहारन नाली एक पुराने अर्वा जाति और धर्म दोनोंही बदल दिये, जिनके कारण इस जातिका नाम राजस्थानकी जानियोंसे भिट गया।

जिट—यद्यपि छत्तीस राजकुलोंको भूचीमें जिट वा जाटने भी स्थान पाया है, परन्तु न तो कोई इन्हें राजपूत मानता है। और न इनका किसी राजपूत जातिके साथ विवाह होना पाया जाता है; यह भारत भरमें फैले हुए हैं इनमें भरतपुरके राजा प्रसिद्ध हैं, शेष लोग खेती बाड़ीका काम करते हैं, इनके संस्कारभी लोग होगये हैं तथा इनमें कण्वभी होता है इस कारण उत्तमकक्षासे गिरे जाते हैं पंजावमें जिट कहे जाते हैं, इनकी जाति वा आदि निवास स्थान सिन्धु नदीके पश्चिम तरफके देश माने गये हैं और इनको यदुवंशसे निकला हुआ मानने हैं टाड साहब इनको शूचो वा यूटी शाखामें मानते हैं यह तक्षककी शाखाभी माने जाते हैं तथा दन्तकथासे महादेवजीकी जटासे कोई इनकी उत्पत्ति मानते हैं पर एक शिलालेखमें पाया जाता है कि जिटवंशी राजाकी माता यदुकुलकी थी जिसके कारण इनको ३६ राजकुलोंके भव्य स्थान मिलाहै, सन् ई० की पांचवीं शताब्दीमें यह पंजावमें बसाये थे, सन् ४४० ई० में इनका राज करना भी पाया जाता है; टाड साहबका कहना है जब यादव लोग शालिवाहन पुरसे बाहर हुए, तब वे शतलज नदी उतरकर मरुस्थलमें दाहिया और जोहिया राजपूतोंके आश्रित हुए, वहां देरावल राजधानी स्थापित की, और यहीं किसी दबावके कारण उन्होंने यदु नाम छोड़ जाट नाम धारण करलिया हो तो क्या आश्चर्य है? जिसकी यदुकुलके इतिहासमें बीस शाखा पाई जाती हैं, यह लोग बड़े वीर होते हैं इन्होंने महसूदको बहुत सताया, और उसका अपमान भी किया था, इनका निवास सिन्धु नदीके पूर्वी किनारेपर था, महाराजा रनर्जातसिंह इसी वंशमें थे, इस जातिके अकालीनामधारियोंमें अभी तक चक्र धारण किया जाता है जिसका व्यवहार भगवान् कृष्णचन्द्रजीने स्वयं किया है।

हून वा हूण—कहा जाता है कि यह सीथियनके मध्य भारतके बाहरकी जाति है; सौराष्ट्रके प्रायः द्वीपमें यह जाति पाई जाती है, वहीं कहीं काठी मकवाणा बला जातियां भी

मिलती हैं, श्वेतहूण लोगोंका अधिकार भारतके उत्तरी भागमें था इनका एक दल सौराष्ट्र और मेवाडमें भी बसा था ।

दन्तकथाओंसे इनका निवास स्थान चम्बलके पूर्वी किनारे वाडोली नामक प्राचीनस्थानमें पाया जाता है, यहांके त्रिगार चोरी नामक प्रसिद्ध मंदिरको हूण जातिके राजाका विवाहमंडप बनाया जाना है भिन्नगोरमें भी इसका राज्य कहा जाता है माही नदीके किनारे पर इनका एक गांव भी है ।

कट्टी वा काठी—इनको भी ३६ कुलोंमें स्थान मिला है ; यह पश्चिमी प्रायद्वीपकी अत्यन्त प्रसिद्ध जातियोंमेंसे एक है जिसने सौराष्ट्रके कावको बंदलकर काठीवावाड करदिया है यह लोग सूर्यकी पूजा करते हैं, ज्ञान्निप्रिय काम होते हैं, इनका कद छः फुट होता है यह बड़े वीर होते हैं ।

बल्ला—इसको भी ३६ कुलोंमें स्थान मिला है भाट इनको उड्डा मुस्तानका राव कहते हैं, यह सूर्यवंशा होनेका दावा करते हैं, इनकी वस्ती पौराष्ट्र देशमें टांक थी, जिसे प्राचीन कालमें भोंगी पट्टन कहते थे उसके निकटवर्ती देशोंको जीतकर उसने उनका नाम बल्ल क्षेत्र रक्खा तथा इल्लोपुरभी बड़ी कहाया, पर सौराष्ट्र प्रायद्वीपमें बल्ला अपनेको इन्दु वंशसे निकला मानते हैं, और अपनेको दावहाक पुत्र कहते हैं जो सिन्धुके किनारे आगेरके राजा थे । कदाचित् यह सिंहरूपके सन्तान हों कहीं इन्हींमेंसे निकली अपनी शाखा मानते हैं, टांकका राजा बल्ला है ।

झाला मकवाणा—यह जाति सौराष्ट्रके प्रायद्वीपमें बसी हुई है इस जातिके लोग राजस्थानमें बहुत कम प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रतापके समय इस वंशकी प्रतिष्ठा बड़ी, इसके कारण सौराष्ट्रके बड़े भागोंमेंसे एकका नाम झालावाड होगया है जिसमें बांकासेर, हरुवद, और धागदरा मुख्य है, इस जातिके कई शाखा हैं जिनमें मकवाण मुख्य है ।

जेठवा जेठवा वा कमरी—यह लोग सौराष्ट्रमें ही प्रसिद्ध हैं बाहर नहीं, इस जातिके नामपर एक देश जेठवाड कहा जाता है इससमय इसके अधिकारमें प्रायद्वीप सौराष्ट्रके पश्चिमी किनारे पर है इसके राणाका निवास स्थान पोरबंदर है, यह राजपूत कहाते हैं, इनके भाट १३० राजाओंकी गद्दी मानते हैं प्राचीन कालमें इनकी राजधानी गूवठी थी, यह अपनेको हनुमान वंश मानते हैं ।

गोहिल—यह राजपूत वंश एक प्रसिद्ध है यह भी सूर्यवंशी होनेका दावा करते हैं, इनका निवास स्थान मारवाडमें लूनी नदीके मोडके समीप जूना खेडगड था और वीस पीढी तक इनके अधिकारमें रहा, इनकी एक शाखा बगवामें रही दूसरी सीहोरमें रही, वहींसे भावनगर और गोवाका नगर बसाया, भावनगर माहीकी खाडीपर गोहिल जातिका स्थान है, और सौराष्ट्रके प्रायद्वीपका पूर्वीभाग गाहिलवाडा कहलाता है ।

सर्वथा वा सरीअस्य—इस वंशके विषयमें इतनाही पता लगता है कि भाटलोगोंने इनको क्षत्रिय जातिका सार लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा समझी जाती है ।

सिद्धार वा सुलार—यह भी क्षत्रियजाति एक समय प्रसिद्ध थी, अनहिलवाडाके इतिहासमें लिखा है कि सिद्धराज जयसिंहने उसको अपने राज्यमेंसे निर्मूल करदिया था, अब यह त्रणिकोंकी ८४ जाति में एक लार जाति है, विदित होता है इस जातिके लोग वैश्य वृत्तिवाले होगये हों ।

ढावी—इसके विषयमें इतना ही कहाजाता है, एकसमय यह सौराष्ट्रमें प्रसिद्ध थी, यह यदुवंशकी ही शाखा कदाचित् हो, न तो अब इस जातिका राज्य है न कुछ लोगही हैं ।

गौड—यह जाति किसीसमय राजस्थानमें बहुत प्रसिद्ध थी और बंगालके राजा इसी जातिके थे, और उन्हींके नामसे उनकी राजधानी लखनौतीका नाम पडा, पुराने इतिहासोंमें इस जातिको अजमेरके गौडकर के लिखा है सन् १८०९ सैंधियाद्वारा यह राज्य नष्ट हुआ अन्तिम राजाका नाम राधिकादास था, इसकी अन्तहिर, सिलाहाला, तूर, दुसैना और बोडाना यह पांच शाखा हैं ।

डोड वा डोडा—इनका इतिहासविषयक वृत्तान्त बहुत कम पाया जाता है यह अपनेको अग्निवंशी मानते हैं, कहते हैं जब अग्निकुंडसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उस कुंडके समीप केलेकी डोडीसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, वह डोडिया कहाया, इनका राजा मालवेमें पिप्पलौदा है ।

गेहरवास—इन लोगोंका असली देश काशीका प्राचीन राज्य है इनके बड़े पुरुखाका खोर-तजदेव नाम था जिसकी सातवीं पीढीमें जेसन्दने विन्ध्यवासिनीके स्थान पर बडा यज्ञ करके अपनी सन्ततिको बुन्देलाकी उपाधि दी, जिससे गेहरवाल नाम मिट गया, और बुन्देला उस महान् प्रदेशका नाम होगया, जिसमें उसकी अनेक शाखा बुन्देलखण्डमें चन्देलोंके विनष्ट पर रहती हैं, कार्लिजर मोहिनी महोवा इनके अधिकारमें था, बुन्देला मानवीरका अधिपत्य १२०० ईसवीके लगभग था, इनमें ओर्छाका राजा बडा भाग्यवान् बडा वीर था, इसका पुत्र दक्षिणमें औरंगजेबका अत्यन्त प्रसिद्ध सेनापति था इस समय बुन्देला वंशके अनगिन्त लोग गेहरवाल नाम तो असली निवास स्थानोंमें रह गया है ।

बडगूजर—यह अपनेको सूर्यवंशी मानते हैं, और मुहिलोतोंको छोडकर एक यही वंश ऐसा है जो अपनेको रामचन्द्रके बड़े पुत्र लवसे निकला मानता है इनके बड़े बड़े इलाके दूँडाडमें थे, और माचेडीके राज्यमें राजोरका पहाडी किला उनकी राजधानी थी, राजगढके सिवाय और भी इनके इलाके थे, गंगाके किनारे अनूप शहर इन्होंने वसाया ।

सैगर—इनका राज्य जगमोहनपुर यमुनाके किनारे पर है ।

सीकरवाल—यह वंश राजस्थानमें साधारण रहा, एक छोटासा इलाखा चम्बलके दक्षिण किनारे यदुवाटीसे मिला हुआ सीकडवाल कहलाता है, जो अब ग्वालियरके इलाकेमें

मिल गया है उसका यह नाम सीकरी मगर ( फतेहपुर ) से पडा है जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था ।

वैसे—इस जातिको भी ३६ राजकुलोंमें स्थान मिला है । यह सूर्यवंशकी शाखा मानी जाती है, इस वंशके असंख्य अनुष्य पाये जाते हैं, गंगायमुनाके बीचमें इनका बडा देश वैसवाडा कहाता है ।

दाहिया—इस जातिको निवास सिन्धुके किनारे सतलजके संगम निकट था, जैसलमरकं भाटियोंके इतिहासमें इनका लेख मिलता है, अब यह लोग नहीं पाये जाते ।

जोहिया—यह भी दाहियोंके समीप रहते थे, प्राचीन इतिहासोंमें यह जंगल देशके स्वामी कहें गये हैं, जिस देशके अन्तर्गत हरियाण, भटनेर और नागोर थे ।

मोहिल—बीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेके समयतक यह लोग बडे प्रदेशमें बसे हुए थे राठौरोंने इस जातिका विध्वंस किया और मालण मालाणी जाति मछिया जाति भी अब नष्ट होगई ।

निकुम्प—यह गुहिलोतोंसे पहले मण्डल गढके स्वामी थे ।

राजपाली—इसका उल्लेख वंशावली लिखने वालोंने राजपालिक वा केवल पालक नामसे किया है इसकी उत्पत्ति टाड साहव सीथियन लोगोंसे मानते हैं, यह जाति संभवतः पालीजातिकी शाखा है ।

दाहिरिया—कुमारपाल चरित्रके आधारपर इसकी ३६ राजकुलोंमें गणना की जाती है, चित्तौडकी ख्यातिमें इसका कुछ उल्लेख पाया जाता है, दाहिर सिन्धदेशका अधिपति था, इसपर सन् हिजरीके ९९ वर्षमें बगदादके खलीफा सेनापति कासिमने आक्रमण किया और उसके साथ बडी निर्दयता की ।

दाहिमा—एक बडी प्रबल राजपूत जाति थी, सात आठ शताब्दी बीत जानेपर ऐसी जातिका स्मरण लोप होगया, दाहिमा बयानेका स्वामी पृथ्वीराजके बडे सामन्तोंमेंसे एक था, इस घरानेके तीन भाई पृथ्वीराजके यहां थे, बडा भाई कैमास, दूसरा पुण्डार और तीसरा चामुण्डराय था, शहाबुद्दीनने इसको खांडेराय लिखा है, पृथ्वीराजका पुत्र रेणसी चामुण्डरायकी बहनसे उत्पन्न हुआ था ।

जिन राजपूत जातियोंकी कोई शाखा नहीं दी गई उनका वर्णन ।

जालिया, पेशानी, सोहागनी चहिर, रान, सिमाला, वोंटीला, गीचर, मालेण, आहिर, हूल, वाचक, बटुर, केडच, कोटक, बूसा और विरगोता ।

राजस्थानकी जंगली जातियां ।

वागरी, मेर, कावा, मीना, भीळ, सेरिया, थोरी, खागर, गौड, भड, जम्बर, और सरूद & खेतीकरनेवाली जातियां ।

अमोर वा अहीर- ग्वाला कुर्मी वा कुलंबी, गूजर, और जाट ।



महाराष्ट्रक्षत्रियजातिः ।

महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिमें २६ कुल हैं प्राकृत ग्रन्थमें भविष्योत्तर पुराणका प्रमाण बताया है । इस प्रकार लिखा है, कि, ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे सोम, उनके बुध, बुधसे पुरुरवा, पुरुरवाका बड़ा पुत्र पुष्कर द्वापमें रहनेवाला दक्ष हुआ, इनकी अदिति कन्या कश्यपको व्याही गई, कश्यपसे सूर्य हुए, इनके मनु, मनुके इलवादि राजा हुए, तथा इनके वंशमें ऋतिनार, अयुताचन, महाभौम, अक्रोध, अजमल, श्रावण, अजपाल, मयूरध्वज, भोज हरि-चंद्र, सुधन्वा, भद्रसेन, सिंहकेतु, हंसध्वज, गन्धर्वसेनादि अनेक राजा हुए, इनके वंशके सब सूर्यवंशी क्षत्रिय कहाते हैं । श्रावण राजाको युद्धमें प्रसन्न होकर, एक समय सूर्यने सोमप्रभा नामकी कन्या दी उससे सोमवंश चला उसमें मांधाता, बहुसेन, मणिभद्र, भद्रपाणि, भद्रसेन, चन्द्रसेन, आदि कुलोंके विस्त्यात करनेवाले बहुतसे राजा हुए, यह सब सोमवंशी कहाते हैं, अब शेषका वंश कहते हैं, सोमवंशी राजा मांधाताकी स्त्री भानुमती बड़ी पतिव्रता थी, परन्तु किसी कारणवश राजाने उससे समागम छोड़ दिया, एक दिन गंगास्नानको जाते समय रानीकी विश्वामित्र ऋषिसे भेंट हुई, उसने महर्षिसे अपना दुःख निवेदन किया, ऋषिने कमंडलुका जल देकर रानीसे कहा कि पतिके मस्तकपर इस जलको डालोगी तो-पति वंशीभूत होगा, जब घर जाकर रानीने पतिके मस्तकपर जल छिड़का तब उसकी एक चन्द्र पृथिवीपर गिरी, वह भूमि भेदकर शेषके मस्तक पर गिरी और शेषने तत्काल स्नानकर रानीको दृष्टिद्वारा गर्भाधान कराया, राजा रानीके गर्भ है यह जानकर बड़ा क्रोधित हुआ, तब विश्वामित्रजीने राजासे आनकर सब वृत्तान्त सुनाया, तब राजा शांत हुआ रानीके शेषांशसे श्रीधर पुत्र हुआ, इस वंशमें गंगाधर, मर्हापाल, पुरंदर, नागोदर, वेणुवर, बोनजावीर्य, हिरादर, दामोदर, नागानन, कार्तवीर्य, विजयाभिनन्दन, आदि क्षत्रिय हुए हैं, यह सब शेषवंश हैं । ( अब यदुवंश कहते हैं, ) चन्द्रवंशमें राजा ययाति हुए उनका पुत्र यदु हुआ उसके वंशके सब यादव कहाये, वे यदुवंशी बारह प्रकारके हैं, उनको आगे कहेंगे, दूसरे राजा कर्णध्वज, सुमति, वसुमति, गोपति, इत्यादि इस प्रकार सूर्य, सोम, शेष और यदु वंशके राजा भरतखण्डके छप्पन देशोंमें राज करते हैं, कलियुगमें छानवे कुल हुए, परन्तु सोम सूर्य दोही कुल मुख्य हैं, उन औरोंका इन दोमें अन्तर्भाव है, सूर्य-वंशी राजाओंके बारह, चंद्रवंशियोंके २५ गोत्र सखादि खण्डमें लिखे हैं, भारद्वाज ? पूतिमाक्ष-२ वा ( जमदग्नि ), वसिष्ठ ३, काश्यप ४, हरित, ५, विष्णु ६, ब्रह्म- ( गौतम ) ७, शौनक, ८, कौडिन्य, ९, कौशिक १०, विश्वामित्र, ११ और मांडव्य १२ यह १२ गोत्र सूर्यवंशके हैं, प्रभावती, कालिका, महालक्ष्मी, योगेश्वरी, इंद्राणी, दुर्गा यह कुलदेवी हैं, तीन और पांच प्रवर हैं । सोमवंशियोंके प्रह्लाद, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, ( सनत्कुमार ), कण्व, पाराशर, विश्वामित्र, भारद्वाज, कपिल, शौनक, वाज्ञवल्क्य, जमदग्नि, गौतम ( ब्रह्म ), मुद्गल ( गार्ग्य ), व्यास, लोमश, अगस्ति, कौशिक, वत्सस,

पुलस्त्य, मकन, ( माल्यवत ), दुर्वासा, नारद, कश्यप, ( शांडिल्य ) और वक्त्रालम्ब्य, यह २५ गोत्र हैं। योगेश्वरी, महालक्ष्मी, चरिताचंडिका, यह कुलदेवी है इनके कर्म षण्णवति कुल नामक प्राकृत ग्रन्थमें लिखे हैं, इनमें बहुतसे पतित हो गये हैं, सूर्यवंशके शिवादि सोमवंशके भी शेषवंशी जनोंके यहां गणपतिकी उपासना है, इन्हीं कुलोंमें जो सूर्यवंशी गन्धर्वसेन राजा हुआ उस गन्धर्वसेनके छः-पुत्र हुए उनमें बड़ा भृगुहारे हुआ, जो स्त्रीसे दुःखी हो वनको चला गया, छोटा भाई विक्रम गर्हापर बैठा, इसकी राजधानी उज्जैन हुई, इसका स्थानापन्न भोजदेश, भोजदेशके वंशसे भोसले कुल प्रगट हुआ, इसने विदर्भ देशमें नागपुर अपनी राजधानी नियत की, शंभुसे ब्राह्मणकी कन्यामें शालिवाहन उत्पन्न हुआ, इसके वंशमें कुमार गज्जा, और विक्रमके वंशमें चौकर यह दोनों दक्षिणप्रांत गोमन्तक पर्वतके निकट राज्य करने लगे, सुर्वे पायगडमें, पवार अयोध्यामें, घोषपडे पैठनमें, शिन्दे ग्वाठियरमें, सोलङ्की दिल्लीमें, शिगोडे तुलजापुरमें, मोहिते मन्दसोरमें, चोहान पंजाबमें, गायकवाड गुजरातमें, सामन्त गोवा प्रायमें, म्हाडिक वागल कोटमें, तावडे इन्दौरमें, दाभाडे द्वारकामें, ध्रुव नासिक व्यम्बकमें, शिर्के उत्तर अहमदाबादमें, सुवार कर्णाटकमें, मोरे काश्मीरमें, यादव मथुरामें राज्याधिकारी हुए, यह कुलोंकी मुख्य गणि हैं।

अब छयानवे कुलोंके नाम कहते हैं।

( कुलीसुर्वे ) सूर्यवंशी अजपाल राजाके वंशमें जो हुए उनका नाम सुर्वे हुआ, उनका वशिष्ठ गोत्र, महालक्ष्मी कुलदेवी, खेचरी मुद्रा, तारक मन्त्र है, यह विजया दशमीके दिन खड्ग पूजते हैं, लक्ष्मणकार्यमें देवक कलंवके अथवा सूर्यकुल, तखतगड़ी अयोध्या पइन, पीली गद्दी पीलीध्वजा लालवोडा इनके कुल छः हैं। सितौले, गवसे, नाइक, घाड, रावत और सुर्वे यह क्षत्रियधर्म है। ( पंवारकुल ) सूर्यवंशी राजा सयूरध्वजके वंशी पंवार हैं, भारद्वाज गोत्र, कुलदेवता, खांडेराव, अलक्ष मुद्रा, वीज मंत्र, विजया दशमीको तलवारका पूजन पीली गद्दी, पीतध्वजा, पीतघोडा, सिंहासनगद्दी, पायगड, लक्ष्मणकार्यमें देवक कलंवका, और तलवार धारके फूल होते हैं। इनके सात कुल हैं, पालव, धारराव, दलवी, कदम्बा विचारे, सालप और पंवार। ( भोसले कुल ) सूर्यवंशी भोजराजका उपनाम भोसले शौनक शालकायन गोत्र, जगदम्बा कुलदेवी, सूचरी मुद्रा, तारक मन्त्र, विजया दशमीको बिल्व शालका पूजन, लक्ष्मणकार्यमें देवक शंखका पूजन, भगवी मद्दी, भगवी ध्वजा, नीला घोडा, सिंहासनगद्दी, नागपुर, इनमें सकपालनकामे राव और भोसले यह चार कुल हैं। ( घोरपडेकुल ) सूर्यवंशी हरिश्चन्द्र राजाके वंशमें हुआका उपनाम घोरपडे, वशिष्ठ गोत्र, कुलदेवता खांडेराव, अगोचरी मुद्रा, पञ्चाक्षरी मंत्र, विजया दशमीके दिन कटार पूजन, लक्ष्मणकार्यमें रुईका देवक, सिंहासनगद्दी, मुर्गापट्टन, श्वेतगद्दी, श्वेतध्वजा, लालवोडा और मालव पारथ नलवड, और घोरपडे, यह चार कुल हैं क्षत्रिय धर्म ( राणाकुल ) पुष्यवा नामक सूर्यवंशी राजाके कुलका उपनाम राणा है, जमदग्नि गोत्र, माहेश्वरी कुलदेवी, चाचरी मुद्रा, षडक्षर

मन्त्र, विजयादशमीको तलवार पूजना, सिंहासनगद्दी, उदयपुर, लालगद्दी, लालध्वजा, लाल घोडा, लग्नकार्यमें देवक सूर्यकान्त अथवा बडका दुधे, सिंगवन मुलीक, पाटक और राणा, इनके ये पांच कुल हैं । इनका क्षत्रिय धर्म है । (शिन्देकुल) सूर्यवंशी राजा भद्रसेनके कुलवालोंका उपनाम शिन्दे है, इनका चौडिन्य गोत्र, जोतिबा कुलदेवी, अलक्ष मुद्रा, तारक मंत्र, तक्त गद्दी, ग्वालहेर, पीलीगद्दी पीलीध्वजा, पीला घोडा, लग्न कार्यमें देवक कलम्बका अथवा रुईका, विजया दशमीके दिन तलवार पूजा, यह शिन्दे ( सिंधिया ) बारह भांतिके हैं पर उपनाम एक ही है । कुर्वाशिन्दा, शिशुपालशिन्दा, महत्कालशिन्दा, नेकुलशिन्दा, सकतालशिन्दा जयशिन्दा, विजयाशिन्दा, धुर्दयाशिन्दा, सितज्याशिन्दा, सिंगण, बेलदेवक, वा कुर्वाशिन्दा, माखेल देवक, वा जयशिन्दा, कलवक देवक और विजयशिन्दा इत्यादि भेद हैं । (सोलेकी वंश) सूर्यवंशी हंसध्वज राजाके वंशधारीका उपनाम सोलङ्की है, उनका विश्वामित्र गोत्र, सिंहलाजमाता कुरुदेवता, अगोचरी मुद्रा, बीजमन्त्र, लग्नकार्यमें देवक कमल नालसहित अथवा सालङ्कीके पिच्छ, तम्बनगद्दी, दिल्लीनगर, पीलीगद्दी, पीलीध्वजा, पीला घोडा, विजयदशमीके दिन खांडेका पूजन होता है, इनके पांच कुल हैं, सोलङ्की वाघमारे बाडवे घाघ पाताडे अथवा पवोडे (सिसौदेकुल) सूर्यवंशी सिंहकेतु राजाके वंशधर उपनामसे सिसौदे कहाते हैं, गौतम गोत्र कुलदेवी अंबिका, भूचरी मुद्रा, पञ्चाक्षरी मंत्र, विजयादशमीको कटारपूजन, लग्नकार्यमें देवक हलदीका और कलंबका, सिंहासन गद्दी, तुलजापुर, इसमें पांच कुल हैं, पांचौ सिसौदे हैं, वे सिसौदे अपराध भोयर जोशी और सावल हैं । (जगतापवंश) सूर्यवंशी राजा वसुसेनके वंशधरोंका उपनाम जगताप है, बकदालभ्य गोत्र, खांडेराव कुलदेवता, खेचरी मुद्रा, षडक्षरी मंत्र, सिंहासन भरतपुर, सफेदगद्दी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, लग्नकार्यमें देवके कलम्बका और पीपलके पान, विजयादशमीको तलवारका पूजन, इसमें जगताप, सेला म्हात्रे सितोले यह चार कुल हैं । मोरवंशी सोमवंशी मांधाता राजाके वंशधरोंका उपनाम मोर, ब्रह्मगोत्र, खांडेराव कुलदेवता, अगोचरी मुद्रा, मृत्युञ्जय मंत्र, सिंहासनगद्दी कश्मीर, भगवागद्दी, भगवाध्वजा, भगवा घोडा, विजयादशमीको कटार पूजन, लग्नकार्यमें मोर पुच्छका देवक तीन सौ साठ इसमें मोरे, केशकर कल्पाते दरवारे यह चार कुल हैं । (मोहिते वंश) सोमवंशी सुमति राजाके वंशधरोंका उपनाम मोहिते हुआ । गार्ग्यगोत्र, खांडेराव कुलदेवता, अलक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, सिंहासन गद्दी, मन्दसौर, श्वेत गद्दी, श्वेतध्वजा, श्वेत घोडा लग्नकार्यमें कलंबका देवक, विजया दशमीको तेगेका पूजन, इसमें मोहिते माने कामरे काटे काठबडे यह पांच कुल हैं, क्षत्रिय धर्म है । (चौहानवंश) सोमवंशी राजा मणिभद्रके वंशधर चौहान (चवाण) कहाते हैं, इनका कपिल गोत्र, जोतिबा कुलदेवता, तथा खांडेराव कुलदेवता, चाचरी मुद्रा, नृसिंह मंत्र, सिंहासन गद्दी पञ्जाब, पीली गद्दी, पीली ध्वजा, पीला घोडा, लग्नकार्यमें वासुन्दीबेल देवक, विजया दशमीके दिन खांडापूजन, इसमें चौहान घडप, वारङ्गे, दल्पते, यह चार चौहान हैं । (दामाडेवंश) सोमवंशी राजा भद्रपाणिके कुलमें

होनेवालोंका उपनाम दाभाडे हैं, इनका शांडिल्य गोत्र; जोतिवा कुल देवत, अगोचरी मुद्रा, तारकमन्त्र, सिंहासन गद्दी द्वारका, लम्बकार्यमें कलम्बका देवक, भगवा गद्दी, भगवा ध्वजा, पीला घोडा, विजयादशमीको कटार पूजन, इसमें दाभाडे निवाळकर, राव. रणदिवे यह चार कुल हैं । ( गायकवाडकुल ) सोमवंशी इन्द्रसेन राजाके वंशधर गायकवाड उपनामसे विख्यात हुए, सनत्कुमार गोत्र, कुरुदेवता खांडेराव, भूचरी मुद्रा, सृत्तुंजय मंत्र, सिंहासन गद्दी, गुजरात, भगवा गद्दी भगवा निशान, भगवा अथवा लाल घोडा, लम्बकार्यमें गूरुर अर्थात् उंबरका देवक, विजया दशमीको तेगापूजन, इसमें गायकवाड, पाटनकर, कार्तवीर्य यह तीन कुल हैं । ( सावन्तकुल ) सोमवंशी भद्रसेन राजाके वंशधर सावंत नामसे विख्यात हुए, दुर्वासा गोत्र, जोतिवा कुलदेव, चाचरी मुद्रा, नृसिंह मंत्र, सिंहासन गद्दी गोवा, ( सावंतवाडी ) भगवा गादो, भगवा निशान, पीतपट्टका लोहवन्दी घोडा, लम्बकार्यमें कलम्ब और हार्थी दांतका देवक, विजया दशमीको तलवारका पूजन, इसमें सावंत, कम्बले, इनमुलकर और घाडगे यह चार कुल हैं, ( म्हाडिकवंश ) शेष वंशी कार्तवीर्य राजाके वंशधर म्हाडिक नामसे विख्यात हैं, मालवंत गोत्र, कात्यायनी देवी, खेचरी मुद्रा, पञ्चाक्षरी मंत्र, सिंहासन गद्दी बागलकोट, नीली गद्दी, नीली ध्वजा, नीला घोडा, लम्बकार्यमें कलम्ब अथवा पीपलका देवक, विजया दशमीको कटार अथवा तलवारका पूजन, इसमें म्हाडिक, गयली, भागले, भोईर, ठाकुर यह पांच वंश हैं, ( तावडे वंश ) शेषवंशी नागानन राजाके वंशधर तावडे कहाये, इनका विश्वावसु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, योगेश्वरी कुलदेवता, षडक्षरी मंत्र सिंहासन इंदौर, सफेद गद्दी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, लम्बकार्यमें कलम्बका वा हलदीका अथवा पानका अथवा सोनेके पानका कुरुदेवक होता है, विजया दशमीके दिन कटारका पूजन होता है, इसमें तावडे सांगल, नामजादे जावले चिरफुले यह पांच वंश हैं । ( धुरूपधुले वंश ) शेषवंशी महिपाल राजाके वंशधर धुरूपधुले कहाये; इनका धुरूप गोत्र, खांडेराव कुरुदेवता, भूचरी मुद्रा, सृत्तुंजय मंत्र, नासिक, त्र्यम्बक, विजयदुर्गे सिंहासन गद्दी, भगवा गद्दी भगवा ध्वजा, भगवा घोडा, जरीपटका, लम्बकार्यमें कलम्ब, लैंडपवारका वा लैंडमुनेका, हलदीका, वा केतकीके अन्तरभागका देवक होता है, विजया दशमीको खांडेका पूजन होता है, इसमें चार और किसीके मतसे धुरूप, धुमाल, धुरे, कासले और लैंडपवार यह कुल जानना । ( वागवेवंश गोप्ती वा विजयाभिनंदन शेषवंशी राजाके वंशधर वागवे कहाये, इनका शौनक वा शोण्य गोत्र है, महाकाली कुरुदेवता, भूचरी मुद्रा, नृसिंह मंत्र, तस्तगद्दी, कोटवृंदी, भगवा गद्दी, भगवा ध्वजा, भगवा घोडा, लम्बकार्यमें कलम्बका देवक, विजया दशमीको तलवारका पूजन इसमें वागवे परव, मोकासी, दिवटे और वागवे यह चार कुल हैं । ( शिरके कुल ) यदुवंशी कर्णध्वज राजाके वंशमें शिरके विख्यात हैं, इनका शौनलव वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुरुदेवी, सिंहासन-गद्दी अहमदाबाद, शुभ्र गद्दी, शुभ्र ध्वजा, शुभ्र घोडा, जरीपटका, चाचरी मुद्रा, बीज मंत्र, लम्बकार्यमें कलम्बका देवक, विजया दशमीको खांडा पूजन, इसमें शिरके, फाकडे, शेउके,

वागमन, गावंड, भोकला, यह छः कुल हैं। ( तुषारवंश ) यदुवंशी राजा जमुमति वंशधर तुषार कहलाये, उनका गार्गायन गोत्र, योगेश्वरी कुलदेवता, सिंहासनगद्दी कर्णाटक ( सावनूर चंकापुर ) हरी गद्दी, हरी ध्वजा, पीला घोडा, जरीपटका, भूचरी मुद्रा, तृसिंह मन्त्र, लग्नकार्यमें उदुस्वरका देवक, सोनेकी माला, अथवा रुद्राक्षकी माला अथवा कांदेकी माला, विजया दशमीके दिन तेगापूजन, इसमें तुषार, तामटे, बुरुके, धावडे, मालपवार यह पांच कुल हैं। ( यादव वा जादववंश ) यदुके वंशधर यादव वा जादव कहाये, इनका कौडिन्य गोत्र, जोगेश्वरी जोतिवा कुलदेवी, तथा खांडेराव कुलदेव, सिंहासन मथुरापुरी, पीली गद्दी, पीला निशान, पीला घोडा, अलक्ष मुद्रा, पंचाक्षरी मन्त्र, लग्नकार्यमें कलम्यका, आंबेका वा उदुस्वरका देवक, विजया दशमीके दिन तरुवारका पूजन, इसमें वारह कुल हैं। यह सब अत्री धर्मका पालन करनेवाले हैं, इनके संस्कार होते हैं।

महाराष्ट्र जातिकी सेवक साढे वारह जाति हैं वे कुछ शूद्र और कुछ अब शूद्रवत् हैं यथा निजोले, अंजनवाडे, मराठं, आकरमासे, ( ग्वारहमासे ), गाडीवान् पन्नासे, ( पन्नासे ), वालेवाटी, वैदेशी, वैजापुरी, कडुमाडी यह दो प्रकारके हैं। फुळमारी, धासीमाली, धनगर यह वारह हैं। दो प्रकारे खुटेकर हैं, गडकी धनगर, उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं, हळकोंकी आधीजाति कही जाती है। इस प्रकार यह साढे वारह जाति हैं इनके उपनाम सेलके वोडेकर काले लाहाणां सिन्धे पवार माहे जादव इत्यादि इनका भोजन सम्बन्ध साढे वारह जातिमें है।

### गहरवार ।

यह एक क्षत्रियवंश है गुहवाल वा गहरवार एकही नाम कहा जाता है। यह पूर्वकालमें गिरि गुहाओं में रक्षाके निमित्त रहा करते थे, इससे गहरवार कहाये, यह चन्द्रवंशी हैं, यदुवंशमें काशीका राजा दिवोदास हुआ, इनको गहरवारकी पदवी मिली, अर्थात् इनके श्रेष्ठ ग्रह थे तबसे इनका नाम ग्रहवार हुआ, इसी वंशमें कन्नौजके राजा जयचन्द्र हुएथे, कोई कहते हैं कि, मुसलमानोंने जब कन्नौजको जीता तब जयचन्द्रके वंशधर घरसे बाहर हो जोधपुरमें चलेगये, घरसे बाहर होनेके कारण यह गहरवार कहलाने लगे, राज धारागढ पयागादिमें निवास है।

इसप्रकार राजस्थानके क्षत्रियोंका वर्णन करके अब भारतके अन्य स्थानका भी निरूपण करते हैं। चन्द्रवंशमें इलाके द्वारा बुधसे पुरूरवा हुआ, और उसकी राजधानी इलावास जिसको अब इलाहाबाद कहते हुए उसके वंशके पुरुवंशी कहाये, गङ्गाके उसपार परगना ईल अबतक है वहां महादेवजीकी मूर्ति तथा चन्द्रमा और इलाकी मूर्ति हैं।

कह आये हैं कि ( बाहू राजन्यः कृतः ) भुजासे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति है जो प्रजाको कष्टसे बचावै वह क्षत्रिय है।

राजा शामका रूप स्वर्गी क्षत्रिय हैं, कहते हैं इनके यहां सूरज वंशसे कोई संतति न थी। अनेक दान पुण्य किये, कुछ फल न मिला, देवात् एक दिन बड़ी आंधी आई, और दो चार दिनका उत्पन्न हुआ एक बालक कहींसे उठकर आंगनमें आनपडा. राजाने उसको लेकर पालन किया. और कहा बालक स्वर्गसे गिरा है, इससे आजसे यह वंश स्वर्गांत्र कहावैगा ।

गहरवार--राजा धरागढ जिला इलाहाबाद गहरवार है ।

सरनत--राजा गोरखपुर इसी वंशमें है और यह उत्तम वंश है ।

विसेन--राजा महीली जिला गोरखपुर विरोन है ।

चमरगौर--अवधमें यह भी क्षत्रवंश हैं ।

भटगौर--चमर गौरसे कुछ कम प्रतिष्ठामें हैं ।

वामनगौर--यह खैराबाद इलाके वदायूँके हैं यह तीनों अपनेको बैस क्षत्रियसे कम नहीं मानते बैस डूँडाखेडाके निवासी हैं. कहा जाता है कि जिस समय भिरजा सालारमसउद खाहरजादे सुलतान महम्मद मार्जा बहरायचमें थे उस काल युद्धके समय क्षत्रियोंकी तीन गर्भवती स्त्रियोंमेंसे एकने चमारके, एकने भाटके और एकने ब्राह्मणके यहां जाकर शरण ली, और बच्चोंकी उत्पत्ति वहीं हुई. और पालेगये. जब मुसल्मानी सौज वहांसे हटगई तब यह प्रगट हुई, ओर जब परीक्षा करनेसे तीनों शुद्ध पाये गये और वामक अवस्थामें अनेक प्रकारकी सामग्री और अस्त्र शस्त्र सामने रखकर जब लडकोंकी परीक्षा कीगई तब सबसे पहले जिस बालकको चमारने छिपा रक्खा था उसने तलवारपर हाथ लगाया. इस कारण यह तीनोंमें उत्तम गिनागया और विरादरामें लिये गये ।

जनवार--इस जातिके राजपूत मुकाम खैराबाद अवधमें जिमीदार हैं ।

दगवंशी--परगना कुडवार ( अवध ) के जिमीदार हैं-।

वसैया--परगने खोआई इलाहाबादप्रान्तके निवासी हैं ।

सौनक--परगना मण्डोई जि० भिरजापुरके निवासी हैं ।

मौनस--यह चुनारखड जि० मिर्जापुरमें निवास करते हैं थोकके समान हैं ।

उज्जैन--यह अपना वंश भोजसे मिलान करते हैं पर इसका त्रयाण नहीं मिलता, यह सेसराम बहुसैन पुरमें रहते हैं ।

रुद्र--इनका वृत्तान्त विदित नहीं ।

गौतम--यह कोई २ द्वावेमें पाये जाते हैं ।

वाजल--इनका वृत्तान्त विदित नहीं ।

नागकेशी--यह नागपुर अपना स्थान कहते हैं ।

धोसला--यह दक्षिण निवासी हैं ।

राजपूत वा रजपूत--एक दूसरी प्रकारकी क्षत्रियजन्य जाति है ।

इस प्रकारसे क्षत्रियोंके पांचसौसे अधिक वंश प्रतिष्ठित हैं, पर ३६ तथा कहीं २ चावन वंशोंकी प्रतिष्ठा है, वेदप्रतिपाद्य क्षत्रियवंश द्विजन्मा कहाता है उनके कर्म संक्षेपसे मनुजी लिखते हैं ।

**प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।  
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥**

( मनु० )

प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, और वेद पाठ करना और विषयोंमें न लगना यह क्षत्रियोंके धर्म हैं, राजपूत योधाओंके लगभग एक सहस्रके वंश हैं असली संस्कार सम्पन्न क्षत्रिय बहुतही थोड़े हैं, चन्द्र सूर्य यदु आदि की परम्परा-चली आती हैं, परंतु आचरणोंमें अनेक भेद होगये हैं पूर्वकालमें राजन्य, क्षत्र और क्षत्रिय शब्द इस जातिके निमित्त था पीछे यही शब्द क्षत्रिय ठाकुर और राजपूत नामोंमें बदल गया !

**वधयतां राजपुत्राणां क्रन्दतामितरेतरम् ।**

( महाभा० द्रोणप० अ० ४१ श्लो० २१ )

**ब्राह्मणा राजपुत्राश्च । बाहू राजन्यः कृतः ॥**

( यजु० अ० ३१ )

इत्यादिसे प्रमाणित होता है कि, राजकुमार राजन्य आदि क्षत्रिय वाचक है, भारतमें कहीं २ राजपूत शब्दसे ठाकुर शब्दको बहुत उत्तम मानते हैं, राजाकी सन्तान और ठाकुर भूमिपति होते हैं । यही लोग शुद्ध क्षत्रिय हैं, पंडित जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य एम्, ए. डी. एल ने अपनी पुस्तक हिन्दूकास्ट्स एण्ड सैक्ट्समें लिखा है कि राजपूतोंको सब शुद्ध क्षत्रिय स्वीकार करते हैं, इनको पंजाबके खत्रियोंसे नहीं मिलाना चाहिये जो साधारण रीतिसे वैश्य समझे जाते हैं ।

यद्यपि टाड साहबने किसी २ राजपूतको सिथिया देशवालोंके मेल शोलका बताया है, परंतु प्रोफेसर कोवेल कहते हैं कि सब राजपूत शुद्ध हिन्दू हैं, पर इस बातका ध्यान रहै कि रजपूत शब्द उस राजस्थानकी शुद्ध जातिका बोधक नहीं है, जो जालौन, आगरा, फतेहाबाद आदिमें पाये जाते हैं, पौराणिक प्रथानुसार वे संकर हैं उनका क्षत्रियजातिसे सम्बन्ध नहीं है, इनका क्षत्रिय पिता और धोशूद्रा मा है रुद्रयामल ऋके अनुसार वैश्य पिता और अम्बष्ठ स्त्री है, असली क्षत्रिय जातिमें विवाहसम्बन्ध, माताकी सर्पिडता और पिताकी सात पीढी छोडकर होता है, इनका रंग गोरा, देखनेमें मनोहर, राजशक्ति सम्पन्न होते हैं, यवनोंने इन जातियोंको कलंकित करनेकी मिथ्या

काल्पनिक कथायें लिखी हैं, शेरिंग साहब हिंदूटाइम्स ऐण्ड कास्ट जि० १ भा० २ अ० १ पृ० ११७ में लिखते हैं कि संसार भरकी जातियोंके अच्छे घरानेमें ऐसा कोई घराना नहीं है जो भारतकी राजपूत जातिकी अपेक्षा अपने बड़े वंशवृक्ष अथवा अत्यन्त प्रशंसित इतिहासका अभिमान रखता हो । टाड साहब कहते हैं इनमें परतंत्रता वा निन्द्य कोई आचरण नहीं है, गदरके समय गौडाके राजा देवीवरुस सिंहजी तथा बलरामपुरके राजा साहबकी वीरता और क्षत्रियत्वकी सराहना कौन न करेगा, क्षत्रियोंमें जैसा अध्यात्मज्ञान था वैसा ऋषियोंने भी कहीं २ नहीं पाया, उद्दालक आरुणि गौतम इसके साक्षी हैं, शुद्ध क्षत्रियवंश हम सब ३६ राजवंशको नहीं मान सकते, और न यही स्वीकार कर सकते हैं कि सीथियन जातिके बहूतसे लोग इनमें मिलाजुला गये हैं, नाम और आचरणके मिलानेके लिये यह बात क्यों न स्वीकार की जाय कि सृष्टि-आरंभसेही जब क्षत्रिय जाति है, तब दूसरी बाहरकी जातियोंने सम्भवतः इनके आचरण स्वीकार कर लिये हों, जिन जातियोंमें द्विजन्मा संस्कार नहीं ? जिन जातियोंमें कण्व धरेजा होता है, जिनमें माता पिताके गोत्र त्यागका विवाहमें नियम नहीं है, जिनमें परंपरासे वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वंशमें परिगणित नहीं हो सकते, प्रत्येक वर्ण जिसका नाम गोत्रादि स्मरण न रहा हो, उसके आचरणोंसे समझ लिया जाता है, असल क्षत्रियोंसे आजकल जो सूर्य चन्द्र यदु पुरुवंशी तथा परमार सोलंकी चौहान आदि हैं उनका वर्णन हम कर चुके हैं, क्षत्रिय जातिके राज्य आज भी विद्यमान है, और उनके विवाह कर्मादि उनही वर्गोंमें होते हैं, पर एक बड़े आश्चर्यका विषय है कि अनेक जातियां जिनका कहीं इतिहास पुराणमें कुछ पता नहीं है या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय बननेका दावा करती हैं ।

बनाफर देवसक--यह क्षत्रियोंकी एक जाति है आल्हा ऊदल इसी वंशमें उत्पन्न हुए थे ।  
पनवार--यह मरवी प्रान्तमें पाये जाते हैं ।

समरथला--परगना मीराबाद ( जलालाबादमें ) ज़िमीदार हैं ।

झिकार वटेरा--इनकी ज़िमीदारी आंबला बदायु करोर रुहेलखण्ड आदिमें पाई जाती है, यह वैसा क्षत्रियोंकी बराबरीका दावा करते हैं ।

हुण्डेरिया--जालौन कूचविहारमें ज़िमीदारी करते हैं, यह अपनेको बुन्देलोंसे उत्तम मानते हैं ।

कोरई--यह अकवरावादके प्रांतमें विशेष रूपसे रहते हैं इनके विवाह सम्बन्ध जाटों तकमें करते हैं इनकी कक्षा दूसरे क्षत्रियोंसे न्यून है ।

खेचर--यह भी न्यून कक्षाके समझे जाते हैं, भगवन्तसिंह खेचर पराक्रममें विख्यात हो चुका है, खेचरोंकी ज़िमीदारी कडमानकपुर और फतहपुर हसुआमें पाई जाती है ।

मालासुलतान--जगदीशपुर अवधमें इनकी ज़िमीदारी है ।



तिलोई-जाइस, सलोन, नर्सारावाद, अवधमें जिमीदारी है ।

कनपुरिया--कानपुर प्रांतके निवासी है ।

झीधदोली-जिमीदारी पुरातन गढअमैठी आदि अवधमें हैं ।

बच्छगोनी-दुआका बरगढ, बक़ोडवार ( अवध ) में इनकी जिमीदारी हैं, अब इसकी दो शाखा हो गई हैं एक राजा और एक डीवान कहाने हैं, जिमीदार, इसनपुर बन्धवा ( अवध ) जवसे मुसलमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने लगे, जिमीदार बनौधा उनकी बहुत प्रतिष्ठा करने हैं, राजा रामपुर तिलोई अमैठी और बनौधाको जवतक खानजादा राज का तिलक न करै, तबतक वह राजा नहीं होता ।

राजकुमार-बच्छगोनीकी शाखा हैं, जिमीदारी अरुदेमऊ तथा परगना अरुकली सोधरपुर मुत्तःपुर इनकी पुरातन रियासत है ।

रैकवार--यह तथा परहार भी रियासत अवधके जिमीदार हैं ।

गर्गेशी-नरसिंहपुर तथा मुसतानपुर इस वंशकी जिमीदारी हैं ।

पनवार--जिमीदारी बडे आजमगढ है ।

थोक-इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर है यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं ।

रघुवंशी-परगना मोर्तानगर ( अवध ) में इनकी रियासत है ।

### खत्री जाति ।

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहले क्षत्रिय थे और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अब वैश्य हो गये हैं । इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निर्गत होकर भ्रष्ट हो गईं और अपना गौरव खो बैठीं और इसमें भी सन्देह नहीं कि इस समय जो चन्द्र, सूर्य, यदु, परमार, चौहान, सोलंकी राठौर आदि वंश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति पृथक् ही दिखाई देती है, कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है; पर विशेष संज्ञा इनमें चन्द्र सोमादि वंशकी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही बिगडकर खत्री हो गया है, और बहुतोंकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहुतोंका मत है कि परशुरामके समयसे ही यह खत्रिय हो गये हैं, हम इस विषयमें वर्द्धमानके मान्य राजा बनविहारी कपूरके ग्रन्थसे कुछ लेख उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, कृपाकर, शंखन, मार्तण्ड, नामके हैं, इनका ही अपभ्रंश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ने, और तण्डन हो गया है, यह खत्रियारी होनेसे सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे आघे होगये, इससे मिहरे, कपूर, खन्ने दाईं घर अब्बल तिलक लगानेके कारण परमोत्तम समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूर्यवंशी सूर्य नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र बहुकर, चक्रावलि, करालाग्नि, सूर्य, सहस्रकर नामोंका अपभ्रंश होकर सेठ, धौन,

तिलोई-जाइस, सलोन, नर्सारावाद, अवधमें जिमीदारी है ।

कनपुरिया--कानपुर प्रांतके निवासी है ।

झिंधादोली-जिमीदारी पुरातन गढअमैठी आदि अवधमें हैं ।

बच्छगोनी-दुआका बरगढ, बक़ोडवार ( अवध ) में इनकी जिमीदारी हैं, अब इसकी दो शाखा हो गई हैं एक राजा और एक डीवान कहाने हैं, जिमीदार, इसनपुर बन्धवा ( अवध ) जवसे मुसलमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने लगे, जिमीदार बनौधा उनकी बहुत प्रतिष्ठा करने हैं, राजा रामपुर तिलोई अमैठी और बनौधाको जवतक खानजादा राज का तिलक न करै, तबतक वह राजा नहीं होता ।

राजकुमार-बच्छगोनीकी शाखा हैं, जिमीदारी अरुदेमऊ तथा परगना अरुकली सोधरपुर मुत्तःनपुर इनकी पुरातन रियासत है ।

रैकवार--यह तथा परहार भी रियासत अवधके जिमीदार हैं ।

गर्गेशी-नरसिंहपुर तथा मुसतानपुर इस वंशकी जिमीदारी हैं ।

पनवार--जिमीदारी बडे आजमगढ है ।

थोक-इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर है यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं ।

रघुवंशी--परगना मोर्तानगर ( अवध ) में इनकी रियासत है ।

### खत्री जाति ।

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहले क्षत्रिय थे और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अब वैश्य हो गये हैं । इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निर्गत होकर भ्रष्ट हो गईं और अपना गौरव खो बैठीं और इसमें भी सन्देह नहीं कि इस समय जो चन्द्र, सूर्य, यदु, परमार, चौहान, सोलंकी राठौर आदि वंश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति पृथक् ही दिखाई देती है, कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है; पर विशेष संज्ञा इनमें चन्द्र सोमादि वंशकी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही बिगडकर खत्री हो गया है, और बहुतोंकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहुतोंका मत है कि परशुरामके समयसे ही यह खत्रिय हो गये हैं, हम इस विषयमें वर्द्धमानके मान्य राजा बनविहारी कपूरके ग्रन्थसे कुछ लेख उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, कृपाकर, शंखन, मार्तण्ड, नामके हैं, इनका ही अपभ्रंश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ने, और तण्डन हो गया है, यह खत्रियारी होनेसे सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे आघे होगये, इससे मिहरे, कपूर, खन्ने दाईं घर अब्बल तिलक लगानेके कारण परमोत्तम समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूर्यवंशी सूर्य नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र बहुकर, चक्रावलि, करालाग्नि, सूर्य, सहस्रकर नामोंका अपभ्रंश होकर सेठ, धौन,

तिलोई--जाइस, सलोन, नसीराबाद, अवधमें ज़िमीदारी है ।

कनपुरिया--कानपुर प्रांतके निवासी हैं ।

शीथरदोली--ज़िमीदारी पुरातन गढ़अमैठी आदि अवधमें हैं ।

बच्छगोती--इलाका बलगढ़, बकोडवार ( अवध ) में इनकी ज़िमीदारी हैं, अब इसकी शो शाखा हो गई हैं एक राजा और एक दीवान कहाते हैं, ज़िमीदार, इसनपुर बन्धवा ( अवध ) जवसे मुसलमान हो गये तबसे वे खानजादे कहाने लगे, ज़िमीदार बनौधा उनकी बहुत प्रतिष्ठा करते हैं, राजा रामपुर तिलोई अमैठी ओर बनौधाको जबतक खानजादा राज का तिलक न करै, तबतक वह राजा नहीं होता ।

राजकुमार -बच्छगोतीकी शाखा हैं, ज़िमीदारी अरुदेमऊ तथा परगना अरुकर्ला सोध-रपुर सुल्तानपुर इनकी पुरातन रियासत है ।

रैकवार--यह तथा परहार भी रियासत अवधके त्रिषादार हैं ।

गर्गवंशी--नरसिंहपुर तथा सुल्तानपुर इस वंशकी ज़िमीदारी हैं ।

पन्धार--ज़िमीदारी बड़े आजमगढ़ है ।

थोक--इनकी रियासत थरपुर जिला जौनपुर है यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं ।

रघुवंशी--परगना मोतीनगर ( अवध ) में इनकी रियासत है ।

### खत्री जाति ।

इस समय हम खत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहलू क्षत्रिय थे और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अब वैश्य हो गये हैं । इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि अनेक जातियां क्षत्रिय वंशसे निर्गत होकर भ्रष्ट हो गईं और अपना गौरव खो बैठीं और इसमें भी सन्देह नहीं कि इस समय जो चन्द्र, सूर्य, यदु, परमार, चौहान, सोलंकी राठौर आदि वंश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति पृथक् ही दिखाई देती है, कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है; पर विशेष संज्ञा इनमें चन्द्र सोमादि वंशकी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही बिगड़कर खत्री हो गया है, और बहुतोंकी सम्मति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, बहुतोंका मत है कि परशुरामके समयसे ही यह खत्रिय हो गये हैं, हम इस विषयमें वर्द्धमानके मान्य राजा बनविहारी कपूरके ग्रन्थसे कुछ लेख उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर, कृपाकर, शंखन, मार्तण्ड, नामके हैं, इनका ही अपभ्रंश क्रमसे मिहरे, कपूर, खन्ने, और तण्डन हो गया है, यह छत्रधारी होनेसे सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खौफसे आवे होगये, इससे मिहरे, कपूर, खन्ने ढाई घर अब्बल तिलक लगानेके कारण परमोत्तम समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूर्यवंशी सूर्य नामके हैं, जैसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र बहुकर, चक्रावलि, करालाशि, सूर्य, सहस्रकर नामोंका अपभ्रंश होकर सेठ, धौन,

हींद्र, बहोरे चौपडे, कक्कड, सूर, सहगल, नामोंसे सब मिलकर बारहजाती सरनाम हैं। किक उक्ति उन नामोंकी यह सुनी जाती है कि मिहर खत्री अपने बेटेको बड़े अमीर त्रीके घर व्याहनेको गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर बहूको अपने ले मण्डपके नीचे नाचने लगे, तबसे लोगोंने इनको मिहरे कहकर पुकारा, दूसरे (कमार) हजारों हीन दुनिया मनुष्योंको खानेके सिवाय बर्तन कपडे भी दिया करते, इस कौर्तिमुगन्वस लोग इनको कपूर कहने लगे। तीसरे साहब किसी धनाढ्य ग्वत्रीके हां व्याहनेको गये, वहां लडकेने कुछ भारी नेग मांगनेका झगडा उठाया, परोसा पकवाने व सूपने लगा, लडकेके बापने झट लक्ष्मीनारायण कह खाना आरम्भ कर दिया, तबसे लोग इनको ग्वन्न कहते हैं, एतसी पांच सारस्वत ब्राह्मणोंकी कन्याओंके विवाह कराने तथा जिसी पच्चीस सारस्वत कुमारोंके यज्ञोपवीत करादेनेसे श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, इसका अपभ्रंश सेठ होगया, एक ब्राह्मणकी कन्या बहुत सुन्दरी थी, एक कन्वारी शिपहसालारने उसको देख पाया, उसने उसके बाप भाईसे मांगा, ब्राह्मणने नहीं दी तब तुकोंने उसके बाप भाईको मारकर कन्या कन्वारीको दी, कन्याने शिप पानकर अपने प्राण देदिये, यह ब्राह्मण जेसके प्रोहित थे उन्होंने यह समाचार पाकर अपने सजातियोंको साथ लेकर तुकोंपर ढाई करके उस सरदारको आग लगाकर ग्वक करडाला, तबसे लोग इनको ग्वकर पुकारने लगे, जिसका अपभ्रंश ककर होगया, लाला सरवनलाल टंडन रचित क्षत्रियप्रकाशमें लेखा है, मिहिर नाम सूर्यका है, इसकारण सूर्यवंशी क्षत्रिय मिहरे कहाये, टण्टन और टण्टा दोनों एक धातुसे निकले हैं, और टंटा करने वालोंका अर्थात्—उन वीरोंका जो जेस कार्यको आरम्भ करें। उसमें कितनीही लडाईं मिडाईं क्यों न हों, परन्तु कार्यको पूर्णही करना, इसकारण टण्टन संज्ञक हुए, खन नाम आधेका है जैसे यह घर तीन खनका है, और खण्ड भी उसी धातुसे बना है, इससे यह खने आधे हैं, और यही ढाई घरा कहाते हैं, इसीप्रकार कोई सूरोंको सूर्यसे उत्पन्न बताता है कोई शूरताकी झलक बताता है, कोई कपूरको चन्द्रवंश कहता है, कोई भसीनोंको भास सूर्यवंशी बताता है, कोई घोहराको व्यूहरचनामें कुशळ मानते हैं कोई सेहनीको सेनी सेनानी वा सेना नायकका अपभ्रंश मानते हैं उसीप्रकार धौन धावन दूतहलकारेसे उप्पल उपल अर्थात् प्रस्तरसे, सरहीन, शूरिन् उपनाम योद्धा, इत्यादि नामोंके अपभ्रंश मानते हैं। पर दूसरे विद्वान् इस बातको नहीं मानते वह कहते हैं, कि चन्द्रवंशमें यदुके दूसरे पुत्र क्रोष्टुके वंशमें कृष्ण बलरामजी उत्पन्न हुए, इनकी पन्द्रहवीं पीढीमें सत्व राजा हुए, इनके भजमान, अन्धक, देवावृध, वृष्णि और महाभोज हुए, अन्धकके कुक्कुर भजमान शमीक बसगर्वित नामक पुत्र हुए, कुक्कुरके वंशीही कौक्कुर कहाये, कौक्कुरका अपभ्रंशही यह कक्कड शब्द है, इस प्रकार यह यदुवंशी हैं, छः जातिके क्षत्रियोंमें एकजाति कक्कडोंकी गिनी जाती है, परंतु बत्सकुळके सेठोंकी इस समयमें चौजातिके ढाई घर कुलीन क्षत्रियोंमें गणना होती है, आयुके

वंशको पुराणोंमें श्रेष्ठ लिखा है, इसका ही विगडकर सेठ होगया है, इन दोनोंके कुल पुरोहित जाप्रदाग्न्य वत्स गोत्रीय सारस्वत कुमडिये है, तालजंघ कुलके कुछ क्षत्रिय महर्षि ओर्वके समयसे वशिष्ठ कुलको मानने लगे, वही वंश अपनेको इस समय सेठ नामसे अभिहित करता है, दूसरे इनको असहनशीलताके कारण सेठी तालमाड कहते हैं, परंतु आजभी इन कक्कड आदि कुलोंकी सेठ संज्ञा देखी जाती है, वशिष्ठ वंशज पराशर गोत्रके तिवधे सारस्वत इन तालजंघ वा तलवाडोंके पुरोहित हैं, इस समय तालवाड, उत्तम कुलवाले क्षत्रियोंकी चौजातिसे भिन्न भिन्न श्रेणीके अन्तर्गत समझे जाते हैं, कुलीन श्रत्रियोंमें आजतक हन्दा ( हन्तकार ) निकाला जाता है, पर इधर लोग इस रीतिका पालन नहीं करते, जिसके लिये पुराणोंमें लिखा है ।

**ग्रासप्रमाणं भिक्षा स्यादथं ग्रासचतुष्टयम् ।**

**अग्राचतुर्गुणं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥**

सोलह ग्रास अन्नका नामही हन्तकार है. पञ्जाबमें यह हन्तकार बराबर निकाला जाता है, एक बादशाहके दीवानमिश्रने इस हन्दाको दीवानी होनेपर भी ग्रहण किया था, और बादशाहने इसी अपराधमें उनकी जान लेली थी, अर्थात् खाल खिचवा लीथी, तभीसे उनके वंशवालोंकी अल खलखिच हुई है, कुम्हाडिये यजमानोंमें स्कन्दकी पूजाकराते हैं, मिहरे शब्दके लिये विदित होता है कि मिथिल शब्दसे गिहगा होगया है, मैथिल पोतरेसेही मिहरौतरे वनगया है, यह मैथिल क्षत्रिय मिहरोतरे जैतलियोंके यजमान हैं, जैसे वत्स कुलके सेठोंका वत्स गोत्र है, उसी प्रकार कौशल्य मिहरोका कौशल्य गोत्र है, मिहरोका गौतम है कारण कि जनकजीका भी गौतम गोत्र था, और शतानंद इनके पुरोहित गौतमजीके पुत्र हैं, तथा डांगावाल मिहरोतरे टोभा पूजते हैं, एक भेद सिन्दियोंका है, मथुरामें मिहरोतरौका निवास बहुत कालका पाया जाता है, वहां एक मुहल्ला ढाई घरका कूंचा कहाता है, और महतपुर नामसे एक बजार भी है, तथा मथुराके मेहरा आजतक कहाते हैं ।

झिगणोंके यजमान खन्ने और टंडन हैं, यह आंगिरस भरद्वाज गणके क्षण्य गोत्रके कारणसे खन्ना और तांडिन गोत्रसेही टंडन कहाते हैं, प्रवररत्न और प्रवरमंजरीमें क्षण्य और तांडिन आदि गोत्रोंके प्रवर निर्णयमें ( आश्वलायनेन केवलांगिरसेषु पाठेऽपि आपस्तम्बकात्यायनाभ्यां भारद्वाजेषु पाठात् विष्णुपुराणसंवादाच्च भारद्वाजैरविवाहेति ) लिखा है यद्यपि आश्वलायन इनको केवल आंगिरसोंमें गिन गये हैं परन्तु आपस्तम्ब और कात्यायन इनको भारद्वाजके गणोंमें मानते हैं, ऐसा ही विष्णुपुराणका लेख है, इनको भारद्वाजके गणसे इनका विवाह न होगा, क्षण्य गोत्रके कुलीन क्षत्रिय ही खन्ना कहाते हैं, इस क्षण्य गोत्रके भारद्वाजके अन्तर्गत माने जानेसे सूत्रकार कात्यायन और आपस्तम्बके मान्यमतानुसार भारद्वाज गोत्रके समान आंगिरस बाईसत्य और भारद्वाज इनके तीनों प्रवर भी हैं, राजा वितथके समय राजवंशी

शाखामें पुरुवंशान्तर्गत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन संज्ञा हुई है, टोडरमल इसी वंशके थे, कंसवधनाटकमें इनको ऐसा लिखा है—

‘ तस्थारिति तण्डनकुलमण्डनस्य ’ ।

इससे विदित है कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये हैं । इनके आंगिरस आमक्ष्य और औरुक्ष्य तीन प्रवर हैं यही इनका गोत्र है, इस समय इनका केवल आंगिरस गोत्र कहा जाता है, शुद्ध आंगिरसोंमें ही ताण्डिन गोत्रके प्रवरोंकी गणना की है । जिस समय देवीशक्तिके उत्पन्न जसराय अपनी माताके मुखसे कटुवचन सुनकर दीवार फोडकर भूमिमें प्रविष्ट हुआ, उस समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परन्तु पुत्र भूमिमें प्रवेश करता ही चला गया । माताके हाथमें केवल चुटिया रह गई, अन्तमें कुल पुरोहित बाबालालके वहां आनेपर और देवीकी स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस स्थानको सिद्ध पीठके समान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाला बनाकर बाबालालके नामके पीछे अपना नाम जोडकर बाबा ‘ लालजसरायका ’ इस नामसे दिवालकी शिला पुजवायी, और अपनी चोटी लेनेके बदलेमें खन्नोकी चोटी लेनेकी रीति चलाकर अपने वंशकी रक्षा की । यह दियालपुर लाहौरसे ४० कोसपर है, मुंडनके पीछे जो चोटी रखाई जाती है उसकी यह बाबाके यहां जाकर उतरवाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतरवाते हैं, और आलेको लुआकर जनेऊ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुल भी यज्ञोपवीत संस्कारको नाम मात्र करते हैं इससे बड़ी हानिकी संभावना है और संस्कार हीनताही वर्णका लोप करनेवाली हैं, खन्ने और टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाई असीरत आदि लगायत पुरोहितोंके अनुसार सब माने जाते हैं, तिखोंके यजमान तालावाड हैं, यह तालजंघ ही तालावाड नामसे विख्यात हैं, इन तालवाडोंके सँठी चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं, गोत्र इनका वशिष्ठ व पाराशरके गणसे भिन्न है तथा इनका गोत्र हंसवंश कहा जाता है, भृगु गणोंमें एक हंसजिह्व गोत्र है संभव है कि यह हंसजिह्व ही हंसरसन नामसे परिवर्तित होगया हो, कारण कि जिह्व और रसन एक ही पर्यायवाचक हैं और भार्ग च्यवन दिवोदास अथवा भार्गव वार्ध्वश्च दिवोदास ही इनके तीन प्रवर भी हैं, मोहले सारस्वतोंके यजमान शैगल क्षत्रिय हैं, यह अपनेको कौशल्य गोत्री कहते हैं, यह पंजाबकी अंधपरम्परा है कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह झट अपनेको कौशल्य गोत्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैध्रुवोंमें एक छागल्य गोत्र भी है कदाचित् छागल्यका अपभ्रंश ही शैगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंके ही काश्यप अवत्सार और नैध्रुव यह तीन प्रवर हैं ।

कपूर खत्री पम्बुओंके यजमान हैं पंबुआना देशके निकाससे वहांके सारस्वत ब्राह्मण पम्बू कहाते हैं, पम्बुओंका गोत्र उपमन्यु है, वाशिष्ठ इन्द्रप्रमद और आभरद्वसु इनके तीन प्रवर हैं, भगवती चण्डिका कुल देवी है, कपूर खत्री भी अपना कौशल गोत्र कहते हैं

शाखामें पुरुवंशान्तर्गत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन संज्ञा हुई है, टोडरमल इसी वंशके थे, कंसवधनाटकमें इनको ऐसा लिखा है—

‘ तस्थारि तण्डनकुलमण्डनस्य ’ ।

इससे विदित है कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये हैं । इनके आंगिरस आमक्ष्य और औरुक्ष्य तीन प्रवर हैं यही इनका गोत्र है, इस समय इनका केवल आंगिरस गोत्र कहा जाता है, शुद्ध आंगिरसोंमें ही ताण्डिन गोत्रके प्रवरोंकी गणना की है । जिस समय देवीशक्तिके उत्पन्न जसराय अपनी माताके मुखसे कटुवचन सुनकर दीवार फोडकर भूमिमें प्रविष्ट हुआ, उस समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परन्तु पुत्र भूमिमें प्रवेश करता ही चला गया । माताके हाथमें केवल चुटिया रह गई, अन्तमें कुल पुरोहित बाबालालके वहां आनेपर और देवीकी स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस स्थानको सिद्ध पीठके समान चमत्कारी शीघ्र फल देनेवाला बनाकर बाबालालके नामके पीछे अपना नाम जोडकर बाबा ‘ लालजसरायका ’ इस नामसे दिवालकी शिला पुजवायी, और अपनी चोटी लेनेके बदलेमें खन्नोकी चोटी लेनेकी रीति चलाकर अपने वंशकी रक्षा की । यह दियालपुर लाहौरसे ४० कोसपर है, मुंडनके पीछे जो चोटी रखाई जाती है उसकी यह बाबाके यहां जाकर उतरवाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतरवाते हैं, और आलेको लुआकर जनेऊ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुल भी यज्ञोपवीत संस्कारको नाम मात्र करते हैं इससे बड़ी हानिकी संभावना है और संस्कार हीनताही वर्णका लोप करनेवाली हैं, खन्ने और टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाई असीरत आदि लगायत पुरोहितोंके अनुसार सब माने जाते हैं, तिखोंके यजमान तालावाड हैं, यह तालजंघ ही तालावाड नामसे विख्यात हैं, इन तालवाडोंके सँठी चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं, गोत्र इनका वशिष्ठ व पाराशरके गणसे भिन्न है तथा इनका गोत्र हंसवंश कहा जाता है, भृगु गणोंमें एक हंसजिह्व गोत्र है संभव है कि यह हंसजिह्व ही हंसरसन नामसे परिवर्तित होगया हो, कारण कि जिह्व और रसन एक ही पर्यायवाचक हैं और भार्ग च्यवन दिवोदास अथवा भार्गव वार्ध्वश्च दिवोदास ही इनके तीन प्रवर भी हैं, मोहले सारस्वतोंके यजमान शैगल क्षत्रिय हैं, यह अपनेको कौशल्य गोत्री कहते हैं, यह पंजाबकी अंधपरम्परा है कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह झट अपनेको कौशल्य गोत्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैध्रुवोंमें एक छागल्य गोत्र भी है कदाचित् छागल्यका अपभ्रंश ही शैगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंके ही काश्यप अवत्सार और नैध्रुव यह तीन प्रवर हैं ।

कपूर खत्री पम्बुओंके यजमान हैं पंबुआना देशके निकाससे वहांके सारस्वत ब्राह्मण पम्बू कहाते हैं, पम्बुओंका गोत्र उपमन्यु है, वाशिष्ठ इन्द्रप्रमद और आभरद्वसु इनके तीन प्रवर हैं, भगवती चण्डिका कुल देवी है, कपूर खत्री भी अपना कौशल गोत्र कहते हैं

प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः ।  
 वत्सैः संवर्द्धितो गोष्ठे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥  
 दधिवाहनपौत्रस्तु पुत्रो द्विविरथस्य च ।  
 गुप्तः स गौतमेनासीद्गंगाकूलेऽभिरक्षितः ॥  
 बृहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः ।  
 गोलान्गूलैर्महाभागः गृध्रकूटेऽभिरक्षितः ॥  
 मरुत्वस्थान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।  
 मरुत्पतिसभा वीरे समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥  
 एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः ।  
 द्योकारहेमकारादिजातिमित्थं समाश्रिताः ॥  
 यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ।

जिससमय परशुरामने पृथिवीको निःक्षत्रिय किया तब कुछ राजवंशके धुरंधर वनको चलेगये, उस समय राजाहीन पृथिवी कश्यपसे कहनेलगी मैं राजाके बिना नष्ट हुई जाती हूं, मैंने स्त्रियोंमें बहुतसे राजवंश छिपा रक्खे हैं, हैहय वंशके क्षत्रिय स्त्रियोंमें छिपेहुए हैं पौरवंशके विदूरथका पुत्र रैवतक पर्वतमें है, इसी प्रकार महातेजस्वी पराशरने सौदासके वंशवालोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा करता है, इसकारण उसका नाम सर्वकर्मा पढगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति वनमें रहता है वह मेरी रक्षा करनेको समर्थ है, प्रतर्दनका पुत्र बछडोंके साथ वनमें निर्वाह करता है, गौतम ऋषिने दधिवाहनके पौत्र और द्विविरथके पुत्रकी रक्षा की है, वह गंगाकिनारे निवास करते हैं, बहुत विभूतिवाले महाराज बृहद्रथ गृध्रकूटमें निवास करते हैं, मरुत राजाके वंशवाले इंद्रके समान पराक्रमी समुद्रके किनारे निवास करते हैं, यह क्षत्रिय वंशके धुरन्धर जहां तहां निवास करते हुए सुनार सौधकारादि जातियोंका आश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करै तो मैं स्थित रह सकती हूं ।

इन श्लोकोंको लेकर अरोडवंशी कहते हैं हममें भी बहुतसे सुनार आदि शिष्य कर्मका अनुष्ठान करते हैं, सिन्धमें अरोड लुहानेको कहते हैं, इससे विदित है कि परशुरामके समयसे वह लोग लोहकर्म करने लगे, आजतक इनका नाम लुहाना चला आता है, दूसरे इनमें यज्ञोपवीत होता चला आता है, दूसरे महाभारतके श्लोकोंसे पाया जाता है कि परशुरामके भयसे शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, वत्स गंगा और जमुनाके मध्यमें जा छिपे, पीछे उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, सौदास पांचालमें, बृहद्रथ चेदिमें, विदूरथ



परन्तु वशिष्ठ गणके अन्तर कार्पूर गोत्र है और वशिष्ठ इन्द्रप्रमद आमरद्वसुही इनके त्रिप्रवर भी कुल पुरोहितोंके उपमन्यु गोत्रके समान ही हैं, इनके नाई भाठ आदि पम्बुओंके अनुसार ही माने जाते हैं, इस प्रश्नसे खत्रियोंकी उत्तम मध्यम अधम अनेक श्रेणी हैं और कहते हैं कि वामन जाई अर्थात् इनकी वामन श्रेणी है परन्तु जो विषय पुराणोंमें नहीं आता है उसको जन-श्रुति वा आधुनिक आधारपर लिखना पडता है । +

अरोडवंश ।

अरोडवंश भी अपनेको खत्री कहता है, उसकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि चन्द्रका पुत्र बुध, उसका पुरूरवा, उसका आयु, उसका नहुष, उसके वृति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, कृति यह पांच पुत्र हुए, ययातिके यदु, यदुके सहस्रजित्, सहस्रजित्के शतजित् उसके महाहय उसके धर्म उसके नेत्र उसके कुम्भित उसके सोहंयती उसके महिष्मान उसके भद्रसेनक उसके दुर्मद उसके कृतवीर्य उसके अर्जुन उसके ओडू नामक पुत्र हुआ है, इसके वंशके ही अरोड कहाते हैं । महाभारतमें ओडू देशका वर्णन इस प्रकार है ।

**पाण्ड्याश्च द्रविडाश्चैव सहिताश्चोड्केरलैः ॥**

सहदेवने दक्षिणदिशामें पाण्ड्य, द्रविड, उड और केरल देशको जीता, महाभारत शांति-पर्व अध्याय ४० श्लोक ६७-५४ तकमें लिखा है कि परशुरामके भयसे बहुतसे क्षत्रिय पलायन करके जहांतहां निवासकर अपनेको छिपाकर रहे थे, पृथिवीने उस समय कश्यपसे कहा—

सन्ति ब्रह्मन् मया गुप्ताः स्त्रीषु क्षत्रियपुंगवाः ।  
 हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां मुने ॥  
 अस्ति पौरवदायादो विदूरथसुतः प्रभो ।  
 ऋक्षैः संवर्द्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते ॥  
 तथा तु कम्पमानेन यज्वनाप्यमितौजसा ।  
 पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥  
 सर्वकर्माणि कुरुते शूद्रवत्तस्य स द्विजः ।  
 सर्वकर्मैत्यभिरुष्यातः स मां रक्षतु पार्थिवः ॥  
 शिवपुत्रो महातेजा गोपतिर्नाम नामतः ।  
 वने संवर्द्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां मुने ॥

× उपरल यह भी खत्री जातिका उपभेद है बारह कुलोंमेंसे एक यह है । कोचडे यह खौचड खत्री जातिका बिगडा हुआ शब्द है ।

प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः ।  
 वत्सैः संवर्द्धितो गोष्ठे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥  
 दधिवाहनपौत्रस्तु पुत्रो दिविरथस्य च ।  
 गुप्तः स गौतमेनासीद्गंगाकूलेऽभिरक्षितः ॥  
 बृहद्रथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः ।  
 गोलंगूळैर्महाभागः गृध्रकूटेऽभिरक्षितः ॥  
 मरुत्त्रस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।  
 मरुत्पतिसमा वीर्ये समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥  
 एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः ।  
 द्योकारहेमकारादिजातिमित्थं समाश्रिताः ॥  
 यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ।

जिससमय परशुरामने पृथिवीको निःक्षत्रिय किया तब कुछ राजवंशके धुरंधर वनको चलेगये, उस समय राजाहीन पृथिवी कश्यपसे कहनेलगी मैं राजाके बिना नष्ट हुई जाती हूं, मैंने स्त्रियोंमें बहुतसे राजवंश छिपा रखे हैं, हैहय वंशके क्षत्रिय स्त्रियोंमें छिपेहुए हैं पौरवंशके विदूरथका पुत्र रैबतक पर्वतमें है, इसी प्रकार महातेजस्वी पराशरने सौदासके वंशवालोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा करता है, इसकारण उसका नाम सर्वकर्मा पढगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति वनमें रहता है वह मेरी रक्षा करनेको समर्थ है, प्रतर्दनका पुत्र बछडोंके साथ वनमें निर्वाह करता है, गौतम ऋषिने दधिवाहनके पौत्र और दिविरथके पुत्रकी रक्षा की है, वह गंगाकिनारे निवास करते हैं, बहुत विभूतिवाले महाराज बृहद्रथ गृध्रकूटमें निवास करते हैं, मरुत राजाके वंशवाले इंद्रके समान पराक्रमी समुद्रके किनारे निवास करते हैं, यह क्षत्रिय वंशके धुरन्धर जहां तहां निवास करते हुए सुनार सौधकारादि जातियोंका आश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करै तो मैं स्थित रह सकती हूं ।

इन श्लोकोंको लेकर अरोडवंशी कहते हैं हममें भी बहुतसे सुनार आदि शिष्य कर्मका अनुष्ठान करते हैं, सिन्धमें अरोड लुहानेको कहते हैं, इससे विदित है कि परशुरामके समयसे वह लोग लोहकर्म करने लगे, आजतक इनका नाम लुहाना चला आता है, दूसरे इनमें यज्ञोपवीत होता चला आता है, दूसरे महाभारतके श्लोकोंसे पाया जाता है कि परशुरामके भयसे शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, वत्स गंगा और जमुनाके मध्यमें जा छिपे, पीछे उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, सौदास पांचालमें, बृहद्रथ चेदिमें, विदूरथ

ऋक्ष पर्वतमें और दधिवाहनका पौत्र तथा दिविरथका पुत्र अंगदेशके समीपमें छिपे. मरुतने अपने रक्षाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरण ली, और अर्जुनकी पांच गर्भवती स्त्रियों भी भागकर छिपीं, पर उनका यह नाम नहीं लिखा कहाँ छिपीं, परंतु इतना लिखा कि उनकी रक्षा स्त्रियोंने की, वह स्त्रियें पर्वतादिमें रक्षा न मानकर राजधानीके उत्तर तथा पश्चिमकी ओर चलीं और उस स्थानमें जिसके अन्तर्गत आजकालका सिन्धका इलाखा आजाता है निवास किया. जब धीरे धीरे परशुरामका भय जाता रहा, तब सब प्रकारसे देशकी रक्षा असंभव होनेसे स्त्रियोंने स्वयं राज्य किया, और वह उसी समयसे स्त्रीराज्य कहाता है, और भारतका परम गौरवका स्थान है कि पूर्वकालमें स्त्रियोंमें ऐसी बुद्धि थी वह कि वह स्वयं राज्यका शासन कर सकती थीं, बृहत्संहितामें स्त्रीराज्यका उल्लेख है।

**दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारपातालहलभद्राः ।**

**अश्मककुलूतलहडस्त्रीराज्यनृसिंहवनरवस्थाः ॥**

पश्चिम और उत्तरकी दिशामें अर्थात् वायव्य कोणमें माण्डव्य तुषार पातालहल भद्र अश्मक कुलूतलहड और स्त्रीराज्य आदि देश हैं, विदित होता है कि बहुतसे क्षत्रिय इस स्त्रीराज्यमें ही अपनेको छिपाकर शिल्पका काम करने लगे, और हेमकार द्योकार आदिकी जातियोंमें रहने लगे, और यह भी विदित होता है कि कुछ छिपे हुए क्षत्रिय या क्षत्रियोंके बालकोंकी रक्षा पराशर गौतमादि ऋषियोंने की थी, और सहस्रार्जुनके वंशज तो स्त्रीराज्यमें रहनेसे संस्कारहीन होकर उडू कहलाने लगे हैं ऐसा विदित होता है उडू-अनादरे धातुसे उडू बनता है लिखा है कि—

**शनकैश्च क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।**

**वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥**

**पौण्ड्रकाश्चौड्रद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।**

**पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खसाः ॥**

ज्ञैः २ संस्कारके लोप होजानेसे और ब्राह्मणोंका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिही शूद्रके समान होगई, इनके भेद पौंड्रक औड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन होगये, कितने किरात, दरद और खस कहाये। ऊपर कह आये हैं कि पृथिवीने जब कश्यपजीसे राजोंको बुलानेको कहा तब—

**ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान् समानीय कश्यपः ।**

**अभ्यषिञ्चन्महीपालान् क्षत्रियान् वीर्यसम्मतान् ॥**

तब पृथिवीके बताये पराक्रमी राजोंको बुलाकर कश्यपजीने उन महाबली राजोंको

फिर राज्योंमें अभिषिक्त किया, और वह हैहय कुलके ओडूभी अभिषिक्त हुए जैसा (संति ब्रह्मन् मया गुप्ताः) श्लोक पीछे लिख चुके हैं, खीराज्यके पूर्वभागमें ओडूदेश है ओडूनामके क्षत्रियोंके कारण यह देश भी ओडू कहाता है, यह हैहयवंशी ओडूकी कार्तवीर्यार्जुनके वंशधर हैं, इनका ओडू क्षत्रियवंशका ही नाम आजकल अरोड प्रसिद्ध होगया है, इनका राज बहुत कालतक रहा है, यह लोग सिन्ध तथा उसके आसपासके देशोंमें राज करते आये हैं; कुछ समयतक परशुरामके समयतक लोहकारका काम करते रहे, इससे लोहाने भी कहलाने लगे पर प्रसिद्ध नाम अरोडही रहा।

यहां हम थोडासा विचार आरम्भ करते हैं और उस विचारसे पाठकोंके आगे धरते हैं कि आजकल सैकड़ों जातियें अपनेको क्षत्रिय कहती हैं और सबका यही उपालम्भ है कि परशुरामजीके समयसे हमारी यह दशा बदल गई है, हम सजगारी होगये है, हम क्षत्रिय हैं हमारा यज्ञोपवीत कराओ इत्यादि। हमारा इस पर यह कहना है कि जो क्षत्रिय परशुरामके भयसे धुकार हेमकार आदि जातियोंमें छिपे थे तथा जो जंगलोंमें छिप गये थे, जब सब क्षत्रियोंके जातियोंको कश्यपजीने बुलालिया, और राज्यपर अभिषिक्त किया, तब उन २ के वर्गके सबही क्षत्रिय आगये होंगे, और अपना सत्त्व मिलतेही उन्होंने अपनेसे निकृष्ट कर्म वा आपद्धर्मको तत्काल त्याग दिया होगा, फिर वे क्योंकर धुकार हेमकार आदि जातिके अन्दर गिने जासकते हैं? ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अपना महत्त्व न चाहै, आज भी यदि कोई ब्राह्मण सुनारका काम करने लगे तो भी यह अपनेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सब ब्राह्मणोंमें ही होता है, परन्तु दूसरे क्षत्रिय बननेवालोंमें ऐसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है सुवर्णकारादिने परशुरामका भय छूट जानेपर भी अपना धर्म पालन न किया, और जब कि ब्राह्मणका संग छूट जानेसे क्षत्रिय जाति शूद्रवत् होगई, और लाखों वर्षसे व्रात्य होगई, और काम्बोज, शक, यवनादि उसके नाम पडगये तो फिर किस भीमांसासे झटिति वह अपने स्वरूपको प्राप्त हो सकती हैं, जब कि किरात दरद आदि आजतक भी संस्कृत न होसके, जाति दो प्रकारकी है एक जन्मसे, दूसरी वह वर्ण कोई और हो काम कोई दूसरा करनेसे, वह उसी जातिका बोला जाता है, जैसे हलवाई तम्बोली आदि, इसी प्रकार निर्णय करना चाहिये कि जन्मसे जाति क्या है, और यह स्वजातिका काम करता है वा अन्य जातिका, तथा कितने कालसे व्रात्यता है यह सब विचारकर वर्णोंकी व्यवस्था की जासकती है, पर हम इस समय देख रहे हैं लाखों वर्णोंके व्रात्य क्षत्रिय आदि धेलेके घीमें बन रहे हैं इससे देशका कल्याण नहीं है, एक प्रकारकी संकरता होती जाती है इस कारण सुद्ध परंपरायुक्त क्षत्रियताका निर्देश इस समयतक चला, आना नहां दीखे वही असलमें क्षत्रिय जानना और परम्परासे तो अब बिगडकर जो कुछके कुछ होगये हैं उनमें उसी श्रेणीपर पहुंचाना एक बड़ी कठिन बात है, और अब कि राज्य छुटेहुए

क्षत्रियही फिर कश्यपजीने सब अपने राज्योंपर स्थापन करदिये तो फिर यह रोजगारी कौन रहगये, सम्भव है कि यह असली रोजगारी क्षत्रिय हों, इसी प्रकार टांकवंशवाले अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, इनमें गोन्दे धीर भित्तु वेदी भले डोरवी कहाते हैं, कमसे इनके गोत्र कश्यप, कौशल्य, भरद्वाज, मार्कण्डेय रघुवंश और डौरवी हैं, यह भी परशुरामके भयसे टांकी देनेका काम करने लगे, और क्षत्रिय बताते हैं, परन्तु फिरभी प्रश्न यही उठता है परशुरामका भय निवृत्त होनेसे यह अपनी पूर्वदशाको प्राप्त क्यों नहीं हुए ।

जाति निर्णय इससमय बहुत कठिन काम होगया है यदि स्पष्टही किसीको जातिके विषयमें कुछ कहदिया जाय और उसमें किंचिन्मात्रभी उनके लिये कुछ न्यूनता आती हो तो बुरा माननेके सिवाय कोईकोई तो अदालत जानेको तयार होजाते हैं, खत्री जातिके विषयमें भी हम बहुतसा खंडन मंडन देखते हैं, वर्णविवेकचन्द्रिकामें लिखा है कि ब्रह्माजीकी जंघासे भलंदन नाम एक पुत्र हुआ उसकी स्त्री महत्वती थी, उसका पुत्र वत्सप्रीति उसका प्रांशु और प्रांशुके छः पुत्र हुए, मोद, प्रमोद, बाल, मोदन, प्रमर्दन और शंकुकर्ण इनमें प्रमर्दनके कोई पुत्र नहीं था, तब उसने शंकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका वर मांगा उस समय शंकरने तथास्तु कहा ।

### अग्निकुण्डात्समुद्भूतास्त्रयः पुत्राः सुधार्मिकाः । अग्रवालेति खत्री च रौनियारेति संज्ञकाः ॥

तब अग्निकुण्डसे धर्मात्मा तीन पुत्र हुए, उनके नाम अग्रवाल, खत्री और रौनियार हुए, इस प्रमाणसे इनका वैश्यवर्ण होना विदित होता है एक पुस्तकमें सरकारीरिपोर्टोंके प्रमाणसे खत्रियोंको क्षत्रिय नहीं माना है, हम उसका थोडासा उल्लेख यहां करते है, डाक्टर ल्यूकनेनकी रिपोर्ट पृ० ४५६ में लिखा है राजपूतोंको यहां और हरएक जगह सब जातियां खत्री कहती हैं यद्यपि यह अपनी उत्पत्ति अनेक प्रकारकी बतलाते हैं, परन्तु इनकी उत्पत्ति उन पुरुषोंसे नहीं है जो वेदोंमें ब्रह्माजीकी भुजाओंसे उत्पन्न हुए कहे गये हैं, रेवरेण्ड शेरिङ्गने खत्रियोंके विषयमें अच्छी तरह व्याख्या करनेमें असमर्थ होकर यह विचार किया है कि जातीय विचारसे इनकी उत्पत्तिका पता लगाना दुस्तर है, तशरीहडलअकवाममें खत्री-अर्थात् जो छः कर्म करता हो वह खत्री कहा है अर्थात्-तीन कर्मोंका सम्बन्ध पिता क्षत्रियसे और तीन कर्मोंका सम्बन्ध वैश्या मातासे है मिस्टर नैसफील्डने कहा है जो कि सन् १८६५ ईसवीकी मनुष्य गणनाकी रिपोर्ट है वह लिखते हैं कि एक सहस्र वर्ष बीते कि ठाकुर लोग अपने शत्रुओंसे परास्त हुए, उनकी स्त्रियोंने सारस्वत ब्राह्मणोंके यहां शरण ली, वे वहां रक्खी गईं, और उनके समागमसे जो पुत्र हुए, वह खत्री नामसे पुकारे गये, यह जाति ठाकुरोंसे पृथक् है सेनसेजरिपोर्ट १९६५ क्रोडपत्र सफा ३८ सन् १८६५ की रिपोर्टमें राजपूत पिता और वैश्या मातासे खत्री जातिकी उत्पत्ति लिखी है, तशरीहडलअकवाममें जो १८२५ में फारसी भाषामें लिखी गई है इस जातिको क्षत्रिय और

वैश्यके मेलजोलसे बना लिखा है, उसमें यह लिखा है कि खत्री जातिकी उत्पत्ति, यद्युत्सुसे है जो धृतराष्ट्रका दासीपुत्र था जिसकी मा वैश्य जातिकी थी, उसी ग्रन्थमें यह भी लिखा है असली सारस्वत ब्राह्मण खत्रियोंके स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नहीं करते, केवल खत्रियोंके पुरोहितही घनोपार्जनके लोभसे ऐसा करते हैं, इन पुरोहितोंके यज्ञोपवीत और मन्त्रग्रहणभी खत्रियोंके सदृश होते हैं, परन्तु असली सारस्वतोंका खानपान उनके साथ नहीं, उनके कृत्य इनसे पृथक् यथायोग्य होते हैं । जिस प्रकार रघुवंशी यदुवंशी आदि खत्रियोंके गोत्र पाये जाते हैं वैसे खत्रियोंके नहीं हैं । मिस्टर रिजलीने खत्रियोंके विषयमें लिखा है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वा क्षत्रियोंसे नहीं है नदियाके पंडित जगेन्द्रनाथ महाचार्य एम. ए. डी. एल इनकी उत्पत्ति ( क्षत्तः शूद्रपिता क्षत्रिया माता ) इसरूपसे मानते हैं तथा वे इनको वैश्यजातिरूप बताते हैं और इनका गौरव सैनिक रजपूतोंके सदृश नहीं मानते, रिजली साहवने इसको व्यापारवाली जाति लिखा है, डाक्टर ज्यूकेननने लिखा है कि विहारमें आधे खत्री सुनार पाये जाते हैं, इमाइ उलसदतमें इनको द्रवपदार्थ, लाल वस्त्र, ऊनी वस्त्र, छींट, जडी, बूट्टी, इत्र, घी, दाल, शहद, मोम, शकर इत्यादि बेचनेवाला लिखा है, मिस्टर किट्सनने लिखा है पञ्जाबमें खत्री व्यापारी हैं, ओर वम्बईमें हम उनको रेशमका कपडा बुनते हुए पाते हैं, एक महाशय कहते हैं क्षत्रियोंको आपत्कालसे भी दान लेना नहीं चाहिये, पर ग्रन्थसाहबका सब चढावा खत्रियोंके घरोंमें जाता है, जो कि अपनेको पुरोहित कहते हैं, वृद्धोंके मरनेपर स्त्रियां गाती बजाती और कभी अश्लील गीत भी गाती हैं, इसमें सारस्वत ब्राह्मणभी खत्रियोंमें संमिलित हैं, यह रीति इन्ही दो जातियोंमें पाई जाती है इसका धर्मशास्त्रमें अनुमोदन नहीं है, सन् १९०१ की मनुष्यगणनाकी रिपोर्टमें सुपरिंटेण्डेन्टने लिखा है कि मैं खत्रियोंको तीसरी कक्षामें रखता हूं परन्तु यह विचारणीय है कि संयुक्तप्रान्त और अवधके रजपूत इस बातको कहते हैं, कि उनमें और खत्रियोंमें कभी किसी कालमें भी सम्बन्ध नहीं था, तथा बहुतसे अग्रवाल वैश्य अपनेको खत्रियोंसे उच्च समझते हैं इत्यादि—

यूनानियोंने खत्री ओआई नामक एक जातिपर विचार किया है, यूनानी लेखकोंके अनुसार जो मनुष्य रावी और व्यास नदियोंकी मध्यभूमिमें वसते थे वे खत्री ओआई कहाते थे, इनकी राजधानी संगल थी । और एम किण्डिल लेखकने यह भी लिखा है कि खत्री ओआई नाम खत्रियोंका स्पष्टतया बोधक है, जो टालमीके अनुसार जिसके प्रयाण पर मिस्टर एम किण्डिलने उपर्युक्त वाक्य लिखा है, रावी और व्यास नदियोंके मध्यभूमिके राजा थे, यह देश इस जातिका असली घर था, इसके सिवाय वहां एक कथैया जाति ( कथाइयन ) रावी नदीके पूर्वी किनारेपर निवास करनेवाली बतायी है और इसमें क्षत्रियपनकी झलक पाई जाती है । उनकरने लिखा है सिकन्दरने खदिआ जातिको जिसको यूनानवाले कथे ओआई कहते हैं उनकी राजधानी सकल संगलमें पराजित किया था, जिसको

आजकल अमृतसर कहते हैं, प्रोफेसर एच. एच. विलसन प्राचीन लेखकोंकी वर्णन की हुई भारतवर्षीय जातियोंमेंसे कुछ जातियोंका पता यों बताते हैं, यह एक अद्भुत भौगोलिक क्रम है कि जिसमें एकही जाति हाइडास्पीजपर अथवा मोडचुरा या मथुरामें अथवा विन्ध्यके पहाड़ोंपर पाईजाय, टालमीकी वर्णन की हुई कास्पीरिआई जाति डामोडोरसकी वर्णन की हुई केथेरी जाति; और एरियनकी कथित केयर जाति जो मल्ली और ओक्सीडेसी अर्थात् मुलतान और कच्छनिवासी जातियोंके साथ संमिलित होकर सिकन्दरके विरुद्ध युद्ध करनेको उद्यत हुई थी या यों कहिये कि पश्चिमी भारतके क्षत्रिय वा राजपूत सब एक हैं, बहुतसे लोगोंका मत है कि एक ही प्रकारके नाम देश देशांतरोंमें विकृतरूप होगये हैं, और उसीसे लोगोंको अनेक प्रकारके भ्रम उपस्थित हुए हैं, इससे खत्री ओआई क्षत्रिय शब्दका यूनानी रूपान्तरमें अथवा अपभ्रंश होसकता है, एम क्रिण्डलने एक और जातिका वर्णन किया है, जिसको केट्रीवोनी केतृवति ( खत्रिवनिया ) का अपभ्रंश माना जासकता है यह लोग भी कदाचित् खत्रियोंके अन्तर्गत हों इत्यादि—

दूसरे देशोंके लोग इस प्रकारकी खोज अटकलके साथ लगाते हैं पर जबतक धर्मशास्त्रका प्रमाण न हो तबतक यह प्रमाण कोटिमें नहीं मानी जाती कि खत्री जातिको संस्कार कहा जाय, यदि अपभ्रंशको ही मुख्यता दी जाय खत्रीयक्षत्रिका अपभ्रंश क्यों न माना जाय ? हां एक बात निःसन्देह विचार करनेकी है कि असली क्षत्रियोंसे इनका संबंध अब नहीं है, और बहुतकालसे नहीं है, सो इसका उत्तर हम यही देसकते हैं कि यह जाति बहुत कालसे अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सत्त्वसे गिरगई जिस प्रकार और भी कितनीही जातियें अपने सत्त्वसे गिर गई हैं, इसी प्रकार जिन लोगोंने अपने पदसे गिरकर उसके फिर प्राप्त होनेकी इच्छा न की उनको खके स्थानके फिर क्ष नहीं मिला, वर्णविवेक चन्द्रिकामें अग्रवाल और खत्रीको अभिकुंडसे उत्पन्न तथा एक धाता माना है और वैश्य कोटीमें स्वीकार किया है पर अभिकुंडसे चार क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हम पीछेभी लिख आये हैं, सम्भव है कि खत्रियोंने कुछ तेज सम्बन्धी कर्म किये हों पर इसमें सन्देह नहीं कि खत्री जातिमें परम्परा यज्ञोपवीत चला आता है और प्रायः वैदिक संस्कार भी पाये जाते हैं कितनीही क्षत्रिय जाति वैश्य तथा इससे भी अधम कोटिको प्राप्त होगई हैं और कितनीही दूसरी जातियें अपना सत्त्व छोड गिरती जा रही हैं, इससे हमारी सम्मतिमें खत्री जाति असली क्षत्रियत्वसे अवश्यही रहित होगई, है, तथापि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षामें इसका परिगणन हो सकता है । हमारा विचार केवल इतना है, कि प्रत्येक जाति अपने असली स्वरूपसे परिचित हो जाय जिससे वे अपने पूर्वजोंका स्मरणकर उनकी गौरव गरिमासे संयुक्त हो देशका मुख उज्ज्वल करैं जिससे चारों वर्ण और चारों आश्रमोंकी मर्यादा अक्षुण्ण बनी रहै. ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डमें जो क्षत्रियोंकी जाति खत्री कहा है, उसका हेतु आगे लिखते हैं ।

ब्रह्मक्षत्रोत्पत्तिः ।

( ब्रा० उ० मा० )

इन्हीं दधीच ऋषिने परशुरामके भयसे क्षत्रिय कुलकी रक्षा की है सिन्धु देशमें नगर नाम क्षत्रियोंकी राजधानी थी, जब परशुरामजी क्षत्रियोंका विध्वंस करते २ उस नगरमें गये, तब वहांका सूर्यवंशी रत्नसेन राजा अपनी गर्भवती पांचों स्त्रियोंको लेकर ऋषिके शरण हुआ, ऋषिने उसको अपने आश्रममें गुप्तरूपसे रक्खा, वहां चन्द्रमुखी पद्मिनी, पद्मा, कुकुमारा, कुशावती इन पांचों स्त्रियोंके क्रमसे जयसेन, विन्दुमान्, विशाल, चन्द्रशाल और भरत ऐसे पांच पुत्र हुए, वे आश्रममें ऋषिपुत्रोंके साथ क्रीडा करने लगे एक समय राजा ऋषिकी आज्ञा उल्लंघनकर वनमें आखटको गया, वहां परशुरामके हाथसे उसका वध हुआ, यह समाचार पाय पांचों रानियां वहां गईं और राजाके साथ सती हो गईं, दधीच ऋषिने पांचों बालकोंका पालन किया, फिर एक समय परशुराम शंकित हो दधीचके आश्रममें आये और इन पांचों बालकोंको देखकर पूछा यह किसके हैं ऋषिने उनको ब्राह्मण बताया परशुराम बोले रूपसे तो यह क्षत्रिय विदित होते हैं, पर तुम ब्राह्मण बताते हो तो मध्याह्न सन्ध्या करके इनकी परीक्षा करूंगा, परशुरामके जाते ही ऋषिने उनको ब्रह्मत्व सूचक यज्ञोपवीत पहराया, और शिरपर हाथ धरके आशीर्वाद दिया कि तुम वेदज्ञ होंगे, परशुराम के आनेपर जब बालकोंने सांग वेद सुनाया, तब भी वह कहने लगे, हे दधीच ! यदि आप इनके साथ एक संग भोजन कर लें तब मेरी शंका दूर हो; तब ऋषिने कैलेका पत्ता मँगाय अंगुष्ठसे मर्यादाकी रेखा करके उनके संग एक पात्रमें भोजन किया, तब परशुराम प्रसन्न होकर बोले, इनमेंसे एक बड़े बालकको अपना शिष्य बनाने को लिये जाता हूं इसको सांग धनुर्वेद पढाऊंगा यह कहकर जयसेन ( जयशर्मा ) को लेगये, और गंडकीके किनारे कई वर्षतक उपदेश दिया, और बारहवें वर्षमें गंडकीमें स्नान कराय समस्त धनुर्वेद अस्त्र शस्त्रों सहित उपदेश करदिया पश्चात् एक वृक्षकी छायामें शिष्यकी गोदीमें शिर रख कर ऐसा कह सो गये कि यदि कोई मुझे जगावेगा तो उसे शाप दूंगा, इस कारण तुम धनुषपर बाण चढाकर बैठो, यह कह परशुरामजी सो गये इवर इन्द्रने विचारा कि यदि इस क्षत्रिय कुमारको शाप न हुआ तो यह त्रिलोकीको दग्ध करदेगा, तब इन्द्रने कीट बनकर उसकी जंघामें काटा जिससे रुधिरकी धारा चलने लगी तो भी कुमार नहीं डिगा, परन्तु वह गरम रुधिर परशुरामके कर्णमें लगा जिससे तत्काल उनकी निद्रा भंग हुई, तत्काल क्रोध करके बोले जयशर्मा तू ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मणका रुधिर ठंडा होता है तेस उष्ण है तू क्षत्रिय है सत्य कह तब जयशर्माने कहा—

ब्राह्मणत्वं दधीचेश्च क्षत्रियो विषयात्तव ।

ब्रह्मक्षत्रोऽस्म्यहं जातो यथेच्छसि तथा कुरु ॥



मैं दधीचसे तो ब्राह्मण हूं, और आपके उपदेशसे क्षत्रिय हूं इस कारण ब्रह्मक्षत्रिय हूं, अब जैसी इच्छा हो वैसा करो तब परशुरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु शिष्य समझकर मारा नहीं, और शाप दिया कि मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फल हो जायगी ।

### ब्रह्मक्षत्रियनाम्ना हि विचरस्व यथासुखम् ॥

तू संसारमें ब्रह्मक्षत्रिय नाम धारणकर सुखसे विचर, यह कह कर परशुरामजी तो महेन्द्र पर्वतपर चले गये, और जयसेन गौतमको साथ ले दधीचके आश्रममें आये, और सब वृत्तान्त सुनाया, और प्राण त्याग करनेको कहा, तब ऋषिने कहा व्याकुल मत हो तू एक पुरोहित बना उससे मन्त्र सिद्धि होगी, तब नृप कुमारने ऋषिको ही पुरोहित्य कर्म करनेको कहा तब ऋषि बोले-

मद्रंशजो द्विजः कश्चित् तद्दंशः क्षत्रनन्दनः ।  
तेऽन्योन्य तु गुरुत्वेऽपि तथैव यजमानके ॥  
कुर्वन्ति चेद्भिदा भेदं ते वै निरयगामिनः ।  
तद्दंशब्रह्मक्षत्रो वा तथा सारस्वताह्वकः ॥  
एकीकृत्य चरीष्यन्ति मद्वाक्यं नान्यथा भवेत् ।  
सारस्वतस्य वंशस्य पादपूजापरो यदि ॥  
भविष्यति च राजेन्द्र करिष्यामि गुरुव्रतम् ।

मेरे वंशका कोई भी ब्राह्मण और तेरे वंशका कोई भी क्षत्रिय हो यह परस्पर दोनों गुरुशिष्य भावसे रहें, भेद रक्खगे तो नरक होगा तेरे वंशके ब्रह्मक्षत्रिय और मेरे वंशके सारस्वत दधीच यह दोनों कभी मेरे वचनोंको उल्लंघन न करें. सारस्वतोंकी सदा पूजा करें तो मैं तेरा पुरोहित्य स्वीकार करता हूं राजाने कहा यह सब होगा जो मेरे वंशके तुमको न मानें उनका वंश क्षय होगा, तब ऋषिने प्रसन्न हो राजाको हिंगुला देवीका ( ओं हिंगुले परमहिंगुले अमृतरूपिणि तनु शक्ति मन शिवे श्रीहिंगुलायै नमः स्वाहा ) इस बत्तीस अक्षरवाले मंत्रका पांचों कुमारोंको उपदेश किया, बारह वर्षतक पांचों कुमारोंने हिंगुल क्षेत्रमें ऋषि सहित देवीकी तपस्या की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, परशुरामका शाप तो मिथ्या नहीं होगा, पर मैं तुमको अपना पुत्र करती हूं, तुम नम्र हो हाथमें फलपुष्पकी सुदृठी बांध मेरे अंगमें प्रवेश करजाओ, इसके प्रतापसे भाइयों सहित सहस्र वर्षपर्यन्त नगर स्थानका राज्य करो, पश्चात् मोक्ष होगा, ब्रह्मक्षत्रियका कर्म करते रहो, तुम्हारी कुलदेवी कुलमाता मैं हूंगी, प्रतिवर्ष नवरात्रोंमें मेरी पूजा करना, हवन और ब्राह्मणभोजन कराना, मधु पायस घृतादिसे मेरा संतोष करना मेरे मंत्रका अथर्वण ऋषि है, त्रिनेत्र चतु-

भुजका ध्यान करो, ऐसा करनेसे मैं प्रसन्न रहूंगी, मेरे आविर्भावके दिन शोक न करना, तुम्हारे उपरान्त दश राजा होंगे, पीछे निरस्त्र होकर भूमिमें विचरेंगे, उनकी आजीविकाके निमित्त विश्वकर्माको भेजूंगी, यह कह देवी अन्तर्धान हुई, जयसेनादिने वैसाही किया. पीछे नगरमें आय राज्य करनेलगे पीछे उनके पुत्रोंका वंश बढ़ा, छप्पन देशोंकी कन्या ग्रहण कीं पश्चात् म्लेच्छोंने उनका राज्य हरण किया, तब वे विदूरथादिक स्त्री पुत्रोंको लेकर आशापूर्णा देवीकी शरण गये, तपस्यासे प्रसन्न हो देवी बोली, परशुरामके शापसे तुमको अस्त्र विद्या नहीं फलैगी, मैं विश्वकर्माको बुलाती हूँ, वह तुम्हारे लिये उपाय कहेंगे, तब देवीके स्मरण करते ही विश्वकर्माजी आये, देवीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उनसे शस्त्रोंका पूजन कराय कहा, यह जाति ऋषि संसर्ग होनेसे मूर्धाभिषिक्त होगी, सब वेदोक्त कर्मका अधिकार होगा, हाथी घोड़े रत्नपरीक्षा सुवर्ण चांदीके नाना शिल्पोंसे इनकी आजीविका होगी, यह कह विश्वकर्मा स्वर्गको गये, और देवी भी अपनेमें भाव रखनेका उपदेश देकर स्वर्गको गई, पीछे यह जाति शिल्प व्यापार करती हुई अनेक देशोंमें फैल गई, सम्भव है कि यह ब्रह्म-क्षत्रिय जातिही इस समय खत्री नामसे प्रसिद्ध है कारण कि सब लक्षण मिलते हैं ।

जो जयसेन राजाके निमित्तसे ब्रह्मक्षत्रियोंकी उत्पत्ति कही गई है वे क्षत्रिय जाति गुर्जर सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं जो इस समय नासिक पूना आदि नगरोंमें महाराष्ट्र आदि संप्रदायोंमें दीखती हैं वे वहाँके भेद हैं. भागवतमें लिखा है वैवस्वत मनुके पांचवें पुत्र धृष्टसे धाष्टर्य-नाम क्षत्रियकुल उग्र तपस्यासे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नभगका पुत्र नाभाग, उसका अम्बरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसको जब कोई पुत्र न हुआ तब अंगिरासे अपनी भार्यामें राजाने पुत्र उत्पन्न कराये, वे क्षत्रोपेत आंगिरस कहाये, इत्यादि पुरुसे क्षेमकपर्यन्त भी वंश देवर्षि तुल्य हैं, जहां जिसका निकास हो वहांसे वह लेसकता है ।

[ ब्रा० उ० मार्तण्डसे ]

इति ब्रह्मक्षत्रियवंशः ।

लवाणाक्षत्रियजाति ।

महाराज सबके वंशमेंही राठौर हैं यह सब सूर्यवंशी हैं, रत्नदेवी नाम इनकी कुलदेवी है, एक समय कन्नौजके राजा जयचन्द्रकी आज्ञामें जोधपुर था, उसके अधिकारमें वहां चौरासी जागीरदार थे, इनका एक समय राजासे विरोध होगया, तब राजाने उनके वधकी इच्छा की, तब दुर्गादत्त नामक एक सारस्वत ब्राह्मण दसौदी ( धनका दसवां हिस्सा लेनेवाला ) जो राजाका बड़ा पूज्य था उसने जाके राजाका क्रोध शांत किया, राजाने कहा अभी तो नहीं पर छः महीने पीछे सरदारोंको मारूंगा, यह कहकर उनकी जागीरों अधिकारमें करलीं, परन्तु दुर्गादत्तजीने फिर भी उनसे क्रोध शांतिके लिये प्रार्थना की तब राजाने

क्रोधित हो पंडितजीको अपने यहां आनेका निषेध करदिया, तब इन सरदारोंने दुर्गादत्त-जीका बड़ा सन्मान किया, और कहा कि कोई चिन्ता नहीं, हममेंसे जो कोई राजपर बैठेगा वहीं आपको अपना दसवां भाग देगा, आप हमारे कुलपूज्य हुए, यह कहकर सहायता न पानेके कारण वे सरदार सिन्धु देशमें चले गये, छः महीनेमें आठ दिन रहनेसे राजाने उस देशपर चढ़ाई की, तब दुर्गादत्तने उन क्षत्रियोंसे कहा तुम सब सागरकी उपासना करो, और आप भी अन्नजल छोड़ सागरकी उपासना करने लगे, तीन दिन पीछे समुद्रने दर्शन देकर वर मांगनेको कहा, तब सागरसे दुर्गादत्तने यजमानोंका अभय मांगा, सागरने कहा यहांसे एक कोशके अन्तरपर तुमको लोहेका गढ दीखेगा, उसमें जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह गढ २१ दिन रहेगा पीछे गुप्त होजायगा, परन्तु इक्कीस दिनसे प्रथम उसमेंसे निकल जाना. लोहेके किलेमें वास करनेसे तुम्हारा नाम लोहावास होगा ( उसीका त्रिगडकर लोवाणे हुआ है ) तुम्हारी जातिका कुलदेव मैं हूंगा, अबतक लावाणे नदीमें इष्टदेवकी पूजा करते हैं, वे सब सरदार दुर्गादत्तके सहित किलेमें रहे, राजाने दसदिन किला घेरा, जब न टूटा तब लौट गया, यह सरदार अठारह दिनके पीछे किलेसे निकल आये, और वहां एक बड़ा गांव बसाया वह लोवाणोंका निवास स्थान है पीछे उनकी सन्तानें बहुत हुई, दुर्गादत्तजीकी आज्ञासे अपना वर्ग छोड़कर विवाह करना आरम्भ किया ( चौरासी सरदारने मुख चौरासी नाम । अपना वर्ग तजि करो व्याहको काम ) दुर्गादत्तके वचनोंसे उन्होंने वैसाही किया, उन सरदारोंके साथ जो सारस्वत ब्राह्मण आये थे उनके ९६ छद्मानवें पुत्र अर्थात् वर्ग थे, सो विवाहमें आचार्य दक्षिणाके निमित्त परस्पर कलह आरम्भ होने लगा कारण कि इनके छद्मानवें वर्ग थे और सरदारोंके ८४ इस कारण बखेडा बड़ा, इसप्रकार देखकर दुर्गादत्तने ८४ वर्गोंको चौरासी सरदारोंके वर्ग दिये, और बारह वर्गोंको एक एक लक्ष देखकर प्रसन्न किया, वे रुपया लेकर दूसरे देशोंको चले गये, तबसे आजतक इनमें सारस्वतोंका मान चलता है, दुर्गादत्तके वंशके पुरुष दशौदी, अजाजी और वागेट इन तीन नामोंसे विख्यात हैं, यह लेख हिंगुलाद्रि खण्डमें है ।

[ ब्रा० उ० मा० ]

इस प्रकारसे अनेक नामधारी जाति हैं, परंतु जो क्षत्रिय वंशकी यथार्थ जागृति है उससे वे बहुत दूर हैं, क्षत्रिय वंश बहुत रूपोंमें विभक्त है, एक वंश जिसको घटोत्कच ( घरुक ) वंश कहते हैं यह भीमसेनके पुत्र घटोत्कचसे चला है, विजय मुक्तावलीमें घटो-त्कचका नाम घरुका लिखा है यथा—

रहत कितेदिन जब भयो, तू काननके धाम ।

पुत्र हिडिम्बीके भयो, घन्यो घरुका नाम ॥

इस घटोत्कच वंशको भीमसेनके द्वारा होनेसे क्षत्रियत्व कहा गया है । स्कन्दपुराणके

माहेश्वर खंडके अध्याय साठमें घटोत्कचने श्रीकृष्णसे अपने वर्णधर्मके विषयमें पूछा तब श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि—

तद्भवान् क्षत्रियकुले जातोऽसि कुरु तच्छृणु ।  
बलं साधय पूर्वं त्वमतुलं तेन शिक्षय ॥२३॥  
तद्भवान्बलप्राप्त्यर्थं देव्याराधनमाचर ॥ २५ ॥  
नमस्कारेण मंत्रेण पञ्च यज्ञान्न हापयेत् ॥ २२ ॥

हे कुरु ! तुम क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुए हो, इससे तुम पहले बलकी साधना करो, देवीकी आराधना करो, नमस्कार मंत्रसे ( यथा पुष्पं समर्पयामि नमः ) पढकर पूजा किया करो और पञ्च यज्ञको किसी प्रकार न त्याग करो, इसने देवीका आराधना किया, इसका पुत्र अन्ननपर्वा हुआ, जैसा भारतमें लिखा है—

घटोत्कचसुतः श्रीमान् भिन्नाञ्जनचयोपमः ।  
ववर्षाञ्जनपर्वा स द्रुमवर्षं नभस्तलात् ॥

इस वंशवालोंके नामान्तमें सेन शब्द रहता है ।

इति धरुकवंश ।

गढवाली राजपूत ।

इनके भी तीन भेद हैं। पहली कक्षा, [दूसरी कक्षा और तीसरे खस इनमें खस क्षत्रियोंके साथ पहलोंका दूसरोंका व्यवहार नहीं है । प्रथम कक्षाके राजपूतोंको लिखते हैं ।

१ वर्थवाल—यह धारानगर उज्जैनके पंवार राजपूतोंकी नसलसे हैं, यह राजा कनकपालके साथ गढवालमें आये थे और यह स्थान वर्थ टोला नागपुरमें निवास करनेसे वर्थवाल कहाये और उस समय यह अनेक ग्रामोंके हलकेदार थे और वह स्थान वर्थवाल स्यून कहाता है, इस वंशके बहुतसे लोग थोकदार हैं ।

२ असवाल—यह चौहानवंशी हैं, दिल्लीके निकट रनथावो स्थानसे इनका निकास है, वह इस्वी ७०० में कनकपालके साथ गढवालमें आये, यह पूर्वमें अपनेको नागवंशी कहते थे, और नागर ग्रामके निवासी थे, गढवालका स्थान अब यही असवाल सियून कहाता है, उसीसे इनका नाम भी यही हुआ, यह सिलाकी पट्टीमें थोकदार हैं ।

३ साजवान—यह साहाजू राजपूतके वंशधर हैं, राजा कनकपालके साथ दक्षिणसे आये थे और अब थोकदार हैं ।

४ सीकवान—यह चौहानवंशी राजा कनकपालके समय उज्जैनसे आये, और झिंकवाल सियूनमें बसे ।

- ५ पुदयार विष्ट—यह भोजवंशी पहले कमायूंमें रहते थे, और पीछे ६०० वर्षसे गढवालमें बसे।
- ६ कुवार—यह पवार जातिके राजपूत हैं राजा कनकपाल इनको अपने साथ लाये, और इनको अधिपति रूपसे जागीरें दीं, इनमें अब भी बहुतसे थोकदार हैं।
- ७ रौतेला—यह भी पवार जातिके क्षत्रिय हैं, यह भी गढवालमें आनकर वसे और १४०० सौ वर्ष धारानगर छोड़े हुए बताते हैं, इनकी थोकदारीमें बहुतसे पर्वतीस्थान हैं।
- ८ वूतोला रावत—यह दिल्लीके तुवार वंशसे हैं, जो अपनेको रघुवंशी कहते हैं, वे गढवालमें ११०० ग्यारहसौ वर्षसे अपना आगमन बताते हैं, और परगना घुधानमें थोकदार हैं।
- ९ रौथान—यह अपनेको राजा तुवारके वंशधर कहते हैं, जिसका आधिपत्य गढवालके कुछ भागमें हो गया था, वह गुसाईं कहाते हैं, ओर इनकी थोकदारी भी है।
- १० इदवाल विष्ट—इनका बडा सभूह इलका या पट्टी इदवाल भूममें निवास करता है, पर इनको अपना वृत्तान्त विदित नहीं।
- ११ काफल विष्ट—यह जाति काफोल सिऊनकी पट्टीमें समूह सहित निवास करती है, कहांसे आये हैं इस बातको यह नहीं जानते।
- १२ वागदगल विष्ट—यह भी अपना वृत्तान्त नहीं जानते।
- १३ कन्दारी गुसाईं—यह अपनेको चन्द्रवंशी राजा जनमेजयके वंशधर कहते हैं, और पूर्वपुरुष कन्दारी उपदेव बताते हैं और १५०० वर्ष हुए दिल्ली प्रान्तसे इधर आया कहते हैं, और थोकदार भी हैं।
- १४ वंगारी राउत—यह २०० वर्ष हुए कमायूंसे आना बताते हैं, और पूर्वनिवास कमायूंके कटघूरा स्थानमें था अब यह पट्टीवंगर सिऊनमें रहते हैं थोकदार हैं।
- १५ रिंगवारा राउत—यह ५०० वर्ष हुए कमायूंसे गढवालमें गये, यह कटघारा राजाके वंशधर अपनेको कहते हैं और रिंगवाडी ग्राममें रहते थे रिंगवारा रावत कहाये, अब भी यह इस ग्रामके थोकदार और मालिक कहाते हैं।
- १६ गोरला रावत—यह पवार राजपूत ११०० वर्ष हुए धारानगरसे आये थे, यह बहुतसे ग्रामोंके अधिपति हैं, गोरली मांडीसिऊनके निवासके कारण यह गौरला कहाये।
- १७ फर्सवान—यह अब समस्त गढवालमें फैले हुए पाये जाते हैं, सूर्यवंशी जातिके राजाके समयके हैं, पहले यह दोतीनैपाल और पीछे गढवालमें आये, इनको आये हुए १५०० वर्ष बीते हैं।
- १८ नरवानी रावत—यद्यपि यह प्रथम कक्षाके राजपूत हैं, पर इनका वृत्तान्त विदित नहीं।
- १९ तरयालठाकुर—इनका निवास स्थान तरयाल सन कहाता है, इस समय पट्टी वनीवाल सूनमें भी हैं और वृत्तान्त अविदित है।

२० प्यालठाकुर—यह विशेषकर पट्टी प्याल सूनमें रहते हैं अब यह पट्टी तोला उदयपुरमें संमिलित हैं, यह अपनेको अर्जुनका वंशधर कहते हैं, दिल्लीके पंवारोंके भी वंशधर कहाते हैं ।

२१ वागरी नेगी या पूंडरनेगी—कहा जाता है कि यह वाढगसे आये हैं, और पहले मायापुर हरद्वारमें स्थित हुए थे, पीछे रामसिंह और दीपसिंह राजाके समीप आकर गढवालमें रहे, नेगीके अर्थ नीर है ।

२२ कालाभंडारी—यह भी दिल्लीके पंवार कहे जाते हैं, सत्यजैतिह और मीरमाधोसिंह कोई सातसौ वर्ष हुए काली कमायूंमें बसे, और कोई ४०० वर्ष हुए गढवालमें जाकर बसे, यह राजाके कोषाध्यक्ष वा भंडारी कहाते हैं, यह सूर्यवंशी राजाके समय गये थे ।

२३ माइया—यह भी सोलर वंशीय हैं, रामसिंह, वामासिंह, केसरसिंह, दीपसिंह और रामचंद्र यह पांचों भाई सुकेतसे कोई ३०० वर्षके लगभग हुए आकर बसे थे, और वहांके राजाके मिलिटरी महकमें अधिकारी रहे ।

२४ चन्दे—यह पुराने राजा सूर्यवंशके वंशधर कमायूं निवासी हैं, इस वंशके गुरु, ज्ञानचन्द चम्पावत वंशके थे, गढवालमें कोई २०० वर्षसे आये हैं ।

२५ मानरवाल—सूर्यवंशीय राजा कटघौरा जो कमायूंका शासक था, उस समय दो परिवार ब्रह्मदेव और कल्याणसिंह कमायूंके मानून गांवमें बसे, और मानरवाल कहाये, वैजबहादुर और खड्गसिंह कोई २०० सौ वर्ष हुए कमायूंसे गढवालमें बसे हैं ।

२६ शामोला वा छामोला विष्ट—यह उज्जैनके पवार कोई छः६०० सौ वर्षसे गढवालमें बसे हैं इस परिवारका एक जन साद्ववाज चांदपुरके शामोला ग्राममें बसा, उसीके नामपर यह जातिका नाम हुआ, बहुतसे पुरुष बहुतसे गांवोंका थोकदार हैं, जो लंगर और उदयपुर प्रांतमें हैं ।

२७ मूना नेगी—कहा जाता है कोई छः सौ ६०० वर्ष यह पटनेसे आये हैं, यह उस समय मगधदेशके राजाकी सन्ततिमें थे, पहले यह कमायूंमें बसे और २०० वर्ष हुए कि गढवालमें जाकर बसे हैं, इस वंशमें शिवचन्द, भूपचन्द, शिरवंकराज, वागीचन्द, जलामठाकुर नेगी पद पाये हुए हैं, जो अपने राजाओंके समयमें विख्यात थे ।

अब दूसरी कक्षाके राजपूतोंको लिखते हैं ।

१ कुन्तीनेगी—इस जातिके लोग नगरकोट पंजाबसे आकर गढवालमें बसे, जिसे कोई नौसे वर्ष हुए, वह कहते हैं कि वह पूरनसिंह और करनसिंहकी पट्टीके रहनेवाले हैं, कुछ लोग इस जातिके घूगीपट्टी और वोजलोटमें रहते हैं, जहांके यह मालिक और थोकदार हैं, इनका पद भी नेगी है, कारण कि यह पुराने राजाके यहां सेनामें स्थित थे, और इस गढवाल जिलेके चौथाई भागमें जो खोनतीके नामसे उनको दिया गया था रहते हैं ।

२ सिपाही नेगी—कहा जाता है कि २०० वर्ष बीते हैं कि पंजाब कोगडे जिलेके दोमीचन्द और धानदामोदर दो जने यहांके राजाके यहां सैनिक काममें नौकर हुए और नेगी पद मिला ।

३ महार—कहा जाता है कि यह अहीर नंदमहरकी सन्तानमेंसे हैं, यह पहले कोटलीगढ कमायूंमें बसे और कोई ४०० वर्ष हुए गढवालमें बसे और तेजराज हेमराज और सिल्लमहर यह तीन जने गढवालमें आये । इस जातिके बहुतसे लोग विचले उदयपुरमें रहते हैं, इस जातिके बच्चे बालकपनसेही तर्कवादी होते हैं और हुज्जत किया करते हैं ।

४ वेदी खत्री—इस जातिके लोग भी नेगी कहाते हैं और राजाके यहां सेनाके कार्यमें भरती हुए, इस समय यह सिंहनेगी कहाते हैं, दोसौ वर्ष हुए शोनमल, राजमल और दयालसिंह पंजाबके नन्दपुरके मखवालसे गढवालमें आये थे, जिस समय कि गुरु गोविन्दसिंह नानक शाहका मत प्रचार कर रहे थे, उस समय गये हैं, यह सोलर जातिके हैं ।

५ सांगेला नेगी—यह जाट वंशके पुरुष हैं, और कोई दोसौ २०० वर्ष हुए कि सहा-रनपुरसे टिहरी रियानतमें बसे थे और वहांसे ब्रिटिश गढवालमें आये ।

६ खाती—कोई तीन सौ वर्ष हुए कि यह जाति कमाऊंकी सिल्लौर पट्टीमें आकर बसी, यह आगरा प्रान्तके लुवार वंशमें अपनेको कहते हैं, जैराज केसरसिंह छैलू यह तीन पुरुष गढवालमें आकर बसे थे,

७ भूलानी विष्ट—यह अपनेको धारानगरके पंवार कहते हैं, और कमायूंमें आकर यह कत्यूरा कहाये, इस वंशके मोहनसिंह रावत कोई ५०० वर्ष हुए कमायूंसे जाकर गढवालमें बसे थे ।

८ खरकोला नेगी—सूर्यवंशी जातिके काटचूरा राजाकी जातिमें अपनेको यह बताते हैं, इस वंशके एक पुरुष सिंहदमन कोई ८०० आठसौ वर्ष हुए कमायूंसे आकर खरकोली बादलपुरमें आन कर बसा और वहाँके कई ग्रामोंका थोकदार हुआ, यह यज्ञोपवीत नहीं पहरते ।

९ कोलयाल नेगी—यह भी कमाऊंसे गढवालमें आये हैं, इस वंशका सांगदेव नाम एक पुरुष तीनसौ वर्ष हुए वचन सियूनकी पट्टीकोलिमें आनकर बसा था, इस वंशके एक वंश-धर पांच या छः ग्रामके थोकदार हैं, जहां वह अपना भूस्वामित्व रखते हैं ।

१० राना—दोसौ वर्ष हुए यह पंजाबसे चलकर यहां बसे हैं, यह सूर्यवंशी राजाके यहां अधिकारी थे, जो पहले नागवंशी कहाता था, रवान और व्रतपाल यह दो भाई यहां आनकर पहले बसे थे ।

११ रिखोला नेगी—यह पंवार राजपूतोंके वंशधर हैं, कोई ४०० वर्ष हुए भावसिंह और लई इस वंशके यहां बसे थे, इनकी थोकदारीमें कितनेही ग्राम हैं ।

१२ महता—इस जातिके पुरुष ब्रजपाल महताके वंशधर हैं, जो सहारनपुरके महता कोटसे कोई २०० वर्ष हुए यहां आकर बसे, कितनेक गांव इनकी हिस्सेदारी और थोकदारीमें हैं ।

१३ तिलाविष्ट—यह शेषराज और कामराजके वंशधर हैं, जो कि तीनसौ ३०० वर्ष हुए चित्तौरगढसे गढवालमें आये थे ।

१४ मयाल राजपूत—सूर्यवंशी देवराज और मुहराजके वंशधर हैं यह अवधसे कमायूके खैरागढमें आये, और कोई ३०० वर्ष हुए गढवालमें आये यह चौदकोटक मेल्हाई ग्राममें बसनेके कारण मयाल कहाये ।

१५ सौतयाल नेगी—चन्द्रवंशी कीर्तिचन्द्र और भारचन्दके वंशधर सौतयाल कहाते हैं, कोई ६०० वर्ष हुए यह नैपाल दोतीसे चलकर गढवालमें बसे, यह सौती ग्राममें बसनेसे सौतयाल कहाये, पैनोकी पट्टीमें यह थोकदार और अधिपति हैं ।

१६—१७ जसधोरा और गुदोरा—इस वंशके पुरुष अपनेको चन्द्रवंशी राजा जनमेजयके वंशधर कहते हैं, इस वंशके यशदेव और गुरुदेव दिल्लीसे गढवालमें कोई एक सहस्र वर्ष हुए आये थे इस प्रान्तके कितने ही ग्राम इनकी थोकदारीमें हैं ।

१८ कट्योरा—सूर्यवंशी कट्योरा राजाके वंशमें यह अपनेको कहते हैं, और कमायूके खैरागढसे तीनसौ वर्ष हुए अपनेको गढवालमें आया कहते हैं, उनकी थोकदारीमें अधिकारसे ग्राम हैं ।

१९ चिन्तोला राजपूत—यह सूर्यवंशी राजाके वंशधर अपनेको कहते हैं, जो पांचसौ वर्ष हुए चित्तौरसे गढवालमें आये, और इस देशके राजाके यहां सेना विभागमें स्थित हुए ।

२० मोधारा रावत—यह अपनेको दिल्लीके जगदेव संवारके वंशज कहते हैं और कोई ४०० चार सौ वर्ष हुए दिल्लीसे गढवालमें आये, और सैनिक विभागमें प्रविष्ट होकर रावत पदसे सुशोभित हुए, और मोधारी गांवमें निवास करनेके कारण मोधारा राजपूत कहाये, इनके समूहका ग्राम मोधारस्यून कहाता है ।

२१ दंगवाल—कहा जाता है इस जातिके लोग कट्योरा सूर्यवंशी राजाकी जातिके हैं और गढवालमें कोई ४०० वर्षके लगभग हुए आये हैं, यह दांग गांव गुरार सियूनमें हैं, जहां धामसिंह सबसे पहले आनकर बसे थे ।

२२ खन्दवरी नेगी—इस जातिके लोग गढवालके राजाके यह मायापुर हरद्वारसे गये थे, और छःसौ ६०० वर्ष हुए सेना विभागमें नौकर हुए, और खंदोरावास, कासलीली, बिचले, उदैपुरमें आकर बसे थे ।

२३ तुलसारा—कहा जाता है कि सूर्यवंशी कत्योरा राजाके वंशके यह लोग हैं, कोई सातसौ वर्ष हुए यह कमायूमें आनकर बसे थे इनका मुख्य पुरुष वाघसिंहजी गढवालमें गये थे ।



२४ मैनकोली राजपूत--यह नरपतिके वंशधर हैं और कोई ३०० सौ वर्ष हुए मैनपुरीसे आकर यहां बसे हैं ।

२५ संगेला विष्ट } इस जातिके लोग गुजराती ब्राह्मण स्वरूप विष्टके वंशधर हैं जो  
२६ संगेला नेगी } कि ६०० वर्ष हुए गढवालसे यहां आये हुए हैं, यह भी अपनेको सैनिक विभागमें भरती कराकर विख्यातनाम हुए हैं ।

२७ कलसयाल राजपूत--यह एक सूर्यवंशी राजा, शक्तिपालके वंशधर हैं, जो ४०० वर्ष हुए अवधसे आनकर यहां बसे हैं ।

२८ दोरचाल राजपूत--यह एक सूर्यवंशी चौरम्बल राजपूतके वंशधर हैं, जो कि दोराहाट कमायूंसे कोई ६० वर्ष हुए आये हैं, यह बहुतसे ग्रामोंके थोकदार हैं ।

२९ मनयारी रावत--इस जातिके लोग दिल्ली प्रान्तकी तुवार जातिके हैं, प्रवीन और नातागोत यह कोई छः सौ वर्ष हुए गढवालमें आये और राजाके यहां सैनिक विभागमें भरती हुए, यह अब भी इन ग्रामोंमें सिपाही रूपसे स्थित हैं, और इन्हींके नामसे वह गांव पट्टीमनयारस्यून कहाता है ।

३० गगवारी राजपूत--यह गढवाली राजाके वंशधर हैं, बहुतसे गांव इनके हैं, इन्हींके नामसे वह स्थान पट्टी गगरस्यून कहाता है, इस जातिके बहुत थोड़े राजपूत ब्रिटिश गढवालमें पाये जाते हैं ।

३१ मालेती राजपूत--यह अपनेको रानावंशी कहते हैं, कोई ४०० वर्ष हुए गढवालमें बसे हैं ।

३२ मसोलया रावत--यह वागदेव और शिवदेव पवारके वंशधर हैं, यह पांचसौ वर्ष हुए धारानगरसे आये हैं, इनकी थोकदारीमें अनेक ग्राम हैं, और इरिया कोटकी पट्टीके अधिकारी हैं ।

३३ धायारा विष्ट--चौहानवंशी हीरानामकी यह सन्तान हैं, यह कोई ८०० वर्ष हुए दिल्लीसे इधर आये हैं, इराकोटकी पट्टीमें बहुतसे इस वंशके थोकदार हैं, और पैनोंकी पट्टीका ध्यार गांव इन्हींके नामसे विख्यात है ।

३४ जसकोटी राजपूत--यह वोंगा थेलरके वंशधर हैं, जो कि सहारनपुरके जिलेके पंडरकोट स्थानसे ४०० वर्ष हुए यहां गढवालमें आकर बसे थे और पायनोकी पट्टी जसकोटमें आके प्रथम निवास किया ।

३५ गावीना राजपूत--यह दिल्लीके पंवार हैं, और धामसिंहकी सन्तान हैं और ५०० वर्ष हुए गवीनीगढ चौकोटमें आनकर बसे और गवीना कहाये ।

३६ पटवाल राजपूत--यह प्रयागके समीप पातागढके रहनेवाले हैं, कोई दोसौ २०० वर्ष हुए दीवानसिंह भावसिंह कुमर गढवालमें आनकर बसे थे, इनके निवास स्थानका नाम पट्टी वतवालस्यून हैं ।

३७ कथैत राजपूत—यह अपनेको वीर विक्रमादित्य नागवंशी राजाका वंशधर कहते हैं ।  
 ३८ खाती नेगी—यह लोग जन्मसे आये हैं, और ५०० वर्ष हुए कमायूमें बसे और ३०० वर्षसे गढवालमें बसे हैं, और ये अपनेको अपने पूर्व देशके राजाका वंशधर कहते हैं ।  
 तीसरी कक्षाके जो खसराजपूत्र वा खसीया कहते हैं वे नीचे लिखे जाते हैं ।

बुंगेली, पानीसी, कन्यूरी, लखनबारा, कूमाल, संकरयारिस्तीवाल, डूंगरयाल, साकूलसिया, गवारी, खवस्या, चामकोटिया, विदवल, माल्नी, डिगोला, कोनैटी, मुरसल, धुलेखी, रोलयाल; खेतवाल, भिलगवाल, रायकवाल, पिवाल्टा, भाटकील, कातीला, म्याल, सीसल, गुलेरी, कोरला, धूरिया, सिलवाल, चोरयाल, मटकाल, मलियाल, कारंगो, सुनाई, दानू, लखतारी, माखूदी, जेठा, शिकपाल, सोपाल, मंगाली, कनासी, दारा, पैलो, धरियाल, नवासी; मदिद्या, भोगू, रैता, कनयोगी, किरमीलिया, कुरंगा, धपोला, ऐकचौदया ऐकरौतया, खूनतारी, कारकी, सारकी, धेकवान्, चाकर, ध्योरा, सरयाल, वावलयाल, सुतार; वासती, कपरयाल, म्ही, वगदीवान्, खोरान, लंकवान्, रानैटा, वोरा, सेठी, नायक, भूरसुंडा, मूसानी, पाजाई, सेलाभावकीला, सामेर, सिलभंडारी, चारतोला, संतपाल, वागलाना, सिलौनी, डोगरा, दालासी, सेलाभावकीला, सामेर, सिलभंडारी, चारतोला, सन्तपाल, वागलाना, सिलौनी, डोगरा दालासी मांडेसा, जवारो, मूढयापी, थापल, याल, ओझयारा, मांसोलाया, कुकूलयाल, कुरलयाल, मोखयाल, पेलोरा, ज्योरा, रव्योसाली, खंससी, कोटयाल, भैरवाल, जयथवाल, चमोली, कोरसाला, कोलसयाल, खाली, भंगवास, धामवान्, कोराला, नेगी, अयरवाल, सिलवाल, मतकोला, भाजवान्, सारेन, कोला, दालौनी, मैचकोली, तेला, मासैटो, रामोला, क्यारा, मदवा, पुसोला, भोलगाडा, कोरियाला तथा और भी बहुत सी जातियें हैं, यह अपने गढवाल निवासका कुछ भी वृत्तान्त नहीं जानते ।

#### वैश्यजाति ।

अग्रवाल, सरावगी, खत्री, धानपुरके चौधरी, पोखरी, भेलहा आदि कोई दो सौ वर्षसे गढवालमें आये हैं, यह वैश्य जाति हैं ।

#### संन्यासी आदि ।

गिरि, पुरी, रावल, नाथ, वन, भारती, आश्रम, खनतार, गुदार, जंगम, आराध्य, सरस्वती, स्वामी, तिरह, आरण्य, यह लोग संन्यासी और पुजारी भी हैं इनमें रावल आदि कई एक अन्य कार्य भी करते हैं ।

#### गुरुसिख वा डोमजोगी ।

इनमें डोम संज्ञक जाति बाह्य है, यह अपनेको गुरु नानकजीका अनुयायी कहते हैं, और विथ कहते हैं एक इनमेंसे ५० वर्षके लगभग हुए पञ्जाबसे आया था और बहुतसे डोमोंको शिष्य बनाया, जब वे शिष्य बन गये तब उन्होंने फिर पहले डोमोंके हाथके जल ग्रहण नहीं किया, वे लोग दयालो कहाते हैं, उनके निवास या मठ मानजी वा मनजी कहाते हैं ।

विश्रौई ।

यह भी कुछ दिनोंसे गढवालमें चले गये हैं, और विजनौरसे गये हैं यह किसी भी हिन्दू जातिसे कोई सम्पर्क नहीं रखते ।

भोटिया ।

भोटिया जातिके दो भेद हैं, तालचा और मारचा यह गढवालके निती तथा दूसरे उत्तरी विभागोंमें रहते हैं, यह अपनी कन्या चाहे अपने वर्गसे निष्कृष्ट वर्गमें दें, परन्तु कभी अपनेसे निष्कृष्ट वर्गकी कन्या नहीं लेते, यह दोनों प्रकारके भोटिये अपनेको राजपूत कहते हैं, परन्तु मारचा तिब्बतके हैं ।

डोग ।

यह एक जाति इस प्रान्तमें निवास करती है, और सब ग्रामोंमें दो चार निवास करते हैं, यह वीथ भी कहाते हैं, इनका कोई मुख्य कार्य नहीं है, न यह इस बातको मानते हैं कि वे कहींसे आकर यहां बसे हैं, अपने वर्गके नामसे अपनेको अभिहित करते और हिन्दू धर्मावलंबी हैं, यह लोग इस देशके आदिम निवासी कहे जा सकते हैं ।

कुमायूँके क्षत्रिय ।

राजवंश—कत्यूरी राजा पूर्वकालमें यहां बंश जातियोंको जीतकर स्थापित हुआ, मनरवाल, रजवार इत्यादि इस कुलमें हैं दरबार अस्कोटके रजवार इस कुलमें मुख्य हैं ।

चन्द्रराजा—चन्द्रवंशी काश्यपगोत्री राजा सोमचन्द्र १० वीं सदीमें अथवाके निघण्टु इंडीसे कुमायूँमें आये, सातसौ वर्ष इस वंशने राज्य दिया, चन्द्रराजा कहे गये । राजा साहव अल्मोडा और राजा काशीपुर इस कुलमें शेष हैं ।

रौतेला, कुंवर, गुसाईं चन्द्र इत्यादि भी इसी वंशसे हैं । मणकोटी राजा यमराजा टोडी नेपालको गये । गोरखा भी राजच्युत होकर नेपालको गये ।

महरा, फर्त्याल, इनको मूल पुरुष जगदेव धारा नगरीकी पमर वा पमार जातिका ठाकुर था, चन्द्रराजाके सैनिक और थोकदार जागीरदार हुए ।

नेगी—दारा नगरसे आये, कश्यप, भारद्वाज, गौतम गोत्री हैं । कोई २ मेवाड राजपूताने से आये हुए चौहान हैं ये राजा सैनिक हुए ।

विष्ट—चित्तौडसे आये राजा सोमचन्द्रके दरबारमें रहे वे कश्यप भारद्वाज और उपमन्यु गोत्री हैं । गैडाविष्ट, सौनविष्ट, डडेविष्ट, भिन्न रहें एक जाति विष्टकी गढवाल आई, जो गढवाली ठाकुर कहलाते हैं ।

भण्डारी—चौहान ठाकुर हैं, अवधसे आये मनर गांव मिला इससे मनाई कहलाये ।

तडागी—धारानगरके ठाकुर थे, सोमचन्द्रके समय कुमायूँमें आये सेनाध्यक्ष रहे । वोहरा रावत, नेपाल, पट्यार, कार्की, काथी, महर, जलाल, इत्यादि अनेक जातियें राजपूतोंकी हैं ।

खश राजपूत प्राचीन कालकी खश जातिसे “ मरुः खशश्च काम्बोजे ” “ शकाः किरातानां यवनाः खशादयः ” “ किराता दरदाः खशाः ” इत्यादि हैं । ग्राम और पेशेके नामसे अनेक संज्ञाकी जातियें ४-५ सौसे अधिक पायी जाती हैं । उनमें कुछ देशी ठाकुर और कुछ खश राजपूतकी सन्तान हैं । भोटिया शक वा शोकपसे आये हैं, यह शोका कहाते हैं मिलम्बाल ज्वालामुखीसे आये हुए राजपूत हैं, गढवालसे गये रावत मिलम्बाल कहाते हैं । इसी प्रकार दाडमाके दडमाल भिल्लके भिलवाल कहाते हैं । चुकडायात देशसे आये नैनीतालके नैपाली क्षत्रिय हैं, चौधरी चम्पावतके कन्नौजसे आये गंगोलीके मध्यदेशसे रियाडी और द्वारहाटके पंजाब कोटकांगडासे आये दरवारका काम करनेसे दीवान कहाये ।

### किरार ।

यह एक लडाकू जाति है, कोई इनको उपक्षत्रिय कहते हैं कोई शूद्र, पर यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, इनके विषयमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि—

**जंगल जाट न छेडिये हट्टी बीच किरार ।**

**भूखा तुर्क न छेडिये होजाय जीका झार ॥**

### कोरवा ।

यह द्रविड देशकी एक जाति अपनेको कुरुकी सन्तान बताती है, यह युक्त प्रदेशमें निवास करती है, पर्वतोंपर भी निवास करती है, इनको कोल किरातके भेदमें मानते हैं, इनमें क्षत्रियत्व नहीं पाया जाता ।

### कौशिक ।

युक्त प्रदेश बलिया, वस्ती, आजमगढ, गोरखपुरमें इस जातिका निवास है, यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे लोग इनके विरुद्ध हैं ।

### खीची ।

यह अपनेको चौहानकुल सम्भूत क्षत्रिय मानते हैं, इनका निवास लखनऊ जिलेके खिचवाडा देशके रघुगढसे हैं, वहांके यह जाति पंजाब प्रान्तकी ओर चली गई है ।

### खैरवा ।

यह जाति झांसीके समीप निवास करती है, यह पन्ना नरेश छत्रपालसिंहजीके समय सन् १७०० में झांसीमें आयी थी, इनका विवाह गोत्र बचाकर होता है, खैर वृक्षसे सामग्री बनाकर बेचनेकी आजीविका करते हैं, अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं ।

### गाडा ।

इस समय यह जाति सहारनपुर और मुजफ्फरपुरके जिलोंमें बसती है, किसानी करती

है, यह भी अपनेको राजपूत कहती है, परन्तु इस विषयका कोई प्रमाण इनपर नहीं न दूसरे लोग इनको क्षत्रिय मानते हैं ।

### ओड ।

यह जाति अपनेको क्षत्रिय मानती है, बुलन्दशहर काठियावाड आदि जिलोंमें यह जाति पाई जाती है परन्तु दूसरे लोग इनको शूद्र मानते हैं, राजपूतानेमें भी यह लोग पाये जाते हैं, यह बडी कठिनाईकी बात है, अनेकों जाति अपनेको क्षत्रियवंशी कहती हैं, पर सर्वथा संस्कारहीन पाई जाती हैं ।

### गौरुआ ।

वह जाति है जिसमें विधवा विवाह होता है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, यह वंश अथुरा आदि जिलोंमें भी पाया जाता है, कहा जाता है ९०० वर्षसे यह जैपुरमें आये हैं, इनके भेद कछवाहा सीसोदिया तथा जासायत आदि भी हैं, दिल्ली प्रान्तमें भी यह पाये जाते हैं ।

### कलहंस ।

अवधप्रान्त तथा गोंडा जिलेका भवानी पाडकुल भी इसी जातिके अन्तर्गत है, कहा जाता है इस ठाकुर जातिके किसी पुरुषने काले वा श्रेष्ठ हंस पाले थे तबसे इस जातिका नाम कलहंस होगया यह वस्ती वारावकी, गोंडा, वहराइच जिलेमें पाई जाती है, दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वमें शंका करते हैं ।

### खांडायत ।

उडीसा प्रदेशकी यह एक जाति है, यह वहां क्षत्रियवर्मा अपनेको मानती है इनके दो भेद हैं, और इनमें तलवार धारण करनेवाले महा नामक खांडायत कहाये, और दूसरे चास खांडायत अर्थात् कृपि क्षत्रिय कहाये, यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वंशका बहुत ऊंचा गिना जाता है, इनके यहां सब कार्य शास्त्रानुसार होते हैं, इनके यहांकी पुरोहिताई करनेवाले गुज्जाती ब्राह्मण भी खांडायत होते हैं, तथा उधरकी एक वैश्य जाति ही खांडायत कहाती है, काठियावाडमें भी अधिपति नायक उच्च श्रेणीके क्षत्रिय हैं ।

### कांसार ढढेरा ।

जातिविवेकमें कालिका माहात्म्यसे श्लोक उद्धृत करके लिखे हैं कि—

सोमवंशो महाराज कार्तवीर्यात्मजोऽर्जुनः ।

तस्यान्वये समुत्पन्ना वीरसेनादयो नृपाः ॥१॥

तेषामप्यन्वये शूराः कांसवृत्त्युपजीविनः ।

कांसारा इति विख्याता कालिकायजने रताः ॥ २ ॥

अर्थात्—चन्द्रवंशी कार्तवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, उसके वंशमें वीरसेनादिक राजा हुए ।

उनके वंशमें बहुतसे शूर कांसवृत्तिसे जीविका करने लगे, वे सब कांसार कहाये, कालिक पूजनमें तत्पर हुए ॥ २ ॥

अगस्तदार ।

यह जाति अपनेको राजपूत वंशमें बताती है, युक्तप्रदेश बनारसके हवेली परगनेमें इसका निवास पाया जाता है ।

अजूरी ।

यह बंगाल प्रांतकी एक जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, परंतु दूसरे विद्वान् इनको संकर जातिमें मानते हैं ।

अमेठिया ।

इस जातिके लोग लखनऊ, वारावकी, रायवरेली, गोरखपुर आदि स्थानोंमें बास करते हैं, इनका निकास अमेठी जि० लखनऊसे बताया जाता है, किन्हीं २ का कहना है कि यह विधवा राजपूत स्त्रीकी सन्तान है, कहा जाता है जब परशुरामके भयसे पतिके मारे जानेसे यह गर्भवती किसी चमारके यहां जा छिपी वहीं उसको चमारने गुप्तभावसे शुद्धता पूर्वक रक्खा । उसका पुत्र जो हुआ वह चमरगौड कहाया और उसके वंशधर अमेठिया क्षत्रिय कहाये ।

अवहन ।

यह अवध प्रांतमें एक जाति निवास करती है, यह अपनेको-नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं ।

अहिवासी ।

यह भी अपनेको नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं, यह मथुरा, वदायूं, बरेली जिलेमें विशेष रूपसे रहते हैं कोई इनको सौभरि ऋषि जो यमुना किनारे काली घाटपर रहते थे उनकी सन्तान बताते हैं, जब वह वहांसे स्वर्ग सिंधारे तब आश्रमकी रक्षाके लिये सर्वराजको छोड गये, कहते हैं उसके निवासके कारण वह सन्तान अहिवास कहाई ।

अर्कवंश ।

यह जाति भी अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं, और अब यह अरख कहाते हैं, मिस्टर कूक साहबने सूर्योपासक तिलोकचन्द्र भाटके समुदायका नाम अर्कवंश लिखा है, दूसरे लोग इनके क्षत्रिय होनेपर आपत्ति करते हैं ।

आसिया ।

यह क्षत्रिय जाति कहलाते हैं, राजपूतानामें विशेष रूपसे निवास करते हैं, यह अपनेको कौसरवैये राजपूत कहते हैं, इनके आदि पुरुष आवूसूराजी राजपूत थे, यह लोग अब चारणपनका काम करते हैं, यह परिहार क्षत्रियोंके पौलपात कहलाते थे, एक समय बारहट नामक पौलपात नाहडरावके पुत्र धूमकुंवरके साथ चौपड खेल रहा था उस खेलमें लडाईं होगई, बारहटने धूमकुंवरको मारडाला, तबसे इनकी पौलपात छिनकर सिंढायचौको भिली, जिसका यह प्रसिद्ध दोहा है ।

## धूमकुंवरने मारियो, चौपड पासे चोल । तिनदिन छोडी आसिया, परिहाररी पोल।

कठियारा ।

यह जाति भी अपनेको क्षत्रिय वर्णमें बताती है, सनाढ्य ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं, यह भी अपनेको कुशवंशी कहते हैं, इनके यहां अबतक कुशायासका पूजन होता है, यह अपने हाथसे कुशा नहीं काटते हैं, बहुतसे लोग इनके क्षत्रियत्वके प्रतिकूल भी हैं ।

कठेरिया ।

यह जाति अपनेको सूरजवंशी क्षत्रिय कहती है, शाहजहांपुर, पीलीभीत, वदायूं, एटा, फर्रुखाबादमें इसका निवास है, बहुतसे लोग इनको क्षत्रिय वर्णमें नहीं मानते ।

कनकन ।

यह जाति मैसूर राज्यमें पढने लिखनेका काम करती है, वहाँ इनकी मान मर्यादा भी विशेष है, राज्यसे बहुतसे कार्य इनके हस्तगत हैं, यह भी अपना क्षत्रिय वर्ण बताते हैं ।

कर्नाम ।

मैसूरके पूर्व दक्षिणी भागोंमें कर्नाम जातिका निवास है, यह भी कायस्थोंके समान वहां लिखने पढनेका काम करते हैं, अपनेको क्षत्रिय वर्णमें मानते हैं, इनके संस्कार भी सुने जाते हैं, अपनेको क्षत्रिय कहते हैं पर दूसरे लोग इनको क्षत्रिय माननेमें आपत्ति करते हैं ।

काकन ।

युक्त प्रदेशके पूर्व भागमें इस जातिका निवास है G. S. W. C. ने इस जातिको राजपूत माना है । मिस्टर इलियनका भी यही मत है, इनके पूर्वज युक्त प्रदेशमें मऊ (अल-दामऊ) से आये थे आजमगढके काकन अपनेको विष्णुकुलके मयूरभट्ट नामक वीरपुरुषकी सन्तान मानते हैं, इनका आदिस्थान कपडी केदार है, दूसरे लोग इनको शूद्र कहकर मानते हैं ।

काछी ।

यह जाति अपनेको कछवाहा वंशकी शाखाका बताती है, कनौजिया, शाक्यसेनी, हर-दिया, मुराव, कछवाहा, सल्लोडिया, अन्धर आदि इसके भेद हैं, एक काछी नामवाली शूद्र जाति है, वह इनसे पृथक् है, शाक्य वंशियोंकी राजधानी फर्रुखाबाद जिलेमें संकीसाथी जो फर्रुखाबादसे आठ कोस और मोटा स्टेशनसे तीन मील है, यह लोग अफीमकी खेती करते हैं, रायबरेली, आगरा, फर्रुखाबादमें विशेष रूपसे इनका निवास है ।

काठी ।

यह एक क्षत्रिय जातिका भेद है, बुन्देलखण्डमें इनका निवास है ।

कान्हपुरिया ।

रायबरेली, सुलतापुर, परतापगढ, प्रयाग, जौनपुरमें इस जातिका निवास है, यह अपनेको क्षत्रिय मानती है ।

कासिप ।

यह अपनेको कश्यप वंशीय क्षत्रिय कहते हैं, शाहजहांपुर, खेडी आदि स्थानोंमें इनका निवास है, दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वमें आपत्ति करते हैं ।

गोरछा ।

यह भी अपनेको राजपूत कहते हैं, युक्तप्रदेशमें कोई ५०० संख्या इनकी हैं ।

गोरखा ।

पर्वतकी रहनेवाली यह एक क्षत्रिय जाति है, सम्भव है कि गहलौत वंशसे इसका निकास हो, परन्तु गोरखा शब्द यथार्थमें गोरक्षक पदसे बिगड कर बना है, और इनका यह लक्षण तथा शस्त्रधारण करना यह दोनों लक्षण क्षत्रियत्वके बोधक हैं ।

गोदो ।

यह बंगालप्रांतकी एक वीर जाति है, मुसलमानोंके समय इन्होंने बडी वीरता दिखाई थी, यह भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं ।

गौरीहर ।

यह एक राजपूत वंश है यह जिला अलीगढमें निवास करते हैं, कहा जाता है कि चमरगौड क्षत्रियकी यह भी एक शाखा है, इसका आदि स्थान कानपूडी है ।

गोयल ।

राजपूतानेमें गहलौत वंशका एक भेद कहा जाता है राजपूतानेमें मनुष्य गणनामें ७८१ पाये गये थे ।

गौडक्षत्रिय ।

यह भी क्षत्रियोंके ३६ भेदोंके अन्तर अपनेको मानते हैं, बंगालमें इनके वंशधरोंका राज्य था, पृथ्वीराज चौहानके पीछे अजमेरका अधिकारी यही वंश हुआ है, युक्तप्रदेशमें भट्टगौड, वामनगौड, चमरगौड और कथेरियागौड इनके भेद कहे जाते हैं ।

गौतमक्षत्रिय ।

यह लोग अपनेको गौतमवंशी क्षत्रिय कहते हैं, कहा जाता है कि शृंगी ऋषिको कन्नौजके गहरवारवंशी अजयपालकी कन्या व्याही गई थी, प्रयागसे हरद्वार पर्यन्तका देश इनको दायजेमें मिला था, इनकी सन्तान क्षत्रिय धर्मावलम्बी कहायी, फतेहपुरके समीप यह अगेलके राजा कहाये परन्तु हमने ऐसा लेख किसी ग्रन्थमें नहीं पाया कि शृंगी ऋषि जो गौतमजीकी छठी पीढीमें थे, उन्होंने क्षत्रिय कन्यासे विवाह किया, और कहां शृंगीऋषि



उनके कितने दिन पीछे गहरवार वंश यह बात ध्यानमें नहीं आती, इसमें कोई दूसरा कारण होगा ।

### गंगलावत पोता ।

राजपूतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता है ।

### खारवार ।

यह द्रविड देशकी एक जाति है, हजारी बागके जिलेमें खैरागढ एक कसबा है, इसी जातिके पूर्व पुरुषोंने इसको बसाया था, यह भी अपनेको क्षत्रिय मानते हैं ।

### कोलटा ।

आसाम, व छोटा नागपुर इन स्थानोंमें इस जातिके लोग निवास करते हैं, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, पर दूसरे लोग इस जातिको शूद्र मानते हैं, परन्तु इनमें कहीं कहीं यज्ञोपवीत पाया जाता है ।

### किनचर ।

यह युक्तप्रदेशकी एक जाति अपनी स्थिति रघुवंशी क्षत्रिय बताती है, गोरखपुर गोंडेके जिलोंमें इनका निवास है, दूसरे लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं ।

इति श्रीविद्यावारिधिपंडितज्वालाप्रसादमिश्रसंकलिते जातिभास्करे क्षत्रियखण्डः समाप्तः ।

### अथ वैश्यखण्डः ।

यजुर्वेद और ऋग्वेद तथा अथर्ववेदमें वैश्य वर्णका प्रमाण मिलता है ( ऊरू तदस्य यद्वैश्यः ) ऋ० १० । ९० । १२ । यजु० अ० ३१ मं० ११ । अर्थात् वैश्य जाति उसकी दोनों जंघाओंसे उत्पन्न हुई है, अथर्वमें ( मध्यस्तदस्य यद्वैश्यः ) ऐसा पाठ दिया हुआ है । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है ( भूरिति वै प्रजापतिर्ब्रह्म अजनयत् । भुव इति क्षत्रं स्वरिति विशम् । एतावद्वै इदं सर्वं यद्ब्रह्म क्षत्रं विद् ) अर्थात् भू यह शब्द उच्चारण करके प्रजापतिने ब्राह्मणको, भुव इस शब्दसे क्षत्रियको, और स्वः यह शब्द उच्चारण करके वैश्यको उत्पन्न किया, यह समस्त विश्वमण्डल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है, कृष्णयजुर्वेदसे यह भी विदित होता है कि, गौ अन्नादि वैश्यका सहजात है, अर्थात् आर्यजातिमें गोरक्षा अन्नादि आहार्य द्रव्यका योजन ही वैश्योंका कर्म है, यास्कके मतसे मध्यस्थानका अर्थ भूमि है, इससे स्पष्ट है कि भूमिकर्षण वा भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थोंसे देश विदेशमें लाने ले जानेके लिये ही वैश्योंकी सृष्टि है. कृष्णयजुर्वेदमें वैश्यको ऋक्से उत्पन्न कहा है, वैश्य जगतीछंदसे उत्पन्न कहा है, इसीसे पारस्करके मतानुसार “ विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते० ” इत्यादि मंत्रकी वैश्यवर्णको उपासना करनी चाहिये । ऋग्वेदमें वैश्य सावित्रीका वर्णन इस प्रकार है ।

विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्भ्रं द्विपदे चतुष्पदे।  
विना कमरुयत् सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुषसो विराजति॥

( ऋ० ५ । ८१ । २ ) सविता देवता आत्रेय श्यावाश्वऋषिः । अर्थात् ज्ञानवान् सविताने स्वयं ही विश्वरूप धारण किया है, वही मनुष्य और चौपायोंका कल्याण विधान करते हैं, उन्हीं वरणीय सविता देवने स्वर्गलोकको प्रकाशित किया है, वही उषाके पश्चात् विराजित होते हैं, वही यजमानको स्वर्ग देते हैं । यही मन्त्र वैश्य जातिका परम अवलम्ब है, सृष्टिके आरम्भमें वैश्यवर्णने भी एक दो मन्त्रोंका दर्शन किया है ।

भलन्दश्चैव वन्द्यश्च संकृतिश्चैव ते त्रयः ।  
ते च मन्त्रकृतो ज्ञेया वैश्यानाम्प्रवराः सदा ॥

( मत्स्यपुराण अ० १३२ )

भलन्द वन्द्य और संकृति यह तीन वैश्य मन्त्रद्रष्टा हुए हैं, यों तो सब मन्त्रद्रष्टा ९१, हैं । वैश्य शब्दका संस्कृत पर्याय उरव्य, ऊरुज, अर्य, भूमिस्पृक्, विद्, द्विज, भूमिजीवी, व्यवहर्ता, वार्तिक, सार्थवाह, वणिक, पणिक, पाया जाता है, पुराणोंमें जम्बूद्वीपके सिन्धुप्लक्षद्वीपमें ऊर्वायन, शालमलिद्वीपमें वसुन्वर, कुशद्वीपमें अभियुक्त, क्रौंचद्वीपमें द्रविण और शाकद्वीपमें दानव्रत वैश्योंका नाम है, जिन्दावस्तामें वाशत्रिय फसुयण्ट वैश्यजातिका नाम है ।

अध्ययन यजन और दान, भागवतसे इनके तीन धर्म हैं, कृषि गोरखा वाणिज्य और व्याज यह चार इनकी जीविका हैं, इनके आश्रम तीन हैं ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और गार्हस्थ्य, आपत्ति समय उपस्थित होनेपर वैश्य सूद्रवृत्तिद्वारा जीविका भी निर्वाह कर सकता है, परन्तु वह समय बीतते ही तस्काळ वह वृत्ति त्याग देनी चाहिये, इसको उपनयनमें अधिकार है, बारहवें वर्षमें वैश्यजातिका यज्ञोपवीत होना चाहिये, चौबीस वर्षतक इनका समय बीतता नहीं है, इतने समय तक यज्ञोपवीत न होनेपर यह पतित हो जाते हैं, इनका आशौच पन्द्रह दिनका है विष्णुसंहितामें भी ऐसा ही इनके लिये लिखा है, क्षमा, सत्य, दम, शौच, दान, इंद्रियसंयम, अहिंसा, गुरुसेवा, तीर्थपर्यटन, दम, सरलता, लोभत्याग, देवब्राह्मण पूजा और निन्दाका त्याग, यह वैश्य जातिके साधारण धर्म हैं ।

आदि सभ्य जगत्के इतिहासमें फिणिक नामक जिस प्राचीन वणिक जातिका उल्लेख पाया जाता है वह ऋक् संहिताकी पणिनामसे कही जातिका अपभ्रंश है (तं गूर्तयोने मन्त्रिषः परीणसः समुद्रं न सञ्चरणे सनिष्पवः । ऋ० १ । ५६ । २ ) उस समयसे ही यह जाति गोरक्षा कृषिविभाग और वाणिज्य करते थे उपरोक्त कहे मन्त्रमें धनार्थी पणिगण समुद्र तक वा सागरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते थे ऐसा विदित होता है, अथर्ववेदसे पाया जाता है कि वैश्यगण यात्राके समय अग्नि इंद्र आदि देवताओंकी स्तुति करते थे, नीचे लिखे मन्त्रोंमें घनाहरण और क्रयविक्रयका आभास पाया जाता है ।

१ समीं पणे रजति भोजनं सुषे निदाशुषे भजति सूनरं वसु।  
दुर्गे च न ध्रियते विश्व आ पुरुजनो ये अस्य तविपीम चक्रुधत् ॥

ऋ० । ३४ । ७ ।

२ भूयसा वस्नमचरत् कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यत्।  
स भूयसा कनीयो नारिरेचीदीनाइक्षा विदुहन्ति प्रवाणम् ॥

ऋ० मं० ४ । २४ । ९ ।

ऋग्वेद दशम मण्डलमें ऋषिसम्बन्धी बहुत उत्तम वर्णन है, वैश्य जाति इस कर्ममें बहुत निपुण थी, यह युगारम्भसे ही मांसभक्षणके विरोधी थे, और कुछ वैश्य जातियोंमें इस समयतक भी मांस भक्षण नहीं पाया जाता है, इनके द्वारा भारतीय सभ्यता दूर दूर फैली, और देशान्तरोंमें इनकी रहन सहनसे भारतका पता मिला, ऐतरेय ब्राह्मणमें करप्रदान और पराधीनता यह भी वैश्योंके गुण लिखे हैं, तथा तिरस्कार सहन शक्ति भी लिखी है ( यथा ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य बलिकृदन्यस्याद्यो यथाकामज्येयः ऐत० ७ । ५ । ३ ।

इसका अर्थ यह है कि वैश्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राजाको बलि देता है अर्थात् कर प्रदान करता है, और दूसरे राजाके अधीन होता है और उस राजाकी इच्छाके विपरीत करनेसे तिरस्कारका भाजन होता है ।

इस वैश्य जातिसे ही शैव, सौर, जैन और बौद्ध धर्मकी विशेष पुष्टि हुई थी, बौद्ध-धर्म इनके कारण दूर २ तक फैल गया था, बहुतसे शैव और बौद्ध मतके मंदिर भारतमें ही नहीं चीन काबुल यवद्वीप सुमात्रा आदि भारतके महासागरके द्वीपों और अनुद्वीपोंमें सुशोभित हुए थे, आसाम, साम, कम्बोज, सिंहल आदि स्थानोंमें उन प्राचीन वाणिकोंके वंशधरगण इस समयतक निवास करते हैं, गौतमधर्मसूत्रसे जाना जाता है कि ऋषकगण राजाका ष्कादशांश अष्टमांश वा एक षष्ठांश कर देते थे गवादि पशु और सुवर्णपर ६० अंश, पण्यद्रव्यपर ३० अंश, मूल, फल, फूल, भेषज, लता, गुल्म, मधु, मधुमांस, तृण

१ भावार्थ-कोई अधिक पण्य द्रव्यसे थोड़े मूल्यके पदार्थको यदि प्राप्त करे और फिर वह मोल लेनेवालेके पास जाकर कहें कि मैंने तो यह वस्तु ऐसी नहीं बेची है यह लो तो इतना और दो तो वह बेचनेवाला उस मोल लेनेवालेसे विशेष मूल्य नहीं लेसकता, क्रय समयमें हुए समर्थ और असमर्थ वचन फिर नहीं बदलते ।

२ यह इन्द्र व्यापारीके समान लुब्धकके भोजन धनको सभ्यक प्रकारसे हरण करता है और हवि देनेवाले यजमानको देता है अर्थात् अयज्वासे लेकर यज्वाको सुन्दर धन देता है, आपत्तिमें भी सब देनेवाले जिसको रखते हैं यह विहित कर्म न करनेसे इसे क्रुद्ध करते हैं ।

और ईधनपर  $\frac{1}{2}$  अंश कर देना होता था, कर्मकार और शिल्पीगण चर्मकार महीनेमें एक दिन काम किया करते थे ।

उपासक दशासूत्र नामक जैनग्रन्थमें जो डेढ़ हजार वर्षका है, उसमें आनन्दनामक एक वैश्यकी कथा लिखी है कि उसने जैनशास्त्रानुसार यतिधर्म न ग्रहण करके पंच अनुब्रत धारण किया था. हिंसा, मिथ्यापन, प्रपंच सभी बातका उसने त्याग किया, शिवनन्दा नामवाली उसकी धर्मपत्नी थी, चार करोड़ सुवर्णमुद्रा उसके कोषमें थीं, ४ करोड़ व्याजमें थीं, और चार करोड़की उसके जमींदारी थी इसके अतिरिक्त उसके यहां चार दल गोमेषादि थीं, जिसमें एक २ दलमें दश दश सहस्रगोमेषादिथीं; ५०० कोठी प्रत्येक कोठीके उपयुक्त १०० सौ सौ निवर्तन सामग्री विदेशवाणिज्यके लिये ५०० छकडे और देशी वाणिज्यके लिये भी ५०० शकट थे इसके अतिरिक्त जलपथमें वैदेशिक वाणिज्यके लिये चार जहाज, और स्त्रदेशी वाणिज्यके लिये भी चार जहाज प्रस्तुत रहते थे ।

इस साधारण वैश्यके इतिहाससे ही समझा जा सकता है कि एक समय वैश्य जाति कितनी समृद्धशालिनी थी, मृच्छकटिक नाटकमें भी श्रेष्ठी चत्वर आदि कैसे २ धनकुबेरोंका वर्णन है ! सोने चांदी जवाहरातोंसे उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे ऋण लेते थे, इनमें अहंकारका लेश भी न था यह स्वजातिपोषक, बड़े २ देवाल्योंके निर्माणमें दत्तचित्त, देवगुरुमें भक्ति दिखाकर अक्षय कीर्ति स्थापन करगये हैं शिव, विष्णु, जिन बुद्धोंके बड़े बड़े मन्दिरोंसे भारतवर्ष भरा पडा है, इस समय भी बड़े २ मन्दिर तथा धर्म-शालाएँ वैश्यजातिकी निर्माण की हुई हैं, प्रसिद्ध ऋषिकुल संस्था जो हरद्वारमें विद्यमान हैं विशेषरूपसे वह मारवाडी वैश्यजातिकी उदारतासे ही परिचालित होती है. इन्हीं वैश्यजातिके प्रभाव और शिल्पियोंके कलाकौशलसे पाश्चात्य जगत्को भी चमत्कृत होना पडा है । प्राचीन वैश्यसमाजके विशेष सरलता आडम्बरहीनता और लक्ष्य वाणिज्य और कृषि था जिस कोट्यधीश आनन्दकी कथा हम ऊपर लिख आये हैं, उसका आहार विहार बहुत ही सामान्य था उसको विशेष सुखभोगकी लालसा न थी, जैनग्रन्थमें उसके खाद्यव्यवहारकी जो सूची दी गई है वह इस प्रकार है ।

आनन्द प्रातः काल शय्या त्यागकर लालरंगका अंगोला ले कर बैठता और दतौन करता था उसके पीछे एक फल और आंवलेको पीसकर उसका रस पीता, उसके पीछे दो प्रकारका तेल शरीरमें लगाकर और एक सुगन्धित चूर्ण मलकर चार घडे जलसे स्नान करता फिर श्वेत जोडा धोती पहनकर व्यवहारके लिये कुंकुम, चन्दन कस्तूरी, आदि गन्धद्रव्य शरीरमें लगाकर घरमें धूप जलाता था, और पूजाके लिये श्वेत कमल तथा दूमरी प्रकारके फूल भी देता था, उसके कानमें एक भूषण और हाथमें एक अंगूठी रहती थी, भोजनमें दाल, चावल, खिचडी, धी और बूरासे बनाये लड्डू, उहद, मूंग, भात इत्यादिका आहार था, पीनेके लिये वर्षाकालका जल, संग्रह रखता था और पांच प्रकारके मसालेके पानसे अपने

मुखको सुगंधित किया करता था, सब प्रकारके रस ( गुड, दाडिम, आंवला, किरात तिक्तादि ) सिद्धान्त तण्डुलादि तिल, पाषाण, लवण, नानाविध पशु, मनुष्य, सबप्रकारके वस्त्र, रक्तवस्त्र, सन और रेशमके वस्त्र, फल, मूल, औषधी, जल, लोह; विष, सोमरस, क्षीर, दधि, घी, तेल, कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, मद्य, अमाशिक, मधु सोम, शल्ल, आसव, सब प्रकारके वन्य पशु, दंष्ट्रावाले जीव, पक्षी, अश्वतर, नील लाक्षा आदि व्यापारके द्रव्य मनुजीने निर्देश किये हैं, इनमें कुछ वस्तुओंका व्यवसाय वैश्यजातिके लिये निन्दित था, विशेषकर तैल, दुग्ध, लाक्षा, लवण, मांस, गुड और सिद्धान्त जो लोग बंचते थे वे निन्दित गिने जाते थे, इसी कारण आपत्कालमें भी ब्राह्मण क्षत्रियके लिये इन वस्तुओंका व्यवसाय निन्दित कहा गया है ॥

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ।  
 द्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरभिक्रयात् ॥  
 इतरेषां तु पण्डानां विक्रयादिह कामयः ।  
 ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥  
 जीवेदेतेन राजन्यः सर्वैणाप्यनयं गतः ।

मनु० अ० १०।१५

यदि ब्राह्मण मांस लवण और लाख बेचे तो तत्काल पतित होता है, और दूध बेचनेसे तीन दिनमें शूद्रभावको प्राप्त हो जाता है, और यदि अन्य निषिद्ध द्रव्य इच्छापूर्वक बेचे तो सातरातमें वैश्यभावको प्राप्त होता है, आपत्कालमें जैसी ब्राह्मणकी जीविका वैसी ही क्षत्रियकी है, परन्तु वह किसी प्रकारभी ब्राह्मणवृत्तिका अवलम्बन न करे ।

यो लोभाद्धमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।  
 तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥१६॥  
 वैश्यो जीवन् स्वधर्मण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् ।  
 अनाचरन्न कार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥

मनु० अ० १०।१८

यदि कोई अधमजाति उत्कृष्टजातिकी वृत्ति अवलम्बन करके जीविका करे तो राजा उसको निर्धन करके अपने देशसे निकाल दे, वैश्यगण अपने धर्मके द्वारा जीविका करे, आपत्कालमें शूद्रवृत्ति भी स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट ग्रहण नहीं कर सकते, जब इस प्रकारकी कठिन आज्ञायें थीं, तब वर्ण धर्म और जातिके आचारविचार नियमबद्ध थे ।

ऋषिद्वारा सब प्रकारके शस्य उत्पादन, गोमहिषादिपाल और अर्थकारी अन्तर्तथा बहि-  
र्वाणिज्य ही वैश्यजातिकी उपजीविका थी, परन्तु इस समय यह हीन वृत्ति मानी जाती है,  
इसका कारण क्या है सो लिखते हैं । मनुजी कहते हैं—

वैश्यवृत्त्यापि जीवन्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।  
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥  
कृषिं साधयति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगर्हिता ।  
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठभयोमुखम् ॥

मनु० १० । ८३ । ८४ ।

यदि ब्राह्मण क्षत्रियको वैश्यवृत्तिसे ही आजीविका करनी पड़े तो खेती वृत्तिको न करे,  
कारण कि इस कर्ममें हिंसा भी है, और इसमें बैल और हलके अधीन होना होता है,  
कोई कृषिको उत्तम मानते हैं, परन्तु सत्पुरुषोंने इसकी निन्दा की है, कारण कि लोहेके  
मुखवाला हल भूमि और भूमिमें रहनेवाले जीवोंको नष्ट कर देता है ।

यद्यपि यह विधान मनुजीने ब्राह्मण और क्षत्रियके निमित्त किया था, परन्तु धीरे २ वैश्य  
जातिने ' हिंसा ' भयसे इस कर्मको निन्दित माना, और अन्नकी उत्तम उपार्जनका उर्सा  
समयसे सूत्रपात हुआ, जो कृषि वेद वेदोग धर्मसूत्रमें अति प्रशस्त मानी गई है, महाराज  
जनकने यज्ञ कार्यकी जिसे स्वीकार किया है, मानकल्पसूत्र, गृह्यसूत्रादिमें जिसकी व्यवस्था  
है, उसको वैश्य जाति सर्वथा त्याग बैठी, और यह जगत्का हितकारी कार्य ऐसे अनपढ़  
शूद्रजातिके पुरुषोंके हाथमें पड़ गया कि जिसने भारतवर्षके अन्नमें वृद्धि न होने पाई, यद्यपि  
इस समय हमारी सरकार बहुत कुछ सुबीता कर रही है परन्तु वे अनपढ़ क्या समझ  
सकते हैं, हमारा जहाँतक अनुमान है यह बौद्धधर्म और जैनधर्मके अहिंसा परमो धर्मका  
प्रभाव है जिसके कारण खेती, गोरक्षा, पशुपालनादि धीरे २ वैश्य जातिसे उठ गया, जो  
कार्य वैश्य जातिके ऊपर निर्भर था, धनी होनेके कारण वह सब कार्य यह जाति क्रमसे  
त्यागने लगी, और बहुतसे व्यवसाय शूद्र और मिश्र जातियोंने ग्रहण कर लिये, केवल  
व्यापारसम्बन्धी थोड़ा कार्य और व्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय अव-  
लंबित है, विक्रम संवत्की चौथी पांचवीं शताब्दी पर्यन्त वैश्य जाति परम उन्नत थी, उस  
समय जैन और बौद्ध धर्मका प्रभाव चमक रहा था, वैशाली, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज  
उज्जयनी, सौराष्ट्र, पौण्डवर्द्धन आदि व्यापारके नगरोंमें ताम्रपत्र पाये गये हैं, उनसे वैश्य  
समाजकी उन्नतिका पता चलता है, उस समय इस शक्तिने क्षत्रियशक्तिका गर्व खर्व करने  
की इच्छा की थी, जिस समय बौद्ध जन क्षत्रिय राजाओंने वेदधर्म त्यागकी इच्छा की,  
उस समय ब्राह्मणशक्तिने वैश्य शक्तिमें समाश्रित हो गुप्तसम्राट् समुद्रगुप्तसे अश्वमेध यज्ञ  
कराया था, और वह अश्वमेध यज्ञ बौद्ध राजधानी पाटलिपुत्रमें अनुष्ठित हुआ था, यद्यपि

अश्वमेधमें क्षत्रियका अधिकार है, परन्तु उस समय घोषणा की गई थी पृथिवी क्षत्रियहीन है, इस कारण यह यज्ञ वैश्य द्वारा अनुष्ठित होता है ( गुप्तवंश क्षत्रिय नहीं है यह बात बहुतसे शिलालेखोंसे स्पष्ट हो चुकी है, नहीं तो उसका कोई लेख अवश्य क्षत्रिय गौरव सम्बन्धी होता। पारस्करमें ( गुप्तेति वैश्यस्य ) १ । १७ । ४ यह सूत्रका पिछला भाग है, वैश्यजातिके पीछे गुप्त पद लगा होता है यदि क्षत्रिय होता तो गुप्त उपाधि किसी प्रकार धारण नहीं करता, गुप्तसम्राट्ने उससमय पृथिवीके समस्त क्षत्रियोंको पराजित कर अपने अधीन किया था पर उसके दरबारमें सनातन धर्म तथा बौद्धधर्म दोनोंहीका प्रतिष्ठा रही, हां, विक्रमीय सप्तम शताब्दीके आरंभकालमें पूर्वभारतके अधीश्वर चन्द्रगुप्त ( अशांकनरेन्द्र गुप्त ) ने ब्राह्मण भक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध विद्वेषका ज्वलन्त दृष्टान्त दिग्वाथा था, यह कनौज अधिपति हर्षवर्द्धनने इनको परास्त किया था, यह भी वैश्य ही कहे जाते हैं, कारण वर्द्धन उपाधि भी वैश्योंकी ही है, यह शक्ति वैश्योंने थोड़े कालमें संचय नहीं की थी, अवश्य ही इसमें बहुत समय लगा होगा, जैसे अंग्रेज वणिकजाति जिस उपायसे पृथिवीके समस्त स्थानोंमें जाकर धीरे २ अर्थ शक्ति सम्पन्न और अधीश्वर हुए हैं, उसी प्रकार भारतीय वैश्योंने शक्तिका संचय किया था, जिस प्रकार पणि जानिने वाणिज्य प्रभावसे दूर दूर जाकर यूरुप खण्डमें अधिकार और सुसभ्य राज्यप्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वैसी इच्छा भारतके अपर साधारण वणिकगणोंने नहीं की। वे जानते थे कि, उनकी सुवर्ण प्रसव करनेवाली भारत भूमिसे श्रेष्ठ स्थान जगत्में दूसरा नहीं है इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तरोसे रत्न-समूह लाकर जननी जन्मभूमिको समृद्धि शान्ति करनेमें प्रयत्न हुए थे।

दो सहस्र वर्ष पहले भारतके वैश्यगत जर्मनीके उपकूलमें आकर वाणिज्य करते थे उस पुरातनकालमें उत्तालतरङ्ग संकुल जापान उपसागरको पार करके अथवा आटलाण्टिक महासागरमें जाकर किस प्रकार वे लोग उपस्थित हुए थे, इसका ठीक निश्चय न पानेपर भी अनुबादक मार्फसाहब अति चकित हुए हैं, जिस प्रकार यहांके वैश्य व्यापारी मिसर देशसे रत्नराशि व्यापारद्वारा लाया करते थे, इस बातको भी उन्होंने स्वीकार किया है अब पाठक गण जान सकेंगे कि किस प्रकारसे वैश्य शक्तिका संगठन भारतवर्षमें हुआ था, गुप्त सम्राट् की चेष्टामें बहुतसे जैन वैश्यगण फिर अपने वैदिकधर्ममें आ गये थे, विक्रमकी पांचवीं शताब्दीमें चीनका परिवाजक फाहियान जब भारतमें आया था तो उस समय उसने आर्यावर्तमें वैदिक और बौद्धधर्मका प्रभाव समान देखा था, वह सिंहलमें जाने के लिये ताम्रलिप्त हिन्दू वणिकगण जिस जहाजमें बैठा था, उसमें दो सौ यात्रियोंके बैठनेकी जगह थी, उनका लेख पढ़नेसे यह विदित होता है कि हिन्दू वणिकगण सिंहलहीसे महासागरके समस्त द्वीपमें गमनागमन करते थे, हाफियानने यव और ब्रह्मद्वीपमें भारतीय वैश्योंका उपनिवेश देखा था।

वैश्यसम्राट् हर्षवर्द्धनके यत्नसे आर्यावर्तमें फिर कुछ दिन बौद्धप्रतिष्ठाका अनुराग

दिखाई दिया, सम्वत् ७०५ में सम्राट् हर्षवर्द्धनकी मृत्युके साथ बौद्धधर्म अवसन्न होनेलागा, जब सम्वत् ८५७ में कन्नौजके सिंहासनपर क्षत्रिय वीर यशोधर्म देव अधिष्ठित हुए उन्हींके साथ मानो वैदिक धर्मका फिर अभ्युदय हुआ, और बहुत प्रचारभी हुआ, उस समय पाटलिपुत्र गौड और ताम्र लिपिमें वैश्य समाज अति प्रबल था, उनमें वैदिक धर्मानुयायियोंकी संख्या अल्प थी। बौद्धोंकी अधिक थी, पाटलिपुत्रकी वैश्यजातिकी चेष्टासे गोपाल मगधके अधीश्वर हुए, यह उनके पुत्र धर्मपालके शिलालेखसे विदित होता है, यशोवर्माके समान उनका सामयिक आदि शूर गौडमण्डलमें साम्प्रतिक ब्राह्मण लाकर वैदिक धर्मप्रचारमें तत्पर हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु होतेही गोपालके पुत्र धर्मपालने आकर गौड राज्यपर अधिकार करलिया, पालवंशकी जातिका ठीक निश्चय तो नहीं होता तो भी इस जातिके साथ वणिक वंशका योनिसम्बन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय सुवर्ण वणिकके कुल इतिहासका लेख है, प्रायः चारसौ वर्षतक पालवंशने गौडमंडलमें आधिपत्य विस्तार किया था, उस समय भी यहांके वैश्यगण उत्तरमें चीन तिब्बत, पूर्वमें आसाम कम्बोज, दक्षिणमें यव, बलि, वणिओ सुमात्रा आदि द्विपोंमें तथा पश्चिममें सौराष्ट्र गुजरात आदि देशोंसे लेकर मिसर पर्यन्त जाते थे। मुल्लमानी राज्यसे अब तक भी यह गमनागमनकी रीति बन्द नहीं हुई है, तैलंग, तामिळ, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा भारवाडी वणिकगण आज भी अफरीका, अमेरीका और यूरोपके स्थान २ में जाकर पण्य द्रव्यका व्यवसाय करते हैं, परंतु इनके निमित्त समुद्रयात्राकी प्रायश्चित्त व्यवस्था भिन्नप्रकारकी है, बंगालमें तो प्रकृत वणिक दिखाई नहीं देता, वहांके वणिक एक प्रकारके शूद्र कहे जाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रदेशमें जिन वैश्य जातियोंका निवास है, वे बहुतसी श्रेणियोंमें विभक्त हैं, टाडसाहब एक जैन यतिकी सहायतासे वैश्यजातिकी एक सूची तयार करते थे उनको १८०० जातियोंकी सूची मिली, परंतु पृथिका ठिकाना न जानकर वे उससे विरत हुए।

वैश्य जातिकी संख्या विशेष है उनमें हम बहुतोंकी व्यवस्था लिखेंगे, शेषके नाम और निवास लिखेंगे परन्तु हमारे उत्तर, पश्चिम तथा दूसरे देशोंमें भी सर्व प्रथम अग्रवाल वैश्य जाति समझी जाती है, इस कारण प्रथम उसीका उल्लेख करते हैं।

### अग्र वा अग्रवाल ।

अग्रवालोंने उत्पत्तिनामक ग्रन्थमें लिखा है कि, वैश्योंमें जो पहला पुरुष हुआ उसका नाम धनपाल था, ब्राह्मणोंने उसको प्रताप नगरके राज्यपर बैठाकर धनका अधिकारी बनाया उसके आठ पुत्र और एक कन्या हुई कन्याका नाम मुकुटा था यह एक दूसरे याज्ञवल्क्य नामक माहात्मासे विवाही गई, और आठ पुत्र शिव, नल, अनिल, नन्द, कुन्द, कुमुद, वल्लभ और शेखर नामसे विख्यात हुए, इनको अश्ववैद्याके आचार्य



गर्गवागर	कांसल	विंदल	कुंडल	सितल
गोयल	वासल	जिंदल	विंछल	गौलणगौण
मंगल	ऐरण	जिंजल	बुद्दल	
सिंगल	दैरण	किन्दल	मितलं	

अथवा ।

गरगोत	तायलगोत	ऐरण	किन्धल	वाच्छल
गोयलगोत	तरलगोत	दैरण	किन्धल	सरसूगुण
सिंगलगोत	कासल	सितल	कच्छल	
मंगलगोत	वासल	मितल	हरहर	

अथवा ।

गर्ग	तायल	ऐरण	भवधल	गावाल
गोयल	तितल	दैरण	तिंगल	गवन
सिंहल	कांसिल	तुंधल	किंवल	
मंगल	वांसिल	किवल	गोभिल	

इनके सिवाय जो अग्रवाल हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम शेखावाटी मारवाड गौडवाडमें निवास करते हैं, उनके नाम औरही प्रकारके होते हैं, यथा—वजाजनागौरी, पटवाभेवाडा प्रसारी इत्यादि इस प्रकारसे अग्रवाल वैश्य सर्व श्रेष्ठ मानेगये हैं ।

अथ माहेश्वरीवैश्यउत्पत्ति ।

सूर्यवंशी राजाओंमें चौहान जातिके खड्गलसेन राजा खंडेला नगरमें राज्य करता था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव था, यह बड़ा दयालु और न्यायपरायण था; परन्तु इसके कोई पुत्र नहीं था, एक समय राजाने बड़े आदरमानसे ब्राह्मणोंको बुलाकर उनका बड़ा सत्कार किया, ब्राह्मणोंने वर मांगनेको कहा तब राजाने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है कृपाकर पुत्र दीजिये, तब ब्राह्मणोंने कहा तू शंकरकी उपासना कर तेरे पुत्र होगा, परन्तु सोलह वर्षतक वह उत्तर दिशाको न जाय । और सूर्यकुंडमें नहीं न्हाय, राजाने तथास्तु कहा । ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा हुए, उस राजाके चौबीस रानियां थीं, उनमें चम्पावती रानीके पुत्र हुआ, तब राजाने बड़ा आनन्द मनाया, और पुत्रका नाम सुजानकुँवर रक्खा, इस प्रकारसे आनंदसे दिन बीते । १४ वर्षकी उमरमें उस कुमारको एक जैनने अपनी शिक्षासे शंकरमतके विरुद्ध कर दिया, जिसके कारण वह ब्राह्मणोंसे द्रोह करने लगा, तीनों दिशाओंमें घूमकर उसने ब्राह्मणोंको बड़ा दुःख दिवाया । उनके यज्ञोपवीत तोड़े गये, यज्ञ-याग बन्द होगये, राजाके भयसे कुमार उत्तर दिशाको नहीं जाता था, पर प्रारब्ध वश उत्तरमें ब्राह्मणोंका यज्ञपूजन सुनकर वह वहां चला ही गया और सूर्यकुण्ड पर जाकर पराशर गौतम आदि ऋषियोंको यज्ञ करता देख बड़ा क्रोधकर कहा कि इन ब्राह्मणोंको

रकडो मारो, और सब यज्ञकी सामग्री नष्ट करदी, ब्राह्मणोंने यह वचन सुन राक्षस जान शप दिया कि तुम सब जडबुद्धि पाषाणवत् होजाओ, वे तत्काल ऐसेही होगये, राजा और नगरनिवासी सुनकर बडे दुःखी हुए, राजाने तो अपने प्राण त्याग दिये, सोलह रानी राजाके साथ सती होगई, शेष उमराव आदिकी स्त्रिये ब्राह्मणोंकी शरण हुई, उन्होंने धर्मोपदेश देकर उनको शान्त किया, और सबको शंकरकी तपस्या करने कहा उन स्त्रियोने शंकरकी बडी तपस्या की, जिसके कारण शिवपार्वतीने उनको दर्शन दे बर मांगनेको कहा, तब शनियोने कुमर और उसके साथियोंको चैतन्य किया वे सब चैतन्य हो शिवजीको प्रणाम करनेलगे. एक मिश्रीलाल कायस्थ पुत्रका मदार था सो कोतवाल हुआ । शंकरने कहा तुमने पूर्वकालमें क्षत्रिय होकर स्वधर्म त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न होकर अब वैश्य पदके अधिकारी होंगे, सूर्यकुंडमें स्नान करो, इसमें नहातेही तुम्हारे हाथसे शस्त्र छूट जायंगे, सूर्यकुण्डमें नहातेही तलवारसे लेखनी, भालोंकी डांडी और ढालोंकी तराजु बनाके वैश्यपद धारण किया. वह बहत्तर उमराव उन ऋषियोंमें एक एकके बारह २ शिष्य हुए, वही अब यजमान कहे जाते हैं, और फिर वे कुछ कालके पीछे खण्डेल छोडकर डीढवाना आवसे उन बहत्तर खांपके उमरावसे वे बहत्तर खांपके डीडू माहेश्वरी कहलाये, और माहेश्वरियोंका बडा विस्तार हुआ, उन बहत्तर खांपोंके नाम सोनी, सौमानी, जाखेटा, सौदाणी, डुरकट, न्यातिहेडा, करन्वा, काकाणी, मालूँ, सारंडा, कहाल्या, गिलङ्ग, जाजू, वाहेती, विदादा, विहाणी, वजाजू, कलत्री कासैंट, कचोल्या, कल्हाणी, ऊंवर, कावरा, डाड, डागा, गटाणी, राठि, विडहला, दरकै, तौसणीवल, अजमेरा, भंडारी, छपरवाल, भटइं, भूतडावंग, अहल, इंद्राणी, मुराड्यौं, भन्साली, लढा, मालपाणी, सिकचची, लाहौटी, गदैय्या, गागराणी, खटव्वड् लखौटा, असावाँ, चेचाणी, मुडधन्या, गूधडा चौख, चंडक, बलदवा, बालदों, बूव वागड्, भंडोवरौं, तौतला आगिवाल, आगसौड़, प्रताणी, नाहूधर, नवालं, पलौंटा, तापड, मणियार, धूँत घूपड मोदानी ॥ ७२ ॥

### खांपखतानी ।

#### सोनी १ ।

पेढ सोनगरा मातासेवल्या घूम्रांस गोत्र भाडल्यास ऋषि यजुर्वेद गुरु संखवाल, ओझा गुरूकी माता, फलोधी, गोत्र दमाइंस सोनी, सुगरा, नुगरा, ( नुगरा गांव, सांभर, डकाचा सूवाज्यां ) रामावत भानावत, कोठारी, ( भेवाड, देवगढ इलासूवाथा )

#### सोमानी २.

स्यामोजी पेड सोलखी मातावंधर गोत्र लियाइस, ( आसोपा १ गुरु दायमा आसोफा )  
( कुदाल २ गुरुदायमा कुदाल व्यास )

सोमानी	कयाल	साभरघाड	ग्यानेपोता	वीकानेर
आसोफा	पोता	नेडतासे	गेगाणी	बीकानेर

राथ	मकड	मूंडवासे	कसेरा	हीढवाना
कोडयाका	साहा	मेडतासे	थिरराष्ठी	पोकरण
कुदाल	वागडी	आसोप	खाडावाला	बूंदीते
मरदा, रानीगांव	परसावत	फलोधी	झावरसोमाणी	साभरसे
मानानी धीकानेर	वालेपोता	जैसलमेर		

ज्ञानसोमाणीकी ख्याति परगना बोधपुरके गांव झावरमें सम्बत् ८३२ में सोमपालजी सोमाणी इचके नाना जाजनजी झावरकी गोदी गये और सौनपालजीकी औलाद चली यह झावरसामाची कहाये. इस खांपमें पांच साख चलीं ।

### जाखेटिया ३.

जालिमसिंहजी पढे, यादव माता सिसनाय, गोत्र सिलांस, सती सौथल गुरूका गोत्र सामलिया, वामालास, माता जाखन, गांव माडले, शाखा माध्यन्दिनी, प्रवर ३ गुरू पारीक, खटौड व्यास मूढक्याथामेकी यजुर्वेद, थांभा गांव सामरमें कमलापतर्जासे सम्बत् १४४४ में फटे, थामा २ सिरासना सामर २ खुलासा १ सामर ( १ ) नेतारणा जोधपुर जैपुर रामसर इन स्थानोंमें है, सिरासना मारौठ मेडते सोजत इन स्थानोंमें है, गुरूके आदि दृत्त राजौदिया कायस्थकी एकही इस समय झंवदिया कायस्थ १ सजोदिया कायस्थ २ दोनोंकी है ( आखेटिया हौलाली ) भुवानी बाल ॥ ३ ॥

### सौढानी ४.

सोढीजी पेढ सोहड् माता जीण, गोत्र सोढांस गौरा भैरव गांव ऊमस्कोट, यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा प्रवर ३ सती जोर गुरु खंडेलवाल मुलाल त्रिवाडी देमीसंवाय ( सोढानी दंताल हडकुटिया—यह गांव जैसलमेर इलाके मारवाडीमें हैं ) ।

### दुरकट ५.

हीरोजी पेढ देवदा माता विखन्त भोत्र कश्यप, गुरु पोकर नावटु दुरकट थोलानी कयाल चौधरी ( कयालग्राम ) नावामें चौधरी सामरमें हो ।

### न्याती ६.

नाननसीजी पेढ निरवाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम सती नवासन ( फोफल्याके गुरु मल्लीवाल धामट ) गोत्र मुद्गलंश पारीकदे प्याउपाधा माता खीबज गावदेईमें व्रत नातीकी है नाती इन्दौरमें है १ निकलंक २ फौफलय ३ डंडी ४ ।

### हेडा ७.

हीरोजी पेढ देवडा माता, फलोधी गोत्र धनास बंवासगुरू संखवाल ओझा माता फलोधी, गुरुपल्ली बालधामट गोत्र मुद्गल हेडा ( किसी स्थानमें संख बालओझा वृत्तलाटे और किसी जगह पल्लीवाल )

करवा ८.

कुंवरसी पेठ कछवा माता कछवाय संचय गोत्र करवास प्रवर ५ सामवेद ( गुरुपल्ली बालधामट कागाकी माता फलोधी करवा १ कागा २ कहोर ३ कीया ४ किकल ५ वाकलंकी )

कांकडी ९.

कूकसिंहजी पेठ जौबा माता आमल, गोत्र गौतम और कपिल लावस्योपित्र, गूगरा भैरव, यजुर्वेद प्रवर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती लंछन, गुरु गूचरगौड, सांभरा चोंवा, देवीकाडज, वा लंछन गोत्र गौतम । काकानी सामरा नाराणीवाल ( कांकाणी गोत्र कपलंस, सांभरा माता लौसल )

मालू १०.

मल्लोजी देठ पंपार, माता संचाय, गोत्र खलास वा थेपडास गोपाल पित्र सामवेद प्रवर, ३ ( सारस्वत ल्होड ओझा मालूके ) गुरु गूजर गौड गुनार्डा त्रिवाडी सावूके, गुरुदायमा मौज पटव्यास नैलांके, व्यासामें थावा ३ मूडवे १ अरडके २ रहन ३ एक थावा वालाके बंगाकी वृत्त है । वह व्यास कहलाते हैं मालू सावू धीया तेला. चौधरी लौईवाल पूर्वमें कोईका रुजगारसे बजे ।

तेलाका आश्रय—तेलामाता चामुडा गोत्र कंवलस ।

सारडा ११.

सीहंजी पेठ पंवार माता संचाय, गोत्र थौवांडस सामवेद गुरु सारस्वत ल्होड ओझा नरडूसारडाके ( गुरु पारीक वरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास, पोकरण फलोधीका केलाकेवाकी मारवाड मेवाड दूण्डाड वालाके गुरु सारस्वत ल्होड ओझा ।

खरड सारडाकी व्रत पहले सारस्वत ओझाके थी पारीक वरना जोशी दुर्गा पोताका खर्ड सारडाकी व्रत है, सारडा, केला, कानुंगो, पढवा, सेठ, डीडवाना; नरड, मूझीवाल, चौधरी, दादल्य, सेठी, रामदेवरे, खरड, कौठारी, भलीका भांगडा ।

काहला १२.

कांहोजी पेठ कछवा, माता लीकासन, सती चामुडा और फलोधी गोत्र कागायंस भैरव, सौन्यानाजी गुरु दायमा, काकडा व्यास मिसर । गुरुदायमा, काठा तिवाडी गुरुके थांबे ३ मिसर डीडवाना, नागौरका थांबा, कहाडका, वहाडका ३ ।

गिरडा १३.

गागजी पेठ गहलोत, माता मात्री, गौतम गोत्र, सती मात्री, गुरु सारस्वत, ल्होड ओझा, ऋषि इष्ट । गिलडा गहलडा गीगल मूथा मोदी ।

## चाजू १४.

जूजोजी पैठ सांखला, माता फ़ौधी, गोत्र वालांस, गोरा भैरव गुरू गूजरगौड, जांगला उपाध्याय, कांचाकौला, सररघा गुरुका थांवा ५ कौला सरघा, मेगासरघा, थिरपाल ३ वीसल्या-इसमें कैलासराकी वृत हैं, जाजू समदाजी सिंगी तुलावरघा जजनौत्या ६

समदानियोंकी रख्यात ।

गांव जांगलका, जाजूहंमजी हरिधवल हरिपा-महिपाल मामनसी, नरायन, माधोजी शमदरजी पीढी आठवीं, समदरजीसे समदाणी वसे समदरजीतक जाजू कहलाते थे ।

गुरुकी रख्यात ।

गुरू जांगला उपाध्यायका यह पहले गूजर गौडजोशी पिसांगन्या कहलाते थे, केसोजी जोशी साखलाके गुरू थे, इवर जांगलोंके और उनके गनायतोंसे परस्पर वैर था, इस कारण भयभीत हो महादुखी रहते थे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप सामंत हो और हम आपके शिष्य हैं आप हमारी रक्षा करो, केशोजी बोले हमतो सामन्त हैं उनके पास सौ १०० शूरमा हैं, तो बराबरी कैसे हो इस कारण छलसे मारना चाहिये, यह विचार सांखलोंने गनायतोंके पास जाकर कहा,सांखलोंके यहां ३५० कुमारी कन्या हैं उनका स्वयंवर रचा है, तुम चलकर विवाह करलो, ऐसा कह वरात सजाय एक बागरमें उतार नीचे बाहुद बिछाय सुरङ्ग लगा दी । तब वह सब २५० कुमारी कन्या प्रणकर बोलीं यह सब कर्म हमारे नामसे हुआ है, यह सब अब हमारे पति ही मरे यह कहकर सती होगई, और केशोजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटुंब बार २ होजाय, उनका तो यह शाप था पर केशोजीको यह आशीर्वाद होकर लगा, उनका कुटुम्ब पृथक् पृथक् होकर वृद्धिको प्राप्त हुआ उस दिनसे यह गूजर गौड पिसांग्यसे गूजर गौड जोशी जांगला उपाध्याय वजे फिर किसी दूसरे कारणसे कांच्या वजे, केसोजीके बारह बेटे हुए जिनका थांवा कौलजीका कौलासरघा, मेगाजीका मेगासरघा, थिरौजीका थिरपाल्या. वीसल-जीका वीसल्या यह भोजग हुए देवपूजा करै हैं ।

## वोहती १५.

वेहडसिंहजी नृवाणपेठ, माता गोत्र भिन्न २ गौकन्या गुरु दायमा नवाल आचारज, गोत्र गोकलास, माता गोकन, डालागुरु माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, डांगरा गुरु-माता सोदर, मल्लनगुरु फौकरना व्यास-नावबंधारानी गुरु दायमा पलौड व्यास, गोत्र रामांस माता दधवन्त, लोहानरवरा गुरु गूजर गौड गुनारडा तिवाडी गोपीनाथजी काथांबा वालाकी वृत खांप २ खंड लोहा गुरु पुष्करण छागानी कोलानी माता विजासन ( बाघलागुरु संखवाल पीपाडा पंडा, माता सौधल, दौले सरीसती महिपाल पितर काल-भैरव, गोत्र काश्यप, मालीवान भीलडीका व्यास इसमेंसे आधी खांप भानजे गहूलवाले

व्यासको दी, अत्र मालीवालेका भाग दोनों बराबर बाँटते हैं, नरवरा मुरका डाला लोया लाटूरा यह पांच खांप हैं, भाई, गुरु गूजर गौड गौना रडका तिवाडी माता गोत्र चन्द्रहास ( डांगरा गुरु—माता, नाणनेवी सती सौदर गोत्र कश्यप, । जागा व्याहतेने और कापडी पृथक् खांप बताते हैं ) खावानी गुरुदायमा पलीड माता गाहल चित्तौडसे बजते हैं, ( धौल गुरु गूज गौड गुनारडा, माता डाहरी; गोत्र हरदास ( दरगड गुरु खंडवाल डीडवाना, माता लोईसन ) ( नगनेचा गोत्र कपिलांस घूणवाल गुरु—माता डाहरी फांफट गोत्र हरदास । ( मुसानी गुरु—गोत्रका वरस माता—) ( नांथरानी गुरु—मातागाहल ) लौया गुरु—मातासवन गोत्रचन्द्रास नर वरा गुरु—माता साडास, गोत्र नंदास ( वीला, वरंडा यिलावडा माता बंधर ) वाधला, खींवजा, नींवजा, नाननेचा, डांगरा ५ भाई हैं, माता सोढल ( राईवाल, रांदई और गांधी यह तीन भाई हैं ) ( लौगई गरविया धनाडी रूडया चरखा यह पांच हैं ) खूमडा वासानी नूगजा मालीवाल सूम मल्ल दरगड ७ मालान्या, मल्लड धन्नड मुळतानी मसाना यह पांच भाई हैं ) सनूरा मातासवासन गोत्र खीवस रांस गांव सतूरसे, ( तुरका—माता सावसन—नौगवांसे ) ( नरेडा ३—मातालिकासन—रथड ४—गिदौडा माता दायन ) धनाडी तापडा नागौरमें ।

वाहेतियोंके नामका चक्र ।

अमृतपाल	जंगी	धेनोत	वरोदा	मल्ल	राघाणी	लोहवा
कसडां	झीतडा	धोल	वठंडा	मल्लड	राईवाल	लोया
खडलोहा	ढाल्या	नरेडया	वाहेती	मसाण्या	रांधण्ड	सतूरघा
खावानी	डांगरा	डांगरा नथड	वाघानी	मालीवाल	रूया	सकराणी
खीवजा	तापडा	नरवरा	वाघला	मालण्या	रूड्या	स्यहरा
खूमडा	तुरक्या	नावधर	वासानी	मुरक्या	रूबल्या	सेसानी
गरविया	तूमडया	नाडागर	विलावडया	मुळतानी	रूडया	हमीरपुरा
गांधी	दरगड	नागनेचा	वील्या	मुसाण्या	लटस्या	....
गिंदोडिया	घनड	नीमजा	वुगडाल्या	मोराणी	लीकासण्या	....
गोकन्या	धनानी	नोगजा	वेडीवाल	....	लोईवाल	....
जरखा	धूनवाल	पेडचीनाल	वंडोता	रामाणी	लोगरड	....

विदादा १६.

वृद्धसिंहजी पेठ सोढा माता पाढाय गोत्रगजांस, ( सती आसापुरा किरुके ) ( सती खूवडविदादाके, गुरुधारी खटोड ब्या पंडितजी काथांवा माता खूवान गोत्र धौअंस, विदादा, किरुके, विदादाने डीडवाना छोडा और गांव विदियाद वसाया ।

विहाणि १७.

विहारीजी पेठ पंवार, माता संचाय, गोत्र वालांस, ऋषि कौशिक, सामवेद प्रवर, पांच

शाखा अनन्त, सती लखेचा, गुरु दाथमा, बौरका, तिवाडी, विहाणी, पीथाणी, लौघा, पोपाणी, वछाणी, गूजरका सराफ, बढहका, लालाणी, डीडवानाका इन्दौर मऊकी छावनीमें हैं १० पसारी डीडवानाका ग्राम सिरसामें है ११ लोईको डीडवानामें १२ पापडामेढते १३ गोवन्धा ।

#### बजाज १८.

बीजौजी पेढ भाटी माता जाहल, गोत्र मन्साली, भैरव झींटाया, गुरु दाथमा तिवाडी कंठ गोत्र गौतमस थांवा २ सतीका, अटलाजीका वेहड्या गोत्र वच्छसू मातापाढाय सती-पाटल ( मरचूना गोत्र आवलेंस माता लौसल ) किस्तूरया गुरुका गोत्र गौतमसू माता लीकासन सती सुवरना ।

बजाज रौल्या मरचून्या धारूका गठूका गौधा किस्तूरिया वेहड्या रामावत चामर गव-दूका गौदावत लखावत हाडौतीमें ।

#### कलंकी १९.

कालूजी पेढ कछावा माता चामुंडा, चमलाय और पाटाय गुरु पारीक खटोला व्यास थांवा २ पंडितजीका बाबरजीका गोत्र कश्यप, कलंतरी और मच्छर जोधपुरमें हैं ।

#### कासट २०.

केवाटजी पेढ पडिहार, माता चानन और संचाय, गोत्र आत्रसांस सामवेद, गोरा भैरव खौगटा माता, जांजर्ण गुरु गूजरगौड लोयमा उपाध्याय, डीडवानाके कितने एक बदरचनन पल्लीवाल भी कासटकी वृत्ति खाते हैं यह चार हैं कासट, कटमुरा, सुरजान और खोगटा ।

#### कच्चोल्या २१.

कंवरसिंहजी पेढ तुंवार, माता पाढाय सती ढासनी गोत्र सीलांस ( राय० गुरु पुष्करने छांगानी ) रूप० गुरु जौपट व्यास ( सौनफूल ) गुरु काटया तिवाडी, कचौल्या, राय, सौन, झल, रूप, ५

#### कालाणी २२.

कालौजी पेढ कछवाहा, माता चामुंडा सती पाढाय, गोत्र धौलांस, व कालांस, सामवेद शाखा अनन्त चैलक्य भैरव, कालाणीसती स्वयंपूजित है, गुरु पारीक खटोडा व्यास थांवा २ पंडितजीका बाबरजीका ( कालाणी मुरक्या ) काल्या कालाणी, कलंत्री मुरक्या माता गुरु गोत्र एक है जिसके कारण परस्पर भाई चारा मानते हैं, इसके सिवाय अन्य भेद नहीं । गुरुकी विगत, पारीक खटौड व्यास थांवा २ पंडितजी बाबरजी, पंडितजीके थांबेवालों की वृत्त खांप सात हैं बाबरजीके थांबे वालोंकी पांच खांप हैं पंडितजीके थांबे वालोंकी शेष खांप पांच ( भंडारीराय और विदादा ) दो खांप घर हैं सीरमें हैं उनका बराबर वांट है कल्हानी पांच कल्हानी कलंत्री, मुरक्या, गटाणी कुलथ्या पांच हैं ।

शंवर २३.

झांझराजी पेठ यादव, माता गोत्र भिन्न २ गुरुदायमा आसोपा तिवाडी व्यास—खरड खूँझा, गुर पारीक अजमेरा जोशी ( गायलवाल ) माता गायल गोत्र झूँझांस नागळ खरड मन्ना सुद्रासन गोत्र मानस खूँझामाता गोत्र मंडवांस झालस्थ—गोत्र मौवनास, गाहल वल नागला नौसरबा पौसरया खरड खूँच्या खीवज्या ठीमा मुवाणी मौवण्यां मैवाणी जालरिया भगता ढाणि चौधरी सौमाणी शंवर ( सौमाणी शंवर साख ५ टालै )

खरडशंवरोंकी ख्याति ।

मरुधाराकेगांव आसोपमें नरड मौसरजी पौसरजी दो भाई थे, उसमें छोटे भाई पौसरजी ने विदेशमें जाकर बहुत द्रव्य एकत्रित किया उसे नौसरजीके पास भेजकर लिख दिया कि इसको शुभकार्यमें व्यय कर दो, उन्होंने छोटे भाईके कथनानुसार नौसर सागर नामक तालाव बनवाया, यह बात सुनकर पौसरजीकी बहूने कहा कि कमाई तो मेरा पति करै, और उढावै जेठजी, और अपना नाम प्रसिद्ध कर बडे सेठजी कहावै, यह वचन सुनकर नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके बीचमें पाल रखाकर नौसर सागर और पौसर सागर नाम रख दिया, जब कुछ दिनोंमें पौसरजी परदेशसे आये और सरोवरके बीचमें पाल देख रुष्ट होकर पूछने लगे, यह क्या बात है ! अपनी स्त्रीका अपराध समझकर उसे उसके पीहर सांमर ग्राममें भेज दिया, वह गर्भवती थी वही मायकेमें उसके पुत्र हुआ, और उसका नाम पर्वत रक्खा, जब गुरु आसोफा तिवाडी पौसरजीके पास जाकर पुत्रजन्मका रुपया १ मांगने लगे, तब इन्होंने कहा हमने उस स्त्रीको त्याग दिया है, वह हमारे योग्य नहीं है हम उसका रुपया न देंगे, यह सुनकर गुरु आसोफा तिवाडीने भी उस पुत्रको त्यागकर उसकी वृत्ति छोड दी, वह लडका ग्राम सांमर, अपनी ननसालमें पला और ननसाकके गुरु पारीक अजमेरा जोशीको पूजने लगा, गुरुकृपासे वह बडा प्रतापी हुआ, दिल्लीके बादशाहका कामैती बना और ( खड ) घासकी मदत दी तबसे खरड शंवर नाम पडा, फिर चुंगीकी मुट्टी उगाई, तबसे खुडंच्या कहाये और पर्वतसर नाम गांव बसाया ।

कवरा २४.

कुम्भोजी पेठ गहलौत माता सुसमाद, गोत्र अचित्रांस गुरु सेखवाल, माडम्यां पालडया आठारया खखांपके गुरुका गोत्र वशिष्ठ यजुर्वेद; माध्यंदिनी शाखा, तीन प्रवर फलौधी देवी, पालड्या गोत्र विजेमाग काळ पितर, देवगांव कावरा पालडया चित्तौरसे चलकर मांगरास गांव टूककने बसाया । कावर माडम्या, पालड्या आठारया, भगत, सिंगी धौल कौडारी ।



( २८४ )

## जातिभास्करः-

डाड २५.

डूंगोजी पेढ, दहिया माता भद्रकाली, सीतलीकासन, गोत्र आमरांस; झीतरो पितृकाला-  
भैरव, मंडोवरमें साम वेद; गुरु दायमा, नवाल आचार्य ये, पड्या माता वंधर काली सती  
चन्द्रकाली गोत्र लखासन डाड, थेपड्या २ ।

डागा २६.

डूंगाजी पेढ पंवार, माता संचाय, व बन्धर व दधवंत, गोत्र राजहंस, गुरु पारीक-  
गौलवाल व्यास द्वागणका भजीठ्या गुरु सारस्वत बढ ओझा, टागा केसावत विठाणी दरा-  
वस्या मुकनाणी मडिया डूंग कोन्हाणी गौराणी न्हार मजीठ्या मौड ( मेवाड ) मरोठमें  
करनाणी भोजणी दमाणी मेण्या माघाणी माडा ।

गटाणी २७.

गट्टजी पेढ गहलौत माता चामुण्डा गोत्र ढलांस, रु० पडाइंस, गुरु पारीक खटौड  
व्यास, माता पांडूखां माडतासे तीन कोस पश्चिम । गटाणी, मल्लक, टोपीवाल साकारिया  
संकर मिलक । ५ ।

राठी २८.

रिडमलजी पेढ पंवार, माता संचाय, ओसिया स्थान, पीतवर्ण, गोत्र कपिलास, साम  
वेद, गणपति विनायक, गढरण थंभोर, भैरव बांदरापुरंजी, नागौर शिववाडीमें गढके  
दक्षिण पश्चिमकोणमें, आदगुरु पल्लीवाल, गुरु पुष्करना, छांगाणी थांभा ४ की विगत १  
छागाणी कौलाणी गढरिया दरासरी ४ । सातलाणी ।

श्रीचंदाणी	साहताणी	सुधाणी	कलाणी	गवलाणी	गोयंदाणी
चतुरभुजाणी	साल्हाणी	साहाणी	सुस्वदेवाणी	क्रमसाणी	गिरधराणी
गोपालाणी	चापसाणी	सावताणी	सालगाणी	सुजाणी	कौकाणी
गागाणी	गुलवाणी	जटाणी	सांगाणी	समाणी	सिंहाणी
खेताणी	गेगाणी	चौथाणी	जसवाणी	सादाणी	समाणी
करनागी	खेमाणी	गोमलाणी	चौखाणी	जेसाणी	जालाणी
नेताणी	महराठाकुराणी	हरकाणी	नेतसौत	कहरा	सहाणी
जिन्दाणी	नापाणी	मथराणी	मुहंलाणी		चतुरभुजौत
महरा	मोदी	जिवाणी	नाटाणी	मदवाणी	लखाणी
मदसुदनौत	वाजरावजरा	गांदी	जौधाणी	नानगाणी	माघाणी
लखवाणी	धगडावत	बेजारो	ईन्दू	तहनाणी	पदाणी
भालाणी	लालाणी	मानावत	मीचरा		सराप

## भावाटीकासंवलितः ।

( २८५ )

तेजाणी	पीपाणी	महेसराणी	लूलाणी	खेतावत	वगरा
( जेसलमेरमें )	साहा	तुलछाणी	बहगटाणी	मुलाणी	लुहलाणी
दूदावत	लखासरया	सिरचा	तिरथाणी	वेखटाणी	मुसाणी
देदावत	वरसलपुरचा	कल्हा	दम्भवाणी	वनानी	मुलताणी
श्रीचन्दौत	पूरावत	कौठारी	ब्रजवासी	दसवाणी	
बीजाणी	मूझाणी	करमचंदौत	टोलावत	चौधरी	सांवलका
देसवाणी	वसुदेवाणी	मीभांणी	कपूरचन्दौत	कल्लावत	रूड्या
खटमल	देवराजाणी	वाधाणी	अरजनाणी	रामचन्दौत	मल्लावत
राहूड्या	वापल	देवगटाणी	विसताणी	आफाणी	लालचंदौत
मौलावत	मडिया	वापेचा	दुढाणी	वछाणी	ऊधाणी
प्रतिचन्दौत	रामावत	लेखणिया	मराठी	द्वारकाणी	भाकराणी
रन्धाणी	मानसिंगौत	लखावत	फाट	करमा	धनाणी
मौलाणी	रतनाणी	फतेसिंगौत	पिचलाती	वेकट	राठी
धामाणी	मौजाणी	राधाणी	रामसिंगौत	भागचन्दौतमूषा	अइया
		अखेसिंगौत			
नथाणी	ठाकुराणी	रूषाणी	करमसौत	डौडमूथा	सूणा

### विडहाला २९.

वेहडसिंहजी पेढपवार, माता संचाय, गोत्र वालास, ऋषि पिप्पलान, गुरु पुष्करणा श्रेखावाटीमें गुरु आदि गौड वासौत्यागोत्र सांडास बडालिया गुरु शंखवाल गरवरिया तिवाडी गोत्र झधरांस माता फलौधी विडहला चूस्या गांठा धूवरचा गरूख्या गौख्या बडालिया )

### दरक ३०.

दुरगसिंहजी खाची पेढ, माता मूसा गोत्र हरिदास, यजुर्वेद पंचप्रवर भाव्यन्दिनी शाखा, क्षत्रपाल सौनेवोजी कमलानाम लक्ष्मी वालों पितर, गणपति विनायक, विष्णुनाम सारङ्गपाणी ( दरकाके गुरु संखवाल हलद्या उपाध्याय जायलवाल ) ( इलद्याके ) गुरु संखवाल हलद्याजोसी, मेवाडमें हीनागाम मांगरास पोटला पास भैरों, मोतीराम खुसाल, नन्दराम आदि हैं; वह हलदा जोसी नामसे वाजते हैं, दरकामेंसे हलदा हलदीका व्यापार करनेसे वाजे, हलद्याके घर विशेषकर हाडौतीमें हैं, वारां मांगरौल अणते गेते वूंदी पलायते वंबोरी जिला कोटामें हैं । वे दरक हलद्या मरचन्या कुठारी ग्राम राहयामें चौधरी मेढतामें हैं ।

### तोसणी वाल ३१.

तेजसी पेढ चहुआन, माता खूंवर साती वांवली, गोत्र कौशिक, ऋषि पिप्पलान सांडो पितर कालभैरव पितर हमदमलाला बडा गाम मालवेमें अमझरा स्थान सतीगंगा आदूमाता

भवानी, गोत्र वशिष्ठ, चूडाज ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरुशायमा डीडवाचा तिवाडी गुरुकी माता दधवन्त ) तोसणीवाल नागौरी, नेमर, मिज्याजी, मोदी, मूंजी, डामा, डामडी, लम्बू, सिंगी, दास, दगा झालस्या, जेनास्वा, मूंजी, भाकरौघा, कोठारी १७.

श्राव तौसीणमें तौसणीवाल तौसा साहथा उसने सम्बत् ११३९ में कन्याका विवाह किया उसके समयसे चितौरसे स्त्रियोंका वरातमें जाना बन्द हुआ उसकी वरातन स्त्रियां आई वहां ७ स्त्रियोंने हठ किया कि पहली व्याहीके कंधेपर पगंधरके फिर वधू रथसे नीचे उतरै, तोसा साहने कंधेपर पग नही धराया, और दसलाम्ब मुहस्का ढेर करा दिया तब व्याहण ( वधू ) उसपर पगधरकर नीचे उतरी पीछे सब पञ्चोंको बुलाकर साहने स्त्रियोंके स्वभावकी बात कह कर स्त्रियोंका वरातमें जाना बंद कर दिया ।

### अजमेरा ३२.

अजोजी षेठ चहुआंग, माता नौसल, गोत्र मनांस, ऋषि पिप्पलांस ( गुरु पारीक, खटौड व्यास— ) कुलथ्या माता समराय गुरु पारीक खटौड व्यास, पंडितजीका १ ( विद्यायक्य गुरु पारीकअजमेरा जोशी, यजुर्वेद, माध्यंदिनी शास्त्रा. पंचप्रवर, कोंषा भैरव, शिव दुग्धेश्वर, गणपति दुण्डिराज ) गोत्र वच्छांस सती सगत कंवार देवी गणपत ( नौसस्था गुरुदायमा गौटे चामाता नौसर ) पौसस्था, खरडखूंच्या यह कंवर है माता सुद्रासन, गोत्र पौण्यास, अजमेरा कौड्या, कुलथ्या, कूकड्या, राय रणदीता, धौल धौलेसरखा, भगत, भगूत्या, डवकौड्या, ढीडा, मानक्या, विन्यायक्या, नौसल्या, पौसल्या, खरड, खूंच्या पढावा ।

### ख्यातअजमेरा ।

विनायक्या अजमेरमें पुहनाका, नाडा, वच्छका थावेवले जागा नहीं मांगते कारण कि सरकाडमें दो जागोंने प्राण त्यागन कर दिया था, उन जागोंकी स्त्रियें सती हुईं, जब यजमानने जागाजीको अपना पुत्र दत्तक देकर जागेका वंश रक्खा, तबसे इस थावेका जाग्न मांगनां छूट गया ।

### भण्डारी ३३.

भंडलसिंहजी षेठ कळवाहा, माता नागनेचा, गोत्र कौशिक, गुरु पारीक, खरड व्यास, ( रायगुरु पण्डितजीका थांवा ) गौकन्या गुरु गौड, तिवाडी माता गौकुल, ( मिरच्छत्र, लाठी, गुरुपारीका वामण्या, व्यास ) माता लौहन भंडारी, भकावा, भूक्या, काला, गौरा गोकन्या, गुलचक, मात्या, लाठी राय, मिरच्या, नरेसण्या, नेसर १३ ।

### छापरवाल ३४.

छाजपाली षेठ सांखला, माता बंधर, गोत्र कौशिक, यजुर्वेद सती भद्रकाली ( गुरुदायमा तिवाडी डीडवाना पौठ्या, छापरवार १ दुजरा दुसाज ३ ) ।

## भाषाटीकासंवलितः ।

( २८७ )

### भरड ३५.

भैरूजी पेठ भाटी, माता वीसल, सतीमूंदल, गोत्र मटघास, सामवेद शाखा अनन्त प्रवर ३ ( गुरुपल्लीवाल धामट गोत्र मुद्रल माती वीलल ) दोहा-पनरासौ पंडोतरे, सुदसावण तिथि तेरा भाटीलूअदड हुआ, जैसा जैसलमेर ।

भटड	केला	वलवाणी	गांधी	भूहणदासो
सूधा	कहरा	विच्छू	पीथाणी	महरा
लहड	वीसाणी	रामाणी	पुंगल्या, मा विस्कन्त	
हलद	वीसा	जैठा	मल्लड	

### भूतडा ३६.

भूरसिंहजी पेठ सांस्वला माता खीक्क, गोत्र अल्लसांस गुरु सारस्वत वदर १ पल्लीवाल चंनण, गुरु आवै सो पावै दोनों आवै तो बांट वरावर दिया जाय, भूतडा, चांच्या, देवग-बाणी, देवदत्ताणी चौधपुरमें ।

### बंग ३७.

वावसिंहजी पेठ पडिहार माता खांडले, सती कौठारी, धारादे महमल पितर, गोत्र सोडांस, ऋषि वालांस माध्यन्दिनी शाखा, रहणका थांवा, माता कल्याणी पूजी जाती हैं, मूंडवाकें थांवेवाले माता खांडलको पूजते हैं, गुरु गूजरगौड, गौनारड्या तिवाडी व्यास गोत्र वच्छांस, बंग, छीतरका, सांवलका सौभावत, मौटावत, पारावत, पसारी मूंडवे, पटवारी मूंडवे ।

### अटल ३८.

अटलसिंहजी पेठ गहलौत माता संचा संचाय, सती मात्री, गोत्र गौतम प्रथम गुरुगूजर गौड ( पीछे पौकरण वट्टु ) जिसको इच्छा हो वही गुरु मानलेते हैं कुछ प्रमाण नहीं है, मरो-ठिया गुरु गूजरगौड पंचोली बीजारण्यां मेवाडदेशमें चितौड गढके निकट है, गांव धनेतमें भुरु यजमान दोनों हैं । अटल, गौठ, णीवाल, मरौठिया ।

### ईनाणी ३९

इन्द्रसिंहजी पेठ, ईदा माता जैसल, गोत्र ससांस जसलांस नगवाड्या, माता मात्री, शाखा तैत्तिरीय कुष्णयजुर्वेद प्रवर ३ गुरु शंखवाल, गरवारिया तिवाडी । ईनाणी, नगवाड्या २ ।

### भुराड्या ४०.

भूरसिंहजी पेठ चौहान, माता मुनधनी, गोत्र अचित्र, गुरुदाय्या, नवाल आचार्य गुरुका गोत्र सादैलास । भुराड्या, कौठारी, बम्बू, भूंगड्या ।

## भन्साली ४१.

भाडसिंहजी पेढे, वांस माता चामुण्डा, सती, डाहरी गोत्र भन्साली भैरव लावस्यो १  
सोन्याणों २ पित्रमौला गुरुदायमा, नवाल आचार्य भन्सालि १ ।

## लढा ४२.

लोहडसिंहजी पेढे, पंवार माता संचाय, सतीबंधर गोत्रसिलांस यजुर्वेद रामउपासना ।  
( गुरु पारीक, गोलव्याल व्यास ) वृत ३ लडार लौगरड २ डांगा ३ । लढा, मौदी मूझी,  
अठासंप्या, भाकरोद्या, हींग्या, दागड्या, धाराणी, झौला, चौधरी ।

## मालपाणी ४३.

मालदेवजी पेढे भाटी, माता सांगल, गोत्र भट्यास, गुरु पुष्करणा, छागार्णी कौलाणी  
( मालपाणी १ मूथा २ मौदी, जूहरी लूलाणी, लौलण भूरा, यह नागौरमें हैं )

## सिकची ४४.

संकरजी पेढे पंवार, माता संचाय, सती भांज गोत्र कश्यप, सिकची गुरु, पुष्क-  
रणा जोशी चोलटिया गोत्र पाराशर माता चामुंडा सीलार गुरु वृजर गौड, उपाध्याय  
डीडवाना आचार्य गोत्र भारद्वाज । ( सिकची, सीलार, सीलाणी ) सिकचियोंके रहनेके ग्राम  
हरदेसर, मोलेसर, जगरामसर, दावदेसर, गरवदेसर, वरजांगसर, हरियासर, रूपालेसर,  
कीतलसर, भग्गू, आसौफ, मणकपूर, धूंथ्याडी, मूण्डवे, काळू, कैकींद, मूरासौ, नाडोलाई  
भादल, रावड्यावास, डेगाणा, उदेंरामसर, मारौड, डीडघाणा, भीळाडा राहण पालडीग्वोजी  
जीकी घडसर सहर ।

## लाहोटी ४५.

लामदेजे पेढतुंवार, माता चामुंडा, गोत्र कागांस, प्रवर ३ शाखा तैत्तिरीय, विसहर—गोत्र  
फौफडांस माता गाहल, गुरु सारस्वत, बडओझा, केलवाड्या, लाहोटी १ विसहर २ कृया  
३, काहा ४.

दोहा—करणअंगसों वालचंद, सुत सूजा सुभियान ।

लाहोटी प्रथमादमें, दाददा ददई वान ।

## गदइया ४६.

गोरोजी पेढे, गोयल माता, बंधर गोत्र गौरांस, यजुर्वेद, प्रवर ३, प्रथम गुरुदायम,  
पढवाल ओझा गाडरमालाजीका थांवाकहा, अब सारस्वत गुरु है, ल्होड ओझा, शाखा  
अनन्त ( सामवेद ) गदइया १ चौधरी सोजतमें २ हींगरडा ।

## गगराणी ४७.

गंगासिंहजी पेढे, गहलौत, माता पाठाय, गोत्र कश्य, ( गुरु खण्डेलवाल, नवाल जोशी,  
वीकनवाल दमागणका माता डाहरी डौड्या १ बावरेच्या २ ( गुरु सारस्वत ल्होड ओझा )

ढौड्या माता वाग्लेश्वरी, गोत्र आम्रांस ( वावरेच्या ढौड्याभें सूनी कल्या माता वागलौंद गोत्र कपिलास ) गगराणी गगड वावरेच्या ढौड्या काला ५ ।

खटवड ४८.

खडगलसिंहजी पेठ सांखला माता नौसल्या, गोत्र गंगास खटवड माता, पाढाय गोत्र निर्मलांस गुरुदायमा, खटौड व्यास. थांवा ४ ( गुरुदायमा काकडा मिसर व्यास ) ( काल्या गुरुदाय काट्या सिचाडी व्यास ) ( मालाणी काहाल्या पहाडका गुरु दायमा काकडा व्यास, ढीडवाना तथा नगौरका थांवा, ) ( भाला नीवडीका थांवा ) ( भालासरधारायपुरसे गुरु खटवड व्यास कुलधरजीका थांवा, माता फलौधी गोत्र कालांस ( खटवड ) माल्हाणी, माता, फलौधी पाढाय, गोत्र वच्छस, करवांस ( भाला माता पाडल गोत्र करवांस ) ( दुवाणी माता फलौधी गोत्र अविदित ) ( काल्या माता नानण सती लीकासन् ) लौसल्या माता फलौधी गोत्र मूंगास, भौलसस्या माता पाढाय गोत्र नघ्रांस ।

खटवड तौडा लोथ लोसल्या नरेसण्या भूतिया मालाणी मूछाल खड गांधी सराप भूरिय भौलसरया दुवाणी काल्या गहलढा पहाडका माला ।

लखोट्या ४९.

लोकसिंहजी पेठ पंचार सातासंचाय, सतीलाखेंचा गोत्र फाफडांस, मेरू काढम देस. पितर वाक्यो गुरु सारस्वत, वडओझा, गोत्र रराईस, १ लखोट्या २ जुंगरांवा ३ भइया ४ भौठड्या ५ भौनाणा ६ परसराम ।

असावा ५०

आसपालजी पेठ, दहियामाता, आसावरी, गोत्रपचास, वालांस नागमाता दूदल गरु संखवाल, नागला सिचाडी, माता गुगांकी आसावरी, ऋषि दधसुर, आसाइस मंडौवरा गुरु संखवाल मंडौवरा व्यास गोत्र खलांस गुरुका गोत्र, भारद्वाज यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, प्रवर ५ गुरुकी माता दूदेसर, असावा व्यपती नागमंडौवरा ।

चेचाणी ५१.

चन्द्रसेनजी पेठ दहिया, माता दधवंत, सती पाढाय व पाडल गोत्र सीलांस ऋषि अरडांस, पाटला भैरव, गुरु दायमा दाण्या व्यास आचार्य-रायके कचोल्याके गुरु दायमा काढ्या, तिवाडी, कचोल्या माता, पाढाय सती पाडल. गोत्र सिलांस, चेचाणी दूदाणी कचोल्या, कलक्या, राय, खड ।

मानू धन्या ५२.

मोहनसिंहजी पेठ भौंढिल माता मानूधनी, सती जाखन, गोत्र जैसलानी कपिल ऋषि ( गुरु दायमा जौपट व्यास मानू धनाके ) मानूधन्या गुरु खंडेलवाल, गोत्र पौलांस. कपिल ऋषि, माता सुरल्या गुरुदायमा जौपट व्यास, मानूधनाकी, वृत्ति तो खंडेवालोंको दी,

( २९० )

### जातिभास्करः-

शेष सात खांप दायमा जोपट व्यासकी रहीं, यथा मानूकन्या, मानूधना, चौधरी, स्याहर, घरडचोल्या सूम सिंगी, हीरा ८ ।

#### मूधडा ९३.

माधोसिंहजी पेढ मोहिल, माता भूदल, गोत्र गोवांस, गुरु सारस्वत, वड ओझा, केल-वाडशा भेरू रेण्या, गां रेणकाथावाका गुरुका गोत्र भारद्वाज, माता फळौची थांवा केल-वडधा रेण्या ठिठीवाल भटनेरा हिरण्या ।

१ मूधडा	१० भोराणी	१० अटरेण्या
२ भोराणी	११ राजगुता	२० प्रह्लादाणी
३ मोदी	१२ गौराणी	२१ पसारी
४ माहलणा	१३ उलाणी	२२ छोटापसारी
५ ससाणी	१४ डोडधा	२३ कौठारी
६ सांभण्या	१५ देव्या	२४ वारीका
७ सकराणी	१६ चौधरी	२५ वावरी
८ भाकराणी	१७ चमडधा	२६ धलडिया
९ भराणी	१८ चमक्या	२७ दम्भलका

#### चौखडा ५४.

चौखसिंहजी पेढ सींदल माता जीवण; गोत्र चन्द्रांस पितर जालो जितस्यो भेरव यजुर्वेद प्रवर ३ सती झींण गणपति गणाधीश, गुरु गूजरगौड, गोनरड तिवाडी ( चौखडा १ ) जैराम साहने अनेक यज्ञ और धर्मके काम किये, चौख नगरमें निवास किया कीर्ति-जगतमें फैली ।

#### चण्डक ५५.

चोपसिंहजी पेढ चहुआन् माता आसापूरा संचाय, गोत्र चन्द्रांसू, सामवेद, प्रवर ३ तैत्तिरीय शाखा ) वा अनन्तघाखा ( पूंगल्या माता विस्वत गोत्र कछवाइंस ) पूंगलिया माता देल गोत्र वत्स पितर चानपेश्वर ( गुरु पल्लीवाल धामट ) गुरुका गोत्र मुद्गल ।

१ चण्डक	७ प्रगाणी	१३ भाइया
२ गौराणी	८ प्रह्लादाणी	१४ सागर
३ मुळतानी	९ पूंगजिया	१५ सांवल
४ मुकनाणी	१० पटवा	१६ सुखाणी
५ मीमाणी	११ वीझाणी	१७ सुन्दराणी
६ माघाणी	१२ भीषाणी	१८ जोगढ

बलदवा ५६.

वाघोजी पेठ पंवार, माता हिंगलाद, सती गांगेय गोत्र वालांस, सामवेद ( वा यजु० ) प्रवर ३ वानसनेयी शाखा, लटराभैरव, बलदला माता, गांगलेस पूजै, गुरु शंखवाल पंडित ( वेडीवाल गुरुगूजर गौड, डीडवाना उपाध्याय आचार्य गोत्र भारद्वाज, माता सीदल शाखा माध्यन्दिनी ) बलदवा, पडवार, पेडीवाल, राघवाषी कलणी वेडीवाल ६ ।

बालदी ५७.

बालोजी पेठ बडगूजर माता गारस, गोत्र लौरस, सामवेद पित्रा गांगो, योत्र वच्छम् चन्द्रांस मातासौसल बालौसी गुरु दायमा बौरदया व्यास त्रिवाडी कौकार्णी ( चन्दवान्या श्रीधाराके वृत्त नहीं बालदी १ )

बूव ५८.

वाघोजी पेठ पंवार माता भद्रकाली गोत्रमूसाइंस गुरु सारस्वत ल्हौड ओझा अजमेरका थावा रोष जोधपुर वाले बटाहें हैं, यह जोधपुरका गढमें चामुण्डा माताकी पूजा करते हैं, इनकी खांपमें वांट नहीं है, बूव बौरद्या ।

बांगरड ५९.

वाघसिंहजी पेठ, बडागूजर माता संचाय, सती धाडाय गोत्र चूडांस, गुरु सारस्वत, खुवाल जोसी गोत्र चन्द्रांस गुरु शंखवाल वांगरडा जोशी मंडौवरा तापडयागांव डीडवानामें तापडका रोजगार करते हैं, ससी नामसे बजते हैं, वांगरड, तापडया २.

मंडावेरा ६०.

मांडोजी पेठ, पडिहार माता धौलेधरी रुई गोत्र यच्छांस, धौलेसरया माता धौलेधरी, गोरामैरव यजुर्वेद मण्डोवरकी माता रुई हैं, जिस कारण वे नीचे रुई नहीं बिछाते हैं, आदि गुरु शंखवाल, मण्डोवरासे वृत्त छोटदी, गोत्र भारद्वाज, शाखा माध्यन्दिनी, यजुर्वेद, प्रवर ५ माता दूदेसर, आंव गुरु दायमा, गदइया व्यास, मण्डौधरा १ मातेसरया २ धौले ३ सरया ४ ।

तोतला ६१.

तोलोजी पेठ चहुआन, माता खूंखर, गोत्र, कपिल यजुर्वेद, शाखा माध्यन्दिनी ऋषि कपिल, मारीच पितर जालौ, साम पितर, जालौ, सामरनरनाके बीचमें स्थान है, गुरु गूजर गौड, गोना रडात्रिवाडी, तोतला, बडहका, नागला पटवारी भिलाडेमें है, सांभरन राणाके बीचमें खोगटा और तोतलकी आमने सामने बरात आगई परस्पर मार्ग मिलनेके लिये युद्ध हुआ, जिसमें वरके सिवाय तोतलाकी बरात सब मारी गई, तब उसने दिखी जाकर बाद-शाहसे सहायता लेकर खोगटासे वैर लिया, फिर जालाजी सांभर नराणके बीचमें खडा गड गया, यह जालाजी पीर नामसे प्रसिद्ध हो पूजे जाते हैं, अब तोतला और खोखताकी



परस्पर यह रीति है कि जहां तोतलाजीमें यदि खोगटा परसे वा समीप पंगतमें जीमनेको बैठजाय तो तोतलाको वमन होजाती है, इनका परस्पर सगापन भी करना निषिद्ध है, ऐसा करनेसे तिष्ठते नहीं, कारण कि हाडवैर है ।

#### आगीवाल ६२.

आगोजी पेढ, भाटी माता भैंसाद, गोत्र चन्द्रांस; सामवेद ( तैत्तिरीय शाखा ) प्रवर ३ गुरु शंखवाल, आगीवाल ।

#### आगसूड ६३.

अगरोजी पेढ तुंबर, माता जाखन, गोत्र कश्यप, गुरु दायमा, डोडवान तिवाडी राम-जीकका थांवा ३ वृत्त ( पाण्ड्या १ पौष्या २ रामाजीका ) पांड्या पौठ्याके वृत्त नहीं, आगसूड १ ।

#### परताणी ६४.

पूरोजी पेढपंचार माता संचाय गोत्र कश्यप, गुरु पौकरणा, विसा प्रोत, पारागोग्याके वृत्त नहीं परताणी पूदपाल्या दागड्या ) ।

#### नावंधर ६५.

नवनीतसिंहजी पेढ निरवाण माता धरजल गोत्र वुन्दाभ्य अथर्ववेद नन्दरांस ऋषि गुरुपल्लीवाल धामट गुरुका गोत्र मुद्गल ।

नावंधर	धाराणी	मौडाणी	पनाणी	गांधी ।
धराणी	धरिण	मीमाणी	स्याहरा	
धीराणी	दुढाणी	धनाणी	राय	

#### नवाल ६६.

नाननसिंहजी नृवाण पेढ माता नवासन सती जाखल नानणांस गोरा भैरव ( नवाल गुरु दायमा नवाला आचारज ) खुवाल० गुरु गूजरगौड तिवाडी माता, खुङ्कर, जाखड भैरव, चैलक्यो, वालक्यो पिता-( नवाल खुंचाल ३ मालीवाल )

#### फलौड ६७.

पालोजी पेढ पडिहार; माता चामुण्डा, गोत्र साण्डास, गुरु गूजर गौड, आचार्य डीड-वाना ( फलौड लौसल्या गुरु दायमा फलौड व्यास गोरा भैरव ) चितलंग्या गुरु दायमा; फलौड आचार्य गोत्र कौशिक ( रावत्या गुरु दायमां कूंभ्याजोसी ) ( भक्कड गुरुपारीक तिवाडी- ) ( जेथल्या गुरु गूजरगौड आचार्य डीडवाना इष्टी )

( खांप )	( माता )	( खांप )	( माता )	( खांप )	( माता )
फलौड,	नौसल	चावंड्या	चामुंडा	फौगीवाल	नौसल
चितलंग्या	नौसल	कांकरथा	सौदण	फौफलया	०
रावत्या	नौसल	भक्कड	०	जैथल्या	दौस.

लौसल्या	नौसल	केला	०	वापडौता	पंचायम
जुजेसखा	जूजेसरी	सेठी	दायमा	डौड्या	पंचायम
गहलडा	जूजेसरी	चापटा	सौढणा	मूंजीवाल	०
पर्चास्या	जूजेसरी	मौडा	०	०	०

तापड्या ६८.

तेजपाल पेढ चहुवाण, माता आसापूरा, सती समराई, गोत्र वीपलान मूर्गड, गुरु दायमा चौलख्या पुरोहित, गोत्र प्रौवणांस, माता संचाय तापड्या गुरु सारस्वत इंदर ( पल्लीवाल चनण ) पुरोहितोंमें जो आवै सो नेग पालै, दोनों आवै तो वरावर पावै खांपनाम तापड्या, छाछ्या खांप दो हैं ( तापड्या मंगरड छाछ्या ३ )

मिणियार ६९.

मौबणजी पेढ मौहिल माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाडमें हैं, गुरुदायमा, तिवाडी पौठ्या १ मिणियार २ पसारी ३ वरधू ४ मझ्या ५ खर नाल्या ६ मनक्या ६ धूत ७०.

धूरिर्शिहजी पेढ, धांधलमाता, लीकासण, गोत्र फाफणांस, यजुर्वेद, चीथरयोभैरव, जालौ पितर गुरु सारस्वत, गुणगीला आचार्य ।

धूपड ७१.

धीरर्शिहजी पेढ, धांवल माता फलौवी, गोत्र शोर्षम्, वालक्यो भैरव गुरु दायमा ईदाण्या जोसी, पितर परवौ १ धूपड २ धूत ३ ।

मोदानी ७२.

माधोजी पेढ मोहिला, माता चामुण्डा, वंधरजाखण, गोत्र सांडांस, महनाणा गुरु सारस्वत, वडओझा, गुरुदायमा, पलौड व्यास तिवाडी ( इष्टी मेरता नगरमें ) ( मडिया नागौरमें ) धांवा छपर ३ रौडू २ लाडणू ३ सातका इसमें सांतेके थावेवालोकें वृत्त नहीं, मोदी १ वंव मातादाखन २ महदाना माता वंधर ३ महनाणा ४ ।

१ पारैवार ७३.

पूरोजी पेंडपडिहार माता मात्री ( मातार ) गोत्र नानांस, गुरु सारस्वत, त्रिगुणायत, माता भद्रकाली, सती मात्री १ पोरवार २ परवाड ३ दागडा, भैरोदामें, मैडतापरगनेमें ख्यात, दागड्या लडामें १ परताण्यामें २ पौरैवालने ३ खांप हैं ।

२ देवपुरा ७४.

दीपोजी पेढ, दाहिया कमुंवीवाल, अश्वपति वंश, माता पाढाय, गोत्र पारसू गुरु दायम, नवल आचार्य, आदि गुरुने वृत्ति छोड दी, अब गुरु पारीक ब्राह्मण हैं, कौशिक व्यास, पुरोहित आमलीवाला, धाणपीका थांवा है । देवपुरा कुसुंवीवाल । वह ठाठवाटसे

कन्नौजको छोड़कर दिल्लीमें आनकर बसे, दहियावंशमें कुसुम्भीवाल हुए, इनके साथ भारी भीड थी, यह पृथ्वीराजके समीप आनकर रहे। उसी समय राजबाई पीथलका विवाह हुआ, रावल समरसी व्याहने आये और दहेजमें दीपकुलभान दीवानको मांगा, तब दीवानके मिलनेसे अनेक म्लेच्छोंको नष्ट किया, देवपुर जीतनेसे इनकी देवपुरा छाप हुई, और देश २ में यज्ञ छागया, दीपाजीके बेटे सिंहजीने रावलसमरसीको दिया। (पाटकंवर अरु कुम्भगढ धराखजानाधीग चार रतन चत्रकोटका समप्यातोनेसाग) इस प्रकार कुसुम्भी-वालसे सेवपुरा कहाये।

### ३ मंत्री ७५.

मानोजी पंवार पेढ, मातासंचाय, जासू ओसवाल, चौपटा तिनमेंसे धरम पालजी चौपडा मन्त्री हुआ, गोत्र कवलांय सामदेव गुरु सारस्वत बड ओझा ( मन्त्री )

संवत् ४२५ माह शुक्ल पंचमीको साह चौथजी राठीने नगर औसियामें वैश्य यज्ञ महोत्सव किया उस समय ८४ ग्रामके महेश्वरी बुलाये गये, और अपने मित्र ओय वाल-जातीय धर्मपालको बुलाया, यह मरुस्थल चोपडा ग्रामके रहनेवाले थे, उन्होंने वैश्योंको बड़ी उज्ज्वल क्रियासे भोजन करता देखा, तब प्रसन्न होकर उन्होंने राठीजीसे कहा हमको भी माहेश्वरी कर लो, तब इन्होंने धर्मपालको पंचोंसे सम्मति ले महेश्वरी बना लिया, और जैनधर्म छुडाकर वैष्णवधर्म धारण कराया, और इनको मंत्रिपद दिया, तबसे मंत्रि गोत्र प्रचलित हुआ, इनके रहनेका गांव मेरता पारेवा, मूद्याड भकरी सावर आदि है, गांव सावर सकतावर्तोंमें दोसती हुई, लाडदे कुमारी श्री वर तीसराके नीचे आकर स्वर्गवासी हुआ उसके साथ सती हुई दूसरी पाटमदे सती हुई। यह दो पूजी जाती हैं।

### ४ नौलखाहार ७६.

नौलसिंहजी जादव पेढ; मातापाढाय, गोत्र कश्यप ( आदि गुरु दायमा, तिवाडी कंठ ) कितने एक पारीक गुरुको पूजते हैं, गुरु गूजर गौड, वीरका डीडवाना १ नौलका २ नौगजा।

यूसरी रूयातें।

१ सारडा अपने नानाके यहाँ मालके गोदी गया, वह मूल सारडा कहाया, और सगार्डमें पांच साख हुई।

२ वाहेती वाघला अपने नाना मालके गोदी गया, वह वाघला कहाया, साख पांच हुई।

३ सौमाणी नानरे शंभराके गोदी गया, वह शंभर सौमाणी कहाया, साख ५ हुई।

४ सारडा रूपचंद्रजी सांभरसे कालनियाके गोदी गये। वह 'कालणी सारडा कहाये, साख पांच, गुरु पारीक खटौडा, व्यास ननसालके हुए।

५ माणुवन्या कनीरामजी सांभरमें कालनियामें गोदी गये। सो काह्वाणी माणुवन्या कहाये साख ५ टालके सगपन करै।

इस प्रकारसे नागौरमें घेवता नानाके गोदी अभीतक आता है और भी कई स्थानोंमें बेटिका पुत्र और अपना पुत्र दोनोंका सत्त्व दत्तकमें बराबर मानते हैं ।

धाकडमहेश्वरी ।

डीङ्ग महेश्वरियोंमेंसे फटकर धाकड महेश्वरी, खंडेलवाल महेश्वरी, मेडतवाल व टूकवाले इत्यादि बोले जाते हैं, डीङ्ग और इन महेश्वरियोंमें परस्पर रोटी बेटिका व्यवहार नहीं है, गोत्र बोंक उनके यही हैं, यह जैपुर, तथा टौंक राज्यमें वगरू, महला, निमाडे, रानीखडेमें और कुछ चित्तौरके समीप निवास करते हैं, वहां ७०० सातसौ घर हैं, टौंक राज्यमें लघु-जातिके संग भोजन करनेसे लघु कहाये, गुजरातमें धाकड गढमें माहेश्वरी जाति निवास करती है । इनकी भी बहत्तर खांप है, यह डीङ्ग कहाते हैं, एक समय राजाने इनपर क्रोध किया तब सबसे देशत्यागकी इच्छा की, उनमें बीस कुल फुट गये, धाकेगढमें रहे, शेष सब कुल वहांसे चले गये, इन बीसमें बारह और मिलकर सब ३२ हो गये, इन सबके उपनयन होना है इनका गोत्र लिखते हैं ।

१ चंडक	९ भन्सासी	१७ कावरा	२५ धारवा
२ सौमाणी	१० बासट	१८ साकौन्या	२६ धारवाल
३ डाड	११ वायती	१९ थीवा	२७ मौरी
४ झंवर	१२ मूंघडे	२० लौहाती	२८ मौहता
५ बजाज	१३ टावाणी	२१ नागौरी	२९ मतीवार
६ राठी	१४ डागा	२२ गरगौती	३० मेडतवार
७ मालपाणी	१५ भटड	२३ लाड	३१ गूगले
८ जाखडे	१६ तौसनीवाल	२४ बधेरलाल	३२ कुलम ।

यह विशेषकर नर्मदाके दक्षिण तट खंडवा बुरहानपुर इलाकेमें निवास करते हैं, और खंडवेमें नीचे लिखे गोत्रवाले निवास करते हैं, ओंकार, मालवी, चंडक, शिवाजी, गंगाराम, चौधरी, सौभाणी, भागाजी, तिला, साडाड, रामाजी, हरचंद, मनीराम, सीताराम, झंवर, रघुनाथजी, भानक, रामगोपाल, बजाझ, ओंकार वोदरूसा, शंकरदास राठी, रामासा, भाई लछीराम, मालपाणी, पदमासा, केनीराम, गोविन्दराम, मालवी, बाहेती, नंदराम, गोविन्द राम, काखसा, जाखेटे, मौती, मूंघडे, गोविन्दराम, कासीराम, सदोवा, बुला, मटक, देवा, बुगलाल, तौसणीवाल, नागौरी, गजाधर, गंगाराम, सदोवा बधेरवाल, मंडलोई, नानापदम, इतने गोत्र हैं इनका खानपान, चालचलन, गुजरात काठियावाडके समान है ।

महाजनमाहेश्वरी पौकरागोत्र ।

पौकर माहेश्वरी डीङ्ग महेश्वरियोंमेंसे १४ मनुष्य धर्माखुदी प्रपंचसे बडाडालकर अलगनाम पौकरा पौकरजीसे बोले गये उन्होंने यह अपने अपने नामसे निहित किये यथा कावस्या,

चंदेस्या, साहा वीगौद्या, डंडवाड्या, सिंगोल्या, दौडवास, धुतावत, बलकल्या, काचरवास, सांभरद्या, कीचक । शेष, अविदित हैं ।

### खंडेलवाल महेश्वरीवैष्णव ।

इनमें कुछ गोत्र डीहू महेश्वरियोंके हैं, कुछ खंडेलवाल श्रावकोंके हैं,

कूदावाल	अटौल्या	झालणी	नानथा	ध्व	मामोड्या
कूदावत	आलड्या	टोडवाल	नाणीवाल	वेद	मोरवाल
खटवाड्या	आभेरया	ठकरद्या	पचलोड्या	बुसर	मेठी
खीरावाल	अभेरिया	उेगार	पूलवाल	भागला	रावत्या
खुटौटा	ओड	डांस	पीतत्या	भूकमरिया	रावत
खेरुण्या	कलका	ताम्य	पाटोद्या	भंडारी	राजोस्या
गंगाइच्या	कटारद्या	तामी	पावूवाल	महता	लंबी
गोविंदराज्या	काठी	तामोधी	बडोरा	मझलुद्या	सांवरद्या
धीया	कायथवाल	तोडावाल	धरूरद्या	माड्या	सारवूण्या
धीया	काट	दुसज	बजरगण्या	माणकवोरा	सेठी
वीयाकाठ्या	काठद्या	धामणी	वातवाडी	माली	सिरोया
जसौरद्या	कांचीवाल	नारायणीवाल	वामी	माचीवाल	सोक्या
झंगाण्या	कूड्या	नाटाणी	विंवल	मुकमाद्या	हलद्या

साडेबारह न्यात ।

यह अपने २ देशकी प्रथाके अनुसार मानी जाती हैं, और उनका भोजन व्यवहार उनकी रीतिके अनुसार होता है, यथा श्रीश्रीमाल, श्रीमाल, अग्रवाल, ओसवाल, खंडेलवाल, वधेरवाल, पलीवाल, पौरवाल, जेपवाल, महेश्वरी डीहू, हूमडी, चौराडिया यह बारह न्यात मध्यदेश मालवेकी हैं। किसी देशमें नीचे लिखी साढे बारह न्यात मानी जाती हैं, चोसवाल श्रीश्रीमाल, श्रीमाल, वधेरवाल, पलीवाल चित्रवाल, पौरवाल, मेडतवाल, खंडेलवाल, ठंडवाल, महेश्वरी, हरसौरा । यह बारह न्यात गौडवाल गुजरात काठियावाडकी हैं, यहां अग्रवाल नहीं हैं, चित्रवाल सामल गिने जाते हैं, खंडेल जैनी हैं ।

### दूसरी गीति ।

एक समय खंडेला नगरमें खंडग्रस्थ राजाने वैश्ययज्ञ किया, वहां चौरासी जात तो पक्के भोजनमें सामिल थी पर खंडेलवालोंमें खंडेलवाल महाजन, खंडेलवामें ब्राह्मण और खंडेलवाल खाती यह तीन शामिल थे, तब राजाने विचार किया कि इन तीनों जातियोंकेशामिल जीमना उचित नहीं, तब कच्ची पक्की दोषकारकी रसोई करवाई, तब खंडेलवाल ब्राह्मण और खाती तो पक्कीमें चलेगये, और महाजन साढे बारह न्यात कच्चीमें जीमें, वे दोनों अपनी २ जातमें रहे, और खंडेलवाल महाजनोंमें जीमनेलगे, बेटी व्यवहार अपनी जातिमेंही रहा,

भोजन सबमें शामिल हुआ, जो जाति जहांसे, आई उसका वर्णन इस प्रकार है । राजपुरसे काठडा खाटूगढसे, टिटौडा टीटौंगढसे, पौकरा पौकरजीसे माहेश्वरी डीडू डीडवानासे, खंडेलवाल खंडेलासे, पल्लीवाल पालीसे, बवेखाल बवेरासे, जायवाल जायलसे, मेडा तवाल मेडतासे, ओसवाल औसियासे, श्रीमाल भीनमालसे ।

चौरासी जातिकी नामावली ।

एक समय गोडवाड देशमें पद्मावती नगरीके पौरवाल, महाजनने बडा द्रव्य खर्चकर यज्ञ किया, उसमें चौरासी जातिके वैश्य आये उनके नाम लिखते हैं, सबको आने जानेका खर्चा दिया गया ।

१ आगरवाल—आगरोतासे	२० गिंदीडिया—गिंदौड देवगढसे	३९ नरसिंहपुरा—नरसिंहपुरसे
२ अडालिया—आडनपुरसे	२१ चतुरथ—चरणपुरसे	४० नाधिन्द्र—नागेंद्रनगरसे
३ अजौधिया—अयोध्यासे	२२ चकौड—रणथंभ चक्रवा गढ ( मरहारीसे )	४१ नाथचला—सीरोहीसे
४ अजमेरा—अजमेरसे	२३ चित्तौडा—चित्तोरसे	४२ नाछेला—नाडौ गईसे
५ अवकथवाल—आवेर आभानगरसे	२४ चौरंडिया—चावंडियासे	४३ नोटिया—नोसलगढसे
६ ओसवाल—ओसियानगरसे	२५ जालौरा—सोभनगढसे ( जालोरासे )	४४ पलीवाल—पालीसे
७ कठाडा—खाटूसे	२६ जायलवाल—जायलसे	४५ पञ्चम—पञ्चमनगरसे
८ कांकरिया—कसौलीसे	२७ जायलवाल—जेसलगढसे	४६ परवार—पारानगरबासे
९ कपोला—नगरकोटसे	२८ जम्बूसरा—जम्बूनगरसे	४७ पौकरा—पौकरजीसे
१० ककस्थन—वालकुंडासे	२९ टीटोडा—टोटोडसे	४८ पौरवार—पारेवासे
११ कटनेरा—कटनेरसे	३० टंटौरिया—टटेरानगरसे	४९ पौसरा—पौसरनगरसे
१२ खटवा—खेरवासे	३१ दूसर—ढाकलपुरसे	५० बवेरवाल—बवेरासे
१३ खडायता—खडवासे	३२ दसौरा—दसोरसे	५१ वदनोरा—वदनोरसे
१४ खेमवाल—खेमानगरसे	३३ धाकड—धाकगढसे	५२ विदियादा—विदियादसे
१५ खंडेलवाल—खंडेलासे	३४ धवलकोछी—धोलपुरसे	५३ वरमाका—ब्रह्मपुरसे
१६ गाहिलवाल—गोहिलगढसे	३५ नारनगरेसा—नरानपुरसे	५४ वोंगार—विसलापुरीसे
१७ गंगाराडा—गंगराडसे	३६ नागर—नागरचालसे	५५ भवनगे—भावनगरसे
१८ गोलवाल—गोलगढसे	३७ नेमा—हरिश्चन्द्रपुरीसे	५६ भूगडवार—भूरपुरसे
१९ गोगवार—गौगासे	३८ नवांभरा—नवसपुरसे	५७ महेश्वरी—डीडवानासे
		५८ मेडतवाल—मेडतासे
		५९ माथुरिया—मथुरासे

६० मौड-सीधपुर पाटनसे	६८ श्रीखंड-श्रीनगरसे	७७ सौनैया-सौनगढ
६१ माडलिया-मांडलगढसे	६९ श्रीगुरु-आभूताडौलाईसे	जालौरसे
६२ राजिया-राजगढसे	७० श्रीगौड-सीधपुरसे	७८ सौरंडिया-शिवगिरा-
६३ राजपुरा-राजपुरसे	७१ सांभरा-सांभरसे	वसिवानसे
६४ लवेच-लावानगरसे	७२ सडौइया-हिंमलाद-	७९ सुरंद्रा-सुरेन्द्रपुर अवंतिसे
६५ लाढ-लांवागढसे	गढसे	८० हरसौरा-हरसौरसे
६६ श्रीमाल-भीनमालसे	७३ सरेडवाल-सादडीसे	८१ हूमड-सादवाडसे
६७ श्रीश्रीमाल-हस्तिना	७४ सौरठवाल-गिरनारसे	८२ हलद-हलदानगगरसे
पुरसे	७५ सेतवाल-सीतपुरसे	८३ हाकरिया-हाकगढ
	७६ सौहितवाल-सौहितसे	नलवरसे

इस प्रकार पद्मावतीमें यज्ञ हुआ, पद्मावती नगरके वैश्योंने यज्ञके उपरांत पौरावार पदवी पाई । यह गौडबाडकी चौरासी जाति है ।

### गुजरातदेशका चौरासीन्यात ।

१ अगरवाल	१९ गसौरा	३७ डीडू	५५ वेढनौरा	७३ वाचडा
२ आनेरवाल	२० गूजारवा	३८ डींसावाल	५६ भारीजा	७४ श्रीमाली
३ आढरवरजी	२१ नौयलवाल	३९ तीणौरा	५७ भाडरवाल	७५ श्रीश्रीमाल
४ आरचितवाल	२२ नरसिंहपुरा	४० तेरौडा	५८ भुंडरवाल	७६ सारविया
५ ओसवाल	२३ नफाल	४५ दसारा	५९ भुंगडा	७७ सिरकरा
६ औरवाल	२३ नागर	४२ दोइलयाल	६० मानतवाल	७८ साचोरा
७ अंडौरा	२५ नागेन्द्रा	४३ पदमोरा	६१ मेढतवाल	७९ सुररवाल
८ कढेरवाल	२६ नाधौरा	४४ पलेवाल	६२ माड	८० सौनी
९ करवेरा	२७ चहत्रवाल	४५ पुष्करवाल	६३ मीहीरिया	८१ सौजतवाल
१० कपौल	२८ चित्रौला	४६ पध्रमवाल	६४ मेहवाडा	८२ सौहरवाल
११ काकलिया	२९ जारौला	४७ वरूरी	६५ मंडाडुल	८३ स्तवी
१२ काजौहीवाल	३० जीरणवाल	४८ वटीवरा	६६ मंगोरा	८४ हरसौरा
१३ कावोहीवाल	३१ जेलवाल	४९ वाईस	६७ मौड	
१४ कौरटावाल	३२ जम्बू	५० वावरवाल	६८ मांडलिया	
१५ खडायता	३३ जैमा	५१ वामनवाल	६९ मेंडोरा	
१६ खातरवाल	३४ झलियारा	५२ वाग्रीवा	७० लाड	
१७ खीची	३५ ठाकरवाल	५३ वाहोरा	७१ लाडीसाका	
१८ खंडेलवाल	३६ डींडोरिया	५४ बालमीवाल	७२ लिंगायत	

दक्षिणकी चौरासी न्धात ।

- १ कपोल
- २ कटनेरा
- ३ ककस्थन
- ४ कमाइया
- ५ कठनेरां
- ६ काकारिया
- ७ करिगराया
- ८ कन्दोइया
- ९ खडायते
- १० खण्डवास्त
- ११ खंडेलवाल
- १२ खरवा
- १३ गोलवाल
- १४ गंगेरवाल
- १५ गोगवार
- १६ गोलपुर
- १७ गिंदौडिया
- १८ चक्कचाप
- १९ चकोड
- २० चतुस्थ
- २१ चौरडिया
- २२ जनोरा
- २३ जालौरा
- २४ जेसवाल
- २५ टकचाल
- २६ टंटारे
- २७ नरोडा
- २८ दसोरा

- २९ धवल
- ३० धाकड
- ३१ नरसिंहपुरा
- ३२ नरसिया
- ३३ नराया
- ३४ नागौरी
- ३५ नाथचल्ला
- ३६ नाछेला
- ३७ नेमा
- ३८ नोटिया
- ३९ पलीवाल
- ४० परवाल
- ४१ पर्वाछिया
- ४२ पहासिया
- ४३ पितादि
- ४४ पञ्चम
- ४५ पोसरा
- ४६ पोरवाल
- ४७ वघरवोल
- ४८ वपर्लवाल
- ४९ वदवइया
- ५० बडेला
- ५१ वहडा
- ५२ वागरोरा
- ५३ वावरिया
- ५४ बिदियादा
- ५५ बुडैल
- ५६ वैस

- ५७ वौगार
- ५८ वहाका
- ५९ भवनगेह
- ६० भाकरिया
- ६१ भूगडवा ल
- ६२ महता
- ६३ मटिया
- ६४ माया
- ६५ मांडलिया
- ३६ मोडमांडलिया
- ६७ मेडतवाल
- ६८ राजिया
- ६९ लवेचू
- ७० लाड
- ७१ श्रीमाल
- ७२ श्रीगुरु
- ७३ सडोरिया
- ७४ सरडिया
- ७५ स्वरिद्र
- ७६ सारडेवाल
- ७७ सिंगार
- ७८ सेतवाल
- ७९ सौनेया
- ८० हरद (अवकथवालअष्ट-  
वार अस्तकी अडालिया)
- ८१ हरसोरा
- ८२ हाकरिय
- ८३ हूमड
- ८४ अग्रवार



अथ मध्यप्रदेशकी ८४ न्यात ।

१ अग्रवाल	१८ खंदणउडा	३५ नागेन्द्रा	५२ वायेच	६९ लाखमखा
२ अलल	१९ खौभू	३६ नाडरा	५३ वास	७० लाड
३ अचतवाल	२० गजेरा	३७ पधवता	५४ वाल्मीक	७१ श्रीमाल
४ अष्टावाटिती	२१ गोलेचा	३८ पघाडा	५५ गल	७२ श्रीश्रीमाल
५ अलदउदर	२२ चडचरव	३९ पंचम	५६ भटेवरा	७३ सलाड
६ गठचक	२३ चितौड	४० पांतीवाल	५७ भागक	७४ सत
७ ओसवाल	२४ जलहरी	४१ पौकरवाल	५८ भुगत	७५ सरखरल
८ कथौत्या	२५ जम्बूसरा	४२ पौरवाल	५९ भगाडी	७६ सहडेवाल
९ करटीवाल	२६ जालोरा	४३ प्रवरा	६० मथप्र	७७ सुराणी
१० कपोल	२७ जीगीपारीजी	४४ प्रदमण	६१ महेश्वरडीड	७८ सान
११ करहया	२८ जायलवाल	४५ प्रहराव	६२ मेडतवाक	७९ सौधतवाल
१२ कबौडर	२९ तचत्ररा	४६ फळ	६३ मौड	८० हलौरा
१३ ककौला	३० तलनडा	४७ वमीवाल	६४ मांडारा	८१ हरसौरा
१४ कुंथतरा	३१ धाकड	४८ वधेरवास	६५ मंडौहड	८२ हूमड
१५ खढायता	३२ नाणीवाल	४९ वघ्र	६६ मंडौरा	८३ होहल
१६ खंडेलवाल	३३ नरसिंहपुरा	५० वसमी	६७ रासीवाल	८४ हौहरण
१७ खण्डवाल	३४ नागर	५१ वायेडा	६८ रागौरा	

ओसवाल महाजन वैश्य ।

राजा उपलदे पंवार औसिया नगरका राजा था, परन्तु राजाके कोई पुत्र नहीं था, राजाने देवीकी प्रार्थना की देवीकी कृपासे राजाके एक पुत्र हुआ, उसका नाम जयचन्द्र रक्खा, उसी समय ऋषिराय रत्न प्रभु ८४ शिष्योंके साथ उस नगरमें पधारे और शिष्यके निमित्त आज्ञा दी कि पवित्र भोजन नगरसे लाओ, परन्तु किसीने इनको भोजन न दिया, तब एक ब्राह्मण इस शिष्यको अपने यहां लेगया, और बड़ी भाग्यकी सराहना करके खीर-खांडका भोजन दिया, दो शिष्य वह पदार्थ लेकर गुरुके पास गये, गुरुजीने कहा तुमने बड़ीदर की, शिष्यने कहा महाराज किसीने कुछ नहीं दिया, केवल एक ब्राह्मणने इतनी शुश्रूषा की तब गुरुजीने धरकर कहा यहां एक लाख घर हैं और भरेपूरे हैं वहांकी यह है, यह कह उस पदार्थको वहीं रखकर राजाके पुत्रको शाप दिया कि वह चेतनारहित हो जाय, तत्काल ऐसाही हुआ सारे नगरमें हाहाकार मच गया, राजा तत्काल शापके समाचार सुनकर गुरु देवके चरणोंमें जापडा, और पुत्र जीवित होनेके लिये बड़ी विनयकी, ऋषिने कृपाकर पुत्रको जिवा दिया, तब धरधर महामंगल छागया राजा ऋषिके सामने हाथ जोड-

कर खडा हो गया और कहा जो आज्ञा हो सो करूं, ऋषिराजने और कुछ न कहकर राजाको जैनधर्मकी दीक्षा दी, और राजाके जैनधर्म स्वीकार करते ही तब प्रजावर्ग भी जैनी होगये, फिर वह ओस्यासे उठकर भीनमालमें वसे क्षत्रिय अठारह शाखके हुए, वह स्थान पहला ओसवाल कहाया, इसमें पंवार शिशोदिया, सिंगाला, रणथंभा, राठौर, वंचाल, वंचाला, दया, भाटी, सौनगरा कछावा, धनगोड, जादम, झाला, जिंद खरदरापाट, यह सब जैन धर्मावलम्बी हुए. फिर पंवारोंके शासनकालमें कुछ लोग वैष्णव हुए, इस प्रकार उस नगरके वैश्यभी कोसवाल नामधारी जैनी हुए, और वहांके नरपतियोंके गोत्र जैनी होनेसे इनके भी वही गोत्र हुए आज भी यह लोग बडे धनी हैं ।

इनकी उत्पत्तिका समय संवत् २२२ है, ओसिया नगरके राजा उपलदे पंवारकूं रतन-प्रभुजीने उपदेश दिया. और पहला गोत्र कांकरिया प्रगट किया, पीछे जाति नाम और ग्रामके नामसे संवत् १७०० तक १४४४ नामतक सुनेजाते हैं कुछ विख्यात लिखते हैं । श्रीहेमन्द्र सूदिजीने मलयारको शिष्य किया वह छाकेण राठौर वंश चीपडा, माता. संचिकाय, डांगी, धाकड, धूध्या, पींभाड, नवलखा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणध, चीपडा, सांडे, यह पांच गोत्र भाई हैं, कूकड गोत्रसे चार गोत्र और प्रगट हुए, पामेचा पौकरण मातासंचाय, संवत् २४२ में प्रगट हुए, मरड्यासौनी, पौकरणा, राठौर, ग्रामहटा. साहको दीक्षा दी, बडौला, मातावर, बल, ( वरडिया ' वरड, -वाघमार. माता संचाय. आश्विन-नशुक्ला और चैतशुक्ला नौमी पूजा जाती है चौरबडिया. मातासंचाय, ४ गोत्र भाई हैं, आमदेव, गादिया, गोलेचा और पारख, भैसासाहके वंशमें चौरवडिया गोत्र प्रगट हुआ, मटा, खाव्या, भीलमाल, गौखरू, नपावल्या, सांखला, सुरपुख्या. सुकलेचा, वापणा, वौल्या, सेठिया, दक सीयाल, सालेचा ४० पूनमिया, नावडा. हींगण. लनिया, आलावत, थरावत, मौहिवाल, खुडद्या, टोडरवाल्या ५० माधौटिया, गडिया, गौढवाढ्या, पटवा. गांग, दूधे-डिया, संगवी, सांडळ । साड, सियाल ६० सालेचा पूनम्या. यह साड आदि चार भाई हैं, साडल वौरद्या.वरड ६३ माता आसापुरा हलका पूजन, आश्विन और चैत्र शुक्ला नौमी पूजा जाती है । वावेल चहुआन मुनिचन्द्र सुरिजी चक्रेश्वरी देवीका पूजन,नगरओसिया,मद्यमांसका त्याग, संवत् २४२ के पीछे भोनमाल आया, संवत् ५५१ में पंचोलेपनेका काम पंचोली वावेल० संगवी वावेलमेंसे संवत् १२७४ में वावेल गुसजनी कहांये, मलधारगच्छको रत्न प्रभुने दीक्षा दी ।

तेल्या तेलरा कलहेडा, पारसनाथजीके यहां तेल लिया जाता था मंदिरके लिये तेल खरीदा जाता था, संवत् १५२० जिस समय रानाजीने नाम कढाया तो तेल तेलरा कहाया श्रीहेमचन्द्र सूरिने विज्ञान दिया. सोलङ्की राजा सिंघराव सोलङ्कीको दीक्षा दी उसे छोहोख्या

कोचर-यह भी इस जातिकी बोक हैं किसान एक चिडिया पाली थी तभीसे यह बाकै हुआ कोठरी-सावलदास कोठारीके समयसे यह बौक चला है ।

७० तातेद गोत्र चला माता संचाय लडा माहेश्वरीको विज्ञान दिया संवत् १०१६ में । देवीपूजा इनके यहां आश्विन और चैत्रशुक्ला नौमीको होती है, नावेडा, भीमनाल ग्रामको बोध दिया, मलधारगच्छ खाटडेगोत्र. कावडया आकाशमार्गे पटविद्या, नेणेसरमाता अंबिका झंझरवाल नगवल्या ९० सन्तनाथके प्रसादसे ज्ञान हुआ, नादेचाको नंदराय दीक्षा दी, विजयागच्छ ( सौनरा चहुआन संवत् १५३२ विजयगच्छ ) ८३ सचेती दिल्लीवाल बवार मातासचेती मलधार पुनभियागच्छ ) लोढामाता बढवलपूजा आश्विनशुक्ला ९ चैत्रशुक्ला अष्टमी । श्रीश्रीमाल श्रीमाहाल, गेवरिया शाखा. माताब्रबाशांत, चैत्रशुक्ला नौमी आश्विनशुक्ला नौमीकी पूजा होती है, संवत् २४२ में मलधार गच्छको ज्ञान दिया, दिल्लीवाल मातासंचाय चैत्रशुक्ला ९ तथा आश्विनशुक्ला नौमीकी पूजा ओसियाछोडके भीमनाल जावसाया वरिणी भटा ९० संवत् ४४४ में दीक्षित हुआ, ( पूर्वमहेश्वरी मूवडा पुत्रदायिनी वौलीग्राम गटागोत्र ) वीराणी वीराजीसुं वीराणी हुआ, यह दो प्रकार हुए ( वाफणको हेमचन्द्रजीने ज्ञान दिया वाफणमें ३२ गोत्र हैं, मातासंचाय श्रीरत्नप्रभुजीसे दीक्षित सचेती माता संचाय संवत् २४२ । सुराणा सांखला पंवार जगदेवने हेमचन्द्र सूरि जीसे बोधलिया, जयदेवके पुत्र सूरिजी और मधुदेवजी हुए सूरिजीका सुराणा सांखलाका सांखला, मातासुसाणी और कौसल संवत् १०३२ में अब पांचवां कहतें हैं, सुराणा, सांखला, ककरेचा, फलोदिया, नखत ( सुरपुख्या माता आसापूरा ) मुकलेचा. शिशौदिया, बंधारावलको बोध दिया, बापाके तीनपुत्र हुए, राका, माफ और श्रवण रांकाका रावल डुंगरपुर ग्राम माफका, राणाजी चितौर गादी श्रवणकी शिशौदिया नाहार १०० साह लक्ष्मणजी महेश्वरी मूवडा, जिसके सूंडाजी गुरुप्रतापसे पुत्र हुआ, नाहारीनेचुंभी तिनरो नाहार श्रीमलधारगच्छ संवत् १०३२ । वापणा पंवार वंश मातासंचाय आश्विनशुक्ला नौमी पूजती हैं, आचार्य हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, रांकाबांकाको, रांकाजीका रांका बीकाजीका दकवल्लभी ग्राम रांकाजीका वौंक रांका, काला गोरा सेठी, पावरा, ( बांकादक ) यह छः भोतभाई हैं, दक संवत् १२७५ में तेजपालजी बलन्तपालजीकी शांतीमें छीमें, मलधारगच्छमें पंचमकी सब बात पाली हेमचन्द्राचार्यजीने विज्ञान दिया, खीमसरा खटवड मातालखानस संवत् ४२ मलधारगच्छ भट्टारक हेमचन्द्र सूरिजीने दीक्षा दी, खीवसर ग्राम वासंसेममें मिला, जिससे खटवडखीवसरा कहाये, खीवसरा शाखा गांव खाटूंमें पूरणमलजी पंवारने बोध दिया ( वं ११० पंवार वंसस २४२ मिति माह शुद्धि १४ शनिवार ) भट्टारकजी श्रीहेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, ववरेग्राममें साहनरायणदासजीका कुछ निवास्ण क्रिया, और उनको श्रावक धर्म धारण कराया, इनके पुत्र १३ हुए उनके १६ गोत्र हुए, वंभाय आलावत, पालावत थरावत, मौही वाल, खुड्यां, दौडरवाल, माधौटिया, गडिया, गौडवाड्या, पटवा, वीरावत, डूधेडिया, गांग गौध इन सोलह गोतोंकी माता संचाय है, आश्विनशुक्ला ९ चैत्रसुदी ८ । ९ पूजी जाती हैं । गांव बंबेरासे उठकर गांव गोधाणीमें

आया, देवलकराया समेत सिखरजी आबूजी गिरनारजी, दादा ऋषभ देवजीकी यात्रा की. संवत् ४५२ में पुण्य किया कुछ निवारण हुआ, गौवगोत्र स्थापन किया गुरुका पद पूजन किया, गुरुने कल्पसूत्र मोतियोंकी माला चन्द्रव ७ मोहर २५ रुपया १०००० चेला १५ भेंट किया, उक्त समयसे मलधारणच्छका श्रावक अंगीकार किया, पुण्य यथा गोत्र १६ ( १२६ गेलडा गहलौतवंश नागौर नागौरग्राम संवत् १५५२, मातादाहिमा पूजी जाती है भट्टारकजी श्रीहेमचन्द्र पूरणजां नाडौर आये, तब गहलौत गुरुका घोडा देवनोसे मोतियोंका तोवडा भरके चढादिया, घोडेने मोहरें नहीं खाईं तब गुरुने कहा तोवडा गहलडा है घोडा तो दाना खाता है तबसे गहलडा गोत हुआ, माता जायमा पूजी जाती है आश्विन शुद्धि ९ और चैत्र शुद्धि ८ पूजी जाती है । पगारया, खेतती भेडतवाल, शंकरदासजी प्रोहित शंकर दास ब्राह्मणने भीनमाल नगरमें शिवधर्म द्वारा दिया और जैनमत धाण किया, कुष्ठ रोग निवारण हुआ, उनके खेतसी और पगारसी दो पुत्र हुए, पगारसीका पगारया खेतसीका खेतसो गोत्र हुआ, पीछे भेडवाल हुआ इन तीनोंमें माता सौंहिल पूजी जाती है भिती आश्विन शुद्धि ६ और चैतशुद्धि ६ पूजी जाती है मलधारणच्छकी आचार्य श्रीहेमचन्द्र जीने विज्ञान दिया ।

जैनमतके ८४ गच्छ ।

१ अनपुरा	१८ अंधार	३५ सुंघरवार	५२ वाघेरा	६९ भुजाहरा
२ आगभियां	१९ गुदावाल	३६ घोषवाल	५३ वाइट	७० मुहडासी
३ छठविया	२० चितवाल	३७ नागौरी	५४ विगडा	७१ भोगडिया
४ ऊसगच्छा	२१ चित्रवाल	३८ नागदी	५५ यिजोहरा	७२ मोरेवडाल
५ कनरसा	२२ चीतोडा	३९ नाणावाल	५६ वुतपुरा	७३ हूदेलिया
६ काछलिया	२३ छातरीवाल	४० नागरकोटी	५७ वोकडिया	७४ रेवडवा
७ कावोना	२४ जगमयन	४१ नाडुलिया	५८ वोरसडा	७५ साधुपुनभियां
८ किरैडिया	२५ जांगल	४२ नेगमिथा	५९ भरवळा	७६ सांडोग
९ कुंचडिवा	२६ जालोरा	४३ पंचवलहण	६० भरनरा	७७ साचोरा
१० कोरादाल	२७ जीरावास	४४ पलीवाल	६१ भावटगा	७८ सिंघाती
११ कोछीपूरा	२८ नीणहारा	४५ पालनपुर	६२ भिन्नपाल	७९ सिंद्धपुरा
१२ खरतर	२९ डाकोडवा	४६ पुनतरा	६३ भीमसेनी	८० सुराणा
१३ खम्भायती	३० तपा	४७ वरडवा	६४ मंडार	८१ सुपादिया
१४ खंभानिया	३१ तीकडिया	४८ वर्डगछा	६५ मलधार	८२ सेवता
१५ गुबेलिया	३२ दासरुवा	४९ वहेडिया	६६ महघर	८३ संगडिया
१६ गळपाल	३३ दौअदणी	५० पडोदिया	६७ मसौनियां	८४ हंसारिमा
१७ गंगेसरा	३४ धर्मघा	५१ ब्रह्माडिया	६८ मांडलिया	

## गच्छोंकी उत्पत्तिका समय ।

- संवत् ९९४ में प्रथम पौसालमंडीलगच्छ हुआ ।  
 संवत् १००१ में खतरगच्छ उज्ज्वल महात्मा कहाया ।  
 संवत् १२१४ में आचल्यगच्छ हुआ ।  
 संवत् १२३४ में नागौरी तथाहर सौरागच्छ स्थापन हुआ ।  
 संवत् १२५० में आगभिया पुनभिया महात्मा हुआ ।  
 संवत् १२६५ में तपः प्रथम तपगच्छ चित्रवांद दोनोंके तपकरसे लीगच्छ हुआ ।  
 संवत् १५२७ में तरयंति तरे उदैपुरिया भवसरिया हुआ ।  
 संवत् १५२३ में महतान्दकासे लूकागच्छ हुआ ।  
 संवत् १५३१ में स्वयंलूका हुआ ।  
 संवत् १५१८ में कुंवरमति हुआ ।  
 संवत् १५७२ में तपाजतीने क्रियाकर उद्धार किया ।  
 संवत् १५८३ में आनन्दविमलक्रिया उद्धार किया ।  
 संवत् १५७६ में पायचन्द्र क्रिया उद्धार किया ।  
 संवत् १५४४ बीजामतीलूकामेंसे है ।  
 संवत् १६०२ आंचलिया क्रिया उद्धार की ।  
 संवत् १६०५ खरतर क्रिया उद्धारी ।  
 संवत् १७३५ लूकामेंसे हूँदा बीजामती दो निकले हूँदा ।  
 संवत् १७३५ हाजी साधुकी औपधीसे प्रगट हुआ ।

बसमत ।

आंचलियामति, पाइचन्द्रमति, काजामति, पाटनिशामति, लूकामति, साकरमति, कौथलामति कडावामति, आतममति, बीजामति, लूकामेंसे निकले ।

## गोरारा महाजन ।

श्रावक तीन प्रकारके होते हैं, गोरारे, गौलसिंधारे, गालापूर्व, यह भेद हैं, इन लोगोंका जैनमत है इनका रहना ग्वालियर इटावा आगरेके इलाकमें है, इनके २२ गोत्र सुनाई आते हैं । पावेके सेंगई, गयेलीके सगई गौरिया, वेदगोत नरवेदपुरवेद, सिमरैया, चौधरी, कूकन्या, उद्यागोत, तसटिय, बडसइया, तैतगुरिया, चौधरी बरादके, सराफगोत, अवदइया, डनसइमा गोत, कौसाडिया, सौहाने जमसरिया, चौधरीजासूद, चौधरीकौलसे, वरेइयागोत ।

वधेरवाल ५२ गोत्र ।

वधेरवाल महाजन गांव वधेरामें राजा वृद्धसेनके समयमें,

## भाषाटीकासंवलितः ।

( ३०५ )

बावन गोत्र प्रगट भये उनके नाम ।

१ अवेपुरा गोत	१४ भाडाखागोत	२७ वनवाड्या गो०	४० पापल्या गो०
२ कटास्या गोत	१५ जिठार्लावाण गो०	२८ धौल्या गो०	४१ भूगखाल०
३ कोटिया गोत	१६ सधूच्या गोत	२९ पगाच्या गो०	४२ सुरलाया गो०
४ खटवड गोत	१७ जोगिया गोत	३० वौरखंड्या गो०	४३ गंवाल गोत
५ लावावास गोत	१८ निगौत्या गोत	३१ दीवड्या गो०	४४ ठगगोत गो०
६ साखून्या गोत	१९ कावरिया गोत	३२ वरमूड्या०	४५ सौराया गो०
७ धनौत्या गोत	२० ठाड्या गोत	३३ तातहड्या०	४६ केतग्या गोत
८ सावधरा गोत	२१ कुचीलिया गोत	३४ मंडाया गो०	४७ बहरिया गो०
९ वावच्या गोत	२२ मादलिया गोत	३५ वालदचट०	४८ सीलौस गो०
१० सीघाडातौड गो०	२३ सेडिया गोत	३६ पीतल्या०	४९ खरड्या गो०
११ वागड्या गोत	२४ मुडवाल गोत	३७ दगौच्या गो०	५० चमाच्या गो०
१२ हरसौरा गोत	२५ सांभच्यागोत	३८ भूच्या गो०	५१ सावुन्या गो०
१३ सादूला गोत	२६ सरवागच्या गोत०	३९ देहतौडा०	५२ अविदितगो०

नरसिंहपुरा महाजनचैत्री गोत्र ।

भट्टारक श्रीरामसेनजीकी स्थापना १०८ इनकी उत्पत्ति नरसिंहपुरा नगरसे है । भट्टार-  
कजीने श्रीरामसेनजीके उपदेशसे जैनधर्म त्यागकर नृसिंहधर्म धारण किया—

खडनर	वारणी देवी	खलण गोत	कटेश्वरी देवी
पुलपगर	पावई देवी	खांभी गोत	वरवासन देवी
भीरुडहौडा	अवाई देवी	हरलौल गोत	चक्रेश्वरी देवी
विभडिया	धरु देवी	नागर गोत	नीणेश्वरीदेवी
पवलमथा	पवाई देवी	झडपडा गोत	पिशाची देवी
पडतह	पलवी देवी	जसौहर गोत	झांझणी देवी
सुमनौहर	सौहनी देवी	वारोड गोत	पिपला देवी
कलसथर	मौरिण देवी	कथौटिया गोत	पिरण देवी
कुंकूलौ	चक्रेश्वरी देवी	पञ्चोलल गोत	मौरण देवी
		मौकरवाडा	०
कौरटेय	बहुरूपिणी देवी	वसौहरा गोत	सीवाणी देवी
सापडिया	पसावती देवी	रयणपारखा	रयणी देवी
तेलिया गोत	कांतेश्वरी देवी	अभथिया	रोहिणी देवी
वलौला गोत	अंबा देवी	मुद्रपसार	भवानी देवी

## खंडेलवाल ।

धन विषयमें वा आचार व्यवहारमें खण्डेलवाल भी अग्रवालोंसे किसी प्रकार कम नहीं हैं, जयपुर राज्यके खण्डेलानगरके नामसे इस सम्प्रदायका खण्डेलवाल नाम हुआ, एक समय खण्डेला नगरी राजपूत शेखावतोंका केन्द्रस्थल थी. संवत् १ में जिनशैनाचार्य ५०७ मुनिराज साथ लेकर माघ शुद्धी पञ्चमीको खण्डेलानगरमें आये उस समय वहांका खण्डेलगिरि नाम राजा सूर्यवंशी चौहान राज्य करता था, उसमें ८३ गांव लगते थे, उस समय वहां घरघर महामारी विसूचिका फैल रही थी। जिसके कारण देशमें हाहाकार मच रहा था, अनेक उपाय करनेपर भी जब महामारी शांत न हुई तब राजा उन ५०० मुनिराजोंकी शरण गया और बड़ी प्रार्थना की, तब ऋषिराज बोले जैनधर्म स्वीकार करो, देश २ में भगवानकी प्रतिमा पधराओ शांति होगी, राजाने ऐसाही किया, और देश भरमें शांति हुई, ८२ क्षत्रिय और दो गांवके मुनार हाजिर थे, सब श्रावक धर्ममें दीक्षित हुए, राजाका साहागोत सौठीलाराता साह कहाया, शेष गांवोंके नामसे मोत हैं, साहकी देवी चक्रेश्वरी है, शेष तिरासी ठाकुरोंकी देवी अपने राजकुलकी हैं और गांवके नामसे गोत्र चले और ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे लिखते हैं ।

सं०	गोत्र	वंश	उत्पत्तिग्राम	देवी
१	साह	चोहाणा	खण्डेले	चक्रेश्वरी
२	पाटणी	तुंवर	पाटणी	आवणा
३	पापडीवा	चौहण	पायरी	चक्रेश्वरी
४	दोसी	राठोर	सेसणि	जमवाइ
५	सेठी	मोरवंशी	सेठौल	पद्मावती
६	भौसा	चौहाण	भावसो	चक्रेश्वरी
७	चादिबार	चन्देल	चीदवारी	मातणी
८	मोठा	ठीमर	मौठोल	ओराली
९	नरपत्या	सीगई	नरपत्य	ओमणी
१०	गाधा	भौड	गोधाणी	नांदणी
११	अजमेरा	गौड	अजमेर	नांदणी
१२	दरहोद्या	चोहाण	गाधहौ	चक्रेश्वरी
१३	गदिया	चोहाण	गधिहौ	चक्रेश्वरी
१४	पाहारया	चोहाण	पहारी	चक्रेश्वरी
१५	भूछ	सौरईसूर्यवं०	भूछड	आमणी
१६	वज्र	सुनाल	खंडेले	मोहणी
१७	राराराळ	राठोड़	खंडेले	मोहणी

सं०	गोत्र	वेश	उत्पत्तिग्राम	देवी
१८	वज्रमहराया	सुनार	खंडेले	मोहणी
१९	पाटोदी	तुंबर	पाटोद	पद्मावती
२०	गंगवाल	कछावा	गंगवाणी	जमवाई
२१	पांड्या	चोहाण	पादरीगूंथे	चक्रेश्वरी
२२	वीलाला	टीमर	वझिविला	औसली
२३	विनाइका	गहलौत	विनारल	चौथी
२४	विरलाला	कुरुवंशी	लाडिविला	सानली
२५	वाफलीवाल	मोहल	वोकाली	जीणी
२६	सौनी	सोरई	सोनाही	आमणी
२७	कासलीवा	सोहिल	कासली	जीणी
२८	पांपर्या	साराइ	पापली	आमणी
२९	सौगाणी	कोटसू. वं.	सौगाणी	कनहड
३०	झाझरी	कछाहा	झंझरी	जमुनार्ती
३१	पाला	कुरुवंशीज्ञा	कुरुवंशी	लोहणी
३२	वेद	सोरई	पावड	आमणी
३३	डुंग्या	पवार	टौंगे	पावाडी
३४	बोहोरा	सोटा	वोडड	सीतल
३५	फाला	कुरुवंशी	कुरुवंशीज्ञः	लोहणी
३६	छावरा	चोहाण	छावड	आरौली
३७	लोहाग्या	सोरई	हैहज	आमणी
३८	लुहाडञ्जा	मोरवावंशी	लाहड	लोसली
३९	भडशाली	सोलंखी	भडशाली	आमणी
४०	दगड्या	सोलंखी	दगरौदी	आमणी
४१	चौधरी	तुंबर	चौधरी	पद्मावती
४२	पोडल्या	गहेलौत	पोटल	चौथी
४३	दगड्या	सौढा	गदीड	श्रीदेवी
४४	सांवुण्या	सौढा	सांवूण	शरराई
४५	नोपडा	चन्देल	अनोपगड	मातरी
४६	मूलराज्य	कुरुवंशी	मूलराज	सोनली
४७	निगोत्या	गौड	नगौती	नादणी
४८	पिंगल्या	चोहाण	पिंगल	चक्रेश्वरी



क्र०	गोत्र	वेश	उत्पत्तिग्राम	देवी
४९	भूर्लण्ड्या	चोहाण	भूलनका	चक्रेश्वरी
५०	बनमाल्या	चोहाण	बनमाला	चक्रेश्वरी
५१	अरडका	चोहाण	अरडका	चक्रेश्वरी
५२	रावत्या	ठींमरसोम	रावत्यो	अरोली
५३	मोदी	टीमरसोव	मोघी	अरोली
५४	कोकरोज्या	कुरुवंशी	कोकराज	सोनली
५५	राजराज्या	कुरुवंशी	जगराज	सोनली
५६	छाहड्या	कुरुवंशी	छाहडी	सोनली
५७	टुकड्या	वुजलवंशी	डुकडी	हेमादेवी
५८	गोतवंशी	दुजली	गोतडी	हेमादेवी
५९	वोरबंड्या	दूजिल	वोरखण्ड	हेमादेवी
६०	सरपत्या	गोहिल	सरपती	यजीणिदेवी
६१	चरकण्या	चोहाण	चरकोनी	चक्रेश्वरी
६२	सावड	गौड	सरकोनी	नांदणी
६३	नगोद्या	गौड	नगद	नांदणी
६४	निरपोल्या	गौड	विरपल	नांदणी
६५	पितल्या	चोहाण	पितलगांव	चक्रेश्वरी
६६	कलमान	दूजिल	कुलमाना	हेमालदेवी
६७	कडुवाग	गौड	कडवागरी	नांदणी
६८	सोमसा	चोहाण	सौभासका	चक्रेश्वरी
६९	हलट्या	मोहिल	हलघोनी	गीणिदेवी
७०	सोमगद्या	गहिलोत	सावड	चोधिदेवी
७१	वेष	सौढा	वावला	तकसरी
७२	चौवोस्या	चोहाण	चौरारो	चक्रेश्वरी
७३	राजहंस्या	सोढा	राजहंस	संकाइ
७४	अहंकात्या	सोढा	अहंकार	संकाइ
७५	भुसावरी	कुरुवंशी	भुसावर	सोनली
७६	सोलससा	साठा	माश्वेश्वर	संकाई
७७	भांगड्या	टीमर	भंगड	आरोली
७८	लहाड्या	मोरवंशी	लाहेड	लोसणी
७९	खेत्रपाल्या	वीजौल	खेत्रपाल	हेमादेवी

## भाषाटीकासंवलितः-

( ३०९ )

स०	गोत्र	वेश	उत्पत्तिग्राम	देवी
८०	राजमड्या	कछाहा	भूराइ	जमवाई
८१	जमवीजा	कछाहा	जलबानी	जमवाई
८२	जलवीजा	कछाह	नछवानी	जमवाई
८३	वैनाड्या	दीपर	वनपड	आरोली
८४	कठीवाल	सोठा	लटवो	आरोली

अथ षड्दर्शनानां षण्णवतिभेदाः ।

अथ चार्वाकभेदाः ।

अथ जैनभेदाः ।

१ चौदसिया	४ आंचलिया
२ पुनमिया	५ बुटिया
३ आगमिया	६ ऊकट

अथ दिगंबरः ।

१ काष्ठ श्रुंगी	६ परणिया
२ मयूरश्रुंगी	७ वैसागारि
३ हिमाकूडा	८ वैद्य
४ नठावाजागरिया	९ धृत
५ जागारिया	१० पुजारा

इति जैनभेदाः

अथ बौद्धभेदाः ।

१ चांदा	९ माड
२ सानघडिया	१० विट
३ दगडा	११ पाइमा
४ डांगरा	१२ दुरा
५ मूतवाल	१३ गरोडा
६ कमालिया	१४ गुणघुली
७ मूलथाणिया	१५ जगहीषया
८ पेटफोडा	१६ वोगवेडिया

इति बौद्धभेदाः ।

१ जोगी

९ नमोधनेतरं

२ हरमेखलिया

१० रसाणिया

३ इंद्रजालिया

११ धनुर्वादिश

४ नागदामनि

१२ भिक्षु

५ तोतलमति

१३ तुम्बर

६ भाटमतिया

१४ मंत्रवादि

७ उरुकुलमती

१५ शास्त्रकामि

८ गोगमनिया

१६ यात्रदायक

१७ नोरसिया

इति चार्वाकाः

अथ जैमिनिभेदाः ।

१ ब्राह्मण

९ ज्योतिषी

२ वास्तिय

१० पंडित

३ अग्निहोत्री

११ चतुर्मुखपा

४ दीक्षित

१२ कथकः

५ याज्ञिक

१३ केहुलिया

६ उपाध्याय

१४ वैष्णव

७ आचार्य

१५ कउतगियः

८ व्यास

१६ वडुमा

१७ भाट

इति जैमिनि भेदाः ।

अथ सांख्यभेदाः ।

१ भगवन्	९ छंगा
२ त्रिदंडीयः	१० गुगलिया
३ स्नातकाः	११ दंभिकं
४ चांद्रायणः	१२ गलवहडिया
५ मौनिया	१३ शंखिया
६ गुणिया	१४ कलेसरिया
७ कविया	१५ अवतारिया
८ कुराडा	१६ स्वामिया
	१७ नागरिया

अथ नैयायिकभेदाः ।

१ भरडाः	९ नम्माः
२ शैवाः	१० अयाचकाः
३ पाशुपताः	११ एक भिक्षु
४ कापालियाः	१२ धाडिवाहा
५ घंटालाः	१३ आमरी
६ पाहूया	१४ पथियाणा
७ आकडाः	१५ मटपति
८ केदारपुत्राः	१६ चाररपी
	१७ कावमुखा

इति सांख्यभेदाः ।

इति षड्दर्शनानां षण्णवतिभेदाः समाप्ताः ।

बेलके गुथे हुए सातशतसंज्ञावली पत्र.

श्री.	ऊ.	कसेरा	कूकड्या
श्रीचंदाणी	ऊलाणी	कोडयाका	कुलथ्या
श्रीचंदौत	ऊनवाल	कूया	कलाणी
अ.	ऊंधाणी	काहा	कांकाणा
अजमेरा	क.	कानूंगा	कःलाणी
आगीवाला	कौठारी	कचोल्या	कलंत्री
आगसूड	कौठारी	कासद	कलंक्था
आसवा	कौठारी	काकडा	कांकांणी
आसौफ्त	कौठारी	कदसूरा	कवरा
अठासण्या	कौठारी	केसावत	कंसूम
अठेरण्या	कौठारी	करनाणी	कील्या
अषेसिंगौत	कौठारी	कांक-या	कीपा
अठास्यां	केला	कान्हाणी	कर्मसौत
अअपाल	केला	किसत-या	करनाणी
अरजवाणी	केला	केरा	कहरा
अटल	क्याल	कर्मचन्दौत	क्रमसानी
ई.	क्याल	कपूरचन्दौत	कालाणी
ईनाणी	काला	काल्या	कलावन
	कदाल	कौज्या	कला

करमा	गीदौड्या	चितलंगी	शीतड्या
करवा	गरविया	चापटा	झारलरिया
कौकाणी	गायलवाल	चावंडया	झालरिया
करणानी	गंगड	चतुरभुजाणी	ट.
काहौर	गौन्या	चमार	टोपीवाल
काग्या	गिलगिलया	चापसाणी	टीलावत
किकल	गौकन्या	चौषाणी	टुवाणी
सुकवावाल	गुडचक	चंडक	ठ.
कुचकुच्या	गीगल्या	चांच्या	ठाकुराणी
कुंभ्या	गुलचट	चेचाणी	ठीगां
ष.	घ.	छ.	ड.
षरड ( सारड )	धीया	छापरवाल	डागा
षरड ( षठवड )	घरडौल्या	छाछया	डावा
षरड ( ऊवर )	धूवन्या	छींतरका	डामडी
षडर ( चेचाणी )	च	छुन्या	डौडा
षूंच्या	चोधरी	ज.	डाड
षुवाल	चोधरी	जाजू	डडी
षागदा	चोधरी	जेथल्या	डाणी
षटमल	चोधरी	जाषेठिया	डापेडा
षावर	चोधरी	जेषाणीं	डाल्या
षेमाणी	चोधरी	जुजेसस्था	डांगरा
षेताणी	चोधरी	जौला	डौड्या
षटवड	चोधरी	जटाणी	डौडमहूता
षेतावंत	चोधरी	जेठा	डचक्यौड्या
षोडावाला	चोधरी	जालाणी	ढ.
षरनालिया	चिगनौडा	जिंदाणी	ढेढ्या
षावाषी	चरषा	जूहरी	ढौली
षींवड्या	चोंपडा	जेरामा	त.
षूमडा	चहाडका	जजनोत्पा	तुलावड्या
षेलीवाल	चिमक्या	जुगरामा	( जाजू )
ग.	चमड्या	झ.	तापड्या ( वागई )
गमराणि	चेनारथा	झवर	तापड्या

तौसणीवाल  
 तहनाणीं  
 तैला  
 तेजाणीं  
 तौडा  
 तिरथाणी  
 तौतला  
 तुलाछाडी  
 तूमड्या  
 तुरक्या  
 तौरण्या  
 थ.  
 थिररांणी  
 थेषड्या  
 द.  
 दागड्या  
 दादड्या  
 दमाणी  
 दमाणी  
 देवगठाणी  
 देवताणी  
 दुठाणीं  
 दुरगणीं  
 दरक  
 दगडा  
 दादल्या  
 दमलका  
 दास  
 दग्गा  
 दरावण्या  
 दुजारा  
 दुरावत

दुसाज  
 द्वारकाणी  
 देवराजाणी  
 देवावत  
 दूदाणीं  
 देसवांणी  
 दंताळ  
 दरगण  
 देवपुरा  
 दिहराजाणीं  
 दसवांणीं  
 ध.  
 धूपड  
 धूत  
 धोलेसरद्या  
 धारूका  
 धीरण  
 धौल  
 धौल  
 धौल  
 धराणीं  
 धीराणीं  
 धीराणीं  
 धराणीं  
 धनाणीं  
 धनाणीं  
 धनाणीं  
 धनद  
 धंणवाल  
 न.  
 नौसण्या  
 नौसण्या

नाववर  
 नरसण्या  
 नुगरा  
 नरड  
 नागोरी  
 नेवर  
 न्हार  
 नगवाड्या  
 नेसतौत  
 नाटाणीं  
 नौळपा  
 नेताणीं  
 नथाणीं  
 नानगाणी  
 नरेशणी  
 नापाणी  
 नानधराणी  
 नाग  
 नोगजा  
 नवाल  
 नगपोच्या  
 न्याती  
 निकलंक्र  
 नराणींवाल  
 नरवर  
 नाडागट  
 नेणसर  
 नरेड्या  
 नांगल्या  
 प.  
 पसारीवंग  
 पसारी ( मिणीया )

पसारी ( विहाणी )  
 पसारी ( मूषणां )  
 पुंगल्या  
 पूल्याळौ  
 पूगल्या  
 पूंजलिया  
 पूनपाल्या  
 परसावत  
 परमसमा  
 पांत्या  
 पनाणीं  
 पायाणी  
 पियाणी  
 पापड्या  
 पलोड  
 पाचीस्या  
 प्रतिसिंगौत  
 पदाणीं  
 पीनाणीं  
 पूरावत  
 पडचीवाल  
 पीपाणी  
 प्रगाणी  
 पोसण्या  
 पौरवार  
 परवार  
 पटवारी ( साडरा )  
 पटवा ( वंग )  
 पटवा ( तोवल )  
 पट ( चंडक )  
 पट ( सारडा )  
 प्रहलादाणी  
 प्रहलादाणी

पडवाल  
पेडिवाल  
परताणी  
पालाड्य  
फ.  
फौफल्या  
फौफल्या  
फौगीवाल  
फतेसिंगौत  
फांफट  
फूलकचौल्या  
ब.  
बजाज  
वेहेड्या  
बेजारा  
वाडरड  
बनाणी  
बबागणी  
बौधाणी  
बिसहर  
बगढाणी  
वापेचा  
बालेपौता  
बावरी  
विसताणी  
वंग  
बसदेवाणी  
बेकट  
बडिया  
बारीका  
ब्रजवासी  
बिहाणी

बडहका  
बाजरा  
बछाणीं  
वापडौता  
बेजारा  
बिठाणीं  
बहाडका  
बाहेती  
बील्या  
बावलाणीं  
बासाणी  
बुगढाल्या  
बटंड्या  
बायाणी ( रागी )  
बाया ( बोहवी )  
बायला ( राग )  
बाधला ( बाहोती )  
बंव  
बंबू  
बूब  
भ.  
भौलाणी ( राठी )  
भौलाणी ( डुरकाट )  
भाकराणी ( राठी )  
भाक ( भूघड )  
भाकरोवा ( लठ )  
भाक ( तौसणी )  
भया ( राटी )  
भया ( चंडक )  
भया ( लपौय्य )  
भगत ( झंवर )  
भ ( कावरा )

भूरा ( मालपानी )  
भन्साली  
भलांका  
भराजी  
भावनात  
भांगड्या  
भैराणी  
भूत  
भकड  
भौजाणी  
भूरिया  
भौजाणी  
भटड  
भाला  
भूनडा  
भंडारी  
भागचंदौत  
भकावा  
भिचलाती  
भूक्या  
भीषाणीं  
भुराड्मा  
भुवानीवाल  
भगूल्या  
भूत्या  
म.  
मैंडौवरा  
मांनाणीं  
मडदा  
मजीवाल  
मरक्या  
मकर

मिरच्या  
मात्या  
मातेसरया  
महेसराणी  
मूंजी  
नौराणी  
मूधाड  
मीचरा  
माहलाणा  
मरौडी  
मलावत  
मल्ल  
मलड  
माल  
मिज्यानि  
मौडा  
मोहाणी  
मेण्या  
माडा  
मंजीडा  
मडिया  
मुकनाणीं  
मुंजाणीं  
मालीवाल  
माधाणी  
महराठाकुराणीं  
मेडिया  
मथराणी  
माधाणी  
मानावत  
मरचूचा  
मदसुदनौत

मानसिंगौत  
 महारा  
 मरौठिया  
 माराणी  
 मछर  
 मैदानी  
 महदाणी  
 मांडभ्या  
 मुरक्या  
 मालपाणीं  
 मौनाणा  
 मौठड्य  
 गड  
 मेमाणी  
 मुवाणीवाल  
 माणभ्या  
 मंत्री  
 मुकनाणी  
 मांधीणा  
 मणियार  
 माइय्या  
 महारा  
 महारा  
 मनक्या  
 सूनदासौना  
 मूछाल  
 मौलासरया  
 माणूघण्या  
 मांभूधणा  
 मामाली  
 माणक्या  
 मालाणी  
 मालाणी

मालाणी  
 मीमाणीं  
 मीमाणीं  
 मुलतानी  
 मुलतानी  
 मुलतानी  
 मौदी  
 मौदी  
 मौदी  
 मौदी  
 मौदीं  
 मटक नटाणीं  
 मीलक  
 मीमाणीं  
 मूलाणी  
 मुडुलाणीं  
 मुसाणी  
 मुसाणी  
 मौड  
 मूथा  
 र.  
 राय  
 राय  
 राय  
 राय  
 राय  
 राय  
 रूप  
 रुड्या  
 रुड्या ( वाहेती )  
 रामावत ( रोगी )  
 रामावत ( वजाज )

रूपार  
 रूया  
 रूधा  
 राधाणी  
 रामाणी  
 रणदोता  
 राधवणी  
 राह्या  
 राईवाल  
 राजमहूता  
 रावत्या  
 रौल्या  
 रामचंदौत  
 राहूडा  
 राठी  
 रतनाणी  
 रांदरड  
 रूपानी  
 रदाणी  
 रधाणी  
 रेणीवाल  
 रीमाणी  
 ल.  
 कोहौटी  
 लटा  
 लौईवाला  
 लंबू  
 लालावत  
 लौईका  
 लपावत  
 लेषणिया  
 लषासचा

लौगई  
 लाठी  
 लदड  
 लषौटया  
 लौलष  
 लटुय्या  
 लीकासण्या  
 लाळचंदौत  
 लषाणी  
 लूलाणी  
 लूणाणी  
 लपवाणी  
 लालाणीं  
 लौलाणीं  
 लौधा ( पाहेती )  
 लोरविहाणी  
 लौसल्या ( पटवड )  
 लौस ( षलौड )  
 ललाणी  
 लालणियां  
 स.  
 सानी  
 सारडत  
 तमवाणी  
 सेठ  
 सोभावत  
 सुरगा  
 संतुय्या  
 साह  
 सातसाणी  
 संधा  
 स्याहार  
 सिंधी

सूम  
सीलाणी  
सीलार  
झौटाणी  
सिकची  
सहणा  
सौनकचाल्या  
सुजाणी  
सुरचा  
साहणी  
साहताडी  
सुरजन  
सीहाणीं  
सेठी  
समाणी  
संकर  
सकरच  
सालाणी  
सेणां  
सागर  
सावल  
सुन्दराणी  
सीधड्मा  
साहा  
सांवलका  
सादाणी  
सागाणी  
सावताणी  
स्यहरा  
सोन  
सौमाणी  
सौमाणी

सकराणी  
सकराणी  
सेसाणी  
सेसाणी  
सिंगी  
सिंगी  
सिंगी  
सुवाणीं  
सुवाणीं  
सराफ  
सांभन्धा  
सांभरचा  
सकरेण्या  
साबू  
साबूप्या  
सरवइया  
सुजाणी  
ह.  
हेडा  
हींग्या  
हींगर्ड  
हरकाणीं  
हौलणीं  
हडकुटिया  
हरकेट  
हलधा  
हौलासरचा  
हरिदासौत  
हरचन्द्राणी  
इति.

अथ दिल्ली मंडलके  
संपूर्ण जातिके  
महाजन ।  
श्रीमाल  
श्रीश्रीमाल  
श्रीखंड  
श्रीखंडा  
श्रीगौड  
गोलवाल  
मोंगवाल  
गंगरवाल  
गोधराल  
गौलाल  
गुदेल  
गाहोई  
गंगराडा  
गोलवाडा  
गोलराड  
मूजर  
भीदौडिया  
गुरवार  
गीगन्धु  
गोलपुरा  
गौलसिंघाडे  
गौलापूर्व  
गोरारेजैनी  
छीपी  
चौरंडिया  
चौरडिया  
चीतौडा  
चकड  
चतुरथ

बुडेलवाल  
चौकसा  
चकचाप  
श्रीगुरु  
कटाडा  
कठनेरा  
कांकारिया  
कखस्तन  
चित्रपाल  
चाल  
जम्बूसरा  
दायलवाल  
जालौरा  
जानौरा  
जादू  
जसवाल  
जोजरा  
जोधपुरा  
जुईवाल  
झालरा  
टगचाल  
टीटोडा  
टंटेरिया  
डीडू  
डिडउम्मर  
डूसर  
डूसर  
तनवाल  
तरौवा  
दंसवास  
देहीवाल  
दसौरा



दीसानाल  
 दीछीवाल  
 धाकड  
 कपौला  
 कूसन्या  
 कुरंदवाल  
 कोहले  
 कौनड  
 धवलकौस्टी  
 नरनाया  
 नरसिवा  
 नरसिंहपुरा  
 नाराणीवाल  
 नवामरा  
 नातिया  
 नागर  
 नारनगरेसा  
 नागिद्रा  
 नाथचछा  
 नाछेला  
 नागोरी  
 नेकधर्न  
 नेमा  
 नौटिया  
 पछीवाल  
 पदमावतिपार  
 पोरेवार  
 पसापा  
 पवारछिया  
 पारख  
 पिबादि  
 परवाल

पौहकवाल  
 पौसरा  
 पंचम्  
 कंदोइया  
 कमोइया  
 कारेगराथा  
 कौमठी  
 कसारा  
 पंदाड  
 पोकरा  
 ववेरवाल  
 वारछवाल  
 वरमाका  
 वदवइया  
 वरैया  
 वदजौरा  
 वडगूजर  
 वंहौरिया  
 विरमाका  
 वगौला  
 वालमिकि  
 वागडिया  
 वणिहया  
 बीजावरगी  
 विदियाद  
 वैंस  
 वैशंपायन  
 वेदवगी  
 वेहडचा  
 वैराटिया  
 वोगार  
 वमर

वडेला  
 भटनेरा  
 भवनगे  
 कथार  
 कागठवाल  
 कंसवे  
 कमुंडीवाल  
 कसरवानी  
 भाकरिया  
 साटिया  
 भावसाररगारे  
 भांग  
 भूगडवाल  
 भूरला  
 भुजपुरं  
 भटेरा  
 मत्तवाल  
 भलिनघोर  
 महत्या  
 माहेश्वरी  
 माथुरिया  
 पाहुरे  
 महागदे  
 माइया  
 भाटिया  
 मूरले  
 भेरतुवाल  
 भेवाडिये  
 मौडचतुर्वेद  
 मौडमांडल  
 रत्नकरा  
 राजपुरा

रगीलपुरा  
 राजिया  
 राजकुली  
 खंडेलवाल  
 खेढावाल  
 गेभवाल  
 खंडेर  
 खटौडां  
 रायकवाल  
 राजून्याती  
 रस्तौगी  
 लवेचू  
 लवाणा  
 लाड  
 लिङ्गावत  
 लौहिता  
 लहेलवा  
 सडीइया  
 संवीधिया  
 संगनार  
 सरावगी  
 साढ  
 सीरौद्या  
 मुखंडरा  
 सुराम  
 सुनवानी  
 सुरंद्रिया  
 सेरिया  
 सौहिले  
 सोरठवाल  
 सोहिलवाल  
 सौधितवाल

सौरडिया	सींहार	अगरवाल	आरौडा
सानेइया	हरसौरा	अजौधिया	ओसवाल
खतूरी	हलदिया	अडालिया	अंझवाल
खंडवस्त	हरद	अटूसका	इन्द्रपुरा
खरुवा	हाकरिया	अहिछते	इक्ष्वाकुवंशी
खडायते	हूमड	अष्टवार	उस्तवाल
गोइलवाल	अजमेरा	अस्तकी	उम्मर
सौरमिया	अवकथवाल	आनंदे	उदेपुरा

गहोई ।

यह एक वैश्य जातिका उपभेद है, यह जाति बुंदेलखण्ड मुरादाबाद झांसी जालौनललि-  
तपुर आदि नगरोंमें विशेष रूपसे निवास करती है, इसका मुख्य निवास बुन्देलखण्ड है,  
पिंडारियोंके आक्रमणसे दुखी होकर वह जाति देश देशान्तरोंमें फैलगई है, कोई कहते हैं  
अपनेको व्यापार कुशल रखनेके कारण प्रत्येक विषयको यह गुह्य रखा करतेथे, इसकारण  
लोग इनको गुह्यही कहने लगे, पीछे गुहोई गहोई और गही नाम पडग्या, एक पानडे ब्राह्म-  
णने विपत्ति कालमें इनकी बडी रक्षा की थी, इनके बारह गोत्र और १०२ अल्ल कहीं  
जाती हैं, वासिल, धोयल, गंगल, बंदल, जैतल, कंथिल, काछिल, वाछिल, कश्यप, भूरल,  
पाटिया और सिंगल । विवाह इनमें गोत्र बचाकर होता है, यह प्रायः वैष्णव धर्मावलम्बी  
होते हैं परन्तु कहीं २ आचारभ्रष्ट भी हैं, कुलदेव इनके विहारीजी हैं. युक्तप्रदेशमें यह  
जाति कोई ४० सहस्र है, कोई इनमें यज्ञोपवीतधारी हैं, कोई नहीं हैं, इनके यहां ब्राह्मण  
पक्वान्न भोजन करते हैं, गौड ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं । पोरवाल, पुरवार, खरौवा, पोरवाल  
वैश्योंके साथ इनका पक्वान्न भोजन व्यवहार है, बुंदेलखंडमें पाटिये ब्राह्मण इनके यहांका  
दान पुण्य लेते हैं ।

द्वादशश्रेणी ( बारहसेनी )

राजा बल्लालसेनके समय जो जाति विभाग हुआ था, उस समय वैश्य जातिकी चौदह  
श्रेणीतकका पता लगता है । चौसेनी, बारहसेनी, दस्से इत्यादि नामोंसे यह लोग प्रसिद्धहैं,  
और सब वैश्य हैं, इनके संस्कार भी होते हैं और सब व्यापार तथा दुकानदारी करते हैं,  
इनके गोत्र अल्ल आदि भी हैं और विवाह सम्बन्ध आदि गोत्र बचाकर करते हैं ।

पल्लीवाल ।

भारवाड और जोधपुर राज्यके अन्तर्गत पल्लीनगरमें निवास करनेके कारण यह सम्प्रदाय  
पल्लीवाल नामसे विख्यात हुई, इस देशके निवासी ब्राह्मण भी पल्लीवाल नामसे विख्यात हैं ।  
११५६ ख्रिष्टाब्दमें राठौड राजाने पल्ली नगरमें अधिकार किया, उससे बहुत पहले यह नगर

एक वाणिज्य केन्द्र माना जाता था, यह जैन और वैष्णव मतावलम्बी हैं. आगरा और जौनपुर विभागमें बहुसंख्यक पल्लीवाल्लोंका वास है ।

### पुरावाल ।

गुजरातके पोरवा पोरबन्दरके वास होनेसे यह पुरावाल कहकर प्रसिद्ध हैं, इस समय ललितपुर, झांसी, कानपुर, आगरा, हमीरपुर, बांदा जिलमें इस जातिके बहुत लोग रहते हैं, यह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, श्रीमाली ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं, अहमदाबादके विख्यात धनी महाजन भागुवाई पुरोवाल वंशोत्पन्न हैं ।

भाटियागण राजपूताना वासी हैं, यह अपनेको राजपूत बताते हैं । किन्तु भट्टि जातीय राजपूतोंसे यह सर्वथा पृथक् हैं, यह जाति विलायती कपडेकी सौदागरी करती है । बम्बई पंजाब और करांची बन्दमें ही इबका प्रधान वास है ।

### अग्रहारी ।

बनारस विभागमें बहुसंख्यक अग्रहारी निवास करते हैं, यह निरामियाशी और उपवीत-धारी हैं, आराजिलेके निवासी अग्रहारी शिष्य धर्मावलम्बी हैं, परन्तु वर्णविवेकचन्द्रिकामें इस जातिमें सांकर्य पाया जाता है, यथा—“अग्रवालस्य वीर्येण संजाता विप्रयोपिति । अग्रहारी क्लबानी माहुरी संप्रतिष्ठिताः ॥” अग्रवालसे ब्राह्मणीमें अग्रहारी क्लबानी और माहुरी हुए, परन्तु यह विलोम होनेसे वैश्य न होने चाहिये, पर यह वैश्य हैं इससे उपरोक्त वचनमें संका होती है ! कोई कहते हैं इन्होंने भोजनमें सबसे पहले खा लिया इससे अग्रहारी हुए, कोई अगरोहा निवासी मानते हैं, गर्वनेटने इसको छठी श्रेणीके वैश्योंमें आमिलीमें लिखा है इनका खान पान उज्ज्वल है ।

### धूसर ।

दिल्ली और मिर्जापुरके मध्यवर्ती गंगाके निकट प्रान्तमें इनका निवास है, गुरगांव जिलेके निकट रिवाडी नगरके धोरे धूसी नामक गण्डशैलके नामसे यह धूसरी वा धूसी नामसे प्रसिद्ध हुए । यह सब वैष्णवमतावलम्बी हैं, यह बडे धनशाली भूम्यधिकारी हैं । प्रसिद्ध हैमू वैश्य इसी वंशका था जिसने सवालाख फौज लेकर बादशाहका मुकाबला किया और ९६४ में गिरफ्तार होकर मारा गया । कसबे रिवाडीके समीप गुगगांवके समीप धूसी है उस स्थान च्यवन ऋषि तपस्या करते थे कहा जाता है कि धूसर उन्हींके वंशज हैं । उस पर्वतपर एक तालाब और मठ है, और मठके द्वारपर एक चिह्न गौका है, वहां इस जातिके लोग दर्शनको जाते हैं और सरोवरमें स्नानकर दर्शन करते हैं, कार्तिक और वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको यहां मेला होता है ।

### उसमार वैश्य ।

आगरा और गोरखपुरके मध्यस्थित भूभागमें और कानपुरके जिलोंमें इस श्रेणीके वैश्य

निवास करते हैं, बिहार प्रान्तमें भी इनके दस पांच घर हैं, पिताकी मृत्यु न होनेतक यह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं ।

कुमार वैश्य ।

कहा जाता है एक वैश्य वर्णकी स्त्री देवी इच्छासे गर्भवती हुई उसके वंशज कुमार वैश्य कहाते हैं ।

स्त्री ।

ग्वालियर प्रान्तमें यह जाति पाई जाती है और वहां दूकानदारी करते हैं ।

रत्तोगी ।

उत्तरके देश तथा लखनऊ, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, आजमगढ आदि युक्तप्रदेशके प्रधान नगरोंमें इस जातिका विशेष निवास है, कलकत्ता और पटनामें भी वाणिज्यके लिये यह लोग जा बसे हैं । यह विशेषकर वल्लभसम्प्रदायके शिष्य हैं, उसमार वैश्योंके समान यह भी पिताकी मृत्यु होनेपर यज्ञोपवीत पहारते हैं, इनमें आमठी, इन्द्रपति और मनहारिया नामसे तीन थोक हैं ।

कसरवाणी और कसौधन ।

युक्तप्रदेश और बिहार प्रान्तमें इनका विशेष निवास है, इनमें सामान्य दुकानदारीका व्यवसाय है । किन्हींका कहना है कि कांस निर्मित द्रव्यके व्यवसायी कंसवणिक कहाये, सम्भवतः उसी नामके बिगड जानेसे यह कांसर व कसरवानी प्रसिद्ध हुए । कोई ऐसा भी कहते हैं कि कसौधन शब्द कसानधन शब्दका अपभ्रंश है, कसरवाणी भी कृष् वणिक शब्दका अपभ्रंश है, इनमें शिक्षा कम ग्रहण करते हैं, यह यज्ञोपवीत भी अबतक नहीं पहारते, कोई २ विधवाविवाह करते हैं, बनारसी रामोपासक हैं, मिर्जापुरमें विन्ध्यवासिनीकी पूजा करते हैं, किन्तु पशुबल न करके उसको देवीके समीप छोड देते हैं । लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर और मिर्जापुरमें यह विशेष है । कसौधन जौनपुरियोंका विवाह मिर्जापुर और जौनपुर तथा प्रयागमें होता है । कसौधन लखनौके अच्छे घरानेमें हैं, फैजाबादी इनसे न्यून हैं ।

लोहिया ।

प्रधान रूपसे लोहेका व्यवहार करनेसे यह जाति लोहिया कहाई, कोई २ वैष्णव भी होते हैं और कोई २ यज्ञोपवीत भी पहारते हैं ।

सौनियां ।

सुवर्णवणिक बंगालके सुवर्णवणिक सम्प्रदायके समान यह धनशाली नहीं हैं, बनारसी सौनियांगण गुजरातसे यहां आकर बसे हैं, स्वर्णका क्रय विक्रय करना इनका काम है

## शूरसेनी ।

मथुरा देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहींके निवासे यह शूरसेनी कहाते हैं ।  
मथुराके समीप वरसानेके निवासी वैश्य वरसेनी नामसे प्रसिद्ध हैं, यह धनवान हैं  
मथुरा प्रान्तमें इस जातिके बहुत लोग निवास करते हैं ।

## अयोध्यावासी ।

अयोध्यामें निवास करनेके कारण यह वैश्य अयोध्यावासी कहाये, युक्तप्रदेशके अनेक  
स्थान और बिहार प्रांतमें इनका निवास है ।

## जैसवार ।

अयोध्याके समीप रायबरेली जिलेके सालौन विभागके जैस परगनेमें बास होनेसे यह  
जैसवार कहाते हैं ।

## महोबिया ।

हमीरपुर जिलेके महोबा नगरके रहनेवाले महोबिया वैश्य कहाते हैं ।

## महुरिया ।

बिहार और गंगा यमुनाके अन्तर्वासी वणिक महुरिया नामसे प्रसिद्ध हैं, कोई २ इनको  
रस्तोगी वैश्योंकी शाखा समझते हैं, यह कृषक गणोंको मंजूरी देकर ईखकी खेती कराते  
हैं, और खांडका व्यवसाय अधिक करते हैं, इनमें भी शिष्य सम्प्रदायके समान तमाखू  
नहीं पीते हैं तमाखू पीनेवाला जातिसे बाहर करदिया जाता है ।

## वैश्यजिनया ।

बिहार प्रांतमें इनका वास है, यह पीतल और कांसी आदिके वर्तन बेचते हैं, कोई  
कोई खेती भी करते हैं । कमाऊंकी वैसबावाई जातिमें और इनके आचार व्यवहारमें कोई  
भेद नहीं है ।

## काठवैश्य ।

बिहार प्रांतमें इनका निवास है, यह पण्यद्रव्यका क्रय विक्रय करते हैं ऋणदान तथा  
कृषि इनका प्रधान व्यवसाय है, मैथिल ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं, इनका आशौच  
तेरह दिनका होता है ।

## जमेयवैश्य ।

युक्त प्रदेशके इटावा जिलेमें इनका निवास है, यह अपनेको प्रह्लादका वंशधर बताते हैं ।

## लोहना ।

यह भाटिया जातिकी अन्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमें इनका निवास है ।

## रेवाडी ।

मुडगांव जिलेके रिवाडी नगरमें इनका आदिम निवास है, गया जिलेमें भी इनकी कुछ  
वसती है, यह सूती कपडेका व्यवसाय करते हैं ।

काणु ।

यह सामान्य दूकानदार और खाद्य द्रव्य बेचते हैं ।

रोहतगी ( रोहितकी )

मुरादाबाद और उसके प्रांतमें यह लोग विशेषकर पाये जाते हैं, इनमें कितने एक यज्ञोपवीत भी पहनते हैं यह अपना निकास रोहतकसे बताते हैं, कोई अपनेको रोहित-वंशी कहते हैं ।

रस्तोगी ।

रोहतकी और रस्तोगी एकही रूपमें माने जाते हैं; पश्चिममें अधिक पाये जाते हैं, अग्रवालोंके समान स्वच्छता और व्यवहार मानते हैं ।

वैष्णव ।

वैष्णव नामधारी भी एक प्रकारके वैश्य होते हैं, इनके आचार विचार मामूली वैश्यों जैसे होते हैं ।

रू ।

यह अकबराबाद और उसके समीपमें बहुतायतसे पाये जाते हैं दुकान और व्यापारिक घन्घा करते हैं ।

पुरवार ।

यह भी वैश्योंकी एक अच्छी जाति है, यह वैष्णव होते हैं तथा दुकानदारी और व्यापार करते हैं ।

साध ।

फर्रुखाबादमें यह जाति पाई जाती है, एक मुहल्ले सधवाडेमें इनके अनेक घर पाये जाते हैं, यह अपनेको वैश्य कहते हैं, उसमें यदि अन्य वर्णका कोई पुरुष मिलजाय तो वह साध कहलाता है ।

उमर ।

यह भी अपनेको वैश्यवर्ण कहते हैं, इनमें तीन श्रेणी हैं:—तिल उमर, दूध उमर और दूसरे कोडा, जहानाबाद, फतेहपुर आदिमें तिल उमर भलेपुरुष गिने जाते हैं, इनमें विधवा-विवाह नहीं होता, शेष दो श्रेणियोंमें होता है ।

उनाया ।

उनाया एक प्रकारके अपनेको वैश्य कहते हैं, कोई २ कायस्थोंमें इनको बताते हैं, पर यह बारह जातिके कायस्थोंमें नहीं हैं ।

मादुर वा माथुर ।

इन वैश्योंके भेदही मादुर मादौर माथुर हैं कोई तीन बारे सातबारे कोई चौसैनी कोई दलपतिया ( बडपातिया ) गुलहरे श्यौहर त्रिथमी आदि अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं,

इस माहुर जातिके लोग आगरा, एटा, अलीगढ, चन्दोसी, फर्रुखाबाद, धौलपुर, रिवाडी, अलवर और मुरादाबादमें निवास करते हैं, परन्तु भिन्न २ नामोंसे पुकारे जानेके कारण अनेक भागोंमें विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे पृथक् हो रहे हैं, परन्तु अब कुछ २ सम्मिलित होते जाते हैं ।

१ श्रेणीमें आगरा पिनाह इरादत नगर और शमसाबाद आदि स्थानोंमें अपनेको माथुर वैश्य कहते हैं ।

२ श्रेणीमें ऊंचागांव, बहादुरपुर, रुस्तमगढ, फर्रुखाबाद, उडवारागञ्ज आदि स्थानोंमें रहते हैं ।

३ श्रेणीके लोग चन्दोसी, मुरादाबाद, रिवाडी, हसनपुर आदि स्थानोंमें वसते हैं और सतवारे माहौर वढपतिया गुलहरे चौसेनी और श्यौहर आदि कहते हैं ।

४ एकदल अलवर जयपुर चित्तौर आदि स्थानोंमें निवास करता है, मथुराप्रसादसे इरादत नगरवालोंने कहा है कि हमलोग माथुरवैश्य हैं, माथुरका विगडकर ही माहुर होगया है, इसलिए अपनेको माथुर कहना ही उचित है, कारण कि पूर्वमें कलाल भी अपनेको माहौर कहते हैं, एक माथुर वैश्य ला० गुलाबरायने कहा कि माथुर वैश्यनाम १९४२ में रक्खा गया, कहा जाता है कि प्रतापसिंहको अनन्त रूपया देनेवाला इसी माहुर वंशका था । कहा जाता है कि इनके पूर्वज मथुरापुरीके बीच मौहारि पौरिमें रहते थे, और उस पौरिसे निकलकर इधर उधर वसे तत्र माहुर कहलाने लगे परन्तु इस बातसे यह सिद्ध होता है कि हम चन्द्रवंशी हैं महाउरकी सन्तान. इस महाउरसे चन्द्रवंशका तीसरा कुल उत्पन्न हुआ है महाउर चन्द्रवंशी ययातिका तीसरा पुत्र था यह नाम यथार्थमें उरु है कोई २ इसको तुर्वसु भी कहते हैं, इससे विदित होता है कि यह उरुवंशी जिसका राज्य मथुरा आदि स्थानोंमें था उसके वंशज ही माहौर कहाये ।

१६६५ में जहांगीरके समय धौलपुरमें रम्माशाहने एक मंदिर बनवाया था उसमें जातिका नाम माहुर—माथुर ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ है. एक नगर राजपूतानामें महोर है एक साहब कहाते हैं राजपूतानेका वाचक माहौर है यहांसे निकले हुए लोग माहुर कहाये, परन्तु जो नीच जातियां यहांसे बाहर हुई वे माहौर सुनार, माहौर कोली, माहौर बढई कहाये, मध्य राजपूताना माहौर कहाते हैं, एकमत ऐसा ही है माहौर महन्वप्रकाशमें ३६ राजकुलोंमें एक माहौरmahor जाति नम्बरमें ३० में पढी है, इससे वे लोग अपनेको क्षत्रिय होनेका भ्रमाण देते हैं, पर हमारी समझमें क्षत्रिय होनेका इस जातिमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं । समस्त असली क्षत्रिय यज्ञोपवीतधारी होते हैं पर हमने स्वयं देखा है अबसे बीसवर्ष पहले इनमें सौ पीछे पांचभी यज्ञोपवीतधारी नहीं थे, रीति रिवाज वैश्योंकीसी है, इनमें जो कराव या धरेजा करलेते हैं वः कः कहात हैं, कोई महावर और हौरमा माहुर एकही मानते हैं यह बड़ी भूल है महावर जाति माहुर जातिसे पृथक् है ।

कमलापुरी जौनपुरी वैश्य ।

यह वास्तवमें कमलापुरके रहनेवाले हैं पीछे जौनपुर आरहे इनमें कुछ धनीमी है और कमलापुरी उपनाम जौनपुरी कहातेहैं, वाचस्पत्य बृहदभिधानमें कमलापुरका वर्णन है ( कमलालये महालक्ष्मीः कमलाख्यो महेश्वरः ) राजतरंगिणीमें तरंग ४ श्लोक ४२४ ( राजा मरुहाणपुरकृच्चके विपुलकेशवत् । कमला सापि नान्ना स्वयं कमलाख्यं पुरं व्यधात् ) कर्म-विपाक संहिताके नवतिशत ( १९० ) अध्यायमें ( पश्चिमायां महादेवि जवनस्य पुरं महत् ) इन प्रमाणोंसे जवनपुर और कमलापुर पाया जाता है । वैश्य लोग लक्ष्मीके पूजन करनेवाले होते हैं, लक्ष्मीका नाम कमला है, कमलापुरके रहनेसे कमलापुरी कहाये, भलन्दन और काश्यप आदि इनके गोत्र हैं ।

कथवनिर्धे ।

यह विहार प्रान्तकी वैश्यजाति है, उनमें कुछ खेतिहर भी हैं, किन्हींको इनके वैश्यत्वमें सन्देह है ।

कमाठी ।

यह तैलंगदेशकी प्रतिष्ठित वैश्योंकी एक जाति है वहां ये अग्रवालोंके समान उच्चश्रेणीके वैश्य माने जाते हैं, यह कहीं लिंगायत कहीं भास्कराचार्य और कहीं शंकराचार्यके अनु-गामी हैं, यह अमक्ष्य भक्षण नहीं करते हैं, किन्हीका कहना है कि यह मातुल कन्याके साथ विवाह करलेते हैं ।

कपाडिया ।

यह जाति कहीं कपाडिया कहीं खपरिया बोली जाती है, कहीं यह भिक्षावृत्ति कहीं व्यापारी कहाते हैं, कपाडेकी गांठ ढादते तथा विसांतगरीका काम करते हैं, और वैश्य कहाते हैं ।

कुरुवार ।

यह जाति एटा, बरेली, वदायूं, सीतापुर, मुरादाबाद, आदि जिलोंमें निवास करती है, वदायूंके जिलेमें विस्त्रेणरूपसे हैं, यह कहीं करवाहिर, कहीं करवार, कहीं कुरुवार कहाते हैं ।

कोमाठी ।

यह गुजरात देशकी एक उच्च वैश्य जाति है, यह तैलंगियोंसे मिलती है, हलवायीपनका काम भी करती है, इसके हाथका पक्का भोजन वहां सब कोई करते हैं ।

कंगोरा ।

यह दक्षिणदेशीय एक वैश्योंकी जाति है, इसका दूसरा नाम वोगडा है यह लोग पीत-लुका काम करते हैं यह अपनेको वैश्य कहते हैं, परन्तु कोई इनको क्षत्रिय और कोई शूद्र कहते हैं ।



## गुडिया ।

उड़ीसा प्रान्तमें हलवाईका काम करनेवाली एक वैश्य जाति है, गुडकी मिठाई बनानेके कारण इसका गुडिया नाम हुआ ।

## गारत ।

यह राजपूताना प्रान्तकी एक वैश्य जाति है, इसमें बहुत छोटी अवस्थामें कन्याका विवाह करते हैं, इसमें सहस्र पीछे सौ विधवा बताई जाती हैं ।

## गौरी ।

यह भी तैलंग जातीय कमाठी जातिका एक भेद है, यह लोग बड़ी शुद्धतासे रहते हैं ।

## अढ्य ।

बंगाल प्रान्तीय सुनार बनियोंका एक भेद है ।

## उर्वला ।

यह गुजरात देशकी एक वैश्य जाति है वह लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं व्यापारमेंभी प्रवीण हैं ।

## कपोला वैश्य ।

यह भी गुजराती वैश्योंकी एक जाति है, इनके आहार व्यवहार शुद्ध हैं यह वैष्णवधर्मावलंबी हैं, कुछ जैनी भी हैं कपोलाजातिके पुरोहित भी कपोला ब्राह्मण होते हैं, इनका वृत्तान्त इस प्रकार है कि कण्व ऋषिकी आज्ञासे गालवऋषि सौराष्ट्रदेशमें गमन करके वहांसे शीलसंपन्न ३६ सहस्र वैश्योंको कण्डव ऋषिके आश्रममें लेआये, वहां ऋषिने कण्डाल क्षेत्रमें इनको कण्डोल ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये स्थापन किया, उनमें छः सहस्र वैश्य तो गालव वैश्य कहाये, और इनमें प्रत्येक वैश्य कानोंमें कुंडल पहरे हुए थे, उससे उनके कपोल शोभायमान थे, इस कारण उन सबका नाम कपोला वैश्य हुआ ।

## राजाशाही ।

राजाशाही नामकी एक वैश्य जाति है, यह अपनेको पूर्वमें क्षत्रियवंशी बतलाते हैं, आचार विचार वैश्यों जैसे हैं ।

## साहू ।

कुमार्युंके वैश्य साहू कहाते हैं, यह भारद्वाज कश्यप और गर्गोत्री हैं जो वदायूंसे आये कुमारसेनी हैं । ढुलघारिया, जगाती, कुमैयां, गंगोला, आदि अग्रवाल वैश्य हैं ।

## वर्णवाल ।

वर्णवाल जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखीगई है कि समाधि नाम वैश्य जिसका नाम दुर्गापाठमें लिखा है उसके गुणधी और मोहन दो पुत्र हुए, मोहनके नेमि, उसका पुत्र

वृन्दक, नेमिका वृन्द, इसके वंशमें गुर्जर हुआ, इसके वंशमें होरो, उसके रङ्गादि सौपुत्र, रङ्गका विशोक, उसके महीधर, उसके बह्म, उसके अग्र हुआ जिससे अग्रवाल हुए, समाधिके दूसरे पुत्र गुणाधीशके धर्मदत्त और शुभंकर दो पुत्र हुए, धर्मदत्तके वंशमें वैश्यवाल हुआ ( इस वंशके पुरुष नीच कर्मसे शूद्रवत् होगये, और वे पतनीक कहाते हैं, और वेही वैश्य वलिशा कहाते हैं ) यथाहि—

परं चास्थान्वये जाता वैश्या निम्नेन कर्मणा ।

अभूवुः शूद्रपरसर्वे पतनीत्यपि ते भुवि ॥

वर्णवालचन्द्रिका ।

शुभंकरने अपनी जातिसे अलग होकर पेरी नगरीमें अपना निवास किया, पीछे यह कांचपुरमें आकर शंखनिधि वैश्यका मन्त्री हुआ, शंखनिधिने प्रसन्न होकर इसको अपनी कन्या ब्याह दी, उसका नाम चन्द्रवती था, वह उस भार्याको लेकर कावेरी नदीको पार कर अपने स्थानपर आया, और महादेवजीकी तपस्या की, शिवजीने उसको वर दिया, शंकरके प्रसादसे उसके तेन्दूमल नाम पुत्र हुआ ।

तेन्दूमलस्य पुत्रोऽभूद्द्वाराक्षो नाम वैश्यकः ।

तद्वंशे वर्णवालोऽभून्मतिमौल्लोकविश्रुतः ॥

तेन्दूमलका पुत्र वाराक्ष हुआ, उसके वंशमें वर्णवाल नाम बड़ा बुद्धिमान् पुत्र हुआ, इसके वंशके पुरुषों द्वारा ३६ कुल प्रतिष्ठित हुए ।

वर्णवाल वैश्योंके पुरोहित गौड ब्राह्मण हैं, यह लोग वाणिज्य ज़िमीदारी दूकानदारी भी करते हैं, विद्याभी पढते, मुहम्मद कासिमके भयसे देश छोडकर भागेहुओंके सिवाय अन्य जन यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, इनके रहनेके स्थान मुख्यरूपसे मुंगेर, पटना, हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वलिया, जौनपुर, रसडा, बक्सर, सम्भल, बरेली, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बेतिया, मोतीहारी, बनारस, आजमगढ, भागलपुर, बुलन्दशहर, इत्यादि स्थान हैं, वैष्णव और शैव इनकी उपासना है, इनके सात गोत्र हैं ।

वात्सल, गोइल, गोबील, अगर, सगर और काश्यप, इनके छत्तीस कुलोंके नाम इस प्रकार हैं । वदउया, ववुकनसीया, मालहन, बेरीया, पठसरिया, मनीया, सेठ, नागर, नेर-चैया, लोखरीया, खेलाउन, ककरीया, बजाज, ठेलरिया, मनहरिया, सरोतन, सीमरीया, जैखरीया, सोनपुरया, खरवसया, कासाजीया, चौधरीया, काठरिया, पंचलोखरीया, कुलीन-मुरत, टेक मनीया, मकरीया, ढीगा, जेरफुरीवा, नागर, रूपीहा मीरीचीया, नमलीन आद वटराट ।

यह कहीं वरनवाल और कहीं वरनवार भी कहे जाते हैं इसका वृत्तांत यह है कि द्वाराक्षनाम राजाकी राजधानी ( वरन जिसे अब बुलन्दशहर कहते हैं ) थी यहां जो उनके

सन्तान हुई सो वरनवाल कहाई ( बाल नाम बालकका है ) बढे होनेपर वरनवार कहाये, इसमें दो थोक हैं, एकका दूसरेसे मेल नहीं हैं । वर्णवालचन्द्रिका इस जातिका प्रमाण अविष्य पुराण और राजतरङ्गिणीका लिखा बताती है ।

रौनियार वैश्य ।

वर्णविवेकचन्द्रिकामें लिखा है—

अन्निकुण्डात्समुद्भूतास्त्रयः पुत्राः सुधार्मिकाः ।

अग्रवालेति खत्री च रौनियारेतिसंज्ञकाः ॥

अथात् ब्रह्माके ऊरुदेशसे भलन्दन हुए उसकी मरुत्वती स्त्री थी उससे वत्स प्रीति पुत्र हुआ, उसके प्रांशु, उसके मोद, प्रमोद, बाल, मोदन, प्रमोदन, शंकुकर्ण यह छः पुत्र हुए, अमर्दनके कोई पुत्र नहीं था, उसने अपनी स्त्री चन्द्रसेनाके साथ बद्रिकाश्रममें तप किया, शिवजीने उसको वर दिया और यज्ञ करनेपर अन्निकुण्डसे अग्रवाल, खत्री और रौनियार नामक तीन पुत्र हुए, वेदान्तरामायणनामसे एक ग्रन्थ कुछ काल हुए छपा गया है उसमें, रौनियार वैश्योंको क्षत्रियसे वैश्य होना लिखा है कि यह परशुरामके भयसे इधर उधर भागकर ही देशमें रौनियार कहाये ।

अथ च रमणकार्ख्यं देशमेत्य न्यवात्सुः परशुधरभयाद्यै

क्षत्रियाः सूर्यवंश्याः । जगति हिरणन्याराश्चेति ते ख्याति-

मापुस्त्वथ च रमणहारा रौनियाराश्च वैश्याः ॥

परशुरामके भयसे जिन सूर्यवंशी क्षत्रियोंने भागकर रमणक द्वीपमें निवास किया तब वे संसारमें रमणहार वा रौनियार नामसे विख्यात हुए, कथा इस प्रकार है कि जब परशुरामने क्षत्रियोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की तब सब राजा इधर उधर पलायन करने लगे ।

केचिद्याता भरुस्थल्यां सिन्धुतीरं परे गताः ।

महेन्द्राद्रिं रमणकदेशं चानुगताः परे ॥ १ ॥

अथ दक्षिणतो भूत्वा विन्ध्यमुल्लंघ्य सत्वरम् ।

अथौ रमणकं देशं तत्रत्याः क्षत्रिया अपि ॥ २ ॥

सूर्यवंश्या भयोद्विग्रास्तं दृष्ट्वाभ्युदन्मिथः ।

समायातोऽयमधुना जीवनं नः कथं भवेत् ॥ ३ ॥

समेत्य निश्चितं सर्वजीवनं वैश्यधर्मतः ।

इत्यापणेषु राजन्यास्ते चक्रुः क्रयविक्रयम् ॥ ४ ॥

कोई मरुस्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र पर्वतपर और कोई रमणक देशमें चले गये ॥ १ ॥ जब परशुरामजी विन्व्याचलको लांघकर दक्षिणमें रमणक देशमें पहुँचे ॥ २ ॥ तब वहाँके सूर्यवंशी क्षत्रिय भयसे व्याकुल होकर बोले, यह यहाँ भी आये अब हमारा जीवन कैसे होगा ॥ ३ ॥ तब सबने विचारकर वैश्यवृत्ति तत्काल अवलम्बन की, लेन देन करने लगे, परशुरामने जब यह देखा तब बड़ा क्रोध किया तब वे पलायन करने लगे ॥ ४ ॥

अथ रामोऽपि तान् दृष्ट्वा कपटं बुभुधेऽखिलम् ।  
 तानुवाचाथ धूर्ताः स्थ राजन्याः सूर्यवंशजाः ॥ १ ॥  
 स्वीकृत्य वैश्यतां क्षत्राद्धर्माज्जाता बहिः स्वयम् ।  
 भयाच्छस्त्राणि संत्यज्य सज्जाता वैश्यमानिनः ॥ २ ॥  
 अस्तु वो न हनिष्यामि शपाभि श्रयतामिदम् ।  
 वैश्या भवत राजन्या न कदाचिद्वाप्यस्यथ ॥ ३ ॥  
 वैश्या रमणहाराश्च वैश्यवेषु चोत्तमाः ।  
 इमं देशं परित्यज्य मगधान्यात साचिरम् ॥ ४ ॥

परशुरामजीने उनका कपट जानकर उनसे कहा तुमने सूर्यवंशमें होकर कपट किया ॥ १ ॥ और स्वयं क्षत्रिय होकर वैश्यत्व स्वीकार किया और भयसे शस्त्र त्यागकर वैश्य-मानी हुए ॥ २ ॥ इस कारण मैं तुमको न मारकर शापादेता हूँ तुम वैश्य होकर फिर कभी क्षत्रिय नहीं होगे ॥ ३ ॥ तुम वैश्य रमणहारकर कहावोगे, वैश्योंमें अच्छे गिने जावोगे अब इस देशको छोडकर शीघ्र मगधदेशको जाओ ॥ ४ ॥

वृष्य तपोपवीतादिसंस्कारान् कुह्ताविशम् ।  
 काले जपत सावत्रीं तथा वो न त्यजेद्गमा ॥ ५ ॥  
 घनिनः सुखिनः स्युश्च संस्कारास्त्यज्यतां पुनः ।  
 सञ्चयाकर्मविहीनानां दारिद्र्यं वो भविष्यति ॥ ६ ॥  
 मिथ उद्गाहकर्माणि कुर्वन्तस्थास्यथाञ्जसा ।  
 एवमुक्त्वा तु वचनं रामो वनमथाविशत् ॥ ७ ॥  
 वैश्यभावं समासाद्य ततस्ते क्षत्रिया भुवि ।  
 न्यवात्सुर्मगधं देशं मुनिना निर्भयाः कृताः ॥ ८ ॥

कोई मरुस्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र पर्वतपर और कोई रमणक देशमें चले गये ॥ १ ॥ जब परशुरामजी विन्व्याचलको लांघकर दक्षिणमें रमणक देशमें पहुँचे ॥ २ ॥ तब वहाँके सूर्यवंशी क्षत्रिय भयसे व्याकुल होकर बोले, यह यहाँ भी आये अब हमारा जीवन कैसे होगा ॥ ३ ॥ तब सबने विचारकर वैश्यवृत्ति तत्काल अवलम्बन की, लेन देन करने लगे, परशुरामने जब यह देखा तब बड़ा क्रोध किया तब वे पलायन करने लगे ॥ ४ ॥

अथ रामोऽपि तान् दृष्ट्वा कपटं बुभुधेऽखिलम् ।  
 तानुवाचाथ धूर्ताः स्थ राजन्याः सूर्यवंशजाः ॥ १ ॥  
 स्वीकृत्य वैश्यतां क्षत्राद्धर्माज्जाता बहिः स्वयम् ।  
 भयाच्छस्त्राणि संत्यज्य सज्जाता वैश्यमानिनः ॥ २ ॥  
 अस्तु वो न हनिष्यामि शपाभि श्रयतामिदम् ।  
 वैश्या भवत राजन्या न कदाचिद्वाप्यस्यथ ॥ ३ ॥  
 वैश्या रमणहाराश्च वैश्यवेषु चोत्तमाः ।  
 इमं देशं परित्यज्य मगधान्यात साचिरम् ॥ ४ ॥

परशुरामजीने उनका कपट जानकर उनसे कहा तुमने सूर्यवंशमें होकर कपट किया ॥ १ ॥ और स्वयं क्षत्रिय होकर वैश्यत्व स्वीकार किया और भयसे शस्त्र त्यागकर वैश्य-मानी हुए ॥ २ ॥ इस कारण मैं तुमको न मारकर शापादेता हूँ तुम वैश्य होकर फिर कभी क्षत्रिय नहीं होगे ॥ ३ ॥ तुम वैश्य रमणहारकर कहावोगे, वैश्योंमें अच्छे गिने जावोगे अब इस देशको छोडकर शीघ्र मगधदेशको जाओ ॥ ४ ॥

वृष्य तपोपवीतादिसंस्कारान् कुह्ताविशम् ।  
 काले जपत सावत्रीं तथा वो न त्यजेद्गमा ॥ ५ ॥  
 घनिनः सुखिनः स्युश्च संस्कारास्त्यज्यतां पुनः ।  
 सञ्ज्याकर्मविहीनानां दारिद्र्यं वो भविष्यति ॥ ६ ॥  
 मिथ उद्गाहकर्माणि कुर्वन्तस्थास्यथाञ्जसा ।  
 एवमुक्त्वा तु वचनं रामो वनमथाविशत् ॥ ७ ॥  
 वैश्यभावं समासाद्य ततस्ते क्षत्रिया भुवि ।  
 न्यवात्सुर्मगधं देशं मुनिना निर्भयाः कृताः ॥ ८ ॥

नटकुटाई सेठी सब श्रेष्ठियोंमें प्रधान हैं, आदि निवासस्थान इनका मदुरा नगर था, यह पढ़नेके लिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं हैं, वाणिज्य कार्यके उपयोगी तैलगू वा तामिली भाषा सीख लेते हैं, इनमेंकी कोई शाखा दिवामें दिल्ली और ब्राह्मण जातिके बाद अपना अधिकार रखती हैं इस समयमें उष्णा, बैलूर, कुगापा, कर्णूल, मद्रास, मदुरा, कोयम्बातोर, आदि जिलोंमें बहुतसे सेठी रहते हैं, मद्रासमें ही सात लाख हैं, इनके सिवाय ब्रह्मदेश कलकत्ता बम्बई और अलावार प्रान्तमें बहुतसे सेठियोंका निवास है ।

मैसूरमें, लिंगायत वैश्य बहुत रहते हैं, लिंगायत और तैलगु खेतीके व्यवसायी हैं, कहीं यह स्वयं खेती करते कहीं मजदुरोंसे कराते हैं, तैलगुमें कोमतिगण विशेष हैं, और सब यज्ञोपवीत पहरते हैं, इनमें गावुरि कलिंगकोमती, बरैकोमति, बलिजीकोमति और नागरकोमति यह पांच थोक हैं, गावुरि सांसखक्षण नहीं करते किन्तु दूसरे चारथोक आमिषाशी हैं । कलिंगकोमति और गावुरि शंकर अद्वैत मतको मानते हैं दूसरे लिंगायत और रामानुजी हैं, बरैकोमतिथोंमें अधिकांश लिंगायत हैं, कोमतिगण वेळरी प्रान्तके गुटी नगरके प्रधान मठ-ध्यक्ष भास्कराचार्यको अपनी समाजका गुरु मानते हैं, ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं, पर वेदके मंत्रोंसे संस्कार नहीं कराते और यह मातुल कन्याको विवाह लेते हैं ।

#### उडीसाके वैश्य ।

उडीसामें दो प्रकारके वैश्य रहते हैं, एक मुनार बनियां दूसरे पोटली बनियां, पोटली बनिये बंगालके गन्धवणिकोंके समान हैं, यह पोटली बांधकर द्रव्यादि विक्रय करते हैं, इस कारण पोटली नामसे विख्यात हैं, पोटली बनियोंकी अपेक्षा यहांके मुनार वणिक विशेष धनशाली हैं, उडीसाके वैश्य अन्य स्थानोंके वैश्योंकी अपेक्षा व्यवसायमें हीनतर हैं, कारण यह है कि इनके पास धन नहीं है, यहांका व्यावसाय विदेशी जनोंके हस्तगत है, यह लोक तो उसका उपसत्वभोगी हैं, यह अन्य स्थानोंसे पदार्थ लाकर अन्ये स्थानोंमें बेचना जानते ही नहीं ।

#### बंगालके वैश्य ।

भारतके सभी स्थानोंमें वैश्य जातिका निवास है वणिक बंगालके, पहले देश विदेशोंमें फैले हुए थे, इस समय भी लक्षोंव्यवसायजीवी वैश्य गौड बङ्गमें निवास करते हैं, प्रथम सब प्रकारके द्रव्योंका व्यवसाय शुद्ध वैश्योंके हाथमें था, परंतु वैसेही नामधारी दूसरी प्रकारके वैश्य भी अब पाये जाते हैं, गंधवणिक, सुवर्णवणिक, वारुई साहवणिक, ( पूर्व बंगालके साह महाजन ) तैल वणिक आदि पूर्वमें प्रकृत वैश्य थे इसमें कोई संदेह नहीं है ।

#### गन्धवणिक

अनेक प्रकारके गंधद्रव्य बेचनेके कारणही यह गंधवणिक कहाये, तिलकराम कविने इनकी उत्पत्ति इसप्रकार लिखी है, कि महादेवजीके विवाहमें गन्धकी आवश्यकता होनेसे ब्रह्माजीने कहा कि बिना गन्धके विवाह नहीं होसकैगा तब शिवजीने विचारकरके आत्मासे

देश, करतलसे शंख, नाभिमूलसे आवट । और चरणसे क्षत्रिय नाम पुरुषको उत्पन्न किया, और सभास्थलमें इनका नाम पद्मानन,पद्मसखा,पद्मनाभ और पद्मोत्पल हुआ;इनके विषयमें एक गांधिक कल्पवल्ली नामक संस्कृत ग्रन्थ है, जो तिलकरामका बनाया है, उसमें लिखा है—

विरञ्चरीरितं श्रुत्वा धूर्जटेर्ध्यायतोऽभवत् ।

ललाटतो देशदासः शंखभूतिस्तु वक्षसः ॥

नाभेरावटदत्तश्च वैश्यवंशविवर्द्धनः ।

विष्वट्शुतनामाभूत्पादमूलाद्गुदारधीः ॥

अर्थ इसका ऊपर होही चुका है, परन्तु ग्रन्थकारने यह नहीं लिखा कि हरगौरीके विवाह समयकी यह किस पुराणकी कथा है किन्व देनेसे इस मतकी पुष्टि हो सकती थी ।

ताम्बूलवणिकः ।

जिसप्रकार गन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बूल वणिककी उत्पत्ति शिवजीके पसीनेसे लिखी है । जिस समय समुद्र मन्थनसे उत्पन्न हुए विषको पीकर भगवान् शंकर सोगये, तब पार्वतीने उनको आनकर जगाया, और उनके मस्तकका पसीना पोछकर ताम्र पात्रमें रक्खा, और उसमें अपने अंगसे मैल डाला तत्काल उसयोगसे एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिवस्याति हुआ, पार्वतीने नागकन्या हिमवतीसे उसका विवाह किया, उसके एक पुत्र हुआ शंकरने सब लक्षण सम्पन्न जानकर उसका नाम ताम्बूल पुत्र रक्खा, इसप्रकार शिवस्याति पिता और हिमवतीसे इस ताम्बूल वणिक जातिकी उत्पत्ति हुई, तिली वारुई आदि जातिकी उत्पत्तिके विषयमें भी ऐसाही कहा जाता है, यद्यपि किस पुराणकी यह कथा है ऐसा उल्लेख नहीं है, परन्तु ऐसा बोध होता है कि बौद्धधर्मके अवसानमें जो वैश्यगण शैवधर्म पारायण हुए उनकी उत्पत्ति शंकरसे उपपादन करनेके निमित्त यह कथा प्रचार की गई हो, परन्तु जातिमाला आदि ग्रन्थोंमें जो ताम्बूल वणिक आदिकी उत्पत्ति लिखी है, उससे तो यह प्रकृत वैश्य नहीं माने जाते वरन् इनमें संकरता लिखी गई है ।

हां धर्मसूत्र धर्मशास्त्र महाभारत आदि ग्रन्थोंके देखनेसे जाना जाता है, कि पूर्वकालमें वैश्यजाति एक एक द्रव्यका व्यवसाय करती थी, उसीसे उस जातिके उस व्यवसायके नामसे नाम पड गये, परन्तु पीछे उत्पन्न हुई संतर जातियोंको जब कुछ मुख्य आजीविका निर्दिष्ट हुई तब वह व्यापार उन उन जातियोंका होगया । जिसप्रकार बंगालके राठीय वारेन्द्र और वैदिक ब्राह्मण एक ब्राह्मण होनेपर भी भिन्न २ श्रेणियोंमें विभक्त और अपने २ थोकमें विवाह करते हैं, उसीप्रकार सुवर्णवणिक गंधवणिक ताम्बूलवणिक एक होनेपर भी पृथक् २ जातिमें विभक्त होगये थे, ऐसा पूर्वकालके शुद्ध वैश्योंका सत्व था, परन्तु जातिमालामें तो अब यह जाति दूसरे रूपकी लिखी हुई है ।

सुवर्णवणिक और गन्धवणिकोंका कहना है जब कि गौड देशका राजा बल्लासेन था, उसने बल्लालकी समस्त वैश्य जातिको श्रौताचारहीन देखकर शूद्रत्वमें परिणत करदिया, इस विषयमें गोपालभट्टरचित और आनंदभट्टरचित बल्लालचरित्रका प्रमाण दिया जाता है, परन्तु बहुतसे विज्ञ पुरुष इस बातको प्रमाण नहीं मानते । इसमें लिखा है कि बल्लभानन्द नाम-वाले एक सुवर्ण वणिकसे बल्लालसेनने रुपया उधार मांगा था, परन्तु उसने नहीं दिया, इस कारण राजाने क्रोध कर इस समस्त जातिके यज्ञसूत्र उतरवाकर पतित कर दिया, परन्तु इसमें हमको इतना विचार अवश्य उदय होता है कि एक शास्त्रज्ञ राजा एक व्यक्तिके द्वेषसे समस्त जातिको पतित करदे यह समझमें नहीं आता; हां यदि स्वयं आलसी होकर कोई जाति अपना आचार लोप करदे तो उसमें राजाका क्या वश है ।

यह सोचनेकी बात है जब कालराज गणोंके आधिपत्यमें गौड देशमें तन्त्रविद्याका अत्यन्त प्रचार हो गया था, और तन्त्रविधिमें यज्ञोपवीतकी विशेष आवश्यकता नहीं होती इस कारण बंग जातिमें बहुत पुरुषोंने यज्ञ सूत्रका परित्याग कर दिया जिन लोगोंका यह कहना है हमारी समझमें यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रोंमें भी तान्त्रिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाता है हां यह हो सकता है कि बौद्धधर्मकी प्रबलता होनेसे वैदिक आचारमें न्यूनता आई, और जो बौद्ध होगये उन्होंने तो छोड़ ही दिया शेष जनोंने भी उपासनाका ध्यान और आचार त्यागमें निन्दा न देखकर यज्ञ सूत्रका त्याग कर दिया, जब कि बहुतसे बौद्धधर्मावलम्बी वैश्य अब भी पाये जाते हैं, सम्भव है ये लोग भी हो गये हों जो कुछ हो तथापि बहुत समयसे यह जाति शिवजीको मानती चली आती है, कदाचित् चीनपरिव्राजक फाहियानने हिन्दूवणिक जाति कहकर इन्हीं का उल्लेख किया है. चण्डीमंगल या मनसामङ्गल आदि ग्रन्थोंमें गन्धवणिक विशिष्ट व्यापारी कहकर उल्लिखित हुए हैं, यह जाति एक समय शाक्तभी रही थी इसका परिचय मनसामंगलके नायक चन्द्र और चण्डीमंगलके नायक श्रीमन्तके पिता धनपतिके चरित्रसे पाया जाता है, इससमय वैष्णव धर्मावलम्बी होनेपर भी यह लोग गन्धेश्वरी देवीकी पूजा करते हैं ।

राजा बल्लालसेन बौद्ध तान्त्रिक थे, और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ब्राह्मणभंडलके अनुगामी थे, पिता पुत्रमें जब विरोध खड़ा हुआ तब अगत्या राजाने हिन्दुतान्त्रिक मत ग्रहण किया, तब वे ब्राह्मण उनके अनुगामी हुए, और उन विद्वान् ब्राह्मणोंकी सहायतासे राजाने नवीन कुलपद्धति निर्माण की परन्तु उस समय भी वैदिक ब्राह्मण बारेन्द्र कायस्थ और वैद्यगण उसमें सम्मत न हुए, परन्तु धीरे २ उच्च जातिसे भी यज्ञोपवीतका लोप होनेलगा, जब द्विजोंका यज्ञोपवीत देखकर लोग हास्य करने लगे तब ब्राह्मणोंको छोड़कर अन्य जातियोंमेंसे यज्ञोपवीतका लोप होने लगा, और ( युगे जघन्ये द्वे जाती ब्राह्मणः शूद्र एव च ) कलियुगमें ब्राह्मण और शूद्रके सिवाय दूसरी जाति नहीं है यही श्लोक प्रमाण रूपसे वंगमें भी प्रचार पाने लगा, इसके थोड़े ही काल पीछे महामति हलायुधने यह घोषणा की थी कि ( वेदार्थज्ञान-



पराङ्मुखस्य ब्राह्मणस्य शूद्रत्वम् ) वेदार्थज्ञान पराङ्मुख ब्राह्मण शूद्रत्वको प्राप्त होगा, इस वाक्यने ब्राह्मण जातिका तान्त्रिक कालमें यज्ञोपवीत लोप होने नहीं दिया ।

जो लोग तान्त्रिक कालमें वैदिक प्रक्रिया त्यागकर तन्त्रद्वारा ही सब कार्यमें उतारू हुए थे उनके लिये आचार्यगणने तान्त्रिक गायत्री देकर प्रकारान्तरसे उनके द्विजत्वकी रक्षा की थी- तान्त्रिक सावित्रीमें भी शूद्रका अधिकार नहीं है, जो ही बछालसेनकी व्यवस्थासे पहले वैश्य गणोंमें यज्ञोपवीत था इसमें तो सन्देह नहीं है, धीरे २ कर्ष लोपके साथ २ उनका यज्ञोपवीत भी लुप्त हो गया, पूर्व वंशमें इस समय सहस्रों वैश्य निवास करते हैं, और आज भी वो यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्होंने बछालीव्यवस्था नहीं मानी इसीसे वे इस समय तक निन्दित हैं, इनका परिचय इस प्रकार है कि—

पूर्व वंशके ढाका जिलेके अन्तर्गत भवाल परगने और भैमनसिंहके जहांगीर पुरमें वैश्य जातिका निवास है, यह अपनेको पुराण वर्णित पुरातन वैश्यजातिके वंशधर बताते हैं, इनके यहां निवास वा आगमनकी कोई आख्यायिका वा किंवदन्ती नहीं सुनी जाती है, पर यह इतना कहते हैं कि बछालसेनने जिस समय कुलविधि स्थापन की थी, उस समय इस वैश्य जातिके अन्तर्मुक्त नहीं किया और इनके पूर्व पुरुषोंने उनकी वह नियमावली स्वीकार नहीं की उसने इनका जलस्पर्श बन्द कर दिया था, इस कारण उस समयसे ब्राह्मण और कायस्थ इनका जल ग्रहण नहीं करते हैं, यह जाति सदासे पण्यजीवी है, मुसलमानोंके समयमें भी इस जातिका कोई मनुष्य दासत्वकी श्रृंखलामें नहीं बन्धा, यह सोत्तरीयोपवीत ( त्रिदण्ड सूत्र ) धारण करते हैं, किन्तु बहुतसे स्मार्त कर्तव्योंका पालन अब इनमें नहीं है, चूडाकरण और उपनयन होता ही है, यजुर्वेदमें इनका अधिकार बताया जाता है, किन्तु अब इनको ब्राह्मणगण वैदिक सावित्री नहीं देते हैं ।

इनके घरोंमें शालिग्राम और विष्णुकी पूजा होती है, पहले विवाह सम्बन्ध करनेमें गोत्रादिका विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अब कुछ गोत्र माने जाने लगे हैं, तबसे गोत्र विचारकर विवाह करते हैं, यह अपने नामके पीछे गुप्त पद भी लगाते हैं, जो वणिक व्यवसायी जनोंके अधीनमें कार्य करते हैं, उनकी विश्वास पदवा है, जो बछाली व्यवस्थाके अनुकूल हैं वे इनका जलादि ग्रहण नहीं करते और जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते वे स्वच्छन्दतासे इनका पक्क पदार्थ भोजन करते हैं, अब इन लोगोंमें कुछ २ शिक्षित होते जाते हैं, तथा इनमें बकील मुस्तार तहसीलदार आदि भी हैं, इनमें पन्द्रह दिनका मृता-शौच लगता है, श्राद्धादि सब कृत्य हिंदूशास्त्रानुसार होते हैं, यह देव व देवकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजनेमें विशेष उत्सव करते हैं, इनके आल्यमान, कश्यप, कात्यायन, मौद्गल्य और शांडिल्य गोत्र प्रचलित हैं, इनमें अर्य, भूमिस्पृक्, भूमिजीवी, व्यवहर्ता आदि उपाधि भी देखी जाती हैं, यह साधारणतः ह्रस्वाकार, ढढकाय, ऊंची भौंह और अच्छी बुद्धिवाले होते हैं ।

नागर वैश्योंके भेद ।

गर्ततीर्थके ब्राह्मणही नागरवैश्य बन गये हैं, जहांगीर बादशाहके समयमें एक तान-सेन गवैय्या था एक समय उसने दीपकराग गाया था, जिसके कारण उसके शरीरमें दीपक जैसी ज्वाला उठने लगी अनेक उपचारसे भी शांत न हुई, तब वह मल्लार राग गानेवाले किसी निपुण गवैय्येकी खोजमें फिरता फिरता बडनगरमें आया वहां नागर ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंने उसके दुःखको विचार मलार राग गाकर उसकी व्यथाको शांत किया, उसने दिल्लीश्वरसे यह सब वृत्तान्त कहा। बादशाहने उनके रूप गुणकी प्रशंसा सुनकर उन स्त्रियोंको बुलाया, पर वे वहां नहीं गईं, इस कारण बादशाहने वहां अपनी सेना भेजी उसने बडनगरका विध्वंस कर दिया। अनेक स्त्रीपुरुषोंके प्राण गये, यवनोंने जिसके गलेमें जनेऊ देखा उसीको मारदिया, जिसपर जनेऊ न देखा उसे छोडदिया तब साढे चौहत्तरसौ ७४५० ब्राह्मण यज्ञोपवीत त्यागकर शूद्रवृत्तिसे बाहर निकल गये, और बाहर जाकर वैश्यवृत्ति करनेलगे, तबसे चिट्टीपर ७४॥ का अंक लिखते हैं कि जो खोलैगा उसे इतनी हत्या लगौंगी, इन साढे चौहत्तरसौमेंसे दो सहस्र सिद्धपुर पाटनमें गये, वे पटनी नागर कहाये। चौदहसौ प्रभास पाटन जिलेमें गये, वहां बाहर ग्रामका जथा बांधके रहे उनको सोरठिया संवा कहते हैं, उन ग्रामोंके नाम जूनागढ, मांगरौल, पोरबंदर, नवानगर भूज, ऊना, देलवाड, प्रभासपाटन, महुआवासा, बडा, घोघा, यह नाम हैं, दो सहस्र गुजरातमें रहे, वे गुजराती सम्बा कहाये, उनके वारह ग्रामोंके नाम अहमदाबाद, षेटलाद, नडियाद, बडोदरा, खम्बात, सोजितस, कन्याली, सीनौर, घोसका, विरमगांव, मुमधा, आसी हैं। दोसहस्र चित्तौरमें गये, वे चित्रौडे नागर कहाये, पीछे और २ जो नागर उन ग्रामोंमें वसे वे उन्ही नामसे विख्यात हुए, चित्तौरगढमें गये गर्त ब्राह्मण चित्तौडे बनिये हुए, पीछे जो जो बडनगर ब्राह्मण गये वे वे चित्रौडे नागर ब्राह्मण कहाये, इन्होंने तैंतीस ग्रामोंका खाने पीने और कन्याके लेनदेनका सम्बन्ध नहीं रक्खा, इस कारण चित्रौडे बनियोंका यूथ पृथक् होगया, उन तैंतीस ग्रामोंके नाम यह हैं, सोरठो सम्बाके १८ ग्राम, गुजरात सम्बाके १२ ग्राम, पौलकी सम्बाके ग्राम, सूरत, डूंगरपुर, वासवप्रपाटन, मथुरा, काशी, वरानपोर, अडहितपुर बालेम ओझा, ईडर, डावला, पाटन आदि, छः पोल पृथक् २ हैं और सूरत वुरहामपुर काशी यह तीनों ग्राम पृथक् हैं, इन तीनों सम्बामें तैंतीस ग्राम हैं, यह सब बडनगर वालोंके भेद हैं, चित्रौडे ब्राह्मणोंके विवाहमें तो वर राजा होकर शिरपर लाल पीली हरी तीनों रंगकी रेशमी तापतेकी लम्बी शिरसी बांधकर धशुरके घरको जाते हैं, हाथ ग्रहण होनेतक वरकी माता सामने नहीं आती, पाणिग्रहणके पीछे वर कन्या दोनों कुलदेवीका पूजन करते हैं, भीतके ऊपर रंगकी सात मूर्ति निकालके उसके सामने दो दीपक रखते हैं, उसके ऊपर घातुके पात्र ढकके दोनों वर कन्या उसके ऊपर बैठकर पूजा करते हैं, और चित्रौडे बनियोंके घरोंमें

विवाहके पहले दिनरातमें पायजा नाम कुलदेवीकी पूजा करते हैं, उसकी विधि यह है, वंशपात्रमें पापड जोड २५ उनमें ५ सादे कुमकुम लगाये हुए होते हैं, पांच जीरेके, पांच घनियेके; पांच चनाकी दालके और २५ पापड बारीक, सेवइये लड्डुआ २५ खाजलिया २५, उढदके बडे २५, पानके बीडे २५ शलाका २५ नारियल पांच ५ पोचीके पांच कोडिये, पांच हलदीकी गांठ, पांच निमक ५ सेर कुमकुम ५=चावल पूजाके निमित्त यह सब पदार्थ छावही वांसकी टोकरीमें लेकर कन्याके सहित पांच जंवाई ( वर ) के घरको आवैं, उनको एक नरियल देना, पीछे श्वेत वस्त्रसे कन्याको आच्छादन करके कन्याके हाथसे पूजन कराना, पीछे मंगल घाटडी १ मिठाई १ सेर कन्याके हाथमें देना, पीछे कन्या घरको आती है, इसमें दिशा विंशाका विचार नहीं है ।

इति नागरवैश्योत्पत्तिः ।

खडायतवैश्योत्पत्तिः ।

खडायत ब्राह्मणोंकी सेवामें शंकरकी आज्ञासे रहनेवाले वैश्य खडायत कहाये उनके गुंदाणु, नांदोलु, मिंदियाणु, नानु, नरसाणु, वैश्याणु, मर्वाणु, भटस्याणु, साचेराणु, सालि-स्याणु, नागराणु और कल्याण यह बारह गोत्र हैं, और नेपुगुणमयी, नरेश्वरी तुर्या, नित्या, नंदिनी, नरसिंही, विश्वेश्वरी, महिपालिनी, भण्डोदरी, शंकरा, सुरेश्वरी, कामाक्षी, कल्याणिनी यह कुलदेवी हैं । कोटयर्कदेव इनके मुक्तिके दाता हैं ।

अब श्रीमाली वैश्योंके भेद कहते हैं ।

श्रीमाल क्षेत्रमें विष्णुके ऊरुसे उत्पन्न हुये नब्बे हजार वैश्य थे, अमरसिंहने इनमेंसे बहूतोंको जैनी बना दिया ( उस दिनसे वे सच्छूद्र हुए ) पीछे उनमें बारह भेद हुए, उसमें एक सोनी कहाये, प्रागड ब्राह्मणोंके जो अठारह गोत्र कहे हैं उनमें पहले तीन गोवाली शूद्रकी कन्याके साथ विवाह किया, पिछले चार गोत्र अमरसिंहने भ्रष्ट किये, श्राद्धमें सूत्र-धारण करना, खेती व्यापार करना, सोनीपन करना उनका काम है, इनकी कुलदेवी व्याघ्रेश्वरी है, प्रागडोंके गोत्र ही उनके गोत्र हैं, यह सोनी लोग दसे वीसेके भेदसे पाटणी, सूरती अहमदाबादी खम्बाती जादि भेदवाले हैं, इनमें वीसा श्रीमालीश्रावक-धर्मी हैं, दसे श्रीमालियोंमें कितने एक श्रीसम्पन्न हैं, प्राग्वाड गुर्जर और पदवास नामवाले हैं, प्राग्वाट पोरवालभी दसा वीसाके भेदसे दो प्रकारके हैं, पोरवालमेंसे एक गुर्जर नामक जातिभेद प्रगट हुआ है, वस्त्र देनेके निमित्त जो पटुआ जाति उत्पन्न हुई वह भी उस समय एक प्रकारके वैश्य थे कर्मभ्रष्ट होनेसे शूद्र हुए यह महाराष्ट्र देशके जानकीपुर, बालापुर, सूरतादि देशोंमें विख्यात हैं, दूसरे गाठा और हलवाई भेदवाले हैं, गाठेवनियेही पहले श्रीमाली बनिये थे, परन्तु शूद्रस्त्रीके साथ विवाह करनेसे जो वंश बढ़ा, तब वह गाठे घनिये कहाये, उनपर श्रीमाली ब्राह्मणोंका जो कर है वह श्रीमाली पोरवालसे आधा है, इन गाठोंमें जो और भी भ्रष्ट हुए, सो हलवाई और छीपी जासवाले

कहाये, वह आधीजात कही जाती है, इस प्रकार श्रीमाली ब्राह्मणोंकी साठे छः न्यातकी वृत्ति कहाती है । दसा वीसाके भेदकी एक यह भी कहावत है कि एक धनवान् श्रीमाली वैश्यकी कन्या विधवा होगई, उसने शास्त्र विधि उल्लंघन करके देशान्तरमें उस कन्याका विवाह किया, और फिर अपने गांवमें आया, जातवालोंने उसके साथ भोजन व्यवहार बन्द कर दिया जो उसके पक्षमें रहे वे दस्से श्रीमाली पोरवाल कहाये और इस विवाहको अयोग्य कहनेवाले वीसा श्रीमाली पोरवाल कहाये, पीछे यह वीसा जैनी होगये, पीछे बल्लभाचार्यके समयमें बहुतसे वैष्णव होगये, शेष आजतक श्रावक हैं ।

इति श्रीमाली वैश्योत्पत्तिः ।

श्रीमालियोंके १३५ गोत्र ।

१	अङ्गरीष	२२	गदउडघा	४३	जूड
२	आकोइपड	२३	गलकडे	४४	झामचूर
३	उवरा	२४	गपताणियां	४५	टांक
४	कटारिया	२५	गदइया	४६	टांकरिया
५	कहूधिया	२६	गिलाहला	४७	ठीगड
६	काठ	२७	गीदौडघा	४८	डहरा
७	काल	२८	गूजरिया	४९	ढागदे
८	कालेरा	२९	गूजर	५०	डूंगरिया
९	कादइये	३०	धेवरिया	५१	ढौढा
१०	धुराडिक	३१	धीघडिया	५२	ढौर
११	कुठारिया	३२	धूवारिया	५३	तवल
१२	कूऊडा	३३	चरर	५४	ताडिया
१३	काडिया	३४	चांडी	५५	तुरक्या
१४	कौफगड	३५	चुगल	५६	दुसाज
१५	कंवौतिया	३६	चडिया	५७	धनालिया
१६	कुंचलिया	३७	चंद्रेरीवाल	५८	धूपड
१७	खगळ	३८	चकडिया	५९	धूबना
१८	खारेढ	३९	छालिया	६०	ध्वाधीया
१९	खौर	४०	जलकट	६१	तावी
२०	खौचडिया	४१	जांट	६२	तरट
२१	खौसडिया	४२	जूंडीवाल	६३	दक्षिणत

६४	नाचण	८८	वारीगौत	११२	मुरारी
६५	नांदरिवाल	८९	वाईसज	११३	मूसल
६६	निरद्रुम	९०	वाथडा	११४	मूंदडिया
६७	निवहटिया	९१	बिमनालक	११५	मौथा
६८	निवहेडिया	९२	वीचड	११६	मौगा
६९	परिमाण	९३	वौहलिया	११७	रांकियाण
७०	पंचौसलिया	९४	भद्रसवाल	११८	राडिका
७१	पडवाडिया	९५	भालौटी	११९	रीहालीम
७२	पलहौट	९६	भांडियां	१२०	लवाहल
७३	पसरेण	९७	भंडारिया	१२१	लडारूप
७४	पंचासिया	९८	माडूगा	१२२	लडवाला
७५	पंचोभू	९९	भूवर	१२३	सागरिप
७६	पापणगोत्र	१००	महिमवाल	१२४	सागिया
७७	पाताणी	१०१	मऊठिया	१२५	सांभडती
७८	पूरविया	१०२	मरदुला	१२६	सीधुड
७९	फलवधिया	१०३	महतियान	१२७	सुद्राडा
८०	फाफू	१०४	महकुले	१२८	सोठिया
८१	फूसफाण	१०५	मरहठी	१२९	सौह
८२	फौफलिया	१०६	मसूरिया	१३०	सोठिया
८३	बहागिया	१०७	मथुरिया	१३१	हार्डागण
८४	वरडा	१०८	मालवी	१३२	हेडाऊ
८५	बलदिया	१०९	माथरपुर	१३३	हीडौय्या
८६	बाहकटे	११०	मारूमहटा	१३४	वोहोरा
८७	वडूवी	१११	मादौटिया	१३५	सांगरिया

### लाडवणिकोत्पत्तिः ।

लाड जातिका वैश्य राजा वेणुवत्सका मन्त्री था, इसने खेडावाल ब्राह्मणोंसे कहा हम पूर्वी लाट देशके रहनेवाले क्षत्रिय हैं, उसी ग्रामके नामसे हम लाड कहते हैं, क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट होकर वैश्य हो गये हैं, अब वे सच्छूद्रवत् हैं, नाम मंत्रसे कर्म करते हैं, कोई अपनेको वैश्य कहते, कोई क्षत्रियत्वका अभिमान करते हैं ।

### हरसौलेवणिक ।

यह गुजरातमें हरसौले ग्राममें निवास करनेसे हरसौले कहाये, इनके मालियाणु, मोरियाणु, शशियाणु, शियाणु, गदियाणु, गनेंद्र, यज्ञाणु, पीपलाणु, कश्याणु, आदि बारह गोत्र हैं,

गांधी, महेता शाहा आदि प्रत्येक गोत्रके अवतंक हैं, इस समय यह सूरत म्हाड बन्दर खानदेश जिला निमाड काशी और हरसौल स्थानोंमें रहते हैं !

भार्गववैश्योत्पत्तिः ।

भृगु कच्छमें जो भार्गव ब्राह्मणोंकी सेवा करनेको विश्वकर्मणि ३६ सहस्र वैश्य उत्पन्न किये वे ही भार्गव वैश्य कहाते हैं, यही कदाचित् दूसर भी कहे जाते हैं, देखो भार्गव-ब्राह्मणोत्पत्ति ।

भट्टमेवाडे वैश्यः ।

जिनको वामुकीने मेवाडमें स्थापन किया वे भट्टमेवाडे वैश्य कहाये. देखो मेदपाठ ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ।

नागदह वैश्य ।

यह नागदहपुरके रहनेवाले हैं, देखो मेदपाटान्तर्गत नागदह ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ।

त्रैविद्यम्होडब्राह्मणोंके यजमान ।

गोभुजवैश्य ।

भगवान् विष्णुके स्मरणसे आकर धर्मारण्यमें कामधेनुके खुराग्रने पृथ्वीको विदीर्ण किया, और हुंकार शब्द किया, तब पृथिवीके विवरसे ३६००० वैश्य उत्पन्न हुए, तब उनके कहनेसे ब्रह्माजीने उनसे कहा तुम गायके हस्तरूप अगले चरणसे प्रकट हुए हो इस कारण तुम्हारा नाम गोभुज होगा, तुम त्रैविद्य म्होड ब्राह्मणोंकी सेवा करना ।

यस्माद्गोभुजसम्भूता गोभुजा इति नामतः ।

विश्वावसुने गन्धर्वोंकी कन्या उनको व्याह दीं इनके लिये—

प्रातर्मध्याह्नयोः स्नानं पितृणां तर्पणं तथा ॥

नमस्कारेण मंत्रेण पञ्च यज्ञाः सदैव हि ॥

जातकर्मादिसंस्कारा ब्राह्मणापत्यवत्सदा ॥

इनको दोनों कालमें स्नान पितृतर्पण स्नान और पंचयज्ञ नमस्कार मंत्रोंसे करने चाहिये, खेती गोरक्षा वाणिज्य यह इनके कर्म हैं। एक समय जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यको आये तब मार्गमें मण्डलीपुरमें ठहरे। जहाँ अणिमांडव्यका आश्रम है, वहाँ भगवान् ठहरे, वहाँके वैश्य जो मिलने आये रामचन्द्रने उनको उस नगरके नामपर नाम दिया, आगे धर्मारण्य गये वहाँ स्नान दान पूजा की, गोभुज वैश्योंको रामचन्द्रने एक तलवार दो चमर दिये विवाहादि कार्यमें आजतक वर खड्गको बल्लमें लपेटकर धसुरालको जाता है, मण्डलीपुरसे सवालाख वैश्य रामचन्द्रजीके संग तीर्थयात्राको आये उनको रामचन्द्रजीने वहाँ स्थापन किया और कहा तुम म्होड मण्डलिये वैश्य कहाओगे ।

## अडाडजा म्होड वैश्योत्पत्ति ।

अडाडजाम्होड वैश्योकी उत्पत्ति इस प्रकार है—एक दिन गोभुज वैश्यके घर एक समय एक जैन मुढिया आया और गोभुजमें अपना उपदेश करने लगा, यह देख ब्राह्मणोंने उसे मार भगाया, और जो वैश्य उस मुढियेके उपदेशसे भ्रष्ट होगये थे उनको वह नगर छोडकर अडालपुरमें जाना पडा, और वह अडालज नामसे विख्यात हुए, अडाडजाम्होड कहाये ।

अहालजेति विख्याता चासुर्विद्याप्रिताश्च ये  
गोभुजाणां तथा केचिन्नाभारोहणकारकः ॥  
जाता मधुकरास्ते वै सिधुहूले स्थिताश्च ये

उनके उपाध्याय चतुर्वेदी म्होड ब्राह्मण हुए, और गोभुजमें जिन्होंने गौका व्यवहार आरंभ किया, वे काठियावाडमें दीवउना, देलवाडा आदि गांवोंमें जाके रहे, वे मधुकर म्होड वैश्य कहाये यह लवणसागरके समीप दीपपुरमें रहते हैं, अब इन वैश्योके आधुनिक दसा बीसा, पंचाके भेद सुनो—गोभुज गांवमें तेजपालका पुत्र विजयपाल एक धनी वैश्य था, उसकी स्त्रीके सीमन्तकार्यमें बहुतसे गोभुज और अडाडजा एकत्र हुए, उसमें एक विधवा म्होडस्त्रीके पुत्रने सभामें खडे होकर कहा कि, मरी मा विधवा है उसने कहा है मुझे भो एक पति करा दो, तब सत्रने आश्चर्य करके पूछा कि कैसी बात कहने हो, यह कैसे होसकता है, तब उसने कहा विजयपालका विधवाके साथ विवाह कैसे हो सकता है तब सभामें बडा गोलमाल हुआ, बहुतसे वैश्य उठकर चलेगये, जिन्होंने कोई मुलहजा नहीं किया वे बीसा कहाये, जो विजयपालके साथी हुए वे पांचाम्होड कहाये और जो दोनों उदासीन रहे वे दासाम्होड वैश्य कहाये ।

इति म्होड वैश्यादि उत्पत्ति ।

अथ झालोरा वणिकादिकी उत्पत्ति ।

इन ब्राह्मणोंके सेवक वैश्य वृत्तिवाले वैश्य कहाये । और उसी प्रकारसे उनको कन्या उत्पन्न करके विवाह दीं, जो ब्राह्मणोंके गोत्र थे वही वैश्योके हुए, इनमें बहुतसे अर्बुद क्षेत्रमें रहे ।

इति झालोरावैश्योत्पत्तिः ।

इति श्रीमुरादाबादवास्तव्य—विद्यावारिधि—पंडितज्वालाप्रसादमिश्रसंकलिते  
जातिभास्करे तृतीयो वैश्यखण्डः समाप्तः ।

विचारकोटीकी जातियां ।

इस विभागमें हम ओहासा उन जातियोंके विषयमें लिखेंगे जो अपने लिये वर्णांतरमें प्रविष्ट होनेका साहस रखती हैं और जिनके वर्णका आन्दोलन अभीतक समाप्त नहीं हुआ है. अथवा यों मान लिया जाय कि जातिविभागके देशी विदेशी विद्वानोंने जिनका वर्ण एकमत होकर स्वीकार नहीं किया है इसलिये हम इस विषयमें अपनी तरफसे निर्णय-सम्बन्धी संमति नहीं दे सकते हैं, दोनों ओरके सपक्ष विपक्ष मतके जो प्रमाण इस समय तक छपे मिले हैं हमने उनको इन स्थलोंमें उतार दिया है, साधक और बाधक दोनों प्रकारके मत यदि न दिखाये जायँ तो कोई भी पुरुष निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होता, हमारी इच्छा है कि संसारकी सभी जातियां अपने २ न्यायको प्राप्त हों और शास्त्रके अनुसार अपना उत्कर्ष लाभ करँ । इस कारण हमको सब प्रकारकी संमतिथे सरकारी रिपोर्टोंके सहित यहां प्रकाश करनी पड़ी है । हां, जिन महानुभावोंने धर्मशास्त्रोंके वचनोंपर अनर्थ किया है उनसे जो जगतमें मिथ्या भ्रांति फैलती है सर्व साधारणके उपकारके निमित्त शास्त्रोंके उन वचनोंका पुरातन माना हुआ अर्थ अवश्य दिखला दिया है । हम सत्य हृदयसे लिखते हैं, हमारा अभिप्राय किसी जातिके पुरुषको अधम मध्यम बनानेका नहीं है, जो शब्द शास्त्रमें जिस वर्णमें पड़ेगये हैं उन शब्दोंको हमने उसी वर्णमें रख दिया है किसी व्यक्ति विशेषसे हमारा अभिप्राय नहीं है और फिर जिस जातिके महापुरुष अपनी जातिके पोषक सत्प्रमाण हमारे पास इस ग्रन्थको अवलोकन कर भेज देंगे वह हम दूसरीबार सहर्ष लगा देंगे, कारण कि हमारा अभिप्राय जातिकी बढाई गौरवताका साधक है । यहां हमने ब्रह्मभट्ट कायस्थ कुर्मी गोपादि कई जातियें ही विचार कोटिमें लिखकर दिखा दी हैं, यह इतनी ही नहीं चतुर्थखण्डमें भी कितनी ही जाति आभीर आदि विचारकोटिकी हैं, सबको यहीं लिख देनेसे ग्रन्थका चतुर्थ खण्ड संदिग्ध मात्र रह जाता इसलिये कुछ जातियोंका दिग्दर्शन पक्ष विपक्षका अपनी सम्मतिसे रहित दिखा दिया है ।

भाट ब्रह्मभट्ट आदि ।

वैश्यायां सूतर्विर्येण पुमानेको बभूव ह ।

स भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥

ब्रह्मवैवर्तपुराण ।

अभिकुण्डसे उत्पन्न सूतके वीर्यसे वैश्यामें एक पुरुष उत्पन्न हुआ इसका नाम भट्ट हुआ, यह बड़ा वावदूक सबकी स्तुति करनेवाला हुआ, यह पुराणवंत्ता सूत अभिकुण्ड से उत्पन्न है, और सारथ्यकर्मा सूत संकर जाति दूसरा है, भाट वा भट्टके प्रसंगसे हमको



यह थोड़ा ब्रह्मभट्टोंके विषयमें विचार करना है, हम किसीभी जातिके उत्कर्ष विधानमें बाधक नहीं हैं पर शास्त्रोंने जिसको जिस प्रकार लिखा है, उसके छिपानेवाले वा रूपान्तर करनेवालोंको इस समय या तो यही मान लेना उचित है, कि चार वर्णोंके सिवाय संकर जातिही नहीं है, यदि पहले थी भी तो उनमेंसे अब कोई शेष नहीं रहा, इस समय यह ब्राह्मणही नाई बारी खाती भाट मागध बंदीके रूपमें दिखाई दे रहे हैं, और यह जो शब्द हैं यह सब एक ही जातिके बोधक हैं, पहले एकही वर्ण था, तब तो किसीको क्षत्रिय बननेकी भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि ब्राह्मणही सर्वोच्च पद है, यही रखना उचित है तो यह धर्मशास्त्र सम्बन्धी पद या तो पेशेके अन्तर्गत कर देने चाहिये, या जैसी कि प्रक्षिप्त कहनेकी चाल है वैसा इन शब्दों और जातियोंको भी प्रक्षिप्त कोटिमें डालकर सर्वथा हेय करके केवल चारही वर्ण मानने चाहिये, तो सभी संकर जातियोंका पीछा छुट सकता है और यदि शास्त्र वचनोंकी स्थिति रक्खी जायगी तो उनमें जिस जातिके लिये जैसे वचन हैं, जैसे हम माननेको तैयार हैं, इस समय कुछ पुरुष भाट जातिको न मानकर कहते हैं कि भाटजाति कोई नहीं, ब्रह्मभट्टनामक ब्राह्मण जाति है, और वह कविके वंशमें है, जैसा कि महाभारतमें लिखा है, कि एक यज्ञ हुआ था उसमें ब्रह्मार्जीका वीर्य आहुतिको प्राप्त हुआ उसमेंसे तीन पुरुष उत्पन्न हुए । ( ब्रह्मभट्ट प्रकाश भाग १ पृ० १ )

पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रसवजैर्गुणैः ।

भृगित्येव भृगुः पूर्वमङ्गारेभ्योङ्गिराभवत् ॥ १०५ ॥

अङ्गारसंश्रयाच्चैव कविरित्यपरोऽभवत् ॥ १०६ ॥

महाभारत-अनुशा०

वह अपने २ प्रसव (जन्म) गुणोंसे संयुक्त होकर पुरुषाकार होगये, उस यज्ञकी ज्वालासे भृगुजी हुए, अङ्गारोंसे अङ्गिरा हुए १०५ और अङ्गारोंकी थोड़ी ज्वालासे कविनामक ऋषि उत्पन्न हुए १०६ इसी प्रकार और भी ऋषि उत्पन्न हुए पृ० ९ ।

निसर्गाद्ब्रह्मणश्चापि वरुणो यादसांपतिः ॥ १२३ ॥

जग्राह वै भृगुं पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम् ॥

ईश्वरोङ्गिरसं चाग्नेरपत्यार्थमकल्पयत् ॥ १२४ ॥

पितामहस्त्वपत्यं वै कविं जग्राह धर्मवित् ॥ १२५ ॥

जलोंके स्वामी वरुणजीने सूर्यके समान तेजस्वी भृगुजीको अपना पुत्र बनाया, और अग्निने अङ्गिराको अपना पुत्र बनाया, और पितामहने कविको अपना पुत्र बनाया ॥ १२५ ॥

ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाहृताः ।  
 अष्टौ प्रसवजैर्युक्ता गुणैर्ब्रह्मविदः क्षुभाः ॥ १३२ ॥  
 कविः काव्यश्च धृष्टगुश्च बुद्धिमानुशानास्तथा ।  
 भृगुश्चाग्निरजराश्चैव काशी चोग्रश्च धर्मवित् ॥ १३३ ॥

पृ० ११.

ब्रह्मजीके पुत्र कविजीकी सन्तान भी वारुण कहाती है उनके आठ पुत्र है जो प्रसव-  
 अर्थात् अपने ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुणोंसे युक्त हैं, और वे आठ हैं । कवि, काव्य-  
 धृष्टगु, बुद्धिमान् उशाना, भृगु, विरजा, काशी, और धर्मवित् उत्र ॥ १३३ ॥

विचार—यह आठ पुत्र कवि ऋषिके महाभारतमें लिखे हैं, परन्तु मह.भारतमें ऐसा कोई  
 श्लोक नहीं है जिससे यह बात प्रतीत हो कि कविनामक ऋषिके समस्त वंशधर कवि कहाते  
 हैं, कारण कि कवि यदि वंश पदवी होती तो समस्त ऋषिकुलही कवि कहाने चाहिये,  
 कारण कि समस्त ऋषिही श्लोक रचनामें कुशल थे, तब सबही कवि होजाने चाहिये, और  
 वेदमें ईश्वरको कवि लिखा है यथा ( कविर्मनीषी परिभूस्त्वयम्भूः । यजु० अ० ४० । ८ )  
 वह कवि ( कान्तदर्शी ) मनीषी परिभू और स्वयम्भू है, तो इस हिसाबसे सारा संसार चारों  
 वर्ण चारों आश्रम सब कविवंशी हो सकते हैं, यदि कवि—नाम ब्रह्म अहों का है तब सबही  
 ब्रह्मभट्ट हो सकते हैं, इसकारण यह कहना किसी भांतिभी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंशमें  
 भाट हुए हैं, अन्यथा जबतक ऐसा कोई प्रमाण धर्म शास्त्रका न हो कि कवि संज्ञक ऋषि  
 सन्तान ब्रह्मभट्ट कहाई कोई कैसे मान सकता है, फिर महर्षि की सन्तानने ब्रह्मकर्मोंको छोड़कर  
 मनुष्योंकी स्तुति करके अपनेको उस कर्मसे निकृष्ट किया हो, ऋषि समाजमें यह संभव  
 नहीं हो सकता, स्तुति करना यह सूत मागध तथा भाटोंका काम है देखो महाभारत अनु-  
 शासन पर्व वर्णसंकर जातिविवेकाध्याय श्लो० १० ॥ १२ ॥

विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम् ।

वैश्यो वैदेहकं चापि मौद्गल्यमपवर्जितम् ॥ १० ॥

बंदी तु जायते वैश्यान्यागधोवाक्यजीविनः ।

शूद्रान्निषादो मत्स्यघ्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात् ॥ १२ ॥

अध्या० ४८.

क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे चारों वेदोंसे पृथक् राजाओंकी स्तुति करनेवाला सूत  
 होता है, वैश्यमें ब्राह्मणीके गर्भसे अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य करनेवाला संस्काररहित  
 वैदेहजातिका पुरुष होता है यहां ' स्तोमक्रियापरम् ' का अर्थ स्तुति करना है ॥ १० ॥

वैश्यके द्वारा क्षत्रिया लीसे वाक्यजीव बन्दी मागध वाक्यजीवी जाति होती है अर्थात् यह बन्दी और मागध स्तुति आदि करके अपना निर्वाह करते हैं, और यदि कवि ऋषिके वंशधर भाट होते तो म० अध्याय ३ ( सोमपास्तु कवेः पुत्राः ) सोमपा पितर कविके पुत्र हैं यह भी ब्रह्मभट्ट होते तो क्या कहीं सोमपा शब्द भी ब्रह्मभट्टसंज्ञक हैं ( और उन कवि के तो आठही पुत्र हैं उनमें सोमपा नाम तो है नहीं, फिर आठ पुत्रोंके रहते यह स्वीकृत पुत्र कहे जाते हैं क्या ? ) अस्तु ऐसा प्रमाण ब्रह्मभट्ट जातिके ग्रन्थमें नहीं पाया जाता कि, अमुक ऋषिकी सन्तान ब्रह्मभट्ट है, यदि यह ऋषिगण भाटका कार्य करते तो राजाके विवाह आदिमें नेगजोगके समय दक्षिणा ले सकते, पर ऋषियोंने तो राजपर लात मार दी है, वे ऐसा कभी नहीं करते थे, और यदि कवि ऋषि या कविके पुत्रगण ही यह काम करते थे तो पृथु राजाकी स्तुतिके समय उस वंशके ब्राह्मण खड़े होकर स्तुति करने लगते, परन्तु ऐसा न करके ।

एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पितामहे शुभेत्के...

सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सौऽत्येहनि महान् मानकर क ३३ ॥

तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञे प्राज्ञोऽथ मागध कविके वंशमें है,  
पृथो स्तवार्ये तौ तत्र समाहूतौ सुराधीर्य आहुतिको प्राप्त

हरिवंश पु० अ० ५ श्लो० ३३ । ३४ ।

उसी पितामहके यज्ञमें अभिषवके दिन सूति लीमें सूत उत्पन्न हुआ जो बडा बुद्धिमान् था ॥ ३३ ॥ और उसी यज्ञमें महाबुद्धिमान् मागध हुआ, इन दोनोंको ऋषियोंने पृथुकी स्तुति करनेको बुलाया । श्रीमद्भागवतमें भी अ० १५ श्लो० २२ स्कन्ध ४ में लिखा है ।

हे सूत हे मागध सौम्य बन्दिहोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् ।  
तथा-सूतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुमुपतस्थिरे-इत्यादि ।

यह जो सूत मागध बन्दी हैं इनको एकही कार्यका करनेवाला बताया है । यदि यह सूत मागध बन्दी विशुद्ध विप्रवंश थे तब ऋषियोंमें स्वयं स्तुति न करके इन्को ही क्यों स्तुति कर्ममें प्रयुक्त किया, और नूत सूरान वक्ताके वंशज विद्वान् होनेके कारण भट्ट कहलाये, ब्रह्मभट्ट मा० ३ पृ० ७ यह जो ब्रह्मभट्टोंका कहना है सो भी ठीक नहीं श्रीमद्भागवत महाभारत मार्कण्डेयादि पुराणोंमें एक जगह भी सूतको भट्ट नहीं लिखा इससे विदित होता है कि भाट जाति सूतसे भी भिन्न है, इस ग्रन्थके प्रमाणोंसे विदित है बढई सारथी और वंश प्रसंसक तथा पुराणवक्ता यह सूतोंके भेद हैं, मा० ३ पृ० ४ इनमें पुराणवक्ता सूत अभि-कुंडसे उत्पन्न है, स्तुति करनेवाले और व्यापार करनेवाले दो प्रकारके मागध होते हैं, पृथुने

( अनूपदेशं सूताय मगधं मागधाय च ) अनूपदेश सूतको दिया और मगध मागधको दिया विदित होता है, इसी सूतसे भाटोंकी उत्पत्ति वैश्योंमें हुई है जैसा ऊपर लिख आये हैं ( वैश्यायां सूतवीर्येण पुमानेको वभूव ह । स भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ) कारण कि हरिवंशपुराणके सूत मागधोंका विवाह किस जातिकी स्त्रीसे हुआ उसका प्रमाण सिवाय ब्रह्मवैवर्तपुराणके और कहीं नहीं मिलता, और उसी वीर्य प्रधानके कारण भट्ट जाति भी पिताका कर्म स्तुतिपाठ आदि करने लगी, श्रीमद्भागवतसे मागध और वृन्दिन एक ही हैं । मनुने भी मागधों को ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी स्तुति करनेवाला ठहराया है, सो पहले लिख चुके हैं, एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि आजकल जहां कोई बात दो रूपसे हुई कि उसको परस्पर विरुद्ध कहकर त्यागका उपदेश करनेको उद्यत हो जाते हैं, उनसे पूछना है कि यदि व्याकरणसे एक ही शब्दके रूप शाकल्य आदि ऋषियोंके मतसे कहीं लोप कहीं आगम होकर चार वा १०८ वा इससे भी अधिक प्रकारके बनते ? क्या आप उनको परस्पर विरुद्ध कहकर त्याग सकत हैं, कभी नहीं यह ऋषियोंके परस्पर भिन्न २ मत हैं और सबही सत्य हैं । आगे ब्रह्मभट्ट प्रकाश भा० ३ पृ० २९ । ३० में विचित्र बात कही है ।

### नृत्ताय सूतम्, अतिरुष्टाय मागधम्

यजु० अ० ३० ।

नाचनेके लिये सूतको पैदा कीजिये, हँसानेके लिये मागधको पृ० ३३ वेदमन्त्रोंमें वर्ण-संकरताकी चर्चा लेशमात्र भी नहीं है केवल कर्म लिखा है “ और जो पंडित महीधरजीने अपनी टीकामें सूत मागधोंको वर्णसंकर लिख दिया सो स्मृतियोंको देखकर भ्रमसे लिख दिया, क्या खूब ग्रन्थकर्ता वेदको बहुत ही विचार गये हैं, सनातनी भी बनते हैं और अर्थ दया-नन्दी उडाते हैं, जब ईश्वरसे नाचनेके लिये सूतके उत्पन्न होनेकी प्रार्थना है तब यह सूत क्या वस्तु हैं, नाचनेके लिये मनुष्यको पैदा कीजिये ऐसा वेदमें लिखना चाहिये था वैश्य या ब्राह्मण क्षत्रियोंको पैदा करै, नाचना तो मनुष्यमात्र ही सीख सकते हैं फिर सूत ही क्यों इससे विदित है कि सूत ही कोई मुख्य इनकी जाती है. फिर यहां नाचनेके लिये यह अर्थ भी नहीं बनता । अत्र चतुर्थ्यन्तं देवतापदम्, द्वितीयान्तं पुरुषपदं बोद्धव्यम् ( यहां ) चतुर्थ्यन्तं देवतापद और द्वितीयान्तं पुरुष पद हैं तब यह अर्थ होगा नृत्तदेवताके लिये सूतको ग्रहण करे, यदि आपका अर्थ सत्य मानें तो सुनिये ।

प्रमदे कुमारीपुत्रम् ६ गीताय शैलूषम् ६ तपसे कौलालम् ७  
नदीभ्यः पौञ्जिष्ठम् ८ गंधर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यम् ८ अयेभ्यः  
कितवम् ८ सन्धये जारम् ९ कीलालाय सुराकारम् ११ वैर-  
हत्याय पिशुनम् १३ विविक्त्यै क्षतारम् १४ यमायासूम्

१४ बीभत्सायै पौलकसम् १७ नृत्यवे गोव्यञ्जम् १८  
 अन्तकायगोघातम् १८ दुष्कृताय चरकाचार्यम् ।  
 पाप्मने शैलगम् १८ नृतायानन्दाय तलवम् २० बाजायः  
 पुँश्चली कितवः क्षीबोऽशूरा अबाह्यणास्ते बाजापत्याः ।  
 यजुः अ० ३० मंत्र २२ ।

यदि तीसरे अध्यायके मंत्र इसीप्रकारके अर्थवाले हैं, कि हे ईश्वर नृत्य करनेके लिये सूतको पैदा कीजिये तो इसी प्रसंगके इन मंत्रोंका अर्थ ब्रह्म० प्रकाशके लेणानुसार यह होगा कि कुमारी कन्याके पुत्रको प्रमद ( विशेष आनन्दके लिये पैदा कीजिये ) कहिये तो विशेष आनन्द कारी कन्याकेही पुत्रमें होता है और पुत्रोंमें नहीं, और कुमारीका पुत्र कानिन् संकर क्यों नहीं, आप कहते हो वेदमें संकरजातिका वर्णन नहीं, इसी अध्यायमें ' रथकारं ' आदि संकर जाति बोधक पद पढ़े हैं, फिर गीत गानेके लिये शैल्य ( नट ) का तप करनेके लिये कुलालस्यापत्यं कौलालम्, कुम्हारके पुत्रको, नदीके लिये पौञ्जिष्ठ-अन्त्यजको गन्धर्व अप्सरोंके लिये ब्रात्यको, आयके लिये कितव-दत्तकारको, संधिके, लिये जारको, कौलालके लिये सुराकर्ताको, वीरहत्याके लिये चुगलखोरको, विविक्तिके लिये क्षत्ताको, यमके लिये युगलसन्तान एक साथ उत्पन्न करनेवालीको उत्पन्न कीजिये, बीभत्सके लिये पुलकसकी सन्तानको, अनन्तके लिये गोघातीको, नृत्य और आनन्दके लिये तलव-बाजा बाजानेवालेको, दुष्कृतके लिये चरकाचार्यको पाष्माके लिये सलगम् दुष्टकी सन्तानको और ( त्रेतायै-काल्पिनम् मं० १८ ) त्रेताके लिये कल्पना करने वालेको उत्पन्न कीजिये "ऐसे अर्थ होंगे इस प्रार्थनाकी तो वलिहारी है तपस्या कुलालकी सन्तानही कर सकती है ब्राह्मणादि नहीं, क्यों साहव पौञ्जिष्ठ कौन हैं ? वह नदीके लिये है, तो वह नदीका क्या करे या स्वयं नदी बन जाय और ब्रात्यर्वाप्सराओंका क्या करे वा गन्धर्व अप्सरा बन जाय द्यूतकार जार और सुराकर्ता चुगलखोर, गोघाती, इनके उत्पन्न होनेकी भी आवश्यकता है, क्या यह चार वर्णके पुरुषकर्म नहीं कर सकते. यदि कहो कर सकते हैं, तो इनकी प्रार्थना करके खोटी उत्पत्तिसे क्या लाभ है यदि कहो चारवर्ण यह काम नहीं कर सकते तो यह पृथक् जाति क्यों न समझी जाय और यह भी तो कहिये कि चरकाचार्य वैद्य चिकित्सा न करके दुष्कर्म करनेके लिये उत्पन्न किये जाय अच्छे कर्म बताये और शैलग-दुष्टकी संतान पाप करनेके लिये उत्पन्न किये जाय, कैसी भयंकर प्रार्थना है बीभत्सता आदिके लिये, पाप चोरी और जारके लिये भी प्रार्थना है, हा वेद भगवन् ! तुम्हारे व्याख्याता ऐसे भी हो गये, इसीसे भारतमें कहा है ( इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् । विभेत्यल्पताद्भेदो मामयं प्रहरिष्यति ) इतिहासपुराणोंसे वेदका विस्तार करै, थोड़े पदेसे वेद डरता है कि यह मुझपर प्रहार करेगा इस अध्यायमें सूत रथ-

कार अन्त्यज चांडाल कानीन यह सब संकर जाति है, कुमारीपुत्रसे क्या लाम है, कुमार अवस्थाहीमें पुत्रकी चाहना है धन्य ऐसे अर्थकी बलिहारी है यदि कहो हम श्रुति स्मृति कुछ नहीं मानते तो निरुक्तसेही अर्थ करो, यदि केवल व्याकरणसे प्रकृतिप्रत्ययसाजसे अर्थ करोगे और रूढि शब्द नहीं मानोगे तो सब संसार चल्नेवाला गंगा गौ वन जायगा और संपूर्ण विद्वत्समाज तथा कविसमाज ब्रह्मबहू वन जायगा, तब कोई जाति न रहेगी इसमें, शास्त्रानुसार शथपथानुसार यहां चतुर्थत देशता हैं द्वितीयांत पुरुष है इसमें अमुक २ देवताकी प्राप्तिके लिये अमुक २, पुरुषको यज्ञमें स्थापन करना, ऐसा अर्थ ही बन सकता है, कारण कि यहां पुरुषमेवका प्रकरण है और (ब्रह्मणं ब्राह्मणम्) ब्रह्मके निमित्त ब्राह्मणको (क्षत्राय राजन्यम्, भरुद्भ्यो वैश्यम्, तमसेऽशूद्रम्) क्षत्रकी प्राप्तिके लिये अत्रियको भरुद्भ्यो लिये वैश्यको तपके लिये शूद्रको स्थापन करना चाहिये, जब इस अध्यायमें जातिका स्पष्ट प्रकरण है तब दूसरे शब्द रथकार सूत, मागध, आदि जाति वाचक क्यों न समझे जाय, जब चारोंवर्णके मनुष्य ही यह काम कर सकते थे तब इनसे पृथक् सूत आदिका ग्रहण व्यर्थही होजाता इससे यह अध्याय बहुतसी जातियोंका बोधक है, नहीं तो त्रेताके लिये कल्पना करनेवालेको ईश्वर कलियुगमें पैदा न करै, कारण कि त्रेतातक तो विचारस्थित ही नहीं रह सकता और स्वयं वेदेही मागधको अशूद्र और अब्राह्मण मानता है, जैसा पीछे ( मागधः पुंश्चली कितवः क्लीवो अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ) अर्थात् मागध पुंश्चली कितवः क्लीव यह अशूद्र और अब्राह्मण हैं, प्रजापति देवताकी प्राप्तिवाले हैं इस वचनसे मागध जाति शुद्ध ब्राह्मण नहीं है अब रही यह बात कि सप्तर्षियोंमें एक समय कोई मागध ऋषि हो गये हैं तो होसकता है, मगध देशमें उत्पन्न कोई मागध कहाये हों, वे मागध जातिके वंदीजन नहीं हो सकते वा उनकी संतान बन्दी नहीं होसकती, दिल्लीकी सुदक्षिणा रानी भी मागधी कहाती थी, तो क्या वह बन्दी कुलकी थी ? कभी नहीं इसी प्रकार मागध ऋषि भी कोई ब्राह्मण होगये हैं पर यह मागध बन्दीजन उसकी सन्तान हैं ऐसा कोई प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं आया इस कारण ।

**दोहा—बंदी मागध सूतगण, विरह वदहिं मतिधीर ।**

**और—नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाय ।**

तु० रामायण ।

**“सूतमागधसम्बन्धां श्रीमतीमतुलप्रभाम्”**

वा० रा० सर्ग ५ बालकाण्ड ।

तुलसीदासजी कहते हैं बन्दी मागध सूत यह वंशकी प्रशंसाकरने लगे तथा नाऊ बारा भाट नट इन्होंने रामकी निछावर ली, वाल्मीकिमें लिखा है अयोध्यामें बहुत सूत मागध

१ महीधरको भ्रम नहीं है नया अर्थ करनेवालेको भ्रम है

आते जाते थे; यह सत्य है महाराजके यहांसे उनको बहुत कुछ मिलता था, फिर अयोध्यामें संकर नहीं था ( न चात्रती न संकरः ) इसका अभिप्राय यह है अयोध्या राजधानीमें संकर जातिकी उत्पत्ति नहीं थी, ब्रह्म संकर जाति न थी तो महाराजका सूत सुमन्त्र कहासे आगया इससे सिद्ध है कि जब वेदमेंही संकर जातियोंका वर्णन है तब यह चारवर्णोंमें अनु-ल्लेख प्रतिश्लोमसे उत्पन्न हुई है, तब ब्रह्मवैवर्तपुराणके मतसे जो भट्ट जातिकी उत्पत्ति लिखी है जबतक इसके विरुद्ध प्रमाण न मिले तबतक हम इसको यज्ञकुण्डोत्पन्न सूतसे वैश्यगर्भ संभूत मान सकते हैं यदि ब्रह्मभट्ट जाति इन भाटोंसे पृथक् है तो उसको जातिसम्बन्धी प्रमाण दिखाने की आवश्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रमाण रूपवर्णमें किसी प्रकारकी आनाकानी न होगी और यदि वह एक पदवीमात्र मानते हों तो वह कोई जाति नहीं है. समस्त कविसमुदाय भट्ट हो सकैगा उसपर हमारा कुछ कहना नहीं है ।

भट्टगण अपने पांच भेद बताते हैं ब्रह्मभट्ट, महाराज, भट्ट, वारुण और वाडव, उसी पुस्तकमें लिखा है इस जातिके मुख्यनाम वारुण, ब्रह्मपुत्र, कविवंशी, ब्रह्मभट्ट और ब्रह्मराव है । इसकी छः पद्धति हैं । भार्गव, भास्कर, भट्ट, भट्टारक, राव और पांडु ।

बस इतनाही वर्णन अभीतक हमको मिला है बीचके पांच नाम ब्रह्माजीके पुत्र कविकी शैलीपर लिखे हैं वह हमसे भाटोंसे नहीं सुने अस्तु जो कुछ भी हो यह जाति द्विजातिमात्रसे सत्कार ग्रहण करती आई और राजोंके यहां तो सदासे इस जातिका मान होता आया है, रजवाडोंमें वंशावलीकी रक्षा इसी जातिने की है, परन्तु अन्य ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें सहभोज्यता नहीं है, दशविध ब्राह्मणोंके सिवाय अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ भोजन नहीं पाते इनका पद ब्राह्मणोंसे हटा हुआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते हैं जितना ग्योजनेसे और कभी मिश्र सकैगा वह भी लिख दिया जायगा ।

हां यदि भाट जातसे ब्रह्मभट्टोंकी कोई पृथक् जाति है और वे अपने अपने तथा आपको भाटोंसे कोई पृथक् जाति जानते हैं तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराणके आधारसे भाट वा भट्टकी उत्पत्ति लिखी है भा० पृ० १३ है—वर्णधर्मविवेकधर्म-शास्त्रे प्रथमे तरंगे इस नामसे एक श्लोक लिखा है,

“अपरः कविसम्भूतो ब्रह्मभट्टेति विश्रुतः ।

त्रयस्ते लोकविख्यातास्सच्छ्रेण प्रकीर्तिताः ॥

और तीसरे कवि पैदा हुए जो ब्रह्मभट्ट करके प्रगट हैं सत्शास्त्रोंसे तीनों लोकोंमें विख्यात हैं । यह श्लोक ब्रह्मभट्ट और कविकी एकताका संपादक अवश्य है पर जिस ग्रन्थके नामसे यह श्लोक है न तो इस नामका कोई धर्मशास्त्र है न यह किसी निबन्धमें दीखता है । स्वयं ग्रन्थकर्तासे हमने पूछा उसका भी संतोषजनक उत्तर न मिला हमको तो यह श्लोक आधुनिक ग्रन्थकर्ताकीही कृतिका विदित होता है ( सच्छ्रेण प्रकीर्तिता ) यही

इस की आधुनिकताका प्रमाण है, जो कुछ भी हो ब्रह्मभट्ट वंशकी कहीं परम्परा मिलैमी तो हम उसको भी लिख देंगे, अभीतक श्रद्धिस्मृतिमें हमको ब्रह्मभट्ट जातिमें कोई प्रमाण नहीं मिला है इसलिये हमारा लेख स्तुति प्रशंसक भाटोंके प्रति है ।

इति मट्टोत्पत्तिः ।

अथ द्वादशविधभौडब्राह्मणानां चतुर्विधकायस्थानामुत्पत्तिमाह । पात्रे पातालखण्डे—  
सूत उवाच ।

एकदा ब्रह्मलोके तु यमः प्रोवाच कं प्रति ।  
चतुरशीतिलक्षाणां शासनेऽहं नियोजितः ॥ १ ॥  
असहायः कथं स्थातुं शक्नोमि पुरुषर्षभ ।  
ब्रह्मोवाच ।

प्राप्स्यते पुरुषः शीघ्रमित्युक्त्वा विससर्ज तम् ॥२॥

अब बारह प्रकारके गौड ब्राह्मण और पन्द्रह प्रकारके कायस्थ जातिकी उत्पत्ति कहते हैं । जो पद्म पुराणके पातालखण्डमें सूतजीने कही है । कि, एकदिन यमराज ब्रह्माजीके पास जाकर बोले कि, आपने मुझको चौरासीलाख योनिकी शिक्षाके ऊपर स्थापन किया है ॥ १ ॥ परन्तु यह काम मैं दूसरेकी सहायताके बिना कैसे कर सकता हूँ, तब ब्रह्माने कहा कि, हे यम ! तुमको शीघ्रही दूसरा पुरुष मिलैगा । यह कहकर यमराजको विदा-किया ॥ २ ॥

धर्मराजे गते ब्रह्मा सभाधिस्थो बभूव ह ।  
तच्छरीरान्महाबाहुः श्यामः कमललोचनः ॥ २ ॥  
लेखिनीपट्टिकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः ।  
स निर्गतोऽग्रतस्तस्थौ नाम देहीति चाब्रवीत् ॥४॥  
ब्रह्मोवाच ।

गच्छ पुरुष भद्रं ते तप आचरतामिति ।  
इत्याज्ञप्तः स पुरुषो ययौ धौरेयदेशकान् ॥ ५ ॥  
उज्जयिन्याः समीपे तु क्षिप्रायाश्च तटे शुभे ।  
पञ्चक्रोशात्मके क्षेत्रे तपस्तप्तं महत्तरम् ॥ ६ ॥

१ ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डमें पातालखण्डे नामसे यह श्लोक लिखे हैं पर हमने वहां नहीं पाये कदाचिद् अन्यत्र होंगे ।



ततः कतिपये काले ब्रह्मा लोकपितामहः ।  
 उज्जयिन्यां ततः श्रीमानाजगाम मुहान्वितः ॥७॥  
 यजनार्थाय यज्ञैश्च नानासंभारसंयुतः ।  
 चित्रगुप्तोऽपि धर्मात्मा कन्याः प्राप सुलक्षणाः ॥८॥  
 वैवस्वतमनो कन्याश्चतस्रः शुभलक्षणाः ।  
 अष्टौ सुहृदा नागीयाः पितृभक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥  
 तासां समभवन्पुत्रा द्वादशैव जगत्प्रियाः ।  
 ब्रह्मा वर्षसहस्रं तु यज्ञैरिष्ट्वा सुदक्षिणैः ॥१०॥  
 चित्रगुप्तमुवाचेहं वाक्यं धर्मार्थमेव च ।  
 ब्रह्मोवाच ।

चित्रगुप्त महाबाहो मत्प्रियोऽस्मत्समुद्भवः ॥ ११ ॥  
 चित्रगुप्त सुगुप्तांग तस्मान्नाम्ना सुविश्रुतः ।  
 मय कायात्समुद्भूतः सर्वांगं प्राप्य सत्वरम् ॥१२॥

यमराजके जानेके पश्चात् ब्रह्माजी समाधि चढाकर बैठे तब उनके शरीरमेंसे आबानु-  
 बाह, श्यामवर्ण, कमलके समान नेत्र, और हाथमें दवात, कलम, पट्टी, लिये ऐसा एक  
 पुरुष निकल कर ब्रह्माजीके आगे खडे होकर कहने लगा कि, मेरा नाम दो ॥ ३-४ ॥  
 तब ब्रह्माने कहा कि, हे पुरुष ! तुम जाकर तप करो इसीमें तुम्हारा भला होगा, यह  
 सुन वह तथास्तु कहकर बडे देशोंको चला गया ॥ ५ ॥ वहां उज्जयिनी नगरीके समीप  
 क्षिप्रान्दीके किनारे जो पांचकोशका क्षेत्र है वहां बैठकर बडे भारी महान् तपको करने  
 लगा ॥ ६ ॥ इस प्रकार तप करते हुए उसको बहुत दिन बीत गये तब लोकपितामह ब्रह्मा  
 प्रसन्न हो उस नगरीमें आये ॥ ७ ॥ और अनेक प्रकारकी वस्तुएँ संयुक्तकर एक हजार  
 वर्षका यज्ञ आरम्भ करदिया । उसमें चित्रगुप्त सुन्दर लक्षणवाली कन्याओंको प्राप्त होता  
 हुआ ॥ ८ ॥ शुभ लक्षणवाली चार वैवस्वत मनुकी, और पितृभक्तिपरायण आठ कन्या  
 नागीकी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उन बारह कन्याओंसे जगत्प्रिय बारह पुत्र उत्पन्न हुए, और  
 ब्रह्मा भी उस सुन्दर दक्षिणवाले हजार वर्षके यज्ञको समाप्त कर ॥ १० ॥ चित्रगुप्तसे  
 धर्म अर्थ युक्त वचन कहने लगे कि, हे चित्रगुप्त ! मुझको तू बहुत प्रिय है क्योंकि तू  
 मेरी कायासे उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ हे चित्रगुप्त ! तुम्हारे सब अंग रक्षित हैं इससे तुम इसी  
 नामसे विख्यात होगे मेरी कायासे उत्पन्न होनेसे—

तस्मात् कायस्थविरूपातो लोके त्वं तु भविष्यसि ।  
 एते वै तव पुत्राश्च काकपक्षधराः शुभाः ॥ १३ ॥  
 सर्वे षोडशवर्षीयाः शुभाचाराः शुभाननाः ।  
 परिप्राप्तसदाचारः कायस्थः पंचमो मतः ॥ १४ ॥  
 धर्मराजगृहं गच्छ कार्यं मे कुरु सुव्रत ।  
 सदसत्सर्वजन्तूनां लेखकः सर्वदेव हि ॥ १५ ॥  
 एतान्दास्यामि सर्वान्वै ऋषिभक्तिपरांस्तव ।  
 एवमुक्त्वा तु विप्रेभ्यो ददौ लोकपितामहः ॥ १६ ॥  
 मांडव्याय ददौ पुत्रं सुरूपमृषिवल्लभम् ।  
 मंडपाचलसान्निध्ये मंडपेश्वरसन्निधौ ॥ १७ ॥  
 या देवी वर्तते मंडपेश्वरी जगदम्बिका ।  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि ऋषिमांडव्यसंज्ञकः ॥ १८ ॥  
 नाम्ना श्रीनैगमः सोऽपि कायस्थो देवनिर्मितः ।  
 मांडव्यास्तत्र श्रीगौडा गुरवः शंसितव्रताः ॥ १९ ॥  
 नैगमास्तेऽपि बहव ऋषिभक्तिपरायणाः ।  
 जाता वै नैगमास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २० ॥

तुम शीघ्रही सब अंगोंको प्राप्त होगे ॥ १२ ॥ इस लिये तुम लोकमें कायस्थ नामसे  
 विख्यात होगे, और ये काकपक्ष धारण करनेवाले जो तुम्हारे बारह पुत्र हैं ॥ १३ ॥ वे  
 षोडश वर्षीय उत्तम आचारके पालन करनेवाले हैं, इस लिये कायस्थ पांचवां वर्ण मान्य है  
 ॥ १४ ॥ अब तुम धर्मराजके समीप जाकर मेरा काम करो, प्राणियोंका पाप पुण्य सब  
 काल लिखना ॥ १५ ॥ और यह तुम्हारे बारह पुत्र (ऋषियोंको देता हूँ) कारण कि  
 यह ऋषिभक्तिपरायण हैं यह कह ब्रह्माने बारह पुत्रोंको ऋषियोंको देदिया ॥ १६ ॥  
 उसमें प्रथम माण्डव्य नामक ऋषिको पुत्र दिया, उनका स्थान मंडपपर्वतके पास जहां मंड-  
 पेश्वर शिव ॥ १७ ॥ और मंडपेश्वरी देवी हैं वहां चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर मांडव्य ऋषि  
 चले गये ॥ १८ ॥ तब उस पुत्रसे जो वंश चला वह नैगम कायस्थ जाति कहलाई, और  
 मांडव्य ऋषिकी जो सन्तान हुई वह मांडव्य श्रीगौड कहलाई अर्थात् कोई मालव्य श्रीगौड  
 भी कहते हैं; वे उनके उपाध्याय हुए ॥ १९ ॥ उनकी भक्तिमें तत्पर सौ हजार नैगम  
 कायस्थ रहते हुए ॥ २० ॥

गौडास्तेऽपि च मांडव्यशिष्यास्ते गुरवः स्मृताः ।  
 शिष्याणां चैव लक्षैकं प्रसंगात्समुदीरितम् ॥ २१ ॥  
 तस्मादर्धं गतास्ते वै लंभितं वासथन्पुरम् ।  
 द्वितीयं तु सुतं तस्य गौतमाय ददौ ततः ॥ २२ ॥  
 गौडेश्वरी तु या देवी वर्तते जगदम्बिका ।  
 श्रीगौडःसोऽपि कायस्थोबहुधा विश्रुतःशुचिः ॥ २३ ॥  
 गौतमो दत्तवांस्तेषां गुर्वर्थं तानृषीन् विभुः ।  
 श्रीगौडास्तत्र शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः ॥ २४ ॥  
 तृतीयं तु सुतं तस्य श्रीहर्षं दत्तवांस्ततः ।  
 श्रीहर्षेश्वरसान्निध्ये गतवानृषिसत्तम ॥ २५ ॥  
 सरोरुहे शुभे देशे शुभे च सरयूतटे ।  
 सरोरुहेश्वरी यत्र वर्तते जगदम्बिका ॥ २६ ॥

वे श्रीगौड मांडव्यके शिष्य एकलाख थे, यह प्रसंगानुसार वर्णन किया गया ॥ २१ ॥  
 उनमेंसे आधे लंभित नगरमें जाकर रहने लगे, पश्चात् ब्रह्माने दूसरा पुत्र गौतम ऋषिको  
 दिया ॥ २२ ॥ वे जगदम्बा गौडेश्वरी देवीके पासके रहनेवाले विख्यात श्रीगौड कायस्थ  
 कहलाये ॥ २३ ॥ और गौतमजीकी आज्ञासे उनके शिष्य श्रीगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय  
 हुए वे बड़े तपस्वी होते हुए ॥ २४ ॥ ब्रह्माने तीसरा पुत्र श्रीहर्षको दिया, वह चित्रगुप्तके  
 पुत्रको लेकर सरोरुह देशमें सरयूनदीके तीर जहां श्रीहर्षेश्वर महादेव और सरोरुहेश्वरी  
 देवी हैं वहांको गये ॥ २५ ॥ २६ ॥

श्रीगौडास्तस्य वै शिष्या गुर्वर्थं संप्रकल्पिताः ।  
 श्रीवास्तव्याश्च कायस्था नानारूपा ह्यनेकशः ॥ २७ ॥  
 श्रीगौडानां च लक्षैकं शिष्याणां संप्रकीर्तितम् ।  
 तस्मादर्धं गतास्तेऽपि ह्यवसन् जाह्नवीतटे ॥ २८ ॥  
 चतुर्थं तु सुतं तस्य हारीताय ददौ ततः ।  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि देशे हर्याणके शुभे ॥ २९ ॥  
 हारीतेश्वरसान्निध्ये हरितस्यांश्रमे शुभे ।  
 हर्याणेशी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ३० ॥

पश्चात् वहां श्रीहर्षके शिष्य श्रीहर्ष गौड गुरु हुए, और श्रीवास्तव्य कायस्थ अनेक रूपके बहूत हुए ॥ २७ ॥ श्रीगौड जो एक लाख ब्रह्मण थे उनमेंसे आधे उन कायस्थोंके गुरु हुए और आधे जाह्नवी गंगाके किनारे जाकर रहने लगे, इसलिये वे गंगापुत्र हुए ॥ २८ ॥ ब्रह्माने चौथा पुत्र हारीत ऋषिको दिया, वह ऋषीश्वर चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर हर्याणदेशमें जहां हारीतेश्वर महादेव, और जगदम्बा हर्याणी देवी हैं और जहां हारीत ऋषिका आश्रम है वहांको गये ॥ २९ ॥ ३० ॥

कायस्थाः श्रेणियतयो विवृताश्च सहस्रशः ।  
 हर्याणाश्चैव श्रीगौडा गुरुत्वे संप्रणोदिताः ॥ ३१ ॥  
 पंचमं तु सुतं तस्य वाल्मीकाय ददौ ततः ।  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि ह्यर्बुदारण्यके शुभे ॥ ३२ ॥  
 देशेऽर्बुदे महारण्ये वाल्मीकाश्रमसंज्ञके ।  
 वाल्मीकेश्वरसन्निध्ये कायस्थो देवनिर्मितः ॥ ३३ ॥  
 वाल्मीकेश्वरिका यत्र वर्तते जगदम्बिका ।  
 वाल्मीकाश्चैव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम् ॥ ३४ ॥  
 वाल्मीकाश्चैव गुरवो मुनिना संप्रकल्पिताः ।  
 रक्तशृङ्गीश्च इत्येते पार्श्वं पश्चिमतः शुभे ॥ ३५ ॥  
 योजनद्वयमाने तु दूरे तिष्ठन्ति चाश्रमे ।  
 कियत्काले च संप्राप्ते यज्ञकर्म समाचरन् ॥ ३६ ॥  
 पष्ठं तस्य सुतं ब्रह्मा वलिष्ठाय ददौ पुनः ।  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ ३७ ॥  
 अयोध्यामण्डले देशे वसिष्ठेश्वरसन्निधौ ।  
 सरयूतटमासाद्य वर्तते जगदम्बिका ॥ ३८ ॥

तत्पश्चात् ऋषिके वंशमें जो हुए वे हर्याणा गौडब्राह्मण हुए और उस पुत्रके वंशवाले श्रेणीपति कायस्थ हुए ब्राह्मण इनके उपाध्याय हुए ॥ ३१ ॥ ब्रह्माने पांचवा पुत्र वाल्मीकको दिया वह उसको लेकर अर्बुद वनमें गये ॥ ३२ ॥ आबूके पास जहां वाल्मीक ऋषिका आश्रम है और जहां वाल्मीकेश्वर महादेव हैं तथा वाल्मीकेश्वरी देवी हैं वहां रहने लगे पश्चात् वहां वाल्मीक कायस्थ वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ यह यजमान और वाल्मीक ब्राह्मण गौडगुरु वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ और कितने ही ऋषिसेकल्पित रक्तशृङ्गनामक

हुए । वे वहासे पश्चिमके ॥ ३५ ॥ आठकोसके ऊपर जिनका आश्रम है जाकर यज्ञ करने लगे ॥ ३६ ॥ पश्चात् ब्रह्माने छठा पुत्र वसिष्ठ नामवाले ऋषिको दिया वे उसको लेकर अयोध्याके समीप सरयूनदीके तट पर जहां वसिष्ठश्वर महादेव हैं और वसिष्ठादेवी हैं वहां गये ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

वसिष्ठाश्चैव कायस्था गुरवोऽपि शुचिस्मिताः ।  
 वसिष्ठा ऋषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥  
 सप्तमं तु सुतं तस्य ददौ सौभरये ततः ।  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि ब्रह्मर्षिः स्वाश्रमं शुभम् ॥ ४० ॥  
 सौरभेये शुभे देशे सौरभे श्वरसन्निधौ ।  
 सौरभी देवता तत्र वर्तते जगदम्बिका ॥ ४१ ॥  
 सौरभाश्चैव कायस्थाः सौरभा गुरवः स्मृताः ॥  
 अष्टमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददौ ततः ॥ ४२ ॥  
 गृहीत्वा गतवान् सोऽपि स्वाश्रमं मुनिसंयुतम् ।  
 देशो दुर्लभको यत्र दालभ्या च सरिद्धरा ॥ ४३ ॥  
 दालभ्येश्वरसन्निधये दालभ्यश्चित्रगुप्तजः ।  
 दालभ्या इति या देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ४४ ॥  
 तच्छिष्याश्चैव दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीर्तिताः ।  
 तदुत्पन्ना द्विजाः सूत शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४५ ॥

पीछे उन दोनोंके वंशमें वासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय हुए और वासिष्ठ कायस्थ उनके यजमान हुए यह महात्मा वसिष्ठके शिष्य हुए ॥ ३९ ॥ पुनः ब्रह्माजीने सातवां पुत्र सौभरि ऋषिको दिया, सौभरि उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर अपने आश्रममें आये ॥ ४० ॥ सौरभेश्वर महादेव तथा जहां सौरभी देवी है वह सौरभ देश है उसमें यह ऋषि आये ॥ ४१ ॥ पश्चात् उन दोनों गुरु और शिष्यके वंशमें सौरभ कायस्थ यजमान, और ऋषिके वंशके सौरभ गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए, पश्चात् ब्रह्माजीने आठवां पुत्र दालभ्य नामवाले ऋषिको दिया ॥ ४२ ॥ उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर दालभ्य ऋषि दुर्लभ देशमें दालभ्या नदीके तट पर ॥ ४३ ॥ जहां दालभ्येश्वर महादेव और दालभ्या देवी विराजमान है तथा जहां दालभ्य ऋषिका आश्रम है वहां आये ॥ ४४ ॥ जो दालभ्य नामक कायस्थ उनके यजमान हुए । हे सूत जो कि दालभ्य गौडके वंशमें सहस्रावधि उत्पन्न हुए ॥ ४५ ॥

केचिदहिस्थलीं प्राप्ताः केचित्कुण्डलिनीं गताः ॥  
याजयन्ति स्म दालभ्यान् कायस्थचित्रगुप्तजान् ॥ ४६ ॥  
नवगं तु सुतं तस्य हंसं तमृषिसुतमः ।  
गृहीत्वा प्रययौ हंसो हंसदुर्गस्य सन्निधौ ॥ ४७ ॥  
सुखसेनो महादेवो विद्यते गुणवत्तरः ।  
हंसेश्वरस्य सान्निध्ये ऋषीणां प्रवरः सुधीः ॥ ४८ ॥  
हंसेश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ।  
तदुत्पन्नाश्च कायस्थाः सुखसेना ह्यनेकशः ॥ ४९ ॥  
ततस्तेभ्यो ददौ हंसान् शिष्यांश्च याजनानि वा ।  
विप्रास्तु सुखदाश्चैव सुखसेना महौजसः ॥ ५० ॥

उनमेंसे कितने एक तो अहिस्थलीमें गये और कुण्डलिनीमें गये और पश्चात् चित्रगुप्त दालभ्य कायस्थोंको वे यजन कराने लगे ॥ ४६ ॥ ब्रह्माजीने नववां पुत्र हंसनामक ऋषि को दिया वह ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर हंसनामवाले दुर्गके समीप ॥ ४७ ॥ सुखसेन देशमें जहां हंसेश्वर महादेव हैं और हंसेश्वरी जगदम्बा देवी हैं वहां ये बुद्धिमान ऋषि-श्रेष्ठ गये वहां चित्रगुप्तके वंशमें जो उत्पन्न हुए वे सुखसेन कायस्थ हुए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ और हंसऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसेन गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय होते हुए बड़े तेजस्वी हुए ॥ ५० ॥

याजयन्ति सदाचाराः सुदेशेषु व्यवस्थिताः ।  
दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाख्यमुनये ददौ ॥ ५१ ॥  
गृहीत्वा गतवान् सोऽपि भट्टकेश्वरसन्निधौ ।  
भट्टेश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ५२ ॥  
भट्टेश्वरो महादेवो यत्र शूली महेश्वरः ।  
भट्टकेशाश्च कायस्थास्तदुत्पन्ना ह्यनेकशः ॥ ५३ ॥  
तान् गुरुत्वेन संपाद्य भट्टनागरसंज्ञकाः ।  
एकादशं तु पुत्रं तु सौरभाय ददौ ततः ॥ ५४ ॥

सदाचारसे उत्तम देशमें यजन कराते हुए ब्रह्माने दशवां पुत्र भट्ट नामवाले ऋषिको दिया ॥ ५१ ॥ वह भट्टऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर जहां भट्ट महादेव और भट्ट महेश्वरी हैं

वहांको गये ॥ ५२ ॥ यहां चित्रगुप्तके वंशमें जो उत्पन्न हुए वे भट्टनागर कायस्थ कहाये यजमान हुए ॥ ५३ ॥ और भट्टऋषिके जो शिष्य थे वे भट्टगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए । ब्रह्माजीने ग्यारहवां पुत्र सौरभ नामवाले ऋषिको दिया ॥ ५४ ॥

सूर्यमण्डलदेशे तु सौरभेश्वरसन्निधौ ।

यत्र सौरेश्वरी देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ५५ ॥

सूर्यध्वजाश्च बहवो जातास्तेऽपि सहस्रशः ।

कायस्थास्तत्र विख्याताः स्वधर्मनिरताः सदा ॥ ५६ ॥

सूर्यध्वजाश्च तच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः ॥

द्वादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ ततः ॥ ५७ ॥

माथुरेश्वरसन्निधौ माथुरा विस्तृताः पुनः ।

माथुरेशी महादेवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ५८ ॥

माथुरीयाश्च गुरवो वर्तन्ते बहवः स्मृताः ।

एवं दत्त्वा तु तान् पुत्रान् ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ५९ ॥

उवाच वचनं श्रुक्ष्णं ब्रह्मा मधुरया गिरा ।

पुत्रत्वे पालनीयाश्च लेखकाः सर्वदेव हि ॥ ६० ॥

शिखासूत्रधरा ह्येते पटवः साधुसंमताः ।

सौरभ ऋषि उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर सूर्यमंडल देशमें जहां सौरभेश्वर शिव और सौरभेश्वरी देवी हैं वहां गये ॥ ५५ ॥ वे सूर्यमंडलदेशमें निवास करनेके कारण उसकी सन्तान सूर्यध्वज कायस्थ हुई यह सहस्रों विख्यात अपने धर्ममें निरत हुए ॥ ५६ ॥ और सूर्यध्वज मौड ब्राह्मण उन ऋषिके शिष्य उनके उपाध्याय इस नामसे विख्यात हुए । पश्चात् ब्रह्माजीने बारहवां पुत्र माथुर नामवाले ऋषिको समर्पण किया ॥ ५७ ॥ वे माथुर ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर माथुर देशमें जहां माथुरेश्वर महादेव माथुरा नगरी तथा माथुरेश्वरी महादेवी है वहां गये ॥ ५८ ॥ पीछे माथुर ऋषिके जो शिष्य थे, वे माथुर चौबे गौड ब्राह्मण उपाध्याय हुए और उनके यजमान माथुर कायस्थ हुए, ब्रह्माजीने इस प्रकार उन बारह पुत्रोंको यथाक्रमसे देकर मधुर वचनसे ॥ ५९ ॥ कहा कि, चित्रगुप्तके वंशका पुत्रके समान पालन करना यह लेखक होंगे ॥ ६० ॥ और ये सब कायस्थ शिरके ऊपर शिखा और यज्ञोपवीत धारण करने वाले और साधुसंमत होंगे ।

सूत उवाच—एवमुक्त्वा विधायादौ यज्ञं ब्रह्मा ययौ स्वकम् ॥ ६१ ॥

सावित्र्या सहितः श्रीमानथ ये चित्रगुप्तकाः ।

तेषां मध्ये तु ये चंकाः शृण्वंतु तस्य कारणम् ॥६२॥

गौडदेशे महारण्ये गंगायाश्चोत्तरे तटे ।

महालक्ष्म्या कृतो यज्ञस्तत्र ये वै वृताः शुभाः ॥६३॥

चत्वारः परमार्थज्ञा मुख्याः कर्मणि साधवः ।

तेषां शुश्रूषकास्तत्र लेखकाः कायजाः पुनः ॥ ६४ ॥

ते तु लक्ष्म्याः प्रसादेन चंकाः श्रीवत्सलाः परे ।

कर्माणीह तु यान्येषां या गतिस्त्रिषु वर्णतः ॥ ६५ ॥

द्विजातीनां यथा दानं यजनाध्ययने तथा ।

कर्तव्यानीति कायस्थैः सदा तु निगमाँल्लिखेत् ॥६६॥

सूतजी कहने लगे कि, वह लोकपितामह ब्रह्माजी ऐसा कह यज्ञ समाप्त करनेके उपरान्त सावित्रीके साथ अपने लोकको गये । अब जो चित्रगुप्तके वंशमें चक्र नामवालेहुए हैं उनका कारण सुनो ॥ ६१ ॥६२॥ गौडदेशमें एक बड़े रमणीय सुन्दर स्थानमें गंगाके उत्तरतटके ऊपर महालक्ष्मीने यज्ञ किया, वहां जो वर्णको प्राप्त हुए थे ॥ ६३ ॥ उनमेंसे चार मुख्य हुए, उनकी सेवा करनेको लेखक कायस्थ तत्पर होते हुए ॥ ६४ ॥ पश्चात् वे कायस्थ लक्ष्मीके अनुग्रहसे श्रीवत्सलचक्र कायस्थ नामसे विख्यात हुए । इनका कर्म त्रिवर्णके अन्तर्गत है ॥ ६५ ॥ अर्थात् कायस्थोंने दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा निगम लिखना ॥ ६६ ॥

पुराणपाठकाः सर्वे सर्वे तत्स्मृतिशंसकाः ।

आतिथ्यं श्राद्धकर्तृत्वं सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ ६७ ॥

इच्छया पुनरुद्राहमितरः परिवर्जयेत् ।

शूलारोहनिमित्तेन कायस्थानृषिसत्तमान् ॥ ६८ ॥

मांडव्यस्ताञ्च शशापेदं कोपसंरक्तलोचनः ।

अल्पोऽपराधो मे जातस्त्वया बहुतरीकृतः ॥ ६९ ॥

वध्यस्त्वं शापं धर्मतश्शीघ्रं पापीयान् भव लेखक ।

श्रुत्वा शापं चित्रगुप्त ऋषिसेवां चकार ह ॥ ७० ॥

पुराण और स्मृतिका पाठ करना, अतिथि सेवा और श्राद्धादि धर्मसाधन करना है ॥ ६७ ॥ और जो यह पंचम चित्रगुप्त कायस्थ है इनकी इच्छापर दूसरा विवाह है अन्यथा नहीं । और कायस्थोंके लिये जो कलिमें शाप हुआ है उसको कहते हैं, एक दिन



चौरोंके सहित वर्तमान मांडव्य ऋषिको किसी एक राजाने शूलीके ऊपर चढाकर उनका प्रताप देख ऋषिको नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तब मांडव्य ऋषिने चित्रगुप्तके पास जाकर कहा कि बाल्यावस्थामें मैंने जो कुछ थोडा अपराध किया था उसका दंड तूने बहुत दिया इससे ॥ ६९ ॥ हे लेखक ! तू धर्मसे वध करने योग्य है, इसलिये तू पापी होजा चित्रगुप्त इस प्रकार ऋषिके शापको सुनकर भयसे व्याकुलहो उनकी सेवा करने लगा ॥७०॥

ऋषिरुवाच ।

मम शापस्तु विफलो न कदाचिद्भविष्यति ।

तथाप्यनुग्रहो मे वै त्वज्जातीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥

तब मांडव्यने कहा हे चित्रगुप्त ! तू सेवा तो करता है परन्तु मेरा शाप निष्फल कदापि नहीं होवेगा तोभी मेरे अनुग्रहसे तुझको नहीं, तथा तेरे जातिके लोगोंको अवश्य फलीभूत होवेगा ॥ ७१ ॥

एवमुक्तोऽपि सेवां वै चित्रगुप्तश्चकार ह ।

कलौ शापो मया दत्तः सर्वेषां स भविष्यति ॥ ७२ ॥

तेषु सूर्यध्वजा ये वै तेषां धर्मः प्रणश्यति ।

वैश्यादुच्चतरा वृत्तिर्ब्राह्मणक्षत्रियादधः ॥ ७३ ॥

ब्रह्मशापाभिभूतानां पातित्यं च कलौ ध्रुवम् ।

वाल्मीकानां कियान्धर्मः स्थास्यत्येवं सुनिश्चयम् ॥७४

इति चित्रगुप्तकायस्थभेदः प्रथमः

इसके पश्चात् पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवामें तत्पर होगया, तब ऋषिने कहा कि तीन युगमें तो पुण्यात्मा रहेंगे फिर यह कलियुगमें शठ पापों होजायेंगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुप्त ने बहुतसी सेवा की तब ऋषिने उससे कहा कि तेरे जो बारह वंश हैं वह धर्मनाशके लिये प्राप्त होवेंगे उनमेंसे जो सूर्यध्वजवंश है वह धर्म नाशमें प्रवृत्त होवेगा, बाकी सर्वोंकी वृत्ति वैश्यवर्णसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे नीची होगी उसका पालन करना ॥ ७३ ॥ ब्राह्मणके शापसे तुमको कलियुगमें पतितपना निश्चय प्राप्त होगा परन्तु वाल्मीकि ब्राह्मण और कायस्थ इनका कुछ धर्म स्थित रहेगा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त कायस्थोंका महिला भेद समाप्त हुआ ।

अथ कल्पभेदेन द्वितीयचित्रगुप्तकायस्थोत्पत्तिमाह—पाप्मे सृष्टिखण्डे ॥

सृष्ट्यादौ सदसत्कर्म ज्ञप्तये प्राणिनां विधिः ।

क्षणं ध्यायन्स्थितस्तस्य शरीरान्निर्गतो बहिः ॥ ७५ ॥

( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्प भेदसे कहते हैं ) ।

सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मा प्राणियोंके पाप पुण्य कर्मके ज्ञान होनेके लिये क्षणभर ध्यान करके बैठे कि इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुरुष बाहर निकलकर स्थित हुआ ॥ ७५ ॥

दिव्यरूपः पुमान् हस्ते मषीपात्रं च लेखनीम् ।

दधानश्चित्ररूपेण रक्षितो दैवतेन हि ॥ ७६ ॥

चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः ।

ब्रह्मणा सह देवैश्च क्षणं ध्वात्वा नियोजितः ॥ ७७ ॥

प्राणिनां सदसत्कर्मलेखनाय सुबुद्धिमान् ।

भोजनादौ बलिस्तस्य भागोऽपि परिकीर्तितः ॥ ७८ ॥

ब्रह्मकायोद्भूतो यस्मात्कायस्थ इति गीयते ।

दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यभिर्घां ततः ॥ ७९ ॥

उपयेमे ततः पुत्रो जातस्तस्य महात्मनः ।

विचित्रगुप्तनामासौ बुद्धिचातुर्यवीर्यवान् ॥ ८० ॥

उस विचित्र द्रव्य स्वरूप दावात करुम हाथमें लिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर देवताओंने उसका नाम चित्रगुप्त रक्खा ॥ ७६ ॥ उस पुरुषको ब्रह्माने क्षणभर ध्यान करने के पश्चात् देवसहवर्तमान धर्मराजके पास स्थापन किया ॥ ७७ ॥ इस प्रकार प्राणियोंके सदसत् कर्म लिखनेके लिये उस बुद्धिमान् पुरुषको स्थापनकर पश्चात् उसके भोजनके लिये बलिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्पन्न होनेके कारण “कायस्थ” इस प्रकार कहते हैं पीछे चित्रगुप्तने दक्षप्रजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ ॥ ७९ ॥ विवाह किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान पराक्रमी हुआ ॥ ८० ॥

ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता ।

स्वक्षाभिधानतस्तस्यां धर्मगुप्तो बभूव ह ॥ ८१ ॥

उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धर्मगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ८१ ॥

धर्मगुप्ताच्च गांधार्यां रुद्रगुप्तोऽभवत्सुतः ।

तस्मादप्सरसो जातं पुत्राणां च चतुष्टयम् ॥ ८२ ॥

माथुरो गौडसंज्ञश्च नागरो नैगमस्तथा ।

तेषां नामानि चत्वारि चतुर्णां च यथाक्रमम् ॥ ८३ ॥

( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्प भेदसे कहते हैं ) ।

सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्मा प्राणियोंके पाप पुण्य कर्मके ज्ञान होनेके लिये क्षणभर ध्यान करके बैठे कि इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुरुष बाहर निकलकर स्थित हुआ ॥ ७५ ॥

दिव्यरूपः पुमान् हस्ते मषीपात्रं च लेखनीम् ।

दधानश्चित्ररूपेण रक्षितो दैवतेन हि ॥ ७६ ॥

चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः ।

ब्रह्मणा सह देवैश्च क्षणं ध्वात्वा नियोजितः ॥ ७७ ॥

प्राणिनां सदसत्कर्मलेखनाय सुबुद्धिमान् ।

भोजनादौ बलिस्तस्य भागोऽपि परिकीर्तितः ॥ ७८ ॥

ब्रह्मकायोद्भूतो यस्मात्कायस्थ इति गीयते ।

दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यभिर्घां ततः ॥ ७९ ॥

उपयेमे ततः पुत्रो जातस्तस्य महात्मनः ।

विचित्रगुप्तनामासौ बुद्धिचातुर्यवीर्यवान् ॥ ८० ॥

उस विचित्र द्रव्य स्वरूप दावात करुम हाथमें लिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर देवताओंने उसका नाम चित्रगुप्त रक्खा ॥ ७६ ॥ उस पुरुषको ब्रह्माने क्षणभर ध्यान करने के पश्चात् देवसहवर्तमान धर्मराजके पास स्थापन किया ॥ ७७ ॥ इस प्रकार प्राणियोंके सदसत् कर्म लिखनेके लिये उस बुद्धिमान् पुरुषको स्थापनकर पश्चात् उसके भोजनके लिये बलिका भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्पन्न होनेके कारण “कायस्थ” इस प्रकार कहते हैं पीछे चित्रगुप्तने दक्षप्रजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ ॥ ७९ ॥ विवाह किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान पराक्रमी हुआ ॥ ८० ॥

ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता ।

स्वक्षाभिधानतस्तस्यां धर्मगुप्तो बभूव ह ॥ ८१ ॥

उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धर्मगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ८१ ॥

धर्मगुप्ताच्च गांधार्यां रुद्रगुप्तोऽभवत्सुतः ।

तस्मादप्सरसो जातं पुत्राणां च चतुष्टयम् ॥ ८२ ॥

माथुरो गौडसंज्ञश्च नागरो नैगमस्तथा ।

तेषां नामानि चत्वारि चतुर्णां च यथाक्रमम् ॥ ८३ ॥

याचयामास रामाद्वै कामं दाल्भ्यो महासुनिः ।

ततो द्वौ परमप्रीतौ भोजनं चक्रतुर्मुदा ॥ ९२ ॥

भोजनान्ते महाभागावासने चोपविश्य च ।

तांबूलानन्तरं दाल्भ्यः पप्रच्छ भार्गवं प्रति ॥ ९३ ॥

उस समय चंद्रसेन राजाकी स्त्री गर्भवती थी सो दाल्भ्य ऋषिके आश्रममें चलीगई. ऋषिने उसका संरक्षण किया, पीछे परशुराम दाल्भ्य ऋषिके आश्रममें आये ॥ ८९ ॥ तब मुनिने उनकी पूजा की और भोजनको बिठाया तो आपोशन हाथमें लेकर ॥ ९० ॥ परशुराम अपने मनोवाञ्छित बातकी प्रार्थना करने लगे तब दाल्भ्य मुनिने कहा आप जो मांगेंगे वही मैं आपको दूंगा ॥ ९१ ॥ ऐसा कह रामके पाससे भी आपने एक इच्छित मांग लिया सो रामने तथास्तु कहा पीछे दोनोंजने परम प्रीतिसे भोजन करनेके ॥ ९२ ॥ उपरान्त उत्तम आसनपर बैठ ताम्बूल भक्षण कर प्रथम दाल्भ्य परशुरामको पूछते हुए ॥ ९३ ॥

यत्त्वया प्रार्थितं देव तत्त्वं शंसितुमर्हसि ।

राम उवाच—

तवाश्रमे महाभाग सगर्भा स्त्री समागता ॥ ९४ ॥

चन्द्रसेनस्य राजर्षेस्तां देहि त्वं महासुने ।

ततो दाल्भ्यः प्रत्युवाच ददामि तव वाञ्छितम् ॥ ९५ ॥

यन्मया प्रार्थितं देव तन्मे दातुं त्वमर्हसि ।

ततः स्त्रियं समाहूय चन्द्रसेनस्य वै मुनिः ॥ ९६ ॥

भीता सा चपलापाङ्गी कम्पमाना समागता ।

रामाय प्रददौ तत्र ततः प्रीतमना अभूत् ॥ ९७ ॥

और कहा है राम तुम क्या मांगते हो सो कहो तब रामने कहा कि, हम तुम्हारे आश्रममें जो चन्द्रसेनकी स्त्री सगर्भा आई है ॥ ९४ ॥ उसको मांगते हैं वह दो, तब दाल्भ्यने कहा हे राम ! तुम्हारा वाञ्छित पदार्थ मैं देता हूँ ॥ ९५ ॥ पीछे आप मुझको भी इच्छित पदार्थ देना यह कह मुनिने चन्द्रसेन की स्त्रीको बुलाया ॥ ९६ ॥ वह कम्पायमान होती हुई उनको दी तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि ॥ ९७ ॥

राम उवाच—

यत्त्वया प्रार्थितं विप्र भोजनावसरे पुरा ।

तन्मे शंस महाभाग ददामि तव वाञ्छितम् ॥ ९८ ॥

हे दाल्भ्य भोजनके समय जो तुमने मुझसे मांगा था हे महाभाग वह वताओ मैं तुमको देता हूँ ॥ ९८ ॥

दाल्भ्य उवाच—

प्रार्थितं यन्मया पूर्वं राम देव जगद्गुरो ।

स्त्रीगर्भस्थममुं बालं तन्मे दातुं त्वमर्हसि ॥ ९९ ॥

ततो रामोऽब्रवीद्दाल्भ्यं यदर्थमिह चागतः ।

क्षत्रियांतकरश्चाहं तत्त्वं याचितवानसि ॥ १०० ॥

दाल्भ्यने कहा हे राम ! आपसे जो मैंने मांगनेकी इच्छा की है सो यह है कि, चन्द्रसेनकी स्त्रीके गर्भमें जो बालक है वह मुझको दे दे ॥ ९९ ॥ तत्र रामने कहा कि मैं तो क्षत्रियोंका अन्त करनेवाला हूँ, जिस तत्त्वके कारण मैं यहाँ आया था वही तुमने मांग लिया ॥ १०० ॥

प्रार्थितं च त्वया विप्र कायस्थं गर्भमुत्तमम् ।

तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥ १०१ ॥

जायमानस्तदा बालः क्षात्रधर्मा भविष्यति ।

दुष्टाद्वै क्षात्रधर्मात्तु त्वं वारयितुमर्हसि ॥ १०२ ॥

ततो दाल्भ्यः प्रत्युवाच भार्गवं प्रति हर्षितः ।

मा कुरुष्वत्र संदेहं दुर्बुद्धिर्न भविष्यति ॥ १०३ ॥

एवं रामो महाबाहुर्हित्वा तं गर्भमुत्तमम् ।

निर्जगामाश्रमात्तस्मात्क्षत्रियान्तकरः प्रभुः ॥ १०४ ॥

परन्तु हे ऋषि ! तुमने कायाके भीतरका गर्भ मांगा है इस लिये इस बालकका नाम कायस्थ होगा ॥ १०१ ॥ हे ऋषि ! उत्पन्न होनेके पश्चात् य बालक क्षत्री धर्मी होवैगा इसलिये तुम इस दुष्टको उस धर्मसे रोकना ॥ १०२ ॥ तत्र दाल्भ्य प्रसन्न होकर कहने लगे कि, इस बातमें आप कुछ भी संशय न करिये यह दुष्टबुद्धि नहीं होगी ॥ १०३ ॥ यह सुन गर्भ छोडकर क्षत्रियहन्ता महाबाहु समर्थ राम आश्रमके बाहर चलेगये ॥ १०४ ॥

स्कन्द उवाच—

कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रिण्यां क्षत्रियात्ततः ।

रामाज्ञया स दाल्भ्येन क्षात्रधर्माद्बहिष्कृतः ॥ १०५ ॥

दत्तः कायस्थधर्मोऽस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः ।

तद्रंशजाश्च कायस्था दाल्भ्यगोत्रास्ततोऽभवन् ॥ १०६ ॥

दारुभ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः

सदाचाररता नित्यं रता हरिहरार्चने ॥ १०७ ॥

देवविप्रपितृणां वै ह्यतिथीनां च पूजकाः ।

यज्ञदानतपः शीला व्रततीर्थरताः सदा ॥ १०८ ॥

इति चान्द्रसेनीयकायस्थभेदस्तृतीयः ।

स्कन्द कहने लगे यह गर्भस्थ बालक क्षत्रियवर्गसे क्षत्रियाणीके उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियधर्मी हुआ परन्तु परशुरामकी आज्ञासे दारुभ्य ऋषिने उसको क्षत्रियधर्मसे पृथक् कर ॥ १०५ ॥ चित्रगुप्त कायस्थके धर्ममें क्रिया उसके वंशमें जो उत्पन्न हुए वह दारुभ्य गोत्री कायस्थ हुए ॥ १०६ ॥ ऋषिकी आज्ञासे कायस्थ धर्मिष्ठ सत्यवादी शिव और विष्णुके पूजनमें तत्पर होते हुए ॥ १०७ ॥ और देव ब्राह्मण अतिथि पूजन, श्राद्धतर्पण, यज्ञ दान तप व्रत तीर्थ यात्राको भली प्रकार करने लगे ॥ १०८ ॥ इस प्रकार चन्द्रसेनीय कायस्थोंका तीसरा भेद समाप्त हुआ ॥

अथ संकरकायस्थानां जातिनिरूपणम् ।

माहिष्यवनितासूनुं वैदेहाद्यं प्रसूयते ।

स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥ १०९ ॥

लिपीनां देशजातानां लेखनं सममाचरेत् ।

गणकत्वं विचित्रत्वं बीजपाठीप्रभेदतः ॥ ११० ॥

अधमः शूद्रजातिभ्यः पंचसंस्कारवानसौ ।

चातुर्वर्ण्यस्य सेवा हि लिपिलेखनसाधनम् ॥ १११ ॥

व्यवसायःशिल्पकर्म तज्जीवनमुदाहृतम् ।

शिखा यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारक्तमंभसा ॥ ११२ ॥

स्पर्शनं देवतानां च कायस्थः परिवर्जयेत् ।

इतिसंकरजातीयकायस्थभेदश्चतुर्थः ।

अब वर्णसंकर कायस्थ जातिका भेद कहते हैं, द्वादश जातिमेंका चौथा माहिष्य और उसकी स्त्री वैदेह मिश्र जातिमें ग्यारहवीं इन दोनोंसे जो पैदा हुआ पुत्र है उसको कायस्थ कहते हैं ॥ १०९ ॥ उनका कर्म अनेक देशकी लिपि लिखना और बीजपाटी गणित जानना ॥ ११० ॥ शूद्रवर्णसे अधम इनको पांच संस्कारका अधिकार है जो कि चारवर्णकी सेवा करना ॥ १११ ॥ व्यापार, कारीगरी, चातुर्यकाम करना ही इनकी जीविका है, शिखा,

अनेक लालवस्त्र, जलसे ॥ ११२ ॥ देवताका स्पर्श इनके लिये वर्जित है ॥ इस प्रकार ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डके मतसे चार प्रकारके कायस्थ पाये जाते हैं ब्रह्मकायासम्भूत चित्रगुप्तकी सन्तान चान्द्रसेनीय और संकर इन चारोंके संस्कारोंमें भेद है, किन्हीकी सम्मति है प्रथम कहे तीन प्रकारके कायस्थोंका समान धर्म है यथाहि—

**चान्द्रसेनीयकायस्था ब्रह्मकायोद्भवाद्यः ।**

**चित्रगुप्ताश्चान्द्रसेनास्तेषां धर्मः समो भवेत् ॥**

इन तीनोंका समान धर्म है और यह वारह संस्कारवाले हैं संकर कायस्थके पांच संस्कार हैं यथाहि—

**संकरकायस्थस्य पंच संस्कारा अमन्त्रकाः ।**

**जातकर्मात्राशनश्च वपनं कर्णवेधनम् ॥**

**विवाहः पंचमस्तस्य न्याय्यः संस्कार इष्यते ।**

संकरकायस्थके पांच संस्कार जातकर्म, अन्नप्राशन, मुण्डन, कर्णछेदन और विवाह यह विना मन्त्रके होने चाहिये परन्तु कलिमें पातित्य भी इनको दिखाया है, मद्यमांसकी रुचि इस जातिमें अधिक है, इससे वर्णदोष आता है, इस कारण जहां २ कायस्थ जातिके लिये यह लिखा हो कि, इनको देवताका स्पर्श न करना चाहिये, वहां संकर कायस्थोंके विषयमें वे वाक्य समझने चाहिये। जहां जहां पातित्यता दीखे वहां २ सब संस्कारविना मंत्रोंके होने चाहिये यह सब लक्षणोंसे लक्षित हो जाते हैं, हमने इस ग्रंथमें उत्तम मध्यम अधममत द्योतक जो प्रमाण इस समय जाति विवेचनावालोंने लिखे हैं, उतार दिये हैं; और सरकारी रिपोर्टोंकी भी संमति लिख दी है अपनी सम्मति सबका ऐक्य मत होजानेपर लिखेंगे अब बंगालमें किस प्रकारसे कायस्थ जातिका विवेचन ग्रन्थकारोंने किया है सो लिखते हैं—

**बंगीय कायस्थजाति ।**

कायस्थ जाति किस वर्णमें है इसका विवाद अनेक ग्रंथोंमें अनेक प्रकारसे लिखा हुआ है। कोई कहते हैं क्षत्रिय हैं कोई कहते हैं शूद्र हैं, और अनेक कहते हैं इन दोनोंसे अतिरिक्त हैं, इस कारण हम इस विषयमें कोई अपना मत प्रगट नहीं करते। केवल शास्त्रोंके वचन पाठकोंके सामने रखते हैं। जिसके देखनेसे पाठक निश्चय कर सकते हैं। कायस्थ जाति शस्त्र धारण नहीं करती किन्तु लेखनकर्ममें निपुण है। बहुधा मद्यमांसमें रुचि अधिक रखते हैं पर अब छोड़ते जाते हैं। कोई यज्ञोपवीत धारण करने लगे हैं। कुलकी श्रेष्ठताकी परीक्षा वैश्य जातिमें लिखचुके हैं ॥

**ब्रह्मपादांशतो जन्म चातः कायस्थनामभृत् ।**

**ककारं ब्राह्मणं विद्यादाकारं नित्यसंगकम् ॥ १ ॥**

आयन्तु निकटं ज्ञेयं तत्र काये हि तिष्ठति ।  
 कायस्थोऽतः समाख्यातो मषीशं प्रोक्तवांश्च यम् ॥ २ ॥  
 जीवे क्षणे भृगुपदे जन्मत्वाच्छोभना धियः ।  
 शठश्च शूरता किञ्चिदनेकप्रतिपालकृत् ॥ ३ ॥  
 जन्मावधि द्विजार्चायां मतिरेव निरन्तरम् ।  
 कुशासनादि सकलं गृहीत्वा मस्तकोपरि ॥ ४ ॥  
 अनुगच्छामि सततमिति चिन्तामनाः सदा ।  
 शठत्वाच्चतुरत्वाच्च विप्रसेवानुलक्षणम् ।  
 वाञ्छत्येव मषीशः स सदोद्वेगीतिमावहन् ॥ ५ ॥

इति आचारनिर्णयतंत्रम् ।

ब्रह्माजीके पदांशसे जन्म लेकर इन्होंने कायस्थ नाम धारण किया है । ककार शब्दसे ब्रह्मा, आकार शब्दसे नित्य ॥ १ ॥ और आयका अर्थ निकट है । ब्रह्माकी कायामें स्थित होनेसे यह कायस्थ नामसे विख्यात हुए यह मसीश नामसे भी पुकारे गये ॥ २ ॥ बृहस्पति की दृष्टि और शुक्रके अंशसे जन्मके हेतुवाले कायस्थ विलक्षण बुद्धिमान् हैं । इनमें वीरत्व और कुछ शठता होती है तथा बहुतोंके पालक होते हैं ॥ ३ ॥ जन्मसे ब्राह्मणसेवामें रत हैं कुशासनादि मस्तकके ऊपर ग्रहण करके ॥ ४ ॥ सदा ब्राह्मणोंके पीछे अनुगमनकी इन्की इच्छा रही, शठता चतुरता प्रयुक्त मषीश कुशासनादि वहन पूर्वक सदा द्विजसेवाकी वांछा करते हैं ॥ ५ ॥

सुतपा उवाच ।

हे सुयज्ञ नृपश्रेष्ठ ब्राह्मणातिप्रियो नृप ।  
 पश्यैतान् विप्रभृत्यांस्त्वमासनादिशिरोधृतान् ॥ ६ ॥  
 एतद्घोरकलावेते भविष्यन्ति द्विजार्चकाः ।  
 जात्या मसीशाः कायस्था ब्राह्मणेश्वरमानसाः ॥ ७ ॥  
 महाविद्योपासकाश्च गुणतः क्षत्रियोपमाः ।  
 कलौ हि क्षत्रियाभावाद्द्वैश्याभावाच्च सुव्रत ॥ ८ ॥  
 एते भक्त्या भविष्यन्ति विप्रा मानासहिष्णवः ।  
 विप्रप्रिया विप्रभक्ता विप्रमानप्रदा यतः ॥ ९ ॥



महाविद्यापितश्चेते क्षत्रकर्मकृतः कलौ ।

मष्याश्वेशतास्येति मषीश इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥

ब्रह्मणो विप्रमूर्तेस्तु पादांशे सम्भवन्ति तत् ।

कायस्था इति संज्ञाः स्युः सुयज्ञेषां शिवा मतिः ॥ ११ ॥

इति आचारनिर्णयतन्त्रम् ।

हे ब्राह्मणोंमें अनुरक्त नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ! मस्तकपर आसनादिधारी इन ब्राह्मणोंके मृत्योंको अवलोकन करो ॥ ६ ॥ इस घोर कलिकालमें यह ब्राह्मणोंके पूजक होंगे, जातिसे मसीश कायस्थ ब्राह्मणोंमें ईश्वरबुद्धि रक्खवो ॥ ७ ॥ महाविद्याके उपासक गुणोंसे क्षत्रियोंके समान हे सुव्रत ! कलियुगमें वैश्य क्षत्रियोंके अभावसे ॥ ८ ॥ ब्राह्मणोंका मान यही सहेंगे । विप्र प्रिय, ब्राह्मणोंके भक्त तथा ब्राह्मणोंके मान देनेवाले, महाविद्याके उपासक, क्षत्रकर्मके करने वाले मसिद्धारा प्रभुताई करेंगे इससे इनका नाम मषीश ॥ ९ ॥ १० ॥ और विप्रमूर्ति ब्रह्माके चरणोंसे उत्पन्न होनेसे ये कायस्थ हैं इनकी मंगलमयी मति हैं ॥ ११ ॥ और भी लिखा है ।

आदौ प्रजापतेर्जाता सुखाद्रिप्राः सदारकाः ।

बाहोश्च क्षत्रिया जाता ऊर्ध्वैर्वैश्या विजज्ञिरे ॥ १२ ॥

पादाच्छूद्राश्च सम्भूतास्त्रिवर्णस्य च सेवकाः ।

हीमनामा सुतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥

कायस्थस्तस्य पुत्रोऽभूद्भूव लिपिकारकः ।

कायस्थस्य त्रयः पुत्रा विख्याता जगतीतले ॥ १४ ॥

चित्रगुप्तश्चित्रसेनो विचित्रश्च तथैव च ।

चित्रगुप्तो गतः स्वर्गो विचित्रो नागसन्निधौ ॥ १५ ॥

चित्रसेना पृथिव्यां वै इति शूद्रः प्रचक्ष्यते ।

वसुर्वाषो गुहो मित्रो दत्तः करण एव च ।

मृत्युञ्जयश्च सप्तैते चित्रसेनसुता भुवि ॥ १६ ॥

इति जातिमालाधृताग्निपुराणम् ।

प्रथम प्रजापतिके मुखसे सखीक ब्राह्मण उत्पन्न हुए । बाहूसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य ॥ १२ ॥ चरणोंसे तीनों वर्णोंके सेवक शूद्र हुए, शूद्रका पुत्र हीम, हीमका प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका पुत्र लेखक कार्यकर्ता कायस्थ हुआ । कायस्थके तीन पुत्र पृथिवीमें विख्यात हुए ॥ १४ ॥

चित्रगुप्त चित्रसेन और विचित्र चित्रगुप्त स्वर्गमें, विचित्र नागलोकमें ॥ १५ ॥ चित्रसेन पृथिवीमें रहा इस प्रकार यह शूद्र कहाते हैं । वसु, घोष, गुह, मित्र, वत्त, करण, मृत्यु-ञ्जय ये सात चित्रसेनके पुत्र भूमिमें विख्यात हुए ॥ १६ ॥

क्षणं ध्यानस्थितस्यास्य सर्वकायाद्विनिर्गतः ।

दिव्यरूपः पुमान् हस्ते मसीपात्रं च लेखनी ॥ १७ ॥

चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः ।

प्राणिनां सदसत्कर्म लेख्याय स निरूपितः ॥ १८ ॥

ब्रह्मकायोद्भवो यस्मात्कायस्थो वर्ण उच्यते ।

नानागोत्राश्च तदंश्या कायस्था भुवि सन्ति वै ॥ १९ ॥

इति पद्मपुराणम् ।

ब्रह्माजीके क्षणमात्र ध्यान करनेसे दिव्यरूप एक पुरुष हाथमें लेखनी और मसीपात्र लिये प्रगट हुआ ॥ १७ ॥ ब्रह्माजीने उसका चित्रगुप्त नाम रख धर्मराजके समीप भेज दिया, वह प्राणियोंके सत् असत् कर्म लिखने लगे ।

ब्रह्माजीकी कायासे होनेसे यह कायस्थ कहलाये, अनेक गोत्रके इनके वंश पृथ्वीमें विख्यात हुए हैं ॥ १९ ॥ और पुराणोंमें भी कायस्थोंकी उत्पत्ति लिखी है परन्तु जितने वचन इस समय तक हम लिख चुके हैं इन वचनोंसे द्वितीयवर्ण होना सम्यक् प्रकारसे निश्चय नहीं होता और इन्हीं वचनोंके प्रमाणसे कायस्थोंको निकृष्ट ज्ञाति भी नहीं कह सकते कारण कि—

विद्यावांश्च शुचिर्धीरो दाता परोपकारकः ।

राजभक्तः क्षमाशीलः कायस्थः सप्तलक्षणः ॥ २० ॥

विद्यावान्, पवित्र, धीर, दाता, परोपकारी, राजभक्त, क्षमाशील होना ये कायस्थोंके सात लक्षण हैं ॥ २० ॥ बंगालमें राठी और वारेन्द्र ब्राह्मणोंकी जो कथा है इसी प्रकार कायस्थोंकी है । गौडेश्वर राजा आदिशूरके पुत्रेष्टि यज्ञमें कान्यकुब्ज देशसे ब्राह्मण आये थे, इन पांच ब्राह्मणोंके साथ पांच पुरुष और भी आये थे । कोई कोई कहते हैं वे पांचों अत्य थे, कोई कहते हैं ब्राह्मणोंके शरीररक्षक थे । जो कुछ भी हो उनका परिचय नीचे लिखे श्लोकसे पाठकगण भली प्रकार प्राप्त कर सकेंगे इसी कारण वे कास्कि नीचे लिखते हैं ॥

सुकृतालिकृताम्बर एष कृती क्षितिदेवपदाम्बुजचारुरतिः ।

मकरन्द इति प्रतिभाति यतिर्द्विजवन्द्यकुलोद्भवमह-  
गतिः ॥ २१ ॥ स च घोषकुलाम्बुजभानुरयं प्रथितेन्दु-

यशाः सुरलोकवशः । सततं सुमुखी सुमतिश्च सुधीः  
 शरदिन्दुपय ऽसुधिकुन्दयशाः ॥ २२ ॥ वसुधाधि-  
 पचक्रवर्तिनो वसुतुल्या वसुवंशसम्भवाः । वसुधाविदिता  
 गुणार्णवैर्नियतं ते जयिनो भवन्तु नः ॥ २३ ॥ दशरथो  
 विदितो जगतीतले दशरथः प्रथितः प्रथमः कुले । दश-  
 दिशां जयिनां यशसा जयी, विजयते विभवैः कुलसा-  
 गरे ॥ २४ ॥ यशस्विनां यशोधरः सदा हि सर्वसागरः ।  
 प्रमत्तसत्त्वगत्वरः शरत्सुधांशुमद्यशः ॥ २५ ॥ प्रतापताप-  
 नोत्तपद्विपालियोपिदालिका । विभाति मित्रवंशसिन्धुका-  
 लिहासचन्द्रकः ॥ २६ ॥ द्विजालिपालनार्थकोऽप्यसौ च  
 हर्षसेवकः । कुलाम्बुजप्रकाशको यथान्धकारदीपकः ॥ २७ ॥  
 अयं गुहकुलोद्भवो दशरथाभिधानो महान् कुलाम्बुजमधु-  
 व्रतो विविधपुण्यपुंजान्वितः । निशम्य गुहभाषितं सकल-  
 सख्यहास्यं व्यभूत्स वंगगमनोद्यतो विविधमानभंगो यतः ॥ २८ ॥

यह पुण्यात्मा कृतकृत्य ब्राह्मणोंका चरणसेवी मकरन्दकी तुल्य सौरभ्ययुक्त मकरन्द है ।  
 यति द्विजोंसे वंदित कुलमें उत्पन्न भट्टगति ॥ २१ ॥ यह घोष कुलके खिलानेको सूर्य  
 हैं और घोष नाम है । चन्द्रमाके समान इनका यश विख्यात सुरलोकको वश करनेवाला  
 है, सदा सुमुख बुद्धिमान् शरदूसे चन्द्रमारूप सागरमें इसका यश कुन्दके समान है  
 ॥ २२ ॥ हे राजन् । चक्रवर्ती वासुकीके वंशमें उत्पन्न गुण समूहोंसे भूमिमें विख्यात हुए  
 ये वसु हैं नित्यजयी हैं, ॥ २३ ॥ भूमिमें दशरथ बड़े विख्यात हुए वह कुलमें प्रथम  
 विख्यात हुए जिस जयीने यज्ञसे दशों दिशा जीतीं, वह कुल सागरमें विभवोंसे जयको  
 प्राप्त होनेवाला यह दशरथ है ॥ २४ ॥ यशस्वियोंका यश धारण करनेवाला सदा  
 सर्वका आदर करनेवाला प्रमत्त सत्त्वोंका मद दूर करता शरदके चन्द्रमाके समान यशस्वी  
 है ॥ २५ ॥ जिनके प्रतापका सूर्य तपता है, शुओंकी स्त्रियोंको शोककर्त्ता मित्रका वंश  
 शोभित होता है । यह मित्रवंश समुद्रमें कालिदासरूप चन्द्रमा है, सिन्धुमें जैसे चन्द्र शोभित  
 हो यह तैसे हैं ॥ २६ ॥ यह ब्राह्मणोंका पालक हर्ष सेवक है, कुल कमलका प्रकाशक है  
 जैसे अन्धकारमें दोष प्रकाश करता है ॥ २७ ॥ यह गुहकुलमें उत्पन्न दशरथ नामवाला  
 है । अपने कुलकमलके खिलानेको भ्रमर अनेक पुण्यसमूहसे युक्त है । गुहके वचन सुन

सब समासद हँसे और वह अपमान समझ पूर्व बंगको जानेको उद्यत हुआ ॥ २८ ॥ इस कथनसे यह साधारण लोक नहीं विदित होते ।

अहं च पुरुषोत्तमः कुलभृद्भ्रमण्यः कृती ।

सुदत्तकुलसंभ्रो निखिलशास्त्रविद्योत्तमः ।

विलोकितुमिहागतो द्विजवरैश्च राज्यं प्रभो चकार

नृपतिः स तं विनयहीनतो निष्कुलम् ॥ २९ ॥

इति कुलदीपिका ।

उन सहचरोंके मध्यमें एकने इस प्रकार परिचय दिया कि, हे प्रभो ! हमारा नाम पुरुषोत्तम, मैं उत्तम दत्त वंशमें उत्पन्न, कुलधारियोंमें श्रेष्ठ, कृती, सब शास्त्रका ज्ञाता, क्रियावान् हूँ । ब्राह्मणोंके सहित आपके दर्शन करनेको आया हूँ । यह वचन सुन राजाने उसको विनयहीन देखकर कुलहीन ( अकुलीन ) कर दिया ॥ २९ ॥ इस वृष्टताके कथन में भी होता है कि, यह कोई निष्ठुष्ट भृत्य नहीं थे । जो कुछ भी हो कान्यकुब्जसे बंगाल में गये । इन पांच कायस्थोंके नाम मकरन्द, घोष, दशरथ, वसु, कालिदास, मित्र, दशरथ वा विराट गुह और पुरुषोत्तमदत्त थे । तथा क्रमसे इनके गोत्र सुकालिन, गौतम, विद्यामित्र, काश्यप, और मौद्गल्य हैं । राजा आदिशूरने ब्राह्मणोंके समान इन पांचोंको पांच ग्राम और यथोचित वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया । बंगाली कायस्थगण इन्हीं पांच महात्माओंकी संतति हैं ।

इसके पांच छः पुरुष वीतने पर बल्लालसेनने कौलीन प्रथा चलाई उन्होंने ब्राह्मणोंके समान कायस्थों में भी जिनमें आचार विचार विद्या प्रभृति गुण देखे उनको ही कौलीन मर्यादा प्रदान की । इसकेही अनुसार घोष, वसु और मित्र इन तीन घरोंको कौलीन मर्यादा प्राप्त हुई । दत्तसे राजाने पूछा उसने कहा संग आये हैं इसे अधिक क्या परिचय होगा ! राजाने उद्धत उत्तर सुन उसको कुलीनतासे बाहर किया गुहके परिचय देते समय सभा गुहनामसे हँसपडी इस कारण यह पूर्व बंगालको चलागया ।

कायस्थोंने अपने २ आदि पुरुषोंसे प्रतिष्ठित वास स्थानका एक समाज कल्पना किया और एक अपनेको उसी समाजका परिचय देते हैं ।

घोषवंशके छठे पुरुष प्रभाकर और निशापति यथाक्रमसे आकना और वाली नामक स्थानमें निवास करते हुए, इसकारण घोषवंशीय आकना और वाली ये दो समाजवाले कहाते हैं ।

वसुवंशके पंचम पुरुष शक्ति और मुक्ति यथा क्रमसे वागान्ता और माइनगरमें निवास करते हुए, इस कारण वसुवंशके बामान्त और माइनगर ये दो समाज हैं ।

मित्रवंशके अष्टम हुई और गुड़ यथाक्रमसे वडिशा और टोकानामक स्थानमें निवास करनेलगे । इस कारण मित्रवंशकी वडिशा और टोका यह दो समाज हैं ।

दत्तवंशके प्रधान समाजवाली और नाडदा और गुहवंशका प्रधान समाज यशोहर है ।  
बंगालके मध्यमें यह विख्यात है ।

अष्ट सिद्ध मौलिक ।

गौडेऽष्टौ कीर्तिमन्तश्चिरवधतिकृता मौलिका ये हि सिद्धास्ते  
दत्ताः सेनदासाः करगुहसहिताः पालिताः सिंहदवाः । ये  
वा पाद्याभिमुख्याः स्थितिविनयजुषः सप्ततिस्ते द्विपूर्वा  
हौडाद्या वीक्ष्य राज्ञा चरणगुणयुता मौलिकत्वेन साध्याः ॥३०॥

इति दक्षिणराठीयघटकारिका ।

गौडदेशमें दत्तसेन दासकर गुहपालितसिंह और देव यह आठ घर बहुकालके निवासी कीर्तिमान् सिद्धमौलिक कहाते हैं वे हौडादि पाद्यप्रधान निग्रम सर्वादा सम्पन्न, कायस्थोके ७२ घरोंको एक पादमात्र गुण दिग्वाकर साध्यमौलिक किया । ३० ॥

अथ द्विसप्तति साध्य मौलिक ।

होडः स्वरधरधरणीवान् आई च सोमः पैसुर सामः ।  
भञ्जौ विन्दो गुहवललोधः शर्मा वर्मा हुई सुई चन्द्रः ॥  
रुद्रो रक्षितराजादित्यो विष्णुर्नागः खिलपिलगूतः । इन्द्रो  
गुप्तः पालो भद्रओमश्चाङ्कुर बन्धुरनाथः ॥ ३१ ॥ शार्ई  
हराश्च मनो गण्डो रोहा राणा राहतसाना दाहा दाना  
गणउपमानाः । खामः क्षामा घरवैतेषा । वीदस्तनश्चार्णव  
आशः ॥ शक्तिभूतो ब्रह्मः शानः । क्षेमो हेमो वर्धनरंगः ।  
गुहः कार्तिर्यशः । कुण्डुर्नन्दी शीली धनुर्गुणः ॥ ३२ ॥

इति शब्दकरुपद्रुमधृतदक्षिणराठीयघटकारिका ।

वे बहत्तर यह हैं । होड, स्वर, धर, धरणीवान्, आईच, सोम, पैई, सुर, साम, भंज, विन्द, गुह, वल, लोध, शर्मा, वर्मा, हुई, सुई, चन्द्र, रुद्र, रक्षित, राजा, आदित्य, विष्णु, नाग, खिल, तिल, भूत, इंद्र, गुप्त, पाल, भद्र, अँ, अंकुर, बन्धुर, नाथ, ॥३१॥ शार्ई, हेरा, मनगंड, राहा, राना, राहुत, साना, दाहा, दाना, चाण, ठपमाना, खाम, क्षौम, घर, वैतष, मीद, तेज, अर्णव, आश, शक्ति, भूत, ब्रह्म, शान, क्षेम, हेम, वर्धन, रङ्ग, गुह, कीर्ति, यश, कुंड, नन्दी, शील, धनु और गुण ॥ ३२ ॥

दक्षिण राठीय और बंगालके कायस्थोंके मध्यमें विशेष पृथकता नहीं है तो भी दूर स्थानमें रहनेसे इनकी भिन्न २ सम्प्रदाय होगई इस कारण उन दोनोंमें आदान प्रदानका चलन नहीं है ।

उत्तरराठीय कायस्थ ।

उत्तरराठमें निवास करनेसे इनकी उत्तरराठीय संज्ञा हुई है । उत्तरराठीय कायस्थगण अपनेको दक्षिण राठीय और बंगाली कायस्थोंके आदि पुरुषोंसे प्रगट होना स्वीकार नहीं करते । वह कहते हैं कन्नौजवासी ब्राह्मणोंके साथ और पांच जन करण आये थे । यह उन पांच करणकी संतान है परन्तु इसका प्रमाण कहीं नहीं देखा जाता है और करण एक संकर जाति होती है जैसे कि, अगले श्लोकसे यह वार्त्ता प्रगट होती है कि, ऐसा होनेसे संकर जाति होजायगी ।

**आचाण्डालात्तु संकीर्णा अम्बष्ठकरणादयः ॥**  
**शूद्राविशोस्तु करणो—**

इत्यमरः ]

चांडाल पर्यन्त वक्ष्यमाण अम्बष्ठ करणादि संकीर्ण प्रतिलोम और अनुलोमसे उत्पन्न होनेसे संकर जाति होती है । शूद्रा स्त्रीमें वैश्योंसे उत्पन्न पुत्र लेखन वृत्तिवाला करण कहलाता है । इस कथनसे उनका जो आशय हो उसको वेही जानते हैं ।

उत्तरराठीय कायस्थोंके सर्व शुद्ध साढे सात घर हैं । उनमें सुकालिन गोत्र घोष, वात्स्य गोत्र सिंह, विश्वामित्रगोत्र मित्र, काश्यपगोत्र दत्त और मौद्गल्यगोत्र कर और दास ये पांच घर कान्यकुब्जसे आये हैं, और शांडिल्यगोत्र घोष और काश्यपगोत्र दास ये दो घर और मौद्गल्यगोत्र कर और भरद्वाजगोत्र सिंह ये दो आधे घर हैं । सर्व शुद्ध ढाईघर बंगालके आदिम कायस्थ हैं इनमें सुकालिन्घोष वात्स्य गोत्र सिंह कुलीन हैं, अवशिष्ट साढे पांच घर मौलिक हैं ।

उत्तरराठीय कायस्थोंमें एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणमें कुटुम्बके घर भोजन नहीं करते थे केवल निमन्त्रित होकर धर्ममें कर्ताके स्थानमें आय प्रस्तुत व्यंजनको देख “उत्तमहुआ है” यह कहकर लौट जाते थे । आज कल यह प्रथा अनेक स्थानसे उठ गई है ।

वारेन्द्र कायस्थ ।

वारेन्द्र कायस्थ बंगालमें बहुत पहलेसे वास करते हैं । उत्तर कालमें ये सब इस देशमें आये थे और किसीसे न मिलकर अपनी सम्प्रदाय अलगही चलाते रहे । वारेन्द्र देशमें निवास करनेसे वारेन्द्र कहाये ।

वारेन्द्र कायस्थ साढे सात घर हैं । उनमें दास, नन्दी, चाकी, और शर्मा ( आधाघर ) ये साढे तीन घर कुलीन हैं, देव, दत्त, सिंह और नाग ये चार घर शुद्ध मौलिक हैं ;

संख्यामें बहुत थोड़े हैं। नदिया, मुरशिदाबाद और राजशाही जिलेमें इस श्रेणीके कायस्थ मिलते हैं।

इस प्रकारसे बंगालके कायस्थोंका वर्णन वहाँके छपे ग्रन्थोंमें पाया जाता है इमें संदेह नहीं कि भारतमें इस जातिकी विस्तार बहुत है। और बड़ी संख्यामें इन जातियोंमें होती हैं, परन्तु अभीतक भी मद्यादि सेवनका सर्वथा त्याग नहीं हुआ है और शिवा मूत्रके बिना तो सहजोंसे ऊपर हैं, परन्तु इस जातिकी बुद्धि बहुत तीव्र है, और लिखनेका काम बहुत कालसे इनके हाथमें चला आता है और इनमें लोग बड़े ऊंचे पदोंपर नोकरी करते हैं, मुसलमानी शासनकालमें जब कि दूसरे वर्णके मनुष्य यावनो भाषा बोलने और लिखनेमें परहेज करते थे, उस समय कायस्थ जातिने ही अरबी फारसी पढ़कर उसमें निपुणता प्राप्त की, और उनके साथ मिलकर काम करते रहे परन्तु हिंदू राज्यमें इस जातिको इतना उच्चपद पाना नहीं पाया जाता, हां उस समयभी इनके हाथों कुछ उद्योगिकीका राजकाज पाया जाता है, इनके विषयमें याज्ञवल्क्यप्रज्ञा अपनी स्मृतिमें लिखते हैं।

**चोरतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः ।**

**पीडयमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥**

याज्ञ—राज० प्र० श्लो० ३३६.

राजाको उचित है कि उच्चक चोर दुराचारी और डाकू और विशेषकर कायस्थोंसे पीडाको प्राप्त हुई अपनी प्रजाकी रक्षा करे, उशनास्मृतिमें लिखा है।

**कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच्च इनस्ततः ।**

नापितके वर्णन करनेके पीछे लिखा है, कि यह कायस्थकी जीविका स्वीकार करता हुआ इधर उधर भ्रमणकर अपना उदर पालन करे, इन दोनों श्लोकोंसे यह बात पाई जाती है, कि यह जाति पुरातन राजदरबारमें ऋषियोंद्वारा विशेष समादरकी दृष्टिसे नहीं देखी गई थी, उशनास्मृति अध्याय ८ श्लोक ३२ । ३५ में जो कुछ लिखा है, उसके देखनेसे विदित होता है कि, कायस्थ जातिके तीनों अक्षर उनके स्वभावका सूचन करते हैं, व्यासस्मृति अध्याय १ श्लोक १० । १२ में और भी विशेषरूपसे लिखा है।

**ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालस्त्रिविधः स्मृतः ।**

**वद्धको नापितो गोप आशायः कुम्भकारकः ॥**

**वणिक्किरातकायस्थमालाकारकुटुम्बिनः ।**

**वेरटो मेघचाण्डालदासश्चपचकीलकः ॥**

**एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः ।**

**एषां सम्भाषणात्स्नानं दर्शनाद्भ्रुविवीक्षणम् ॥**

ब्राह्मणी मा और शूद्रपितासे तीन प्रकारके चाण्डाल पैदा हुए हैं, बढई नाई अहीर चमार कुम्हार वनजारा किरात कायस्थ माली बसफोड स्यारमार चाण्डाल वारी भंगी और कोल यह अन्त्यज हैं. इनसे और दूसरे गोमांसभक्षियोंसे बात करनेपर ज्ञान और सूर्यदर्शन से पवित्र हुआ जासकता है ।

अब अन्य सम्मतियें लिखते हैं—

शब्दकल्पद्रुम शूद्रकमलाकर और जातिमाला पुस्तकोंमें कायस्थोंको शूद्र लिखा है यह पुस्तकें प्रमाणरूपसे मानी जाती हैं, वनस्था दर्पणमें जो श्यामाचरणलिखित हिन्दूधर्मशास्त्रपर टीका है कायस्थोंको शूद्र लिखा है पृ० १० ३२ से १०३६ तक छया सन् १८६७ कायस्थजातिकी १२ श्रणियोंमें अम्बष्ठ और करण यह दो श्रेणी हैं. मनुजीके कथनानुसार यह दोनों एक प्रकारकी संकर जाति है ।

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ।

सदृशानेव तानाहुर्भृतदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

मनुवा० १० श्लो० ६

द्विज पिता और उससे नीचे वर्गकी स्त्रियों जो सन्तान होती है धर्म शास्त्रमें उनकी गणना उनके मातापिताकी जातिमें नहीं की कारण वे अपनी माताकी नीच जाति होनेके कारण अपने मातापिताकी जातियोंके बीचकी जातिमें रखे गये हैं, याज्ञवल्क्य मिताक्षरामें उनके नाम इस प्रकारसे दिये गये हैं मूर्धाभिषिक्त माहिष्य करण कायस्थ और उनके कर्म सेनामें व्यायाम सिखाना. गाना, ज्योतिष, पशुपालन और राजाओंका वासकर्म है ( ब्राह्मणाद्वैश्य-कन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ) ब्राह्मणसे वैश्यकन्यामें अम्बष्ठ होता है अम्बष्ठ और उग्र ( क्षत्रियसे शूद्रकन्यामें उत्पन्न ) होता है। अम्बष्ठ और उग्रजातियोंकी गणना इनके माता-पिताकी जातियोंके मध्यकी जातिमें रखी गई है, और यह निष्ठुष्ट कोटिमें समझे जाते हैं इसी प्रकार क्षत्री और वैदेह की उत्पत्ति उनके माता पिताकी जातियोंके मध्यमें की जातियोंके बीच गई है परन्तु इनके स्पर्शसे अपवित्रता नहीं होती ।

याज्ञवल्क्यजीकी भी यही सम्मति है, मिस्टर रमेशचन्द्र दत्तने इस विषयमें अपने विचारोंको इस प्रकार प्रगट किया है ।

पिता	माता	कृत्रिम जाति
ब्राह्मण	वैश्य	अम्बष्ठ
वैश्य	शूद्र	करण

१ यह श्लोक संकरकायस्थविषयके हैं ( सम्पादक )

१ हाटनका अनुवाद १८२५ ई० जिल्द ३ पृ० ३४० । ३४१ ।

३ हाटनका अनुवाद जिल्द २ पृ० ३४२ ।



कायस्थ वैश्यजातिसे छोटे हैं और यह शूद्र जातियोंके नायक हैं इनका दूसरा नाम लिखनेवाली जाति भी है, तथा इनका पेशा लिखने पढनेका है ( आरसीदत्तकी ऐनसियण्ट इण्डिया जि० ३ पृ० ३०९ )

इतिहास इस बातका प्रमाण मिलता है कि जो कायस्थ ब्राह्मणोंके साथ कन्नौजसे बंगालको गये थे वे सेवक थे, पूर्वीय बंगालके कायस्थ अब भी सेवकाईका कार्य करते हैं और सेवकाई शूद्रजातिका काम है ।

भारतवर्षके दूसरे भागोंके कायस्थोंमें छोटा नागपुर और आसाम केकोलीत, बम्बई प्रान्तके प्रभु, मैसूरके कन्नाकन, और शामभौग मद्रासप्रान्तके करनाम, और दक्षिणके दूसरे भागोंके चेलाकर बेदुगा मुदलियर और पिल्ले शूद्रजातिके हैं शेरिंग जि० २ पृ० १८१ तथा जि० पृ० १२० और जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्यकी हिन्दूकाट्टसूण्डेकूटस पृ० १९२ । १९४ । १९७ ।

अनेक कायस्थ अपनेको पांचवें वर्णमें मानते हैं पर जबसे उन्होंने जाना कि मनुजीने शुद्ध चारही वर्ण माने हैं तबसे अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार किया है ।

### कायस्थजातिकी रीतियां ।

जिस प्रकारसे क्षत्रियका धर्म प्रजापालन और शस्त्रग्रहण है वैसा न होकर कायस्थोंका कर्म केवल कलमकी नौकरी है, कायस्थोंमें एक शाखाका व्याह सम्बन्ध छसी २ शाखामें होता है अर्थात् सकसेने कायस्थोंका व्याह सकसेनोंमें, माथुरोंका माथुरोंमें, सूर्यध्वजोंका सूर्यध्वजोंमें होता है, क्षत्रियोंमें वैसा नहीं होता अर्थात् राठौरोंका राठौरोंमें कभी व्याह नहीं हो सकता और न इनका व्याह कभी असली क्षत्रियोंमें हुआ है फिर जन्ममृत्युमें भी पवित्रताका कायस्थोंमें भेद है, ब्राह्मण १० क्षत्रिय बारह वैश्य १५ और तिरहुतके बहुतसे भागोंका कायस्थ तीन दिनके पश्चात् शुद्धि मानते हैं इसी प्रकार दिवाली दशहरेके पूजनमें भी कायस्थोंका क्षत्रियोंसे भेद है, कायस्थ जातिमें बहुतसे पुरुष यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, पर क्षत्रियोंमें एकभी यज्ञोपवीतके बिना नहीं रह सकता, न कोई कायस्थ अपने यहां क्षत्रियोंके समान कभी वसन्त पूजा करते हैं, तथा बहुतसे द्विज अब तक कायस्थोंकी छुई छुई वस्तुका भोजन नहीं करते हैं, और बंगालमें जो ब्राह्मण कायस्थोंसे दान लेते हैं, वे शूद्र याजी कहे जाते हैं बंगाली कायस्थ अबतक अपने नामके अन्तमें दासपद लगाते हैं, क्षियों अबतक नामान्तमें दासीपद लगाती हैं, युरोपियन लोगोंकी इसमें जो सम्मति है यह थोड़ी और भी लिखते हैं ।

सरजानमालकम कहते हैं कायस्थ जातिमें आचार बहुत कम पाया जाता है, कारण कि हिन्दुओंमें उनकी गणना नीचवर्णमें है, मेमाहर आफ सेन्ट्रल इंडिया १८२३ जि० २ पृ० १६५.

जेम्स स्किनर अपनी सन् १८२५ की, व फारसी किताबमें अहवाल कौम शूद्र यानी कायस्थोंका वृत्तान्त पद्मपुराण, गरुडपुराण, महाभारत और वायुपुराणके अनुसार है ।

प्रोफेसर कोलब्रुक कहते हैं कि सर्व साधारण कायस्थ शब्दको करण शब्दका पर्यायवाची समझते हैं; करणजाति कायस्थ नामको स्वीकार करती है परन्तु बंगाल प्रान्तके कायस्थ अपनेको असली शूद्र होनेका प्रतिपादन करते हैं, जिसका नाम जातिभाला नामक पुस्तकमें दिया है. कारण कि इस पुस्तकमें कायस्थ जातिकी उत्पत्तिका वर्णन गोपको असली शूद्र बयान करनेके पश्चात्ही किया गया है, और फिर वर्ण संकर जातिका वर्णन किया गया है एशियाटिक रिसर्चेज जिल्द ५ पृ० ५७.

सर एच एम इलियट लिखते हैं कि कायस्थ जातिका स्थान जातियोंकी मध्यश्रेणीमें है, और यह असली शूद्र जातिकी स्थानापन्न और एक मिश्रित जाति समझी जाती है, रेसेज आफ दी. N. W. P. १८६९ जिल्द १ क्रोडपत्र सी, भाग पृ० १२५.

प्रोफेसर कोवेलने नीचे लिखा हुआ फुटनोट कायस्थ शब्दपर दिया है, " शूद्रोंकी एक जाति " और फिर लिखा है " कमसे कम बंगालप्रान्तके शूद्र हैं " जिनका कर्म प्राचीन कालसे चला आता है, एलफिन्स्टनकी हिस्ट्री आफ इंडिया सन् १८४४ ई० पृ० ५९६१.

रेवरेण्डशेरिंगने कायस्थोंके विषयमें कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना शूद्रोंसे ऊंची है, या शूद्र और वैश्योंके बीचमें है, हिंदूस्ट्रिवस ऐण्ड कास्टस् जि० १ अध्याय ८ पृ० ३०५.

सरेडनाजिल इवेटसन जिन्होंने मिस्टर वरनजिके वाक्यको उद्धृत किया है वे लिखते हैं हिंदुस्तानकी समभूमिमें बसनेवाले कायस्थ शूद्र हैं और यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं पंजाब एथनाग्राफी १८८३ ई० पैरा ५६०,

मिस्टर कुकूकी उद्धृतकी हुई मिस्टर रिजलीकी संमति इस प्रकार है कि यह कायस्थ जाति युद्धप्रिय क्षत्रियोंकी अपेक्षा स्वभावतः शांतिप्रिय वैश्यों और शूद्रोंके मेलजोलसे बनी है और इस जातिमें ब्राह्मणोंका लेशमात्र भी अंश नहीं है । ट्राइवूस ऐण्ड कास्टस् आफ दी एन उवल्ल० पी० अवध० जि० पृ० १९५.

कलकत्ता हाइकोर्टके विचारसे यह बात कईबार प्रकाशित हो चुकी है कि कायस्थ शूद्र हैं, राजकुमारलाल व अन्य पुरुषका नाम विश्वेर दयाल १८८४ के मुकदमेंमें विचार हुआ और हाइकोर्टके निर्णयमें विहारप्रान्तके श्रीवास्तव्य कायस्थोंके विषयमें उल्लेख हुआ है जिनके विवाह सम्बन्ध संयुक्तप्रान्तके कायस्थोंमें होते हैं और वे उनसे पृथक् नहीं है, इंडियनला- रिपोर्ट १० कलकत्ता पृ० ९८ ( १८८४ और L. L. R. 6 cal, Page 381 )

एकमुकदमा रामलालशुक्ल बनाम अखयचरनमित्र १९०३ ई० में ज्याह और असाळ- तका सवाल पैदा हुआ तब हाइकोर्टने यह निर्णय किया कि बंगालप्रान्तके कायस्थ शूद्र हैं, कलकत्ता बीकली नोबसे जिल्द ७पृ० ६१९ ( १९०३ ) ई०

व्यवस्थाओंकी दशा यह है कि पंडितों द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, वे अनुकूल

और प्रतिकूल दोनों प्रकारकी होती हैं, पं० लक्ष्मीनारायण और पं० रामचरणकी सन् १८७३ की पुस्तक अनुकूलतामें है हरकिशन और लक्ष्मीनारायणरचित कायस्थ क्षत्रिय-स्वकल्पद्रुमकुठार इसके विपरीत है।

१९०१ की मनुष्यगणनाकी रिपोर्टमें चार कमेंटियोंने इस जातिको तीसरी कक्षामें रक्खा है और चार कमेंटियोंने इस चौथी कक्षामें रक्खा है। तीन कमेंटियोंको इस जातिके उचित स्थानके विषयमें संदेह है, और २५ कमेंटियोंने इस चौथी कक्षामें रक्खा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश संमतिके कारण कायस्थ जाति ऊपर कहे हुए अनुसार चौथी कक्षामें रक्खी गई है, परन्तु आमतौरपर कायस्थ और क्षत्रियोंमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षामें वे जातियां भी संमिलित की गई हैं जो क्षत्रिय होनेका दावा करती हैं, और सामाजिक स्थितिमें अच्छी समझी जाती हैं, यद्यपि उनके क्षत्रिय बननेके कथनको सर्वसाधारण नहीं स्वीकार करते हैं, और यहां पर यह विदित करदिया गया है कि कायस्थजाति इस कक्षामें रक्खी गई है ( बंगालसेन्सेज रिपोर्ट १९०१ पृ० ३६६ )

कायस्थजातिमें संकरता साधारणरूपसे जिनका सम्बन्ध दोसे है पाई जाती है यदि तीन द्विजातियोंसे नहीं है तो शूद्र समझे जाते हैं। कुछ रिपोर्टोंमें यह बात स्पष्ट रूपसे लिखी गई है किसी भी हिंदू जातिके विश्व पुरुषने इस बातको स्वीकार नहीं किया कि कायस्थ द्विज है। इस बातपर लोगोंको पूर्णतया विश्वास है कि कायस्थोंने द्विजातियोंकी रीतियोंको बहुत थोड़े दिनोंसे स्वीकार किया है, विशेषतः जनेऊ पहरनेकी रीतिको पर विशेषकर तो सन्ध्या करनेका कोई नियम अबतक भी पालन नहीं होना है; सेन्सेजरिपोर्ट १९०१ N. W. P. and Oudh भाग १ पृ० २२२। २२३।

बंगालप्रान्तके मनुष्यगणनाके सुपरैण्टेंडेन्टने इनको द्विजातियोंकी कक्षामें रक्खा है ( पर वे क्षत्रिय हैं या वैश्य यह बान नहीं लिखी गई ) और न अपने निर्णयके समर्थनमें कोई प्रमाण दिया—जो सोलहवीं शताब्दीके किसी हिंदूप्रमाणको इस विषयमें उद्धृत किया है कि “ सब सत्शूद्रोंमें कायस्थ सबसे उत्तम कहे जाहे हैं ” बंगालसेन्सेज रिपोर्ट अध्याय १ पृ० ३८२।

यहांतक हमारे सब प्रकारके लेख जो कायस्थ जातिके सम्बन्धमें मुद्रित हुए मिले हैं हमने उतार दिये हैं बारह प्रकारके कायस्थोंका लेख तथा तृष्टिखण्डवाला लेख पद्मपुराणमें खोजना चाहिये। हमने ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्डके आधारसे लिखा है जब स्पष्ट प्रमाण हमें मिलेंगे तब निश्चय लिखदेंगे अभी इस बातको विचारकोटिमें छोड़ते हैं।

### कुरमी।

कुरमी जाति भी अन्य जातियोंके समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है और अपने आपको कूर्म ऋषिकी संतान मानती है उनकी लिखी बंशावली भी हमारे पास है,

पहले हम सरकारी रिपोर्ट आदिकी बात लिखकर पीछे शास्त्रप्रमाणानुसार व्यवस्था लिखगे, सरडेनजिल इवटेसन इनकी गणना दासोंमें करते हैं वे लिखते हैं ' कुरमी या कुम्भी' काश्तकारोंकी एक बड़ी जाति है जो दक्षिण और हिंदुस्तानके पूर्वी भागोंमें बहुत पायेजाते हैं कुनयिन एक नेक जाति हैं यह कुदाली हाथमें लेकर अपने पतिके साथ खेतको निराती हैं देखो पञ्जाब एथना ग्राफी सन् १८८३ पैरा ६६३ करनल टाड इनकी गणना खेती-हर और पशु पालन करनेवाली जातियोंमें अह्मर ग्वाल और अन्य ऐसी जातियोंके साथ करते हैं ।

सन् १८६५ की मनुष्यगणनाकी रिपोर्टमें ऐसा लिखा है कि कुरमी किसी क्षत्रियके दासीपुत्रने जिसका नाम वट्टू था किसी वैश्यकी दासीपुत्रीसे विवाह किया वह अपने ससुरके साथ रहता था परन्तु यह नहीं चाहता था कि मैं अपने ससुरके आश्रयमें रहूं, इस कारण वह वहांसे भाग गया, और काश्तकारी तथा व्यापार करना आरंभ किया, शब्द कुरमीको संस्कृत में यह अर्थ है कि जो अपने जीवनका निर्वाह अपनी कमाईसे करता है वही दशा इस कुरमी जातिके उत्पन्न करनेवालेको थी ( सेन्सेज रिपोर्ट पृ० ४२ )

कुरमी किसी क्षत्रियके दास और दासीसे उत्पन्न हुई सन्तान वयान की गई है ( रिपोर्ट १८६५ सफा ७१ ) कुरमी—एक अह्मरके चार लडके थे वीन, कुरमी, पुलिन्दः और निषाद, इन चार लडकोंसे पृथक् २ चार जातियां पनीं, कुरमी—किसी क्षत्रीके दासीपुत्र वट्टूने किसी वैश्यकी दासीपुत्रीसे विवाह किया इसकी सन्तानने कृषिकर्म किया तभीसे यह कुरमी कहलाते हैं संस्कृतमें इस शब्दके अर्थ जीविका उपार्जन करनेके हैं, ( सेन्सेज रिपोर्ट १०११६ सन् १८६५ )

मिस्टर कुक कहते हैं सब बातोंका विचार करके इन कुर्मियोंको वर्तमान कालमें काश्तकारी करनेवाली जाति कहना बहुत ठीक है, कुमी इस जातिसे समय समय पर मिलती हुई जातियां मसलन् कोरी कार्छा सर्ना माली और दूसरी जातियां जिनका सम्बन्ध खेतीके कामसे है निकली हैं ( कुककी ट्राइवस ऐण्टिकास्टस जि० ३ पृ० ३४८ ) देखो !

मिस्टर शेरिंग लिखते हैं । कुनबी खेती करनेवाली जाति है हिंदुस्तानके अधिक भागोंमें यह जाति है इस नामसे या कुरमी नामसे पुकारी जाती है ये लोग असली शूद्र हैं ( शेरिंगकी जातिकी पुस्तक जि० पृ० १८७ )

मिस्टर कुक कहते हैं इन लोगोंमें विधवा विवाह प्रचलित है जिसको धरेजा या कराव कहते हैं, केवल मरेहुए पतिके बडे भाईके साथ विधवा स्त्रीको धरेजा करनेका निषेध है ( कुककी ट्राइवस ऐण्टिकास्टस जिल्द ३ पृ० ३५२ )

“ साधारण रीतिपर कुर्मियोंमें परदेकी रीति नहीं पायी जाती न इनको यज्ञोपवीतका अधिकार है, न इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका प्रमाण पाया जाता है ।

सन् १९०१ की मनुष्यगणनामें कुरमी जाति—

संयुक्तप्रान्त और अवधकी मनुष्य गणनाकी रिपोर्टमें लिखा है चौबीस जाति विवेचक कमेटियों ने कूर्मियोंको उस कक्षासे कममें रक्खा है, जिसमें वे अपने होनेका दावा करते हैं, और चार कमेटियोंने इनको चौथी कक्षा ( वे जातियां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय जातिसे है ) में रक्खा है, और दो कमेटियोंने उनकी गणना छठी कक्षामें ( जातियां जिनका सम्बन्ध वैश्य या वनियोंसे है ) की है. यह बात कि इनमें विधवाविवाह ( या धरेजा ) प्रचलित है इनके निकृष्ट और शूद्र होनेका चिह्न समझा जाता है इस बातका वर्णन पहले हो चुका है कि इस कुरमी जातिमें कुछ समासदोली नई समायें बनाई गई हैं, जिनकी इच्छा अपनी जातीय दक्षामें उन्नति करनेकी है, और जिनको अपनी जातिमें विधवाविवाह होनेकी बात अस्वीकृत है ( सेन्सेज रिपोर्ट १९०१ भाग १० २२४ )

“दूसरे स्थानपर सेन्सेज आफ इण्डिया १९०१ जि० १ पृ० ५२०.” में लिखा है विहारके अवधिया या अयोध्या कुर्मी और संयुक्त प्रान्तके कनौजिया कुर्मी विधवा विवाहकी रीतिको रोकनेके कारण अभिमान करते हैं, और प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकारसे क्षत्रिय मान लियेजाय, यद्यपि अवधिया कुर्मी खास कुर्मियोंसे पृथक् होगये हैं, तथापि उनको कोई क्षत्रिय या राजपूत स्वीकार नहीं करता है। वर्णकविवेकचंद्रिकामें लिखा है कि—

**शङ्कुकारात्मजाः सर्वे बभूवुश्चित्रकारिणः ।**

**कुविन्दकात्मजौ जानौ कैरी कुर्मातिसंज्ञकौ ॥**

शङ्कुकारके पुत्र चित्रकार हुए और कुविन्दके पुत्र कैरी और कुर्मी कहलाये, बहुधा विद्वानोंकी सम्मति इस जातिको शूद्र बतानेमें है, पंडित भीमसेनजीने इस जातिको अपनी अष्टादश स्मृतिके टीकामें लिखा है कि—

**शूद्रेषु दासगो गालकुलमित्रार्द्धसीरिणः ।**

**भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥**

पराशर० । ११ । २०

यहां कुलमित्रपर कुर्मीकी संभावना पंडितजीने की है ।

इसके विरुद्ध कुर्मी जाति अपनेको क्षत्रिय कहती है और यह भी कहती है कि हमारी जातिमें बहुत बडे आदमी हैं जो कोई हमको क्षत्रिय न कहेगा हम दावा करदेंगे हमने वंशावली बनवाली है, इसके विरुद्ध कोन कह सकता है, अतः हम इस अवसरमें उनलोगोंसे कहते हैं भाई शास्त्रमें जो लिखा होता है, वह सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि शास्त्र आपको क्षत्रिय कहे तो हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं । कुर्मी क्षत्रियत्वदर्पण पृ० २ पं० ४ से ऋगादि वेदों, केन आदि उपनिषदों, शतपथ्यादि ब्राह्मणों, सांख्यआदि षट्दर्शनो, मानवआदि धर्मशास्त्रों, महाभारत आदि इतिहासों, तथा अन्य प्रमाणिक ग्रन्थोंमें न तो क्षत्रियसे भिन्न पुरुष की संज्ञामें पु० कूर्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है, न यह लिखा है कि

कूर्मों क्षत्रियसे भिन्न अन्य वर्ण है । २ पुं० कूर्मी शब्द भूपति, वीर्यवान् वीरकर्मा इन्द्रका वाचक है, और उत्कृष्ट क्षत्रियकी समुचित संज्ञा है । ३ ( स एष कूर्म इम एव लोकाः ) ( श० का० ७ । ५ । १ ) के अनुसार पृथिवी आदि लोक कूर्म है ( पृ० ३ पं० १ ) ( घावा पृथिव्यौ हि कूर्मः ) ( श० ७ । ५ । १ ) के अनुसार स्पष्टरूपसे द्योः-स्वर्ग और पृथिवीका नाम कूर्म है । ( पृ० ३ पं० ५ ) ( कूर्ममुपदधाति रसो वै कूर्मः ) कूर्मका अर्थ रसका है, विश्वकोशमें “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ त्रिपरागयोः । शृङ्गारादौ द्रवे वीर्ये देह धात्वम्बुपारदे” कूर्मका अर्थात् रस अर्थात्-वीर्य है ४ ( पृ० ४ पं० ६ ) ( पूर्वाभ्रिद्वित्वे तु विकूर्मिन् ) ( ऋ० मं० ८ सू० ५५ ) । ( इन्द्रमुशिप्रोमघवातरुत्रोमहाघातस्तुविकूर्मिन्ऋधावान् ) ( ऋ० मं० ३ सू० ३० ) सायन भाष्यमें तो विकूर्मिका अर्थ ( संग्रामे नाना-विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममें नाना विधि कर्मोंका करनेवाला है, इन्द्र जिसकी संज्ञामें कूर्मी शब्दका प्रयोग वेदमें मिलता है क्षत्रिय ही है “स यः स कूर्मोऽज्ञौ आदित्यः ” और “वृषावै कूर्मः श० ७ । ५ । १ ” के अनुसार आदित्य सूर्य और वृषा अर्थात् इन्द्रका नाम कूर्म है । अतएव कूर्म शब्द उत्कृष्ट क्षत्रियकी संज्ञामें प्रयुक्त होता है । जिन ५ कुलोंमें कुरमी उत्पन्न हैं उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंसे लिये गये हैं; कूर्म वंश, कुशवंश, लव-वंश कूर्म ( ऋषि ) कुल कुरु । वंश यदुवंश इत्यादि ।

यहीं पांच नम्बर सब वंशावलीके सारभूत हैं, इसपर हमको तथा दूसरे जाति निर्णय करनेवालोंको यह कहना है कि कूर्मी शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तब आपको वेद उपनिषद् दर्शन धर्मशास्त्र और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कूर्मियोंकी वंशावली है, इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंश, वहलाआदि चन्द्रवंश, किसी एक वंशमें इनका समावेश होना दिखाया जाता, सो ग्रन्थकारने महाभारत मनु उपनिषद् साम यजु इनमेंसे एक का भी पता न लिखा कि अमुक स्थानपर कूर्मीजाति वाचक शब्द आया है, और वह कूर्मियोंके वंशका बोधक है, ऐसी गोलवातोंसे जातिका निर्णय नहीं होता महाभारतमें किसी भी क्षत्रियको कूर्मी नहीं लिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनको एक जगह भी कूर्मी कहकर नहीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुलभी कहीं कूर्मी नहीं कहागया, तब क्षत्रियपर पुं० कूर्मी शब्द की सिद्धि कसे ? कूर्मी शब्दके वीर्यवान् भूपति आदि अर्थ जो आपने लिखे हैं इसमें आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और वीर्यवान् आदि शब्द विशेषण प्रयुक्त है, तब वह किसी जातिको बतानेवाले नहीं गुणको बताते हैं, इससे संज्ञा या जातिको कहनेवाला कूर्मी शब्द नहीं ।

३ शतपथ ब्राह्मणमें जो कूर्म शब्द आया है वह कूर्मी जातिका वाचक नहीं है यह कूर्म शब्द है और कूर्मके लोक, पृथिवी, घावा पृथिवी, रस आदि अर्थ हैं पृथ्वी स्त्रीलिंग है और वैदिक कर्मकाण्डमें कूर्म ( कच्छर ) का उपधान होता है, यज्ञमें कच्छरकी स्थापना की जाती है ( कूर्मम् उपदधाति ) इसका अर्थ यह है कच्छरको स्थापन करता है, न कि यज्ञमें

कूर्मों क्षत्रियसे भिन्न अन्य वर्ण है । २ पुं० कूर्मी शब्द भूपति, वीर्यवान् वीरकर्मा इन्द्रका वाचक है, और उत्कृष्ट क्षत्रियकी समुचित संज्ञा है । ३ ( स एष कूर्म इम एव लोकाः ) ( श० का० ७ । ५ । १ ) के अनुसार पृथिवी आदि लोक कूर्म है ( पृ० ३ पं० १ ) ( घावा पृथिव्यौ हि कूर्मः ) ( श० ७ । ५ । १ ) के अनुसार स्पष्टरूपसे द्योः-स्वर्ग और पृथिवीका नाम कूर्म है । ( पृ० ३ पं० ५ ) ( कूर्ममुपदधाति रसो वै कूर्मः ) कूर्मका अर्थ रसका है, विश्वकोशमें “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ त्रिपरागयोः । शृङ्गारादौ द्रवे वीर्ये देह धात्वम्बुपारदे” कूर्मका अर्थात् रस अर्थात्-वीर्य है ४ ( पृ० ४ पं० ६ ) ( पूर्वाभ्रिद्वित्वे तु विकूर्मिन् ) ( ऋ० मं० ८ सू० ५५ ) । ( इन्द्रमुशिप्रोमघवातरुत्रोमहाघातस्तुविकूर्मिन्ऋधावान् ) ( ऋ० मं० ३ सू० ३० ) सायन भाष्यमें तो विकूर्मिका अर्थ ( संग्रामे नाना-विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममें नाना विधि कर्मोंका करनेवाला है, इन्द्र जिसकी संज्ञामें कूर्मी शब्दका प्रयोग वेदमें मिलता है क्षत्रिय ही है “स यः स कूर्मोऽज्ञौ आदित्यः ” और “वृषावै कूर्मः श० ७ । ५ । १ ” के अनुसार आदित्य सूर्य और वृषा अर्थात् इन्द्रका नाम कूर्म है । अतएव कूर्म शब्द उत्कृष्ट क्षत्रियकी संज्ञामें प्रयुक्त होता है । जिन ५ कुलोंमें कुरमी उत्पन्न हैं उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंसे लिये गये हैं; कूर्म वंश, कुशवंश, लव-वंश कूर्म ( ऋषि ) कुल कुरु । वंश यदुवंश इत्यादि ।

यहीं पांच नम्बर सब वंशावलीके सारभूत हैं, इसपर हमको तथा दूसरे जाति निर्णय करनेवालोंको यह कहना है कि कूर्मी शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तब आपको वेद उपनिषद् दर्शन धर्मशास्त्र और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कूर्मियोंकी वंशावली है, इक्ष्वाकु आदि सूर्यवंश, वहलाआदि चन्द्रवंश, किसी एक वंशमें इनका समावेश होना दिखाया जाता, सो ग्रन्थकारने महाभारत मनु उपनिषद् साम यजु इनमेंसे एक का भी पता न लिखा कि अमुक स्थानपर कूर्मीजाति वाचक शब्द आया है, और वह कूर्मियोंके वंशका बोधक है, ऐसी गोलवातोंसे जातिका निर्णय नहीं होता महाभारतमें किसी भी क्षत्रियको कूर्मी नहीं लिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनको एक जगह भी कूर्मी कहकर नहीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुलभी कहीं कूर्मी नहीं कहागया, तब क्षत्रियपर पुं० कूर्मी शब्द की सिद्धि कसे ? कूर्मी शब्दके वीर्यवान् भूपति आदि अर्थ जो आपने लिखे हैं इसमें आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और वीर्यवान् आदि शब्द विशेषण प्रयुक्त है, तब वह किसी जातिको बतानेवाले नहीं गुणको बताते हैं, इससे संज्ञा या जातिको कहनेवाला कूर्मी शब्द नहीं ।

३ शतपथ ब्राह्मणमें जो कूर्म शब्द आया है वह कूर्मी जातिका वाचक नहीं है यह कूर्म शब्द है और कूर्मके लोक, पृथिवी, घावा पृथिवी, रस आदि अर्थ हैं पृथ्वी स्त्रीलिंग है और वैदिक कर्मकाण्डमें कूर्म ( कच्छर ) का उपधान होता है, यज्ञमें कच्छरकी स्थापना की जाती है ( कूर्मम् उपदधाति ) इसका अर्थ यह है कच्छरको स्थापन करता है, न कि यज्ञमें

५ वंशावली जो इस पुस्तकमें दीगई है उसमें पहले कूर्मवंश लिखा है ऐसा तो किसी इतिहास पुराणमें नहीं लिखा कि संसारमें सबसे प्रथम कूर्मवंश चत्रा, कदाचित् प्रजापतिका वंशही कुर्मीवंश समझा गयाहो, परन्तु प्रजापतिके पुत्र तो सनकादि ब्राह्मण हुए हैं आप इस शब्दको केवल क्षत्रियही मानते हैं, फिर आपने लवकुश यदु राठौर महाराष्ट्र आदि ४२ कुल और महाराष्ट्रोंके २२ कुल सबमें कुर्मी उत्पन्न हुए बताये हैं, जब सभी कुलोंमें कुर्मी हैं तो यह सब एकही कुल क्यों नहीं, कुर्मी कुल क्या खिचडी हैं जो यदु, कुरु, लवादि सबमें संमिलित हैं, फिर नम्बरवार पर कूर्म ऋषि लिखकर उनका कुलभी ऋषि माना गयाहै, तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि यह पहला कूर्म वंश कौन है, इसमें कौन २ राजा हुए कारण कि सबसे प्रथमका इक्ष्वाकु राजा तो सूर्यवंशी हैं, इस कूर्म वंशका आदि पुरुष कौन है, फिर यह चौथा कूर्मऋषि वंश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है वा क्षत्रिय, और वह पहला कूर्म कौन है, इस ऋषिसे विरुक्षण है वा कोई जंतुविशेष है, यदि सब हां कूर्म हैं तब महाभारत, भागवत, वाल्मीकि, छः दर्शन तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ या काव्योंमें रामलक्ष्मणादि किन्हीको तो हे कूर्म वा कौर्म ऐसा सम्बोधन दियाजाता, कहीं अर्जुन भीम वा किसी यदुवंशीके लिये कूर्म शब्द नहीं मिलताहै तब यह वंशावली सत्यकी तराजू पर ठीक नहीं उतरती यदि कहो कि दो तीन कवितोंमें कई नरेशोंके साथ कूर्म पद आया है, इससे यह कुर्मी हैं सो यह बात भी ठीक नहीं, वंशावलीमें कुर्मी शब्द अनेक संग्रामोंका करने वाला बताया है यहां भी वही अर्थ लिया जासकता है, तोभी कुर्मी जातिके यह नरेश हैं, ऐसा नहीं माना जासकता यथार्थमें क्षत्रियोंकी एक जाति कछवाहोंकी है; कच्छपका पर्याय कूर्म है इसी आशयसे कविने उनको कूर्म लिखा हो तो क्या असंगत है ?

क्षत्रियोंमें यज्ञोपवीत सबका होता है अबभी लाखों कुर्मी यज्ञोपवीतरहित हैं ग्रामादि साधारण स्थितिपरक कुर्मी जातिमें आचार विचार कुलीनोंका सा नहीं दीखता, अभी तक हमारे पास इस जातिके क्षत्रिय होनेका प्रमाण शास्त्रानुसार नहीं आया है यदि कहींसे इस वंशके क्षत्रिय होनेका प्रमाण हमको मिलेगा तो हम सहर्ष उसको अगले संस्कारणमें लगा देंगे, परन्तु गोलमाल वा पक्षपात हमको सब प्रकारसे त्याज्य है, किसीका काम चन्द्र हो तो चन्द्र नाम होनेसे वह पुरुष चन्द्रवंशी नहीं कहा जा सकता, कई विद्वानोंकी राय है कि यह संकर जातिहै, मिस्टर मेलकाम साहब अपने ग्रन्थमें इस जातिको शूद्र बताते हैं, और एक स्थानपर तो एक अंग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र लिखकर इनको शूद्र बताया है; अकवामुल हिन्दमें पिता शूद्र वर्ण और माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति लिखी है, इत्यादि वाक्योंसे इस समयतक इस जातिके क्षत्रिय होनेका पुष्ट प्रमाण शास्त्रोंमें नहीं पाया जाता । हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कोई जाति अपने असली पद या यथार्थ रूपको प्राप्त न हो, अवश्य हो और अपनी असलियतको प्राप्त हो, परन्तु हम यहभी नहीं चाहते कि कोई जाति ऐसामी काम न करै कि वह उस वर्णका तो नहीं परन्तु दूसरे वर्णमें जाना चाहै और



जाने अशुभित्त भी तो बैठे, इधर वह क्षत्रिय भी न बने और अपनी जाति रूपको भी जो बैठे तो बड़ा कठिनाई उभयिन होगी जिस जातिमें परम्परा संबन्धसे संस्कार छिन्न नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवाविवाह जैसा गर्हित या संकर कर्म प्रवृत्त नहीं हुआ है, जिस जाति के आचार विचार द्विजोंमें मिलते हैं, वा जो जाति बहुत कालसे वास्त्यताको प्राप्त नहीं हुई है, वह अवश्य द्विनसंज्ञक है, उन आचार विचारोंको कुर्मी जातिमें मिलानेसे पता चिन्नकता है कि कुर्मी जातिकी सर्व साधारण गहन सहन कैसी है, हमसे एक महाशयने कहा है कि कुर्मी जातिमें बहुतसे भेद हैं यदि यह बात सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होने हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वर्ण होते हैं, तो हमको इसमें यह वक्तव्य है कि अपनी क्षात्रधर्म संग्रहो उन्नति कर, केवल धनकी बहुतायतसे जाति नहीं बना करती, हां ! इस बातका हम कुर्मी जातिके महानुभाव सज्जनोंको हृदयसे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पाठ-शाला स्कूल और बोर्डिंग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा सर्व साधारण बहुत उपकार किया है, वैसा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनको उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी स्थिति प्राप्त करें यह हम हृदयसे चाहते हैं ।

### खाती तक्षा ।

यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमें इस विषयका वर्णन कर चुके हैं, कि रथकार जातिको एक यज्ञका अधिकार है, और सम्भवतः रथकारही यह बढई और खाती तक्षा आदि नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पुस्तक जांगि गोरति है, इसके देखनेसे विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूमरी ओर जा रहा है, उस पुस्तकमें लिखा है ( प्र० ३ ) राजपूताना मालवादेशमें खाती, पञ्जाबमें तषाण, दक्षिणमें सुतार, पूर्वमें बढई, बंगाल उड़ीसामें बडगई कहाते हैं, इस बातसे यह प्रतीत होता है कि खाती बढई आदि शब्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुस्तकमें लिखा है ( पृ० ६ ) कि खातीका नाम जोग जांगिडा है हम लोग बढई नहीं किन्तु बढईका काम करते हैं, बढई द्विज अर्थात्-ब्राह्मणवर्ण हैं, फिर आगे चलकर लिखा है ( पृ० २३ ) मनु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके ब्राह्मण जिनकी संख्या १४४ थी जो योग शास्त्रके पूर्णज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग जांगिडा संज्ञा हुई, इसकारण यह ब्राह्मणगण विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए । इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट् या मनु या ब्रह्माजीके यह अठारह गोत्र-प्रवर्तक ऋषि हुए, तब यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहाँका है, इसका प्रमाण क्या है और योगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीकी जाति जोग जांगिडा हुई यह कैसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि जाति नाम फिर इन ऋषियोंके गोत्र वाले और भी ब्राह्मणकुल हैं, वे जोग जांगिडा क्यों

जाति अशुभित भी तो बेटे, इधर वह क्षत्रिय भी न बने और अपनी जाति रूपको भी जो बेटे को बड़ा कठिनाई उभयिन होगी जिस जातिमें परम्परा संवन्धसे संस्कार छिन्न नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवाविवाह जैसा गर्हित या संकर कर्म प्रवृत्त नहीं हुआ है, जिस जाति के आचार विचार द्विजोंमें मिलते हैं, वा जो जाति बहुत कालसे वास्त्यताको प्राप्त नहीं हुई है, वह अवश्य द्विनसंज्ञक है, उन आचार विचारोंको कुर्मी जातिमें मिलानेसे पता चिन्नकता है कि कुर्मी जातिकी सर्व साधारण गहन सहन कैसी है, हमसे एक महाशयने कहा है कि कुर्मी जातिमें बहुतसे भेद हैं यदि यह बात सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होने हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वर्ण होते हैं, तो हमको इसमें यह वक्तव्य है कि अपनी क्षात्रधर्म संग्रहो उन्नति कर, केवल धनकी वृद्धतायतसे जाति नहीं बना करती, हां ! इस बातका हम कुर्मी जातिके महानुभाव सज्जनोंको हृदयसे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पाठ-शाला स्कूल और बोर्डिंग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा सर्व साधारण बहुत उपकार किया है, वैसा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनको उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी स्थिति प्राप्त करें यह हम हृदयसे चाहते हैं ।

### खाती तक्षा ।

यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमें इस विषयका वर्णन कर चुके हैं, कि रथकार जातिको एक यज्ञका अधिकार है, और सम्भवतः रथकारही यह बढई और खाती तक्षा आदि नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पुस्तक जांगि गोरति है, इसके देखनेसे विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूमरी ओर जा रहा है, उस पुस्तकमें लिखा है ( प्र० ३ ) राजपूताना मालवादेशमें खाती, पञ्जाबमें तषाण, दक्षिणमें सुतार, पूर्वमें बढई, बंगाल उड़ीसामें बडगई कहाते हैं, इस बातसे यह प्रतीत होता है कि खाती बढई आदि शब्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुस्तकमें लिखा है ( पृ० ६ ) कि खातीका नाम जोग जांगिडा है हम लोग बढई नहीं किन्तु बडईका काम करते हैं, बढई द्विज अर्थात्-ब्राह्मणवर्ण हैं, फिर आगे चलकर लिखा है ( पृ० २३ ) मनु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके ब्राह्मण जिनकी संख्या १४४ थी जो योग शास्त्रके पूर्णज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग जांगिडा संज्ञा हुई, इसकारण यह ब्राह्मणगण विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए । इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट् या मनु या ब्रह्माजीके यह अठारह गोत्र-प्रवर्तक ऋषि हुए, तब यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहाँका है, इसका प्रमाण क्या है और योगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीकी जाति जोग जांगिडा हुई यह कैसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि जाति नाम फिर इन ऋषियोंके गोत्र वाले और भी ब्राह्मणकुल हैं, वे जोग जांगिडा क्यों

आनी असक्रियत भी जो बैठे, इधर वह क्षत्रिय भी न चने और अपनी जाति रूपको भी जो बैठे तो बड़ा कठिनाई उपस्थित होगी, जिस जातिमें परम्परा संन्यसे संस्कार छिन्न नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवाविवाह जैसा गर्हित या मंकर कर्म प्रचल नहीं हुआ है, जिस जाति के आचार विचार द्विजोंसे मिलते हैं, वा जो जाति बहुत काशमें वात्सल्यको प्राप्त नहीं हुई है, वह अवश्य द्विजसंज्ञक है, उन आचार विचारोंको कुर्मी जातिमें भिन्नसे पता मिलसकता है कि कुर्मी जातिकी सर्व साधारण गहन महन किया है, अतएव एक महाशयन कहा है कि कुर्मी जातिमें बहुतसे भेद हैं यदि यह बात सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होते हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वर्ण होते हैं, तो हमको इसमें यह धकव्य है कि अपनी क्षात्रधर्म संन्यही उन्नति कर, केवल धनकी बहुतायतसे जाति नहीं बना सकती, हां ! इस बातका हम कुर्मी जातिके महानुभाव सज्जनों को हृदयमें धन्यवाद करने हैं कि उन्होंने पाठ-शाला स्कूल और बोर्डिंग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा सर्व साधारण गहन उपकार किया है, वैसा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनकी उन्नति पर प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी स्थिति प्राप्त करें यह हम हृदयसे चाहते हैं ।

### खाती तथा ।

यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमें इस विषयका वर्णन करनेके हैं, कि रथकार जातिको एक यज्ञका अधिकार है, और सम्भवतः रथकारही यह बर्ह और ग्वाती तथा अदि नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पुस्तक जांगि जोषाति है, इसके देखनेसे विदित होना है कि इस समय ग्वाती जातिका प्रवाह दूसरी ओर आगता है, उस पुस्तकमें लिखा है ( पृ० ३ ) राजपूताना मालवादेशमें ग्वाती, पञ्जाबमें तपाण, दक्षिणमें सुतार, पूर्वमें बर्ह, बंगाल उड़ीसामें बडगई कहाते हैं, इस बातसे यह प्रमाण होता है कि ग्वाती बर्ह आदि शब्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुस्तकमें लिखा है ( पृ० ६ ) कि खातीका नाम जोग जांगिडा है हम लोग बर्ह नहीं किन्तु बर्हका काम करते हैं, बर्ह द्विज अर्थात्—ब्राह्मणवर्ण हैं, फिर आगे चलकर लिखा है ( पृ० २३ ) मनु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नागद आदि अठारह गोत्रके ब्राह्मण जिनकी संख्या १४४४ थी जो योग शास्त्रके पूर्णज्ञाता थे जिन कारण इनकी जोग जांगिडा संज्ञा हुई, इसकारण यह ब्राह्मणगण विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए । इसपर हमको यह विचार करना है, जब बिराट् या मनु या ब्रह्मार्जाके यह अठारह गोत्र-प्रवर्तक ऋषि हुए, तब यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहाँका है, इसका प्रमाण क्या है और योगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीकी जाति जोग जांगिडा हुई यह कैसे, तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, न कि जाति नाम फिर इन ऋषियोंके गोत्र वाले और भी ब्राह्मणकुल हैं, वे जोग जांगिडा क्यों

न हुए और विश्वकर्मासे यहां क्या समझाजाय, परमेश्वर या देवताओंका शिल्पी, यदि परमेश्वर लिया जाय तो सब संसारही विश्वकर्माकी सन्तान है, यदि विश्वकर्मा कोई ऋषि वा शिल्पी है तो अभी वह उत्पन्न भी नहीं हुआ फिर यह ऋषि विश्वकर्माके वंशधर कैसे हुए, दूसरे पुस्तकमें इस विषयका कोई प्रमाण भी नहीं दिया कि यह अठारह ऋषि विश्वकर्माके वंशधर हैं, इनकी सन्तान जोग वा जंगला कहाती है, आगे इस पुस्तकमें लिखा है ( पृ० २४ ) कि “ श्रीकृष्णने कहा है, कि योगशास्त्र सिखानेसे और पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जोग जांगिडा संज्ञा है, शिल्पतत्त्वके जाननेवाले आप ही हैं हे महर्षियो ! तुम किसी दूरदेश भूमिमें एक नगर बसाओ जिसमें मेरी प्रजा और कुटुम्ब कष्ट रहित होजायँ ” श्रीकृष्ण महाराजके वचन सुनकर वह सब जांगिडा ब्राह्मण शिल्पशास्त्रानुसार द्वारिकाके बनानेमें प्रवृत्त हुए, यह ब्राह्मण पहले शिल्पकर्म सम्बन्धी शास्त्रोंके उपदेशक थे, द्वारिका बनानेके समयसे यह लोग शिल्पसम्बन्धी काष्ठादिके पदार्थ तक्षण अर्थात् चीर फाडकर बनानेके कारण तक्षा बढ़ई तखाण और खाती कहाये, इत्यादि इस वंशावलीमें प्रमाण तो इस विषयका नहीं दिया या है, कि यह खाती जातिके लोग पहले ब्राह्मण थे केवल दन्तकथा लिखी है, किसी भी धर्मशास्त्रमें यह लेख नहीं पाया जाता कि शिल्पकर्म करनेवाली ब्राह्मणजाति थी, और न श्रीकृष्णने यह बात मथुरावासी ब्राह्मणोंसे कही कि तुम जाकर किसी देशको बनाओ, वहां तो यह लिखा है कि विश्वकर्मा द्वारा नगर निर्माण किया गया है

इति सम्मन्व्य भगवान्दुर्ग द्वादशयोजनम् ॥

अन्तः समुद्रे नगरं कृत्स्नाद्भूतमचीकरत् ।

भागवत ।

दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् ॥ ५१ ॥

( ६० उ० अ० ५० )

तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः ॥

अर्थात्—सम्मति करके भगवान्ने बारहयोजनका नगर समुद्रके मध्यमें विश्वकर्माद्वारा निर्माण कराया, जिसमें विश्वकर्माका शिल्पनैपुण्य भलीभांति प्रगट होता है भगवान्ने योगप्रभावसे सब द्वारिकावासियोंको वहां पहुंचा दिया, यह तो श्रीमद्भागवतमें है, इसके सिवाय जांगिडा उत्पत्तिमें यह अप्रामाणिक कथा लिखकर तो ब्राह्मण जातिका अपमान करना वा कराना है कि कृष्ण भगवान्ने स्वयं ब्राह्मण जातिके लोगोंसे तस्ते चिरवाये, और उस उत्कृष्ट

जातिको सदाके लिये खाती बना दिया, शिव, शिव ! ! और फिर यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है कि द्वारिकाका निर्माण तो अनभ्यासी ब्राह्मणोंने किया परन्तु द्वारिका निर्माणमें पहलेका जितना शिल्प है वह कौन जाति करती थी, और उसके पास शिल्प था या नहीं, यदि कोई जाति थी तो श्रीकृष्णने उस जातिके होते हुए ब्राह्मणोंसे यह काम क्यों कराया कुछ समझमें नहीं आता न कोई प्रमाण इस विषयका है कि ऐसा हुआ, ग्रन्थकार बतावें तो कहांका लेख है ? दूसरी बात यह है, कि मथुरामें वह कौन जाति थी जिसे श्रीकृष्णने बढई आदि कामके लिये कहा, यदि कही कि मैथिल जाति थी, क्या वह मैथिल ब्राह्मणों परहीं कुछ हुए, मथुरायाचौबं भी तो थे और उससे पहले तो मैथिलोंकी ग्वाती संज्ञा न थी, और सब मैथिलोंने ही ऐसा किया तो राजर्षी लुहारपण पत्थरकी नक्काशी आदि सब कर्म मैथिल ब्राह्मणोंके ही होने चाहिये, फिर जैसे ग्वाती जैसे ही राजलुहार इनमें कुछ भेद न होना चाहिये, तब ग्वाती ही ब्राह्मण क्यों ? लुहार और मिस्त्री सब ही ब्राह्मण होने चाहिये, और मैथिलोंसे पहले लुहार बढई आदि कोई भी शिल्प न होना चाहिये, पर इससे पहले शिल्प पाये जाते हैं, इससे ब्राह्मणोंका यह कर्म है यह बात शास्त्रके विरुद्ध पाई जाती है, यदि मथुरासे गये ब्राह्मण ग्वाती हो गये तो द्वारिकामें यह वंश बहुतायतसे पाया जाता पर वैसा नहीं है, और मिथिलामें तो कोई भी अपनेको मैथिल मानता हुआ बढई, ग्वाती वा शिल्पी नहीं मानता, और न कभी यह समझमें आ सकता है, कि कृष्ण भगवान् ब्राह्मणोंको शिल्पी करके फिर उनको सदाके लिये ग्वाती कर दिया हो, कारण कि उनका तो पहले ही से इनकार था और फिर सन्तानमें एक भी ऐसा न हुआ जो आज तक जोगबिद्याका उपदेशक हो, यह तो स्पष्ट इस बातको प्रगट करता है कि महायोगेश्वर होकर भी श्रीकृष्णने स्वयं योगज्ञाताओंका लोप कर दिया, पर ऐसा कोई बुद्धिमान समझ नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, न इसमें कोई प्रमाण है, न ग्वाती जातीपर विपत्ति पढनेका इतिहास पाया जाता है, कि उनके जनेऊ तोड़े गये हों बल्कि शिल्पियोंका सर्वत्र मान रहा है, हमने अनेक ग्वातियोंको देखा है कि, पन्द्रह वर्ष पहले उनके यज्ञोपवीत नहीं थे, अब भी पद्धति अनुसार यथा समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मण—जातियें यज्ञोपवीत विना कभी न रहीं, बहुत अब भी ऐसे हैं जिनको गौत पारिज्ञात नहीं वे दूसरा ही गोत्र कहते हैं परन्तु शास्त्रोंमें जो तक्षा रथकारादि जाति लिखी हैं वह इससे पहली और सप्रमाण हैं, यदि यह खाती तक्षा वा रथकार शास्त्रीय नहीं हैं और पेशेवर हैं तो पेशा अनेक जातिके लोग कर सकते हैं इसमें यह कैसे होगया कि ब्राह्मण जातिका एक समूह सदाके लिये तक्षा बन गया, और कोई आपत्ति न होनेपर भी इस रामराज्यमें वही गाडी पहिये बनाती चली जाती है, कमसे कम एक चौथाई भाग तो उपदेशक होता, जिससे आर्षत्वकी शलक आती, इत्यादि कारणोंसे लोगोंको

इनके ब्राह्मणत्वपर सन्देह परिपक्व होजाता है, हम यहांपर कुछ विशेष न लिख कर यह बात विद्वानोंके विचारपर छोड़ते हैं, कि वे स्वयं निर्णय करें कि शास्त्रसे और दन्तकथाओंसे क्या सम्बन्ध है, लोग बड़े २ तर्कके साथ ग्रन्थोंको देखते हैं, प्रक्षिप्त समझते हैं, पुराण नहीं मानते हैं, पर अपना स्वार्थ होनेपर चारोंगुजाने चित्त रहते हैं, दन्त कथा भी प्रमाण होती है, अस्तु हम किसीकी उन्नतिमें बाधक नहीं, खाती जातिका सम्बन्ध खातीके यहांही होगा चाहे वोह कोठयाधीश वा षट्शास्त्री क्यों न हो विद्याकी वृद्धि शिल्पशास्त्रके विज्ञानमें यह जातियें मन लगावें तो कुछ देशको लाभ हो सकता है, यों घरमें बेटेका नाम राजा भी रक्खा जा सकता है, पर उसको राजा मान लें तबही राजा है, मैथिल ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि इनको ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते इस कारण हम भी इसको विचार कोटिपर छोड़ते हैं । यह अपने गोत्र इस प्रकार लिखते हैं—

भरद्वाज, उपमन्यु, वसिष्ठ, कश्यप, मौद्गल्य, जातूकर्ण्य, शाण्डिल्य, कौडिन्य, गौतम अथमर्षण, वच्छस्र, वामदेव, ऋशु लौगाक्षि, वत्स, गविष्ठिर, विदस, दीर्घतमा यह अठारह गोत्र अपने बताते हैं जो किसी विप्र वंशावलीकी नकल विदित होती है बहुत लोग इनमें गोत्रज्ञान रहित हैं इनकी अल्ले इस प्रकार हैं ।

लढोइया, नादोरिया, काकोडिया, वा काकडिया, लधोरिया डंटवाल, वा डंटोरिया, टोर, मेन, बुढर, रोलीवाल, दम्मी, वाला दाने व दायम् ॥ १ ॥

उवाने सांभलोदिया, वा सामलोडिया, सामळीवाल, गाले संगरखानी, टाडे, कटारिया, भरोणया ॥ २ ॥

हरयाने मानडिन्या वा माडन्या, मण्डीवाल, पीमाडिया, माडीवाल, माद्रैया, मोसामा, वा रोसामा ॥ ८३ ॥

सामरवाल, सीकर, पामरया, परमर, परवाल, सूई चानी, संकाल, डिडोल्या, धामा, बदले, बनडेला, डेडोला, जायलवाल, गोगोरेया, घराणे, चेवावा ॥ ४ ॥

धमेरवाल, स्वाल वा स्वार राजुतनी, चन्देवा, धैमन वा धिमुन्याराजोत्या, तालचिडी ॥ ५ ॥

भिडयाल, आसपाल वा सुपाल, सीरूडी वा सीरूढी, रीक्षवाल, काकटैन वा काकूटायन, खरोल्य, सहारन, ( शारन ) नारनौलिया, केळोया, धनेरवा ॥ ६ ॥

जाले वौन्दवाल, वद्वानियां वढवाल अथवा घाडेवाल्या, बन्दवान्या, वेरीवाल, जालवाल, झूंदिया, दडवाल ॥ ७ ॥

उजैनवाल, कलोनया, काडिन्या, भरेलेवा, भोलिया, सम्मी, कपूरवाल, ( कपूरिया ) मनीठिया, कलैया, सामडीवाल, मोखरीवार ॥ ८ ॥

चरखिया वा चरखीवाल, टाटवाल ( टाटवालिया ) सैवाल, ठाटालिया, मोकरवाल चिन्धोया, सीवाल, पासुरिया; सिरधन्वा रावत, सेमा, खतडया ॥ ९ ॥

नीशल, तिगन्या, खण्डेलवाल ( खडलवार ) कौशल्य, गम्भी, मेल, दज्जड वा धिज्जडा चरसल ॥ १० ॥

विजोडिया, गोठरीवाल, मंडावरिया, वदुरली, आतली वा अट्टिल, रेट ॥ ११ ॥

भद्वानिया, दसोदिया, तेशन, द्रन्द्रवाले, तरानी, बवेरवाल, झटवाल्या, गीवाडय, कास-लीवाल ॥ १२ ॥

ढागवाल, बालधनी, कोलयल्या, रीपैया, कोल्लुथल्या मालवा, मालवाल, नक्षपाल, सीधड, अरुदवाल, रोमडीवार ॥ १३ ॥

कचुरिया, प्रनालिहा, किजा, धन्वरी वा धन्नीवाल, ग्मोकी, फर्रा, बक्षेडया, कमलपुरया, मेरानिया, सीकरन्या ॥ १४ ॥

काले, झलझल्या, बडदुआ, दमुदनी, वलद्दा, वीजाणी वा बीजन्या, केसवान्या, बाल-दिया, षडवाल ॥ १५ ॥

लामडीवाल, चोपाल, वा चोवाल, बीजडिया, मार्गीया, गोदवाल, चेचेवाल, वा चेचेवा, अठकोलिया, दमन, नेपालपूरया ॥ १६ ॥

सीलवाल, देनीपाल, धम्मी, धम्मीवालसे दीवाल, कादैर्या, वा कोदइया आज्जी सोसानिया ॥ १७ ॥

लोहारिया ( लोहानिया ) अडाइया, सगरया, रूढवाल, हरसोलिया, अमेरिया, जिरी पाल, तोनगरया ॥ १८ ॥

यह वंशावलीमें खातियोंकी अछ लिखा है, एक आश्रय इस अछमें यह है कि बलदव महेश्वरी वैश्योंकी भी अछ है. और इन लोगोंकी भी है तथा चेचेवा गविष्ठर गोत्रमें भी है और चेचावा कश्यपमें भी है और भी कहीं २ दो नाम एकसेही हैं, यथा शाण्डिल्यमें बन्दवा वान्या वद्वानियां इस जातिमें जो स्त्री नथ पहरती हैं वह कराव नहीं करती, जिसकी नाक छिदी नहीं होती वह करसकती हैं, इनके हाथका जरू पीळिया जाता है निमन्त्रणभी ब्राह्मण जोमते हैं, इनके भेद विसोतर मेवाडा पूर्विया दिडीवाल जांगडा आदि हैं अनेकों विद्वानोंको इनके ब्राह्मणत्वसे इनकार है। इसमें तो सन्देह नहीं माना जासकता है कि बढईके कामोंमें बहुतसे दूसरे लोग भी सम्मिलित होगये हैं जिनमें असली और दूसरे कौन हैं, इनका भेद निकालना कठिन होगया है।

खैरांदी ।

यह एक भी बढई जाति खातियोंके समान है, यह खैराद पर पाये हुक्के आदि उतारते हैं कोई २ यज्ञोपवीत भी पहरते हैं ।

राज-अट्टालिकाकार शिल्पी ।

राजपूतानोंमें यह जाति विशेष रूपसे पाई जाती है, अन्यत्रभी यह जाति पाई जाती है, यह कहीं कुमार कहीं राजा और कहीं राजकुमार कहाते हैं, यह लोग मकान महल मंदिर

कोठी बंगले आदि बनानेमें बहुत चतुर होते हैं, पैसा बढ जानेसे यह ठेकेदारीभी करते हैं, कहीं खेती कहीं व्यापार और कहीं जिमीदारी भी करते हैं, खेती करनेवाले खेतैडकुमार कहाते हैं, जयपुर राज्यसे इस जातिके किसी महापुरुषको उस्ताकी पदवी मिली है, इनमें पूर्वकालमें तो यज्ञोपवीतका अभाव था, परन्तु अब कुछ दूसरी प्रकारकी हवा चलती है, जिसके द्वारा कोई अपनी स्थितिपर रहना नहीं चाहता इस समय शिल्पकी महिमा गाते २ लोगोंने विश्वकर्माजीसे अपना वंश निकालकर इस बातकी चेष्टा की है कि यह जितने शिल्पकार हैं सब ब्राह्मण हैं, और इस विषयके कितने ही ग्रन्थ इस समय बनाये गये हैं, उनमें प्रमाणोंका उलटपुलट या कुञ्जका कुञ्ज लिखकर जातिके लोगों को भ्रममें डालकर उस धनको व्यर्थ ही खराब कर दिया है, परन्तु जो हम चतुर्थखण्डमें लिख चुके हैं, कि ( विश्वकर्मा च शूद्रायां गर्भाधानं चकार ह ) विश्वकर्माने मर्त्यलोकमें शूद्रांमें गर्भाधान किया उससे मृत्युलोकमें नौ प्रकारके शिल्पकार प्रगट हुए इन नौ शिल्पियोंमें कर्मकार, सूत्रधार और स्वर्णकार स्पष्ट शब्द हैं, पुराणोंमें भी छपे हुए हैं, पर तौ भी पक्षपातके मारे विश्वकर्मावंश कर्मकारके स्थानमें चर्मकार पाठ कर दिया और सूत्रकारके अर्थमें नट ले दौड़े कमसे कम इतना तो विचार लिया होता कि विश्वकर्माजीने शिल्पी पैदा किये वे शिल्पकार होने चाहिये न कि नट, नटमें कौनसा शिल्प है, वह विमान बनाता है, या मकान बनाता है या गहने बनाता है, परन्तु इस समय तो लोगोंमें दयानन्दी रङ्गका चश्मा लग रहा है, उनके जैसा गुरुने पाठ बदला है अर्थ बदला है वैसाही चेन्नोने सीखा है, वास्तुशास्त्रोपदेशिकाके स्थानमें “ शिल्पशास्त्रोपदेशिका ” अर्थ-कर्तामें रथकर्ता कह देना फिर कौन बड़ी बात है, और यह बडाही आश्चर्य है कि दयानन्दी लोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कर्मसे मानते हैं तो सैकड़ों वर्षोंके बढई राजा आदि शिल्पकर्मा खाती बढई भिखीही होने चाहिये ।

और जब मनुआदि धर्मशास्त्रोंमें प्रक्षिप्त श्लोकोंकी भरमार मानी जाती है महाभारत चौगुना बढगया है पुराण गप्प हैं, तो फिर इनही ग्रन्थोंकी शरणमें जाकर अपनी जाति बनाना बडे शोककी बात है, अपने मतलबके बिगाडके लिये ‘ कारुकात्रं० ’ १ यह मनुका श्लोक ग्रन्थाकारको प्रक्षिप्त सूत्रै, और जब प्रयोजन बनता हो तो ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डमें शैवागमके नामसे उतारे श्लोक प्रमाण मान लिये जाय, जरा इसकी तो खोज की होती कि यह शैवागम कौन ग्रन्थ है, शिवमहिमाको कहनेवाले सभी शैवागम हो सकते हैं, पर विश्वकर्माजीका वंश बनानेवालेको इससे क्या उनको तो सूत्रधारका तक्षा अर्थ वहीं लिखा हुआ भी न सूझकर नट सूझा वहां स्पष्ट लिखा है ( सूत्रधारो द्विजानां तु शापेन पतितो भुवि । शीघ्रं च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ) अर्थात्—सूत्रधार इसलिये पतित हुआ कि उसने यज्ञसम्बन्धी काष्ठ शीघ्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी बात है सूत्रधारका अर्थ नट कैसे हो सकता है, जब विश्वकर्माने शूद्रोंमें वीर्याधान किया तो यह शिल्पकार पारश्व क्यों नहीं माने जायँ बस इसका उत्तर इसके सिवाय और क्या हो सकता था, जैसा कि ग्रन्थ-



कारने लिखा कि हमारा वंश विश्वकर्माके अवतार विशेषसे नहीं चला, जब वह देवर्षि अवस्थामें थे यह वंश तब चला है, यदि यह कथन मान लिया जाय तब विश्वकर्मा वंशियोंसे फिर यह प्रश्न हो सकता है कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है, कि देवर्षि अवस्थावाले विश्वकर्माजीसे यह वंश चला है, उसकी वंशपरम्परा क्या है, और कहाँ है तथा वह स्वर्गवाले विश्वकर्माकी सन्तान मर्त्यलोकमें कैसे आई प्रमाणसे तो आठ वसुओंमें प्रत्यूपके पुत्र देवल कहाते हैं उनके बुद्धिमान दो पुत्र हुए ।

देवलस्थापि द्वौ पुत्रौ क्षभावन्तौ मनीषिणौ ॥  
 बृहस्पतेस्तु योगिनी यरञ्ची ब्रह्मवाहिनी ॥  
 योगसक्ता जगत्कृत्स्नमसक्ता विचचार ह ॥  
 प्रभासस्य तु सा भार्या वसुनामष्टमस्य च ॥  
 विश्वकर्मा महाभागो जज्ञे शिल्पप्रजापतिः ॥  
 कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वार्द्धकिः ॥  
 मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ॥

बृहस्पतिकी एक बहन जो योगिनी थी, और अमक होकर जगत्में विचरती थी- वह आठवें वसु प्रभासकी भार्या हुई, उसमें विश्वकर्माने जन्म लिया यह शिल्पप्रजापति हैं। यह सहस्रों प्रकारके शिल्पकर्ता हैं, और देवताओंके वार्द्धकि कहाते हैं, इन्हीं महात्माके शिल्पसे मनुष्य आजीविका करते हैं, इस लोकसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि विश्वकर्माके शिल्पशास्त्रसे मनुष्य आजीविका करते हैं न कि उसके वंशधर आजीविका करते हैं, उसके वंशधर मनुष्य लोकमें तभी होंगे जब वह मनुष्य लोकमें आकर अपना वंश स्थापन करै जैसे कि ब्रह्मवैवर्तसे सिद्ध है, और स्वर्गलोकमें तो उसे—

तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु ।  
 अजैकपादहिर्बुध्नस्त्वष्टा रुद्रश्च वीर्यवान् ॥ २२ ॥

वि० अ० १ अ० १५ ।

त्वाष्ट्री तु सवितुर्भार्या बडवारूपधारिणी ।  
 असूयत महाभागा सान्तरिक्षेऽश्विनावुभौ ॥

( महाभा० आदि० अ० ६६१ श्लो० ३६ )

विश्वकर्माके चार पुत्र हुए, अजैकपाद, अहिर्बुध्न, त्वष्टा और रुद्र इनमें त्वष्टाके विश्वरूप और त्वाष्ट्री कन्या हुई, त्वाष्ट्रीमें सूर्यसे अन्तरिक्षमें अश्विनीकुमार हुए, त्वष्टाके विश्वरूप

दैत्योंकी भगिनी रचनामें उत्पन्न हुए, इनको इन्द्रने मारा और त्वष्टाका वंश समाप्त हुआ, अब यह विचार कर्तव्य है कि इन स्वर्गीय विश्वकर्माके चार पुत्रोंमेंसे आजकलके शिल्पी किसके वंशधर हैं, और उन वंशधरोंका प्रमाण कहाँ है, कारण कि त्वष्टामें तो शिल्प था पर उसका वंश ही नहीं चला शेष तीनों पुत्रोंके वंशधर कौन हैं सो लिखना चाहिये था, परन्तु एकबात भी इसमेंसे न लिखकर यों ही कहदेना कि हम विश्वकर्माके वंशधर हैं इससे ब्राह्मण हैं क्योंकि शिल्पकार्य करते हैं; चरक ऋषिकी बनाई चरकसंहिता यदि अम्बष्ठ जाति पढ़कर कहनेलगे वा अन्य वैश्यादि कहनेलगे कि हम चरकवंशी हैं ब्राह्मण हैं कारण कि हमने चरक पढ़ लिया है, यह बात जैसे नहीं मानी जाती इसीप्रकार शिल्पका ज्ञाता विश्वकर्माका वर्ण नहीं माना जायगा, और ब्राह्मणसे भी जैसे अन्यवर्ण प्रगट होते हैं इसीप्रकार विश्वकर्मासे भी ब्राह्मणातिरिक्त वंश होसकते हैं, जैसे बारह आदित्योंमें त्वष्टा हैं तथा अदितिके पुत्र आदित्य और आदित्यसे सूर्यवंश अर्थात् क्षत्रियवंश चला तो सब सोचना चाहिये कि कश्यप अदिति प्रजापति हैं तब इनकी सन्तानभी ब्राह्मणही रहनी चाहिये सो न होकर भी क्षत्रियवंश चला, इसीप्रकार विश्वकर्माके वंशमें भी अन्यवर्ण शिल्पी हो सकते हैं और एक बात यह भी है कि आठ वसुओंको त्रिष्णु रहस्यमें क्षत्रिय लिखा है ।

इससे विश्वकर्माजी ब्राह्मण भी नहीं रहेंगे, परन्तु हमको यहां इस बातसे प्रयोजन है कि शिल्पकार्य ब्राह्मणोंका कर्म नहीं कारण कि यदि शिल्पकर्म ब्राह्मणोंका कर्म होता तो मनुजी शूद्रके लिये यह वचन न लिखते कि

यैः कर्मभिः संचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।  
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥

( मनु० १७।१० )

यदि शूद्र सेवाधर्मसे द्विजातियोंको सन्तुष्ट करनेकी सामर्थ्य न रखता हो तो जिन शिल्पके कर्मोंसे द्विजातियोंकी शुश्रूषा हो सके वह बढईके कर्म तथा और दूसरे शिल्प कर्मोंसे ब्राह्मणादि तीन वर्णोंकी शुश्रूषा करै, चौकी बनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इष्टका बनाना आदि अब इन श्लोकोंसे यह बात स्पष्ट ही प्रतीत होती है कि शिल्पकर्म ब्राह्मणोंका कर्म नहीं पर शिल्पकर्मसे द्विजातिकी शुश्रूषा होसकती है, और वह शिल्पकर्म द्विजातिसे इतर संकर वा शूद्रजातिका कर्म भी है । विश्वकर्मवंशके ग्रंथमें यहां शूद्रका पता तक उड़ा दिया । है, वाल्मीकि रामायणमें भी ब्राह्मणों से अतिरिक्त शिल्पियोंकी जातिको पढा है । यथाहि—

ततोऽब्रवीद्द्विजान् वृद्धान् यज्ञकर्मसु निष्ठितान् ।  
स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान्परमधार्मिकान् ॥

## कर्मातिकान् शिल्पकारान् वर्द्धकीन् खनकानपि । गणकान् शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान् ॥

( बाल० सर्ग० १३ )

अर्थात्—राजाकी आज्ञासे वसिष्ठजीने यज्ञकर्ममें निष्ठावाले वृद्ध ब्राह्मणोंको बुलाया और रथकारोंको जो परमधार्मिक थे तथा कर्मकार ( लुहार ) शिल्पकार ( शिल्पकारीगर ) वर्द्धकी ( तक्षा ) भूमि खोदनेवाले गणक तथा दूसरे शिल्पोंके ज्ञाता और इर्माप्रकार दूसरे नट और नर्तकोंको भी बुलाया यहां यह सब शब्द अलग २ पद हैं तथा ( चैव ) इस कथनसे यह किसीके विशेषण नहीं है किन्तु पृथक् हैं पर विश्वकर्मा वंशधरजा कहते हैं—वृद्ध ब्राह्मण वंशोत्पन्न मनुष्योंसे कहा, महात्मार्जा यह वृद्ध ब्राह्मण यहां कौन है क्या युवा ब्राह्मणोंका वंश नहीं होता है, क्या यहां वृद्ध ब्राह्मण विश्वकर्माजा हैं जो अमरलोकसे चलकर मनुष्यलोकमें आकर बूढ़े हो गये, और अबतक तो तक्षा और राजर्गारीकी अब आपके मतसे नट नर्तक भी वृद्ध ब्राह्मण वंशोत्पन्न हो गये । आपने तो ब्राह्मण जातिसे कोई कर्म भी न लुडवाया द्वापरमेंही नट नर्तक बना दिया पहले विद्या पढाई, फिर राजगुरु बनाया, फिर विद्याहीन पोप बनाया, फिर पानीपांढे फिर बबर्चा बनाये, फिर वसूला हाथमें दिया, फिर कन्नी वसूलीके लिये जोर लगाया, आग्विर नट नर्तक और कुआं खोदनेवाला बनाया, अब कपडे धुलाने शेष हैं, सो कोई ( वसोः पवित्रमसीति ) जैसा मंत्र पढकर इनसे कपडेभी धुलवा लीजिये न होतो कोई श्लोक बनवाया बना लीजिये जैसा कि ( पृ० १९३ में “तेषां मध्ये तु विख्यातः खाती श्रेष्ठतरो गुणैः । विश्वकर्मकुलोत्पन्नः शौचाचारसमन्वितः ॥” श्लोक विद्यमान है, यहां श्लोकावलि खाती वंशकी हैं, इसका वर्णन कहा है, या यह ब्राह्मणवंशधर ऋषियोंकी परिपाटीसे नकल उडाई गई है, इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि शिल्पादि कर्म ब्राह्मण जातिका नहीं है, और न ब्राह्मणजाति कभी इसको करती थी । जांगिडोत्पत्तिमें तो विश्वकर्माजी निराकार ब्रह्म हैं, उनकी सन्तान खाती है और विश्वकर्मा वंशावलीमें विश्वकर्माजी वसुके पुत्र हैं उनकी सन्तान बहई थवई आदि ब्राह्मण हैं, पर वह ऐसे ब्राह्मण हैं जैसे सृष्टिकी आदिमें सत्यार्थ प्रकाशमें जवान २ स्त्रीपुरुष एकदमसे ईश्वरने प्रगट कर दिये ऐसे ही शायद विश्वकर्माजीने जनेऊ पहरे अपनी सन्तान मर्त्यलोकमें भेज दी होगी, शैवागमके अनुसार यह उपब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवैवर्तके अनुसार विश्वकर्मासे शूद्रोंमें उत्पन्न नहीं तब आकाशसे गिरपडनेके सिवाय इस विश्वकर्मा वंशके वर्णन किये; शिल्पियोंको क्या कहा जा सकता है, अब भी सहस्रोंके यज्ञोपवीत नहीं हैं और देखादेखी कहीं जनेऊ डाल आये तो सन्ध्या जपका तो पताही नहीं है, दीवारका सूत अलबत्ता पास होता है, न विचारोंको अषकाश मिलता है इसलिये हमको दुःखके साथ कहना पडता है कि कोई भी जाति हो वही रहैगी जो बह है इनमेंसे एक दो पुरुष यदि उस जातिकी असलियत खोफर

उसे कहीं लेजाय तो वह इधर उधर दोनों स्थानसे भ्रष्ट होकर किसी कामकी नहीं रहैगी, हां इस बातमें हम बहुत प्रसन्न हैं शिल्पशास्त्र सम्बंधी कार्यालय खोलेजाय शिल्पके कालिज खोले जाँय वहां इन शिल्पियोंको उच्चशिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई जाय, ताजमहल तथा दक्षिण जैसे मंदिरोंकी इमारतें बनानेकी रीतियें सिखाई जाय, इञ्जीनियरी सिखाई जाय तब कुछ जाति उन्नति कर सकती है, ब्राह्मण बननेसे विश्वकर्मवंशकी उन्नति न होगी, ब्राह्मण बनकर भी वही पुराने गाडीके पहिये बनाते रहे वा वही मकानोंकी टेढी मेढी तिदरी बनती रही तथा ब्राह्मण बनकर भी बडी इमारतोंके बनानेमें यदि इञ्जीनियरोंके कट्टे वचन सुनने पडे तो फिर इस वंशकी क्या उन्नति होगी, आपको अपने कुलमें इञ्जीनियर शिल्पशास्त्रवेत्ता बनाने चाहिये, तब वंशका गौरव बढ़ेगा. दयानंदके सरल-भाष्य होनेपर किसी दयानंदी तक्षासे एक विमान भी न बन सका, पर अंग्रेजोंने बिना ब्राह्मण बनेही विमान और मशीनें तयार करके अपने शिल्पसे विश्वकर्माके सहित समस्त देशको चकित कर दिया, यही आप लोगोंका कर्तव्य है; ईश्वरभजन दान पुण्य अध्ययन तीर्थ पर्वोदि सब कुछ आप कर सकते हैं, यही अब समय है जाति उन्नति करो, जाति परिवर्तन मत करो, खातीका व्याह्र खातीमें होगा, असली मैथिलका मैथिलमें होगा, अनेकों भेद ब्राह्मणोंके होते हुए भी खाती ब्राह्मण थवई ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखनेमें नहीं आई, इससे स्वकर्ममें दक्षता ( कार्यकुशलता ) तथा विद्या यह दोई वस्तु उत्कर्षता बढ़ानेवाली हैं, इनको काममें लाना चाहिये ।

### धीमार ।

इस नामकी शिल्पकर्मा एक जाति है, इनमें धर्माश तथा आचार विचार भी पाया जाता है ।

### माहौर ।

यह जाति शाहजहांपुर तिलहर आदि पूर्वी स्थानोंमें पाई जाती है, यह लोग अपनेको वैश्य बताते हैं, परन्तु इनमें अभीतक भी किसी २ के ही पास यज्ञोपवीत पाये जाते, साधारणतया ब्राह्मण इनके हाथका भोजन नहीं करते हैं, किसी २ ने इस जातिको द्विज नहीं माना है, अभीतक इस जातिने अपने विषयमें वैश्यत्वके कुछ प्रमाण उपस्थित नहीं किये हैं, यह लोग कहीं अपनेको माहौर कहीं माहूर कहीं महावर और कहीं मथुरिया कहते हैं, परन्तु माहूर जाति और माहौर जातिमें भेद पाया जाता है, कोई यह कहते हैं यह महुवान शब्दका माहौर बन गया है अर्थात्—यह महुबेका अर्क खँचनेवाली जाति थी, वा यह महुएका व्यापार करनेसे महुवार कहाई, पीछे विगडकर माहौर या महावर शब्द होगया, हम देखते हैं माहौर शब्द अन्य जातियां भी अपने साथ लगाती हैं, यथा माहौर सुनार, माहौर कोली, माहौर कहार, माहौर कलवार, माहौर किसान आदि अनेक जातियोंके साथ पाया जाता है, तब इतना तो अवश्य बोध होता है, कि माहौर या महावर कोई उत्कृष्ट शब्द अवश्य है, जिसके निमित्त दूसरी जाति अपने साथ लगानेका उद्योग

करती है, सी एस डबलू सी महोदय इसको कलवार जातिका एक भेद मानते हैं, और दूसरे भी बहुतसे लोग ऐसाही कहते हैं, पर इस समय इस जातिकी स्थिति देखनेसे पता लगता है कि मद्य आदिका व्यापार इस जातिमें बहुत कालसे दिग्गार्ह नहीं देता, और लोग अच्छे आचार विचारसे रहते हैं किन्हीका यह भी कहना है कि महाउर नाम एक क्षत्रियवंशमें राजा होगया है (जिसका नाम हम ३६ राजवंशमें दे चुके हैं) उसकी हम संतान हैं, और क्षत्रिय कर्मके त्यागके कारण हम महाउर वैश्य कहाते हैं इत्यादि जातिका विवरण देते हैं, परन्तु अभीतक इस जातिसे पुष्ट प्रमाणोंकी कोई पुस्तक नहीं निकली इस कारण हम कोई विशेष निर्णय नहीं कर सकते हैं। विचारकोटिमें इस जातिको रक्ते हैं।

### वाथम वैश्य ।

वाथम नामकी एक जाति अपनेको वैश्य कहती है, यह लोग भी शाहजहां पुर आदि स्थानमें पायेजाते हैं, शौडिकोंकी पुस्तकोंमें एक कलवार जातिका भेद इस जातिको लिखा है उस प्रांतके निवासी भी ऐसाही कहते हैं पर इस समय इस वाथम जातिमें मद्यका सेवन वा व्यापार कोई बात नहीं पाई जाती। लोक सदाचरणकी ओर ध्यान रख रहे हैं, वाथम शब्द किसी शास्त्रमें अभीतक नहीं देखा गया है न वंशावलीमें इस बातपर ध्यान दिया गया है कि किस वंशकी यह शाखा है, केवल व्याकरणकी व्युत्पत्तिसे कोई जाति सिद्ध नहीं होसकती कारण कि धातु प्रत्ययसे असंस्कृत शब्दभी संस्कृत जैसे होसकते हैं इनका विवरण जब विशेष प्राप्त होगा तब लिखेंगे।

इसी प्रकारसे और भी कितनीही जातियोंको क्षत्रिय वैश्य होनेका दावा है, जैसे मेढ सुनार, अहीर वड गूजर आदि हमने चौथे मिश्र गण्डमें इन जातियोंपर भी कुछ २ विचार लिख दिया है, विद्वज्जन देखकर इसका निर्णय कर सकते हैं।

### गोप ।

ब्रह्मवैवर्त पुराणमें लिखा है--

**कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपगणो मुनेः ।**

**आविर्भूव रूपेण वेशेनैव च तत्समः ॥**

(ब्र० वै० अ० ५ । श्लोक० ४१)

अर्थात् कृष्णके लोम कूपोंसे गोपोंकी उत्पत्ति हुई है, जो रूप और वेशसे उन्हींके समान थे और जब भगवान्की नन्दरायजीसे बात हुई।

**“हे वैश्येन्द्र सति कलौ न नश्यति वसुन्धरा”**

(ब्र० पु० १२८ । ३३)

हे वैश्येन्द्र ! कलिका आरंभ होनेसे कलिघर्म प्रचलित होंगे पर वसुन्धरा नष्ट नहीं होगी,

इससे नन्दजीका वैश्य होना पाया जाता है, परन्तु कृष्णजी जब नन्दजीके घर थे तब उनके संस्कारको नन्दजीके पुरोहित न आये, गर्गजीको वसुदेवजीने भेजा यह बड़े आश्चर्यकी बात है, परन्तु फिर उसी पुराणमें लिखा है जब श्रीकृष्ण गोलोकको गये तब सब गोप ग्वालोंको साथ लेते गये और अमृत दृष्टिसे दूसरे गोपोंसे गोकुलको पूर्ण किया । यथाहि—

योगेनामृतदृष्ट्या च कृपया च कृपानिधिः ।  
गोपीभिश्च तथा गोपैः परिपूर्णं चकार सः ॥

( ब्रह्मवै० पु० )

भगवान् जब गोलोकको जानेलगे तब अपने साथ गोप गोपियोंको ले चलने लगे तब अमृतत्रदृष्टिद्वारा दूसरे गोपोंसे गोकुल पूर्ण किया, गोपालनमात्र इनमें एक वैश्य लक्षण पाया जाता है ।

लोधाजाति ।

लोधा जातिकी इस समयकी स्थिति जो पाई जाती है उसके देखनेसे विदित होता है कि यह जाति भी संस्कारशून्य है, उसमें साधारण स्थितिमें कहीं कोई यज्ञोपवीत पहरे नहीं दिखाई देता, जीवन मरणमें कोई विशेष कृत्य तीन वर्णोंके समान नहीं होता है कराव भी होता है परन्तु यह जाति भी और जातिके समान अपनेको क्षत्रिय कहती है, पर प्रमाणमें केवल अनुमानका सहारा लेती है, जबतक शास्त्र किसी विषयमें अपना मतामत प्रगट न करे, तब तक कौन क्षत्रिय है कौन नहीं इस विषयमें क्या कहा जा सकता है, लोधोंकी वंशावलीमें लिखा है उद्यमशील होना क्षत्रिय है इसलिये उद्यमवाले होनेसे लोधे क्षत्रिय हैं, क्या अच्छा अनुमान है वैश्य शूद्र कोई उद्यमी है ही नहीं और वैश्य उद्यम शील होनेसे क्षत्रिय क्यों नहीं, तारीख बुलन्द शहरमें राजा लक्ष्मणसिंहने इनको खेतीके काममें मेहनती लिखा, लोधा शब्दको लुब्धक, वा लोहधा वो वृक्ष विशेष लोधसे बिगडा बताते हैं, राजा लक्ष्मणसिंह कहते हैं कि ( किसी जमानेमें इस कौमके लोग लोध जंगलसे ला लाकर बाजारोंमें बेचा करते थे, इस वास्ते लोध कहाने लगे ) ( पं० ३ से ५ तक ) कोई लवधाका अपभ्रंसमानते हैं, एक जगह उसीमें लिखा है यह लोहि राजाके वंशधर होनेसे लोहिधा थे, पीछे लोधा कहाये, फिर दूसरी जगह तारीख बुलन्द शहर पृ० ३६१ में लिखा है लोधोंकी पैदायश इस देशके असली वाशिन्द्नों और आर्योंके मेल मिलापसे हुई होगी, क्योंकि पुराणोंमें एक जंगली कौमका नाम कहीं सोदा कहीं सोदा कहीं लोदा और कहीं रोदा लिखा है, और दिल्लीसे पूर्वपश्चिम दोनों ओर यमुना किनारे बहुत बड़ा जंगल था, पसकरीने क्यास है कि हालके लोधे उसी जंगली कौमकी औलाद होंगे । इनका गोत्र माहुर है । वंशावलीकार कहते हैं सोदा कौम टाडसाहबके मतसे सैगरी है और सौदा पमार वंशकी शाखा है ( जि० १ अ० ४ पृ० ५४ ) सौदा राजपूत लोद्वामें रहते हैं । जि० २ । पृ० २६५ घोराबल

से दक्षिणकी ओर लोद राजपूत रहते हैं, उनकी राजधानी लोदवा है ( जि० २ । पृ० २७८ ) मर्दुमशुमारी सन् १९०१ पुस्तक मिस्टर वर्नकी लिखी हुई ( जिन्द १६ भाग १ फिकरा १७२ ) लोधा कर्सीर तादाद मजदूरों और अदना काश्तकारोंकी कौम है जिसका बहुत कुछ मेल दो और कौमों ( किसान और म्वागी ) से है, जो इन जगहोंमें मिलते हैं, जहां लोधे कम हैं, उनके ग्वली फिरकोंके नामोंकी समानता और उनके रहनेकी जगहोंसे यह मेल साफ तौर पर जाना जाता है, इस देशके और भागोंमें लोवोंसे बुन्देल खण्डके लोधोंकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, और वे राजपूतोंका एक फिरका लोधा भी है, जो मध्य-हिन्दके लोधा राजपूतोंसे सम्बद्ध होना बताते हैं ।

आगे वंशावलीमें लिखा है कि मथुरिया लोभे प्रायः दूसरे लोधोंमें उरग होते हैं, संभव है कि यह लोग मथुरासे जो चन्द्रवंशकी राजधानी है आकर बसे हों, इनका कश्यपगोत्र चन्द्रवंश शाखा मरदुदनी ( माध्यन्दिनी ) आसान आत्रे म्याम ( म्याम ) वेद रसम क्षत्रिय मथुरापुरी निकास वंशोद्भव लोधोंकी उत्पत्ति न लोघोंमें विधवाविवाह या नियोगकी रीति प्रचलित है जो वेदोक्त आपद्धर्म है ।

बस इतना ही इस वंशावलीका सार है जब हम लुब्धक शब्द तथा राजा लक्ष्मणसिंह और मनुष्य गणनाकी रिपोर्टपर विचार करते हैं तब लोधाजाति कृषिकर्मा और दो जातिके मेलसे बनी हुई प्रतीत होती है, और इस जातिमें धरेजा वा कराव है भी यह कभी भी क्षत्रिय वर्ण प्रतीत नहीं हो सकता है, वंशावलीके निर्गता समाजी न्यालके हैं उनको यह लिखना चाहिये था कि आपद्धर्म सदाही विद्यमान रहता है या कर्मा मिट भी जाता है, आपके ध्यानमें कृषिकर्म करते हुए भी जाति क्षत्रिय बनजाय और उसकी निकृष्टता आपद कहकर दूरकर पी जाय, परंतु धरेजा कारवकी आपत्ति अंगरेजोंके सुराज्यमें ज्योंकी त्यों बनी रहे, यह क्या उत्कर्ष है, जब कोई अपभ्रंश शब्द होता है तो उसमें प्रायः अक्षर घटा करते हैं बढा नहीं करते, पर आप लिखते हो लोदि राजासे लोदधा हुआ फिर लोध हुआ यह कैसे संभव हो सकता है हां टाडसाहबके मतसे जो आप लोद राजपूत कहते हैं हमको इस बातसे कुछ इनकार नहीं पर यह सवृत कथा है कि मर्दुमशुमारीके पुस्तकवाले और राजा लक्ष्मण सिंहजीकी पुस्तकवाले जंगली कौमके लोध एक ही हैं उनके और इनके बीचमें बहुत अन्तर है, इस जातिमें कहीं कहीं कुर्मा भी संमिलित हैं । दूसरे लोग टाकुर साहब भी कहे जाते हैं, पर वे लोग कुर्मियोंमें सम्मेलन नहीं करते, उन राजपूतोंके जो लोदवंशी हैं हाथका जल पिया जाता है पर इनका नहीं अब यह सिद्ध हुआ कि लोधा जातिके दो भेद हैं एक पंवारकी शाखा दूसरे आर्य अना-र्यके मेलवाले, इनमें जिसका खान पान उन टाडसाहबके लिखित लोध जातिके पुरुषोंसे होवे उस वंशके, और जो संस्कारहीन कृषिकर्मा तथा मँजूर और धरेजा करनेवाली जाति है तथा जिनका व्यवहार इसरूपका है वोह दूसरी प्रकारकी संकरताकी जाति हो सकती है ।

लोहथम ।

यह भी एक जाति है जो अपनेको क्षत्रिय वर्णमें मानती है यह कहते हैं बृहद्बल राजाको कृष्णदेवने लोहथमकी उपाधि दी थी ।

पहरी ।

यह एक चौहान वंशी क्षत्रिय जातिका भेद है, इनका निकास जैपुरके राज्य खंडेलासे है, जो आर पी सी रेलके माधोपुर स्टेशनसे पांच कोस दूर है, यह पहले राजाओंके शरीर-रक्षक थे, इससे इनको पहरीकी पदवी दी गई थी कहा जाता है यह जाति भी परशुरामके भयसे पश्चिमोत्तर प्रान्ततक आ गई थी अब भी देहरादून आदि प्रान्तमें पाई जाती है, इनके विषयमें कहा जाता है कि—

क्षत्रियमूलकपोत भये भृगुनायक छोपिलिये व हरी ॥

जेहि देशदुरे तहां वाहिमगे नृपनारि अधीर नहीं ठहरी ॥

गृहकाज तजे अरु जाती तजी जित जाय वसै बुधिकर गहरी

तेहि नामसे वंश विख्यात भये और आस प्रसिद्ध भयो पहरी

दोहा—पहारावंश चौहाणका, उत्पति खंडेला ग्राम ।

कुलदेवी चक्रेश्वरी, जपै जो भगवत नाम ॥

इनका गोत्र पहाडया खांप चौहान निकास खंडेला देवी चक्रेश्वरी माता है ।

तगाजाति ।

जिला विजनौर जिला मुरादाबादमें एक तगाजाति पाई जाती है. इन लोगोंके आचार विचार ठाकुर राजपूत जातिसे मिलते जुलते हैं, हमने देखा है कि दसहरे पर इस जातिमें शास्त्र पूजन होता है झुरी या तलवार रखी जाती है, परन्तु अभी तक विशेष विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, इस समय इस जातिके लोग अपनेको ब्राह्मणभी मानने लगे हैं कोई अपनेको त्यागी ब्राह्मण कहते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं त्यागे हुए वा दान न लेनेवाले जो कुछ भी हों विशेष विवरण वंश मिलनेपर किया जायगा.

मिश्रखण्डश्चतुर्थः ।

इस खण्डमें बहुतसी जातियोंका समावेश है, इसमें, लिखी समस्त जातियें अपनेको यह न समझें कि हम चतुर्थ कक्षमें हैं किन्तु इसमें चतुर्थ वर्णके सिवाय अन्य वर्णकी जातियोंका भी उल्लेख है, इसी कारण इस खण्डका नाम हमने मिश्रखण्ड रखदिया है । इसमें शूद्र, शत-शूद्र, संकरजाति, खेतिहर, किसान, हलवाई, क्षत्रिय वैश्य बुवजाति, स्मार्तसंकर, जातिविवेक लिखित संकर तथा ब्रह्मवैवर्त लिखित संकर, बंगीय वा अन्यदेशीय क्षत्रियादि अनेक जाति-योंका वर्गन किया गया है तथा देवताओंके वर्णविवेक वर्णसंकरोंके भेद उनकी अंशकल्पना



जातियोंके संस्कार भारतके मुख्य मत वा पंथ चौंसठ कला वर्णोंके विवाहादिमें वाहन आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया गया है, इसके अनेक विषय बहुतही उपयोगी हैं ।

प्रत्येक पुरुषको अपने मूलपुरुष वा जाति ज्ञानिकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, यदि नीच रुधिरसे उच्च रुधिरका सम्पर्क किया जाय तो रुधिर मध्यकी अवस्थावाला हो जाता है, इसी बातको जानकर प्रत्येक मनुष्यको संकरतासे भय मानना चाहिये, एकही जातिके शफरीके पेड़ हैं परन्तु बीजकी उत्कृष्टता अपकृष्टतासे उनके फलोंमें कितना तारतम्य हो जाता है, अशुद्धके साथ संसर्ग निश्चय अशुद्धिका कारण उत्पन्न करेगा, और मनोमालिन्यका हेतु होगा, इसकारण प्रत्येक मनुष्यको शुद्ध संसर्ग और आत्मोन्नतिके कार्यमें दत्तचित्त रहना चाहिये, कैसे उत्कृष्ट अपकृष्ट होजाता है, किमप्रकार शुद्धजाति निष्कृष्ट बनकर संकर वंशको प्रगट करती है, इस बातको जानकर मनुष्य अपनेही वर्णमें शुद्धतामें बनारहे, इसी बातके बनानेको चतुर्थ खण्डका आरंभ है, पाठकागण देशमें कि किमप्रकारसे एकजातिके द्वारा दूसरी जातिके स्त्री वा पुरुषके संसर्गमें सांक्षर्य होना है इन अथ बातोंको विचार कर दोपोंसे बचे यही हमारा प्रधान उद्देश्य है, जातिविवेकका बहुतसा अंश वर्गमंकर जातिविवेकाध्यायमें प्रकाशित भी होचुका है ।

### चतुर्थखंडो वा मिश्रखण्डः ।

अब प्रथम क्रम प्राप्त शुद्ध जातिका वर्णन किया जाता है शुद्ध शूद्रजाति प्रायः दुर्लभमी हो रही है, संस्कारहीन सेवकाई कर्मा शुद्ध जाति है, परन्तु अब इनमें अनुलोम, प्रतिलोम और मिश्रित तीन भाग पाये हैं, तीनों वर्णों द्वारा अपनेसे निष्कृष्ट वर्णकी स्त्रीमें जो सन्तान उत्पन्न होती है वह अनुलोम कहाती है, और उच्च वर्णकी स्त्रीमें नीच वर्णके पुरुषसे जो सन्तान होती है वह प्रतिलोम कहाती है और अनुलोम प्रतिलोम मिलकर जो सन्तान हुई वह मिश्रित कहाई, इनमें अनुलोम उत्तम, प्रतिलोम मध्यम और मिश्रित अधम हैं, इनमें—

**द्विजानां षोडशैव स्युः शूद्राणां द्वादशैव हि ।**

**पंचैव मिश्रजातीनां संस्काराः कुलधर्मतः ॥**

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके सोलह, शूद्रोंके बारह और मिश्र जातियोंके पांच संस्कार होने चाहिये । गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अब्रप्राशन, चौक, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, आवश्यक्याधान, गार्हपत्याहवनीय, दक्षिण अग्निस्थापन यह सोलह संस्कार व्यासस्मृतिमें लिखे हैं, इनमें द्विजाति स्त्रियोंके कर्णवेध पर्यन्त नौ संस्कार विना मन्त्रके होते हैं, पर व्यासजी अपनी स्मृतिमें ( शूद्रस्यामन्त्रतो दश ) शूद्रके दशही संस्कार हैं ऐसा कर्णवेधपर्यन्त नौ और दशवां संस्कार

विवाह यह विना ही मंत्रके होते हैं, मिश्र जातियोंके नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण-  
छेदन और विवाह यह पांचही संस्कार हैं अब संकरोंके लक्षण कहते हैं—

संकरस्त्रिविधः प्रोक्तः पुरातनमहर्षिभिः ।

तत्रादौ प्रथमः प्रोक्तो वर्णसंकरसंज्ञकः ॥ १ ॥

रथकारादिसंप्रोक्तो वर्णसंकीर्णसंकरः ।

वर्णसंकीर्णसंकरस्त्रितयः स्मृतः ॥ २ ॥

महर्षियोंने तीन प्रकारके वर्णसंकर कहे हैं उत्तम अधम वर्णका अपत्य वर्णसंकर होता है यथा मूर्धात्रसिक्तादि, और संकरोंसे उत्पन्न संकीर्णसंकर जैसे माहिष्य और रक्तरणीमें रथ कारादि, और वर्णसंकीर्णसंकरकी सन्तान वर्णसंकीर्णसंकर होती है ॥ २ ॥

स्मृत्यन्तरे—

प्रातिलोम्यानुलोम्येन वर्णैस्तजैः सवर्णतः ।

षष्ट्यैवान्ये प्रजायन्ते तत्प्रसूतैस्त्वनन्तकैः ॥

जातिविवेके—

षष्टिगतास्तु तत्संख्यैः षट्त्रिंशच्छतसंख्यया ।

भेदाः संकरजातीनां बहवः स्युस्तथापरे ॥ ४ ॥

तेषां भेदानुभेदाश्च प्रभवन्ति कलौ युगे ।

असंख्यातास्तु जायन्ते तान्वक्तुं कः प्रगल्भते ॥ ५ ॥

अनुलोम्येन वर्णानां षड् भवन्ति नराः क्रमात् ।

प्रतिलोम्येन षट् ते स्युरिति द्वादश भेदतः ॥ ६ ॥

एतैर्द्वादश मिश्राः स्युश्चतुर्वर्णैर्विमिश्रिताः ।

ते स्युरष्टाब्धयो भेदाः षष्टिर्द्वादशसंयुताः ।

यैः षष्टिसम्भता भेदास्ते प्रज्ञासंज्ञकाः स्मृताः ॥ ७ ॥

मनु०—एते षट् सदृशान् वर्णान् जनयन्ति स्वयोनिषु ।

मातृजात्यान्प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥८॥ (अ० १०।२७)

भाषार्थ—स्मृत्यन्तरमें लिखा है प्रतिलोम और अनुलोम वर्णोंसे उत्पन्न हुए बारह प्रकार के पुत्र और फिर उनके सम्बन्धसे उत्पन्न पुत्र साठ प्रकारके होते हैं, ये सब वर्णभासक होते हैं, और फिर इनकी संतान अनंत होती है ॥ ३ ॥ फिर वे साठ भेदोंको प्राप्त हों

१३६ होती हैं, तथा और भी बहुतसे भेद हो जाते हैं ॥ ४ ॥ कलियुगमें उनके बहुतसे भेद और अनुभेद हो गये हैं, वह इतने असंख्य हैं कि उनको कौन कह सकता है ॥ ४ ॥ वर्णोंके अनुलोमसे छः प्रकारकी संतान होती हैं, वह मूर्धावसिक्त आदि हैं, और छः प्रकारकी सन्तान प्रतिलोमसे होती हैं, वह मृत आदि हैं, इस प्रकारसे बारह भेद हुए ॥ ६ ॥ यह बारह जब चार वर्णोंसे संयुक्त होते हैं, तब ४८ प्रकारके भेदवाले होते हैं उनमें बारह भेद और मिलकर साठ प्रकारके हो जाते हैं, अर्थात् बारह मूर्धावसिक्त अनुलोमद्वारा, क्षत्रिया और वैश्योंमें उत्पन्न तीन प्रतिलोमसे ब्राह्मणोंमें एक सब चार हुए, अम्बष्ठके अनुलोमसे दो, प्रतिलोमसे दो ८ हुए, निपादके अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे तीन सब बारह हुए, माहिष्यके अनुलोमसे २ प्रतिलोमसे दो सब सोलह हुए, उग्रके अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे ३ सब बीस हुए, करणके अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे ३ सब चौबीस हुए, इस प्रकार पहले षट्कमें २४ दूसरे सूतादि छसे चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें उत्पन्न होनेसे इसी क्रमसे २४ इस प्रकारसे ४८ बारह दोनों षट्क वाले इसप्रकार सब साठ हुए, इन साठों संख्यावालों द्वारा आभासोंमें उत्पन्न पुत्र प्राज्ञासंज्ञक कहाते हैं ॥ ७ ॥ मनुर्जा कहते हैं, यह पूर्वोक्त छः सूत-आदि अपनी २ योनियोंमें और अपनेसे उत्तम योनिमें अपनी समान पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, और उन पुत्रोंकी वही जाति होती है और उनकी माताकी होती है इनकी संतान पिताकी जातिसे नीची होती है, यथा शूद्रासे वैश्योंमें अयोगव होता है और अयोगवी माताकी वैश्य जातिमें और उत्तम क्षत्रिया तथा ब्राह्मणोंमें यह पूर्वोक्त छहों उत्पन्न होते हैं, और शूद्र जातिमें भी अपने सदृश उत्पन्न होते हैं, अर्थात्-इनमें जो संतान होती है वह अपनी माताकी सदृश होती है, पिताकी सदृश नहीं, किंतु माताकी जातिमें पितासे अधिक निर्दित पुत्रकी उत्पत्ति आगे मनुजीने कही है, इससे यह भी माताके समान पितासे हीन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, नीच वर्णसे उत्तम वर्णकी स्त्रीमें प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए आयोगव आदि दुष्ट कर्मवाले होते हैं और दुष्टकर्मवाले मातापिताओंसे उत्पन्न हुआ आयोगव इस प्रकार अधिक दुष्ट होता है, जैसे ब्रह्महत्यारा अशुद्ध मातापितासे उत्पन्न हुआ ब्रह्महत्यारा पुत्र और शुद्ध ब्राह्मण जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुत्र, चाहे दुष्टकर्मा मातापितासे उत्पन्न हो तो भी मातापितासे अधिक दुष्ट नहीं हो सकता, कारण कि उसके माताकी उसमें शुद्धजाति बनी रहती है, और सत्संगसे वह सुधर सकता है ॥ ८ ॥

प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यन्तरान्पुनः ।

हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥ ९ ॥

( मनु० १० । ३१ )

इस पर मेधातिथि और गोविंदराजने यह व्याख्यान किया है कि चारों वर्णोंसे बाह्य अर्थात् शूद्रसे उत्पन्न हुए चाण्डाल क्षत्रा और आयोगव यह तीनों प्रतिलोम विधिसे चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें गमन करते हुए अपनेसे अत्यन्त नीच पंद्रह जातिके वर्णोंको

उत्पन्न करते हैं जिनकी परस्पर उत्तमता और नीचता होती है, अर्थात्—चांडाल शूद्रोंमें अपनेसे हीन, और चांडालसे वैश्या और क्षत्रिया और ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुए पुत्रोंसे उत्तम पुत्रको उत्पन्न करता है इसी प्रकार वही चांडाल वैश्यामें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है वह शूद्रोंमें उत्पन्न हुएसे नीच, और क्षत्रिया ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुए पुत्रोंसे उत्तम होता है, और वही चांडाल क्षत्रियोंमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, वह वैश्यामें उत्पन्न हुए पुत्रसे नीच और ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुए पुत्रसे उत्तम होता है और वही चांडाल ब्राह्मणोंमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है वह क्षत्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्रसे नीच होता है; इस प्रकार चांडालसे चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें यह चार अत्यन्त नीच पुत्र होते हैं, इसी प्रकार चार क्षत्ता और चार आयोगवसे होते हैं और वे चांडाल क्षत्ता और अयोगव शूद्रसे भिन्न जातिके होते हैं अर्थात् शूद्र नहीं होते, इससे इन चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें बारह प्रकारके पुत्र हुए और तीन इनके पिता चांडाल क्षत्ता और आयोगव यह शूद्रसे पन्द्रह जाति उत्पन्न होती हैं, तथा जो निष्कृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणसे उत्पन्न हुई हैं, उनमें भी एक एकके पन्द्रह पन्द्रह भेद होते हैं, इससे सब मिलकर साठ जाति होती हैं, इनमें चारों वर्णोंके मिलाबसे ६४ जाति होती हैं और यह परस्पर स्त्रियोंके समागमसे अनेक प्रकारके वर्णोंको उत्पन्न करते हैं, इस मेधातिथि और गोविन्दराजके अर्थको कुल्लुक भट्ट आदि समाचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि पहले सूत्रादि प्रतिलोमसे उत्पन्न हुए छःका वर्णन है उसकेही विस्तारके निमित्त यह श्लोक है, और इसमें यह कहा है कि प्रतिलोमसे वर्तते हुए बाह्योसे अत्यन्त हीन होते हैं, इससे यहां प्रतिलोमसे उत्पन्न हुएोंमें ही तात्पर्य है अनुलोमसे उत्पन्न हुएोंके विषयमें नहीं है, इससे वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण इनसे उत्पन्न हुए पन्द्रह २ होते हैं, साठका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रसे भी साठ नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १५ ही होते हैं जो शूद्रके पुत्र आयोगव क्षत्ता और चांडाल यह तीन और जो इन तीनोंसे उत्पन्न बारह हैं फिर यह कहना भी तो ठीक नहीं, कारण कि शूद्रद्वारा प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए निष्कृष्ट इन तीनोंकी संतान जैसे निष्कृष्ट कही हैं, इसी प्रकार प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए भी तीन हीन होते हैं, और उन चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए अत्यन्त हीन कहने युक्त थे और मनुजीने इसी अध्यायके ३० वें श्लोक ( यथैव शूद्रो० ) में कहा है कि नीच वर्ण चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें अत्यन्त नीच वर्णको उत्पन्न करता है, उस श्लोकका अर्थ मेधातिथिने भी यही किया है, और चौसठ संख्यामें चार वर्णोंकी गणना भी अनुचित है कारण कि यह संकीर्ण प्रकरण है, इसमें शुद्ध वर्णोंकी गणना नहीं चाहिये, और यह भी युक्ती सम्मत नहीं है कि प्रथम आयोगव क्षत्ता और चाण्डाल यह तीनों पन्द्रह प्रकारके वर्णोंको उत्पन्न करते हैं, यह प्रतिज्ञा करके भी उनके बारह पुत्र गिनाये, फिर उन तीनों आयोगव क्षत्ता और चाण्डालको मिलकर पन्द्रहकी संख्या पूरी की, और जो अपने सहित पन्द्रह वर्णोंकी

लेते हैं यह भी संगत नहीं है, कारण कि जबतक बारह पुत्र न हों तबतक यह पन्द्रह प्रकारके नहीं होसकते, और इनमें अपने सहित इसवातको ऊपरसे मिलाना पड़ेगा यह भी एक दोष होगा इसकारण उक्त टीकाकारोंका अर्थ असंगत प्रतीत होता है तब इसका अर्थ वह होता है कि प्रतिलोमसे वर्तते हुए प्रतिलोमज बाह्य अर्थात् द्विजोंसे उत्पन्न हुए प्रतिलोमजोंसे निकृष्ट और शूद्रसे उत्पन्न हुए आयोगव क्षत्ता और चाण्डाल वह तीनों चतुर्वर्णकी स्वजातिकी स्त्रियोंमें अत्यन्त निकृष्ट पन्द्रह प्रकारके पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, अर्थात्—जैसे निकृष्ट पुत्र इनसे चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें होता है, वैसाही अपनी जातिमें होता है, कारण कि इसी १० अध्यायके ( एते पट्ट २७ ) इस श्लोकमें सजातीय स्त्रीमें उत्पन्न हुआ भी पुत्र पितासे निकृष्ट होता है, जैसे आयोगवसे चारों वर्णोंकी और आयोगवकी—इन पांचो स्त्रियोंमें अपनेसे निकृष्ट पांच पुत्र उत्पन्न होते हैं, इसीप्रकार क्षत्ता और चाण्डाल इन दोनोंसे भी पांचो स्त्रियोंमें पांच २ पुत्र उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार यह तीन बाह्य ( नीच ) अत्यन्त नीचे पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, इसीप्रकार अनुलोमजोंसे हीन वैश्य क्षत्रियसे उत्पन्न हुए मागध, वैदेह, सूत यह तीनों भी चारों वर्णोंकी और अपनी सजातीय स्त्रियोंमें अपनेसे नीचे पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं, इससे यह सब मिलकर अत्यन्त नीचे तीस जाति होती हैं, अथवा इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि बाह्य और हीन शब्दसे प्रतिलोमसे उत्पन्न हुए ग्रहण करने, अर्थात्—चाण्डाल, क्षत्ता, आयोगव, वैदेह, मागध, सूत यह छहों, बाह्य प्रतिलोम विधिसे स्त्रियोंमें वर्तते हुए अत्यन्त नीचे पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, जैसे चाण्डाल क्षत्ता आदि पांच स्त्रियोंमें और क्षत्ता आयोगव आदि चार स्त्रियोंमें और आयोगव वैदेह आदि तीन स्त्रियोंमें तथा वैदेह मागधी और सूती स्त्रियोंमें और सूत सूतीमें, इस प्रकार पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं और इस श्लोकमें पुनः पदसे यह आशय निकलता है कि उल्टी गणनासे सूतादि चाण्डालपर्यन्त जो नीचे हैं वे अनुलोम विधिसे भी अर्थात् सूतसे मागध, वैदेह, आयोगव, क्षत्ता, चाण्डाल इनकी कन्याओंमें पांच और मागधमें वैदेह, आयोगवसे क्षत्ता, चाण्डालकी कन्याओंमें चार और वैदेहसे आयोगव क्षत्ताकी कन्याओंमें तीन और आयोगवसे क्षत्ता चाण्डालकी कन्यामें दो, और क्षत्तासे चाण्डालकी कन्यामें एक, इन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, इसप्रकारसे यह सब मिलकर तीस प्रकारके नीचे होते हैं ॥ ९ ॥ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—

सवर्णैभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ।

अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्द्धनाः ॥

( याज्ञ० जाति० श्लो०९० )

सवर्णा स्त्रीमें सवर्णसे समान जाति उत्पन्न होती है, प्रशस्त विवाहोंसे उत्पन्न हुए पुत्र संतानोंके बढ़ानेवाले होते हैं, इस वचनसे विवाहित स्त्रियोंमेंही पूर्वोक्तविधि मानी है, और

आगे ( विनाश्वेष विधिः स्मृतः ) उक्त वचनसे विनापद सम्बन्धि शब्द है इससे अपने दूसरे शब्दकी अपेक्षा करनेसे सवर्ण पतिके संग जिसका विवाह हुआ हो उससे सवर्णा स्त्रीकोही जनावैगा, इससे इस श्लोकमें एक सवर्ण पद स्पष्टार्थ है, इससे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि उक्त विधिसे विवाही हुई सवर्णोंमें सवर्ण विवाहनेवाले वरसे जो उत्पन्न हों वे समान जातीय होते हैं; इससे कुण्ड, गोलक, कानीन, सहोदज, आदि सवर्ण नहीं हो सकते और सवर्ण अनुलोमज प्रतिलोमजोंसे भिन्न उनका अहिंसा आदि साधारण बंधोंमें अधिकार है, कारण कि इस वचनसे यह कहा है जो कि अपध्वंस अर्थात् व्यभिचारसे उत्पन्न हुए हैं, वे सब शूद्रोंके समान धर्मवाले कहे गये हैं, अर्थात्—वे द्विजोंकी सेवा आदि ही करें, कदाचित् कोई शंका करे कुंड और गोलकोंको ब्राह्मण न मानोगे तो श्राद्धमें उनका निषेध क्यों किया, कारण कि प्राप्ति होनेपर निषेध होता है, और इस न्यायका विरोध होता है, कि जो जिस जातिके मनुष्यसे जिस जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार उसही जातिवाला होता है, जैसे वृषसे गौमें उत्पन्न हुई गौ, और अश्वसे घोड़ीमें उत्पन्न हुआ घोड़ाही होता है, तिससे ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं और कानीन पौनर्भव आदि पुत्रोंके प्रकरणमें जो यह वचन कहा है, कि यह विधि सजातीय पुत्रोंके विषयमें कही है, उस वचनका भी विरोध नहीं है, यह शंका उनकी ठीक नहीं, श्राद्धमें निषेध इस भ्रमकी निवृत्तिके लिये है कि ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मणही होता है, जैसे अत्यन्त अप्राप्त पतितका भी श्राद्धमें निषेध है और न्यायका विरोध नहीं है, कारण कि वहांही न्याय विरोध होता है जहां जाति प्रत्यक्ष जानी जाती है, ब्राह्मण आदि जाति तो स्मृतियोंसे जानी जाती है, जैसे ब्राह्मणत्वके समान होनेपर भी कुंडिनका वशिष्ठ और अत्रिका गौतम गोत्र इस स्मृतिसे होता है तैसे मनुष्यके समान होने पर भी ब्राह्मण आदि जाति स्मृतिसे ही जानी जाती हैं, और माता पिताकी भी जातिका लक्षण यही है, कदाचित् कही कि अनवस्था होगी, सो नहीं संसारके अनादि होनेसे शब्द और अर्थका व्यवहार है, सजातीय पुत्रोंकी यह विधि मैंने कही, इस उक्त वचनका व्याख्यान भी उक्तके अनुवाद रूपसे करैगे, क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त विधिको शास्त्रोक्त युगान्तरमें होनेसे और शिष्टाचारसे माताका सजातीय होता है, जैसे धृतराष्ट्र पाण्डु विदुर क्षेत्रज माताके सजातीय हुए, और शुद्ध विवाहोंमें संतान बढ़ानेवाले रोगहीन दीर्घ आयुवाले धर्मप्रजासे संयुक्त पुत्र होते हैं ।

अब अनुलोमको दिखाते हैं—

विप्रान्मूर्द्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम् ।

अम्बष्ठः शूद्र्यानिषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥१०॥

( या० ९२ )

अर्थात्—ब्राह्मणसे विवाही हुई क्षत्रिया स्त्रियों जो पुत्र होता है, वह मूर्द्धावसिक्त होता है, और विवाही हुई वैश्यामें जो पुत्र होता है, वह अम्बष्ठ होता है, और विवाही हुई शूद्रामें निषाद पुत्र होता है, यह मत्स्योंके मारनेवाला निषाद नहीं है, जो प्रतिलोमसे उत्पन्न है किंतु यह निषाद वह है जिसको पारशव कहते हैं, और जो शंखऋषि ने कहा है कि ( ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवतीत्यादि ) अर्थात्—ब्राह्मणद्वारा क्षत्रियामें उत्पन्न क्षत्रियही होता है, और क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न हुआ वैश्य और वैश्यसे शूद्रामें उत्पन्न हुआ शूद्र ही होता है यह उनका वचन इस कारण है कि उनको क्षत्रियके करने योग्य कर्म करने कुछ इसलिये नहीं है कि मूर्द्धावसिक्त आदि जाति ही नहीं होती, इससे इन मूर्द्धावसिक्त आदिकोंको यज्ञोपवीत उन्हीं दण्ड धर्म यज्ञोपवीत आदिसे होता है, जो क्षत्रिय आदि कोंको कहे हैं, और इनको क्षत्रिय आदिकोंको समान यज्ञोपवीतसे पहलं यथेच्छ आचरण करना कुछ विशेष शुद्धिका अपेक्षा नहीं है ।

**वैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ ।**

**वैश्यात्तु करणः शूद्र्यां वित्रास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ११ ॥**

( याज्ञ० ९२ )

विवाहित हुई वैश्य और शूद्रकी कन्यामें क्षत्रियसे माहिष्य और उग्र नामक दो पुत्र होते हैं और वैश्यसे विवाही हुई शूद्रामें करण होता है, यह सम्पूर्ण मूर्द्धावसिक्त आदि कन्याओंका विधान विवाही हुई स्त्रियोंमें ही जानना, और मूर्द्धावसिक्त, अम्बष्ठ, माहिष्य, निषाद, उग्र, करण यह छः पुत्र अनुलोमज जानने अर्थात्—उच्च वर्णसे नीच वर्णकी कन्यामें उत्पन्न होते हैं ।

अथ प्रतिलोममाह ।

**ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वैश्याद्वैदेहिकस्तथा ॥**

**शूद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ १२ ॥**

( याज्ञ० ९३ )

**क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्रात्क्षत्तारमेव च ।**

**शूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ १३ ॥**

( याज्ञ० ९४ )

क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें जो उत्पन्न हो वह सूत, और वैश्यसे जो उत्पन्न हो वह वैदेहिक और शूद्रसे ब्राह्मणीमें जो उत्पन्न हो वह सब धर्मोंसे रहित चाण्डाल होता है, इसको किसी धर्मका अधिकार नहीं है ॥ १२ ॥ क्षत्रियकी कन्या वैश्यसे मागध नाम पुत्रको उत्पन्न करती है, वही कन्या शूद्रसे क्षत्तारको और वैश्यकी कन्या शूद्रसे आयोगव नाम पुत्रको

उत्पन्न करती है, यह छःसूत वैदेहिक, चाण्डाल, मागध, क्षत्रा और आयोगव प्रतिलोमज पुत्र कहाते हैं, मनु और शुक्रनीतिमें इनकी आजीविका लिखी है सो आगे कहेंगे, अब संकीर्णसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३ ॥

**माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥**

**असत्संतस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ११ ॥**

( य० ९५ )

माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उससे करणी ( जो कन्या वैश्यसे शूद्रमें उत्पन्न हुई हो ) में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखत्राधि जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं और वैश्यकी अनुलोम सन्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार है, उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं और घोड़ोंकी प्रतिष्ठा, रथसूतकी वृत्ति, स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी आजीविका हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियासे उत्पन्न हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम संकरमें भी भिन्न जातिकी और यज्ञोपवीतादिकी प्राप्ति जाननी, कारण कि यह दोनों द्विजातियोंसे उत्पन्न होनेसे द्विजाति कहाते हैं, और दूसरी स्मृतियोंमें इनकी संज्ञा जाननी यह संकीर्ण संकर जातियोंका वर्णन दिखाने मात्रही हैं, कारण कि संकर जातियें अनन्त हैं, इससे यहां इतना ही कहना उचित है कि प्रतिलोमसे अनलोम ( जो उच्च वर्णके पुंश्वसे नीच वर्णकी स्त्रीमें उत्पन्न हुए हैं ) श्रेष्ठ हैं यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता है, अमरकोशने इस जातिको शूद्र प्रकरणमें पढा है । यथा—

**रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ॥**

( अमर० २ । १० । ४ )

**तक्षा तु वर्द्धकिस्त्वष्टा रथकारश्च काष्ठतद् ॥**

( अमर० २ । १० । ९ )

माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा वर्द्धकी त्वष्टा रथकार काष्ठतद् यह सब एकही नामवाले हैं, उशना स्मृतिमें लिखा है—

**ब्राह्मण्यां क्षत्रियाच्चौराद्रथकारः प्रजायते ॥**

**वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिविद्धयते ॥ १५ ॥**

अर्थात्—ब्राह्मणीमें चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उत्पन्न होता है वह रथकार है उसकी वृत्ति शूद्रके समान है उसमें द्विजत्व नहीं है, तब यह विचार उदय होता है कि जिस रथकारके कुछ संस्कार माने जाते हैं वह याज्ञवल्क्यवाला और यह उशनावाला क्या एकही है, हमारी समझमें यह आता है कि यह उशनावाला रथकार कोई दूसरा है, कारण कि स्मृति-



उत्पन्न करती है, यह छःसूत वैदेहिक, चाण्डाल, मागध, क्षत्रा और आयोगव प्रतिलोमज पुत्र कहाते हैं, मनु और शुक्रनीतिमें इनकी आजीविका लिखी है सो आगे कहेंगे, अब संकीर्णसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३ ॥

**माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥**

**असत्संतस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ११ ॥**

( य० ९५ )

माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उससे करणी ( जो कन्या वैश्यसे शूद्रमें उत्पन्न हुई हो ) में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखत्राधि जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं और वैश्यकी अनुलोम सन्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार है, उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं और घोड़ोंकी प्रतिष्ठा, रथसूतकी वृत्ति, स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी आजीविका हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियासे उत्पन्न हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम संकरमें भी भिन्न जातिकी और यज्ञोपवीतादिकी प्राप्ति जाननी, कारण कि यह दोनों द्विजातियोंसे उत्पन्न होनेसे द्विजाति कहाते हैं, और दूसरी स्मृतियोंमें इनकी संज्ञा जाननी यह संकीर्ण संकर जातियोंका वर्णन दिखाने मात्रही हैं, कारण कि संकर जातियें अनन्त हैं, इससे यहां इतना ही कहना उचित है कि प्रतिलोमसे अनलोम ( जो उच्च वर्णके पुंश्वसे नीच वर्णकी स्त्रीमें उत्पन्न हुए हैं ) श्रेष्ठ हैं यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता है, अमरकोशने इस जातिको शूद्र प्रकरणमें पढा है । यथा—

**रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ॥**

( अमर० २ । १० । ४ )

**तक्षा तु वर्द्धकिस्त्वष्टा रथकारश्च काष्ठतद् ॥**

( अमर० २ । १० । ९ )

माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा वर्द्धकी त्वष्टा रथकार काष्ठतद् यह सब एकही नामवाले हैं, उशना स्मृतिमें लिखा है—

**ब्राह्मण्यां क्षत्रियाच्चौराद्रथकारः प्रजायते ॥**

**वृत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिविद्धयते ॥ १५ ॥**

अर्थात्—ब्राह्मणीमें चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उत्पन्न होता है वह रथकार है उसकी वृत्ति शूद्रके समान है उसमें द्विजत्व नहीं है, तब यह विचार उदय होता है कि जिस रथकारके कुछ संस्कार माने जाते हैं वह याज्ञवल्क्यवाला और यह उशनावाला क्या एकही है, हमारी समझमें यह आता है कि यह उशनावाला रथकार कोई दूसरा है, कारण कि स्मृति-

जायँ, ऐसी शंका होनेपर सिद्धांत किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनों वस्तुओंके देनेकी होती तो ऐसा कहा जाता (तक्रं च कौडिन्याय) कि कौडिन्यको तक्र भी दो, पर वहां चकार न होनेसे सामान्यतासे कहे उत्सर्गरूप दधिदानका तक्रदान अपवादरूपसे निवर्तक होगा, इससे कौडिन्यको केवल तक्रही दिया गया, इसीके अनुसार सामान्य ब्राह्मणादिकोंके लिये वसंतादि ऋतुओंमें अधिका स्थापन सामान्य उत्सर्गरूप मान लिया जाय तथा रथकार ब्राह्मणादिके लिये वहां वर्षा ऋतुमें अग्निस्थापन वसंतादिका अपवादरूप निवर्तक समझ लिया जाय ॥ ४८ ॥ ऐसी शंकाका उत्तर यह है कि जब शिल्प कर्म ब्राह्मणादिका नहीं तब यदि आपत्कालमें कोई किसी कामको करले तो इतनेसे वह कर्म उसको पृथक् रथकार जाति बनानेको निमित्त नहीं होसकता, कारण कि कर्मोंको ऐसा निमित्तत्व मानने लगे तो क्षत्रिय वैश्य जिस समय संध्या पूजा हवनादि करै उस समय ब्राह्मण, मानेजाय, ब्राह्मण जब बलका काम करै तो क्षत्रिय मानेजाय, इस प्रकारसे तो फिर जातिका कोई क्रम न रहेगा, इससे ब्राह्मणादि रथकार नहीं होसकते, जिनके कुलोंमें परम्परासे जो काम चला आता है उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे लुहार कुंभार आदि; इससे रथकारादि जाति ब्राह्मणादिसे भिन्न है, इस कारण तीनों वर्णसे कुछ नीचे और शुद्ध वर्णसे ऊपर वेदमंत्रमें कहे होनेसे सौधन्वना नामके पुरुष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये उन्हींको वर्षाऋतुमें आधानका अधिकार रहे, (सौधन्वना ऋभवः सूरक्षसः) अष्ट० १।७।३।४। इस मंत्रमें ऋभु नाम रथकारोंका है, इनके आधानके मंत्र (ऋभूणाम् ऋ० ३।७।५।) और (नेमिं नयन्ति ऋभवो यथा) पहिलेकी पुष्टी वा हालका नाम नेमि है, उसके प्राप्त करनेवाले ऋभु नाम रथकार हैं। मनुने अध्याय १० श्लो० २३ में लिखा है—

### वैश्यान्तु जायते व्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च

(मनु० १०।२३)

संस्कारहीन वैश्यही सवर्णा स्त्रीमें सुधन्वाचार्य पुत्र होता है, यह कापुरुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत कहाते हैं कि सम्भव है कि इसके शब्दोंके अपभ्रंश शब्दोंका कुछ पता लगजाय न भी लगे तो भी रथकार, बढई, खाती यह तीन वर्णोंमें किसी प्रकारसे नहीं ठहर सकते, और जब सहस्रों वर्षोंसे यज्ञोपवीत नहीं तो भी व्रात्यता सिद्धही है, परन्तु यदि यह उत्तम कर्मानुष्ठान कहें तो द्विजधर्मा कहा सकते हैं, कारण कि मीमांसाने वर्षामें आधानका अधिकार दिया है (सदृशानेव तानाहुः) के अनुसार द्विजातिकी सदृश हो सकते हैं। रथकार, बढई, तक्षा आदि अनेक शब्द जब रथकारके पर्यायवाची हैं तब उनकी व्यवस्था इसी रथकार शब्दके साथ आजाती है, परन्तु आगे चलकर एक तक्षा पद और भी आया है वहांपर भी थोड़ा विचार करैंगे। एक खाती जाति है, गाड़ी और गाड़ीके

ग्रहिये बनाना इनका काम है, यह लोग तर्पा, तखान और खाती नामसे अपनेको संबोधन करते हैं, और कहते हैं हम लोग मैथिल ब्राह्मणोंमें हैं। जहांतक हमारा विचार है और इनकी वंशावली हमने देखी है वहांतक उस ग्रंथमें एक भी प्रमाण वेदधर्म शास्त्रका उस ग्रंथमें नहीं दिया गया है कि खाती, तक्षा आदि शिल्पकर्मा ब्राह्मण जाति हैं इस लिये हम खाती जातिको उनके मनोऽनुकूल कहनेमें असमर्थ हैं, हां, यदि वे कोई धर्मशास्त्रका प्रमाण देंगे तो अवश्य हम उसको ग्रंथमें लिखेंगे केवल इतनी बातसे कि हमको मुसलमानोंका भय होगया था, परशुरामका भय होगया था जातिसे ब्राह्मण हैं पुष्ट प्रमाण वहीं समझा जाता।

जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ।

व्यत्यये कर्मणां साम्पं पूर्ववच्चाधरोत्तरम् ॥ १६ ॥

( या १६ )

मूर्धावसिक्तादि जातियोंका उत्कर्ष अर्थात् ब्राह्मणत्व आदि जातिकी प्राप्ति सातवीं पांचवीं और छठे जन्ममें जाननी इस विकल्पकी व्यवस्था यह है कि ब्राह्मणने शूद्रामें जो निपादी उत्पन्न की है यदि वह ब्राह्मणको विवाही जाय और उसके जो कन्या हो वह भी ब्राह्मणको विवाही जाय, तो इस प्रकारसे छठी कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा सातवीं पीढीमें वह ब्राह्मण होगा और ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुई अम्बुष्टा ब्राह्मणको विवाही जाय और उसके उत्पन्न हुई कन्या फिर ब्राह्मणको विवाही जाय तो वह भी पांचवीं छठी पीढीमें ब्राह्मणको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार क्षत्रियसे विवाही उग्रा और महिष्या भी क्रमसे छठी और पांचवीं पीढीमें क्षत्रियको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार वैश्यसे विवाही करणी पांचवीं पीढीमें वैश्यको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार अन्यत्र भी जातिका उत्कर्ष जानना और यदि इसी प्रकार कर्मोंका व्यत्यय—पूर्वोक्त वर्ण संकरकी कन्याओंके विवाहनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपनी २ जाति के कर्मोंको न करतेहों, जैसे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय-कर्मसे जीविका करता हो उससे भी निर्वाह न चले तो वैश्य वृत्ति करता हो अथवा शूद्र वृत्ति करता हो यदि क्षत्रिय, वैश्य भी निज २ वृत्ति त्यागकर वैश्य-शूद्रवृत्तिसे निर्वाह करते हों तो आपत्तिके दूर होनेपर भी उन २ कर्मोंको न त्यागनेसे पांचवीं छठी या सातवीं पीढीमें उस जातिकी समताको प्राप्त होते हैं, अर्थात् ब्राह्मण यदि शूद्र वृत्तिसे जीता हो उसको न छोडकर जिस पुत्रको उत्पन्न करे तो सातवीं पीढीमें वह पुत्र शूद्रकी समताको प्राप्त होगा, इसी प्रकार क्षत्रियपुत्र छठी पीढीमें वैश्यकी समताको और वैश्यपुत्र पांचवीं पीढीमें शूद्रकी समताको प्राप्त होता है, और उत्कर्ष वृत्तिसे जीनेवाला वैश्य छठी पीढीमें क्षत्रियकी समतावाले पुत्रको और शूद्रवृत्तिसे जीता हुआ क्षत्रिय छठी पीढीमें शूद्रकी समतावाले पुत्रको और वैश्य वृत्तिसे जीता हुआ पांचवीं पीढीमें वैश्यकी समतावालेको

और ऐसेही वैश्य पांचवी पीढीमें शूद्रके समान पुत्रको उत्पन्न करता है, तथा अधर उत्तर वर्ण जो संकरसे उत्पन्न होते हैं वे पूर्वके समान ही जानने, अर्थात्—अधर अ सत् और उत्तर श्रेष्ठ होते हैं। इससे पहले अनुलोमज और प्रतिलोमज दिखाये, और रथकारादि संकीर्ण संकरोंसे उत्पन्न हुए दिखाये। अब इस अधरोत्तर पदसे वर्णसंकरसे उत्पन्न हुए दिखाते हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंसे मूर्द्धावसिक्ता कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्र और अम्बष्ठामें वैश्य, शूद्रसे उत्पन्न हुए पुत्र, और निषादीमें शूद्रसे उत्पन्न हुए पुत्र, अधर प्रतिलोमज होते हैं इसी प्रकार मूर्द्धावसिक्ता, अंबष्ठा और निषादीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुए पुत्र, माहिष्य और उग्रकी कन्यामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न हुए पुत्र उत्तर अनुलोमज होते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी जानने। यह अधर प्रतिलोमज और उत्तर अनुलोमज असत् और सत् जानने, अर्थात्—अधर निकृष्ट और उत्तर उत्तम होते हैं, एक वर्णके व्यवधानमें स्पर्शमें कुछ दोष नहीं है तो अन्य वर्णके व्यवधानमें भी कुछ दोष नहीं है, इससे एक चाण्डालही स्पर्शके अयोग्य होता है, और अनन्तर वर्णोंमें उत्पन्न द्विजातियोंके संस्कार माताकी जातिके अनुसार होते हैं ॥ १६ ॥

अब अठारह जातियोंका धर्म कहते हैं।

स्कन्द पुराणमें चातुर्मास्यमाहात्म्यमें लिखा है—

अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा ॥

विधिनैव क्रिया नैव स्मृतिमार्गोऽपि नैव च ॥ १७ ॥

तासां ब्राह्मणशुश्रूषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम् ॥

अमन्त्रात्पुण्यकरणं दानं देयं च सर्वदा ॥ १८ ॥

न दानस्य क्षयो लोके श्रद्धया यत्प्रदीयते ॥

अश्रद्धयाशुचितया दानं वैरस्य कारणम् ॥ १९ ॥

(अध्याय ९)

अठारह प्रकारकी जो नीच जाति हैं उनके लिये विधि, क्रिया और स्मृतिमार्ग नहीं है ॥ १७ ॥ उनको मन्त्रके बिना ब्राह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान और शिवका अर्चन करना चाहिये, यही उनका पुण्य साधन है ॥ १८ ॥ जो दान श्रद्धासे दिया जाता है लोकमें कभी उसका क्षय नहीं होता अश्रद्धा और अशुचि होकर जो दियाजाय वह वैरका कारण होता है ॥ १९ ॥ अब उन अठारह प्रकारके नीचोंको कहते हैं।

शिल्पी च नर्तकश्चैव काष्ठकारः प्रजापतिः ।

धर्मकश्चित्रकश्चैव सूतको रजकस्तथा ॥ २० ॥

गच्छकस्तन्तुकारश्च चक्रिकश्चर्मकारकः ।

सूनिको ध्वनिकश्चैव कौलिहको मत्स्यघातकः ॥

औनामिकस्तु चाण्डालः प्रकृत्यष्टादशैव ताः ॥ २१ ॥

शिल्पी, नर्तक, काष्ठकार, प्रजापति ( कुम्हार ) धर्मक चितेरा जुलुहा, घोषी, धावक ( दूत ) तन्तुकार ( सूत करनेवाला ), तेली, चमार, वधिक वा मद्यनिकालनेवाला, नगाडची कोलिकक ( कोल ) मच्छीमार औनामिक और चाण्डाल ॥ २१ ॥ इनके मध्यमें तथा और दूसरे जन—

शिल्पिनः स्वर्णकारश्च दारुकः कांस्यकारकः ॥

काडुकः कुम्भकारश्च प्रकृत्या उत्तमाश्च पट् ॥ २२ ॥

शिल्पकार सोना बनानेवाले, बदर्द, कांसीको बनानेवाले रूपकारादि शिल्पी और कुम्हार यह प्रकृतिसे उत्तम होते हैं ॥ २२ ॥

खरवाद्युद्धवाही च हयवाही तथैव च ॥

गोपाल इष्टकाकारो अधमाधमपंचकम् ॥ २३ ॥

खिचर, ऊंट और और दृढ़ लदनेवाले, रोजगारके निमित्त गौओंके पालक ग्वाले और इष्टपज यह अधम जाति हैं पूर्वकालमें यह एक प्रकारकी जातियाँ थीं ॥ २३ ॥

रजकश्चर्मकारश्च नटो बरुडश्च ॥

कैवर्तभेदभिच्छाश्च सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ २४ ॥

गोषी, चमार, नट, बरुड, कैवर्त, भेद और भील यह सात अन्त्यज कहते हैं ॥ २४ ॥

एतासां प्रकृतीनां च गुरुपूजाः सदोदिताः ।

विप्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव फणो विविः ॥ २५ ॥

इन सब प्रकृतियोंको भगवानके भजन गुरुपूजन और दानमें अधिकार है ॥ २५ ॥

अथाष्टादशसमूहाः ।

मणिकांस्यघटस्वर्णस्वन्दनं लोहकारकाः ॥

सिंदोला सोषिरो नीली कर्ता किंशुकशौल्विकौ ॥ २६ ॥

पांशुलः कर्मचाण्डालो रोमिको बंधुलस्तथा ॥

कुक्कुटश्चाथ ठट्टारः श्वपचोऽष्टादश स्मृताः ॥ २७ ॥

मणिकार, कांस्यकार, स्वर्णकार, रथकार, लोहकार, सिन्दोळ, सोशिर, नीलकार, कर्चा-किंशुक, शौल्विक, ( तांबाकूटनेवाला ) फसिये कर्म, चांडाल, रोमिक, बंधुल, ( शूद्रसे निषा-दीमें उत्पन्न ) कुक्कुट, ठट्टार और श्वपच यह अष्टादश समूह कहते हैं ॥ २७ ॥ सात समूहोंको कहते हैं—

मालाकारः शाम्बरश्च शाल्मलो मौक्कलस्तथा ॥

कारवारः पुलकसश्च श्वपाकः सप्त च प्रजाः ॥ २८ ॥

माली, बाजीगर, शाल्मल, मौक्कल, चमार, ( पुलकस निपादसेशूद्रामें उत्पन्न ) और कङ्कर यह सप्तसमूह कहाते हैं तथा २४श्लोकमें कहे रजकआदि अन्त्यज भी सप्तसमूहकहाते हैं २८ ॥

अथैकादशसमूहः ।

तेरवाच्छिरक्रव्यादा हस्तकायश्च हिंसकः ॥

सासेहिको भारुडश्च मातंगो डौम्बगोपकौ ॥ २९ ॥

एताः प्रकृतयः प्रोक्ता एकादश मनीषिभिः ।

वर्णानामाश्रमाणां च सर्वदा तु बहिःस्थितिः ॥ ३० ॥

अन्त्यौ यावन्त्यजौ चैव तयोः स्नानं विशुद्धये ॥

आद्या ये अन्त्यजाः पंच तेषामाचमनं स्पृशी ॥ ३१ ॥

तेरवा, छिर, क्रव्याद, हस्तकाय, हिंसक, सांसिये, ( सर्प पकडनेवाले ) भारुड, मातंग, डौम और गोपक यह ग्यारह जाति एकादश समूहमें हैं इनमें डौम और गोपकके छूनेसे तो स्नान करना और पांचोंके छू जानेसे आचमन करना चाहिये । यह ग्यारहवों वर्णाश्रमके निवासभूत ग्रामादिसे बाहर हैं ॥ ३१ ॥ अब पंच समूहोंको कहते हैं—

चाण्डालः पुलकसो म्लेच्छः श्वपाकः पतितस्तथा ॥

एते पंच समाख्याताः पंचपातकिनां समाः ॥ ३२ ॥

आरामिको मणीकारः तन्तुवायश्च लोमकः ॥

नापितो दासकश्चैव प्रकृत्या मध्यमाश्च षट् ॥ ३३ ॥

ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथैव गुरुतल्पगः ॥

एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ ३४ ॥

करुकोद्दारुकश्चैव चारुकः कांस्यघट्टकः ॥

लोहकृत्कुम्भकारश्च प्रकृत्या उत्तमाश्च षट् ॥ ३५ ॥

चाण्डाल, पुलकस, म्लेच्छ, श्वपाक और पतित यह महापातकियोंके समान हैं ॥ ३२ ॥ यह मिलकर साठ हुए बागवान, मणीकार, जुलाहा, लोमक, नाई और दास छः प्रकृतिसे मध्यम हैं ॥ ३३ ॥ ब्रह्महत्यारा, मद्यपान करनेवाला, सोना चुरानेवाला, गुरुस्त्रीगामी और इनका साथी यह महापातकी हैं ॥ ३४ ॥ कारुक ( शिल्पी ), दारुक ( बढई ), चारुक, कांस्य कूटने वाला, लुहार और कुम्हार यह छः प्रकृति उत्तम हैं ॥ ३५ ॥

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः ।  
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च परिवर्तयत् ॥

( मनु० अ० १ श्लोक० ३१ )

विधाताने लोकोंकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणको मुखसे, क्षत्रियको भुजाओंसे, वैश्यको जंघाओं से शूद्रको अपने चरणोंसे उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यश्च यो वर्णा द्विजातयः ।  
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ ४ ॥  
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वपतयोनिषु ।  
आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥

( मनुः १० )

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये ३ वर्ण द्विज हैं, चौथा वर्ण शूद्र है, इनके सिवाय पांचवां वर्ण ही नहीं है ॥ ४ ॥ सब वर्णोंमें समान जातिकी शास्त्रकी रीतिसे व्याही हुई और पर-पुरुषके संपर्कसे बची हुई कन्याओं अनुलोमतासे अर्थात् ब्राह्मणसे ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियसे क्षत्रियोंमें, वैश्यसे वैश्योंमें और शूद्रमें शूद्रोंमें उत्पन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके ही होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरूपादितान् सुतान् ।  
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥  
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः ।  
द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥  
ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बटो नाम जायते ।  
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशत्रु उच्यते ॥ ८ ॥  
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ।  
क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरूद्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

द्विजों द्वारा अनुलोम क्रमसे अनन्तर वर्णजा पत्नीमें उत्पन्न अर्थात्--ब्राह्मणसे क्षत्रियोंमें, क्षत्रियोंसे वैश्योंमें और वैश्यसे शूद्रोंमें उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिके तुल्य नहीं होते हैं ॥ ६ ॥ अनन्तर जातिकी स्त्रियोंमें उत्पन्न सन्तानोंकी सनातन विधि कही गई । अब पतिस एक वर्णकी अंतरकी और दो वर्णके अन्तरकी पत्नीमें उत्पन्न

पुत्रोंका वृत्तांत कहता हूँ ॥ ७ ॥ ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामें अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होती है और ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें निपाद जातिका पुत्र जन्म लेता है जिसको पारश्वे कहते हैं ॥ ८ ॥ क्षत्रियसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न होनेवाली संतान कूरचेष्टा, निन्दित कर्म करनेवाली क्षत्रिय और शूद्रके स्वभावसे युक्त उग्रजातिका होती है ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ॥

वैश्यस्य वर्णं चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ॥

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाम् ॥

वश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥

ब्राह्मणकी कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न भूत, क्षत्रियामें वैश्यसे उत्पन्न मागध, और ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र वैदेह जातिका होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ वैश्यामें शूद्रसे आयोगव, क्षत्रियामें शूद्रसे क्षत्ता, और शूद्रसे ब्राह्मणीमें चाण्डाल ये सब वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ तथा स्मृतौ ॥

क्षत्तृवैदेहकौ तद्वत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥

पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् ॥

ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते ॥

आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५ ॥

जैसे अनुलोम क्रमानुसार एकांतर वर्णज अम्बष्ठ और उग्र जाति कहे गये हैं, उसी भाँति प्रतिलोम भी क्रमानुसार एकांत वर्णज, क्षत्ता और वैदेह हैं ॥ १३ ॥ द्विजातियोंके जो अनुलोम क्रमसे अनन्तर जातिकी स्त्रियोंमें उत्पन्न पुत्र कहे गये वे पतिसे छोटी जातिकी माता होनेके कारण अनन्तर नामवाले कहे जाते हैं ॥ १४ ॥ ब्राह्मणसे उग्रकी कन्यामें आवृत जाति, ब्राह्मणसे अम्बष्ठकी कन्यामें आभीर और ब्राह्मणसे आयोगवकी कन्यामें धिग्वण जातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥

१ यहां उग्रना विवाहिता वैश्या लेते हैं । अम्बष्ठकी वृत्ति चिकित्सा है । २ यह पर्वतोपर रहते हैं, भद्रक कहाते हैं ।



आयोगवश्चक्षता च चण्डालश्चाधमो नृणाम् ॥  
 प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १६ ॥  
 वैश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियात्सूत एव तु ॥  
 प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७ ॥  
 जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुष्कसः ॥  
 शूद्राजातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥

शूद्रद्वारा प्रतिलोम ( उलटा ) क्रमसे उत्पन्न ( उपरोक्त ) आधोगव, क्षता और चाण्डाल मनुष्योंमें अधम और पितरके कार्योंमें रहित होते हैं ॥ १६ ॥ इसीप्रकारि प्रतिलोम क्रमसे वैश्यद्वारा उत्पन्न मागध, वैदेह, और क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पितृकार्यके अधिकारी नहीं हैं ॥ १७ ॥ निषादसे शूद्रोंमें पुष्कस और शूद्रमें निषादमें कुक्कुट जाति होती है ॥ १८ ॥

क्षत्तुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते ॥  
 वैदेहकेन त्वम्बष्ठ्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥  
 द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् ॥  
 तान्सावित्रीपरिश्रष्टान् ब्रात्यामिति विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

क्षत्रसे उग्रामें उत्पन्न श्वपाक जाति, और वैदेहमें अम्बष्ठ्यामें वेण जातिके पुत्र होते हैं ॥ १९ ॥ द्विजातिके लोग अपनी सवर्णा वर्णोंमें जिन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं वे उपनयन संस्कारसे रहित होनेपर ब्रात्य कहें जाते हैं ॥ २० ॥

ब्रात्यात्तुजायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ॥  
 आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैश एव च ॥ २१ ॥  
 झल्लो मल्लश्च राजन्याद्ब्रात्याभिच्छिबिरेव च ॥  
 नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥  
 वैश्यात्तु जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च ॥  
 कारुषश्च विजन्मा च मंत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥  
 व्यभिचारेण वर्णानामविद्यावेदनेन च ॥  
 स्वकर्मणाश्च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥

ब्राह्मणकी सवर्णा स्त्रीमें पापकर्मा भूर्जकण्ठक जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जिसको आवन्त्य, वाटधान, पुष्पध और शैख कहते हैं ॥ २१ ॥ ब्राह्मण क्षत्रियकी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्रको झल, मल, निच्छिवि, नट, करण खस और द्रविड जातिके कहते हैं ॥ २२ ॥ ब्राह्मण वैश्यकी सवर्णा स्त्रीमें उत्पन्न पुत्रको सुधन्वा आचार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत जातिके कहते हैं ॥ २३ ॥ व्यभिचार करनेसे विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिमें विवाह करनेसे और उपनयन आदि अपने कर्मोंको त्यागनेसे ब्राह्मणादि वर्णोंमें वर्णसंकर हुआ करते हैं ॥ २४ ॥

संकीर्णयो नयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ॥

अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥

सूतो वैदेहकश्चैव चाण्डालश्च नराधमः ॥

मागधः क्षत्तृजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥

एते षट् सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ॥

मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

संकीर्ण योनि अर्थात्—दोवर्णोंके मेलसे प्रतिलोम और अनुलोम होते हैं तथा परस्पर अन्यकी स्त्रियोंमें आसक्त होनेसे जो वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं उनको यथार्थ रीतिसे कहता हूँ ॥ २५ ॥ सूत और वैदेह मनुष्योंमें अधम, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता और आयोगव ये षट् प्रतिलोम वर्णसंकर अपनी जाति, माताकी जाति और अपने श्रेष्ठ जातिकी कन्यामें अपने समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करते हैं । जैसे शूद्रसे वैश्यकी स्त्रीमें आयोगव होता है तो वह आयोगव जातिकी स्त्रीमें, माताकी जाति वैश्यामें और श्रेष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा क्षत्रियामें आयोगव जातिका पुत्र उत्पन्न करता है ॥ २६—२७ ॥

यथा त्रधाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य जायते ॥

आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

ते चापि बाह्यान्सुबहूस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।

परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥

जैसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रामें उत्पन्न संतानोंमेंसे क्षत्रिया तथा वैश्यामें उत्पन्न हुई संतान द्विज होती है वैसे ही ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुई संतान द्विज होती है और

वैश्यामें उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र, क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुआ पुत्र श्रेष्ठ होता है, ऐसेही प्रतिलोमक्रमसे ब्राह्मणोंमें क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न संतानसे वैश्यद्वारा उत्पन्न संतान वैश्यद्वारा उत्पन्न हुई संतानसे शूद्रद्वारा उत्पन्न हुई संतान नीच होती है ॥२८॥ प्रतिलोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी स्त्रियोंमें अर्थात् मृत वैदेहाकी स्त्रीमें अथवा वैदेह स्त्रकी स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करते हैं, तब वे पुत्र अपने पिता मातासे अधिक दूषित और निर्दित होते हैं, ॥ २९ ॥ जैसे शूद्रसे ब्राह्मणोंमें चांडाल उत्पन्न होता है, वैसेही वर्णसंकर द्वारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी स्त्रियोंमें चाण्डालसे भी नीच पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् ॥ ३१ ॥

सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधकं संप्रसूयते ।

नृन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥

डाकू जातिसे अयोगवकी स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्रको सैरिन्ध्र जाति कहते हैं वे लोग केश-रचना, देह दबाना आदि सेवकारके काम करनेमें चतुर होते हैं, दास नहीं होने परभी दासकर्म करके निर्वाह करते हैं, और मृगको फन्देसे फांसकर जीविका चलाते हैं ॥ ३२ ॥ वैदेहसे अयोगवि स्त्रीमें उत्पन्न हुए संतानको मैत्रेय जाति कहते हैं वे लोग मिष्टभाषी होते हैं और सूर्योदयके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३३ ॥

निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम् ।

कैवर्त्तमिति यं प्राहुरार्यावर्त्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गर्हितान्नाशनासु च ।

भवत्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्त्रयः ॥ ३५ ॥

कारावारो निषादास्तु चर्मकारः प्रसूयते ॥

वैदेहकादन्ध्रमेदौ बहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥

चाण्डालात्पाण्डुसोपकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ।

आहिण्डको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

निषादसे अयोगवीमें उत्पन्न हुई संतानकी मार्गवं और दा स जाति कहते हैं, वे लोग नाव चलाकर अपनी जीविका करते हैं, इस लिये आर्यावर्तके लोग इनको कैवर्त कहते हैं ॥ ३२ ॥ जूठन

खानेवाले और मुर्देका वस्त्र पहिरनेवाली, अयोगवीमें जन्मदाताके भेदसे सैरिध्र, मार्गव और मैत्रेय ये ३ हीन जातियें उत्पन्न होती हैं ॥ ३५ ॥ निषादसे वैदेही स्त्रीमें उत्पन्न होनेवाली संतानको कारावर कहते हैं चर्मका काटना इनकी वृत्ति है, वैदेहसे कारावरीमें अन्ध और निषादीमें भेद उत्पन्न होते हैं, ये ग्रामसे बाहर निवास करते हैं ॥ ३६ ॥ चाण्डालसे वैदेही स्त्रीमें पांडु सोपक जाति, और निषादसे वैदेहीमें अहिण्डिक जाति उत्पन्न होती है, वांसका कार्य, चटाई आदिका बनाना इनकी जीविका वृत्ति है ॥ ३७

चाण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान् ।

पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

निषादस्त्री तु चाण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ॥

श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥

चाण्डालसे पुक्कासी स्त्रीमें पापी कर्म करनेवाली सोपाक जाति होती है वह सज्जनोंसे निन्दित और जल्लादका काम करके अपना निर्वाह करती है ॥ ३८ ॥ चाण्डालसे निषादकी स्त्रीमें अन्त्यावसायी जाति उत्पन्न होती है वे लोग श्मशानके कामसे अपना निर्वाह करते हैं, ये जाति सबसे नीच होती है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार यह वर्णसंकर जाति और इनके माता पिताका नाम वर्णन किया, इनके सिवाय जो कुछ छिपी हुई जातियें हैं या प्रगट हैं वे कर्मोंसे पहिचानी जाती हैं ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधर्मिणः ॥

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, वैश्यसे वैश्यामें, और अनुलोम क्रमसे ब्राह्मणसे क्षत्रियामें, ब्राह्मणसे वैश्यामें और क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न ये ६ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर चलनेवाले अर्थात्-यज्ञोपवीतके योग्य होते हैं, किन्तु द्विजोंके सम्पूर्ण प्रतिलोमज पुत्र अर्थात् क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें और वैश्यसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र शूद्रधर्मी हुआ करते हैं ॥ ४१ ॥

तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥

उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

पौंड्रकाश्चौड्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः ॥

पारदा पल्लवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥

मनुष्य सब युगोंमें तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और वीर्यके प्रभावसे ( ऋष्य-  
शृंग आदिके समान ) अपनी जातिसँ श्रेष्ठ जातिके बन जाने हैं और क्रियाहीन होजानेसे  
बड़ी जातिके मनुष्य हीन जातिके होजाते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ पौंड्रक, औड्र, द्रविड,  
कम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और मज देशके रहनेवाले क्षत्रिय,  
यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंके लोप होनेसे और उन देशोंमें ब्राह्मणके न रहनेके कारण धीरे  
धीरे शूद्र होगये हैं ॥ ४४ ॥

मुखबाहूरुपजानां या लोके जातयो बहिः ॥

श्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लोगोंमें चाहे आर्यभाषा बोलनेवाले हैं अथवा श्लेच्छ-  
भाषावाले हैं, क्रियाके लोप होजानेके निमित्त जो बाह्य जाति होगये हैं वे दस्यु अर्थात् डाकू  
जातिके कहे जाते हैं ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः ॥

ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥

मेदांध्रचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुर्दिसनम् ॥ ४७ ॥

द्विजातियोंकी क्रमसे अनुलोम ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न  
सन्तान अथवा प्रतिलोम क्रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बड़ी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न  
सन्तान द्विजोंके कर्मोंसँ भिन्न निन्दित कर्मोंसे अपनी जीविका करती हैं ॥ ४६ ॥ मेद, अंध्र  
चुञ्चु और मद्गु जातिकी वृत्ति बनैले पशुओंका वध करना है ॥ ४७ ॥

क्षत्र्युग्रपुक्कसानां तु बिलौकोवधबंधनम् ॥ ४८ ॥

धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ।

वसेयुरेते विज्ञाना वर्त्तयंतः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

क्षत्र, उग्र और पुक्कसकी वृत्ति बिलमें बसनेवाले जीवोंका मारना तथा बांधना । धिग्व-  
णकी वृत्ति चमड़ेका काम करना, और वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना है  
॥ ४९ ॥ इन जातियोंके मनुष्य अपनी २ वृत्तिका अवलम्बन करके प्रसिद्ध वृक्षोंकी जड़के  
पास, पर्वतके समीप, श्मशान तथा उपवनमें वास करें ॥ ५० ॥

चाण्डालश्चपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

वासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।

काष्ठायाश्चमलंकारः परिज्जया च नित्यशः ॥ ५२ ॥

चाण्डाल और श्वपचको ग्रामसे बाहर बसाना चाहिये, ये निषिद्ध पात्र रखने योग्य हैं, और कुत्ते गड़हे इनके धन हैं ॥ ५१ ॥ ये मुर्देके बख पहिनते हैं, टूटे वर्तनोंमें भोजन करते हैं, लोहेके गहने पहनतेहैं और एक जगहसे दूसरी जगह भ्रमण किया करते हैं ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥

धर्म कार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये और इनका विवाह लेन देन अपने समा-नवालोंके साथ होना चाहिये ॥ ५३ ॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेद्युस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

दिवा चरेद्युः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः ।

अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

इनको अन्न देना द्योवे तो दासोंसे टूटे वर्तनोंमें दिलाना चाहिये और रात्रिमें गांव अथवा नगरमें इनको नहीं आने देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ये लोग राजाकी आज्ञासे अपनी जातिका चिह्न धारण करके किसी कार्यके लिये दिनमें गांवमें या नगरमें जावें और अनाथ मुर्दोंको गांव बाहर फेंकें ॥ ५५ ॥

वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ।

वधयवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥

शास्त्रकी आज्ञानुसार जिसको राजा वध करमेका दंड देता है उसका धे वध करें, मृतक के बख, शय्या उसके गहनेको ये ग्रहण करें ॥ ५६ ॥

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् ॥

आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥ ५७ ॥

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुषं व्यंजयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

अनार्य वर्णसंकर जो अपनेको छिपाकर आर्यके वेषसे रहते हैं उनको नीचे लिखे हुए कर्मों

से पहचानना चाहिये ॥ ५७ ॥ कठोरता, निष्ठुरता, क्रूरता और शास्त्रोक्त कर्मसे हीन वर्ण-संकर जातिको लोकमें प्रकाशित करदेते हैं अर्थात् -जिनमें कठोरता आदि हो उनको वर्ण-संकर जानना चाहिये ॥ ५८ ॥

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा ॥  
न कथञ्चन दुर्यानिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥  
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः ॥  
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥

ये लोग पिताके अथवा माता के वा दोनोंहीके स्वभाववाले होते हैं, ये अपने नीच स्वभाव कभी नहीं छिपा सकते ॥ ५९ ॥ बड़े कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वर्णसंकरमें थोड़ा अथवा बहुत स्वभाव अपने पिताका अवश्य ही रहता है ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः ॥  
राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६१ ॥  
ब्राह्मणार्थं गवाथ वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ॥  
स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ ६२ ॥

जिस राज्यमें वर्णदूषक वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं यह राज्य शीघ्र ही प्रजासहित नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥ बिना पुरस्कारकी आशाके ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे वर्णसंकरोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥  
एतं सामासिकं धर्मं चातुवर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

मनु महाराजाने हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना और इन्द्रियोंको वंशमें रखना ये धर्म चारों वर्ण और संकर जातिके लिये भी कहे हैं ॥ ६३ ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ॥  
अश्रेयान्श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात् ॥ ६४ ॥  
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ॥  
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥

ब्राह्मणसे शूद्रमें उत्पन्न हुई सन्तान श्रद्धसे संबन्ध होनेके कारण सातवीं पीढीमें नीचसे श्रेष्ठ जातिवाली हो जाती है ॥ ६४ ॥ जैसे शूद्र स्त्रीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र निषाद जातिका होता है यदि ब्राह्मणकी शूद्रा स्त्रीमें कन्या उत्पन्न होवे और वह ब्राह्मणसे विवाही

जाय और उसकी कन्यासे फिर ब्राह्मणका विवाह होवे, इसी प्रकार सात पीढीतक बराबर विवाह उक्त नियमसे होनेपर सातवीं पीढीमें निषादीका पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। इसीभांति शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न हुई सन्तानके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ६५ ॥

अनार्यायां पशुत्पन्नौ ब्राह्मणात्तु यदृच्छया ।  
 ब्राह्मणायामप्यनार्याच्च श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत् ॥ ६६ ॥  
 जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्या भवेद्गुणैः ॥  
 जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७ ॥

ब्राह्मणसे शूद्र स्त्रीमें इच्छापूर्वक उत्पन्न हुई सन्तान और शूद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुई सन्तान इन दोनोंमें कौनसा श्रेष्ठ है ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शूद्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र पाकयज्ञानुष्ठान गुणयुक्त होनेसे शूद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रसे निश्चयही श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥

तावुभाष्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।  
 वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वपुत्रः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥  
 सुबीज चैव सुक्षेत्रं जातं संपद्यते तथा ।  
 तथार्याजात आर्यायां सर्वसंस्कारमर्हति ॥ ६९ ॥

धर्मकी व्यवस्था है कि ब्राह्मणसे शूद्रमें उत्पन्न पुत्र ( पारशव ) अथवा शूद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ पुत्र ( चांडाल ) इन दोनोंमें कोई भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योंकि पारशव निर्दित क्षेत्रमें जन्मा है और चांडाल प्रतिलोमज है ॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम क्षेत्रमें अच्छे बीज बोनेसे उत्तम ही धान्य उपजता है, वैसे ही द्विजाति द्वारा अनुलोम क्रमसे द्विजकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य होता है ॥ ६९ ॥

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।  
 बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥  
 अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव निनश्यति ।  
 अबीजकमपि क्षेत्रे केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥  
 यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् ॥  
 पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥

पंडितगण कोई बीज और कोई क्षेत्रकी प्रशंसा करते हैं, कोई बीज और क्षेत्र दोनों



की किया करते हैं, इस मतभेदसे नीचे कही हुई व्यवस्था उत्तम है ॥ ७० ॥ ऊपरभूमिमें अच्छा बीज भी नहीं जमता है, बीजके बिना उपजाऊ भूमि भी निष्फलही सी होती है, इस लिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हैं ॥ ७१ ॥ बीज हीके प्रभावसे तिर्यक् योनिमें उत्पन्न हुए ऋष्यशृङ्ग आदि मुनि पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुए, इसलिये बीज श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ७२ ॥

विप्रान्मूर्द्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः क्षियाम् ।  
 अम्बष्ठः शूद्रायां निपादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ ९१ ॥  
 वैश्याशूद्रयोस्तु राजन्यान्माहिष्योऽथो सुतो स्मृतौ ।  
 वैश्यात्तुकरणः शूद्र्यां विप्रास्वेप विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥  
 माहिष्येण करणं तु रथकारः प्रजायते ।  
 असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९५ ॥

( याज्ञवल्क्यस्मृति अ० १ । )

क्षत्रियामें ब्राह्मणसे उत्पन्न मूर्द्धावसिक्त जाति, वैश्यामें अम्बष्ठ और शूद्रामें निपाद जाति ( अर्थात्-पारशव ) उत्पन्न होती है ॥ ९१ ॥ क्षत्रियमें वैश्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र माहिष्य शूद्रासे उत्पन्न उग्र और वैश्यामें शूद्रामें उत्पन्न पुत्रका करण आदि होती है, यह विवाही हुई स्त्रीके लिये है ॥ ९२ ॥ माहिष्यसे करणकी स्त्रीमें रथकार उत्पन्न होता है इनमें से नीच जातिके पुरुषसे ऊंच जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र दुर और ऊंच जातिके पुरुषसे नीच जातिकी स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं ॥ ९५ ॥

शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥  
 संस्कृतस्तु भवेदासो ह्यसंस्करैस्तु नापितः ॥ २३ ॥  
 क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्नास्तु यः सुतः ।  
 स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २४ ॥  
 वैश्यकन्यासमुद्भूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ।  
 स ह्यार्दिक इति ज्ञेयो भोज्यो विप्रैर्न संशयः ॥ २५ ॥

( पाराशर० अ० ११ । )

ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करे तो वह दास जातिका कहलाता है, यदि संस्कार नहीं करता है तो वह नापित ( नाई ) होता है ॥२३॥

क्षत्रियसे शूद्रकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको गोपाल जाति कहते हैं, उसके घर ब्राह्मण पक्कात्र भोजन कर सकता है ॥ २४ ॥ ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करता है तो वह आर्दिक कहाता है उसके घर ब्राह्मण निःसन्देह भोजन करे ॥२५॥

ब्राह्मण्यजीजनत्पुत्रान्वर्णेभ्य आनुपूर्व्यात् ब्राह्मणसूतमाग-  
धचाण्डालान्तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धावसिक्तक्षत्रियधीवरपु-  
ल्कसान्तेभ्य एव वैश्याभृज्जकण्टकमाहिष्यवैश्यवैदेहान्तेभ्य  
एव पारशवयवनकरणशूद्राञ्जशूद्रेत्येके ॥ ७ ॥

( गौतमस्मृति अ० ४ । )

ब्राह्मणकी कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पतिसे ब्राह्मणको क्षत्रियसे सूतको वैश्यसे मागधको और शूद्रसे चाण्डालको उत्पन्न करती है, क्षत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी ब्राह्मणसे मूर्धावसिक्त, क्षत्रियसे क्षत्रिया, वैश्यसे धीवर और शूद्रसे पुक्कस ( पुलकस ) को उत्पन्न करती है; वैश्यकी कन्या ब्राह्मणसे भृज्जकण्टक, क्षत्रियसे माहिष्य, वैश्यसे वैश्य, और शूद्रसे वैदेहको उत्पन्न करती है, शूद्रकन्या ब्राह्मणसे पारशव, क्षत्रियसे यवन, वैश्यसे कारण और शूद्रसे शूद्रको उत्पन्न करती है, यह किन्हीं आचार्योंका मत है ॥ ७ ॥

वैश्येन ब्राह्मण्यासुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः ।

राजन्यायां पुलकसः ॥ २ ॥

( वसिष्ठ० अ० २८ । )

ऐसा भी कहते हैं कि, ब्राह्मणीमें वैश्यसे रोमक जातिका पुत्र और क्षत्रियामें पुलकस जातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

सूताद्विप्रप्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते ।

( औशन० ६ खं० )

नृपायामेव तस्यैव जातो यश्चर्मकारकः ॥ ४ ॥

चाण्डालाद्वैश्यकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११ ॥

श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्दलम् ॥ १२ ॥

ब्राह्मणीमें सूतसे उत्पन्न हुआ पुत्र वेणुक, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र चर्मकार-  
जातिका होता है ॥ ४ ॥ चाण्डालसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको श्वपच कहते हैं, ये लोग कुत्तेका मांस खाते हैं कुत्ताही इनका बल है ॥ ११ ॥ १२ ॥

आयोगवसे विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः ।  
 तस्यैव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥  
 सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्वन्धकाः स्मृताः ।  
 निर्णेजयेद्युर्वस्त्राणि अस्पृश्याश्च भवंत्यतः ॥ १५ ॥

आयोगवसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रको ताम्रोपजीवी, और आयोगवसे क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको सूनिक कहते हैं ॥ १५ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र उद्वन्धक कहाता है जो बस्त्र धोता है वह स्पर्श करने योग्य नहीं होता ॥ १५ ॥

नृपायां वैश्यतश्चौर्यात्पुलिन्दः पारिकीर्तितः ।  
 पशुवृत्तिर्भवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्टसत्त्वकान् ॥ १६ ॥  
 पुल्कसाद्वैश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥  
 नृपायां शूद्रतश्चौर्याज्जातो रञ्जक उच्यते ।  
 वैश्यायां रञ्जकाज्जातो नर्तको गायको भवेत् ॥ १९ ॥

चोरीसे वैश्यद्वारा क्षत्रियामें उत्पन्न हुए पुत्रको पुलिन्द जाति कहते हैं, जो दुष्ट जीव और पशुओंको मारकर उनका मांस बेचकर अपनी जीविका करता है ॥ १६ ॥ पुल्कससे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको रजक, चोरीसे शूद्रद्वारा क्षत्रियामें उत्पन्न हुए पुत्रको ( रंगरेज ) और रजकसे वैश्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको नर्तक और गायक कहते हैं ॥ १६ ॥ १८ ॥ १९ ॥

वैदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्चर्मोपजीविनः ॥ २१ ॥  
 नृपायामेव तस्यैव सूचिकः पाचकः स्मृतः ।  
 वैश्यायां शूद्रतश्चौर्याज्जातश्चक्री च उच्यते ॥ २२ ॥  
 तैलपिष्टकर्जावी तु लवणं भवयन्पुनः ।  
 विधिना ब्राह्मणं प्राप्य नृपायां तु समञ्जकम् ॥ २३ ॥

वैदेहिकसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रको चर्मोपजीवी, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुएको सूचिक और पाचक कहते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥ शूद्रद्वारा वैश्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको चक्री ( वेली ) कहते हैं- यह तेली, खली और लवण ( नमक ) से अपनी जीविका करता है ॥ २३ ॥

जातः सुवर्ण इत्युक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः ॥

अथ वर्णक्रियां कुर्वन् नित्यनैमित्तिकीं क्रियाम् ॥२४॥

अश्वं रथं हारिस्तनं च वाहयेद्वा नृपाज्ञया ।

सैनापत्यं च भैषज्यं कुर्याज्जीवेतु वृत्तिषु ॥ २५ ॥

ब्राह्मणसे विधिपूर्वक विवाही हुई क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र सुवर्ण कहलाता है, वह अनुलोम द्विज है और नैमित्तिक द्विजके कर्मोंको करता है, राजाकी आज्ञासे रथ, घोडा, हाथीका चलना वा सेनापति होकर तथा औषधि द्वारा अपना निर्वाह करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥

नृपायां विप्रतश्चौर्यात्संजातो यो भिषक् स्मृतः ॥

अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपालयेतु वैद्यकम् ॥ २६ ॥

आयुर्वेदमथाष्टांगं तंत्रोक्तं धर्ममाचरेत् ।

ज्योतिषं गणितं वापि काथिकीं वृत्तिमाचरेत् ॥ २७ ॥

क्षत्रिय कन्यामें चोरीसे जो ब्राह्मणसे पुत्र होता है उसे भिषक् कहते हैं वह राजाकी आज्ञासे वैद्यक करता है ॥ २६ ॥ वह अष्टांग आयुर्वेद पढे और तंत्रके कहे धर्मोंको करे; ज्योतिष वा गणित विद्यासे भी अपना निर्वाह करे ॥ २७ ॥

नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृत ॥

नृपायां नृपसंसर्गात्प्रमादाद्गूढजातकः ॥ २८ ॥

सोऽपि क्षत्रिय एव स्याद्भिषेके च वर्जितः ॥

अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥ २९ ॥

ब्राह्मणसे विवाही क्षत्रियमें उत्पन्न हुआ पुत्र राजा कहलाता है, राजासे क्षत्रियमें उत्पन्न हुए पुत्रको गूढ कहते हैं वह क्षत्रिय है, किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिलकके अयोग्य होनेके कारण उसको गोज ( गोट्यला ) कहते हैं ॥ २८-२९ ॥

सर्वं तु राजवृत्तस्य शस्यते पदवन्दनम् ।

पुनर्भूकरणे राज्ञां नृपकालीन एव च ॥ ३० ॥

वैश्यायां विप्रतश्चौर्यात्कुंभकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥

कुलालवृत्त्या जीवेतुनापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥

इनको राजाके चरणोंका वन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनर्भू करणमें अर्थात् दूसरा विवाह करनेमें राजाके समान हैं, अर्थात्—इनके यहां राजा अपना दूसरा

विवाह करलेवे ॥ ३० ॥ चोरीसे ब्राह्मणद्वारा वैश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहाता है, मिट्टीके वर्तन बनाना उसकी जीविका है, और इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्यामें चोरीसे उत्पन्न नापित ( नाई ) होते हैं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

नृपाज्जातोऽथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ।  
वैश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षात्रधर्मं न चारयेत् ॥ ३८ ॥  
तस्यां तस्यैव चौर्येण मणिकारः प्रजायते ।  
मणीनां राजतः कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम् ॥ ३९ ॥  
प्रवालानां च सूत्रित्वं शाखानां वलयक्रियाम् ।  
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्जात उग्र इति स्मृतः ॥ ४० ॥  
नृपस्य दण्डधारः स्वादण्डं दण्डयेषु संचरेत् ।

क्षत्रियसे विधिपूर्वक विवाही हुई वैश्यकी कन्याके पुत्र वैश्यकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करें, परन्तु वे क्षत्रियके धर्मपर न चलें ॥ ३८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीनाकारा ) होते हैं वे मणियोंको रंगते है, मोतियोंको छेदते हैं, मूँगोंकी माला और कहे बनाते हैं, ब्राह्मणसे शूद्रमें उत्पन्न पुत्र उग्रजाति कहाते हैं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ वे लोग राजाका दंड धारण करते हैं और दंडके योग्य मनुष्योंको दंड देते हैं ।

तस्यैव चौर्यसंवृत्त्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥  
जातदुष्टान्समारोप्य शुंडकर्मणि योजयेत् ॥  
शूद्रायां वैश्यसंसर्गाद्विधिना सूचिकः स्मृतः ॥ ४२ ॥

चोरीसे ब्राह्मणद्वारा शूद्रामें उत्पन्न पुत्र शुण्डिक कहलाते हैं, राजाको चाहिये कि इनको जन्महीसे दुष्टोंका अधिपति बनाकर शुण्डाकर्म ( शूलीदेना ) में नियुक्त करे । वैश्यकी विवाही हुई शूद्रामें उत्पन्न हुआ पुत्र सूचिक ( दर्जा ) कहलाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

सूचिकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥  
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥  
नृपायामेव तस्यैव जातो यो मत्स्यबंधकः ॥  
शूद्रायां वैश्यतश्चौर्यात् कटकार इति स्मृतः ॥ ४४ ॥

सूचिकसे ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको तक्षक ( बढई ) जाति कहते हैं, लोग कारीगरीका काम और मकान बनाते हैं ॥ ४३ ॥ सूचिकसे क्षत्रियमें उत्पन्न पुत्र मत्स्यबंधक और चोरीसे वैश्यद्वारा शूद्रामें उत्पन्न हुए पुत्र कटकार कहलाते हैं ॥ ४४ ॥

सं.	जाति	पिता	माता	जाविका	स्मृति
१	ब्राह्मण	ब्रह्माके	मुखसं	० यज्ञ करना वेद पढ़ना और दान लेना	मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, वसिष्ठ, मनु, याज्ञव. अत्रि, हारीत, शंख, गौतम और वसिष्ठस्मृति
२	क्षत्रिय	ब्रह्माके	बाहुसे	० अस्र शस्त्र धारण और प्राणियोंकी रक्षाकरना	मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत और वसिष्ठ । मनु, अत्रि इत्यादि ।
३	वैश्य	ब्रह्माकी	जंघासे	० खेती, पशुपालन, वाणिज्य और व्याज	मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत और वसिष्ठ । मनु, याज्ञवल्क्य, गौतम और वसिष्ठ ।
४	शूद्र	ब्रह्माके	चरणस	० द्विजातियोंकी सेवा, अभावमें शिल्प कर्म	मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत और वसिष्ठ । मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि इत्यादि ।
५	अंबष्ठ	ब्राह्मण	वैश्य क० वैश्या *विवाही कन्या	चिकित्सा खेती, लकड़ी, लेना और शस्त्र	मनुस्मृति वसिष्ठ, बौधायन, याज्ञवल्क्य । औशनस ।
६	निपाद वा पारशव	ब्राह्मण	शूद्रा क. शूद्रा पारशवी विवाही शूद्रा	मलली मारना ० वनेले मृगोंको वध करना शिवान्दि आगमविद्या और मण्डल व्रत्ति ।	मनुस्मृति । याज्ञवल्क्य, गौतम, बौधायन । औशनस, स्मृति । ”
७	उग्र	क्षत्रिय	शूद्र क० विवा. शू शूद्रा ”	विलवासीजीव.हिंसा ० ० चोबदार	मनुस्मृति । याज्ञवल्क्य । वसिष्ठ और बौधायन । औशनस ।
८	सूत	क्षत्रिय	ब्राह्म. क. ब्राह्मणी विवा. ब्रा	रथ हांकना ० ०	मनु और बृहद्विष्णु । याज्ञवल्क्य, गौतम, वसिष्ठ और बौधायन । औशनस ।
९	मागध	वैश्य	क्षत्रिया ” शूद्र वैश्य शूद्र	वाणिज्य ० प्रशंसा करना ० प्रशंसा और वैश्य सेवा	मनुस्मृति । याज्ञवल्क्य । बृहद्विष्णु । गौतम, औशनस । बौधायन ।

\*जहां विवाहिता शब्द है वहां विवाही हुई जहां विवाही है वहां व्यभिचारसे उ. हैं.

सं.	जाति:	पिता	माता	जीविका	स्मृति
१०	वैदेह	वैश्य	ब्राह्मणी	अन्तःपुर रक्षा करना	मनु बृहद्दिणुस्मृति याज्ञवल्क्य बौधायन गौतम श्रीशानस
		"	"	०	
		शूद्र	वैश्य	०	
		"	"	बकरी भैम और गौ	
		"	"	पालन करना	
११	आयोगव	शूद्र	वैश्या	काठ छीलना	मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति बृहद्दिणु बौधायन श्रीशानसस्मृति
		"	"	०	
		"	"	रङ्गवताण	
		वैश्य	क्षत्रिया	०	
		"	"	वस्त्र बुनना, कांस्य बधा	
१२	क्षत्र	शूद्र	क्षत्रिया	बिलमें रहनेवाले जी- वांका वध करना	मनुस्मृति
		"	"	०	
		"	"	०	याज्ञवल्क्य बौधायन
१३	चाण्डाल	शूद्र	ब्राह्मणी	मृदा उ. और शू देना	मनुस्मृति
		"	"	०	याज्ञवल्क्य, व्यास, गौतम वसिष्ठ, बौधायन
		"	"	वधयोग्यकोशुलीदेना	बृहद्दिणु
		"	"	मल उठाना	श्रीशानस
१४	आवृत	ब्राह्मण	उग्रकन्या	०	मनुस्मृति
१५	आभीर	ब्राह्मण	अम्बप्रकन्या	०	मनुस्मृति
१६	धिग्बण	ब्राह्मण	आयोगवक.	चमड़ेका काम	मनुस्मृति
१७	पुक्कस	निषाद	शूद्र	घिलके जीवांका वध व्याधका काम	मनुस्मृति बौधायन, बृहद्दिणु
				०	मनु, बौधायन
१८	कुक्कुटक	शूद्र	निषादी	०	
१९	श्वपाक	क्षत्र	उग्रा	मृदा फ. और शू. देना	मनुस्मृति
		उग्र	क्षत्रा स्त्री	०	बौधायन
२०	वेगा वेणुक वंसफोर	वदेह शूद्र सूत	अम्बप्रा क्षत्रिया ब्राह्मणी	गुद्दंग आदि बजाना	मनुस्मृति बौधायन वसिष्ठ श्रीशानस
२१	भूर्जकटक मृज्जकटक	जिसको धाकेंय वाटधान औरशौख कहते हैं	ब्राह्म्य ब्रा संवर्गा स्त्री	०	मनुस्मृति
		ब्राह्मण	वैश्या	०	गौतमस्मृति

सं.	जाति	पिता	माता	जीविका	स्मृति
२३	डाह मल्ल निकाउवि नट करण खस और द्रविड	ब्राह्म क्षत्रिय	सवर्णा स्त्री	० ०	मनुस्मृति
२४	सुधन्वा आचार्य कारुष विजन्मा मैत्र और सात्वक	ब्राह्म वैश्य	सवर्णा स्त्री	० ०	मनुस्मृति "
२४	सौरन्ध्र	डाकू	आयोगवी	गृहा. वध और से. वृ.	मनुस्मृति
२५	मैत्रेय	वैदेह	आयोगवी	प्रातःकालके समय राजाकी प्रसेसा करना	मनुस्मृति
२६	भार्गव दासकैवर्त	निषाद	आयोगवी	नाव चलाना	मनुस्मृति
२७	काराधार	निषाद	वैदेही	चमड़ेका काम	मनुस्मृति
२८	पाण्डुसपाक	चाण्डाल	वैदेही	वासका काम	मनुस्मृति
२९	श्राद्धिक	निषाद	वैदेही	०	मनुस्मृति
३०	सापाक	चाण्डाल	पुष्कती	जल्लादका काम	मनुस्मृति
३१	अन्त्याव- सायी	चाण्डाल शूद्र	निषादी वैश्या	श्मशानका काम ०	मनुस्मृति
३२	मेद	वैदेह	निषादी	बनले पशुओंका वध	मनुस्मृति
३३	अन्ध	वैदेह	कारावरो	"	मनुस्मृति
३४	जुन्जु	०	०	"	मनुस्मृति
३५	मृद्गु	०	०	"	मनुस्मृति
३६	सूधनिसि.	ब्राह्मण	क्षत्रिया	०	याज्ञवल्क्य, गौतम
३७	माहिष्य	क्षत्रिय	वैश्या	०	याज्ञवल्क्य और गौतम
३८	करण	वैश्य	शूद्रा	०	"
३९	रथकार	माहिष्य	करणजा. स्त्री	०	याज्ञवल्क्य
		वैश्य	शूद्रा	०	बोधायन
		क्षत्रिय	क्षत्रियकीवि. ब्या. ब्रा. स्त्री	मी	श्रीशंस
४३	दास	ब्राह्मण	शूद्रकन्या	०	पाराशर
४१	नाई	ब्राह्मण	शूद्रकन्या	०	पाराशर
			विनाव्याही	केश काटना	श्रीशंस
४२	ग्वाल	क्षत्रिय	शूद्रकन्या	०	पाराशर
४३	धार्दिक	ब्राह्मण	वैश्यकन्या	०	पाराशर



सं.	जाति		पिता	माता	जीविका	स्मृति
४४	धावर		वैश्य	क्षत्रिया	०	गौतमस्मृति
४५	यवन		क्षत्रिय	शूद्रा	०	गौतम
४६	रोमक		वैश्य	ब्राह्मणी	०	वसिष्ठ
४७	पुल्कस		"	क्षत्रिया	०	वसिष्ठ
			शूद्र	"	सुराका व्यापार	गौतम, श्रीशतम
४८	चर्मकार		सूत	"	०	श्रीशतम
४९	श्वपच		चाण्डाल	वैश्य कन्या	कुला पालना और उग्रकासा	गौतम
५०	ताम्रोप	जीवी	आयोगव	ब्राह्मणी	०	"
५१	सूनिक		"	क्षत्रियकन्या	०	"
५२	साम्बिक		सूनिक	क्षत्रिया	०	"
५३	प्रतिन्द		वैश्य	वि. व्या. क्ष.	बस्त्र धोना	"
५४	रजक		पुल्कस	वैश्यकन्या	०	बृहत्पाराशर
५५	रजक		शूद्र	वि. व्या. क्ष.	पशु मांस बचन	श्रीशतम
५६	रजक व.		रजक	वैश्या	०	"
५७	गायक		रजक	वैश्या	०	"
५८	चर्मोप	जीवी	वेदेहिक	ब्राह्मणी	०	"
५९	मूचिक		"	क्षत्रिया	०	"
	और पाचक					"
५९	चक्रा	तेली	शूद्र	वि. व्या. वै.	सल सन्धी और लवण बचन	"
६०	सुवर्ण		ब्राह्मण	वि. क्षत्रिया	सवार सेनापाल तथा जीर्ण	गौतम
६१	भिवक		"	वि. व्या. क्ष.	वेद्यक और ज्योतिष	"
६२	नृप		"	वि. क्ष.	०	"
६३	ग्रह	गोत्र	नृप	क्षत्रिया	क्षत्रिय धर्मी	"
६४	गोत्रकार	कुम्हार	ब्राह्मण	वि. व्या. वै.	भिद्रीक चर्तन बनाना	"
६५	मणिकार		क्षत्रिय	"	सन्धी और मणिनीका काम	कश्यप
६६	शुशुडक		ब्राह्मण	विना. शूद्रा	शूली देना	"
६७	सूचक		वैश्य	"	०	"
६८	तक्षक	बढई	सूचक	ब्राह्मण क.	शिल्पकर्म, शूद्र निर्माण	"
६९	साम्यक		"	क्षत्रिय	०	"
७०	कटकार		वैश्य	वि. शूद्रा	०	"
७१	शबर		"	०	०	बृहत्पाराशरीय धर्म

अब अन्य ग्रन्थोंसे अम्बष्ठादिकी जाति और जीविका लिखते हैं । उनमें पहले बारह मिश्रजातियोंकी उत्पत्ति कहते हैं ।

उक्तश्च जातिविवेके मूर्द्धावसिक्तः १ ।

क्षत्रियाविप्रसयोगाज्जातो मूर्द्धावसिक्तकः ।

स करोति मनुष्याणां चिकित्सां क्षत्रियोधिकः ॥ १ ॥

लघुशनसा वृत्तिश्चोक्ता—

अथ वर्णक्रियां कुर्वन्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ।

अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वै नृपाज्ञया ॥

सैनापत्यं भेषजं च कुर्याज्जीवनवृत्तिषु ॥ २ ॥

आयुर्वेदमथाष्टांगं तत्रोक्तं धर्मतश्चरेत् ।

ज्योतिषं गणितं वापि कायिकीवृत्तिमाचरेत् ॥ ३ ॥

( स्कान्दे )

भाषार्थः—जातिविवेकमें लिखा है क्षत्रियमें ब्राह्मणसे मूर्द्धावसिक्त होता है, वह क्षत्रियसे अधिक गिना जाता है और चिकित्सा उसकी वृत्ति है ॥ १ ॥ लघुउशनामें उसकी जीविका लिखी है कि वह अपने वर्णोंकी क्रिया करता हुआ तथा नित्यनैमित्तिक कर्म करता हुआ अश्व रथ हाथियोंके चलानेका कार्य करै । जीवनके लिये सेनापतिका कार्य तथा चिकित्सा करै ॥ २ ॥ स्कन्दमें लिखा है आठों अङ्गों सहित आयुर्वेदको पढकर वैद्यकको धर्मानुसार करै, और ज्योतिष और गणित भी उसकी आजीविका है ॥ ३ ॥

अथांबष्ठः २ ।

वैश्यस्त्रीद्विजसम्भूतोऽम्बष्ठः स्यादनुलोमतः ।

अन्येभ्यो वैश्यजातिभ्यः षट्कर्मस्वधिकः स्मृतः ॥४॥

मणिमन्त्रौषधिप्राणिरक्षणं च प्रकीर्तितम् ॥

वरवाजिगजादीनां चिकित्सा तस्य जीविका ॥

कृष्याजीवी शस्त्रजीवी तथैवाग्र-प्रनर्तकः ॥५॥

( जातिविवेके )

नृपायां विप्रतश्चौर्यात्संजातो यो भिषक् स्मृतः ।

अभिषिक्तो नृपस्याज्ञां प्रतिपाल्य तु वैद्यकम् ॥६॥

( उशनाः )

ब्राह्मणसे वैश्यकी व्याही कन्यामें अम्बष्ठ होता है यह अनुशोमसे उत्पन्न है यह दूसरी वैश्य जातियोंसे छः कर्ममें अधिक है ॥ ४ ॥ मणि मन्त्र औषधियोंद्वारा प्राणियोंकी रक्षा कथा श्रेष्ठ वाजि हाथी आदिकी चिकित्सा करनी उसकी आजीविका है, कृषि, शस्त्र और नृत्यशिक्षण भी इसकी आजीविका है ॥ ५ ॥ उशना कहते हैं कि ब्राह्मणद्वारा चोरीसे क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हुआ भी एक प्रकारका अम्बष्ठ है, यह भी राजाकी आज्ञासे चिकित्सा आदि उपरोक्त कर्मोंको करै ॥ ६ ॥

(४२८)

जातिभास्करः—

अथ पारश्वनिपादः ।

ब्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां निषादः पारशवोऽपि वा ॥  
स भवेन्मत्स्यवाती च लोके राजाज्ञया सदा ॥७॥

लघुबृहदुशनसौ—

शूद्रायां विधिना विप्राज्जातः पारशव उच्यते ॥  
भद्रकालीं समाश्रित्य पूजनाजीवनं स्मृतम् ॥ ८ ॥  
अन्यच्च—द्विजातिशुश्रूषा धान्याध्यक्षता पारशवस्य च ॥  
तस्यां वै चौरसंगत्या निषादो जात उच्यते ॥ ९ ॥

ब्राह्मणोऽशूद्राज्जातः पारशवो माभूदिति निषादसंज्ञाकरणम् ।

अब तीसरे पारशव निपादको कहते हैं, ब्राह्मणसे शूद्रकी कन्यामें पारशव निपाद होता है, लोकमें राजाकी आज्ञासे उसका काम अच्छी मारना है ॥ ७ ॥ लघुबृहद् उशना स्मृतिमें भी यही लिखा है कि व्याही शूद्रामें ब्राह्मणके द्वारा निपाद पारशव होता है, भद्रकालीके आश्रित हो पूजनेसे निर्वाह करें ॥ ८ ॥ और जगह लिखा है कि पारशवका कर्म द्विजातिकी शुश्रूषा और धान्यकी अध्यक्षता है, उसी शूद्रामें और संगतिसे निपादकी उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणकी विवाही शूद्रामें उत्पन्न पारशव निषाद नहीं है इस कारण निषाद संज्ञाके निमित्त यह श्लोक है ॥ ९ ॥

माहिष्यः ४ ।

वैश्यायां क्षत्रियाज्जातो माहिष्यस्त्वनुलोमतः ॥  
अष्टाधिकारनिरतश्चतुःषष्ट्यंगकोविदः ॥ १० ॥  
व्रतबन्वादिकास्तस्य क्रियाः स्युः सकला विशाः ॥  
ज्योतिषं शाकुनं शास्त्रं स्वरशास्त्रं च जीविका ॥१२॥

वैश्या स्त्रीमें क्षत्रियद्वारा माहिष्य जाति उत्पन्न होती है, यह अष्टांगके अधिका री हैं और ६४ कलाओंको जाननेवाले होने चाहिये। इनकी व्रतबन्वादि क्रिया वैश्योंके समान न होनी चाहिये। ज्योतिषविद्या शकुनशास्त्र स्वरशास्त्र इनकी आजीविका है ॥ १२ ॥

उग्रः ( रावत, राउत, भापायाम् ) ९ ।

जातिविवेके—शूद्रीक्षत्रिययोरुग्रः क्रूरकर्मैति गीयते ।  
स शास्त्राभ्यासकुशली संग्रामकुशलो भवेत् ॥१३॥

तया वृत्त्या स जीवन्सन् शूद्रधर्मांश्च पालयेत् ॥  
द्विजातीनां पालनार्थी यतीनां चोय उच्यते ॥ १४ ॥

क्षत्रियसे शूद्रकीकन्यामें क्रूर आचार विहारवाला क्षत्र और शूद्रसे मिश्रित उग्र जातिका पुरुष होता है, यह शास्त्र और संग्रामके काममें कुशल होता है ॥ १३ ॥ इसी वृत्तिसे आजीविका करता हुआ यह शूद्रधर्मांको पालन करै, द्विजाति और यतियोंकी सेवा इसका धर्म है, उग्रको राउत भी कहते हैं ॥ १४ ॥ ( रजपूत इति ख्यातो युद्धकर्मविशारदः ) यह रजपूत नामसे भी विख्यात है ।

वैतालिकः-करण चारण ( नट्वा ) ६ ।

वैश्यवीर्येण शूद्रायां जातो वैतालिकाभिधः ॥  
करणोऽसौ च विज्ञेयो न्यूनो वै शूद्रधर्मतः ॥ १५ ॥  
राज्ञां च ब्राह्मणानां च गुणवर्णनतत्परः ॥  
संगीतकामशास्त्रश्च स्वरशास्त्रश्च जीविका ॥ १६ ॥

वैश्यके वीर्यसे शूद्रमें वैतालिक होता है इसीको करण भी कहते हैं, यह शूद्रधर्मसे न्यून है ॥ १५ ॥ इनकी जीविका राजा और ब्राह्मणोंके गुणवर्णनकी है, संगीतशास्त्र, कामशास्त्र और स्वरशास्त्र इनकी आजीविका है, इसीके देशभेदसे मनुमें कहे झल, मल्ल, निच्छिवि, नट आदि नाम हैं ॥ १६ ॥ इस प्रकार यह छः अनुलोम कहे, अब छः प्रतिलोम कहते हैं ।

आयोगवः ( पाथरवट इनारा चूनारा ) ७ ।

वैश्यस्त्रीशूद्रसयोगाज्जातोऽयोगवसंज्ञकः ॥  
स शूद्राद्धीयते धर्मे पाषाणेषुककर्मकृत् ॥ १७ ॥  
स कुर्यात्कुट्टिमां भूमिं चूर्णेनैवास्य जीवनम् ॥  
ग्रन्थान्तरे-सोऽपि सिन्दूलकश्चैव मंजिष्ठारंगकारकः ।  
त्वेन रंगेण वासांसि सदा चित्राणि रंजयेत् ॥  
चतुर्वर्णविहीनोऽसौ चान्त्यजः परिकीर्तितः ॥ १९ ॥

वैश्यकी स्त्रीमें शूद्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह धर्ममें शूद्रसे न्यून है, वह पाषाण और ईंटोंका कर्म करनेवाला वा पत्थर तोडनेकी आजीविकावाला होता है कदाचित् यही ईन्टपज और चूनपज कहाते हैं ॥ १७ ॥ ग्रन्थांतरमें कहा है कि यही दूसरे स्थानोंपर सिंदूल कहाते हैं, यह मञ्जीठका रङ्ग निकालते और उससे कपडे रंगा करते हैं, यह चारों वर्णोंसे भिन्न अन्त्यजके समान हैं ॥ १९ ॥

क्षत्ता, पारधी, निपादः ८ ।

क्षत्रिणी शूद्रसंयोगात्क्षत्तारं जनयेत्सुतम् ।  
 स निपाद इति ख्यातः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ २० ॥  
 शूद्राचारविहीनश्च पापद्विनिरतः सदा ।  
 वागुरापाशपाणिः स मृगबन्धनकोविदः ॥ २१ ॥  
 अरण्यपशुजातीनां पक्षिणां चान्तगो वने ।  
 क्रोधान्वितो मधुमांसविक्रयाद्वृत्तिरीरिता ॥ २२ ॥

क्षत्रियोंमें शूद्रके संयोगसे क्षत्ताकी उत्पत्ति होती है उसको निपादभी कहते हैं, वह वर्णाश्रमके धर्मोंसे बाहर है ॥ २० ॥ शूद्रोंके आचरणमें भी विहीन सदा पापकर्मोंमें रत रहनेवाला जाल और पाश हाथ लिये मृगोंको बंध और बन्धन करनेवाला ॥ २१ ॥ तथा वनके पशु पक्षियोंका नाशक क्रोधस्वभाव और मधुमांस बेचकर आर्जवितन करनेवाला होता है ॥ २२ ॥

चांडालः ९ ।

ब्राह्मण्यां शूद्रत्रीर्येण जातश्चाण्डाल उच्यते ।  
 अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपाश्च गर्दभाः ॥ २३ ॥

ब्राह्मणोंमें शूद्रके समागमसे उत्पन्न हुआ पुत्र चांडाल कहलाना है, यह अपपात्र हैं इनको कोई पात्र न छुडावै और गर्धोंसे मल दोंवें, इनका स्पर्श करना निसिद्ध है ( सर्वेपामेव स्पर्शश्च सचैलं स्नानमाचरेत् ) इनके स्पर्शसे सधन्य स्नान करना चाहिये पीछे ५१-५७ श्लोकतक मनुद्वारा इनकी वृत्ति लिख चुके हैं ॥ २३ ॥

मागध १० ।

जातिविवेके-क्षत्रिणी मागध वैश्याज्जनयामास वै सुतम् ।  
 स बन्दीजन इत्युक्तो व्रतबंधादिवर्जितः ॥  
 न्यूनता शूद्रधर्मैभ्यस्तस्य जीवनमुच्यते ॥ २४ ॥

वैश्यसे व्याही मागधको उत्पन्न करती है इसीको बन्दीजन कहते हैं इनके व्रतबंधादि नहीं होते शूद्र धर्मोंसे भी इसमें न्यूनता है ।

कथालंकारगद्यादिषड्भाषासु कलाक्रमः ॥  
 गद्यपद्यानि चित्राणि विरुदानि महीभुजाम् ॥ २५ ॥

यह कथा अलंकार गद्य पद्य कलाओंमें कुशल चित्र काव्य रचनेमें कुशल राजाओंके यहाँ स्तुति करनेकी जीविका करते हैं ॥ २५ ॥

वैदेहिकः ११ ।

ब्राह्मण्यां जायते वैश्याद्योऽसौ वैदेहिकाभिधः ॥

युद्धान्ते रक्षणं राज्ञां कुर्यादनुपमं हि सः ॥ २६ ॥

सामान्यवनितापोष्यस्तासां भाठी च जीविका ॥

तस्योक्तसर्वधर्माणां नाधिकारोऽस्ति कस्यचित् ॥ २७ ॥

पण्यांगनानां राज्ञाञ्च कुर्यात्संगं तदिच्छया ॥

स एव तासां प्राणेशो नान्यः कान्तोऽपि तत्पतिः ॥

चतुःषष्टिकलाकामशास्त्रं तदनुजीवनम् ॥ २८ ॥

ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्न हुआ वैदेहिक होता है, युद्धान्तमें राजाकी रक्षा करना उसका कार्य है, सामान्य स्त्रियोंका पोषण और उनकी आयसे आजीवन ही कर्तव्य है, इसका भी किसी धर्मविशेषमें अधिकार नहीं है, पण्यस्त्री तथा राजाओंके समीप स्थिति उनकी इच्छासे कर सकते हैं, उन पण्यस्त्रियोंके यही पति होते हैं यही प्राणेश होते हैं, चौंसठ कला तथा कामशास्त्रसे इनका आजीवन होता है, यह ग्यारहवां वैदेहक है ॥ २६-२८ ॥

सूतः १२ ।

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो प्रातिलोम्येन जायते ॥

गजबन्धनमश्वानां वाहनं कर्म सारथेः ॥ २९ ॥

वैश्यधर्मेषु सूतस्य नाधिकारः क्वचिद्भवेत् ॥

जातिवि०-क्षत्रियाणामसौ धर्मं कर्तुमर्हत्यशेषतः ॥

किञ्चिच्च क्षत्रजातिभ्यो न्यूनता तस्य जायते ॥ ३० ॥

ब्राह्मणीमें क्षत्रियद्वारा प्रतिलोमतासे सूतजाति उत्पन्न होती है । गजबन्धन, अश्वोंका वाहन और सारथ्य इसकी आजीविका है, वैश्यधर्ममें इसका कुछ भी अधिकार नहीं है । जाति विवेकमें लिखा है यह सब क्षत्रियोंके धर्म कर सकता है, परन्तु क्षत्रिय जातिसे यह कुछ न्यून है, यह बारहवां है ॥ २९ ॥ ३० ॥

मूर्धावसिक्तोऽम्बष्ठश्च निषादो ब्रह्मतः क्रमात् ॥

माहिष्योग्रौ क्षत्रियतोऽनुलोमः करणो विशः ॥ ३१ ॥

आयोगवश्च क्षत्ता च चाण्डालः शूद्रसंभवः ॥

विशो मागधवैदेहौ नृपात्सूतो विलोमजः ॥ ३२ ॥

मूर्धावसिक्त अंघ्रि और निपाद क्रयद मसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिय वैश्या और शूद्रा में होते हैं, माहिष्य और उग्र क्षत्रियसे वैश्या और शूद्रा में होते हैं और वैश्यासे शूद्रा में करण होता है, यह अनुलोम है, आयोगव क्षता और चांडाल यह शूद्रद्वारा क्रमसे वैश्या क्षत्रिया और ब्राह्मणी में उत्पन्न होते हैं, मागध और पैदेह वैश्यद्वारा क्षत्रिया और ब्राह्मणी में होते हैं और क्षत्रियसे ब्राह्मणी में सूत होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

अथाष्टादशसमूह (शालक्य मणिकार मीनाकार ) १३ ।

जातिविवेके-कायस्थजातेर्वणितां मालाकारोऽभिकामये ॥

तस्यां यस्तेन पुत्रः स्यात्स शालक्य इति स्मृतः ॥

कान्ताशयेषु रचयेद्भ्रजदन्तककाविकः ॥ ३३ ॥

स हीनः शूद्रधर्मेभ्यो मणीन्विरचयेत्सदा ॥

स्फटिकान्दारवादींश्च कुर्वतिद्रव्यजीविकाः ॥ ३४ ॥

कायस्थ जातिकीर्त्तिका यदि माली कामना करे तो उसका जो पुत्र हो वह शालक्य कहाता है, यह चोरीसे उत्पन्न पुत्र है, यह क्षत्रियोंके शयनस्थानमें हाथीदांतकी वस्तु बना-नेका व्यापार करनेवाला होता है, यह शूद्रधर्मे हीन विद्यौर तथा लफडाके काम करनेकी आजीविकावाला होता है, लवूशनाने वैश्य कन्यामें क्षत्रियद्वारा चोरीसे उत्पन्न पुत्रको मणि-कार लिखा है, वह मीनाकार कहाता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

कांसारः ( कसेरा ) १४ ।

पद्मपुराणे कालिकामाहात्म्ये—

सोमवंशो महाराजः कृतवीर्यात्मजोऽर्जुनः ।

तस्यान्वये समुत्पन्ना वीरसेनादयो नृपाः ॥ ३५ ॥

तेषामप्यन्वये शूराः कांस्यवृत्त्युपजीविनः ॥

कांसारा इति विख्याताः कालिकायजने रताः ॥ ३६ ॥

अपरश्चैव कासारो गोपीनाथेन दर्शितः ।

वैश्यस्त्रीद्विजसम्भूता कन्यकाम्बष्ठकाभिधा ॥ ३७ ॥

सा त्वम्बष्ठाद्विजाश्लिष्टा जनयेत्तनयं रहः ॥

स कासार इति ख्यातो सततं कालिकां यजेत् ॥ ३८ ॥

कांस्यपात्राणि चित्राणि रचयेज्जीवनाय च ॥

शूद्रधर्मेण सर्वत्र स्थितिरस्य विधियते ॥ ३९ ॥

कांसारो द्विविधः प्रोक्तो राजजन्मा तथेतरः ।

तत्राद्यो राजसंस्कार्यो अन्त्ये पंच प्रकीर्तिताः ॥ ४० ॥

( इति कासारः )

चन्द्रवंशमें कार्तवीर्यार्जुन नामवाला एक राजा हुआ है उसके वंशमें वीरसेनादिक राजा हुए हैं, उसके वंशके कुछ क्षत्रिय कांसीकी वृत्तिसे आजीविका करते हैं, वे कसेरे कहाते और कालिकाके पूजनमें तत्पर रहते हैं, गोपीनाथने और एक कसेरेका वर्णन किया है कि वैश्यकी स्त्रीमें ब्राह्मणसे जो अम्बष्ठ नामक कन्या उत्पन्न हुई वह अम्बष्ठा द्विजातिसे छिपकर जिस सन्तानको उत्पन्न करै वह कसेरा होता है, वह निरन्तर कालिकाका पूजन किया करै और आजीविकाके लिये भिन्न २ प्रकारके कांसीके वर्तन बनावै, इसकी स्थिति शूद्रधर्मके समान है । यह दो प्रकारके होते हैं, एक क्षत्रियजन्मा एक संकर इनमें पहलेके सब क्षत्रियसंस्कार और इतरके पांच संस्कार होते हैं ॥ ३५-४० ॥

कीनाटः १५ ।

शूद्राक्षत्रिययोर्जातः पारशवार्यश्च यो नरः ॥

सा स्तूने क्षत्रियात्पुत्रं विद्रांसं ताम्रकुट्टनम् ॥

संभर्ण इह कांसारैः कुर्यात्स तु विशेषतः ॥ ४१ ॥

घट्टनं ताम्रपात्राणां तत्पर्यावर्तजीवनः ॥

शास्त्रे कीनाट इत्युक्तो लोके तांबटसंज्ञकः ॥ ४२ ॥

शूद्रामें क्षत्रियसे उत्पन्न पारशव होता है, पारशव जातिकी स्त्रीमें क्षत्रियसे ताम्रकुट्टन नाम पुत्र होता है, इसकी संगति कसोरोंके साथ होती है, तांबा कूटना और उसके पात्र बनान इनका काम है इनका नाम तांबट कहा जाता है शास्त्रमें यह कीनाट कहाते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

आवृत्तः ( कुम्भार ) १६ ।

शूद्राक्षत्रिययोर्जाता वनितोग्राभिधानिका ॥

ब्राह्मणाज्जनयेत्पुत्रमावृत्तं कुंभकारकम् ॥

स शूद्राद्दीयते धर्मे घटयेन्मृण्मयान् घटान् ॥ ४३ ॥

शूद्रामें क्षत्रियसे उग्रा नामकी स्त्री यदि ब्राह्मणसे पुत्र उत्पन्न करै तो वह आवृत्त व कुंभार नाम पुत्रको उत्पन्न करती है वह धर्ममें शूद्रसे कुछ कम है और मट्टीके घडे बनान उसका काम है ॥ ४३ ॥

पारशवः १७ ।

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ॥



जनयेद्ग्राम्यधर्मेण यं तस्यां पार्शवं सुतम् ॥

स शूद्र इति विख्यातस्तद्धर्मेण च वर्तनम् ॥ ४४ ॥

शूद्राको शयनमें आरोपण करके ब्राह्मण अव्योपगिको भाव होता है और उससे जो पारशव नामक पुत्र उत्पन्न होता है वह एक प्रकारका शूद्र है और उसी धर्मसे उसको वर्तना चाहिये ॥ ४४ ॥

स्वर्णकारस्य तस्यैव स्नानं शौचं पवित्रकम् ॥

शौचं शूद्रस्य धर्मेण वर्तनं तस्य च स्तुतम् ॥

( जा० वि० )

उस स्वर्णकार पारशवका स्नान करना ही शौच और पवित्रक है शूद्रके समान शौच और उसी धर्मसे वर्तना उसका कार्य है ।

उल्मुक ( लोहकार ) १८ ।

यो मागधीक्षत्रिययोर्जात उल्मुकसंज्ञकः ॥

स लोहकर्मणा जनिर्दूषणो हीन एव सः ॥ ४५ ॥

मागधी स्त्री क्षत्रियके संगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करनी है वह लोहेके कर्मसे आजीवन करै, यह भी वर्णसे हीन है यह लोहकार अटारहवां है ॥ ४५ ॥

रथकार ( लकड़ ) १९ ।

माहिष्येण करणान्तु रथकारः प्रजायते ॥

नैत्रोपनयनं तस्य शूद्रधर्माद्रहिः क्वचित् ॥

वर्तनं शूद्रवृत्त्या च लोके शिल्पस्य शान्नायित् ॥ ४६ ॥

( जाति० वि० )

माहिष्यद्वारा करणीमें रथकार होता है उसके यज्ञोपवीत नहीं होता, यह शूद्रधर्मसे भी कहीं बाहर माना जाता है, शूद्रवृत्तिसे वर्तना और शिल्पशास्त्रद्वारा आजीवन करना इसकी वृत्ति है पीछे रथकार मीमांसा लिख चुके हैं ॥ ४६ ॥

सिंदोलः २० ।

वंदिनीशूद्रसंयोगाज्जातः सिन्दोलकाभिवः ॥

वर्णतो हीन एव स्यान्मंजिष्ठारंगकारकः ॥ ४७ ॥

तेन रंगेण वासांसि चित्राणि रचयेत्सदा ॥

हस्तलेख्यैः प्राकृतिकं द्विधा तच्चित्रसाधनम् ॥ ४८ ॥

( स एव सूचिकः ख्यातः कर्तरीसूचिकार्जकः )

बंदिनीमें शूद्रके संयोगसे सिन्दोल नाम पुत्र होता है, यह भी वर्णधर्मसे हीन है, मजीठ का रंग निकालकर उस रंगसे अनेक प्रकारके वस्त्र रंगता है, हाथसे लिखकर तथा प्राकृतः चित्रों द्वारा इसका आजीवन है यही रंगसाज है कहीं छीपी कहाता है ॥ ४८ ॥

सौषिर २१ ।

आभीरीकुक्कुटाभ्यां यो जातः सौषिर संज्ञकः ॥

स कुर्याच्च शरीराणां वसनान्यात्मवृत्तये ॥ ४९ ॥

आभीरी स्त्री और शूद्रसे निषादीमें उत्पन्न सौषिर जातिवाला उत्पन्न होता है यह २१ वां है, यह रेशमीने वस्त्र बनाकर जीविका करै ॥ ४९ ॥

नीली २२ ।

कुक्कुट्याभीरसंयोगान् नीलीकर्ता स कथ्यते ॥ ५० ॥

कुक्कुटीमें आभीरके संयोगसे नीलका करनेवाला उत्पन्न होता है यह नीली २२ वां है ॥ ५० ॥

किंशुक २३ ।

जातो निपादवीर्येण धिग्वण्यां किंशुकाभिः

वनान्तरे वसेत्त्र वंशच्छेदनतत्परः ॥ ५१ ॥

तैलपात्राणि कुर्वीत वंशपर्वमयान्यपि ॥

वंशविक्रयतो लब्धं तद्द्रव्यं जीवनं स्मृतम् ॥ ५२ ॥

ब्राह्मणसे आयोगवकी कन्यामें धिग्वणी होती है उसमें निषादसे न्न किंशुक होता है, वह वनोंमें बांस काटनेका काम करे, और बांसोंकी नलकीके तैलपात्र बनावै, और बांस बेचै यह उनकी आजीविका है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

सांखिल्य, शौष्किक, वावराः २४ ।

मार्गानापितयोर्जातो योऽसौ सांखिल्यसंज्ञकः ॥

हीनः स गुह्यकेशानां कुर्याद्वपनमंजसा ॥ ५३ ॥

जलौकांस्तु विशृंगाणि शराकष्टे प्रयोजयेत् ॥

वातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रमम् ॥ ५४ ॥

तनुरोमाणि च रहः सर्वाण्येव तु वापयेत् ॥

मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ५५ ॥

मार्गा स्त्रीमें नापितसे उत्पन्न सांखिल्य होता है, यह निरन्तर गुह्यस्थानोंके केशोंको वपन करनेवाली जाति है । वात, पित्त और कफादिके विकारोंमें जोंक और सींगी रूगाना इनका

काम है, तथा शरीरके अन्य स्थानोंके रोम भी वपन करते हैं, यह मंगलाचारमें युक्त और अस्त्रेन्द्रिय रहै, यह आर्द्धसिंगी भी कहाते हैं ( मार्दलिककी लीका नाम मार्गा है ) ॥५३-५५

पांशुलः २५ ।

निषादनारीसयोगात्पांशुलो नाम जायते ॥

स पौष्टिकेतिसंज्ञो हि शणसूत्रविधायकः ॥

कर्ता च गोणिपट्टानां जीविका तस्य तद्धनम् ॥ ५६ ॥

निषादकी स्त्रीमें नापितसे पांशुल नाम पुत्र होता है, यह पौष्टिक भी कहाता है और सनके काम करनेवाला सनकी बोरी और टाट बनाकर आजीविका करनेवाला होता है ॥ ५६ ॥ ( यह २५ वां है । भमाटाभी इसको कहते हैं । पौष्टिक कहीं दोक्यावाहक भी कहा जाता है । )

सन्दोलः २६ ।

विप्रस्वीकृतसंन्यासमारूढः पतितो भवेत् ॥

ब्राह्मणीं कामयेद्रंडां यस्तस्यां जनयेत्सुतम् ॥ ५७ ॥

सन्दोलः कर्मचाण्डालस्तत्स्पर्शात्पातकम्महत् ॥

महापर्वतदुर्गेषु वीथीचतुष्पदादिषु ॥ ५८ ॥

हर्म्याणि पुरमार्गं च रम्यं देवालयं तथा ॥

वापीकूपतडागानां प्रवाहानां च सर्वशः ॥

खननं जीवनार्थाय तस्य प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ ५९ ॥

कोई ब्राह्मण संन्यासी होकर पीछे पतित होकर विधवा घरमें डालकर उससे जो पुत्र उत्पन्न करै उसका नाम भी सन्दोल है, यह कर्मचाण्डाल है, इसके स्पर्शसे बड़ा पातक लगता है, यह महापर्वत दुर्गमस्थान गली चौराहे महल पुर मार्ग देवाल्योंके अगाडीके बहिर्भागमें बुहारी दें, सफाई करै, तथा बावडी, कुएँ, तालाब, जलके प्रवाहोंमें खुदाईका काम करै यह इनकी आजीविका है ॥ ५७-५९ ॥ यह कर्मचाण्डाल चूहरा २६ वां है )

रोमकः २७ ।

आवर्तनार्या सूताद्वै संजातो रोमसंज्ञकः ॥

स क्षारोदकमानीय बद्ध्वा केदारखण्डके ॥

तज्जातं लवणं तस्य जीवनं लवणविक्रयः ॥ ६० ॥

आवर्त जातिकी स्त्रीमें सूतसे उत्पन्न पुंशु रोमक होता है, यह खारी पानी लेकर क्यारि-

योंमें भरकर उसका नमक बनावै, और उनसे उत्पन्न हुए नमकको बेचकर अपनी आजीविका करै ॥ ६० ॥ ( इसको लोकमें लोणार कहते हैं यह २७ वां है ) ॥

बंधुलः २८ ।

जातो मैत्रेयशुक्रेण जांधिकायां तु यः सुतः ॥

असौ बंधुलसंज्ञो वाऽधमः सर्वासु जातिषु ॥

सुवर्णकारविषणे धूल्यां हेमं स पश्यति ॥ ६१ ॥

मैत्रेयके बीजसे जांधिल नामकी स्त्रीमें जो पुत्र उत्पन्न होता है यह बन्धुल कहाता है, सब जातियोंमें अधम है यह मुनारोंकी दुकानोंमें बुहारी देकर धूरिमें सोनेके किणके दूदा करते हैं यही इनकी वृत्ति है ( लोकमें इनको झारा कहते हैं ) ॥ ६१ ॥

कुक्कुट क्रोधिक, टांकमाली २९ ।

निषादकन्यकाशूद्रसंयोगाज्जनयेत्सुतम् ॥

कुक्कुटः क्रोधकश्चैव इति प्रोक्तो द्विसंज्ञकः ॥ ६२ ॥

टंकशालासु सर्वत्र नाणकानां विधायकः ॥

जीवनायाष्टधातूनामन्त्यजैः समतां व्रजेत् ॥ ६३ ॥

निषादकन्या शूद्रके संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह कुक्कुट तथा क्रोधिक नामवाला है, वह टंकशालामें सिके बनानेका काम करता है, अष्ट धातुओंके व्यापारसे अपना आजीविन करै । सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बंग ( रांग ) कांसी तीक्ष्णक ( लोहभेद ) मुंडांत लोह यह आठ धातु हैं, मंडूर लोह और किट्टक यह तीन उपलोह कहाते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

ठडार ३० ।

मेदवंशस्य वनिता हस्तकेन यदा रहः ॥

पुत्रं टडारं सा सूते नीचः सुर्वासु जातिषु ॥ ६४ ॥

त्रपुलाक्षाताम्रकांस्यैः कुर्यात्पाणिविभूषणम् ॥

तस्यविक्रयतो लब्धं तदेव जीवनं स्मृतम् ॥ ६५ ॥

मेदवंशकी स्त्री यदि छिपकर हस्तके साथ समागम करै तो उसका नाम ठडार होता है, यह सब जातियोंसे निरुद्ध होता है, सीसा, लाख, तांबा, कांसीके गहनोंका बनाना इसका काम है, और उनके बेचनेसे जो धन मिले यही उसकी आजीविका है ( यह ठडार वीतार तीसवां है ) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

तारं सुवर्णं ताम्रं वा गोवंगं कांस्यतीक्ष्णकम् ॥

मुण्डोत्तमष्टकं लोहं कांस्यकं पचयेदिति ॥ ६६ ॥

सोना, चांदी, सीसा, तांबा, रांगा, इस्पात, मुण्डलोह, साधारण लोह और कांसी, इनके मलानेकी भी इस जातिकी आजीविका है ॥ ६६ ॥

मांग ३१ ।

मेदस्य वनितासंगाच्चांडालो जनयेत्सुतम् ॥

स मांगः श्वपचो लोके अस्पृश्यः सीसकारकः ॥

जीविका तस्य कथिता आर्द्रगोचर्मरज्जुभिः ॥ ६७ ॥

मेदकी स्त्री कोलिनी उससे जो चाण्डालका समागम हो तो उससे मांग जातिका श्वपच उत्पन्न होता है, यह भी स्पर्शके योग्य नहीं है, गाले गौआदिके चर्मकी रस्सी बनाकर वृत्ति करना जीविका है ॥ ६७ ॥ यह इकतीसवां है ।

इति अष्टादशसमूहः ।

अथ सप्तसमूहः ( मालाकारः )

जातिविवेके-वैश्याक्षत्रिययोजातो माहिष्य इति कीर्त्यते ॥

स माहिष्यो निषादस्त्रीसंगमाजनयेत्सुतम् ॥ ६९ ॥

मालाकारमसौ लोके मालाकारः प्रकीर्तितः ॥

कुसुमानि च शाकानि वर्द्धयेद्धनवृद्धये ॥ ७० ॥

स हीनः शूद्रधर्मैभ्यः समूहे सतके प्रभुः ॥ ७१ ॥

जातिविवेकमें लिखा है कि वैश्यकी स्त्रीमें क्षत्रियसे माहिष्यकी उत्पत्ति होती है वह माहिष्य निषादकी स्त्रीका संग करके जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, उसको लोकमें मालाकार वा माली कहते हैं, फूलवाडी और शाक बागोंमें लगाकर हारादि गूथकर बेचना उसकी वृत्ति है यह शूद्र धर्मसे हीन सप्तसमूहमें प्रथम वा उत्तम वा अग्रज है ॥ ६९-७१ ॥

शांवरिक, साली ३३ ।

संगता वेनवनिता वर्त्तकेन यदा रहः ।

तस्याः शांवरिकाभिर्यः पुत्रोऽसौ लोकसम्मतः ॥

स हीनस्त्वन्तजातिभ्यःशुचिवासोविधायकः ॥ ७२ ॥

वेन अर्थात्-नटकी स्त्री छिपकर यदि आवर्तक ( गायक वैष्णव ब्राह्मण ) के साथ संग करके जिस पुत्रको उत्पन्न करे उसको शांवरिक कहते हैं, वह अन्त्य जातिसे हीन और शुद्ध बख्तोंका अर्थात्-बख्तोंके शुद्ध करनेके विधान करनेवाला होता है ( यह तेतीसवां है ) ॥७२॥

शालमल ३४ तंबोली ।

क्षत्रिणी कन्यका वैश्याज्जनयाभास वंदिनम् ॥  
 सा वन्दिनी द्विजात्सूते तनयं मंगुसंज्ञाकम् ॥ ७३ ॥  
 स मंगुः कुम्भकारस्य महिष्यां यदि कामयेत् ॥  
 तस्यां च जनयेत्पुत्रं स स्याच्छालमलाभिधः ॥ ७४ ॥  
 स हीनः शूद्रधर्मेभ्यः पर्णवल्लीविधायकः ॥  
 ताम्बूलवल्लीसम्भूतं द्रव्यं तस्योपजीवनम् ॥ ७५ ॥

क्षत्रियकी कन्या वैश्यसे वंदीनामा पुत्र उत्पन्न करती है वह वंदीकी स्त्री द्विजसे संग, करके मंगुनामक पुत्रको उत्पन्न करती है वह मंगु यदि कुंभारीकी कामना करके उससे पुत्र उत्पन्न करै तो उसको शालमल कहते हैं । यह शूद्रधर्मसे हीन पर्णवल्ली अर्थात् पानीकी आजीविकावाला होता है ( यह तम्बोली चोतीसवां है ) परन्तु वह इस समय जो तम्बोली जाति इधर है इसका आचार विचार उच्च जातियोंकासा है इनके हाथका लोग पानखातेहैं, तब यह ताम्बूल वणिकोंके भेदमेंसे हो सकते हैं, यह लोग अपनेको संकर नहीं मानते हैं परन्तु हम देखते हैं कि लोग इनके हाथका पान तमाखू जब ग्रहण करते हैं तब जलपानमें क्या दोष रहा और इनके यहां ब्राह्मण लोग भोजन करते पाये गये हैं, तब इनका जल चलने से यह त्याज्य जाति नहीं पाई जाती ॥ ७३-७५ ॥

तेली ।

उग्रापारशवाभ्यां यो जातो मौष्कलकाभिधः ।  
 वहेदसौ तैलयंत्रमुत्तमश्चान्त्यजातितः ॥ ७६ ॥  
 जीविका तस्य कथिता शुद्धतैलस्य विक्रयः ।  
 तिलाहिसायंत्रवाकरणात्पापसंभवः ॥ ७७ ॥  
 अतो मौष्कलिको नित्यं निर्वास्यो नगराद्बहिः ॥  
 तथाच स्मृतिः—तैलयंत्रेक्षुयंत्राणां यावच्छब्दः प्रवर्तते ॥  
 तावत्कर्म न कुर्वीत शूद्रान्त्यपतितस्य च ॥ ७८ ॥

उग्रा स्त्रीमें पारश्वसे मौष्कल उत्पन्न होता है, यह कोळ पेरनेका काम करै, यह अन्त्यज जातिसे उत्तम है, शुद्ध तेल और खल बेचना इनकी आजीविका है, जो कि कोळपेरनेका शब्द पापोत्पादक है इस कारण मौष्कलिकका निवास नगरसे बाहर होना चाहिये, जैसा कि स्मृतियोंमें लिखा है, कोळ और गन्ने पेरनेके कोळका शब्द जबतक सुनाई आता रहै तथा

जबतक शूद्र अन्त्यज और पतित समीप हों तबतक वैदिक कर्मोंका आरम्भ न करे ॥ ७६ ॥ ७८ ॥ ( यह तेली पत्नीसत्ता है )

इस समय एक तेरती जाति जो—राजपूताना विहार प्रांतमें पायी जाती है उसमें लोग धनाढ्य तथा अच्छे २ व्यापारी भी हैं । एक पत्र भी उस जातिकी तेली समाचारके नामसे निकलता है, इनके हाथका जल लोग ग्रहण नहीं करते हैं, पर मुक्त हैं, राजपूतानेमें इनके हाथकी मिठाई खाते हैं, बंगालमें तेरती जाति काजू कटानी हैं आर्योंमें उजना और जाति-विवेक ग्रन्थोंमें तो इस जातिके लिये सांकर्यही है, परन्तु दूसरे लोग इस विषयमें क्या प्रमाण रखते हैं, सो अभी विदित नहीं पर स्पृतिशास्त्र तो यह दो ही भेद मानता है, सम्भव है कि एक दूसरी कोई सदाचारी जाति भी तेरती नामसे ग्रहण की जाती हो । जैसा कि राठोर, चोहान, जैसवार, राठी आदि शब्दोंके पाँछे या तेरती शब्दका प्रयोग देखा जाता है, संभव है कि विहारदि प्रांतके तेरती कोई अन्य जातिके हों, तेरती व्यापार करनेसे तेरती कहाने लगे हों, परन्तु शुद्ध तेलकार जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार है ।

प्राणिकार, चमार ३६ ।

निषादधिग्वणीजातः प्राणिकारोचराभिवः । स हीनस्त्व-  
न्तजातिभ्यो जीवनं तस्य चोच्यते ॥ ७९ ॥ आर्द्राणि  
गोमहिष्यादिचर्माणि तत्र शोषयेत् । लक्षणं सारसमु-  
च्चये—ग्रामाद्बहिः प्रकर्तव्यं वर्तुलं कुण्डमेत च ॥ ८० ॥  
गोचर्मणा महिष्याश्च चर्मणा तस्य जीवनम् ॥ उपानदंग-  
त्राणानि कुर्यादश्वस्य पाखरा ॥ ८१ ॥

निषादसे धिग्वणीमें उत्पन्न हुआ प्राणिकार होता है, यह अन्त्य जातिमें हीन है, इसकी वृत्ति गाय भैंसके गीले चर्मोंको सुखाना है, सारसमुच्चयमें इसका लक्षण किया है कि ग्रामसे बाहर एक गोलाकार कुंड बनाया जाय, उसमें यह लोग चमड़े धोया करें, जूते अंगत्राण ( शरीर रक्षाके दूसरे पदार्थ चर्मके दस्ताने पैरके पिंडरीरक्षक पदार्थ ) और धोडेकी जीन आदि बनाना इनका काम है । यह चमार ( छतापत्रवां ) हैं ॥ ७९-८१ ॥ ( धिग्वणी मोची जातिकी स्त्री कहाती है )

पुल्कस, कोली ३७ ।

जातो निषादवीर्येण शूद्र्यां पुलकससंज्ञकः ।  
अन्त्यजानां तु सदृशो धर्मेषु विविधेषु च ॥ ८२ ॥  
अरण्यजीवघातेन वृत्तिः स्याद्देहपोषणे ।  
तेन पापार्द्धिका तस्य कथिता कविदूषिता ॥ ८३ ॥

निपादके वीर्यसे शूद्रमें पुल्कस ( पुक्कस ) होता है यह सब धर्मोंमें अन्यजोंके समान है, वनके जीवोंको मारना इसकी वृत्ति है, इस पापवृत्तिके कारण कविजनोंने इसको दूषित कहा है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ( यह सैंतीसवां है )

श्वषच ३८ ।

चाण्डालः पुल्कसीसंगाच्छपचं जनयेत्सुतम् ।  
स्थानान्तरं स नगरे कर्तुमर्हत्यशेषतः ॥ ८४ ॥  
गोर्दभपशूनाञ्च ग्रामान्निःसरणं बहिः ॥  
सा जीविकास्य कथिता सर्वतो लोकविश्रुता ॥ ८५ ॥

चाण्डाल पुरुष पुल्कसीके संयोगसे पच नाम पुत्रको उत्पन्न करता है, वह भी नगरके बाहर ही अपना स्थान बनावे, ग्रामसे बाहर मृतक गऊ गर्दभ आदिको ग्रामके बाहर लेजाना इसकी आजीविका है, ( यह अडतीसवां है लोकमें महार घेड भी कहाता है ) ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

अथान्त्यजसप्तसमूहः ।

रजक ( धोबी ) ३९ ।

उग्रावैदेहिकाभ्यां च जातो मंजूषसंज्ञकः ॥  
रजकः शूद्रतो हीनः प्रथमश्चान्त्यजेषु च ॥ ८६ ॥  
वस्त्रनिर्णेजनं कुर्यादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ ८७ ॥  
( इति मंजूषः, रजकः )

उग्रा स्त्रीमें वैदेहकसे मंजूष जातिका पुरुष उत्पन्न होता है इसको रजक कहते हैं, यह अन्त्यज जातिमें प्रथम है, यह अपनी आजीविकाके लिये वस्त्रोंको धोया करै, यह लोकमें धोबी कहाता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

दुर्भर, चर्मकार, ढोहोर ४० ।

धिग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दुर्भरसंज्ञकः ॥  
स कुर्याच्छागलां सम्यग्दृढां च करपत्रिकाम् ॥ ८८ ॥  
अन्यानि चर्मपात्राणि जीवनाय प्रकल्पयेत् ॥  
अन्त्यजातिषु मुख्योऽसौ कीर्तितो जातिसंग्रहे ॥ ८९ ॥

धिग्वणीमें आयोगवसे दुर्भर संज्ञक पुत्र होता है, यह छागादि चर्मकी मशक दृढरूपसे बनावै, यह मशक वह है जो लकडीसे बांधकर जलमें पौराई जाती है, इनसे पुरुष नदीपार होते हैं, और भी यह चमडेके पात्र अपने जीवनके लिये बनावै, यह जातिसंग्रहमें अन्त्यजोंमें मुख्य कहा गया है ( यह चालीसवां है ) ॥ ८८ ॥ ८९ ॥



नट ४१ ।

शिलीन्ध्रो क्षत्रिणीं गच्छेज्जनयेन्नटसंज्ञकम् ॥  
 हीनोऽसौ शूद्रधर्मेभ्यो नाटकानिःसमभ्यसेत् ॥ ९० ॥  
 कौल्हाटिकः स एवोक्तो बहुरूपीणि विश्रुतः ।  
 अन्यः कोऽपि नटो भूत्वा न शूद्रैः समतां व्रजत् ॥ ९१ ॥

शिलीन्ध्र क्षत्रियाके संग गमन करे तो नटराजक पुत्र होता है, यह शूद्रधर्मसे हीन नाटकका अभ्यास करनेवाला होता है, इसीको कोहलाटका और बहुरूपिया कहते हैं, नाटकके मूलसे आजीविका करे, कोई यदि अन्य वर्ण नाट्य करे तो वह शूद्रका समताको प्राप्त नहीं होता ॥ ९० ॥ ९१ ॥

किंशुक बुरुड ४२ ।

कुरुविन्दांगना सूते धीवरार्त्तिकशुकाभिवम् ॥  
 असावन्त्यज इत्युक्तो वंशपात्रानुजीवनः ॥ ९२ ॥

सनके टाट अदि बनानेवाला कुरुविन्द कहाता है, उसका भी धीवरसे किंशुक पुत्रको उत्पन्न करती है, यह भी अन्त्यज है, वासके पात्र पिटारी आदि बनाना इनकी आजीविका है ॥ ९२ ॥

कैवर्त, धीवर, तारु ४३ ।

आयोगवीपारशवाभ्यां यः स्यात्कैवर्तकाभिवः ।  
 स हीनस्त्वन्तजातिभ्यो जालं स्वीकृत्य सर्वशः ॥  
 मत्स्याञ्जलचरानन्यान्वातयेदात्मवृत्तये ॥ ९३ ॥  
 नाव्यं कर्म प्रवहणं नद्यां वर्षासु वाहयेत् ॥  
 नदीमुत्तारयेल्लोकांस्तेभ्यश्चच्छुद्धनं मुदा ॥ ९४ ॥

आयोगवीर्षे पारशव जातिके पुरुषसे कैवर्त होता है, यह अन्त्य जातिसे हीन जाल बनाकर उसके द्वारा पक्षी और जलचरोंको आजीविकाके लिये पकड़ते हैं, तथा वर्षाकालमें नदीमें नाव डालकर लोगोंको पार करते हैं, उसमें इनकी आजीविका चलती है, यह धीवर मछाह नामसे विख्यात है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

मेद, गौड, गौड ४४ ।

कारावारी यदा नारी वैदेहाज्जनयेत्सुतम् ।  
 स मेदसंज्ञः कथितस्तुल्योऽसौ फलजीविना ।  
 वितण्डवेशः स वसेदरण्ये वृक्षपर्वते ॥ ९५ ॥

यदि कारावारी स्त्री वैदेहिकसे पुत्र उत्पन्न करै तो उसकी मेद संज्ञा होती है, यह फल-जीवीके समान है, यह कुदालधारी वेशसे वन और वृक्षोंवाले पर्वतोंसे निवास करै, यह कुदाली जाति है ( कारावारी, कोली, वैदेहक शय्यापालक है ) ॥ ९५ ॥

भिल्लः ( भील ) ४५ ।

कारावारी यदा नारी धीवराज्जनयेत्सुतम् ।

सभिल्लसंज्ञः कथितः कन्दमूलादिजीवनः ॥

बीभत्सवेशः स वसेदरण्ये वृक्षपर्वते ॥ ९६ ॥

कारावारी स्त्रीमें धीवरसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह भील कहाता है, कंद मूल फल उसका जीवन है, वह भयावने वेशसे वन वृक्ष युक्त पर्वतोंमें निवास करते हैं ॥ ९६ ॥ ( यह ४५ तालीसवां है )

अथैकादशसमूहः ।

तेरवा मच्छ ४६ ।

मेदस्य वनितासंगाच्चाण्डालो जनयेत्सुतम् ॥

तेरवामच्छसंज्ञो वै प्रोक्तः स च द्विसंज्ञकः ॥ ९७ ॥

नृमांसभक्षणं कार्यं विक्रयं तस्य जीवनम् ॥

जीविका सास्य कथिता स वसेन्नगराद्बहिः ॥ ९८ ॥

मेदकी स्त्रीके संगसे चांडाल जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, वह तेरवा और मच्छ कहाता है, वह मुर्दोंका मांस खाते और बेचते हैं, यह भी नगरसे बाहर रहें, यही इनकी जीविका है । ( यह जंगली जाति है ) ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

सिरसू हाडी ४७ ।

अन्धस्य वनितासंगाच्चाण्डालो जनयेत्सुतम् ॥

प्लवसंज्ञो स हाडीति लोके सर्वत्र विश्रुतः ॥ ९९ ॥

अश्वोष्ट्रगर्दभानां च मृतानां कालयोगतः ॥

कुर्यान्निर्हरणं सोऽपि मांसभक्षणजीवनः ॥ १०० ॥

अन्धकी वनिताके संगसे चांडालद्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वह प्लवसंज्ञक, स्थिरसंज्ञक और हाडी नामवाला होता है ऐसा विख्यात है, अपनी मृत्युसे मरे हुए घोडे ऊंट और गदहों को यह ग्रामसे बाहर ले जाय मांस भक्षण ही इनका जीवन है । ( यह हडिया मांस ४७ वां है ) ॥ ९९ ॥ १०० ॥

ऋव्याधिः ४८ ।

प्लवङ्गियां श्वपाकेन जातो ऋव्याधिरुच्यते ।  
 स प्रेतवह्निसंरक्षां कुर्यात्सा जीविका स्मृता ॥  
 सीमार्यां स वसेन्नित्यं सीमारक्षणतत्परः ॥१०१॥

प्लवकी स्त्रीमें श्वपाकसे उत्पन्न हुआ पुत्र ऋव्याधि कहलाता है, श्मशानमें प्रेताग्नि ( चिता की अग्नि ) रक्षाका कार्य करे, और नगरकी सीमाकी रक्षा करता हुआ सीमा जहाँ ग्रामकी हो उस वनमें निवास करे ॥ १०१ ॥ ( हार्डाका नाम प्लव भी है )

हस्तिक ( शिकारी ) ४९ ।

ऋव्याधिवनितासंगाच्चण्डालाद्धस्तको भवेत् ॥  
 भृगवद्गुलश्येनादिपक्षिपालनतत्परः ॥  
 तेषां विक्रयतो लब्धं धनं तज्जीवनं स्मृतम् ॥ १०२ ॥

ऋव्याधकी स्त्रीमें चांडालसे जो पुत्र होता है उसको हस्तिक कहते हैं वह भृगुके समान गुलशर और श्येनादिको पालन करे उनके बचनेमें ही उसकी आजीविका है ( यह हस्तिक ४९ वां है वह आधेटकारी ) है ॥ १०२ ॥

कायक ५० ।

हस्तकस्त्री श्वपाकेन कायकं जनयेत्सुतम् ॥  
 कुर्याद्वाजावरोधस्य मलापहरणं सदा ॥  
 वृत्तिरेवास्य कथिता निवासो नगराद्ग्रहिः ॥१०३॥

हस्तककी स्त्री श्वपाकसे कायक नाम पुत्रको उत्पन्न करती है यह सदा भीतरी स्थानोंके कूड़े उठाया करे, और स्थान स्वच्छ करे, यही इसकी आजीविका है यह नगरसे बाहर निवास करे ॥ १०३ ॥

शाशेष २१ ।

चाण्डाली म्लेच्छसंयोगाच्छाशेषं जनयेत्सुतम् ॥  
 वध्यच्छिन्नांगनादाय वणिग्विपणिषु भ्रमेत् ॥  
 तद्द्रव्यं जीविका तस्य तद्वासो नगराद्ग्रहिः ॥१०४॥

चाण्डाली और म्लेच्छके संयोगसे शाशेष नामक पुत्र होता है, मारे गये अपराधी पुरुषके भिन्न अङ्गको लेकर बाजारमें घूमना इसका काम है, उस नौकरीसे जो द्रव्य मिले वह इसकी आजीविका है ॥ १०४ ॥

भारुड ५२ ।

पुल्कसीडोम्बसंयोगाद्भारुडो नाम जायते ॥  
 ग्रामद्वारं स संरक्षेद्वात्रौ वीथीषु संचरेत् ॥ १०५ ॥  
 वाचमुच्चारयेदित्थमहो जायत जायत् ॥  
 भेरिडिंडिमझंकारैः पौराज्जागरयेन्निशि ॥ १०६ ॥  
 साजीविकास्यकथिताराज्ञो गाःपरिपालयेत् ॥

पुल्कसी डोमके संयोगसे भारुडनामा पुत्र उत्पन्न होता है, ग्रामके द्वारकी रक्षा करना उसका काम है रातमें नगरकी गलियोंमें जागते रहो २ कहता हुआ तथा भेरी डिमडिम झनकारोंसे निशामें पुरवासियोंको जगावै, और राजाकी गौओंकी रक्षा करै, यह इसकी आजीविका है ( यह भारुड ५२ वां है ) ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

सौनिक ( हिंसक ) ५२ ।

सौनिकं कर्मचाण्डालात्सूते दासवधूसुतम् ॥  
 स कुर्यादजमेषाणां हिंसां तन्मांसविक्रमथम् ॥  
 तद्रव्यं जीविका तस्य स हीनस्त्वन्तजातितः ॥ १०७ ॥

कर्मचाण्डालसे दासवधूके जो सन्तान पैदा हो वह सौनिक कहाता है; यह बकरे और भेड़ोंकी हिंसा करके उनके मांसको बेचा करै, जो द्रव्य मिलै उससे आजीविका करै यह अन्त्य जातिसे भी हीन है, इस जातिको कार्तिकभी कहते हैं यह एक प्रकारके हिन्दू कसाई हैं ॥ १०७ ॥

मातंग ५४.

डोम्बिन्यां पुवसंयोगान्मातंगो नाम जायते ॥  
 भूतप्रेतपिशाचादिग्रस्तरक्षां समाचरेत् ॥  
 सा जीविकास्य कथिता स वसेन्नगराद्बहिः ॥ १०८ ॥

डोम्बिनीमें प्लवके संयोगसे मातंग जाति उत्पन्न होताहै. भूत प्रेत पिशाचादिसे ग्रस्त हुए पुरुषोंकी मंत्रद्वारा यह रक्षा करै, यह इनकी जिविका है, नगरसे बाहर इनका निवास है ॥ १०८ ॥

अन्त्यावसायी डोम्ब ५५.

निषादवनिता सूते चाण्डालाड्डौम्बसंज्ञकम् ॥  
 असावन्त्यावसायी च श्मशाननिलये वसेत् ॥  
 तत्र रक्षां प्रकुर्वीत प्रेतानां वध्मजीवनम् ॥ १०९ ॥

( ४४६ )

जातिभास्करः—

निषादकी स्त्रीमें चांडालसे डोम्ब नामक पुरुष होता है, यह भी नीच है, मरघटमें इसका निवास है, वहां यह मृतकोंकी चिता रखता हुआ उनके ऊपरके धर्मोंसे निर्वाह करे, श्मशानमें काष्ठवेचनकी भी अन्त्यवसायीकी जिविका है ॥ १०९ ॥

गोपका ९६.

मातंगीडोम्बसंयोगात् गोपको नाम जायते ॥

दाहभूविक्रयाल्लब्धं धनं तज्जीवनं स्मृतम् ॥ ११० ॥

मातंगी स्त्रीमें डोंब पुरुषसे गोपक जाति होता है, दाहभूषिसे ( श्मशान ) से ग्रहण इसकी आर्जाविका है ॥ ११० ॥

ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथैव गुरुनल्पागः ॥

एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ १११ ॥

ब्रह्महत्यारा, मद्य पीनेवाला, सोना चुरानेवाला, गुरुर्वागामी और इनका साथी यह पांच महापातकी हैं, इनके पूर्वके चार मिलाकर आठ हुए ॥ १११ ॥

अब दूसरी संकर जातियोंको कहते हैं ।

कायस्थ ६१ ।

माहिष्यवनितापुत्रं वैदेहाद्यं प्रसूयते ॥

स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥

लिपीनां देशजातानां लेखनं स समभ्यसेत् ॥ ११२ ॥

गणकत्वं विचित्रञ्च बीजपाटीविभेदतः ॥

वृत्त्यानया वर्तनं स्यात्कायस्थस्य विशेषतः ॥

अधमः शूद्रजातिभ्यः पंचमंस्कारवानमौ ॥ ११३ ॥

माहिष्यकी स्त्रीमें वैदेहसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह कायस्थ कहाता है उसका कर्म कहते हैं यह देशकी भाषाओंको सीखकर लिखनेका अभ्यास करें, इनका गणकत्व विचित्र है बीज पाटीके भेदसे यह विद्या सीखें कायस्थकी लिखने पढ़नेकी वृत्ति है, यह शूद्र जातिसे अधम पांच संस्कारवाला है ( जातिविवेकमें यह दूसरी कायस्थ जाति है जो संकरोंमें है ) ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

कायस्थापित ६२ ।

कायस्थादेव कायस्था विधवा यं प्रसूयते ॥

कायस्थापित इत्युक्तस्तद्वृत्त्या तस्य जीवनम् ॥ ११४ ॥

कायस्थ विधवा स्त्रीमें जो कायस्थसे पुत्र उत्पन्न हो वह कायस्थापित कहाता है, लिखने पढ़नेकी इसकी भी वृत्ति है ॥ ११४ ॥

कुन्तल ( नापित ) ६३ ।

उग्राभागधसंयोगाज्जातः कुन्तलकाभिधः ॥

स नापित इति प्रोक्तः क्षौरकर्मविधानकृत् ॥ ११५ ॥

श्मश्रुकृन्तनकृच्चैव नखकृन्तनकोविदः ॥

वृत्त्यानया ग्राममध्ये तिष्ठन् वर्णेषु सेवकः ॥ ११६ ॥

उग्रा स्त्रीमें मागधके संयोगसे कुन्तल होता है, इसीको नापित वा नाई भी कहते हैं, यह हजामत बनानेका काम करै ॥ १५ ॥ डाढी मूळ बनाने, नखून काटनेका काम करै, इस वृत्तिसे यह चार वर्णोंकी सेवा करता हुआ ग्रामके मध्यमें निवास करै, यह जाति सच्छूद्रोंमें प्रतिष्ठित समझी जाती है, पूर्वकालमें तो इसका बडा मान था, अकेली वह बेटी हजारोंका जेवर पहरे इनके संग आती जाती थी, कनोजिये, सरयूपारी, उमर, राठौर आदि देशभेदसे इनके भी अनेक नाम हैं, गोल आदि भी हैं । अब नाइयोंकी समायें बनती हैं, यह भी अब नाई बनना नहीं चाहते । न्यायी बनते हुए देखिये कहां तक पहुंचते हैं ॥ ११६ ॥

तीर्थनापित ६४ ।

शूद्रकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥

अपरो नापितः प्रोक्तः शूद्रकर्माधिकोऽपिसः ॥ ११७ ॥

नाराणां नापितो धूर्तः शूद्रेभ्योऽप्यधिकः स्मृतः ।

गंगायां भास्करे क्षेत्रे मातापित्रोर्मृतेऽहनि ॥

आधाने सोमपाने च षट्सु क्षौरं विधीयते ॥ ११८ ॥

उपरोक्त विधिसे शूद्र कन्यामें उत्पन्न होनेसे और ब्राह्मण द्वारा संस्कारको प्राप्त होनेसे यह दूसरे प्रकारका एक नापित होता है, यह शूद्रकर्माओंसे अधिक हैं ॥ ११७ ॥ नरोंमें नापित चालाक होता है, यह शूद्रोंसे अधिक है, गंगामें, भास्कर क्षेत्रमें, माता पिताके मृत दिनमें आधान और सोमपानके दिन और कर्म करना होता है, यह तीर्थनापित इसी प्रकार क्षौर करके अपनी आजीविका करै ॥ ११८ ॥ कहीं ( नराणां नापितः क्षतः ) ऐसा पाठ है, नरोंमें नापित और क्षतः शूद्रोंसे अधिक है ।

सैरिन्ध्रः श्लिर्घ्नः ६५ ।

शूद्रादायोगवी जाता वैश्यगर्भसमुद्भवा ॥

आयोगवी सा सैरन्ध्रं कायस्थाज्जनयेत्सुतम् ॥ ११९ ॥

स हीनः शूद्रधर्मैभ्यः सेवां कुर्याद् द्विजातिषु ॥

पादयोः क्षालनं तेषां घम्भिलानां प्रसाधनम् ॥ १२० ॥

अभ्यंगमर्दनं चैव चन्दनस्यानुलेपनम् ॥  
 मृगनाभेरिन्दुयोगाच्छृंगाररचनाद्धनम् ॥ १२१ ॥  
 जीविका तस्य सम्प्रोक्ता तत्स्त्रीमैरन्ध्रिका स्मृता ।  
 चतुष्पष्ठीकलाभिज्ञा रूपशीलादिसेविनी ॥  
 प्रसाधनोपचतुरा सैरन्ध्रीति प्रकीर्तिना ॥ १२२ ॥

शूद्रद्वारा वैश्यासे आयोगर्वा स्त्री होती है वह आयोगर्वा कायस्थसे भैरन्ध्र नागक पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ १२१ ॥ यह शूद्रधर्ममें हीन है द्विजातियोंकी सेवा करे उनके चरण धोवे, और सेव्योंके केशोंको तेल आदि लगाकर सुधारे ॥ १२० ॥ शरीरमें तेल लगाना, चन्दन लगाना, और कपूर मिलाकर सेव्योंके शृङ्गार बनाना यह इसकी आजीविका है ॥ १२१ ॥ इसकी स्त्री सैरन्ध्री कहती है, यह चौसठ कलासम्पन्न रूपशील सेविनी तथा शृङ्गार व नाने और वेशरचनमें चतुर होती है ॥ १२२ ॥

शिलीघ्न मर्दनः ६५ ।

क्षत्रिणीमल्लसंयोगाच्छिलीन्ध्र इति जायते ॥  
 हीनः स शूद्रधर्मभ्यो जीविकास्यांगमर्दनम् ॥ १२३ ॥

क्षत्रिणीमें मल्लके संयोगसे शिलीन्ध्र होता है यह शूद्रधर्ममें हीन है अंगमर्दन करना इसकी आजीविका है ( यह पैसठवां है ) ॥ १२३ ॥

भाजक मागध ६६ ।

स्त्री पुष्पशेखरा नाम ब्रह्मणेन सुसंगता ॥  
 सा सूते तनयं सोऽपि भोजको मागधाभिधः ।  
 सूर्यपूजारतस्यास्य स्पष्टतः भूर्जकण्ठतः ॥ १२४ ॥

पुष्पशेखरा जातिकी स्त्री ब्राह्मण द्वारा समागम करके भोजक मागध पुत्रको उत्पन्न करती है, यह सूर्यकी पूजा किया करे ( यह भूर्जकण्ठ ६६ वां है ) ॥ १२४ ॥

देवलक ६७ ।

तस्य मागधजातेस्तु कन्यका विप्रसंगता ।  
 तत्पुत्रः शाश्वतीकश्च कथितो देवलाभिधः ॥ १२५ ॥  
 प्रतिमां पूजयेद्विष्णोरसौ शंखादिचिह्नितः ।  
 सपर्याजनितं तासां द्रविणं तस्य जीवितम् ॥ १२६ ॥  
 अपांक्तैयोऽप्यभोज्यान्नो वर्णत्रयबहिष्कृतः ।

**मनुः—देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थी वत्सरत्रयम् ।**

**असौ देवलको नाम सर्वकर्मसु गर्हितः ॥१२७॥**

मागध जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिसे समागम करै तो उसका पुत्र शाश्वतीक वा देवलक नामवाला होता है ॥ १२५ ॥ यह शंखादिके चिह्न धारण करके विष्णुकी प्रतिमा की पूजा किया करै, और जो पूजाका द्रव्य आवै उससे आजीविका करै, यह ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें बैठकर भोजन करने योग्य नहीं है, तीन वर्णसे बाहरही है ॥ १२६ ॥ मनु भी यही कहते हैं, यदि ब्राह्मण तीन वर्षतक नौकरी लेकर देवार्चन करै तो देवलक संज्ञ होकर सबकर्मोंमें निर्दिष्ट हो जाता है, पूजा तो विना धनलिये करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ ( यह देवलक वरुणा भी कहाता है )

आभीर ( गौली ) ६९ ।

**माहिष्यस्त्री ब्राह्मणेन संगता जनयेत्सुतम् ॥**

**आभीरपत्न्या आभीरमिति ते विधिरब्रवीत् ॥१२८॥**

**तेषां संघो वसेद् घोषे बहुशस्यजलाशये ॥**

**आविकं गोमहिष्यादि पोषयेत्तृणवारिणा ॥१२९॥**

**दुग्धं दधि घृतं तक्रं विक्रीयत धनाय च ।**

**विशूद्रेभ्यो न्यूनतो धर्मे तस्य सर्वस्य विश्रुता ॥१३०॥**

माहिष्यकी स्त्रीमें ब्राह्मण द्वारा जो पैदा हो वह आभीर है तथा ब्राह्मणद्वारा आभीर पत्नीमें भी आभीरही उत्पन्न होता है इनका समूह घोषमें रहता है जहां बहुत सी घास तृण हो तथा समीपमें जल हो वहां निवास होता है, भेड़, बकरी, गौ, महिषी आदिको तृण जलसे पुष्ट करना इनका काम है, दूध, दही, घी, मट्टा धनकी प्राप्तिके लिये बेचें, यह धर्ममें शूद्र जातिसे कुछ हीन हैं । बहुतसे लोगोंका मत है कि आभीर शब्दसे बिगड़कर अहीर बन गया है, इस जातिमें अनेकों विवाद हैं इस समय कोई अपनेको क्षत्रिय वंशमें कहते हैं, कोई इनको वैश्य वर्णमें कहते हैं, मनुजी अम्बष्ठकी स्त्रीमें ब्राह्मणसे आभीरकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई कहते हैं कि यह वावानन्दके वंशके हैं इनके चौंसठ गोत्र हैं जसी एक कहा-  
वत है ॥ १२८--१३० ॥

**चौंसठ गोत्र अहीरके, धुर गोकुलके निकास ॥**

**बेटे बाबा नन्दके, यह केलि करै कैलास ॥**

श्रीमद्भागवतके देखनेसे विदित होता है, कि श्रीकृष्णजीने वैश्यकी चार प्रकारकी वार्ता कहकर 'गोवृत्तयोऽनिशम् ( द० पू० अ० २४ श्लोक २१ ) से कहा है कि हमारी निर-



न्तर गोवृत्ति है अर्थात् वैश्यकी चार बातोंमेंसे हमारी केवल एक बात है; फिर आगे चलकर कहा है कि हमारे घर जनपद ग्रामादि कुछ नहीं है हम नित्य वन शैलके निवासी हैं ( वनशैलनिवासिनः ) इससे इनमें वैश्यतासे कुछ निकृष्टता पाई जाती है, इनके गोत्र पचेरा, ऋणवाल, पाळ, गरड, ग्वातोल्या, ऋंगरी आदि हैं, गोकुलमें अर्द्धाश्रितोंका कर्मा संस्कार देवने में नहीं आया, श्रीकृष्णजीके संस्कारके लिये स्वयं गर्गाजी अशुरासे आये थे, हमलिये आभीर शब्द क्षत्रिय कुलका नहीं है, आर्यसमाजकी बद्धोक्त यह यज्ञोपवीत पहरते हैं, परन्तु हमारे पास, यदि इनके किसी ग्रंथके प्रमाण आयेगे तो हम उनको हम ग्रन्थमें दूसरी बार लगादेंगे इस समय तो इतना ही लिखना ठीक समझते हैं इस समय तक शास्त्रमें कोई भी प्रमाण अभीरके क्षत्रिय होनेका नहीं मिला है यह जाति विचार कोटिमें है ।

मल्ल ७० ।

शुद्धा या क्षत्रिणी सूते व्रात्यक्षत्रियमेषुनात् ॥

पुत्रः स मल्ल इत्युक्तः शूद्रधर्मविधायकः ॥१३१॥

स कुर्याद्राजपुत्रांश्च शत्रांश्च निपुणान्वनम् ॥

तेभ्यो लब्ध्वात्मवृत्त्यर्थं स्वधर्ममनुपालयेत् ॥१३२॥

व्रात्य क्षत्रियसे शुद्ध क्षत्रियमें मल्ल जातिभा प्ररूप उत्पन्न होता है, यह शूद्रधर्मा है यह राजपुत्रोंको शत्रु अश्रुकी शिक्षा देकर उनसे धन लेकर अपना आजीविका करे ॥ १३१ ॥ ॥ १३२ ॥ ( यह राजगुरु कहता है )

( वारी ) चुच्चुभ ७१ ।

ब्राह्मण्यां वैश्यजनिता वैदेहीति निगद्यते ॥

सा संगता ब्राह्मणेन चुच्चुभं जनयेत्सुतम् ॥१३३॥

स स्याच्छत्रधरो राज्ञां लोके वारीति कथ्यते ॥

समास्तेषु च वर्णेषु कुर्यात्पानीयत्रिक्रयम् ॥१३४॥

तस्यैव जीविका प्रोक्ता शूद्रधर्मा स जातितः ॥

ब्राह्मणीमें वैश्यसे वैदेही उत्पन्न होती है, यह वैदेही ब्राह्मणसे संगति करके चुच्चुभ पुत्रको उत्पन्न करती है, यह राजापर अन्न लगानेवाला लोकमें वारी कहता है, यह चारों वर्णोंमें पानी दाम लेकर भरे, उसकी यही आजीविका है, यह जातिसे शूद्र धर्मवाला है ( यह ७१ वां है ) १३३ ॥ १३४ ॥

( पौष्टिक ) दोलाकार ७२ ।

द्विजशूद्रीसमायोगान्निषादी वनिता भवेत् ॥

निषादी द्विजतः सूते तनयान्पौष्टिकाभिधान् ॥१३५॥

ते दोलावाहका राज्ञां विशेषाद्द्रुतगामिनः ॥

छागला वाहकास्ते स्युः कावडीवाहका मताः ॥

काहारा इति लोकेऽस्मिन् गर्दभैरूपजीविनः ॥१३६॥

ब्राह्मणमें शूद्रीद्वारा निपादी कहाती है और निषादीमें ब्राह्मणद्वारा जो सन्तान हो वह पौष्टिक कहाती है वे पालकी मुखपालमें राजादिको लेकर चलते हैं, यह छागलावाहक और कावडीवाहक कहाते हैं, और शीघ्रतासे चलते हैं; कहार लोकमें यह कहार कहाते हैं, कहीं यह गर्दभोंपर वस्तुएं लादकर उपजीविका करते हैं, कहीं पानी भरते हैं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

मल्ल ७३ ।

क्षत्रिणीमल्लसंयोगाज्जातो मल्लाभिधः परः ॥

लब्ध्वायोगवणं सम्यग्बलदर्पेण गर्वितः ॥१३७॥

राज्ञां कौतुकमुत्पाद्य नियुद्धेन धनार्जनम् ।

कुर्यात् स्ववृत्तिनिपुणान् शूद्रधर्मानशेषतः ॥१३८॥

मल्लके संयोगसे क्षत्रिणीमें मल्ल जाति उत्पन्न होती है वह बड़ा परिश्रमी बलसे दक्षिण होता है ॥ १३७ ॥ राजोंके सम्मुख कुशती लडकर धनार्जन करता है, और अपनी वृत्ति करके सब शूद्रधर्मोंको करै ॥ १३८ ॥

सुघ्रण ( सूफकार ) ७४ ।

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतः स जात इति कीर्तितः ॥

ब्राह्मण्यामपि वैदेही वैश्याज्जातेति विश्रुता ॥१३९॥

वदही सूतसंयोगात्प्रसूते सुघ्रणं तु सा ॥

लेह्यादीनां चतुर्णांश्च पाकं कर्षाद्यथाविधि ॥१४०॥

अन्नान्यमृतयोगेन मांसस्त्रावकभेदतः ॥

रसैः स्वाद्भ्रम्ललवणतिक्रोषणकषायकैः ॥१४१॥

वातपित्तकफादीनां क्षयोपशमकारकैः ॥

स शूद्रधर्मसदृशः सूपशास्त्रविशारदः ॥१४२॥

पार्वतीनलभीमानामन्तेषु परिनिष्ठितः ॥

गुणस्य तस्य कथिता जीविका स्वेन कर्मणा ॥१४३॥

ब्राह्मणोंमें क्षत्रियस सूत होता है, ब्राह्मणीमें वैश्यसे वैदेही कन्या होती है ॥ १३९ ॥

वैदेही और सूतके समागमसे सुधण जातिका पुरुष उत्पन्न होता है, यह लेव, चोप्य, चर्व्य  
मेय चार प्रकारके भोजन यथाविधि बनाते हैं ॥ १४० ॥ अन्नोके स्वाद अमृतके समान  
करते हैं, तथा मांस और रसके पदार्थ भी बनाते हैं, घडे स्वादिष्ट पदरसके पदार्थ अस्ल  
(खाई) लवण, तीखे, चरपरे, कसैले आदि तयार करते हैं ॥ १४१ ॥ जो वात पित्त  
रूप तथा क्षयके शान्त करनेवाले हैं, यह मृपशास्त्रमें बडा कुशल शूद्रधर्मसे समान कहा है,  
श्रद्धा लोग पर्वतोत्पन्न पुष्परस आदिके व्यवसायी भी होते हैं, उनका शहर लेते अर्क निका-  
जते और बेचते हैं इसप्रकारसे आर्जावन करते हैं, जहां इनका हाथका कोई नहीं खाता  
जहां उनके निरीक्षणमें भोजन तयार होता है ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ ( यह राधवण ७४ वां है )

अंधासिक ७५ ।

ब्राह्मण्यां वैश्यजनितो जातो वैदेहिकाभिधः ॥

तस्य शूद्रांगनाभूनुर्जातस्त्वंधासिकाभिधः ॥१४४॥

कुर्यादन्नानि चत्वारि त्रिवृद्धयर्थं समन्ततम् ।

अन्नविक्रयतो लब्धं तद्धनं तस्य जीवनम् ॥१४५॥

ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्न वैदेहिक होता है, उस वैदेहिकसे शूद्रकी स्त्रियों अंधासिक  
होता है ॥ १४४ ॥ यह चार प्रकारके अन्नोको बेचकर अपना निर्वाह करे, यह अंधा-  
सिक ७५ वां है ॥ १४५ ॥

वच्छक, गोचारी ७६ ।

वैश्यवीर्येण शूद्रायां जाती सा करणी मता ।

करणीवैश्यसंयोगाज्जातो वच्छकसंज्ञकः ॥१४६॥

स शूद्रधर्मरहितः शाड्वलं गाश्च पालयेत् ।

यत्र यत्र भवेच्छस्यं तत्र तत्र शिपतः ॥१४७॥

वैश्यके वीर्यसे शूद्रामें करणी होती है, करणीमें वैश्यके द्वारा वच्छक संज्ञक पुत्र होता  
है, यह शूद्रधर्मसे रहित गांवमें घास गिलाकर गायोंको पाले, जहां २ अधिक घास हो  
जहां २ गौ लेजाइ चरावै ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ यह ग्वाला गोचारी कहाता है ।

छागालिक, सैलिक ७७ ।

ब्राह्मणो गायको लोके स वैष्णव इतीरितः ।

शास्त्रे स कटधानाख्यो विप्रह्वीगर्भसंभवः ॥१४८॥

कटधानः स मंगुतां कामनो यदि गच्छति ॥

तयोर्गौ जायते पुत्रः सं छागालिकसंज्ञकः ॥१४९॥

स हीनः शूद्रजातिभ्यश्छागलान् रक्षयेत्सदा ॥

छागलेभ्यो धनं जातं तस्य तज्जीवनं स्मृतम् ॥१५०॥

गानेकी आजीविकावाला ब्राह्मण वैष्णव कहाता है विप्रस्त्रीके गर्भसे समुत्पन्न होनेसे उसकं कटधान नाम शास्त्रोंमें कहा है, कटधान यदि अपनी इच्छासे ( तावडीककन्या सैरन्ध्री ) मंगू जातिकी स्त्रीमें गमन करै तो उसके छागलिक नामवाला पुत्र होता है, यह शूद्रधर्मसे रहित सदा छागलों ( भेड़ों ) की रक्षा करै उनसे जो धन मिलै उससे आजीवन करै । यह जाति कदाचित् गडरिया कहाती है युक्तप्रदेशमें यह भेड़ बकरी चराते हैं, उनके कम्बल आदि बनाते हैं यह आगरे प्रान्तमें वघेले, बम्बईमें अहिर, नागपुरमें गौली, राजपुतानेमें गूजर, मालवेमें धनगर और डङ्गर कहाते हैं । थिंगर, भरारिया, वैखटा, निखर, जौनपुरी, इलाहवादी, चिकवा आदि इनके भेद हैं यदि गडरिये नामवाली जाति छागलिकसे पृथक्धर्म हो तो उसका विचार पृथक् समझना, द्रविड देशमें अतत्राडियार भी गडरियेकी जातिकी एक भेद है यह व्यापारी है यह अपने आपको शूद्रवर्ण नहीं मानते, हमारे यहां गडरियोंसे गूजर भिन्न हैं ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥

शय्यापालक ( सजके ) ७८ ।

मंगुसैरिन्ध्रयोर्जातः शय्यापालकसंज्ञकः ।

जातस्तं सततं राज्ञा शय्याकर्माणि कारयेत् ॥१५१॥

मंगु-तावडीकसे सैरन्ध्रीमें जो होता है वह शय्यापालक कहाता है, यह राजाओंका शय्या रचना तथा उसकी रक्षाका कर्म करता हुआ अपनी आजीविका करै, ( यह ७८ व है ) ॥ १५१ ॥

मण्डल, शुनेधर ७९ ( शूणकाटा )

कर्मचाण्डालवनिता पुष्पशेखरसंगता ।

जनयेद्यं सुतं सोऽपि ख्यातो मण्डलकाभिधः ॥१५२॥

युगलं शुनकादीनां धर्तुं योग्यो महीभृताम् ।

आखेटकपणे तस्य शुनां जीवनमुच्यते ॥ १५३ ॥

डोमकी स्त्री यदि गायक ब्राह्मणसे सन्तान उत्पन्न करै तो मण्डल नामक पुत्रको उत्पन्न करती है, यह राजाओंके कुत्तोंकी जोड़ियोंकी रक्षा किया करै, शिकारके कार्य और कुत्तोंके द्वारा इनका आजीवन होता है ॥ १५२ ॥ १५३ ॥

सूत्रधार ८० ।

रथकारस्य वनिता आयोगवसमागता ।

जनयेत्तनयं सोऽपि सूत्रधार इतीरितः ॥१५४॥

जायाजीवश्च शैलूषो नाट्यशास्त्रविशारदः ॥  
जलमण्डपकादीनि सूत्राणि रचयेत्सदा ॥१५५॥  
लोकविस्मयकारीणि स वसेन्नगराद्बहिः ।  
रंगावतारः कर्तव्यो नाट्येन नृपसंसदि ॥  
चतुर्विधैरंगहारैर्देशभाषांगसम्भवैः ॥ १५६ ॥

यदि रथकारकी स्त्री आयोगवसे समागम करे तो उसका पुत्र सूत्रधार होता है, यह स्त्रियोंको नचाकर आजीविका करता है, इस कारण जायार्जीवी कहाता है यही शैलूषभी कहाता है, यह नाट्यशास्त्रमें बडा चतुर होता है, यह जलमण्डपादिस्थानोंको आश्चर्य रूपसे निर्माण करता है, इसका नाटक आदिका आढम्बर बहूत है, इस कारण यह नगरसे बाहर रहे, राजसभाओंमें रङ्गावतारमें पहले इसीका काम है, चार प्रकारकी मागधी संस्कृत प्राकृतदि भाषाओंमें नाटक आरम्भ करे ॥ १५४-१५६ ॥ ( यह रथकार स्त्रीपाथरट कहाता है सूत्रधार ८० वां है )

कुरुविन्द ८१ ।

कुक्कुटस्येह वनिता कुम्भकारेण सगता ।  
तस्याः सूनुः स विख्यातः कुरुविन्द इति स्फुटम् ॥१५७॥  
कौशेयानि स वस्त्राणि रचयेदात्मवृत्तये ।  
तुल्योऽसावन्त्यजातीनां तद्धर्ममनुपालयेत् ॥१५८॥

कुक्कुट पटोलकी स्त्री यदि कुम्हारसे संगति करे तो उसका पुत्र कुरुविन्द कहाता है, यह अपनी आजीविकाके लिये कौशेय वस्त्र तयार करे, यह भी अन्त्यजातियोंके समान है, इससे इसी धर्म पालन करे, ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ ( कुक्कुटी पटोलकस्त्री, कुरुविन्द लोकमें टकसाली कहाता है )

औरभ्र, धनगर, धरमिगुरु ८२ ।

औरभ्रं छागली सूते भूर्जकण्ठाद्धि यं सुतम् ।  
कुर्यादौर्णपटांश्चित्रान्मेषाणां चैव पालनम् ॥  
तस्येयं जीविका प्रोक्ता तद्धनेन विशेषतः ॥१५९॥

छागली भूर्जकण्ठसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह औरभ्र धनगर कहाता है, यह चित्र विचित्र उनके कपडे बनावे, तथा मेषादिको पालकर अपनी आजीविका करे, यह खारी ८२ वां है ॥ १५९ ॥ ( छागल रक्षककी स्त्री भूर्जकण्ठ वैष्णव गायक ब्राह्मण )

( महांगु कलेकर ) ८३ ।

आवर्तवनिता सूते क्षेमकाद्यञ्च पुत्रकम् ।

स महांगुरिति ख्यातो उष्ट्रवाहनतत्परः ॥ १६० ॥

उष्ट्राणां पालनं कृत्वा दधिदुग्धस्य विक्रयः ।

तद्द्रव्येणास्य वृत्तिः स्याल्लोकतः सल्हकः स्मृतः ॥ १६१ ॥

आवर्त—वैष्णव गायककी स्त्री क्षेमक ( द्वाररक्षक ) से जिस पुत्रको उत्पन्न करती है वह महांगु नामसे विख्यात होता है, यह ऊंटोंका लादना तथा ऊंटोंका पालना आदि करै, तथा दही दूधको बेचै उसी द्रव्यसे इसकी जीविका है यह महां कहेंकर भी कहाता है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

धिग्वणः ८४ ।

वैश्यस्त्रीशूद्रसंयोगाज्जातायोगविकाभिधा ॥

आयोगवीब्राह्मणाभ्यां धिग्वणकसमुद्भवः ॥ १६२ ॥

स चर्मणाश्वपल्याणं यथाशोभं प्रकल्पयेत् ।

तद्द्रव्यं जीविका तस्य विहिता लोकसम्मता ॥ १६३ ॥

अश्वानां पाखरां सोऽपि कर्तुं चित्रां तथार्हति ॥

वैश्यकी स्त्रीमें शूद्रके संयोगसे आयोगवी होती है, आयोगवीमें ब्राह्मणसे धिग्वणक होता है यह चमड़े घोड़ोंकी पल्याण ( जीन ) तयार करै और शोभायमान बनावै, उससे जो द्रव्य मिले उससे अपना जीविका चलावै तथा यह घोड़ोंकी जीन ( पाखर ) बहुत विचित्र बनावै, यह मोची जीनगर ९४ वां है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

भस्मांकुर ८५ ।

शैवाः पाशुपताश्चैव महाव्रतपरास्तथा ॥

तुरीयाः कालमुखाः प्रोक्तास्ते वै धर्मपरायणाः ॥ १६५ ॥

आरूढपतितास्ते स्युः शूद्रापण्यांगनारताः ॥

तेभ्यश्च ताभ्यः संजाता भस्मांकुर इतीरिताः ॥ १६६ ॥

स जटाभस्मधारी च शिवलिंग प्रपूजयेत् ॥

ताबूलभक्षणं द्रव्यं गावः क्षेत्राणि शालिनी ॥ १६७ ॥

शिवाय प्राणिभिर्दत्ता अन्यत्किमपि भक्तितः ॥

चण्डीशं तदिति ख्यातं तेम तस्येह जीवनम् ॥ १६८ ॥

धारयेच्छिवनिर्माह्यं भक्त्या लोभान्न धारयेत् ॥

अक्षयान्नरकं गच्छेद्भूषणाच्चैव भूठधीः ॥ १६९ ॥

शिव पाशुपत महाव्रतवाले जोश्रे काठमुत्र यह जो अपने जिस जिस धर्ममें परायण होते हैं ॥ १६५ ॥ वे अपने धर्ममें परायण हुए यदि परायण पतित होकर शूद्रा वा वैश्यामें रमण करे, और उनसे उन शूद्रा वा वैश्यामें संतान हो तो वह अस्मांकुर कहाती है १६३ ॥ वे जटा और भस्म धारण किये शिवकी आज्ञाविकार्य पूत्र, तांतुल गक्षणके द्रव्य मिठाई पूरी आदि तथा गो क्षेप ॥ १६७ ॥ शंकरके निमित्त जो कुछ भी निर्गति अक्तिपूर्वक दिया है, यह सब चण्डोश अस्मांकुर ग्रहण करने यदा इनकी आज्ञाविकार्य है ॥ १६८ ॥ यह शिवनिर्माह्य इनको अक्तिसे धारण करना चाहिये जोश्रे नडां धारण कि जैसे शिव निर्माह्य भक्षण करनेसे नरक ( संसारमें पान ) होना कदा गया है तथा अपने निमित्त शंकरके भूषणोंमेंसे जोश्रे बनाना भी भूषणा है, इसमें परम अक्तिसे शिवके प्रसाद रूपसे ग्रहण करना चाहिये, यह चण्डोश लोकागुरु अठ्ठवाच्य है, शिव पाशुपतोंके धर्म शिवरहस्यमें लिखे हैं ॥ १६९ ॥

( क्षेमक पडदाग, द्वारवटेकारु ) ८६

क्षत्रिणी शूद्रसंयोगात् क्षतारं जनयेत्सुतम् ॥

उग्राशूद्र्यां सभुत्पन्ना क्षत्रियादेव केवलात् ॥ १७० ॥

क्षतुरुग्रा च जनयेत् क्षेमकं तनयं क्षितौ ॥

स शूद्रधर्ममदृशो द्वाररक्षास्य जावनम् ॥ १७१ ॥

क्षत्रियामें शूद्रके संयोगसे क्षत्तानामक सन्तान होती है, और केवल क्षत्रियसे शूद्रामें उत्पन्न सन्तान उग्रा कहाती है, क्षत्तसे उग्रामें जो सन्तान होती है वह क्षेमक कहाती है, वह शूद्र धर्मके समान द्वाररक्षाका काम करे ॥ १७० ॥ १७१ ॥

भृकुंश ८७ ।

क्षत्रिणीवैश्यसंयोगाज्जातो मागधकाभिवः ॥

वैश्याशूद्रसमायोगाद्भवेदायोगवः सुतः ॥ १७२ ॥

मागधायोगवाभ्यां च भृकुंश इति जायते ।

स वर्णबाह्यो धर्मेषु सम्यक् संगतिकोविदः ॥ १७३ ॥

कान्तानां नृत्यशालासुनृत्यं लाल्यं च शिष्येत् ॥

जीविका तस्य कथिता तद् द्रव्यं नृत्यकारणात् ॥ १७४ ॥

वैश्यके संयोगसे क्षत्रियामें उत्पन्न संतान मागध कहाती है, और वैश्यामें शूद्रसे आयोः

गव पुत्र होता है, मागध और आयोगव जो सन्तान होती है वह भृकुंश कहाती है, यह धर्मोंमें वर्णसे बाहर हैं, संगीत शास्त्रमें कुशल होता है, नृत्यशालामें यह स्त्रियोंको संगीत नृत्य और लास्य ( नृत्यनाट्य भेद सिखावै; ) उनसे जो द्रव्य मिल यही उनकी आजीविका है ॥ १७२-१७४ ॥ यही लोकमें नट्या कहाता है ८७ वां है ।

वानगर निर्मण्डलिक ८८ ।

आभीरीनर्तकाभ्यां यो ग्राम्यधर्मेण जायते ॥

शराणां कंकपत्रैश्च रचना तस्य जीवनम् ॥१७५॥

अभीरीमें नर्तकद्वारा जो ग्राम्यधर्मसे उत्पन्न होता है वह निर्मण्डलिक वा वानगर कहाता है, यह बाणोंमें कंकपत्र लंगाकर अपना आजीवन करै, यही तीरगर और कमानगर कहाते हैं, कमानगर अपना वंश माकण्डेय ऋषिसे चला बताते हैं, परन्तु यह बात प्रामाणिक नहीं है ॥ १७५ ॥

वेन ८९ ।

द्विजवैश्यासमायोगाज्जाताम्बुष्ठा पुरंध्रिका ॥

ब्राह्मण्यां जायते वैश्याद्योऽसौ वैदेहिकाभिधः ॥१७६॥

साम्बुष्ठा जनयेत्पुत्रं वैदेहाद्रेणसंज्ञकम् ॥

स शूद्रधर्मरहितोऽभ्यसेन्नाट्यं सलाघवम् ॥१७७॥

जीविका तस्य विहिता हरिमेखलकारणे ॥

विजयादशमीघस्र एतत्कारणमुच्यते ॥१७८॥

ब्राह्मण पुरुषसे वैश्य जातिकी स्त्रीमें अम्बुष्ठा होती है उसीका नाम पुरंध्रिका है ब्राह्मणीमें वैश्यसे उत्पन्न वैदेहिक होता है, उस अम्बुष्ठामें वैदेहिकसे वेण नामवाला पुत्र होता है, यह शूद्रधर्मसे रहित लाघवतासे नाट्यशास्त्र सीखै, यह तलवारकी म्यान वा घोडेकी मेखला बनावै, चन्द्रावलिकार लाघवी कहाता है, ८९ वां विजयादशमीको इसके शस्त्रोंकी पूजा होती है ॥ १७६-१७८ ॥

शुद्धमार्गक, मार्दली ९० ।

वैश्याक्षत्रियसंयोगान्माहिष्या जायतेऽगना ।

क्षत्रिणीवैश्यसंयोगाज्जातोऽसौ मागधाभिधः ॥१७९॥

स मागधो माहिष्यायाः शुद्धमार्गकसंज्ञकम् ।

जनयेत्तनयं सोऽपि शूद्रधर्मविनाकृतः ॥ १८० ॥



( ४५८ )

जातिभास्करः-

गीतं चतुर्विधं वाद्यमभ्यसेजीवनाय च ॥१८१॥  
( संगीतशास्त्रोक्तं ज्ञेयम् शुद्धमार्गकः मार्दली )

वैश्यामें क्षत्रियके संयोग माहिष्या स्त्री होती है, और क्षत्रिणीमें वैश्यसे मागध होता है, मागध माहिष्यासे शुद्धमार्गकसंज्ञक पुत्र उत्पन्न करता है यह पुत्र शुद्धधर्मसे भी रहित है, यह अपने जीवनके लिये गीत और चार प्रकारके वाजोंका अभ्यास करे, यह संगीत शास्त्रमें शुद्धमार्गक कहाता है, मार्दली इसीका नाम है ॥ १७९-१८१ ॥  
( यह ९० नव्वेवां है )

भैत्रेय ९१ ।

शूद्रादायोगवी जाता वैष्यायामिति विश्रुता ।  
ब्राह्मण्यां वैश्यजनितः स च वैदेहिकः स्मृतः ॥१८२॥  
आयोगवी सा वैदेहान्मैत्रेयं जनयेत्सुतम् ।  
स्यादुषासमये नित्यं घण्टावादनतत्परः ॥१८३॥  
प्रबोधं नागराणां च कुर्यान्मंगलनिस्वनैः ॥  
कलितं भैरवीं गायन् धनं तत्तस्य जीवनम् ॥१८४॥

वैश्यामें शूद्रसे आयोगवी होती है, और ब्राह्मणीमें वैश्यसे वैदेहिक होता है, वह आयोगवी वैदेहिकसे जिस पुत्रको उत्पन्न करे वह भैत्रेय होता है, वह सवेरेके समय उपा कालमें लोगोंको जगानेके लिये निरन्तर घण्टा बजाया करे, तथा मंगलगात गाकर जगावे, तथा प्रभातकी भैरवी गानेसे जो धन मिले वही उसका आर्जाविका है ॥ १८२-१८४ ॥  
( यह प्रातर्गायक भैत्रेय ९१ इत्थानववां है )

मंगुष्ठ ९२ ।

कैवर्तजंघकाभ्यां यो जातो मंगुष्ठसंज्ञकः ॥  
स स्फोटयेद्वै खडकान् कृत्वा चूर्णं विशेषतः ॥१८५॥  
तद्धनं जीवनार्थाय सोऽपि कुर्यान्निरन्तरम् ॥  
न तत्स्पर्शः प्रकर्तव्यः कदाचिदपि मानवैः ॥१८६॥

कैवर्तसे जंघका नामक स्त्रीमें मंगुष्ठसंज्ञक पुरुष होता है, यह बड़े बड़े लठ्ठीको चीर फाडनेसे जो धन मिले वही इसका जीवन है इसका स्पर्श मनुष्योंको नहीं करना चाहिये ॥ १८५ ॥ १८६ ॥

चित्रकार ९३ ।

कुंभकारधिग्वणीसंगात्पुत्रो यस्तु प्रजायते ॥  
स चित्रकारो लोकेऽस्मिन्नामतः परिकीर्तितः ॥१८७॥  
चित्राणि प्रतिबिम्बानि पुरुषाकृतिमेव च ॥  
यत्तद्विक्रयतो लब्धं धनं तस्येह जीवनम् ॥१८८॥

धिग्वणीमें कुम्भकारसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह लोकमें चित्रकार नामसे विख्यात है ॥ १८७ ॥ वह पुरुषादिके चित्र लेखनीद्वारा तथा प्रतिबिंब ( फोटोग्राफी ) उतारै उससे जो धन मिलै उससे आजीविका करै ॥ १८८ ॥ यह प्रतिबिम्ब कर्ता भडोवा चितेर नामसे विख्यात है ।

अहितुंडिक सपीलिये गारुडी ९४ ।

वदैही तनयं सूते निषादादहितुंडकम् ॥  
सप्तानामन्त्यजातीनां स धर्मं सदृशः स्मृतः ॥१८९॥  
महाफणीन्करंडेषु क्षिप्त्वा विषधरान्बहून् ।  
तैः खेलनं जीविका तु कथितास्य विशेषतः ॥१९०॥

निषादसे वैदेहिक जातिकी स्त्रीमें अहितुण्डक होता है यह सात अन्त्यज जातियोंके समान धर्मवाला है ॥ १८९ ॥ यह बड़े बड़े विषधर सांपोंको पिटारियोंमें रखकर तमाशा दिखावै और उस तमाशेसे मिले धनसे अपनी आजीविका चलावै ॥ १९० ॥

सौष्कल ( कलाल ) ९५ ।

अभीरीवेनसयोगात्सौष्कलं जनयेत्सुतम् ॥  
असावधर्म इत्युक्तः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥  
सुरां कृत्वा विक्रयीत कुर्यात्तद्धनजीवनम् ॥१९१॥

आभीरीमें वेनके संयोगसे सौष्कल नामक पुत्र होता है, यह सुराकरण अधर्म है इस कारण यह सब धर्मोंसे बाहर है, यह सुराकर्ता लोकमें कलाल कहाता है ।

इराकी—कोई इनको राकी भी कहते हैं यह कलवारोंकी सन्तान अपनेको कहते हैं, यह अपना निकास पारसियोंसे बताते हैं उनके इराक प्रांतसे निकास बताते हैं यह तमाखूका भी धंधा करते हैं गोरखपुरमें इस जातिके बहुतसे प्रतिष्ठित लोग हैं ।

इदिगा—यह दक्षिणदेशमें ताड़ी खेंचनेका काम करनेवाली जाति है । कलवार—यह जाति युक्तप्रदेश बिहार बंगाल आदि प्रांतोंकी है, इनके यहां शराब खेंचना और बेचनेका व्यवसाय बहुत पुराना है, परन्तु आजकलके कुछ इस जातिके सज्जन इस कामसे सर्वथा पृथक्

होगये हैं, वे दूसरे व्यवसाय भी करते हैं और अपने आपको मद्यका व्यवसायी नहीं मानते । शास्त्रमें मद्यके व्यवसायीको तो शौण्डिक, तथा सुराकर्ता, सौष्कल, कलाल आदि कहा है, वह तो अवश्यही संकरजाति हीन धर्म है, और महाजन शब्द अब भी कलवारोंके लिये प्रयुक्त होना है इनके भेद गुलहरे, तीनवारे, मानवारे, मोहारे, गडपति या आदि हैं । यह जाति कहीं भंडारी कहीं झुण्डी कहानी है । राजपूताना और युक्तप्रान्तके कलाल अपनेमें क्षत्रियत्व मानते हैं कहीं पूर्वमें अपनेको वैश्यवर्णमें मानते हैं, तात्पर्य शास्त्रका मत यह कि मद्यका व्यवसाय निन्दित कर्म है इस कार्यके करनेवाले संकरजातिके ही शौष्कल आदि थे, परन्तु यदि वैश्यजाति आदिने पहले इस कार्यका व्यवसाय किया हो तो वह निन्दित मानी जानेलागी हो, पाँके वह वैश्यादि अपना योग्यतापर पहुँचनेकी इच्छा करते हों तो वह दूसरी बात है । कोई २ वाथम और मोहर इसी जातिका भेद मानते हैं इनका वर्णन हम आगे चल्कर करेंगे ।

गमला तैलंग जातिमें शराब खेचने और बेचनेवाले गमला कहाने हैं । दक्षिण देशमें शराब खेचने और लार्डीका धंधा करनेवाली एक जाति है, वह गौदला कहाती है इनकी संख्या वहां २३५९०२ है इनमें बहुतसे धनाढ्य तथा दूसरा रोजगार करनेवाले भी हैं मुम्बई प्रांतमें यही गन्दला कहाती है ।

घोलिक ( कैकडा मूपकान्तक ) ९६ ।

व्याधाहितुंडकाभ्यां यो जातो घोलिकसंज्ञकः ॥

स कुर्यान्मूषकादीनां हननं भूमिवासिनाम् ॥

( १९९ ) विलेशयानां सर्वेषामन्येषामपि सर्वतः ॥

त्तनेभ्यो याचयेद्वित्तं तेन तद्वर्तनं स्मृतम् ॥

घोलिको धर्मरहितः कथितो मूपकान्तकः ॥२००॥

व्याघसे अहितुंडकी स्त्रीमें घोलिक जातिका पुरुष होता है, बिलमें रहनेवाले चूड़ोंको मारना इसका काम है तथा बिलके सिवाय अन्यत्र भी चूड़े मारना इसका काम है तथा अन्य बिलशरी जीवोंका भी वध करना काम है इसी कर्मसे धन बिलसेसे यह आजीविका करै, यह मूपकान्तक धर्म रहित है, वह कैकडा भी कहाता है ॥ २०० ॥

यावासिक ९७ ।

पुलकसस्त्रियां पुलकात्सूते यावासिकाभिधम् ॥

स कुर्यात्तुरगादीनां शस्येनैव च वर्तनम् ॥

जीवनं तस्य निर्दिष्टमसौ साकल्यकर्मकृत् ॥२०१॥

पुलकसे पुलकसकी स्त्रीमें यावासिक उत्पन्न होता है, यह घोड़ोंको घास दाना खिलानेपर

नौकर होता है, और भी घोड़ेका खुरैरा आदि सब कर्म यह करै इसीसे इसका आजीवन चलता है ( यह कवाडी यावासिक ९७ वां है ) ।

तुरुष्कः ( यवन ) ९८ ।

मेदस्य वंशवनिता संगता तेन चेदिह ॥  
सा सूते यवनं पुत्रं तुरुष्कः स प्रकीर्तितः ॥ (२०)  
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्तु गोवधो नाति शास्त्रतः ॥  
तेषां हि निष्ठुरत्वेन जीवनं संप्रकीर्तितम् ॥२०२॥

मेद वंशवनिताकी संगतिसे यवन वा तुरुष्क नामक पुत्रको उत्पन्न करती है ( सोत्ति-  
विष्ठुरः ) और वह निष्ठुर बहुत होता है यह म्लेच्छ देशोंके समीप निवास करै, शास्त्रमें  
विहित न होनेपर भी गोवध करते हैं निष्ठुरताही इनकी आजीविका है ॥ २०२ ॥

लाट ( वैश्य ) ९९ ।

वैश्यायामेव विव्रायां विकर्मस्थाच्च वैश्यतः ॥  
लाटदेशे समुत्पन्नो लाट इत्यभिधीयते ॥  
स वैश्य इव विज्ञेयश्चामराणां च विक्रयी ॥२०३॥

विकर्म वैश्यसे विकर्म वैश्यामें लाटदेशमें उत्पन्न पुरुष लाट ( लाड ) संज्ञावाला होता है,  
यह धर्ममें वैश्योंके समान चमर वेंचनेवाला होता है ॥ २०३ ॥

लिंगायत १०० ।

त्रात्यवैश्यसमुत्पन्नो वैश्यायां व्यभिचारतः ॥  
विभूतिं धारयेद्भालेकण्ठे लिंगं प्रपूजयेत् ॥२०४॥  
मरिचहिंशुसामुद्रजीर्णोर्णापटविक्रयः ॥  
जीविका तस्य कथिता शूद्रधर्माधिकोऽपि सः ॥२०५॥

त्रात्य वैश्यसे व्यभिचारिणी वैश्यामें लिंगायत होता है यह मस्तकमें विभूति धारण  
करनेवाला और गलेमें शंकरकी प्रतिमा लटकाये रहता है, काली मिर्च, हींग, समुद्रफेन  
( समुद्रझाग ) जीरा तथा बख्नोंमें ऊनी कपड़ेके व्यवसायी होते हैं ( यह सौ १०० वां  
है ) ॥ २०४ ॥ २०५ ॥

द्विजातयः सवर्णेषु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् ।  
तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥

( मनु० २०६ )

ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सवर्णा स्त्रियोंमें जिन सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं यदि उनका समयपर यज्ञोपवीत आदि संस्कार न हुआ हो तो उनको व्रात्य कहते हैं । इनमें ब्राह्मणको तो देवपूजाका विधान कहा है अवशिष्टोंकी वृत्ति उशनाने क्लीवी है ।

**व्रात्यजैरन्धैः परराष्ट्राणां कोशमन्त्रवृत्तज्ञानं मित्रामित्रञ्च ज्ञेयम् ॥**

अर्थात्—दूसरे जो व्रात्य हैं वे परराष्ट्रके कोश मंत्रका विज्ञान तथा कौन मित्र कौन अमित्र है इस भेदको क्ले उग राजाकी ओरसे विचारें ।

आवर्तक, कटधान १०१ ।

**जागिविवेके—ब्राह्मण्यां भूर्जकंठाच्च सुतस्त्वावर्तको भवेत् ।**

**ब्राह्मणावर्तकाभ्याञ्च पुत्रः स कटधानकः ॥ २०७ ॥**

ब्राह्मणीमें भूर्जकंठसे आवर्तक पुत्र होता है और आवर्तकसे ब्राह्मणोंमें कटधान होता है ॥ २०७ ॥ ( यह कटधान कहीं कदाचिन् धनकृष्टे हों )

पुष्पशेखर १०२ ।

**ब्राह्मण्यां कटधानेन सूतोऽपौ पुष्पशेखरः ॥ २०८ ॥**

ब्राह्मणीमें कटधानसे पुष्पशेखर पुत्र होता है यह लोकभाषामें वैष्णव कदाता है ॥२०८॥

**वर्ण्यौ हरिहरौ तैश्च गीतगाथाप्रबन्धकैः ।**

**चरितैर्देशभाषाभिर्ज्ञेयं तज्जीविका स्मृता ।**

**लोकाचाराः स्मृतास्तेषां शूद्रवर्माद्भिः क्वचित् ॥**

इन भूर्जकण्ठादिही वृत्ति इस प्रकार है कि यह देशभाषामें शिव विष्णुका यश वर्णन करें यही इनकी आजीविका है यह लोकाचारकी समानतासे ब्राह्म हैं, शूद्रवर्मासे बाहर हैं ।

मंगुकी वृत्ति १०३ ।

**क्षत्रियकन्यकावैश्याज्जनयामास वंदिनीम् ।**

**स वंदिनीद्विजात्सूते मंगुतावडिकाभिधम् ॥ २१० ॥**

**नगरग्रामदेशस्थान्धृत्वा चौरापराधिनः ।**

**संक्षिपेद्भ्रवनागारेष्विच्छेत्ता वृत्तिमात्मनः ॥ २११ ॥**

क्षत्रियकन्यामें वैश्यसे वंदिनी कन्या होती है वह वंदिनी द्विज मंगुतावडि पुत्रको उत्पन्न करती है यह नगर, ग्राम, देशके अपराधी चोरोंको पकड कर बन्धनागारमें डालते हैं, इसीसे राजासे वृत्ति पाते हैं ॥ २१० ॥ २११ ॥

**सुग्राः शूद्रासमुत्पन्नाः क्षत्रियादेव केवलात् ।**

**सोग्रा निषादसंयोगाज्जाधिकं जनप्रेतुतम् ॥ २१२ ॥**

स शूद्रधर्मरहितो द्विजानां लेखहारकः ॥  
देशदेशान्तरं गच्छेच्छीघ्रञ्चरणवेगतः ॥  
साजीविकास्य विहिता जाधिकस्य विशेषतः ॥२१३॥

केवल क्षत्रियसे शूद्रामें उग्रा जातिकी स्त्री होती है वह उग्रा निषादके संयोगसे जाधिक जातिके पुत्रको उत्पन्न करती है, यह शूद्रधर्मसे द्विजातिकी चिट्ठी लेजानेका काम करता है यह पैरोंके बलसे शीघ्र ही देशदेशान्तरोंमें गमन करता है, और इसी कर्मसे इसकी आजीविका चलती है ॥ २१३ ॥ यह धावन वा दूतक होता है ।

कुशीलवः चारण १०४ ।

ब्राह्मण्यां वैश्यपुरुषाज्जाता वैदेहिका मता ।  
विप्राद्रैश्यांगनाजातोऽम्बष्ठ इत्यभिधीयते ॥२१४॥  
स वैदेही स चाम्बष्ठस्तयोर्जातः कुशीलवः ॥  
नृत्यकर्ता स गीतज्ञो देशदेशान्तरं व्रजेत् ।  
सास्य वार्तात्रकथिता चारणस्य स्वयंभुवः ॥२१५॥

ब्राह्मणोंमें वैश्यसे वैदेहिका कन्या होती है, ब्राह्मणसे वैश्यस्त्रीमें अम्बष्ठ होता है, वह वैदेहिकी अम्बष्ठसे कुशीलव पुत्रको उत्पन्न करती है यह गीताज्ञाता नृत्य करनेके निमित्त देशदेशान्तरमें गमन करता है, स्वयंभूने इसका नाम चारण रखकर इसकी यही वृत्ति निर्दिष्ट की है ॥ २१५ ॥

अन्य श्वपच, भंगी, मेहतर, १०५ ।

ब्राह्मणं हन्ति यच्छूद्रस्तं सुशल्यं विदुर्बुधाः ।  
तत्संयोगात्तीवरस्त्री जनयेत्तनयांस्तु यान् ॥२१६॥  
श्वपचास्ते समाख्याता वृत्तिर्वीथिषु मार्जनम् ।  
तथा नगरवासीनां विद्गृहाणां प्रमार्जनम् ॥२१७॥  
अपराह्णे तथा सायं तदुच्छिष्टं समानयन् ।  
सर्वे ते भोजनं कुर्युर्मृतकर्पटसंग्रहम् ॥  
इति तेषां जीविका च कथिता विश्वकर्मणा ॥२१८॥

जो शूद्र ब्राह्मणको ताड़न करै उसे सुशल्य कहते हैं, उसके संयोगसे तीवरकी स्त्री जिन सन्तानोंको उत्पन्न करै वे श्वपच भंगी कहाते हैं, सड़क गली आदि स्थानोंमें सायंप्रातर्बुहारी देना तथा नगर निवासियोंके घरोंमेंसे विष्टाकमाना, प्रातःसायं घरोंमेंसे बची रोटी और जूठनको ले आना तथा मृतकके वस्त्रोंको लेना और जीर्णवस्त्र हाथमें ले बचा हुआ

भोजन करना इनकी आर्जाविका है। ऐसा विश्वकर्मानि विधान किया है ॥ २१६--२१८ ॥ यह समस्त वर्णन जातिविवेक नामक ग्रन्थमें लिखा हुआ है इनके वस्त्र विभूषणोंका वर्णन आगे करेंगे अब ब्रह्मवैवर्त पुराणमें जातिविषय एक अध्याय कहा गया है उसका वर्णन करते हैं, जातिविवेकका प्रकरण यहां समाप्त हुआ, यह गोर्पानाथका संकल्पित है।

सत उवाच !

बभूवुर्ब्रह्मणो वक्रादन्या ब्राह्मणजातयः ॥  
 ताः स्थिता देशभेदेषु गोत्रशून्याश्च शौनक ॥२१९॥(१४)  
 चन्द्रादित्यमनुभ्यश्च प्रवराः क्षत्रियाः स्मृताः ॥  
 ब्रह्मणो बाहुदेशाश्च वान्याः क्षत्रियजातयः ॥२२०॥(१५)  
 ब्रह्मणो बाहुदेशाच्च वान्याः क्षत्रियजातयः ॥  
 ऊरुदेशात्तु वैश्याश्च पादतः शूद्रजातयः ॥  
 तासां संकरजातेन बभूवुर्वर्णसंकराः ॥२२१॥(१६)  
 गोपनापितभिल्लाश्च तथा मोटककूबरो ॥  
 ताम्बूलीपर्णकागौ च तथा वै वैश्यजातयः ॥२२२॥(१७)  
 इत्येवमाद्या विष्टेन्द्र सच्छूद्राः परिकीर्तिताः ॥  
 शूद्राविशोस्तु करणाम्बुष्टौ वैश्याद्विजन्मना ॥२२३॥(१८)

( ब्रह्म वै० अ० १० )

ब्रह्माजीके मुखसे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई, है शौनक। वह अनेक देशोंमें निवास करनेके कारण उस देशके नामवाले होगये। पितृभक्त सुदूर देशोंमें जाकर गोत्रशून्य होगये ॥ २१९ ॥ क्षत्रियोंके प्रवर चंद्र, सूर्य, मनुमें आरम्भ हुए, क्षत्रिय जानि ब्रह्माकी भुजाओंसे प्रगट हुई ॥ २२० ॥ ऊरुदेशसे वैश्य और चरणोंसे शूद्र हुए हैं, इन वर्णोंके परस्पर समागमसे संकरजातियें हुई हैं ॥ २२१ ॥ गोप, नाई, भिड़, मोटक, कूबर, ताम्बूली, वारी, वंजारा इनको सव शूद्र कहा है, शूद्रोंमें वैश्यसे करण और ब्राह्मणसे वैश्यामें अम्बष्ठ होता है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥

विश्वकर्मा च शूद्रायां वीर्याधानं चकार सः ॥

ततो बभूवुः पुत्राश्च नवेति शिल्पकारिणः ॥२२४॥

( पुराण श्लो० १९ )

मालाकारशंखकारकर्मकारकुविन्दकाः ॥

कुम्भकारः कांस्यकारःषडेते शिल्पिनां वराः ॥२२५॥

विश्वकर्माने शूद्रमें वीर्याधान किया, उससे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, वे माली, शंखकार, कर्म-  
कार, कुविन्दक, कुम्भकार, कांस्यकार यह छः तो शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हुए ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

**सूत्रधारश्चित्रकारः स्वर्णकारस्तथैव च ॥**

**पतितारस्ते ब्रह्मशापादयाज्या वर्णसंकराः ॥ २२६ ॥ (२१)**

सूत्रधार, चित्रकार और स्वर्णकार ( सुनार ) यह तीन ब्रह्मशापके कारण पतित गिनेजाते  
हैं, यह अयाज्य हैं अर्थात् यज्ञकर्मका इनको अधिकार नहीं है स्वर्णकारके पतित होनेका  
हेतु कहते हैं ॥ २२६ ॥

**स्वर्णकारः स्वर्णचौर्षाद्ब्राह्मणानां द्विजोत्तम ॥**

**बभूव पतितः सद्यो ब्रह्मशापेन कर्मणा ॥ २२७ ॥ (२२)**

हे द्विजोत्तम ब्राह्मणोंका सोना चुरानेके कारण ब्रह्मशापसे स्वर्णकार तत्काल पतित हुआ  
॥ २२७ ॥ थोडासा यदां यह विषय लिखदेना उचित है कि यह शूद्रा कौन थी यह शूद्रा  
घृताची नाम अप्सरा थी इन्द्रलोकमें एक समय विश्वकर्माने इससे रति मांगी तब इसने कहा  
कि आजके दिन मैं दूसरेकी हो चुकी हूं इसपर क्रुद्ध होकर कहा—

**शशाप शूद्रयोन्यां च व्रजेति जगतीतले ।**

( अ० १० श्लो० ५८ )

**घृताची तद्वचः श्रुत्वा तं शशाप सुदारुणम् ।**

**लभ जन्म भवे त्वञ्च स्वर्गभ्रष्टो भवेति च ॥५९॥**

**सा भारते च कामोत्तया गोपस्य मदनस्य च ॥**

**पत्न्यां प्रयागे नगरे ललाभ जन्म शौनक ॥६१॥**

( ब्रह्मवै० ब्रह्मस्व० )

तब उसने शाप दिया कि या तू संसार मर्त्यलोकमें शूद्रयोनिमें जन्म ले, तब घृताचीने  
भी क्रोधकरके उसको शाप दिया कि तुम भी स्वर्गलोगसे भ्रष्ट होकर मनुष्य योनिमें जन्म  
ले, अप्सरा तो गोपके घर जिसका नाम मदन था, प्रयागमें उत्पन्न हुई ।

**ललाभ जन्म ब्राह्मण्यां पृथिव्यामाज्ञया विधेः ॥६७॥**

**स एव ब्राह्मणो भूत्वा भुवि कारुर्बभूव ह ॥६८॥**

और विश्वकर्माने पृथिवीमें ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया और एक दिन उस अप्सराके  
मिलनेपर कहा—

**अहोऽधुना त्वमत्रैव घृताचि सुमनोहरे ॥**

**मा मां स्मरसि रंभोरु विश्वकर्माहमेव च ॥ ७३ ॥**



शापमोक्षं करिष्यामि भजं मां तव सुन्दरि ॥७४॥  
जगाम तां गृहीत्वा च मलयं चन्दनालयम् ॥८५॥  
सा सुषाव च तत्रैव पुत्रान्नव मनोहरान् ॥८८॥

हे घृताचि अब तक तुम यहीं हो कया मुझे स्मरण नहीं करती कि मैं विश्वकर्मा हूं, अब तुम मुझे भजो तो शाप मोक्ष होगा, यह कह कर मलयपर्वतपर उसको ले गया, और कुछ कालतक उसके साथ विहार किया वहां उसके नौ पुत्र हुए, यह नौके नौ शिल्पकार हुए, विश्वकर्मा इनको शिक्षा देकर स्वर्गको गये, और वह घृताची भी अपने स्वरूपको प्राप्त होकर स्वर्गको गई, ब्राह्मणसे शूद्रमें पारशय वर्ण होना है, वह स्वर्णकारी भी करता है, मनुजीके श्लोकानुसार " ब्रह्महत्या मुरापानं स्तेयं गुर्वहनागमः । महाति पातकान्याहुः संसर्गाश्चापि तैः सह" ( ११ । १५ ) सुवर्ण की चोरी ब्रह्महत्याके समान लिखी है और हम समय भी यह सुवर्णस्तेय बहुतायतमें है, तत्र पूर्वकालमें ब्राह्मणका सोना चुरानेसे यह असर्ग स्वर्णकार जाति पतित हो गई, और अब तक हो, तो इसमें संदेह क्या है परन्तु इस समय इस जातिमें भी बहुत गोलमाल उपस्थित हुआ है, दूसरी जातिके लोग भी सुवर्णकारकी पेशा करने लगे हैं, और पूर्वकालसे भी अन्य जाति इनमें संमिलित हो गई हैं, वामनिये मुनार, क्षत्रिय मुनार, वैश्य मुनार, रस्नौगी मुनार, अजमीद मुनार, मेढ मुनार, आदि अनेक भेद पाये जाते हैं, क्या यह सबही पतित गिने जायंगे या सब उस जाति के समान हो जायंगे, इसपर कहना तो यही बनता है, कि अन्यायसे सुवर्णका काम करनेवाला दो चावल भी यदि रोना चुराता है तो वह पतित है, अन्यथा वह ऐसे पतितोंकी संगतिसे धर्मशास्त्रके अनुसार दूषित हो सकता है, हम यदि इन बातोंको त्यागकर इन जातियोंकी वंशावलियोंको देखते हैं, तो स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि इन वंशावलीवालोंने जाति सम्बन्धी एक प्रमाण भी न देकर अटकलपच्चू बातोंसे अपने भाइयोंका पैसा नष्ट किया है, किसीने मनु, आदिको प्रशिक्ष श्लोकोंमें भरा बताकर दयानन्दजीकी बढ़ीलत अपनी उन्नति मानी है, किसीने विश्वकर्मा शब्द वेदमें देखते ही उसको अपना पूर्वऋषि माना है, कोई योगसे जांगडा बनगये हैं, कोई व्याकरणमें उहा-दिसे अपना शब्द सिद्धकर कृतार्थ हो रहे हैं, दूसरे वंशोंके कुल गोत्रोंकी नकल अपने वंशमें मिला रहे हैं, हमारे सामने ऐसी कई पुस्तक हैं, यथा ब्रह्मभट्ट प्रकाश, आचार्यदर्पण, विश्वकर्मवंशनिर्णय, जांगडोत्पत्ति, मेढमीमांसा आदि इनमें हम सार कुछ भी नहीं पाते, इस समय मेढमीमांसा सामने है, इसमें ४४ पृष्ठ हैं, बीस पृष्ठमें भूमिका है, भूमिकामें अपने राजाधिराजके गुण वर्णन हैं, इसके आगे १६ पृष्ठ तक ब्राह्मणादिके लक्षण लिखे हैं, १७ पृष्ठमें मरुत राजके लिये वर्तन आदिका बनाना लिखकर कह दिया कि हम इसी वंशमें हैं, कुछ क्षत्री, परशुरामके भयसे सुवर्णकारी करने लगगये । आगे मरुतका वंश थोडा

लिखकर लोगोंकी संमति लिख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकर्मवंशप्रकाशमें है, ब्राह्मणोंकी निन्दा दयानंदजी और उनके अनुयायियोंकी प्रशंसासे पुस्तक भरी पडी है; पीछे संस्कारोंका आढम्बर किया गया है, पूछना है कि इसमें आपके वंशकत खुलासा किस प्रमाणसे है, और वह कहां लिखा है, हमारी अभिलाषा किसी निंदा वा हानिमें नहीं है, न हम पक्षपात करते हैं पर आपके लाभके लिये कहते हैं कि जब चार भाइयोंका पैसा लगाते हो तब जातिके हितकी उस उद्देशकी पूर्ति भी तो कीजिये यदि आप प्रमाण लिखें तो हम सादर अपने ग्रंथोंमें लिखनेको तैयार हैं । ( अभी विचार-कोटीमें हैं ) ( मेढमीमांसा पृ० २७ )

सुवर्णकार क्षत्रिय राजपूत वंशमेंसे हैं ।

मरुत्तस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।  
मरुत्पतिसमा वीर्ये समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥  
एते क्षत्रियदायादास्तत्रतत्र परिश्रुताः ॥  
द्योकारहेमकारादिजातिं नित्यं समाश्रिताः ॥

( महाभा० राजधर्म० अ० ४९ श्लो० ८३-८६ तक )

मरुत् राजाके वंशमें जो क्षत्रिय हुए वह वीर्यमें मरुत्पतिके समान थे और परशुरामके भयसे इधर उधर भाग गये उनकी समुद्रने रक्षा की, तथा उनमेंसे बहुतसे प्रसाद निर्माण करनेवाली तथा सुवर्णकार जातिके आश्रय होकर रहे, इन महाभारतके श्लोकोंसे यह बात प्रगट है कि द्योकार और हेमकार आदि जाति इसके पूर्वमें भी विद्यमान थीं उन्हींके स्थानोंमें यह लोग भी जाकर यही काम करते हुए रह गये, परन्तु पृथिवीने कश्यपसे कहा है उनको पुनः राज्यपर स्थापन करो, परशुरामका भय मिट जानेसे कश्यपने फिर वैसा किया, यह बात समझमें नहीं आती, राजप्राप्ति छोडकर भी तथा आपत्ति दूर होनेपर भी संस्कारको प्राप्त हुई क्षत्रिय जाति फिर भी सुनारका काम करनेकी इच्छा करती रही हो, परन्तु यदि कोई दूसरी जातिने यह काम स्वीकार किया है तो हम उनको असली सुनार बनानेकी इच्छा भी नहीं करते, राजा मरुत् सोने आदिके बर्तन बनाया नहीं करता था किन्तु बनानेवाले दूसरे थे, वह तो पुण्य करता था, सुनारोंमें मेढ और टांक यह दो भेद हैं कोई २ ऐसा कहते हैं कि मेढ भाटी एक राजपूतोंकी शाखा है, हम मेढसुनार भी राजपूत हैं, किन्हींका यह कहना है कि—

बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम् ।  
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः ।  
अजमीढस्य वंशाः स्युःप्रियमेघादयो द्विजाः ॥

बृहत्क्षत्रके पुत्र हस्ती हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया उनके अजमीढ, द्विमोढ और ध्रुवमीढ यह तीन पुत्र हुए, अजमीढके वंशमें प्रियमेघादि ब्राह्मण हुए । इसमें अजमीढने मेढराजपूतवंश चलाया इनका निवास स्थान मेहरवाडा प्रसिद्ध है; यहां मेढराजपूतवंश अब भी विद्यमान है ।

इसपर हमको यह कहना है कि कहीं ऐसा भी लेख है कि अजमीढका एक कुल स्वर्णकारी करने लगा, यदि ऐसा नहीं है, तो यह क्यों न मान लिया जाय कि मेहरवाडेके रहनेवाले सुनार जाति महर—सुनार कहाती है न कि क्षत्रिय । जो कुछ हो हमको इस बातपर कोई आग्रह नहीं है कि यदि कोई अन्य जाति सुवर्णकारी करने लगी तो हम उसको असली सुनार समझें परन्तु यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि सगस्त मेढ जाति स्वर्णकार बनजाय और जो मेढ क्षत्रिय हों उनके साथ इनके ग्वानपानका कुछ भी व्यवहार न हो फिर विवाह सम्बन्धकी तो बातही क्या है, मेढसुनारोंके गोत्र भारद्वाज, सांकृत्य, गर्ग, पतञ्जलि, काश्यप, वाञ्छल, वाशिष्ठ इत्यादि लिखे हैं, परन्तु मुरादाबादके एक मेढसुनारने कांसलिया, सहस्रानिया सेढा, महर और काश्यप गोत्र बताये हैं, वस्तुमें स्वर्णकार पहले तो यज्ञोपवीत नहीं लेते थे, पर अब कुछ २ दयानन्दी समाजकी देखा देवीसे पहरते हैं, पर अब भी बहुतोंके नहीं हैं विश्वकर्माकी संतान वा पारशव असली सुनार हैं ।

**सूत्रधारो द्विजातीनां शापेन पतितो भुवि ॥**

**शीघ्रं च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ॥२२८॥(९३)**

सूत्रधारभी द्विजातियोंके शापसे पतित हुआ, कारण कि उसने यज्ञसम्बन्धी काष्ठ देनेमें बहुत ढिलाई की ॥ २२८ ॥

**व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा ॥**

**पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥२२९॥(९४)**

चित्रकारभी इसीप्रकार चित्रोंके अस्तव्यस्त बनानेके कारण ब्राह्मणोंके कोपसे पतित हुआ ॥ २२९ ॥

**कश्चिद्गणिविशेषश्च संसर्गात्स्वर्णकारिणः ॥**

**स्वर्णचौर्यादिदोषेण पतितो ब्रह्मशापतः ॥२३०॥(९५)**

इसीप्रकार कोई वणिक विशेषभी स्वर्णकारका काम करने लगा वहभी सुवर्ण चुरानेके दोषसे पतित हुआ ॥ २३० ॥

अट्टालिकाकार कोटक १०६ ।

**कुलटायाश्च शूद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः ॥**

**बभूवाट्टालिकाकारः पतितो जारदोषतः ॥२३१॥(९६)**

**अट्टालिकाकारबीजात्कुंभकारस्य योषितः ॥**

**बभूव कोटकः सद्यः पतितो गृहकारकः ॥ २३२ ॥ (९७)**

व्यभिचारिणी स्त्रीमें चित्रकारके वीर्यसे अट्टालिकाकारकी उत्पत्ति है. यह भी जारदोषसं पतित है ॥ २३१ ॥ अट्टालिकाकारके बीजसे कुम्हारकी स्त्रीमें कोटक नाम गृह निर्माण करनेवाली जाति उत्पन्न हुई यह भी पतित है । यही दोनों जातियें पहले मकान बनानेका काम करती थीं राजमिर्ची नामसे विख्यात थीं, अब अनेक जातियें इस कामको करती हैं. और अपनी उत्पत्ति कोई क्षत्रिय और कोई विश्वकर्मासे बताती हैं ॥ २३२ ॥

तैलकारः १०७ ।

**कुंभकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति ॥**

**बभूव तैलकारश्च कुटिलः पतितो भुवि ॥ २३३ ॥ (९८)**

कुंभकारके वीर्यसे कोटक जातिकी स्त्रीमें तैलकार उत्पन्न हुआ, और यह तेली भी पतित है जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार है ॥ २३३ ॥

धीवरः १०८ ।

**सद्यः क्षत्रियबीजेन राजपुत्रस्य योषिति ॥**

**बभूव धीवरश्चैव पतितो जारदोषतः ॥ २३४ ॥ (९९)**

क्षत्रियके वीर्यसे राजपुत्रकी स्त्रीमें छिपकर धीवरकी उत्पत्ति हुई है, यह भी जारदोषसं संस्कारहीन है ॥ २३४ ॥

लेटः ।

**तीवरस्य तु बीजेन तैलकारस्य योषिति ॥**

**बभूव पतितो दस्युलैटश्च पतितो भुवि ॥ २३५ ॥ (१००)**

तीवरके वीर्यसे तैलकारकी स्त्रीमें लेट जातिका पुरुष हुआ यह एक प्रकारका दस्यु संस्कारहीन है ॥ २३५ ॥

मालु, मल्ल, मातर, भज, कोल, कलन्दर ।

**लैटो धीवरकन्यायां जनयामास षट् सुतान् ॥**

**मालुं मल्लं मातरं च भजं कोलं कलन्दरम् ॥ २३६ ॥**

लेटके धीवरकी कन्यामें छः पुत्र हुए मालु मल्ल, मातर, भज, कोल और कलन्दर ॥ २३६ ॥

१ कहीं लेटस्तीवरकन्यायां पाठ है, मल्लं मन्त्रं मातरं च पाठ है, लेटके स्थानमें कहीं बट पाठ है ।

चाण्डालः ।

ब्राह्मण्यां शूद्रवीर्येण पतितो जारदोषतः ॥

सद्यो बभूव चाण्डालः सर्वस्माद्धमोऽशुचिः ॥ २३७ ॥

ब्राह्मणीमें शूद्रके वीर्यसे चाण्डाल हुआ है, यह भी जारदोषसे पतित सबसे अधम और अशुचि है ॥ २३७ ॥

चर्मकारः, मांसच्छेदी ।

तीवरेण च चाण्डाल्यां चर्मकारो बभूव ह ॥

चर्मकार्याश्च चाण्डालान्मांसच्छेदी बभूव ह ॥ २३८ ॥ ( १०३ )

तीवरसे चाण्डालीमें चमार होता है और चमारीमें चाण्डालसे मांसच्छेदी कसाई होता है ॥ ३८ ॥

कोंच, काण्डार ।

मांसच्छेद्यां चीवरेण कोंचश्च परिकीर्तितः ॥

कोंचस्त्रियां तु कैवर्तात्कर्तारः परिकीर्तितः ॥ २३९ ॥ ( १०४ )

मांसच्छेदीकी स्त्रीमें चीवरसे कोंच होता है और कोंची स्त्रीमें कैवर्तसे कर्तार होता है ॥ २३९ ॥ ( कहीं कर्तारकी जगह काण्डार पाठ है )

हड्डि, डुम ( डोंम )

सद्यश्चाण्डालकन्यायां लेटवीर्येण शौनक ॥

बभूवतुस्तौ द्वौ पुत्रौ दुष्टौ हड्डिडुमौ तथा ॥ २४० ॥ ( १०५ )

हे शौनक चाण्डालकी कन्यामें लेटके वीर्यसे हड्डि और डुम यह दो पुत्र दुष्ट प्रकृतिवाले हुए ॥ २४० ॥

वनचराः ।

क्रमेण हड्डिकन्यायां सद्यश्चाण्डालवीर्यतः ॥

बभूवुरतिदुष्टाश्च पुत्रा वनचराश्च ते ॥ २४१ ॥ ( १०६ )

हड्डिकी कन्यामें चाण्डालके वीर्यसे अतिदुष्ट स्वभाववाले वनचर हुए ।

गंगापुत्र ।

लेटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक ॥

बभूव सद्यो यो बालो गंगापुत्रः प्रकीर्तितः ॥ २४२ ॥ ( १०७ )

लेटसे तीवरकी कन्यामें गंगाके किनारे जो पुत्र हुआ वह गंगापुत्र कहाया ॥ २४२ ॥

१ कहीं ( बभूवुः पञ्च पुत्राश्च ) पाठ है । अर्थात्- पाँच पुत्र हुए ॥ २४१ ॥

युगी ।

गंगापुत्रस्य कन्यायां वीर्येण वेशधारिणः ॥

बभूव वेशधारी च पुत्रो युगी प्रकीर्तितः ॥२४३॥ (१०८)

गंगापुत्रकी कन्यामें वेशधारीके वीर्यसे जो पुत्र हुआ वह युगी बहुरूपिया कहाया ॥२४३॥

शुंडी पौंडक ।

वैश्याच्चीवरकन्यायां स च शुण्डी बभूव ह ॥

शुण्डी योषिति वैश्यात्तु पौण्डकश्च बभूव ह ॥२४४॥ (१०९)

वैश्यसे चीवरकी कन्यामें शुण्डी और शुण्डी स्त्रीमें वैश्यसे पौंडक जाति हुई ॥ २४४ ॥

राजपुत्र ।

क्षत्रात्करणकन्यायां राजपुत्रो बभूव ह ॥

राजपुत्र्यां तु करणादागरीति प्रकीर्तितः ॥२४५॥ (११०)

क्षत्रियसे करणकी कन्यामें राजपुत्र हुआ और राजपुत्रीमें करणसे आगरी कहाया ॥२४५॥

कैवर्त्त ।

क्षत्रत्रीर्येण वैश्यायां कैवर्त्तः परिकीर्तितः ॥

कलौ तीवरसंसर्गाद्धीवरः पतितो भुवि ॥२४६॥ (१११)

क्षत्रियके वीर्यसे वैश्यामें कैवर्त्त नामवाला पुत्र होता है, कलियुगमें यह तीवरके संसर्गसे संस्कारहीन और पतित हुआ ॥ २४६ ॥

रजक कोहाली ।

तीवर्यां धीवरात्पुत्रो बभूव रजकः स्मृतः ॥

रजक्यां तीवराच्चैव कोयाली ( कोहाली ) ति बभूव ह

॥२४७॥ (११२)

तीवरीमें धीवरसे रजक ( धोत्री ) होता है, धोबिनमें तीवरसे कोहाली लकड़ी फाडने वाला होता है ॥ २४७ ॥

सर्वस्वी व्याध ।

नापिताद्गोपकन्यायां सर्वस्वी तस्य योषिति ॥

क्षत्राद्बभूव व्याधश्च बलवान्मृगर्हिसकः ॥ २४८ ॥ (११३)

नाईसे गोपकी कन्यामें सर्वस्वी होता है और सर्वस्वीकी स्त्रीमें क्षत्रियसे मृगोंकी हिंसा करनेवाला व्याध होता है ॥ २४८ ॥

दस्युः ।

तीवराच्छुण्डिकन्धायां बभूवुः सप्त पुत्रकाः ॥

ते कलौ हृदि संसर्गाद्बभूवुर्दस्यवः सदा ॥२४९॥ (११४)

धीवरसे शुण्डिकन्यामें सात पुत्र हुए वे कलियुगमें हृदिजातिके संसर्गसे दस्यु हुए ॥२४९॥

कूदरः ।

ब्राह्मण्यामृषिवीर्येण ऋतोः प्रथमवासरे ॥

कुक्षितश्चोदरे जातः कूडरस्तेन कीर्तितः ॥२५०॥ (११५)

ऋतुमती ब्राह्मणीमें प्रथम ऋतुदिनमें ऋषिके समागमसे कुक्षित उदर होनेसे उसमें उत्पन्न होनेके कारण कूदर पुत्र हुआ ॥ २५० ॥

तदर्शौचं विप्रतुल्यं पतित ऋतुदोषतः ॥

सद्यः कोटकसंसर्गादधमो जगतीतले ॥२५१॥ (११६)

इसका अशौच ब्राह्मणके समान है, परन्तु ऋतुदोष और कोटककी संगति करनेके कारण यह पतित और जगतमें अधम है ॥ २५१ ॥

महादस्युः ।

क्षत्रवीर्येण वैश्यायामृतोः प्रथमवासरे ॥

जातः पुत्रो महादस्युर्बलवांश्च धनुर्धरः ॥२५२॥ (११७)

क्षत्रियके वीर्यसे वैश्यामें ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह महादस्यु कहाया और बलवान् तथा धनुर्धर हुआ ॥ २५२ ॥

वागातीतः ।

चकार वागतीतं च क्षत्रियेणापि वारिता ।

तेन जात्या स पुत्रश्च वागातीतः प्रकीर्तितः ॥२५३॥ (११८)

क्षत्रिके निषेध करनेपर भी वागातीत क्षत्रिणी ( वचन न माननेवाली ) क्षत्रियामें जो पुत्र उत्पन्न होता है वह वागातीत कहाता है ॥ २५३ ॥

म्लेच्छजातिः ।

क्षत्रवीर्येण शूद्रायामृतुदोषेण पापनः ॥

बलवन्तो दुरन्ताश्च बभूवुर्म्लेच्छजातयः ॥२५४॥ (११९)

क्षत्रियके वीर्यसे शूद्रामें ऋतुदोषके पापसे बडे बली दुरन्तम्लेच्छ जातिके पुत्रहुए ॥२५४॥

अविद्धकर्णाः क्रूराश्च निर्भया रणदुर्जयाः ।

शौचाचारविहीनाश्च दुर्घर्षा धर्मवर्जिताः ॥ २५५ ॥ ( १२० )

यह कान नहीं छिदाते, बडे क्रूर, निर्भय, युद्धमें कठिनाईसे जीते जानेवाले, शौचाचारसे विहीन दुर्घर्ष और धर्मसे रहित होते हैं ॥ २५५ ॥

जोला, शराक ।

म्लेच्छात्कुविन्दकन्यायां जोला जातिर्वभूवह ।

जोलात्कुविन्दकन्यायां शराकः परिकीर्तितः ॥ २५६ ॥ ( १२१ )

म्लेच्छसे कुविन्दकी कन्यामें जोला जाति हुई और जोलासे कुविन्दकन्यामें शराक हुआ २५६ व्यालग्राही ।

वर्णसंकरदोषेण बह्व्यश्च श्रुतजातयः । तासां नामानि

संख्याश्च को वा वक्तुं क्षमो द्विज ॥ २५७ ॥ ( १२२ )

वैद्योऽश्विनीकुमारेण जातश्च विप्रयोषिति ।

वैद्यवीर्येण शूद्रायां बहुशुर्वहवो जनाः ॥ २५८ ॥ ( १२३ )

ते च ग्रामगुणज्ञाश्च मन्त्रौषधिपरायणाः ॥

तेभ्यश्च ज्ञाताः शूद्रायां ये व्यालग्राहिणो भुवि ॥ २५९ ॥ ( १२४ )

वर्णसंकर दोषसे बहुतसी जातियें होगई, उनके नाम और संख्याको कौन कह सकता है ॥ २५७ ॥ वैद्य-अश्विनीकुमारसे विप्रकी स्त्रीमें तथा वैद्यके वीर्यसे शूद्रामें बहुतसे पुरुष हुए ॥ २५८ ॥ वे ग्राम्य गुणोंके ज्ञाता मन्त्रौषधि परायण हुए, उनसे शूद्रामें बहुतसे व्यालग्राही पुरुष हुए ॥ २५९ ॥

प्रसाऊ ।

गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः ।

ददर्श कामुकः शान्तः पुष्पोद्याने च निर्जने ॥ २६० ॥ ( १२५ )

तया निवारितो यत्नाद्बलेन बलवान् सुरः ॥

अतीव सुन्दरीं दृष्ट्वा वीर्याधानं चकार सः ॥ २६१ ॥ ( १२६ )

द्रुतं तत्त्याज सा गर्भं पुष्पोद्याने मनोहरे ॥

सद्यो बभूव पुत्रश्च तप्तकांचनसन्निभः ॥ २६२ ॥ ( १२७ )

सपुत्रा स्वामिनो गेहं जगाम व्रीडिता तदा ॥

स्वामिनं कथयामास यन्मार्गं दैवसंकटम् ॥ २६३ ॥ ( १२८ )



विप्रो रोषेण तत्याज तं च पुत्रं स्वकामिनीम् ॥

सरिद्धभूव योगेन सा च गोदावरी स्मृता ॥ २६४ ॥ ( १२९ )

पुत्रं चिकित्साशास्त्रं च पाठयामास यत्नतः ॥

नानाशिल्पञ्च मंत्रञ्च स्वयं स रविनन्दनः ॥ २६५ ॥ ( १३० )

एक ब्राह्मणी तीर्थयात्राको जा रही थी उसको निर्जन पुष्पोद्यानमें अश्विनी कुमारने देखा ॥ २६० ॥ उस सुन्दरीने उसको बलपूर्वक निवारण भी किया, परन्तु उन्होंने न मानकर उसमें वीर्याधान किया ॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पुष्पोद्यानमें उस गर्भको त्याग कर दिया, उसी समय एक बालक सुवर्णके समान कांतिमान् प्रगट हुआ ॥ २६२ ॥ वह लज्जित हो पुत्रको गोदमें लिये अपने स्वामीके पास गई, स्वामीने जब पूछा तो उसने देवसंकट बात सुनाई ॥ २६३ ॥ ब्राह्मणने क्रोधसे स्त्री और पुत्र दोनोंको त्याग दिया, वह तो योगद्वारा अपने शरीरको जलरूप करके गोदावरीमें लय होगई ॥ २६४ ॥ और उस पुत्रको चिकित्साशास्त्र उसके पिताने पढाया अर्थात्-अश्विनीकुमारने नानाशिल्प और मन्त्र तथा वैद्यक स्वयंही पढाई ॥ २६५ ॥ ( वह वैद्य कहाया )

सूतः ।

कश्चित्पुमान् ब्रह्मयज्ञे यज्ञकुण्डात्समुत्थितः ॥

स सूतो धर्मवक्ता च मत्पूर्वपुरुषः स्मृतः ॥ २६६ ॥ ( १४४ )

पुराणं पाठयामास तञ्च ब्रह्मा कृपानिधिः ॥

पुराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डसमुद्भवः ॥ २६७ ॥ ( १४५ )

ब्रह्मयज्ञमें एक पुरुष अभिकुण्डसे उत्पन्न हुआ वह सूत धर्मवक्ता हमारे पूर्व पुरुष हैं, यह सूतका वचन शौनकके प्रति है ॥ २६६ ॥ कृपानिधि ब्रह्माने स्वयं उनको पुराण शास्त्र पढाया था; इस प्रकार पुराणवक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्पन्न है ॥ २६७ ॥

भट्टः ।

वैश्यायां सूतवीर्येण पुमानेको बभूव ह ॥

स भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ २६८ ॥ ( १३६ )

वैश्यामें सूतके वीर्यसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ वह भट्टवावदूक सबकी स्तुति करनेवाला हुआ ॥ २६८ ॥

लोभी विप्रश्च शूद्राणामग्रे दानं गृहीतवान् ॥

ग्रहणे मृतदानानामग्रदानी बभूव सः ॥ २६९ ॥

( ब्रह्म० वै० अ० १० । १३३ )

लोभी ब्राह्मणने शूद्रजातिसे अशौचमें प्रथम दान लिया मरे हुएके उद्देश्यसे, प्रथम- ५१-  
लेनेके कारण वह अग्रदानी कहाया ॥ २६९ ॥

यहांतक ब्रह्मवैवर्त पुराणके मतसे जातियोंका निर्णय किया गया, अब अन्य प्रकारसे भी कुछ उत्पत्ति लिखते हैं—वर्णविवेक चंद्रिकामें लिखा है:—

कलवार ।

क्षत्रवीर्येण वैश्यायां कलवारेति नामतः ॥

संजातः पतितः सोऽपि वेदधर्मबहिष्कृतः ॥ २७० ॥

क्षत्रियके वीर्यसे वैश्यामें कलवारकी उत्पत्ति हुई यह भी पतित है और वेदधर्मसे पतित है २७०

सद्गोपात्पतितो यस्तु संसर्गाद्भ्रजकस्त्रियः ॥

कृषिरजकनाम्नैव अथासौ परिकीर्तितः ॥ २७१ ॥

सद्गोपसे रजककी स्त्रीमें कृषिरजक नामका एक पुत्र हुआ यह पतित है ॥ २७१ ॥

दोलावाही ।

वैश्यायां च तैलकाराद्दोलावाही बभूव ह ॥

( बृहद्धर्मपुराण २७२ )

वैश्यामें तैलीसे दोलावाही जाति उत्पन्न हुई है ।

कपाली ।

ब्राह्मण्यां तीवराजातः ।

( ब्र० वै० )

ब्राह्मणोंमें तीवरसे कपाली होता है ।

नवशायक ।

गोपी माला तथा तैली तन्त्री मोदकवारुजी ॥

कुलालः कर्मकारश्च नापितो नवशायकाः ॥ २७३ ॥

सद्गोप, माली, तैली, तन्त्री, मोदक, वारुजी, कुंभार, लुहार और नाई यह नौ नवशायक कहाते हैं । ( यह परशुराम संहितामें लिखा है ) ॥ २७३ ॥

तैली मालाकार ।

वारुजेगोपकन्यायां तैलिकः समजायत ॥

तैलिक्यां कर्मकाराच्च मालाकारस्य संभवः ॥ २७४ ॥

वारुज अर्थात्-वारीसे गोपकी कन्यामें तैली होता है, इनके दो भेद हैं, एक जो तेल

( ४७६ )

जातिभास्करः—

निकालकर बेचते तथा तिल आदिका व्यवसाय करते हैं, दूसरे अन्य प्रकारके भी व्यवसाय करते हैं ॥ २७४ ॥

तांबूलिक ।

वैश्यात्तु शूद्रकन्यायां जातस्ताम्बूलिकस्तथा ॥

( बृहद्धर्मपु० )

वैश्यसे शूद्रकन्यामें तांबूलिककी उत्पत्ति हुई, यह दूसरे तांबूलिक हैं, यह भी पान बेचनेका व्यवसाय करते हैं तथा कोई दूसरा व्यवसाय भी करते हैं ॥

वारी कर्मकारः ।

वारुजी तन्तुवाय्यां वै गोपालस्योऽप्यजायत ॥

गोपालात्तन्तुवाय्यां वै कर्मकारोऽप्यभूत्सुतः ॥ २७५ ॥

( पराशरपद्धति )

जुड़ाईमें गोपसे वारी उत्पन्न हुआ है और गोपालसे तन्तुवायकी स्त्रीमें कर्मकारकी उत्पत्ति हुई ॥ २७५ ॥

कुम्भकारः ।

मालाकारात् कर्मकार्यां कुम्भकारो व्यजायत ।

पट्टकाराच्च तैलिक्यां कुम्भकारो बभूव ह ॥

मालाकारसे कर्मकारीमें कुम्भार होता है, तथा पट्टिकारके औरसमें तैलिनमें भी कुम्भारकी उत्पत्ति है ॥ २७६ ॥

नापितः ।

शूद्रायां क्षत्रियाज्जातः ।

शूद्रामें क्षत्रियसे नापित हुआ ।

( शब्दकल्पद्रुम )

गन्धवणिकः ।

जातो वणिग्गन्धको हि ब्राह्मणाच्छूद्रयोषिति ॥ २७७ ॥

ब्राह्मणसे शूद्रामें गन्धवणिककी उत्पत्ति होती है, यह एक व्यवसायी जाति है पहले यही गन्धद्रव्य इतर फुलेल बेचते थे ॥ २७७ ॥

कांस्यकार शंखकार ।

ब्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां कांस्यकारो बभूव ह ।

विप्रवीर्येण शूद्रायां शंखकारस्य संभवः ॥ २७८ ॥

ब्राह्मणसे शूद्रकन्यामें कांस्यकार और विप्रसे शूद्रांमें शंखकारकी उत्पत्ति है, यह उसकी विवाहिता नहीं है ॥ २७८ ॥

तन्तुवायः [ जुलाह ]

**मणिबन्धामणिकायां तन्तुवायाश्च जज्ञिरे ॥ २७९ ॥**

मणिबन्धके औरससे मणिकार जातिकी स्त्रीमें जुलाहेकी उत्पत्ति हुई है । क्षत्रियसे शूद्रांमें मोदक वा ( बयरा ) जाति होती है, मोदक जाति लड्डूआदि मिठाई बनाती है । कहते हैं, जब चैतन्य देवने किसी मधुनाम नापितसे क्षौरकर्म कराया तब नापितने उनका क्षौरकर्म करके अपनेको कृतार्थ माना, और आगेको इस कर्मके करनेकी न इच्छा की तब चैतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक बनानेकी आज्ञा दी तबसे उसके वंशधर मोदक बनाने लगे और वे इसी नामसे विख्यात हुए ॥ २७९ ॥

कैवर्तः ।

**स्वर्णकाराञ्च कैवर्तः कुबेरिण्यां बभूव ह ।**

( परशुरामसंहिता )

**कैवर्ता द्विविधाः प्रोक्ता हालिका जालिका मुने ॥**

**हलवाहा हालिकाश्च जालिका मत्स्यजीविनः ॥ २८० ॥**

( बृहद्ब्रह्मसंहिता )

स्वर्णकारसे कुबेरिणीमें कैवर्त जाति हुई है, हालिका और जालिका भेदसे कैवर्त दो प्रकारके होते हैं हल चलानेवाले हालिक औ मछली मारकर बेचनेवाले जालिक कहाते हैं । हूगली, हावडा और मेदिनीपुरके अन्तर्गत विशेष करके हालिक कैवर्त रहते हैं; पश्चिमोत्तरमें यह कम हैं, यहां धीमर विशेष रहते हैं इससे धीमर सत्वशूद्र कहाते हैं, इनके हाथका चारों वर्ण जल ग्रहण करते हैं । परन्तु नवद्वीपमें इनके हाथका जल ग्रहण नहीं करते थे, महाराज बल्लालसेनने वहां इनके जल ग्रहणकी व्यवस्था कर दी है, इनमें अनेक विधासी स्वाभिमक्तिपरायण कार्यकुशल सेवामें निपुण और संतुष्टचित्त होते हैं ॥ २८० ॥

गोप, आभीर ।

**“वैश्य एव आभीरो गवाद्युपजीवी” इति प्रकृतिवादः ।**

**मणिबन्ध्यां तन्तुवायाद्गोपजातेश्च संभवः ॥ २८१ ॥**

जन साधारण इनको गवादि उपजीवी जानकर वैश्यधर्मा मानते हैं पश्चिमोत्तरमें आभीर गोपविशेष हैं, इनको अहीर, गोपाल कहते हैं यह गाय भैंसका दूध दही बेचते हैं, इनका बल दूषित नहीं माना जाता परन्तु मणिबन्धीमें तन्तुवायसे एक गोपजाति उत्पन्न हुई है, यह आभीरसे इतर गोपजाति है, बाला बल्लव गोपादि इस जातिके अन्तर्गत हैं, ढाकेके

अधिक ग्वाले बली होते हैं। एक समय यह गौडराजके दुर्गरक्षक थे यह द्वारपालका काम करनेसे उधर गौडगवाला कहाते हैं, बल्लव गोप दूध दही बेचते हैं, इनका जल चलिप्त नहीं है, नवद्वीपमें इनके हाथका जल ग्रहण करते हैं। भीगागवाला, वृषोत्सर्गा-दिमें बलोंको दागते हैं यह गोपजातिमें निःकृष्ट गिने जाते हैं, इनका जल नहीं पिया जाता ॥ २८१ ॥

#### अहर ।

यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, इसके कईसौ भेद बताये जाते हैं, कोई इनको गोपवंश कोई अहेरिया बताते हैं, यह अपनेको अहीरोंसे उच्च मानते हैं, परन्तु अहीर इनको अपनेसे हीन बताते हैं, कोई इस जातिको अहीरोंसे निकली मानते हैं, दोनोंही अपनेको क्षत्रिय बताते हैं, पर प्रमाण कुछ नहीं देते न पुरातन संस्कार ही पाये जाते हैं ॥

#### उरुगोला ।

मैसोर राजकी एक ग्वालाजातिका उरुगोला नाम है वहां उरुगोला और कद्दूगोला यह दो प्रकारके ग्वाले होते हैं इनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं है, इनमें बड़ी विचित्र बात यह है कि जब किसीके पुत्र वा कन्याका जन्म होता है, तब स्त्री अपने वच सहित ग्रामसे बाहर वृक्षकी छायामें सात वा तीस दिनतक रहती है, बीमारी होनेपर वृद्धा स्त्री इलाज करती है, विवाह भी ग्रामसे बाहर होता है और किसी छायाकी जगह होता है, पांच दिनतक जैमवार होती है पतिके मरनेपर भी स्त्री चूड़ा नहीं उतारती ॥

#### गद्दी ।

यह भी एक युक्तप्रदेशकी जाति गोपालन करती है, यह जाति मुसलमान बहुतायतसे बनायी गयी थी घोसी तथा अहीरोंसे इनकी रहन सहन मिलती है, पंजाबमें करनाल कांगडा आदिखलोंमें यह जाति पाई जाती है, अवधिया, बहराइची, बालपुरिया, गोरखपुरिया, कनौजिया, पूर्वीया, मथुरिया, सकसेना, सरवारिया, साहपुरी, अहरवाड, बांछर, वैस, भदौरिया, भंगी, भट्टी, विश्व, चन्देल, डौहान, क्षत्री, रोमर, घोसी, गूजर, हरकिया, जाट, कम्बोहा, राठी, टांक, तोमर, आदि इनके भेद हैं विदित होता है, कि क्षत्रियोंसे निकलकर, यह जाति संस्कार रहित होकर इस दशामें आगई है इस प्रकार यह जाति है इधर गोपालक ग्वाल भी कहाते हैं ॥

#### कमार ।

यह भी एक प्रकारकी लुहार जाति बंगालमें प्रसिद्ध है, यह विलायती ढले हुए लोहेपर काम करते हैं, अधिके औजारोंकी मरम्मत करते हैं, वहां यह सत्वशूद्रोंकी श्रेणीमें माने जाते हैं, चाकू, कैची आदि भी तयार करते तथा बहुत बढिया ताले भी बनाते हैं,

कुछ लोग इस जातिके सुनारका भी धन्धा करते हैं, यह लोग बलिदान करनेकी नौकरी करते हैं, सुनारका काम करनेवाले प्रतिष्ठित समझे जाते हैं ।

**कमारी ।**

यह तैलंग देशकी लुहार जाति है यह पंचनाम वालुजातिका एक भेद है, यह लोग सुनारका काम भी करते हैं ।

**असत ।**

द्रविड देशांतर्गत तैमिल देशकी यह जाति क्षौर करनेका काम करती है वहां यह नाई माने जाते हैं ।

**अगसाला ।**

यह एक सुनार जातिका भेद है वह मैसूरमें हैं, यह अगसाला और अर्कसाला भी कहाते हैं इनको पंचसलारों अर्थात् सुनारोंमें ऊंचा कुछ माना जाता है, इनमें कोई २ आचार विचार भी रखते हैं ।

**कंसारी ।**

यह भी तैलंगदेशकी पंचनामवालु सुनार जातिका एक भेद है, यह लोग कांसेका भी काम करते हैं, घण्टे घण्टिया भी बनाते हैं, यह कुछ पढे लिखे भी होते हैं यह कंसाली भी कहाते हैं ।

**सुकुली जाति ।**

हुगली और मेदिनीपुरके निकट एक सुकुली जाति कपडे बुनती है लोग इनको नीच कहते हैं, परन्तु ज्ञाता लोग इनको सोलंकी जातिकी शाखा कहते हैं, यह विपत्तिसे अपना कर्म त्यागकर पतित हुई हैं, मूलराज सोलंकी राजा था, इसके पुत्र चंद्रराव पिताके सिंहासन पर बैठे, वह अनहलवाडे पर महम्मद गजनवीसे युद्धमें पराजित हुआ सम्बत् १२८४ में अनहलवाडा नष्ट हो गया, तातारियोंकी बराबर चढाई होती रही तब यह जाति वहांसे उजडकर दूसरे देशोंमें बिखर गई, उड़ीसामें यह बहुतसे लोग जगन्नाथजीका दर्शन करते हुए निवास करने लगे, उस समय उड़ीसा वल्ल तथा कृषि विषयमें प्रधान था इन्होंने भी यही वृत्ति अवलंबन की । बहुत कालतक वहां रहनेसे यह भी उसी भावको प्राप्त हो गये और सोलंकी उपाधिसे रहित होकर सुकुली कहाये, यह धर्मनिष्ठ तथा अतिथिप्रिय होते हैं । यह बंगालकी संकर जातिका वर्णन किया ।

**धनकुटेमाली ।**

यह एक प्रकारकी सन्शूद्रजाति है यह युक्तप्रदेशमें रहती हैं, इनके हाथका जल चारों वर्ण ग्रहण करते हैं, तथा यह नाजकी दुकानोंपर नौकरी करते हैं और पछे बांधते हैं ॥

**वरवाल ।**

यह भी एक प्रकारकी शूद्र जाति है, यह घोडा लादते हैं तथा पल्लेदारी भी करते हैं ।

## बेलदार ।

यह भी एक शूद्रजाति है कदाचित् यह कुढ़ाका जाति है, यह कुढ़ाडी द्वारा लकड़ी चीरनेका काम करते हैं तथा फलादि भी बेचते हैं ।

## अगशिया ।

युक्त प्रदेशमें यह जाति लोहेका काम करती है, मिर्जापुरके जिल्लेमें विशेषरूपसे पाई जाती है यह महा नीच और अस्पर्शा मानी जाती है ।

## अगशिया ।

मेसोर राज्यमें अगशिया नाम धोया जातिकी है बंगालमें धोयीको धोया, गध्यदेशमें बरठा, दक्षिणमें बनान और आशिया कडा है, वेणुमें चतुगी कहाती है, गेल्लेमें इनसे गृहस्थोंके काम भी लेते हैं तथा वहां यह चोरी भी करते हैं ।

## अंगरेया फसिया ।

यह जंगलमें जानकोंके मारने तथा पकड़नेवाली एक निकृष्ट जाति है, अजीमगढ़ जिल्लेमें यह बहुत पाई जाती है, यह जेना मजदूरी भी करती है तथा पक्षी आदिको मारकर खा जाती है यह टोकरी बनाकर आजीविका करते हैं, कहीं चिडिया आदि द्यो तो पकडकर बेचते हैं, यही एक प्रकारकी फसियोंकी जाति है यह भी पक्षी पकडने आदिका धन्धा करते हैं तथा कहारोंकी तरह वैहंगी लगाते हैं ।

## कतकारी ।

यह जाति दक्षिण देशकी है, स्त्रीलसाहयन इसको शूद्रसे नीचे माना है, यह कत्था बना-नेका काम करती है ।

## कतुवा ।

आजमगढ़ और पीलीभीतके जिल्लेमें यह जाति निवास करती है, यह आपनेको क्षत्रिय करते हैं पर वैसे कोई संस्कार नहीं है ।

## थरुआ ।

यह जाति तराई पीलीभीत अटेमा खटेमा जिल्ले नैनीतालमें पाई जाती है, विशेष कर कृषिकर्म करते हैं, कोई कत्था भी बनाते हैं, अपनेको ठाकुर कहते हैं, घरका कोई मरजाय तो गाड देते हैं, चौतरा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वास्तवमें यह एक प्रकारके शूद्र हैं खसियोंका एक भेद है, पर्वतमें ऊपर खसिया नीचे थरुआ रहते हैं ।

## कम्बोह ।

यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अब मुसलमानोंमें कम्बोह जाति विशेषतासे है, सम्भव है यह हिंदूसे मुसलमान होगये हों, पर इस जातिमें अबतक वीरत्व पाया जाता है ।

## कल्लन ।

दक्षिणमें यह एक प्रकारकी अत्याचार कारिणी जाति कहाती है, यह चोरी और छद्

मार करते हैं, पन्द्रह वर्षकी अवस्थासेही यह इसकार्यमें दक्ष होजाते हैं, यह बाल बढ़ाते हैं, इनमें शिवके पूजक भी होते हैं ।

**कन्वाल ।**

यह गानेवाली एक जाति है, यह लोग सितार बहुत बढिया बजाते हैं. अमीर सुशरोके समय इनकी बर्दा प्रतिष्ठा थी ।

**कवराई ।**

यह द्राविडी खेतिहर जाति है, इसमें कुछ धनी लोग भी हैं यह अपनेको ठाकुर कहते हैं, पर लोगोंकी सम्प्रति इस रूपमें नहीं है ।

**कामगर ।**

यह भी एक प्रकारकी युक्तप्रदेशकी सेवा करनेवाली जाति है, यह शूद्र कहाते हैं ।

**कामडिया ।**

यह एक भीख मांगनेवाली जाति है स्त्रीपुरुष तन्मूरेपर गाते हैं, स्त्रियें शरीरमें बारह तरह जगह मंजीरे बांधकर बजाती हैं, इनको नौटंकी भी कहते हैं, इनका इष्ट रामदेव है । इनके गाने बजानेका धन्धा होता है, यह मुरदोंको गाडते हुए सुने गये हैं, इनके विवाहादि गुरडे करते हैं ।

**कानडे ।**

दक्षिण देशमें एक प्रकारकी सुनारोंका धंधा करनेवाली एक जाति है, यह लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, मद्य मांसादि भी सेवन करते हैं, यह अपनेको पांचाल सुनार कहते हैं, तथा अपनेको ब्राह्मण होनेका भी दावा करते हैं, परन्तु वहांके निवासी इनको चतुर्थ वर्णमें मानते हैं ।

**कानोता ।**

कहते हैं कि पहले यह बीन बजानेवाली ब्राह्मण जाति थी, लोग कहते हैं कि भवानी खांपके पंचोलियोंके बढेरे उस समय कोषाध्यक्ष थे, एक समय बादशाहसे इनकी अनबन हुई तो बहुतसे पंचोली मारे गये, बहुतसे कैद होगये और अनेकोंके प्रार्थना करने पर भी बादशाहने न छोडा, चन्दन नामक एक वृद्धने बीन बजाकर बादशाहको प्रसन्न किया, और खजानचियोंका छुटकारा चाहा, तब बादशाहने कहा यदि तुम मुसल्मान होजाओ तो उन सबको छोड दूंगा उसके मुसल्मान होनेपर सब छोड दिये गये ।

**कालू ।**

बंगालमें यह जाति तेल निकालने और बेचनेका काम करती है, वह धनी भी हैं और ऊंचे वर्णका दावा करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं है ।

**कावडा ।**

बंगालमें निष्कृष्ट काम करनेवाली यह एक निष्कृष्टककर्मा जाति है, इस जातिमें चोरी तथा छट खसोट करते भी लोग पाये गये हैं ।



## कार्तिक ।

इस जातिका काम भेडादि पशुओंको मारकर उनका मांस बेचना है, यह नीचजाति स्पर्शके योग्य नहीं है ।

## कंजर ।

युक्तप्रदेशमें यह एक अति नीच जाति है, यह लोग कल्लुण गोह तक खा जाते हैं, तथा भैंसे और तुलियोंकी सिरकीका घर और परदे बनाकर उसीमें अपनी आजीविका करते हैं ।

## किंगरिया ।

वह मुडचिरोकी एक जाति है, यह भीम्व मांगनेमें बड़ा मूडचिरापन करते हैं, अपने शरीर या अन्य किसी अंगमें भीम्व न देनेपर चक्कू आदि मार लेते हैं, पैसा लेकरही पीछा छोडाते हैं ।

## कीर ।

यह एकप्रकारकी कहार जातिका भेद है, यह सिंघाडे बोन बेचने तथा खरबूजे ककडी आदि बेचनेका काम करते हैं ।

## किरात ।

भीलोंके समान जाति भी वनवासिनी है, संस्कारहीन है, शूद्रसेभी गिरे धर्मवाली है ।

## किकारी ।

यह एक टोकरी बुननेवाली निकृष्ट जाति है, यह शूद्रोंसे भी नीच जाति है ।

## कुनेडा ।

यह लोग खैरकी लकड़ीके टुक्रे वो नगाली बनाकर बेचते हैं, यहभी शूद्र हैं ।

## कुसाटी । डंवारी ।

यह दक्षिणकी रहनेवाली नटके समान आचरण करनेवाली निकृष्ट जाति है ।

## कुर्वा ।

यह एक भक्ष्याभक्ष्य फीट पतंगदितक भोजनकर जानेवाली जाति है, यह अन्त्यजोंमें समझी गई है, मिस्टरकृकने इसको सबसे निकृष्ट कहा है, युक्तप्रदेशमें इनकी संख्या ६२० है ।

## कुरुमार ।

दक्षिणमें कुरुमार और युक्तप्रदेशमें यह सिकलीगर कहाते हैं, यह चाकू कैची छुरी आदिपर धार रखते हैं ।

## कुश्ती, सुशीर ।

यह रेशम कातने और तयार करनेवाली दक्षिणकी शूद्र जाति है ।

## कौंजडा ।

यह एक तरकारी बेचनेवाली जाति है, प्रायः अब मुसलमान हैं ।

कैकलर ।

यह दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति है, यह जुलाहे हैं, यह लोग मद्य बहुत पीते हैं ।

कोच ।

यह जाति युक्तप्रदेशमें रहती है इसकी स्थिति साधारण और शूद्रधर्मसे भी रहित है तीवर जातिके पुरुषसे कसाइनमें उत्पन्न पुरुष कोच हैं ।

कोडा ।

यह युक्तप्रदेशकी शोरा और नमक बनानेवाली एक जाति है यह अपनेको वैश्य कहते हैं, पर संस्कारसे हीन हैं ।

कोरी ।

यह कपडा बुननेवाली जाति है इनके भेदोंकी बहुतसी संख्या है, कोई कहते हैं कि यह कानीन हैं, एक कोइरी जाति है यद्यपि यह समान शब्द हैं पर कोइरी अपनेको क्षत्रि-यधर्मा कहते हैं, जिनका वर्णन मैंने अन्यत्र किया है ।

कोला ।

यह भी एक प्रकारकी बनवासिनी निकृष्ट जाति है यह भी निकृष्टकर्मा हैं ।

कोवार ।

यह अगूरी जातिके समान एक जातिका भेद है ।

कंचारा ।

इस जातिका नाम कचकर भी है, शीशेका व्यापार इनका काम है इनमें खांप भी है, यह कहीं कांचका भी काम करते हैं, संस्कार इनमें नहीं है ।

कंचारी ।

यह भी पूर्ववत् शीशेका व्यापार करनेवाली जाति है, यह खानदेश तथा कोकनदमें बहुतायतसे हैं ।

गौंद, गौंड ।

यह अनेक प्रकारके अभक्ष्य मांसादि भक्षण करनेवाली म्लेच्छोंके समान अस्पर्श जाति है ।

गौरिया ।

युक्तप्रदेशमें गौ आदि पालन करनेवाली एक ग्वालों जैसी जाति है यह राजपूतानेमें भी पाये जाते हैं, यह भी मिश्रित जाति है ।

गेजगारा ।

दक्षिण देशमें यह जाति घंटी घण्टे तथा मंजीरे बनानेका काम करती हैं, इनको वहांके लोग ठठेरीके मान मानते हैं ।

## गूजर ।

यह भारत वर्षकी एक प्रसिद्ध जाति है, यह जाति कुछ शरीर बल सम्पन्न होती है और अपने पुरुषोंको राजपूत बताती है और जहां कहीं लोग कुछ सम्पन्न हैं या पद लिख गये हैं वे अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, मनुष्य गणनामें यह आठवीं श्रेणीमें लिखे गये हैं पर इसमें सन्देह नहीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रिय है और माता अन्यवंशकी है इसमें कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं कि यह उच्च कोटिमें नहीं मानी जा सकती हैं इनके संस्कार भी नहीं हैं, गोप जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवश्य पाया जाता है, कोई इनको अहीरोंकी शाखामें बताते हैं, कोई इनको राज्याधिकारी कहते हैं, कोई अहीर जाट गूजरको एकही वंशमें कहते हैं इनमें किसी भाईका एक स्त्रीके व्याह हो जानेपर अन्य भाइयोंको विवाहकी आवश्यकता नहीं रहती इत्यादि कुरीतियाँ भी बताई जाती हैं, इसलिये जबतक यह जाति प्रमाण न दिखावै तबतक इसके विषयमें कुछ कहा नहीं जाता, जिस जातिमें एक दो पदे, लिखे, धनी रईस हुए कि लोग झटसे उनको उच्चजाति कह देते हैं, और वंशावली बनजाती है, चाहे उसमें कुछ हो या न हो, इसलिये इसका विशेष निर्णय प्रमाणपर छोड़ा जाता है, इस समयका लेख इस समयकी स्थिति पर है ।

## कोईरी ।

युक्त प्रदेश तथा विहारकी कृषिकर्मा प्रसिद्ध जाति है कोईरी शब्द किस शब्दका अपभ्रंश है यह निर्णय अबतक नहीं हुआ, कृषिकर्मा, कुर नामककृषि, कुरु संतति, कलवाहा आदि शब्दोंसे इसका असली शब्द माना जावै तो भी कोईरी शब्द इनका अपभ्रंश नहीं माना जा सकता, इनमें सबके संस्कार भी नहीं हैं, उनके नाम निकासके कारण इलाहाबादी ब्रजवासी, पुरविया, दखनाहा, मधघिहा, मधघिया ( मगधिया ), सरवरिया, कनौजिया, बनारसिया, मिर्जापुरिया, अयोध्यावासी, आजमगढ़िया आदि पाये जाते हैं, कुछ भेद नाराइगन, तोरीकोडिया, हरदिया, शक्तिया, भक्तिया, वरदवार आदि हैं, कुछ भेद कोई २ कलवाहा, वैसिया, राठौर, जैसवार, सूर्यवंशी नामवाले हैं, इनके बहुत भेद हैं, यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरोंकी सम्मति इसके विरुद्ध है, शास्त्रप्रमाण जबतक न हो तबतक यह निर्णय विचारकोटिमें रक्खा जाता है ।

## खट्टदर्शन ।

इसमें बहुत जातिके भिक्षुक पुरुष मिलकर एक आकारमें हो गये हैं, यह मारवाडमें कोई छेड लाख पाये जाते हैं, किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके लोग करते थे, इनमें पहले कुछ भेदभाव न था सब एक रूपसे रहते थे ।

## खटीक ।

यह एक निष्कृष्णकर्मा जाति है, यह भी छेरी आदि पशुओंको मारकर खानेवाले हैं,

भेद बरूरीकोभी यह पालते हैं, उनका काम करते हैं, यह जाति युक्तप्रान्तमें पाई जाती है, लोग इनको अस्पृश्य कहते हैं ।

#### खरौत ।

यह जाति युक्त प्रदेशके वस्ती जिलेमें पाई जाती है, यह कैवर्त वा केवट जातिका एक भेद है कोई इनको बेलदार भी कहते हैं, दखनाहा, जडौत और माटौर इनके तीन भेद पाये जाते हैं ।

#### खागर ।

यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, बुन्देलखण्डमें भी यह पाई जाती है, कोई कहते हैं यह शब्द खंगडसे बना है, अर्थात्—तलवारका गढ यह संख्यामें कोई ४० सहस्र हैं, हमीरपुर, झांसी, जालौनमें वह विशेष हैं, कुर्मियोंके हाथकी कच्ची पक्की रसोई यह खाते पाये जाते हैं, यह चौकीदारी भी करते हैं, इसमें कोई २ अपनेको ठाकुर कहते हैं, पर संस्कार इस जातिमें भी नहीं पाये जाते कहा जाता है इसका आदि निकास काल्पी है, काल्पीसे ही चलकर इन्होंने भीषमगढ रियासतके कुरारगढमें निवास किया था ।

#### खाडरिया ।

यह जाति मारवाडमें पाई जाती है, यह सोरबियामी कहाते हैं, कहते हैं कि यवनोंके समयसे यह खेती करते हैं यह लोग अपना निकास राजपूतोंसे बताते हैं, पर संस्कार नहीं रखते, जालौरमें रावकामहडदेवने इनको शरण दी थी ।

#### खारवाल ।

इनको कोई २ खारौल भी कहते हैं, यह मारवाडमें खारी भूमिमें नमक बनाते थे पर जबसे नमकका कानून बना तबसे यह लोग खेती करते हैं, कहा जाता है इनमें क्षत्रियोंके समान खांप पाई जाती है, कोई कहते हैं शहाबुद्दीनके समयसे क्षत्रिय धर्म छुटा है ।

#### गढनायक ।

वह उड़ीसा प्रान्तकी खण्डायत जातिका भेद है, इसमें जिसके हाथमें गढ रक्षकका काम था वे लोग गढनायक कहाये ।

#### गरूरी ।

स्टील साहबके मतसे यह जाति शूद्रसे निकृष्ट और चाण्डालसे उत्कृष्ट मानी गई है यह एक प्रकारके सपेरे हैं ।

#### गरसी ।

वह जाति पंढरपुर पूनामें निवास करती यहभी है, शूद्रोंसे निकृष्ट मानी गई है ।

#### गनिग ।

मैसूर प्रान्तमें तैलकारको गनिग कहते हैं, बंगालमें यह लोग कालू राजपूताना व युक्त-

प्रदेशमें ते ली उत्तरीभागोंमें घांची, तैलंगमें कूळवाल्लु, द्रविडमें वणिक, कर्णाटकमें नागोरा कहाते हैं, देशभेदानुसार मान प्रतिष्ठा है, असली तैलकारकी उत्पत्ति लिख चुके हैं।

### गनीगार ।

मैसोरमें यह जाति मोटे कपड़े तथा टाट बोरी बुनती है, बहुतसे इनमें खेती भी करते हैं।

### गंवारिया ।

यह एक प्रकारकी जाति राजपूतानामें रहती है, यह मूंज कूटकर रस्सी बनाती, पानी पूले सरकण्डे बेचती है, सिरके सींगकी कंधी बनाती है, यह नगरके बाहर रहते हैं, इनमें सीवान, खटान, मालावत, धावडिया, भूकिया, बीजलोत, वीसलोत, गोरामा, कूरटा और मूछल आदि भेद पाये जाते हैं।

### गान्धिल ।

यह सुगन्धित पदार्थ बेचनेवाली एक जाति है, यह विशेषकर पंजाबमें पाये जाते हैं युक्त प्रदेशमें बहुत न्यून हैं।

### ग्रासिया ।

यह जाति प्रायः लट्खसोट करती है, राजपूतानेमें यह लोग पाये जाते हैं, यह अशिक्षित होनेसे चोरी आदि कुकर्म करते हैं, दूसरे ग्रासिया राजपूतानाके पर्वतोंमें रहते हैं, यह भालोंके समान तीरकमान रखना, पशु पक्षियोंका बध करना, घास लकड़ी काटकर नगरों में बेचते हैं, इस समय इस जातिमें शूद्र धर्मही वर्ता जाता है, कहा जाता है पहले यहभी क्षत्रियधर्मा थे।

### खुमडा ।

यह पत्थरकी चक्कियोंको बेचनेके लिये इधर उधर फिरा करते हैं, बलोंकी गाडियोंपर चक्की लादते हैं, इनमें बहुतसे मुसल्मान होगये हैं इनके भेद वाहमन, दुलहा, गौरिया, गोड, हटैवाले, कुंरैशी, मुलतानी, नवावार, तराई, तमार आदि हैं।

### गाला ।

इनामकी एक जाति राजपूतानेमें निवास करती है, यह एकप्रकारके दास हैं, जो पृथक् नहीं हो सकते, यह राज्योंमें दहेजोंमें भी दिये जाते हैं, यह चाकर चाकरिन, बांदा, बांदी, खवास खवासिन दारोगा दारोगिन भी कहाते कहाती हैं, राजपूत राजे महाराजोंके यहां यह जाति निवास करती है, इनकी उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखी गई है कि क्षत्रियपुरुषद्वारा दासीसे जो सन्तान होती है वह गोला और गोली कहाते हैं, किन्हींका मत है मोल ली हुई दासीमें जो सन्तान होती है वह गोला वा गोली कहाती है, अबतक यह जाति राजघरानोंकी सेवामें पाई जाती है, यह अपनी अल्ल भी वही रखते हैं, तथा राठौर, चौहान, बघेल, पवार, कछवाहा, सोलंकी, सिसोदिया, गोड, गोयल, टांक, भाटी, तवर, बड, गुजर, आदि इससे विदित होता है कि वंशसे यह अपनी अल्ल मान लेते हैं, यह

जाति बेटीवालेकी ओरसे दायजेमें दी जाती है, कोई इनमें बहुत सुन्दरी होती हैं कोई २ ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां स्त्रीवत् रखलेते हैं, कहीं गोले उच्च नौकरी करते दिखाई देते हैं, पैरमें सोनेका कडा पहनते हैं, कहीं पडदायतजी कहीं खवासिनजी कहीं पडारिनजी स्त्रियें कहाती हैं ।

भुरजी ।

भारत वर्षमें चवैना भूनेवाली एक भुरजी जाति है, इन लोगोंमें भी किसी प्रकारका संस्कार नहीं पाया जाता, यह लोग भी शूद्रप्राय हैं, परन्तु इनके हाथका भुना हुआ चवैना चारों वर्णके लोग खाते हैं, कहीं यह लोग भरभूजे कहीं भुरजी और कहीं भाष्टक कहाते हैं इनमें मथुरिया आदि भी होते हैं, इनमें कराव होता है यह लोग अपनेको जादव कायस्थ कहते हैं ।

अथ शालोरा-सच्छूद्रोत्पत्तिः ।

पादेनाताडयन्पादं वालुका पतिता भुवि ॥  
षट्त्रिंशच्च सहस्राणि द्विशतं तु तथोत्तरम ॥  
षट्पंचाशच्च सच्छूद्रा विप्रेभ्यो द्विगुणाभवन् ॥

ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी सेवा करनेके निमित्त पांवसे पांवको ताडन करके ३६२५६ सत् शूद्र उत्पन्न किये, और उनके लिये ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि तुम सब सेवा वृत्तिसे धनो-पार्जन करो और इन ब्राह्मणोंकी सेवा करो. अपने सब कार्य इन्हीं ब्राह्मणोंसे कराओ जो अन्यसे कराओगे तो तुम्हारे सब कर्म निष्फल होंगे, यही सब तुम्हारे पुरोहित होंगे, साम्बादित्य और रतीश्वर यह दो प्रकारसे तुम्हारे भेद होंगे, इसी प्रकार घटसे कन्या उत्पन्न करके उनका विवाह किया ।

अथ मंदग-शूद्रोत्पत्ति ।

जो शाकद्वीपसे शाकद्वीपी ब्राह्मणोंके साथ आठ कुल मंदग शूद्रोंके आये वे मंदग शूद्र कहाये, शाकोंकी कन्याओंके संग इनका विवाह हुआ यह सूर्यभक्त होते हैं ।

अथ लेवाकडवाशूद्रोत्पत्ति ।

एक समय रामचन्द्रजीके लवकुशा नामक पुत्र तीर्थयात्रा करते हुए गुजरात देशके सिद्धपुर नामक क्षेत्रमें आये, इस क्षेत्रके दक्षिण पांच कोसपर ऊंजा ग्राममें उमादेवी विरा-जती हैं, उनकी सेवा करनेके निमित्त निर्धन ऋणकोंको नियत किया, उनमें लवके स्थापन किये-लेवे पट्टीदार हुए, और दालका व्यापार करनेसे दालिये कहाये कुशके स्थापन किये शूद्र कुडवे और कुणवी कहाये, इनमें बारह वर्षमें कन्याका विवाह होता है ।

## जातिकी नामावली ।

रजपूत, कहार, सारथी, कुर्मी, अहीर, वैतालिक, माली, कलार, नाई वेधक ( रत्नोंमें छेद करनेवाला ), तमोली, रंगरेज, दरजी, लुहार, बढई, सुनार, ठठोरा यह अनुश्रम हैं। कोलवील, कंत्रर, भंगी, कोरी, कुम्हार, गडरिया, तेथी, नट, भोवी, मोची, ( चमार, पासी, धानुक ) बंसफोर चिकवा ( मांसविक्रेता ), डोरियां कुतें पालनेवाले ( भंगी ), नक्कारची, निषाद, डोम, मल्लाद, वारी, कलवार यह अकवामुलजिन्दमें लिखा हैं।

## खेतीहर किसान ।

अराईन-पंजाब प्रान्तकी खेती करनेवाली एक जाति है यह लोग चाग वर्गीचेकी संभालमें मालीका भी काम करते हैं, इनकी आवादी पंजाबमें नोलाखसे भी विशेष है इनमें अनेकों मुसलमान भी हो गये हैं ।

उपपर्व-यह द्रविड देशमें खेती करनेवाली एक जाति है ।

उली-यह द्रविड देशकी कृषि करनेवाली जाति है इनके आचरणोंमें कुछ उत्तमता पाई जाती है ।

कढेरा-यह कढार भी कहात हैं, इनका सम्बन्ध मल्लाह जातिसे बताया जाता है, परन्तु इस समय यह भी विशेष करके खेती करते हैं, कहीं यह लकडीका काम भी करते हैं, वास्तवमें शूद्रधर्मा हैं ।

कनेत-कनेट यह भी एक प्रकारकी खेती करनेवाली जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, पर संस्कार इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, युक्त प्रदेशके उत्तरी तथा पहाडी भागोंमें यह पाई जाती है । प्रायः दूसरे लोग इन्हें शूद्र ही कहते हैं ।

कपिलियन-यह द्रविड देशकी खेती करनेवाली एक जाति है, यह केनारियोंसे प्रतिष्ठित समझे जाते हैं ।

कम्बलातर-द्रविड देशकी कन्नराई जातिका उपभेद है यह कृषिकर्म तथा दस्तकारीमें बड़ी योग्यता रखते हैं, मदरासमें यह लोग ऊंचे पदपर नौकर हैं, यह जादूगरी भी करते हैं, सर्पके काटेका इलाज भी करते हैं, शिरमें चमकीले रंगकी पगडा बांधते हैं, स्त्रियं गहनोंसे ही शरीरको ढकती हैं ।

कामवारू-यह तैलंग देशकी कृषि करनेवाली एक जाति है, यह कापू जातिके समान है ।

कास्त-यह महाराष्ट्र देशकी कृषि करनेवाली एक जाति है, इनका निवास पूने आदि में है, पांचसौ छःसौ घर उस प्रान्तमें पाये जाते हैं यह लोग कुछ मालदार भी हैं, कोई अपनेको ब्राह्मण मानते हैं, पर कोई ब्राह्मण इनको ब्राह्मण नहीं मानता, सब शूद्र मानते हैं इनकी उत्पत्तिका विवरण नहीं मिला ।

कापू-यह तैलंग देशीय खेती करनेवाली एक जाति है यह सिपाहीगिरी भी करते हैं,

मांस मद्य सेवन करते हैं, कोई क्षत्रिय कोई शूद्र कहते हैं, वास्तवमें क्षत्रियोंके संस्कार इनमें नहीं हैं ।

किसान—युक्त प्रदेशमें खेती करनेवाली जाति है, मध्य प्रदेशमें और गुजरातमें यह लोग विशेष पाये जाते हैं, किन्हींकी सम्मति है कि कुनबी, कुनी, कुणबी, कुनबी सब एकही जाति हैं ।

कोलटा—यह मध्यप्रदेशकी सम्भलपुरमें विशेष रूपसे रहनेवाली एक कृषक जाति है, यह भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे लोग इस बातको नहीं मानते ।

खोगी—युक्तप्रदेशमें यह जाति भी खेतिहर है, कोई कहते हैं कि पहले यह चौहान राजपूत खंगी कहाते थे, उसीका बिगड़कर खंगी हो गया है, कोई कहते हैं कि यह राजा खंगके वंशधर हैं, परन्तु अब तो यह सर्वथा संस्कारहीन है । इनके अनेक भेद हैं, वास्तवमें जिनके निकास और स्थितिका पता नहीं संस्कार नहीं, यह शूद्रधर्मी होनेसे शूद्रही कहे जा सकते हैं ।

### हलवाई ।

हलवाई—फर्हवावादके समीपस्थ एक हलवाई जाति कहाती है लोग इनके हाथकी मिठाई, पूरी कचौरी भी खाते हैं ।

कन्दू—कन्दोई—यह एक प्रकारकी मिठाई बनानेवाली जाति है लोग इनके हाथकी कन्दोई कहाते हैं, इनकी बनाई पूरी आदि भी वहाँके ब्राह्मण तथा वैश्य आदि खाते हैं, बंगालमें यह जाति कन्दू कहाती है यह अपनेको वैश्य कहते हैं ।

गुडिया—उड़ीसामें गुड तथा मिठाई बनानेवाली हलवाईके समान एक जाति है । यह अपनेको वैश्य कहते हैं ।

### आगरी ।

यह दक्षिण देशमें रहनेवाली एक जाति है, यह कहते हैं ययाति राजाके वंशमें एक बलीन्द्र नामक राजा था उसकी स्त्रीका नाम आगलिका था उससे जो पुत्र हुआ वह आगला कहाया, वहाँसे यह लोग विंबराजाके कोकन देशमें आये, इनका दक्षिणमें मुख्यस्थान मुंगी है, यह पहले मीठेका व्यापार करते थे इससे मीठे आगरी कहाये, कोकनमें जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सब संस्कार नष्ट होगये, मीठा आगरी और डोल आगरी इनके दो भेद हैं, विवाहादि अपने २ थोकमें होता है, यह जाति राजपूतानेमें अब भी विशेष रूपसे पाई जाती है सर्व साधारणमें अब यह शूद्र माने जाते हैं ।

अभात—यह जाति बंगाल विहारमें निवास करती है और सत्वशूद्र कहाती है, इनके यहां दो भेद लिखे हैं, एक घरबैठ दूमरा विआहुत, घरबैठ तो खेती करते हैं, और विआहुत नौकरी करते हैं, परस्पर इनका विवाह संबन्ध नहीं होता, इनके यहां की पुरोहिताई मैथिल ब्राह्मण करते हैं, यह अपनेको वैश्य वर्णमें मानते हैं ।



अथ वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रम् ।

संख्या ।	जाति	पिता	माता
१	सूर्वावसिक्त	ब्राह्मण	क्षत्रिया
२	अम्बष्ठ	ब्राह्मण	वैश्या
०	अम्बष्ठ	ब्राह्मण	क्षत्रिया
३	पारशवनिषाद	ब्राह्मण	शूद्रा
४	माहिष्य	क्षत्रिय	वैश्या
५	उग्र	क्षत्रिय	शूद्रा
६	वैतालिक, करण, नट	वैश्य	शूद्रा
७	अयोगव, इटारा, पाथरवट, शूद्र चूनाटा ।	"	"
८	क्षत्ता, पारधी, निषाद ।	शूद्र	क्षत्रिया
९	चाण्डाल	शूद्र	ब्राह्मणा
१०	मागध, बंदीजन	वैश्य	क्षत्रिया
११	वैदेह	वैश्य	ब्राह्मणा
१२	सूत	क्षत्रिय	ब्राह्मणा
१३	शालक्य, मणिकार, मालाकार	कायस्थर्षी	
१४	कासार	नृपवंशीयब्राह्मण	अंग्रष्टा
१५	तांवटकर	क्षत्रिय	पारशवा
१६	कुंभकार	क्षत्रिय	उग्रा
१७	पारशव, स्वर्णकार, ब्राह्मण		शूद्रा
१८	उल्मुक, लोहकार	क्षत्रिय	मागधी
१९	रथकार, वाटीमुत्तार	माहिष्य	करिणी
२०	रङ्गकार, सिन्दूर, सूचिक	शूद्र	बंदिनी
२१	सौखीर	कुक्कुट	आभीरी
२२	नीलीकार कोष्ठा	आभीर	कुक्कुटी
२३	किंशुक,	निषाद	धिग्बणी
२४	सांग्रिल्य, सौषिक, बावर ।	"	"
		नापित	मांगी
२५	पांशुल, पौष्टिक, भामाटा ।	निषाद	मांगी
२६	सिंदूल, कर्मचाण्डाल, चोड्डु ।	"	"
		संन्यासी	विधवाब्राह्मणी

सं० ।	जाति	पिता	माता
२७	रोम, लोणार	मल्ल	आवर्तस्त्री
२८	बंधुलक, झारा,	मैत्रेय	जाधिका
२९	कुक्कुट, क्रोधिक, शूद्र टांकशाली ।	"	"
३०	ठडार, नोतार, हस्तक	मेदस्त्रीकोलिनी	
३१	श्वपच, मांग, चाण्डाल	मेदबनिता	
३२	मालाकार—माली	माहिष्य	निषादस्त्री
३३	शांवरिक	साली	आवर्तक
			वेनस्त्री
३४	शालमल—तम्बोली	मंगु	कुंभकारस्त्री
३५	मंगु	ब्राह्मण	बंदिनी
३६	बंदि	वैश्य	क्षत्रिया
३७	मोष्कल तैलकार ।	पारशव	उग्रा
३८	प्राणिकार । चर्मकारि— चमार ।	निषाद	धिग्बणी
३९	पुलकस—कोली ।	निषाद	शूद्रा
४०	श्वपचांधड, माहार ।	चाण्डाल	पुलकसी
४१	मंजूक । परीट । रजक, धोवी	वैदेही	उग्र
४२	दुर्भर । चर्मकार । दोहोर ।	आयोगव	धिग्बणी
४३	नट । कोलहाटिक । बहुध्यागी ।	शिलीध्र	क्षत्रिया
४४	किंशुक । बुरुड, बंशपात्रानुजीवी । धोवर		कुरुविन्दा
४५	कैवर्त । धोवर । तारु ।	पारशव	आयोगवी
४६	मेद । गौंड ।	वैदेह	कारावरी
४७	भिल्ल	धोवर	कारावरी
४८	तेरवा	चाण्डाल	मेदस्त्री
४९	श्विरसंज्ञा, हाडिया	मांगचाण्डाल	अंबबनिता
५०	क्रव्याधि ।	श्वपक	प्लवस्त्री

## भाषाटीकासंबलितः ।

( ४९१ )

स० ।	जाति	पिता	माता
५१	हस्तक ।	मीरसिकारी चाण्डाल	क्रव्यादस्त्री
५२	लायक ।	श्वपाक	हस्तकस्त्री
५३	शशेष	म्लेच्छ	चाण्डाली
५४	भारुड	डोम	पुल्कसी
५५	खौनिक ।	हिंसक ।	
	कसाई	कर्मचाण्डाल	दासवधू
५६	मातंग ।	प्लव	डोंबिणी
५७	डोंब ।	चाण्डाल	निषाद वनिता
५८	बोपक ।	डोंब	मातंगिनी
५९	ब्रह्मप ।	"	"
६०	मद्यप ।	"	"
६१	लवणस्तैयी ।	"	"
६२	गुरुतल्पी ।	"	"
६३	कायस्थ ।	वैदेह	महिष्यवनिता
६४	कुंतलक ।	नापित ।	"
६५	नापिकानाही।	बाबर मागध	उग्रा
६६	हजामागांजो।	तीर्थनापित।	ब्राह्मणशूद्रकन्या
६७	सौरिन्ध	शिलीन्ध्र ।	कायस्थ आयोगवी
६८	शिलीन्ध्रमार्दनी ।	मल्ल	क्षत्रिया
६९	भोजक मागध ।	ब्राह्मण	पुष्पशेखरा
७०	शाश्वतिक ।	देवलक ।	
	वडवा ।	पुजारा ब्राह्मण	मागधकन्या
७१	आभीर ।	गौलि ।	ब्राह्मण माहिष्यस्त्री
७२	कूटकर्मा ।	रजपूत ।	क्षत्रिय शूद्रा
७३	मल्ल ।	राजगुरु	व्रात्यक्षत्रिय क्षक्षिणी शूद्रा
७४	बुच्चूभाळत्रधर ।	वारी ।	ब्राह्मण वैदेही
७५	दोलाकार ।	भोई ।	
	काहरा	कानडीवाहक—	
	छागलावाहक ।	पौष्टिक ।	द्विज निषादी
७६	मल्ल ।	भिल्ल	क्षत्रियाणी
७७	सुव्रण	राधवण	

स० ।	जाति ।	पिता	माता
	सुवार ।	सूत	वैदेही
७८	अंधासिक ।	राधवण ।	वैदेह शूद्रा
७९	वच्छक ।	गोवारी ।	वैश्य करिणी
८०	छागलिक ।	सौलिक ।	कटधान मंगुता
८१	शय्यापाल ।	सेजल ।	सैरध्री
८२	मंडल ।	शुनेघरु ।	पुष्पशेखर कर्मचांडाली
८३	सुत्रधार ।	शै	
	जायाजीव	आयोगव	रथकारणी
८४	कुरुविंद ।	टाकसाली।	कुंभकार कुक्कुटस्त्री
८५	धनगर ।	रवारी	भूर्जकण्ठ छागली
८६	शेमक	महांगु	
	द्वारपाउ ।	कलहेकर ।	क्षेमक आवर्तस्त्री
८७	धिग्वणक ।	खत्री ।	
	मोची—	जिनगर ब्राह्मण	आयोगवी
८८	भस्मांकुर ।	गुरव ।	शूद्र पण्यांगना
८९	क्षेमकाद्वारवटेकार ।	पलदार	क्षताउग्रा
९०	भूकुश, नटवा ।	आयोगव	मागधा
९१	निर्मण्डिका, सोल्हाटा,		
	तीरकरणारा	अनृतक ।	आभीरी
९२	बेन, लाधवी, चन्द्रा—		
	बलिकार ।	वैदेह ।	अम्बछा
९३	शुद्धमार्गक, मादली ।	महिष	मागधा
९४	मैत्रेय, प्रातगीयका	वैदेह	आयोगवी
९५	मंगुष्ठ ।	कैवर्त	जंधिका
९६	चित्रकार, मोडोवा		
	चितारा ।	कुंभकार	धिग्वणी
९७	अहितुण्डिक, गारूडी—	निषाद	वैदेही
९८	सौष्कल सुराकसां,		
	कलाल ।	बेन	आभीरी
९९	घौलिक, मूषकान्तक,		
	कैकडा ।	न्याध	अहितुण्डिका

सं०	जाति	पिता	माता	सं०	जाति	पिता	माता
१००	वाशिक,	कावाडी ।	पुलक पुलकस	१२	तैलकार ।	कुंभकार ।	कोटकस्त्री
१०१	तुरुष्क ।	यवन मुसलमान ।	मेद मेदस्त्री	१३	धीवर ।	क्षत्रिय ।	राजपुत्रस्त्री
१०२	लाट, लाड, ।	विकर्मवैश्य ।	विकर्मवैश्या	१४	दस्यु, लोट ।	धीवर ।	तैलकारस्त्री
१०३	लिंगाथित ।	वार्य औरत ।	व्यभिचारीवैश्या	१५	मालु, मल्ल, मातर,		
१०४	ब्रात्य, अवत ।	द्विजातय ।	सवर्णामु		मज, कोल, कलंदर "		"
१०५	सुघन्वा, कारुप, विजन्मा,			१६	चर्मकार ।	धीवर ।	चांडाली
	मैत्र, सात्वत ।	ब्रात्यवैश्य	वैश्या	१७	मांसच्छेदी ।	चांडाल ।	चर्मकारी
१०६	सूर्जकण्ठ, पुष्पध, झल्ल,			१८	कोच ।	धीवर ।	मांसच्छेदस्त्री
	मल्ल, शैल, नट,			१९	फाण्डार ।	धोवर्त ।	कोचस्त्री
	ग्वस, द्रविड ।	ब्रात्य ।	ब्राह्मणी	२०	हद्रि, द्रम ।	लोट ।	चांडालकन्या
१०७	आवर्तक ।	सूर्जकण्ठ ।	ब्राह्मणी	२१	वन चर ।	चांडाल	हद्रिकन्या
१०८	करधान ।	आवर्तक ।	ब्राह्मणी	२२	गंगापुत्र ।	लोट	धीवरकन्या
१०९	पुष्पशेखर ।	कटधान ।	ब्राह्मणी	२३	युगां, वेशशरी	वेशधारी	गंगापुत्रकन्या
११०	मंगु, बडिक ।	द्विज ।	वंदिनी	२४	शुण्डी ।	वैश्य	धीवरकन्या
१११	वेन ।	वैदेह ।	अंब्रष्टा	२५	पौण्डुक ।	वैश्य ।	शुण्डीस्त्री
११२	गोत्रहीनब्राह्मण ।	ब्रह्मदेववक्त्र "		२६	राजपुत्र ।	क्षत्र	क्करकन्या
११३	ब्रात्यक्षत्रिय ।	ब्रह्मदेववाहृत "		२७	आगारी ।	करण ।	राजपुत्री
११४	ब्रात्यवैश्य ।	ब्रह्मदेवऊरुत । "		२८	केवर्त ।	क्षत्र	वैश्या
११५	ब्रात्यशूद्र ।	ब्रह्मपादत । "		२९	राजक ।	धीवर	तीवरी
१	मालाकार ।	विश्वकर्मा ।	शूद्रा	३०	कोआली	तीवर ।	राजकी
२	कर्मकार ।	विश्वकर्मा ।	"	३१	सर्वस्वी	नापित ।	गोपकन्या
३	शंखकार ।	विश्वकर्मा ।	"	३२	न्याथ, मृगाहंसक ।	क्षत्र ।	सवस्वी
४	कुविन्दक-जुलाहा ।	विश्वकर्मा ।	शूद्रा	३३	सप्तपुत्र ।	तीवर ।	शुण्डीकन्या
५	कुंभकार ।	"	"	३४	दस्यव	हाद्रिसं सर्गात् ।	
६	कंसकार ।	"	"	३५	ददुर	ऋषिवीर्य	ब्राह्मणी०
७	सुत्रधार ।	"	"	३६	महादस्यु ।	क्षत्र ।	वैश्यमथ०
८	चित्रकार ।	"	"	३७	बागतीत ।	क्षत्रिय ।	बागतीत
९	स्वर्णकार ।	विश्वकर्मा	शूद्रा				क्षत्रिणी
१०	अट्टालिकाकार/चित्रकार ।	कुलटाशूद्रा		३८	म्लेच्छ ।	क्षत्र ।	प्रथमतीशूद्रा
११	कोटक ।	अट्टालिकाकार	कुंभकारस्त्री	३९	जालजाति	म्लेच्छ ।	कुर्विदकन्या
				४०	शराक	जाल ।	"

भाषाटीकासंवलितः ।

( ४९३ )

सं०	जाति	पिता	माता	नाम	वर्णः ।
४१	वैद्य ।	अश्विर्नाकु० ।	विप्रस्त्री	६ रुद्रः	"
४२	व्यालग्राहिण ।	वैद्य	शूद्री	७ शेषः	"
४३	सूत	यज्ञकुंडसे उत्पन्न		८ गरुडः	"
४४	ब्राह्मक, स्तुतिपाठक ।	सूत	वैश्यस्त्री	९ इन्द्रः	"
४५	आवृत्त ।	ब्राह्मण ।	उग्रकन्या	१० प्रद्युम्नः	"
४६	धिग्वण ।	आभीर	अंबष्ठकन्या	११ चन्द्रः	"
४७	श्रापक ।	क्षत्ता	उग्रा	१२ अर्कः	"
४८	वेण	वैदेह	अम्बुष्ठा	१३ वसवः	ब्राह्मणः ।
४९	कारावार ।	चर्मकार ।	निषादी	१४ रुद्रः	ब्राह्मणः ।
५०	अन्ध ।	वैदेहिक ।	निषादी	१५ मरुद्गणः	"
५१	मैद			१६ कुबेरः	वैश्यः
५२	पांडुसोपक ।	चाण्डाल ।	वैदेही	१७ देवताः	"
५३	आहितुंडिक ।	निपाद ।	वैदेही	१८ गन्धर्वाः	"
५४	सोपाक ।	चांडाल	पुक्कसी	१९ अश्विनौ	"
५५	अत्यावसायी ।	चांडाल ।	निषादी	२० यमः	शूद्रः ।
५६	गोलक ।	व्यभिचारीनर	विधवा ब्राह्मणी	२१ शनिः	"
				२२ पुष्करः	"
५७	अनुगोलक ।	"	विवाहिताब्राह्मणी	२३ यक्षाः	"
५८	कुंडगोल ।	"	विधवाब्राह्मणी	२४ यमदूतः	"
५९	रण्डक ।	"	भर्तात्यागिनीस्त्री	२५ चित्रः	"
६०	मार्तण्ड	वैश्य	क्षत्रिया	२६ चित्रगुप्तः	"
	इति वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रं समाप्तम् ।			२७ वंदिनः	"
				२८ वेतालाः	"
				२९ किच्चराः	"
				३० विद्याधराः	"
				३१ धर्मराजः	ब्राह्मणः ।
				३२ पितरः	ब्राह्मणाः ।
				३३ मनवः	क्षत्रियाः ।
				३४ राक्षसाः	क्षत्रियाः ।
				३५ नारदः	ब्राह्मणः ।
				३६ देवलः	ब्राह्मणः ।

अथ सुरलोकनिवासिदेवतानां वर्णसंकर-  
जातिज्ञानचक्रम् ।

नाम	वर्णः ।
१ ब्रह्मा	ब्राह्मणः ।
२ अग्निः	"
३ वरुणः	"
४ मरीच्यादयः	ब्राह्मणाः ।
५ वायुः	ब्राह्मणः ।

नाम	वर्ण ।	नाम	वर्ण ।
३७ असितः	"	५४ घंटाकर्णः	"
३८ बृहस्पतिः	"	५५ भैरवः	"
३९ मृगुः	"	५६ मूंङ्गी	"
४० सनकादयः	"	५७ उल्मुकः	"
४१ गुल्बकाः	शूद्राः	५८ तुंबुरुः	अंबष्ठः ।
४२ विश्वावसुः	सूर्धावसिक्तः ।	५९ चित्राङ्गादयो-	
४३ चिद्रांगदः	"	विद्याधराः	आयोगवाः ।
४४ मातलिः	सूतः ।	६० निर्कृतिः	क्षत्रियः ।
४५ गेरावतः	उग्रः ।	६१ ब्रह्मराक्षसः	नानाजातिः ।
४६ पुष्पदन्तः	चारणः ।	६२ धेतालः	नानाजातिः ।
४७ नलकूबरः	यक्षेशः ।	६३ यातुधानाः	"
४८ चित्ररथः	सूर्धावसिक्तः ।	६४ उर्वश्याद्याः	"
४९ गुह्यकेयः	क्षत्ता ।	६५ मातरः	"
५० पिशाचः	चाण्डालः ।	६६ ज्ञाकिन्यः	"
५१ भूतः	"	६७ डाकिन्यः	"
५२ कूष्माण्डः	"	६८ विश्वकर्मा	"
५३ प्रेतः	चाण्डालः ।	६९ भोवनः	देवशिल्पी ।

इति सुरलोकनिवासिदेवतानां वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रं समाप्तम् ।

अथ देवानां वर्णनिर्देशमाह उक्तञ्च विष्णुरहस्यस्य द्वाविंशोऽध्याये-  
अब देवताओंके वर्णोंका निर्देश करते हैं जो विष्णुरहस्यके २२ वें अध्यायमें लिखा है ।

शौनक उवाच ।

अथ प्रस्तुतमाचक्ष्व यथा स ब्रह्मणे हरिः ।

उक्तवान्प्रथमां सृष्टिं सूत शुश्रूषवो वयम् ॥ १ ॥

शौनकजी बोले हे सूतजी ! अब आप इस प्रसंगप्राप्त वार्ताको कहिये कि, जिस प्रकार भगवान्ने ब्रह्माजीके प्रति सृष्टिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा है ॥ १ ॥

सूत उवाच ।

वासुदेवात्तु यां सृष्टिस्तथा संकर्षणादपि ।

या पूर्वमभवत्सूक्ष्मा ततोऽग्रेऽकथयद्हरिः ॥ २ ॥

सूतजी बोले—वामुदेव और संकर्षणसे जो पहिले सूक्ष्म सृष्टि हुई उसको भगवान्ने आगे निरूपण किया है ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच—तत एकादशे वर्षे प्रारभ्य ब्रह्मणो ह्ययम् ॥  
 प्रगृह्य सर्वदेवांशाञ्जीवांश्चाप्यखिलानपि ॥ ३ ॥  
 प्रद्युम्नरूपः स्वांगेषु बीजत्वेनासृजत्ततः ॥  
 तस्य वामांगमभवत्कृतिर्देवी ततः स्वयम् ॥ ४ ॥  
 अर्धनारीकदेहोऽसावर्धनारायणोऽभवत् ।  
 तस्य दक्षिणभागेभ्यो पुरुषा जज्ञिरेऽखिलाः ॥ ५ ॥

श्रीभगवान् बोले ब्रह्माके ग्यारह वर्ष प्राप्त होनेपर सब देवताओंके अंश और जीवोंको ग्रहण करके ॥ ३ ॥ प्रद्युम्नरूपने अपने अंगोंसे बीजरूपसे सबकी सृष्टि की, उनके बायें अंगसे स्वयंकृति देवी प्रगट हुई ॥ ४ ॥ यह आधे अंगमें स्त्री और आधे अंगसे नारायण रूप हुई, उसके दक्षिण भागसे अनेक पुरुष प्रगट हुए ॥ ५ ॥

चतुर्वर्णविभेदेन नार्यो वामांगतोऽभवन् ॥  
 मुखदक्षिणभागेभ्यो ब्रह्माग्निवरुणादयः ॥ ६ ॥  
 ऋषयोऽपि मरीच्याद्या ये च विप्राःस्वरूपतः ।  
 जीवास्तेऽपि विनिर्जग्मुस्ते विप्रा मुखजन्मतः ॥ ७ ॥  
 ब्रह्मा ब्राह्मणवर्णस्य मुख्यो देवः प्रकीर्तितः ।  
 ब्रह्मादीनांतु याः पत्न्यस्त्रीजीवा ब्रह्मजातयः ॥ ८ ॥  
 ता जाता वामभागेश्च्योमुख्यस्यास्त्वार्षरूपिणः ।  
 भुजदक्षिणतो वायुरुद्रशेषगरुत्मतः ॥ ९ ॥

और चारों वर्णोंके भेदसे स्त्रियें बायें अंगसे प्रगट हुई, और मुखके दक्षिण भागसे ब्रह्मा अग्नि वरुण प्रगट हुए ॥ ६ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि और ब्राह्मण हैं वे सब मुखसे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ ब्राह्मण वर्णके मुख्य देवता ब्रह्माजी हुए और ब्रह्मादिकी जो स्त्रियें थीं वह भी ब्रह्मजाति कहाई ॥ ८ ॥ वह इस अर्धनारीके मुखसे प्रगट हुई थीं, इसकी दक्षिण भुजासे वायु, रुद्र, शेष और गरुड हुए ॥ ९ ॥

इन्द्रप्रद्युम्नचन्द्रार्कवसुरुद्रादयोऽपरे ।  
 मरुतः क्षत्रवर्णत्वाज्जिरे क्षत्रजीवकाः ॥ १० ॥

सर्वाश्च तत्त्रियो वामाद्भुजाद्विष्णोर्विनिःसृताः।  
 क्षत्रदेवः परे वायुः प्रायेण क्षत्रियाः सुराः ॥ ११ ॥  
 कुबेरदेवगंधर्वा दसाद्या वैश्यवर्णकाः ।  
 वैश्यजीवाः परो विष्णोर्हरोर्दक्षिणोऽभवत् ॥ १२ ॥  
 नार्यश्च तादृशा वामादूर्जाताः प्रजापतेः ।  
 कुबेरो वैश्यवर्णस्य देवता परमोच्यते ॥ १३ ॥

इन्द्र, प्रद्युम्न, चन्द्र, सूर्य, वायु तथा दूसरे रज्जु हण्ड, यह क्षत्रवर्ण होनेसे क्षत्र जीविका वाले हण्ड ॥ १० ॥ उन सबका भी विष्णुकी वाम भुजासे प्रगट हुई, क्षत्र देवता वायु हैं यह ऊपर लिखे देवता जो भुजासे हण्ड, यह क्षत्रधर्मा कहाये ॥ ११ ॥ कुबेर, देवता गंधर्व, अश्विनीकुमार यह वैश्यवर्णवाले विष्णुकी दक्षिण जंघासे प्रगट हण्ड ॥ १२ ॥ और इसी वर्णकी स्त्रिये प्रजापतिकी वाम जंघासे उत्पन्न हुई वैश्यवर्णका कुबेर परम देवता हैं ॥ १३ ॥

यमो मानुषगन्धर्वास्तथैवाजानदेवताः ॥  
 शनिपुष्करयक्षाद्या यमदूताश्च सर्वशः ॥ १४ ॥  
 चित्रश्च चित्रगुप्तश्च बौंदवेतालकिन्नराः ॥  
 विद्याधरादयो येऽन्ये शूद्रवर्णाः समस्तशः ॥ १५ ॥  
 शूद्राजीवास्तथा सर्वे जातास्तदक्षिणांघ्रितः ॥  
 द्वियस्तादृशरूपास्तु तथैवाप्सरसां गणाः ॥ १६ ॥  
 जज्ञिरे वामतः पादाद्यमः शूद्राधिदेवता ।  
 यमस्यान्यद्धि यद्रूपं धर्मः स ब्राह्मणः स्मृतः ॥

यम, मानुष, गंधर्व, अजानदेवता, शनि, पुष्कर यक्षादि तथा समस्त यमदूत ॥ १४ ॥ चित्र, चित्रगुप्त, बंदि, वेताल, किन्नर तथा दूसरे विद्याधर यह सब शूद्र हैं ॥ १५ ॥ ये सब शूद्र प्रजापतिके दक्षिण चरणसे प्रगट हण्ड, और वैसेही स्त्रिये तथा अप्सराओंके ग ॥ १६ ॥ यह जब बायें चरणसे प्रगट हण्ड, यह शूद्रोंके अधिदेवता हैं यमका दूसरा रूप जो धर्म है वह ब्राह्मण कहा है ॥

पितरो ब्राह्मणा एव क्षत्रिया मनवः स्मृताः ॥  
 कर्मदेवास्तथा चान्ये निखिलाश्चक्रवर्तिनः ॥ १७ ॥

क्षत्रिया एव ते प्रोक्ता राक्षसा अपि शौर्यतः ॥  
 क्षत्रियेष्वेव गण्यन्ते ततस्ते भुजतोऽभवन् ॥ १८ ॥  
 पशुतिर्यक्पक्षिवृक्षतृणगुल्मादयोऽखिलाः ।  
 जीवाः पुंस्त्रीविभेदेन रोमभ्यो निःसृता इमे ॥ १९ ॥  
 ब्रह्मविंशतिवर्षे तु सृष्टिर्जाता निरूपिता ।  
 एवं नानाविधैर्जीवैर्नानारूपधरैर्हरिः ॥ २० ॥

पितर ब्राह्मण हैं, मनु क्षत्रिय हैं । कर्म देवता तथा दूसरे सब चक्रवर्ती ॥ १७ ॥ वह सब क्षत्रिय हैं तथा शूर होनेसे राक्षस भी क्षत्रिय हैं । वे क्षत्रियोंमें गणनावाले इसीसे हुए कि भुजाओंसे प्रकट हैं ॥ १८ ॥ पशु तिरछे चलनेवाले जीव, पक्षी, वृक्ष; तृण, गुल्म, आदि जो कुछ भी वे स्त्री पुरुष भेदवाले जीव प्रजापतिके रोमसे प्रगट हुए हैं ॥ १९ ॥ ब्रह्माके बीस वर्षमें सब सृष्टि हुई इस प्रकार अनेक जीवोंके रूपमें साक्षात् हरि भगवान् ही हैं ॥ २० ॥

चिक्रीडे स्वेच्छया काले स्वानन्दपरिपूरितः ।  
 उक्तो यो वर्णनिर्देशो देवानां विस्तरान्मया ॥ २१ ॥  
 नियामकः स नैतेषामाचारस्य कथंचन ।  
 सर्वे वर्णाश्रमाचाराः प्रत्यवायसमुज्झिताः ॥ २२ ॥  
 अपरोक्षविदो विष्णोर्भक्ता एकान्तिनो मम ।  
 अपरोक्षं विना विष्णोर्नहि देवत्वमाप्यते ॥ २३ ॥  
 इति श्रीविष्णुरहस्ये देवजातिनिरूपणं

नाम प्रकरणम् ॥

अपनी इच्छासे नियमित कालतक क्रीडा करते हैं और अपने आनन्दमें पूर्ण रहते हैं, जो यह विस्तरसे मैंने देवताओंका वर्णनिर्देश किया ॥ २१ ॥ इनके आचारका कोई नियम नहीं है, यह सब वर्णाश्रमोंका आचार विघ्नसे छूट जाता है ॥ २२ ॥

मेरे एकांत भक्तही विष्णुको अपरोक्ष रूपसे जानते हैं, विष्णुके अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) हुए बिना देवत्व प्राप्ति नहीं होती ॥ २३ ॥

इति देवजातिनिरूपणम् ।



अथ मनुष्यलोकजातिस्थसंकरजातिप्रसंगाद्देव--

लोकस्थसंकरं जातिभेदमाह-

अब मनुष्य लोकमें स्थित संकर जातिके प्रसंगसे देवलोकमें स्थिति संकर जातिके भेद कहते हैं ।

विष्णुरहस्ये पञ्चत्रिंशोऽध्याये-

शौनक उवाच-

भृग्विन्द्रद्युम्नसंवादाद्यदुक्तं हरिचेष्टितम् ॥

तदेव विस्तराद्बृहि तत्र कौतूहलं हि नः ॥ २४ ॥

सृष्ट्यादौ भगवान्भूत्वा वैराजः पुरुषो महान् ।

ससर्ज विश्वमखिलं नामारूपमिदं स्वतः ॥२५॥

वैजात्यं तत्कथं भूत देवेषु समभूत्तथा ।

विद्याप्रवृत्तिलंकेषु प्रवृत्तिं शिल्पिनो तथा ॥ २६ ॥

केन रूपेण भगवान् कथं चेदमिहातनोत् ॥

भूत उवाच-

जातिभेदस्तु देवेषु ईश्वरेच्छानिवन्धनः ॥ २७ ॥

शौनकजी बोले भृगु और इन्द्रद्युम्नके संवादमें जो आपन नारायणकी लीला वर्णन की है वह आप विस्तरसे कहिये इसमें हमको बड़ा कौतूहल है ॥ २४ ॥ सृष्टिकी आदिमें भगवानने विराट्पुरुष होकर अनेक रूपवाला इस संसारको रचा ॥ २५ ॥ हे सृज्जी ! देवताओंमें जाति संकर किस प्रकारसे हुआ लोकमें विद्याकी प्रवृत्ति तथा शिल्पियोंकी प्रवृत्ति ॥ २६ ॥ कैसे हुई किस रूपसे भगवानने यह सब किया, सृज्जी बोले देवताओंमें जातिभेद ईश्वरकी इच्छासे प्रवृत्त हुआ है ॥ २७ ॥

ब्रह्मवर्णपतिर्ब्रह्मा नारदो देवलोऽसितः ।

बृहस्पतिर्भृगुर्वह्निर्मरीच्याद्याः सनादयः ।

ऋषयः पितरः सर्वे ब्रह्मवर्णाः प्रकीर्तिताः ॥ २८ ॥

अश्विनौर्णपतिर्दायुः प्राणसत्र य ईरितः ॥

रुद्राद्याः प्रायशो देवाः क्षत्रवर्णा उदीरिताः ॥ २९ ॥

ब्राह्मणवर्णके पति ब्रह्माजी हैं, नारद, देवल, असित, बृहस्पति, भृगु, अग्नि, मरीचि-

आदि ऋषि सनकादि और पितर ये सब ब्राह्मण वर्ण हैं ॥ २८ ॥ अश्विनीकुमार, वरुण, वायु, प्राणात्मा जो कहा है, तथा रुद्रादि देवता यह क्षत्रियवर्ण कहाते हैं ॥ २९ ॥

अश्विनौ धनदो विश्वकर्मविद्याधरादयः ॥

वैश्यवर्णपतिं तेषां धनदं व्यदधाद्धरिः ॥ ३० ॥

एवमेव यमो देवो धर्मः काल इति द्विधा ।

धर्मो विप्रः कालशूद्रवर्णः ध्यक्षोऽथ दूतकाः ॥ ३१ ॥

अश्विनः कुमार, कुबेर, विश्वकर्मा, विद्याधर ये वैश्यवर्ण हैं, इनके पति विशेषकर भगवान्ते कुबेर किये हैं ॥ ३० ॥ इसी प्रकार कालका शूद्रवर्ण है, यह अपने दूतोंके अधिपति हैं ॥ ३१ ॥

यक्षाश्च गुह्यकाश्चापि शूद्रवर्णाः प्रकीर्तिताः ।

विश्वावसुश्चित्ररथस्तथा चित्रांगदादयः ॥ ३२ ॥

अष्टौ गन्धर्वपतयः प्रोक्ता मूर्धावसिक्तकाः ॥

तथा केचिद्देवगणा युद्धकर्मविशारदाः ॥ ३३ ॥

क्षत्रियादित्रिवर्णेषु ब्राह्मणादनुलोमिनः ॥

मूर्धावसिक्तकाम्बष्ठौ तथा पारशवस्त्विति ॥ ३४ ॥

इसीप्रकार यक्ष और गुह्यकोंका शूद्रवर्ण कथन किया है, विश्वावसु चित्ररथ तथा चित्रांगदा आदि ॥ ३२ ॥ तथा आठों गन्धर्वपति मूर्धावसिक्त कहाते हैं और जो देवता युद्धकर्ममें विशारद हैं वे भी ॥ ३३ ॥ क्षत्रियादि तीनों वर्णोंमें अनुलोम रीतिसे ब्राह्मणसे उत्पन्न हुए, मूर्धावसिक्त अम्बष्ठ और पारशव क्रमसे कहाते हैं ॥ ३४ ॥

ब्रह्मविद्शूद्रयोषित्स सूतो माहिष्य उग्रकः ॥

त्रयः क्षत्रियतो जातौ प्रतिलोमानुलोमिनौ ॥ ३५ ॥

ब्रह्मक्षत्रियशूद्रस्त्रीगर्भजा वैश्यतस्त्रयः ॥

धैदेहो मागधश्चैव करणश्चानुलोमजाः ॥ ३६ ॥

शूद्राश्चाण्डालक्षत्तारावयोगव इति त्रयः ॥

ब्राह्मणादिषु नारीषु प्रोच्यन्ते प्रतिलोमिनः ॥ ३७ ॥

क्षत्ताराविति विज्ञेयौ उग्रपारशवावपि ॥

एवं द्वादश पूर्वैस्तु चतुर्भिः संयुतास्त्वमी ॥ ३८ ॥

ब्राह्मण वैश्य और शूद्रकी स्त्रियोंमें क्षत्रियसे उत्पन्न पुत्र क्रमसे माहिष्य और उग्रक कहाते हैं, क्षत्रियसे प्रतिलोम और अनुलोम रूपसे यह होते हैं ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रकी स्त्रियोंमें तीन पुत्र वैश्यसे वैदेह मागध और करण अनुलोम रूपसे होते हैं ॥ ३६ ॥ शूद्रसे ब्राह्मणादि तीन वर्णकी स्त्रियोंमें क्रमसे चांडाल, क्षत्ता और अयोगव होता है यह प्रतिलोम हैं ॥ ३७ ॥ क्षत्ता दो; उग्र और पारशव. यह चारह पहिले और चार यह ॥ ३८ ॥

देवाः षोडश जातीयाः स्वभावादेव जज्ञिरे ॥

मातल्याद्याः सूतजात्या उग्रा ऐरावता द्विपाः ॥ ३९ ॥

कर्णाश्विचित्रगुप्ताद्या मागधश्चारणेषु तु ॥

केचित्सूताश्च तत्रापि यक्षाः पारशवोऽग्रकाः ॥ ४० ॥

इस प्रकारसे सोलह जातिके देवता स्वभावसे ही प्रगट हुए हैं मानके आदि सूतजाति, और ऐरावत हाथी उग्र जाति हैं ॥ ३९ ॥ कर्णाश्वि चित्रगुप्तादि चारणोंमें हैं तथा—कोई शूद्रको भी इन्हींमें गिनते हैं, यक्ष पारशव और उग्रजाति हैं ॥ ४० ॥

पुष्पदन्तश्चारणेशो यक्षेशो नलकूबरः ॥

क्षत्तारो गुह्यकंप्वेव प्रोक्ताः शूद्रानुयायिनः ॥ ४१ ॥

पिशाचभूतकूष्माण्डाः प्रेताश्चाण्डालजातयः ।

घंटाकर्णः पिशाचेशो भूतेशो भैरवः स्मृतः ॥ ४२ ॥

कूष्माण्डेशो भृंगि रुक्मी प्रेताधीशस्तथोलमुकः ।

तुंबुर्वाद्याश्च गंधर्वा अंबष्ठा अखिला अपि ॥ ४३ ॥

पुष्पदन्त चारणोंका अधिपति, नलकूबर यक्षोंका पति, गुह्यकेश क्षत्ता हैं, यह शूद्रानुयायी हैं ॥ ४१ ॥ पिशाच, भूत, कूष्माण्ड, प्रेत चांडाल जानिवाले हैं, घण्टाकर्ण पिशाचोंका अधिपति और भैरव भूतोंके अधिपति हैं ॥ ४२ ॥ कूष्माण्डोंके अधिपति भृंगी, प्रेतोंके अधिपति रुक्मी तथा उल्लुक् हैं, तुम्बुरु आदि गन्धर्व अम्बष्ठा जातिवाले हैं ॥ ४३ ॥

आयोगवाश्च माहिष्या नानाशिल्पविशारदाः ॥

विद्याधरेषु केचित्तु चित्रकेत्वादयो विशः ॥ ४४ ॥

सर्वरक्षःपतिः प्रोक्तः क्षत्रवर्णोऽथ तद्रणाः ॥

ब्रह्मराक्षसवेताला नानाजात्यः प्रकीर्तिताः ॥ ४५ ॥

आयोगव और माहिष्य अनेक शिल्प विद्याओंके ज्ञाता हैं विद्याधरोंमें चित्रकेतु आदि

वैश्यवर्ण हैं ॥ ४४ ॥ सब राक्षसोंके पति निर्ऋति, और उनके गण क्षत्रियवर्ण हैं, ब्रह्मराक्षस  
बेताल नाना जातिवाले कहे हैं ॥ ४५ ॥

ऋग्व्यादाः शोणिताहार यातुधानास्तथापरे ॥  
उर्वश्याद्या अप्सरसो नानाजात्यस्तथोदिताः ॥ ४६ ॥  
भृङ्गिनस्तालधराः शूद्राद्यास्तु यथायथम् ॥  
नटा गन्धर्वजातीयाश्चारणाः परिहासकाः ॥ ४७ ॥  
वीणादिसहगातारो गन्धर्वाः परिकीर्तिताः ॥  
केवलं कंठमाधुर्याद्गायंतो विविधैः स्वरैः ॥ ४८ ॥

शोणितभोजी ऋग्व्याद् तथा यातुधानादि और उर्वशी आदि अप्सरा अनेक जातिकी हैं  
॥ ४६ ॥ भृङ्ग वज्रानेवाले, ताल देनेवाले, यह सब शूद्र हैं, नट गन्धर्व जातीय तथा  
हंसानेवाले चारण हैं ॥ ४७ ॥ वीणा बाजेपर गानेवाले गन्धर्व हैं और केवल कंठकी माधु-  
र्यतासे जो अनेक सुरोंसे गाते हैं ॥ ४८ ॥

किन्नरास्ते नरास्या हि हयाकारकबंधकाः ॥  
केचित्किम्पुरुषास्त्वन्ये हयास्या नृकबंधकाः ॥ ४९ ॥  
गधर्वपतयस्तेऽपि सेवन्ते देवतागणान् ॥  
मातरः पूतनाद्याश्च शाकिन्यो डाकिनीगणाः ॥ ५० ॥  
मलरक्तसुरापाश्च नानाजात्यः प्रकीर्तिताः ।  
सर्ववर्णाश्रमाचारा देवा यद्यपि सर्वशः ॥ ५१ ॥

वे सब किन्नर होते हैं इनका मुख मनुष्योंके आकारका शेष अंग घोड़ेके आकारका होता  
है, दूसरे किम्पुरुष होते हैं इनका मुख घोड़ेके आकारका शेष शरीर मनुष्योंके आकारका  
होता है ॥ ४९ ॥ यह गन्धर्वपति भी देवताओंकी सेवा करते हैं, सप्त मातृका पूतनाको  
आदिले ग्रह शाकिनी और डाकिनी ॥ ५० ॥ मल रक्त और सुरा पान करनेवाली नाना  
जातिवाली हैं यद्यपि सब तरहसे देवता वर्णाश्रम आचारवाले हैं ॥ ५१ ॥

तथापि प्रायः स्वाभाव्यादेतज्ज्ञातय ईरिताः ॥  
सर्वस्रष्टायतो विष्णुनीस्य जातिर्नियम्यते ॥ ५२ ॥  
स्वस्वयोग्यतया सर्वे ब्रह्माद्यैः स उपास्यते ॥  
एवं षोडश जातीया नरजीवाः प्रकीर्तिताः ॥ ५३ ॥

चराचरस्य सर्वस्य व्यवहारप्रसिद्धये ॥  
 जीवनार्थञ्च सर्वेषां विश्वकर्माभवत्स्वयम् ॥  
 देवानुपादिशच्छिल्पान्यथायोग्यतथाखिलान् ॥ ५४ ॥

तो भी यह छोटी जाति स्वभावसे इसी प्रकारकी है, भगवान् सबके उत्पन्न करनेवाले हैं, इनको किसी जातिका नियम नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ अपनी अपनी योग्यतासे समस्त ब्रह्मादि देवता इनकी उपासना करते हैं, इस प्रकारके सोलह जातिवाले नरजीवोंका वर्णन किया ॥ ५३ ॥ सब चर अचरकी व्यवहार सिद्धिके लिये तथा सबकी जीविका निर्वाहके लिये वहाँ स्वयं विश्वकर्मा होकर यथायोग्य देवताओंको शिल्पकर्म सिखाने लगे ॥ ५४ ॥

ब्राह्मणं नारदादींश्च मुखविद्या उपादिशत् ॥  
 भुवनो नाम यो देवो विश्वकर्माथ तत्सुतः ॥ ५५ ॥  
 प्रसिद्धो यश्च शास्त्रेषु भौवनः सुरवार्यकिः ॥  
 विश्वकर्मा स्वयं तत्र च्छित्वा लोकान्विनिर्ममे ॥ ५६ ॥  
 प्रासादांश्च विमानानि वाप्युद्यानान्यलंकृतीः ॥  
 वस्त्रवाद्यादिवस्तूनि विचित्राणि पृथक्पृथक् ॥ ५७ ॥  
 ततः सृष्टान्मर्त्यलोके नानाजीवानुपादिशत् ॥  
 नानाऋषिगतो विष्णुर्वेदान्सांगान्द्रजातिषु ॥ ५८ ॥

ब्राह्मण नारद आदिको मुखविद्याका उपदेश किया, भुवन नामक देवताके विश्वकर्मा नामक पुत्र हुआ ॥ ५५ ॥ यह भुवनका पुत्र सब शास्त्रोंमें देवताओंका शिल्पी कहकर विख्यात है, विश्वकर्माने स्वयं काष्ठादिको छेदन कर लोकोके स्थान बनाये ॥ ५६ ॥ बड़े बड़े महल, विमान ( सवारियों ), बावड़ी, उद्यान ( बगीचे ) बनाये, बस्त्र तथा अनेक प्रकार के वाद्य और बहुतसी विचित्र वस्तुओंकी न्यारी न्यारी कल्पना ॥ ५७ ॥ फिर मृत्यु लोगके अनेक जीवोंको इनका उपदेश किया और विष्णु भगवानसे अनेक ऋषियोंके रूपमें सांगवेद का ब्राह्मणोंमें उपदेश किया ॥ ५८ ॥

सर्वेषां गुरवो विप्रा विप्राणान्तु मिथोधिकाः ॥  
 आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं चार्थशास्त्रकम् ॥ ५९ ॥  
 सत्यायुषि शरीरस्य नानारोगनिवृत्तये ॥  
 आयुर्वेदं वितेने स ह्यन्निवेश्यादिभिर्भवि ॥ ६० ॥

नानाशास्त्रैर्युद्धसिद्धयै धनुवदमवातनोत् ॥  
 राज्ञाञ्च धनिकानाञ्च मनोरंजनसिद्धये ॥ ६१ ॥  
 गान्धर्व व्यतनोद्यत्र गीतं वाद्यञ्च नर्तनम् ॥  
 पापक्रियागजाश्वादिनानाकर्मप्रसिद्धये ॥ ६२ ॥  
 लोकानां व्यवहाराय नानाशिल्पप्रसिद्धये ॥  
 राजनीत्यै दण्डनीत्यै अर्थशास्त्रमिहातनोत् ॥ ६३ ॥

ब्राह्मण भक्तके गुरु हैं, ब्राह्मणोंमें रहस्यके जाननेवाले विशेष हैं । आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्रका उपदेश किया ॥ ५९ ॥ यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक रोगोंकी निवृत्तिके लिये अग्निवंशादि ऋषियोंके द्वारा चिकित्सा शास्त्रका विस्तार किया ॥ ६० ॥ युद्धकी सिद्धिके निमित्त अनेक शास्त्रोंसे धनुर्वेदका विस्तार किया, राजा और धनियोंके मनोरंजनके निमित्त ॥ ६१ ॥ गाने बजाने नाचनेकी सिद्धिवाले गान्धर्व वेदका विस्तार किया पापकी क्रिया हार्था घोडे आदिका शिक्षण और लक्षणादिवाला है ॥ ६२ ॥ तथा लोकव्यवहार सिद्धिके लिये अनेक प्रकारके शिल्प, राजनीति और दण्डनीतिवाले अर्थशास्त्रका विस्तार किया ॥ ६३ ॥

इति श्रीविष्णुरहस्ये देवलोकस्थवर्णसंस्करणजातिप्रकरणम् ।

अथ पूर्वोक्ताद्विशेषं जातिधर्मं निरूपयति  
 विष्णुरहस्यैकत्रिंशत्तमेऽध्याये ।

अब पूर्वोक्तसे विशेष जातिधर्मका निरूपण करते हैं, विष्णुरहस्यके ३१ वें अध्यायमें लिखा है ।

भृगुरुवाच—

ससर्ज भगवानादौ वैराजो निजदेहतः ॥  
 मुखतो ब्राह्मणं बाह्वोः क्षत्रियं वैश्यमूरुतः ॥ ६४ ॥  
 पादाच्छूद्रस्त्रियस्तेषां वामभागान्मुखादितः ॥  
 शुक्लवर्णाऽभवद्विप्रः शूद्रोऽभूत्कृष्णवर्णकः ॥ ६५ ॥

भृगुजी बोले—पहिले भगवान्ने अपनी देहसे विराट् पुरुषको किया, उसके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य ॥ ६४ ॥ और चरणोंसे शूद्र हुए, यह सब दक्षिण भागसे हुए, और इनकी स्त्रियां वाम भागसे हुईं, ब्राह्मणका शुक्लवर्ण और शूद्र कृष्णवर्ण वाला हुआ ॥ ६५ ॥

क्षत्रियः प्रायशः शुद्धः कृष्णः प्रायेण विद् स्मृतः ॥  
 ब्राह्मणः सर्वतः श्रेष्ठस्तुर्याशस्तस्य बाहुजः ॥६६॥  
 वैश्यस्तत्पंचमांशश्च शूद्रस्तत्पष्टकांशकः ॥  
 ब्राह्मणो मुखजातत्वान्मुखकर्माणि तस्य तु ॥६७॥  
 तत्र दृष्टफलान्यस्य जीनिकान्यापि यापि तु ॥  
 स्युः पुण्यजनकान्येव बाहुकर्मा च बाहुजः ॥६८॥

प्रायशः क्षत्रिय भी उज्ज्वल वर्ण हृष्ट, और उनकी अपेक्षा वैश्य कृष्ण वर्ण हृष्ट, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हृष्ट क्षत्रिय उनके चतुर्भांश ॥ ६६ ॥ वैश्य उनके पंचभांश और शूद्र उनके षष्टांश हैं, ब्राह्मण उनके मुखसे उत्पन्न हृष्ट, इससे उनके कर्मा मुखक हैं ॥ ६७ ॥ उसमें दृष्टफलानुसार उनकी आर्वाविका है, जो भ्रिमर्षि आर्वाविका है, कहीं उनकी पुण्य देनेवाली है, क्षत्रिय मुझसे उत्पन्न होनेके कारण बाहुकर्मा हैं ॥ ६८ ॥

जघन्यकर्मा वैश्यः स्यात्सेत्राकर्मा तु पादजः ॥  
 एतेषामानुलोम्येन प्रतिलोम्येन सृष्टिषु ॥६९॥  
 बहवो जातयो जाता नानाशिल्पेषु नैपुणाः ॥  
 नानाविद्याधराश्चान्या विश्ववृत्तिप्रवर्त्तकाः ॥७०॥

वैश्य जघासे उत्पन्न होनेके कारण जघन्यकर्मा हैं और सेवा करनेवाला शूद्र है, इनके अनुलोम और प्रतिलोम संयोगसे सृष्टिमें ॥ ६९ ॥ शिल्पकर्ममें चतुर अनेक जातियें उत्पन्न हुईं, कोई अनेक विद्याधारण करनेवाली जगत्में वृत्तियोंमें प्रवृत्त हुईं ॥ ७० ॥

प्रतिलोम्येन ते न्यूतदाविक्येन लोमकः ॥  
 ब्राह्मणस्य त्रयः पुत्रास्त्रिवर्णेष्वनुलोमजः ॥ ७१ ॥  
 शूद्रस्य च त्रयः पुत्रास्त्रैवर्ण्ये प्रतिलोमजाः ॥  
 त्रयस्त्रयः क्षत्रविशाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ७२ ॥  
 एवं द्वादशवर्णानां पुत्रा एकैकशस्तु ते ॥  
 चातुर्वर्ण्ये प्रमूयन्ते चतुरश्वतुरः सुतान् ॥ ७३ ॥  
 ते चत्वारिंशदष्टौ च पर्वैर्द्वादशभिः सह ॥  
 चातुर्वर्ण्येन संयुक्ताश्चतुःषष्टिर्हि जातव्यः ॥ ७४ ॥

प्रतिलोम द्वारा उत्पन्न हृष्ट न्यूत हैं, और अनुलोम उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणसे

क्षत्रिया वैश्या और शूद्रामें उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और शूद्रसे वैश्या, क्षत्रिया, और ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुए पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं; इस प्रकार क्षत्रिय वैश्यसे अपत्यसे निकृष्ट वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम और उत्कृष्ट वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं ॥ ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोंसे उत्पन्न चार चार पुत्र एक एकके द्वारा बारह भेदवाले होते हैं ॥ ७३ ॥ और इन बारहोंद्वारा अनुलोम प्रतिलोमके भेदसे अठताल्लक्षण प्रकारके होते हैं, इस प्रकार चारों वर्णोंसे संकरतामें चौंसठ जातियां होती हैं ॥ ७४ ॥

तत्राथास्तु चतुर्वर्णा द्वादश स्युर्द्वितीयकाः ॥  
 अन्ये तृतीयास्तेभ्योऽन्ये चतुर्थाद्यास्तदुद्भवाः ॥ ७५ ॥  
 अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तारि गोलकः ॥  
 षोडशाद्या द्वितीयाश्च कुण्डगोलकसंयुताः ॥ ७६ ॥  
 जातयोऽष्टादश प्राहुरन्याः संकरजातयः ॥  
 जातीनान्तु पुनः षष्ठे मिथः कन्यासु संगताः ॥ ७७ ॥  
 प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्युः पुनस्ततः ॥  
 तत्तज्जातिककन्यासु तत्तज्जातीयपुरुषैः ॥ ७८ ॥  
 चतुर्थीः पञ्चमाः षष्ठ्य इत्यनन्ता हि जातयः ॥  
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या वैदिकेष्वधिकारिणः ॥ ७९ ॥

उनमें पहले चार वर्णसे बारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे और चौथे वर्णद्वारा उन उन संकरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड और पतिके मरणपर अन्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र गोलक कहाता है, पहले सोलह और दूसरे यह ऊपर कहे हुए कुण्ड गोलक इनसे संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारह प्रकारकी दूसरी जातियां होती हैं फिर इन जातियोंमें छठी परस्पर कन्याओंके संगत होनेसे ॥ ७७ ॥ प्रतिकन्याओंके उत्पन्न होनेसे फिर उनमें कन्या और पुरुषोंके उत्पन्न होनेसे उन उन जातिके कन्या और पुरुषोंसे ॥ ७८ ॥ चौथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातियें उत्पन्न होती हैं इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वेदके अधिकारवाले हैं ॥ ७९ ॥

शूद्रास्त्वत्रानधिकृतास्तथैव प्रतिलोमिनः ॥  
 अनुलोमिषु यत्र स्याच्छूद्रवर्णस्य संक्रमः ॥ ८० ॥  
 मातृतः पितृतो वापि साक्षाद्दान्तरतोऽपि वा ॥  
 तेषामपि भवेन्नैव वैदिकेष्वधिकारिता ॥ ८१ ॥



क्षत्रिया वैश्या और शूद्रामें उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और शूद्रसे वैश्या, क्षत्रिया, और ब्राह्मणमें उत्पन्न हुए पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं; इस प्रकार क्षत्रिय वैश्यसे अपत्यसे निकृष्ट वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम और उत्कृष्ट वर्णकी स्त्रियोंमें उत्पन्न पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं ॥ ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोंसे उत्पन्न चार चार पुत्र एक एकके द्वारा बारह भेदवाले होते हैं ॥ ७३ ॥ और इन बारहोंद्वारा अनुलोम प्रतिलोमके भेदसे अद्वितालीक प्रकारके होते हैं, इस प्रकार चारों वर्णोंसे संकरतामें चौंसठ जातियां होती हैं ॥ ७४ ॥

तत्राथास्तु चतुर्वर्णा द्वादश स्युर्द्वितीयकाः ॥  
 अन्ये तृतीयास्तेभ्योऽन्ये चतुर्थाद्यास्तदुद्भवाः ॥ ७५ ॥  
 अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तारि गोलकः ॥  
 षोडशाद्या द्वितीयाश्च कुण्डगोलकसंयुताः ॥ ७६ ॥  
 जातयोऽष्टादश प्राहुरन्याः संकरजातयः ॥  
 जातीनान्तु पुनः षष्ठे मिथः कन्यासु संगताः ॥ ७७ ॥  
 प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्युः पुनस्ततः ॥  
 तत्तज्जातिककन्यासु तत्तज्जातीयपुरुषैः ॥ ७८ ॥  
 चतुर्थीः पञ्चमाः षष्ठ्य इत्यनन्ता हि जातयः ॥  
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या वैदिकेष्वधिकारिणः ॥ ७९ ॥

उनमें पहले चार वर्णसे बारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे और चौथे वर्णद्वारा उन उन संकरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड और पतिके मरणपर अन्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र गोलक कहाता है, पहले सोलह और दूसरे यह ऊपर कहे हुए कुण्ड गोलक इनसे संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारह प्रकारकी दूसरी जातियां होती हैं फिर इन जातियोंमें छठी परस्पर कन्याओंके संगत होनेसे ॥ ७७ ॥ प्रतिकन्याओंके उत्पन्न होनेसे फिर उनमें कन्या और पुरुषोंके उत्पन्न होनेसे उन उन जातिके कन्या और पुरुषोंसे ॥ ७८ ॥ चौथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातियें उत्पन्न होती हैं इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वेदके अधिकारवाले हैं ॥ ७९ ॥

शूद्रास्त्वत्रानधिकृतास्तथैव प्रतिलोमिनः ॥  
 अनुलोमिषु यत्र स्याच्छूद्रवर्णस्य संक्रमः ॥ ८० ॥  
 मातृतः पितृतो वापि साक्षाद्दान्तरतोऽपि वा ॥  
 तेषामपि भवेन्नैव वैदिकेष्वधिकारिता ॥ ८१ ॥

येषां न ज्ञायते मातृपितृजातिविनिर्णयः ॥  
 संकीर्णास्तं हि विज्ञेयास्तदालापमपि त्यजेत् ॥८९॥  
 तद्दृष्टो कर्णसंस्पर्श आलापे जलमाचमेत् ॥  
 स्पर्शो सवाससा स्नानं पञ्चमव्याशनाच्छुचिः ॥ ९० ॥

जिनके माता पिताकी जातिके निर्णय न हो वह संकीर्ण जाति जाननी, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिये ॥ ८९ ॥ उनके देखते ही कर्ण स्पर्श करे और बात करनेपर जलसे स्नान करे और पंचमव्य गाय तो शुद्ध होता है ॥ ९० ॥

राजोवाच—पूर्वाक्तविधिना केचिज्जायन्ते वैश्यतोऽधिकाः ।

प्रतिलोमा अपि कथं वैदिके नाधिकारिणः ॥ ९१ ॥

राजा बोला -पूर्वाक्त विधिसे कोई प्रतिलोम वैश्यवर्णसे विशेष हों तो वे वेदके कर्मके अधिकारी कैसे हैं ॥ ९१ ॥

भृगुरुवाच ।

द्विजस्त्रीणामिवैतेषां वैश्याधिक्येऽपि सर्वथा ॥  
 वचनादधिकारो नो जातो दोषोऽत्र शक्यते ॥  
 वैदिकेभ्यस्तु ये जाताः कुंडा वा गोलका अपि ॥  
 आनुलोम्येन तेऽपि स्युः पितृजातिक्रियाकराः ॥ ९२ ॥

भृगुजी बोले -वैश्यमें अधिक होनेपर उन सबके द्विजोंकी स्त्रियोंके समान शास्त्र वचनसे वेदमें अधिकार नहीं है, और जो वैदिक अधिकारियों द्वारा कुण्ड वा गोलक उत्पन्न हुए हैं, वे अनुलोम रूपसे उत्पन्न होनेके कारण पिताकी जातिकी क्रिया करनेवाले होते हैं ॥ ९२ ॥

संस्कार्या वैदिकैर्मत्रैर्वेदाध्ययनवार्जिताः ॥  
 अवैदिकेषु शास्त्रेषु ज्ञेया तदाधिकारिता ॥ ९३ ॥  
 ब्राह्मणेभ्योऽपि जातीनां कुंडादीनां प्रतिग्रहे ॥  
 अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीर्तितः ॥ ९४ ॥

उनका संस्कार वेद मन्त्रोंसे होना चाहिये, पर उनकी वेद पढ़नेका निषेध है, अवैदिक शास्त्रोंमें उनका अधिकार है ॥ ९३ ॥ यदि कुण्डादि जाति ब्राह्मणोंसे हो तो उनको भी दान लेने वेद पढ़ाने तथा यज्ञ करानेका अधिकार नहीं है ॥ ९४ ॥

ज्योतिषे वैदिके ज्ञाने शिवादीनां च पूजने ॥  
 अधिकारस्तथा वृत्त्या तेषां जीवनमीरितम् ॥ ९५ ॥

अतिलोभिषु सर्वेषु वैश्यान्न्यूनेषु कुंडता ॥

नैः गोलकता वापि तदाधिक्येऽनुलोमिवत् ॥ ९६ ॥

ज्योतिष विद्या, वैदिक ज्ञान, शिवादि देवनाओंका पूजन इनमें उनका अधिकार है और इसी वृत्तिसे वे अपना जीवन निर्वाह करें ॥ ९५ ॥ सब प्रतिलोमियोंमें कुण्डता वैश्य जाति से न्यून है पर गोलकता नहीं यह अनुलोमीय समान है और जातिमें उनसे विशेष है ॥ ९६ ॥

यथानुलोमिकुंडादौ संस्कृतिः पितृजातिवत् ॥

वैश्यादिकेभ्यः कुंडादि जन्मिनां पितृवत्क्रियाः ॥ ९७ ॥

वेदाध्ययनहीनानां जातीनामुपनायने ॥

न कालनियमावस्था नैवातिनियमा अपि ॥ ९८ ॥

स्वस्ववृत्तिकर्ण विद्याध्ययनाध्यापनानि तु ॥

कर्तव्यानि न दोषोऽत्र तथा वैदिककर्मसु ॥ ९९ ॥

जैसे अनुलोमसे उत्पन्न हुए कुण्डादिका संस्कार पिताकी जातिके समान होता है ऐसे ही वैश्य आदिसे उत्पन्न कुण्डादिकी पिताके समान क्रिया होगी ॥ ९७ ॥ जो वेदके अध्ययनसे हीन है उन जातियोंके उपनयन ( अनुलोम होने पर कालकी अवस्थाका कोई नियम नहीं है ॥ ९८ ॥ उनको उन २ की वृत्तिकी विद्या सिखानी चाहिये इसमें कुछ दोष नहीं है, तथा उन अनुलोमोंका वैदिक कर्मोंमें दोष नहीं है ॥ ९९ ॥

ब्रह्मचर्यञ्च गार्हस्थ्यं वानप्रस्थं परिव्रजिः ॥

चत्वार आश्रमा ह्येते प्रोक्ता वेदाधिकारिणाम् ॥ १०० ॥

सपादाधिकता ज्ञेया गृहस्थब्रह्मचारिणोः ॥

तथा ततोऽधिको वन्यस्तथा तस्माच्च नैष्ठिकः ॥ १०१ ॥

यतिः सार्द्धाधिकस्तस्मान्नैष्ठिकब्रह्मचारिणः ॥

ये तूपनीत्यधिकृता न वेदेष्वधिकारिणः ॥ १०२ ॥

आश्रमं द्वितयं तेषामाद्यमेव प्रकीर्तितम् ॥

नैष्ठिक्यञ्चापि वानस्थं तेषां पाक्षिकमिष्यते ॥ १०३ ॥

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह वेदके अधिकारियोंको चार आश्रम कहे ॥ १०० ॥ गृहस्थ और ब्रह्मचारीको सपादाधिकता जाननी उनसे बनवासी वानप्रस्थ विशेष है और उनसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी विशेष है ॥ १०१ ॥ नैष्ठिक ब्रह्मचारीसे यति सार्द्धाधिक है ।

जिनका वेदमें अधिकार नहीं है उनका यज्ञोपवीत किया हो तो वे संन्यासादिके अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे पहिलेहीसे अनधिकारी हैं ॥ १०२ ॥ उनको दूसरा आश्रम गृहस्थही कहा गया है, उनका ब्रह्मचारीपन और वानप्रस्थ विकल्पसे पन्द्रह दिनका कहा गया है ॥ १०३ ॥

पारिव्रज्यन्तु नैतेषां प्रणवानधिकारता ॥

ये नोपनीत्यधिकृतास्तथा संकरजातयः ॥१०४॥

गार्हस्थ्यमेव तेषां स्यान्नामजाप्येऽधिकारिता ॥

वैदिका उपनीताः स्युर्द्विजा इति हि कीर्तिताः ॥१०५॥

उनको संन्यास आश्रमका अधिकार नहीं है, और ओंकार उच्चारणमें भी अधिकार नहीं है, जो उपनीतिके अधिकारी नहीं तथा संकरजाति हैं ॥ १०४ ॥ उनको केवल गृहस्थ आश्रममें ही अधिकार है और वे भगवानका नाम जपा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वैदिक हैं इस कारण यह द्विज कहाते हैं ॥ १०५ ॥

मातृतः प्रथमं जन्म गायत्र्याश्च द्वितीयकम् ॥

अतो द्विजत्वमेतेषां ते हि वेदाधिकारिणः ॥१०६॥

ये तूपनीतिहीनास्ते विज्ञेया एकजातयः ।

ये तु पौराणिकैर्मंत्रैरुपनीताः कथंचन ॥१०७ ॥

ते मिथ्या इति विज्ञेयाः पुराणागमवेदिनः ॥

एकजातिषु शूद्रोऽनः सहस्रं यावदंशकः ॥१०८॥

इतिहासपुराणेषु स्मृतिष्वगमनेषु च ॥

विप्राच्छ्रवणमात्रे स्यादधिकारो न चान्यथा ॥ १०९ ॥

पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म गायत्री धारणसे होता है, इस कारण दो जन्म होनेसे इनकी द्विज संज्ञा है, और जो किसी प्रकार पुराणोंके मन्त्रोंसे उपनीतिसे हीन है वे एक जाति शूद्र कहाते हैं, और जो किसी प्रकार पुराणोंके मन्त्रोंसे उपनीत हैं ॥१०७॥ वे पुराण, आगमके ज्ञाताओंने मिश्रित संकरजाति कहे हैं, एक जाति होनेसे शूद्र सहस्र अंशमें न्यून कहा गया है ॥ १०८ ॥ इतिहास, पुराण, स्मृति और शास्त्रोंमें इन लोगोंको ब्राह्मणके मुखसे इतिहास, पुराण तथा निज धर्म सुनना कहा है ॥ १०९ ॥

अथ ये स्युस्ततो न्यूनास्तेषां मानुषनिर्मिते ॥

कथागाथापद्यकादौ भगवन्महिमांकिते ॥ ११० ॥

ज्ञेया अधिकृतस्तेषां सुकृतं तत एव हि ॥

वेदस्याध्ययनं यागो द्विजानां धर्म ईरितः ॥ १११ ॥

दानं हि सर्वजातीनां हरेर्नाम्नां च कीर्तनम् ॥

ज्ञानं नमस्कृतिर्यात्रा दयास्तेषां प्रदक्षिणा ॥ ११२ ॥

जो इनसे भी न्यून हैं वे मनुष्योंके रचित गथा, गाथा, पद्य ( भजन ) जिनमें भगवानकी महिमा हो ॥ ११० ॥ पढ़ें । इसमें उनका अधिकार है यही उनको पुण्यदायक है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका धर्म है ॥ १११ ॥ दान देना, भगवानका नाम स्मरण करना, ज्ञान, नमस्कार, नार्थयात्रा, दया, मोरी न करना, प्रदक्षिणा करना ये समस्त जानियोंका धर्म है ॥ ११२ ॥

स्वभर्तृनियतिः स्त्रीणां स्वदारनियतिर्नृणाम् ॥

एते प्रायेण संप्रोक्ता धर्माः साधारणा इति ॥ ११३ ॥

प्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च याजनं दूत्यमेव च ॥

विप्राणां जीविका तत्र दूत्यं पाक्षिकमिष्यते ॥ ११४ ॥

स्त्रियोंको अपनेकी पतिके परायण होना और पतिको अपना धर्मिणी रनि होना उचित है, यह सबके लिये साधारण धर्म है ॥ ११३ ॥ दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, दौत्य-कर्म वह ब्राह्मणोंकी आर्जाविका है, दूतपनमें विकल्प है, ब्राह्मणोंको दूत बनाना सर्व-सम्मत नहीं ॥ ११४ ॥

प्रतिग्रहादौ नान्येषामधिकारस्त्रिके क्वचित् ॥

विप्रक्षत्रियमध्यस्थाः कथंचिदधिकारिणः ॥ ११५ ॥

युद्धं हि क्षत्रिये मुख्यं रथमातंगवाजिनाम् ॥

रक्षणानि क्रिया नाना सारथ्यायांपदि स्मृतम् ॥ ११६ ॥

कृषिगोरक्षवाणिज्यं नानाकर्मसु कौशलम् ॥

विद्शूद्रजीविका प्रोक्ता शूद्रे तु द्विजसेवनम् ॥ ११७ ॥

प्रतिग्रहादिमें अर्थात् दान लेनेमें, वेद पढ़ानेमें, यज्ञकरानेमें अन्य वर्णोंका अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मणहीको है, परन्तु किसी अवस्थामें क्षत्रियको भी अधिकार है ॥ ११५ ॥ मुख्य तो क्षत्रियका युद्ध ही धर्म है । रथ, हाथी, घोड़ोंकी रक्षा तथा दूसरी अनेक प्रकारकी क्रिया क्षत्रियोंकी आर्जाविका है, आपत्कालमें ये सारथ्य भी कर सकते हैं ॥ ११६ ॥ गेती, गोरक्षा, वाणिज्य, अनेक कार्योंमें कुशल होना यह वैश्य और शूद्रकी आर्जाविका कही है, शूद्रका द्विजसेवा भी परम धर्म है ॥ ११७ ॥

स्ववृत्त्यासेवनं क्षत्रे क्षत्रस्य न निषिध्यते ॥  
नीचसेवा तु सर्वेषां निन्दिता परिकीर्तिता ॥११८॥  
आपद्यपि च कष्टायां सन्निकृष्टस्य वृत्तिभिः ॥  
सर्वेऽपि जीवनं कुर्युर्नीचकृष्टस्य सेवनम् ॥११९॥

क्षत्रियशो अपनी वृत्तिकी रक्षा अर्थात् आत्रधर्ममें रत रहना श्रेष्ठ है निषिद्ध नहीं है और नीचसेवा तो सबके लियेही निषिद्ध कही है ॥ ११८ ॥ आपत्काल तथा कष्टमें जो अजीविका अपनेमें निकृष्ट वर्णकी हो उसमें आजीविका कर सकता है, यह सब वर्णोंका धर्म है, हां अपनेमें अधिक नीचवृत्तिका सेवन न करे ॥ ११९ ॥

अनुलोमविलोमानां मातुवा जनकस्य वा ॥  
जातेवृत्तिर्भवेद्वृत्तिर्यथासम्भवमेव हि ॥१२०॥  
अतः सर्वश्रेष्ठस्य जायते जीवनं मिथः ॥  
तत्तद्वृत्तेरनुष्ठानादंधपंगुसमाजवत् ॥१२१॥

अनुलोम विलोम वर्णोंमें जो उनके माता पिताकी जाति वृत्ति हो वही उनके लिये उचित है ॥ १२० ॥ इस प्रकार सब वर्णोंके परस्पर जीवनका विधान है, उन २ वृत्तियोंके अनुष्ठानसे निर्वाह होता है । अन्धे और लंगडोंके समान रेखा न त्यागकर अपने २ समाज द्वारा की हुई वृत्ति करें ॥ १२१ ॥

तेन नानाविधं द्रव्यं समुत्पत्तेर्नरादिनाम् ॥  
जायते भोगसम्पत्तिर्जीविकाप्यखिलस्य च ॥१२२॥  
स्वस्ववृत्त्यानापदि स्यात्सन्निकृष्टस्य चापदि ॥  
तदनुत्तरवृत्त्या च महापदि च जीविका ॥१२३॥

इस प्रकारसे मनुष्योंको अनेक प्रकारके द्रव्योंका उपार्जन होता है, और भोग संपत्ति तथा सबकी जीविका निर्वाह भी होती है ॥ १२२ ॥ आपत्कालके विना सब अपनी २ वृत्तिसे निर्वाह करें, आपत्ति कालमें अपने समीपके वर्णकी वृत्तिसे निर्वाह करें और महा-आपत्तिमें समीपके आगेके वर्णकी वृत्तिसे भी आजीविका करें ॥ १२३ ॥

आद्यद्वितीयजातीयान् जीवानेव स्वरूपतः ॥  
सृष्ट्वा तानेव सृष्ट्यादौ विश्वकर्मापि च स्वयम् ॥१२४॥  
नानाशिल्पानि जीवानां जीवनार्थमशिक्षयत् ॥  
जीविकाः कल्पयामास पूर्वोक्तविधिना ततः ॥१२५॥

तृतीयाश्च चतुर्थाश्च पञ्चमाद्याश्च जातयः ॥

सृष्टावेवं विमिश्रत्वाद्बृत्तिसांकर्यमपिरे ॥१२६॥

तन्तुवायकुलालाद्याः कर्मारो हेमकारकाः ॥

पशोर्विशंसका ये च वेणवाः स्नायुशोधकाः ॥१२७॥

ब्राह्मणसे दूसरी जाति क्षत्रियोंकी आजीविका सृष्टिकी आदिमें विश्वकर्माने उनके स्वरूपके अनुसार निर्धारण की है ॥ १२४ ॥ और इन वर्णोंकी आजीविकाके लिये विश्वकर्माने अनेक प्रकारके शिल्पोंकी शिक्षा की है और पूर्वोक्त विधान सबकी जीविकाकी कल्पना की है ॥ १२५ ॥ वैश्य, शूद्र और पांचवीं जो संकर जाति है इनके लिये उम विश्वकर्माने सृजन करके मिश्रण करके संकरवृत्तिका विधान किया है, उसीको यह प्राप्त है ॥ १२६ ॥ जुलाहे, कुम्हार, कर्मकार, सुवर्णकार, पशुओंके घात करनेवाले ( कसार्ह ), वंसफोड, स्नायु-शोधक ( नसें निकालकर धोनेवाले ) ॥ १२७ ॥

विण्मूत्रहारका व्याधाः श्वपाकाश्चर्मशोधकाः ॥

ग्राम्यारण्यविभेदेन किराताः शबरादयः ॥१२८॥

पुल्कसाश्च पुलिन्दाश्च पुष्कला म्लेच्छजातयः ॥

किरातेषु निषादाश्च मत्स्यादा मांसजीविनः ॥१२९॥

विष्ठा मूत्र धोनेवाले ( भंगी ), व्याध, श्वपाक ( कंजर ), चमडा शोधनेवाले ( चमार ) प्राग और वनके भेदसे जो किरात और शबर ( वनवासी नीच ) ॥ १२८ ॥ पुलकस, पुलिन्द पुष्कल ये म्लेच्छ जाति हैं; किरातोंमें निषाद, मत्स्याद ( मच्छी खानेवाले ) यह सब मांसजीवी ( मांसाहारी ) हैं ॥ १२९ ॥

केचिद्वन्यफलाहारा ग्राम्या अपि तु केचन ॥

स्तेयैर्नानाविधैरेतैः प्रायो जीवनकारिणः ॥१३०॥

शान्ताः स्युः प्रबले राज्ञि प्रबला निर्बले नृपे ॥

इति ते कथिता राजन् लोके जीवनहेतवः ॥१३१॥

कोई वनमें होनेवाले फलोंका आहार करते हैं, कोई ग्राम्य कर्मोंसे आजीवन करते हैं, इनमें कोई अनेक प्रकारसे चोरी और लूट करके आजीवन करते हैं ॥ १३० ॥ जब प्रबल प्रतापी राजा होता है तब यह शान्त रहते हैं और निर्बल राजाके होनेमें यह प्रबल होजाते हैं, हे राजन् ! आपसे यह लोकमें जीवनके उपाय वर्णन किये ॥ १३१ ॥

तथोपद्रावकाश्चापि नानाजातिविभेदतः ॥

शुद्धतातारतम्यं चाप्याश्रमाणां प्रसंगतः ॥१३२॥

आद्यद्वितीयजातीया जीवा एव स्वरूपतः ॥

मुक्ताः किं नु प्रकुर्वन्ति पूर्णकामाः सदा हि ॥ १३३ ॥

• जातियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी विदग्धता शुद्धता और तारतम्यताके प्रसंगसे आश्रमों की व्यवस्थाका वर्णन किया ॥ १३२ ॥ पहिली और दूसरी जातिके प्राणी स्वभाव (स्वरूप) से ही मुक्त हैं वह सदा पूर्णकाम हैं, क्या नहीं कर सकते ॥ १३३ ॥

भृगुरुवाच—

ब्राह्मणाद्याश्चतुर्वर्णा आद्या ये परिकीर्तिताः ॥

मूर्धावसिक्तसूताद्या अनुलोमविलोमिनः ॥ १३४ ॥

द्वितीया द्वादशैवं स्युर्नृप षोडश जातयः ।

एतज्जातीययोपाभिः स्वीयाभिः सर्वदैव तु ॥ १३५ ॥

स्वरूपानन्दमापन्ना मोददन्ते विष्णुसन्नसु ।

वेदाधिकारिणस्तत्र वेदाद्यागमनिष्ठिताः ॥ १३६ ॥

स्वभावादेव ते विष्णुं नानायागैर्यजन्तिते ॥

अन्याधिकारिणो ये च स्वोचितैस्तमुपासते ॥ १३७ ॥

भृगुजी बोले—जो ब्राह्मण आदि चार वर्ण आपने प्रथममें वर्णन किये हैं, और मूर्धाव-सिक्त सूत आदि जो अनुलोम और विलोम जाति हैं ॥ १३४ ॥ और दूसरी जाति क्षत्रि-यसे बारह सोलह वर्ण होते हैं. यह सब अपनी २ जातिकी स्त्रियोंके संग विवाह करके ॥ १३५ ॥ अपने स्वरूपके आनन्दको प्राप्त होकर विष्णुके लोकमें आनन्द करते हैं उनमें वेदके अधिकारी और वेदादि शास्त्रोंमें निष्ठावाले ॥ १३६ ॥ स्वभावसे ही अनेकों यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान्का यजन करते हैं, और दूसरे वर्ण भी अपने अधिकारके अनुसार विष्णुकी उपासना करते हैं ॥ १३७ ॥

निपुणा उत्तमे शिल्पे हैमिकाद्याः कुविन्दकाः ॥

नानावाणिज्यकार्ये च रथ्यालंकारहेतवः ॥ ३८ ॥

हरिप्रीत्यर्थमेवैते वैकुण्ठादौ स्वभावतः ।

व्यवहारं प्रकुर्वन्ति स्वोचितैः पण्यकादिभिः ॥ १३९ ॥

वृक्षादयः स्वरूपेण तेऽपि स्वैच्छादिचारिणः ॥

स्थाने स्थाने विमुञ्चन्ति फलपुष्पादिसंचयम् ॥ १४० ॥



सात्त्विकान्येव तान्येते जीवा भुञ्जन्ति लीलया ॥  
नानोद्य नगताः केचिद्रथ्याह्वालकवर्तिनः ॥१४१॥

सुवर्णकार और कुर्विदक ( शूद्रा में विश्वकर्मासे उत्पन्न ) जो उत्तम शिल्परचना में चतुर हैं, वह अनेक प्रकारके वाणिज्यके कार्यसे सजावटकर गलीवाजारोंको शोभित करनेवाले हैं अर्थात्—आभूषणोंसे और व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते हैं ॥ १३८ ॥ यह लोग भी भगवान वैकुण्ठपतिकी प्रीतिके निमित्त स्वभावसे अपनी वस्तुओंको बेचते तथा मोल लेते हैं और व्यवहार करते हैं ॥ १३९ ॥ जिस प्रकारसे वृक्षादि फल, पुष्पोंका संचय कर फिर उनको त्याग देते हैं उसी प्रकार यह स्वेच्छाचारी व्यापारी स्थल २ में एकत्रित किये अपने पदार्थोंको बेचते हैं ॥ १४० ॥ इनमें सत्त्व प्रकृतिके सात्त्विक पदार्थोंका भोग करते हैं, कोई उद्यानों ( बागीचों ) में गमन करत, कोई गण्डियों और कोई अटारियोंमें विहार करते हैं ॥ १४१ ॥

रथैरश्वैर्गजाद्यैश्च यानैः क्रीडन्ति जातुचित् ॥  
अश्वाद्या अपि मुक्तास्ते सर्वे मोदिन एव हि ॥१४२॥  
निंद्यास्तु वृत्तयस्तत्र न प्रवर्तन्ति कर्हिचित् ॥  
तत्राधिकारिजात्यस्तु स्वोचितैर्नाममंत्रकैः ॥१४३॥  
उपासते हरिं नित्यं दूरात्परिचरन्ति च ।  
स्वानन्दमात्रापूर्णास्ते विज्ञेया मानुषोत्तमाः ॥१४४॥  
जंबूद्वीपपते राज्ञो दक्षस्य सततं स्वतः ॥  
स्वेष्वस्त्रीपुत्रभृत्याद्यैः संभृतो वैरिवर्जितः ॥१४५॥

कभी रथ, घोड़े, हाथी और दूसरी सवारियोंपर विहार करते हैं, वे अश्वादिक सब मुक्त ( छुटे हुए ) ही रहते हैं यह सब आनन्दकी सामग्री है ॥ १४२ ॥ ऐसे पुरुष निंदित वृत्तिसे कभी आजीविका नहीं करते, और २ जाति अपने २ अधिकारके अनुसार नाम मंत्रोंसे ॥ १४३ ॥ नित्य भगवानकी उपासना करते और दूसरे ही परिचर्या करते हैं, जो अपने आनन्दकी मात्रासे पूर्ण हैं उनको मनुष्योंमें उत्तम समझना चाहिये ॥ १४४ ॥ जम्बू द्वीपके अधिपति राजादक्षके इष्टजन स्त्री पुत्रादिसे यह स्थान युक्त हैं वैरियोंसे वर्जित हैं ॥ १४५ ॥

यततो यत्सुखं लोके मुक्तविप्रस्य तादृशम् ।  
तदन्यजातौ विज्ञेयं पूर्वोक्तेन क्रमेण तु ॥१४६॥

ब्राह्मणाद्या मुखादिभ्यः सृष्टाः सत्कर्मकारिणः ॥  
 मध्यं सन्निधकर्मेषां मध्यमं व्यावधानिकम् ॥ १४७ ॥  
 अनापदि स्वकर्मैव मध्यं कर्म तथापदि ॥  
 महापद्यधमं प्रोक्तं जातिजीवनहेतवे ॥ १४८ ॥  
 मुख्यवर्णो भवेद्विप्रश्चतुर्थांशो नृपस्ततः ॥  
 वैश्यः पंचाशको भूपाद्वैश्याच्छूद्रः षडंशकः ॥ १४९ ॥

उद्योग करनेवालेको इसलोकमें जो सुख है मुक्त ब्राह्मणको वैसाही सुख है और धर्मानुसार वर्तनेसे पूर्वोक्तकर्मसे और जातियोंको भी वही सुख है ॥ १४६ ॥ ब्राह्मणादि वर्ण जो विधाताके मुखादि अंगोंसे उत्पन्न हुए हैं सत्कर्म करनेवाले हैं, समय पढनेपर यह अपनेसे मध्यम वर्णके वा मध्यमसे आगेके वर्णकी आजीविका कर सकते हैं, ॥ १४७ ॥ आपत्तिके बिना सब अपने २ कर्मोंको करै, आपत्तिमें मध्यम और महा आपत्तिमें जीवनके निमित्त अधम कर्मसे आजीवन करना कहा है ॥ १४८ ॥ मुख्यवर्ण ब्राह्मण हैं क्षत्रिय उससे चतुर्थांश, क्षत्रियसे वैश्य पंचमांश और वैश्यसे शूद्र षष्ठांश न्यून है ॥ १४९ ॥

पुमाधिक्यादानुलोम्यं पुत्रीचत्वादिलोमता ॥  
 अनुलोमात्रिपादोनो विप्रान्मूर्धावसिक्तकः ॥ १५० ॥  
 तस्मान्मातार्द्धपादोना पिता पादद्वयाधिकः ॥  
 मातृजात्यनुसारेण नीचोच्चत्वं ततः परम् ॥ १५१ ॥  
 एवं न्यायेन सर्वत्र द्रष्टव्यमनुलोमिषु ॥  
 प्रतिलोम्ये पितुर्यावद्गुणा माताधिका भवेत् ॥ १५२ ॥  
 तावदंशोः भवेत्पुत्रः पितुर्जातेर्न संशयः ॥  
 पितरौ जातितो भ्रष्टौ द्विपंचाशाधिकौ सुतात् ॥ १५३ ॥

अनुलोम वर्णमें पुरुषसे आधिक्य है, पुरुषके नीच होनेसे वा स्त्रीके उच्च होनेसे विलोमता होती है, ब्राह्मणसे मूर्धावसिक्त अनुलोम तीन पाद न्यून हैं ॥ १५० ॥ उससे माता अर्धपाद ऊन है, पिता दो पाद अधिक है, इससे आगे माताकी जातिके अनुसार उच्च और नीचत्व जातियोंमें होता है ॥ १५१ ॥ अनुलोमियोंमें सर्वत्र इसीके अनुसार जानना, प्रतिलोम वर्णोंमें पिताके गुणोंसे मातामें अधिकता होती है ॥ १५२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र उत्तनेही अंशकी जातिमें होता है, जातिभ्रष्ट माता पिता पुत्रसे ५२ अंश अधिक उच्चम हैं अर्थात्—जातिभ्रष्टोंसे उत्पन्न पुत्र ५२ अंश निष्कृष्ट है ॥ १५३ ॥

जात्यन्तरात्पुत्रपित्रोर्भागकल्पनमत्र तु ॥ १५४ ॥  
 एकस्य नानाभार्यत्वे समोना भृतयोऽखिलाः ॥ १५५ ॥  
 यथायोग्यमथो नात्र प्रातिलोम्यस्य संभवः ॥  
 एकमात्रेऽनुलोमस्य नानामात्रानुलोमतः ॥ १५६ ॥  
 नीचोच्चत्वं यथायोगमेवमेव विलोमके ॥  
 त्रिवारं मैथुनं साम्यं गर्भोत्पत्तिमदुच्यते ॥ १५७ ॥  
 पादोनं स्यात्सकृत्संगे द्विर्यानि सार्द्धतां व्रजेत् ॥  
 गर्भोत्पत्तिर्भवेद्यावत्यानुलोम्ये तु नीचता ॥ १५८ ॥

जो माता पिता मित्र जातिके हों तो पुत्रके निमित्त माता पिताको भाग अंशके अनुकूल करना चाहिये ॥ १५४ ॥ अर्थात् पिताके उच्च होनेपर पितृघनके अनुसार माताके उच्चहोनेपर मातृघनके अनुसार भाग मिले, एककी यदि अनेक भार्या हों तो समान वर्णवालीको सम, शेषोंको न्यूनाधिक श्रुति दी जाय ॥ १५५ ॥ इनको यथा योग्य भाग मिले, अनुलोममें अतिलोमका संभम नहीं है, एक मातामें अनुलोमका, और अनेक माताओंमें अनुलोमके क्रमसे ॥ १५६ ॥ यथायोग्य नीच ऊँच जानना, इसी प्रकार विलोममें जानना, तीनवारके मैथुनसे गर्भोत्पत्ति हो तो गर्भजात बालकके जातिकी साम्यता होती है ॥ १५७ ॥ एकवार संगसे एक पाद, दो वारके संगसे आधी न्यूनता होती है, फिर जबतक गर्भकी उत्पत्ति हो अनुलोममें नीचता आती जाती है ॥ १५८ ॥

तावत्येवात्र विज्ञेया मात्राधिक्ये तथैव हि ॥  
 सकृत्संगेन यत्र स्याद्गर्भः स एव तु ॥ १५९ ॥  
 प्रायश्चित्ताद्यथाशास्त्रं दम्पत्योः शुद्धिरिष्यते ॥  
 तद्राहित्ये जातिहैन्यं जायते नात्र संशयः ॥ १६० ॥  
 मातृतः पितृतो वापि ह्येकजातेस्तु संक्रमः ॥  
 यत्र जातो भवेत्तत्र नोपवीताधिकारिता ॥ १६१ ॥  
 अन्येऽनुलोमिनः सर्वे वैदिकाधिकृता मताः ॥  
 त एव हि द्विजाम्त्वन्ये एकजातय ईरिताः ॥ १६२ ॥

इसी क्रमसे गर्भोत्पत्तिमें माताकी उतनीही अधिकता जाननी, यदि एकही वारके संगसे गर्भ रहजाय तो वह गर्भ अगर्भ है, उसमें पिताका प्राधान्य है ॥ १५९ ॥ यदि माता पिता यथाशास्त्र प्रायश्चित्त करें तो उनकी शुद्धि होजाती है, न करनेसे निःसन्देह

जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन वर्णकी स्त्रीमें किसी एकका शूद्रके साथ समागम हो तो उससे उत्पन्न प्रतिलोम पुत्रका यज्ञोपवीतमें अधिकार नहीं है ॥ १६१ ॥ और अनुलोम वर्णका तो वेदके कर्मोंमें अधिकार है, वे द्विजोंमें रह सकते हैं, और दूसरे एक जाति शूद्र कहाते हैं ॥ १६२ ॥

**प्रतिलोमिषु सर्वेषु वैदिकानधिकारिता ॥**

**वैश्याधिकास्तु तुल्या वा संस्कार्याः पितृतंत्रतः ॥१६३॥**

**मंत्रैरवैदिकैः सम्यगुपनीत्य विवाहितः ॥**

**उपादिशेद्गुरुस्तेषां गायत्रीं वैष्णवीं विशः ॥१६४॥**

**आर्षं गोत्रन्तु विप्राणां तदन्येषां गुरोरिव ॥**

**शाखाभेदाद्गुरोर्भेदाद्गोपादीनान्तु सर्वशः ॥१६५॥**

**सापिड्यं सप्तपुरुषं सोदका आचतुर्दश ॥**

**सगोत्रा एकविंशाः स्युस्तत ऊर्ध्वं तु गोत्रजाः ॥१६६॥**

समस्त प्रतिलोम वर्णवालोंको वेदमें अधिकार नहीं है, जो वैश्यसे वर्णमें अधिक है वा जो तुल्य हैं उनको पिताके अनुसार संस्कारका अधिकार है, जैसे पिताके संस्कार हों तैसे इनके करै ॥ १६३ ॥ इन वर्णवालोंको विवाहसे पहले पुराणमन्त्रोंसे उपनीत करके वैष्णवी गायत्रीका गुरु उपदेश करै यह वैश्योंको देनी ॥ १६४ ॥ ब्राह्मणोंका ऋषियोंका गोत्र है दूसरे वर्णोंका गोत्र गुरुका गोत्र होता है, शाखा और गुरुओंके भेदसे राजोंके गोत्र होते हैं ॥ १६५ ॥ सात पीढीतक सर्पिड और चौदह पीढीतक समानोदक इक्कीस पीढीतक सगोत्र इसके उपरांत गोत्रज कहाते हैं ॥ १६६ ॥

**द्वात्रिंशे क्षत्रियाणां तु गुरुभेदः प्रशस्यते ॥**

**विशां पंचदशे प्रोक्तः शूद्रवर्णस्य चाष्टमे ॥१६७॥**

**विप्रस्य गुरुभेदेऽपि शाखागोत्रामिधा नहि ॥**

**अनुलोमविलोमेषु पितुर्गुरुर्गुरुर्भवेत् ॥१६८॥**

क्षत्रियोंमें गुरुभेद ३२ बचीस, पीढीमें वैश्योंका पन्द्रह और शूद्रोंका आठमें हो जाता है ॥ १६७ ॥ ब्राह्मणका गुरुभेद होनेपर शाखा गोत्रका भेद नहीं होता, अनुलोम विलोममें पिताका गुरुही गुरु होता है उसीका गोत्र होता है ॥ १६८ ॥

**वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्यदि सप्तमः ।**

**पंचमी चेत्तयोर्माता तत्सापिण्ड्यं निवर्त्तते ॥१६९॥**

भिन्नगोत्रेऽपि सापिण्ड्यं विप्राणामेवमीरितम् ॥  
जातीनामितरासान्तु सापिण्ड्यं तत्रिपौरुषम् ॥१७०॥  
असगोत्रामसपिण्डामुद्गहेदिच्छया स्त्रियम् ।  
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ॥१७१॥  
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ।  
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकृता ॥१७२॥

वधूके वरका पिता वधूकुलसे यदि सातवीं पीढीमें हो और उन दोनोंकी माताकी प्रांचवीं पीढी हो तो सर्पिण्डता निवृत्त हो जाती है ॥ १६९ ॥ ब्राह्मणोंका भिन्न गोत्र होने पर भी सर्पिण्ड्य होता है और दूसरी जातियोंमें तीन पीढीतक सर्पिण्ड कहा है ॥१७०॥ अपने गोत्रकी और अपने पिण्डकी जो न हो इस प्रकारकी स्त्रीसे अपनी इच्छासे विवाह करे । ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर ॥ १७१ ॥ गान्धर्व, राक्षस, पैशाच यह आठ प्रकारके विवाह हैं, जब आठवां पिशाचविवाह अधम है, ब्राह्मविवाहमें यथाशक्ति अलंकारोंसे कन्याको अलंकृत करके जो वरको बुलाकर दी जाती है वह ब्राह्म विवाह कहाता है ॥ १७२ ॥

दैवो विवाहः कन्याया ऋत्विजो दानमुच्यते ।  
आर्षो गोमिथुने दत्ते कन्यादानं यदा तदा ॥१७३॥  
प्राजापत्यः सहधर्मं चरेतामिति दानतः ।  
आसुरो द्रविणादानाद्गान्धर्वः समयान्मिथः ॥१७४॥  
राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाच्छलात् ॥  
धर्म्याश्चत्वार आद्याः स्युर्ब्राह्मणस्य त एव हि ॥१७५॥  
राक्षसोऽपि क्षत्रियस्य त्रयोऽन्येऽन्यासु जातिषु ।  
स्वयंवरस्तु गान्धर्वं हठाद्राक्षस उच्यते ॥१७६॥

ऋत्विजको कन्यादान करना दैवविवाह कहाता है, कन्याके पिताको एक गायका छोड़ा देकर जो विवाह किया जाय उसे आर्ष विवाह कहते हैं ॥ १७३ ॥ तुम दोनों मिलकर धर्म करो इस प्रकार वाणीसे कहकर कन्या और वरको वस्त्रादिसे सत्कार करके जो कन्यादान करना है वह प्राजापत्य विवाह है । धन देकर जो विवाह किया जाय वह आसुर कहाता है, दोनों वर कन्या परस्पर राजी होकर विवाह करलें उसको गान्धर्व विवाह कहते हैं ॥ १७४ ॥ युद्ध करके कन्या ले आनेसे राक्षस विवाह कहाता है छलसे

कन्याको हरलेनेसे पेशाच विवाह कहाता है, पहले चार विवाह धर्मके हैं और ब्राह्मणोंको यह चारही करने चाहिये ॥ १७५ ॥ क्षत्रियको राक्षस विवाहका भी अधिकार है शेष तीन विवाह अन्य जातियोंमें होते हैं, स्वयंवर विवाह गांधर्व है, हठसे जो विवाह किया जाय वह राक्षस कहाता है ॥ १७६ ॥

क्रीता कन्या समा दास्या विप्राणामतिनिन्दिता ॥  
 अवैदिकी वैदिकी च गायत्री द्विविधा मता ॥१७७॥  
 वैदिकी तत्र सावित्री वैष्णवाद्या द्विधैव हि ॥  
 सांकारा वैदिकी प्रोक्ता सश्रीका स्यादवैदिकी ॥१७८॥  
 वैश्यतुल्यविलोमानां सैवोक्ता पूर्वमेव तु ॥  
 अन्यैकजातयो नाम मंत्रैरेव हि संस्कृताः ॥१७९॥  
 भजेयुर्विष्णुमव्यग्रा दयादानादिकर्मभिः ॥  
 ग्रहणं तप्तमुद्राणां तथा मंत्रविवेचनम् ॥१८०॥

कन्याको मोल लेना और उससे विवाह करना यह ब्राह्मणोंको बहुत निन्दित है, अब मन्त्र विधान कहते हैं, वैदिकी और अवैदिकी दो प्रकारकी गायत्री कहाती है ॥ १७७ ॥ सावित्री वैदिकी है यह वैष्णवोंकी दो प्रकारकी है जिसमें ओंकार लगाया जाय वह वैदिकी और जिसमें श्रीलगाई जाय वह अवैदिकी है ॥ १७८ ॥ वैश्योंके समान विलोम जातियोंका मंत्र पहले लिखही चुके हैं, और दूसरी जातियोंके संस्कार नाम-मन्त्रोंसे होते हैं ॥ १७९ ॥ वे लोग दया दानादि कर्मोंसे एकाग्रमन हो विष्णु भगवान्का भजन करें, इन त्रिवर्णोंसे अन्य जातियोंको सप्तमुद्राका लेना तथा नाममन्त्रोंका विवेचन उचित है ॥ १८० ॥

हयग्रीवब्रह्मविद्याप्रसंगे पूर्वमीरितम् ॥  
 उपनीत्यधिकारी यो नोपनीतो यदा भवेत् ॥१८१॥  
 सावित्रीपतितो व्रात्यस्तज्जन्मा भृज्जकण्टकः ॥  
 व्रती स्त्रीसंगतो व्रात्य आरूढपतितो यतिः ॥१८२॥  
 यतिस्तस्मान्महापापात्पाखण्डी वेदनिन्दकः ॥  
 जाताश्चतुर्भ्य एतेभ्यस्तेषुक्ता भृज्जकण्टकाः ॥१८३॥  
 जीवत्पतिस्तु या भार्या जनयेदन्यतः सुतम् ॥  
 अनुरागाद्धठाद्वापि प्रच्छन्नं स्पष्टमेव वा ॥१८४॥

यह बात हयग्रीव ब्रह्मविद्याके प्रसंगमें पहिले कह दी है जो उपवीतका अधिकारी हो और उसका उपवीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह सावित्रीसे पतिव्रात्य होजाते हैं, उससे जो जन्मे वह भृज्जकण्टक कहाता है, यदि यति स्त्रीका संग करै तो वह भी पतित होता है, व्रती ( ब्रह्मचारी ) स्त्रीके संगसे व्रात्य होता है, यदि संन्यासी होकर स्त्रीका संग करै तो वह यति पतित होजाता है, ॥ १८२ ॥ यह यतिके लिये महापाप है, दूसरे जो पाखंडी और वेदनिन्दक होते हैं, इन व्रती आदि चारों प्रकारके ब्रात्योंसे उत्पन्न भृज्जकण्टक होते हैं ॥ १८३ ॥ पतिके जीतेहुए जो स्त्री अनुराग या हठसे गुप्त वा प्रगट रूपसे अन्य पुरुषसे संतान उत्पन्न करै ॥ १८४ ॥

स प्रोक्तो जारजः कुंडः क्षेत्रजो भर्तुराज्ञया ।  
 मृते भर्तरि या नारी वरयेत्स्वेच्छया पतिम् ॥१८५॥  
 तज्जन्मा गोलकः प्रोक्तो हठाद्वापि स एव हि ।  
 भर्तृसम्बन्धिनामाज्ञा यदि तत्र भवेत्सुतः ॥१८६॥  
 सोऽपि क्षेत्रज एव स्याद्द्विपादनौ तु तौ पितुः ।  
 भृज्जकण्टश्चतुर्थांशः सोऽपि चेत्पितृजातितः ।  
 संस्कृतस्त्र्यंशहीनः स्यात्तत्सुतो द्वयंश उच्यते ॥१८७॥  
 तत्रता लभते जातिं मूलपुंसः क्रमादिति ।  
 विधिरेष सवर्णासु भार्यास्वेव यदा जनिः ॥१८८॥

जारसे उत्पन्न होनेके कारण वह कुण्ड नामवाला होता है और जो भर्ताकी आज्ञासे दूसरेसे उत्पन्न किया हो वह क्षेत्रज कहाता है, भर्ताके मरनेपर जो स्त्री अपनी इच्छासे दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करै ॥ १८५ ॥ वह गोलक नामवाला होता है, चाहे हठसे हुआ हो पर वह भी गोलक नामवाला होता है, यदि उस पुत्रके उत्पन्न करनेमें भर्ताके सम्बन्धियोंकी आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह भी क्षेत्रज कहाता है, यह दोनों पितासे दो पाद कमती हैं और भृज्जकण्टक पिताकी जातिसे चौथे अंशमें हैं, संस्कारको प्राप्त हुआ तान अंशमें हीन होता है उसका पुत्र दो अंशका भागी कहाता है ॥ १८७ ॥ और उसका नप्ता ( पोता ) क्रमसे मूल पुरुषकी जातिको प्राप्त होता है परन्तु यह बात तब होती है जब सवर्णा भार्यामें सन्तानकी उत्पत्ति होती जाय ॥ १८८ ॥

एवं हि क्षेत्रजो जातिं लभतां क्रमशः पितुः ।  
 प्रायश्चित्ताद्विशुद्धिः स्थात्क्षेत्रजे व्यावहारिके ॥१८९॥

तदभावे विगीतः स्यात्किञ्चिज्जातैस्तथोन्नता ।  
 भृजकण्टस्य पितरौ सुतात्पादद्वयाधिकौ ॥ १९० ॥  
 कुंडगोलौ पितुर्जातेः पंचमांशाधमौ मतौ ।  
 पितरौ भृजकण्टेन तुल्यरूपौ प्रकीर्तितौ ॥ १९१ ॥  
 प्रायश्चित्ताज्जातिलाभः पित्रोरेव न पुत्रयोः ।  
 अनुलोमादानुलोम्यमेवमेव प्रकीर्तितम् ॥ १९२ ॥

इसी प्रकार क्षेत्रज क्रमसे सवर्णा भार्यामें विवाह होनेसे पिताकी जातिको प्राप्त होता है, क्षेत्रजकी व्यवहारमें प्रायश्चित्तसे शुद्धि हो जाती है ॥ १८९ ॥ यदि प्रायश्चित्त न हो तो जातिसे कुछ न्यून हो विगीत कहाता है, प्रायश्चित्तसे उन्नत होता है, भृजकण्टकके माता पिता पुत्रसे दो दो पाद अधिक हैं ॥ १९० ॥ कुण्ड और गोलक पिताकी जातिसे पञ्चमांश नीचे हैं, भृजकण्टकके उत्पन्न होनेसे माता पिता उसी रूपके हो जाते हैं ॥ १९१ ॥ प्रायश्चित्त करनेसे ही माता पिता अपनी जातिको प्राप्त होते हैं न कि, पुत्र अनुलोमसे उत्पन्न अनुलोमपनको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त है ॥ १९२ ॥

वैलोम्ये जातिभेदस्तु नैतेषां विद्यते क्वचित् ॥  
 किञ्चिद्विगीततैव स्यान्मातापित्रोः सुतस्य च ॥ १९३ ॥  
 शूद्राधिकास्तु तुल्याः वा विलोमा अनुलोमिनः ॥  
 यावंत एकजात्यः स्युस्ते शूद्रा इति कीर्तिताः ॥ १९४ ॥  
 शूद्रवैदेहमध्यस्था मध्यजातय ईरिताः ॥  
 अंत्यजास्तत्पराः प्रोक्ता यावज्जातिर्विविच्यते ॥ १९५ ॥  
 यत्र जातिविवेको न यथेष्टमिथुनाशनाः ॥  
 यवनास्ते विमिश्रत्वान्मलेच्छा इति च कीर्तिताः ॥ १९६ ॥  
 अनुलोमे मातृवृत्तिः पितृवृत्तिर्विलोमके ।  
 सान्निध्यवशतस्त्वेवं तद्धमाञ्शृणुताधुना ॥ १९७ ॥  
 दयादानमर्हिसादिविष्णुनामानुकीर्तनम् ॥  
 सर्वासामेव जातीनामेष साधारणो विधिः ॥ १९८ ॥

विलोममें तो इनका जातिभेद कहीं नहीं है, परन्तु माता पितासे यह पुत्र कुछ विगीत ( निन्दित ) हो जाता है ॥ १९३ ॥ विलोम वा अनुलोम जो शूद्रसे अधिक वा शूद्रके



तुल्य हैं जितने ऐसी एक जाति शूद्रसे उत्पन्न हैं वे शूद्र ही कहे गये हैं ॥ १९४ ॥ शूद्र और वैदेहके बीचवाले मध्यजाति कहे जाते हैं इसके सिवाय और निष्कृष्ट जाति अन्त्यज कहाती हैं ॥ १९५ ॥ जिनमें जातिका कोई विवेक नहीं है इच्छानुसार मैथुन और भोजन है वे यवन हैं और यही मिश्रित होनेसे म्लेच्छ कहाते हैं ॥ १९६ ॥ अनुलोम जाति मातृ-कुलकी आजीविकावाले विलोम जाति पितृकुलके आजीविकावाले होते हैं, सन्निवान अर्थात्—संगतिसे उनका जीवन चलता है अब में उनके धर्मोंको कहता हूं ॥ १९७ ॥ दया दान अहिंसादि, विष्णुके नामोंका कीर्तन यह सब जातियोंके धर्मकी साधारण विधि है ॥ १९८ ॥

वेदाध्ययनयजनं द्विजानामधिकं स्मृतम् ॥

अध्यापनं याजनञ्च प्रतिग्रह इति त्रयम् ॥ १९९ ॥

विप्राणामधिको धर्मो जीविका परिकीर्तिता ॥

क्षत्रियो युद्धजीवी स्याच्छस्त्रवृत्त्या च सेवकः ॥ २०० ॥

कृषिगोरक्षवाणिज्यवृत्तिर्वैश्य उदाहृता ॥

सेवाकर्म तु शूद्रस्य वृत्तिरित्यभिधीयते ॥ २०१ ॥

सजातीयास्तु भोज्यान्नाश्चतुर्न्यूनास्तु मध्यमाः ॥

अधमा द्वादशन्यूना विंशत्यूनाधमाधमाः ॥ २०२ ॥

इनमें वेदका पढना और यज्ञ करना यह ब्राह्मणोंका विशेष धर्म है, वेद पढना यज्ञ कराना, दान लेना इन तीन ॥ १९९ ॥ कर्मोंसे ब्राह्मणोंकी आजीविकाका निर्वाह होता है यह धर्मकी आजीविका है, क्षत्रिय युद्धकार्यसे अपनी आजीविका करे, शस्त्रकी वृत्ति और सेनाकी नौकरी करे ॥ २०० ॥ खेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी वृत्ति है और शूद्रकी वृत्ति तीनों वर्णकी सेवा है ॥ २०१ ॥ सजातियोंमें अन्नके सब समान भोक्ता हैं एक भोजन होता है, मध्यम जाति इनसे चार अंश न्यून है अधमजाति बारह और अधमाधम जाती बीस अंश न्यून है ॥ २०२ ॥

तन्यूना नैव भोज्यान्ना इति शास्त्रविनिर्णयः ॥

विनोदकेन यत्पक्वं यत्पक्वं तैलसर्पिषा ॥ २०३ ॥

तदन्नं फलवद्ग्राह्यं नात्र कार्या विचारणा ॥

अधमान्मध्यमं चेदं मध्यादुत्तममुच्यते ॥ २०४ ॥

भोज्यान्ने योऽधमः प्रोक्तो जलपाने स उत्तमः ॥

विंशत्यूनात्तु मध्यं स्यात्षष्ट्या चाधममीरितम् ॥ २०५ ॥

विंशोत्तरशतांशात्स्यादधमादधमं त्विति ॥

यतस्तस्माच्च परतो जलपानं न युज्यते ॥ २०६ ॥

इनसे जो न्यून हैं उनके घरका किसी प्रकारका भोजन नहीं करना चाहिये, यह शास्त्रका निर्णय है जो अन्न विना जलके पकाया गया है वा जो तेल और घीमें पकाया गया है ॥ २०३ ॥ वह अन्न फलके समान ग्रहण करना चाहिये, इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं, अधमसे मध्यम और मध्यमसे उत्तम अच्छे हैं ॥ १०४ ॥ अन्न भोजनमें जो अधम कहा गया है जलपानमें वह उत्तम है, उत्तमसे मध्यम २० अंशमें न्यून हैं, अधम ६० अंशमें ॥ २०५ ॥ अधमाधम एकसौ बीस १२० अंश न्यून है इस कारण इससे परे अन्य जातिके हाथका जलपान नहीं करना चाहिये ॥ २०६ ॥

विप्रधर्मा भवेत्सोऽपि मूर्धावसिक्ततोऽधिकः ॥

प्रतिग्रहादौ तस्मात्स्यादधिकारी स इत्यपि ॥ २०७ ॥

ब्रह्मक्षत्रविशां पुत्रा अनुलोमाः षडेव तु ।

शूद्रविद्वक्षत्रजाः पुत्राः प्रतिलोमाः षडेव तु ॥ २०८ ॥

मंत्री सभासत्सचिवः सेनानीः कोषरक्षकः ।

योद्धा विप्रादिभोज्यान्नोऽखिलविद्याविशारदः ॥ २०९ ॥

उपदेष्टोवेदानां प्रोक्तो मूर्धावसिक्तकः ।

चिकित्सकः पत्रलेखो रत्नसौवर्णवाससाम् ॥ २१० ॥

विक्रेता नाणकादीनां धान्यादीनां सुवस्तुनः ।

उपवेदोपदेष्टा च तुल्यनीचाधिकारिणाम् ॥ २११ ॥

पुराणाख्याननिपुणः पुस्तकादिविलेखकः ॥

नृपाणां सचिवः प्रोक्तोऽम्बष्ठ इत्यादिकर्मकः ॥ २१२ ॥

मूर्धावसिक्त जातिका पुरुष विप्रधर्मा होता है इससे वह एक अंशमें प्रतिग्रहका अधिकारी है ॥ २०७ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंसे हीनवर्णोंमें अनुलोम विधिसे छः पुत्र होते हैं, और शूद्र वैश्य तथा क्षत्रियसे प्रतिलोम विधिसे छः पुत्र होते हैं ॥ २०८ ॥ इनमें मूर्धावसिक्त मन्त्री, सभासद, सचिव, सेनापति, कोषरक्षक, योद्धा, विप्रादिको भोजन करानेका अधिकारी, समस्त विद्याओंमें पंडित ॥ २०९ ॥ और उपवेदोंका उपदेश करनेवाला कहा गया है । अर्थात् इनमेंसे किसी भी कामके करनेका वह अधिकारी है और दूसरा अम्बष्ठ चिकित्सा कर्म, पत्र लिखना, रत्न, सुवर्ण और वस्त्रादिका बेचना ॥ २१० ॥ तथा राजमुद्रासे अंकित-

निष्क तथा धान्यादि वस्तुओंके बेचने, उपवेदोंके उपदेश देने, तुल्य और नीच अधिकारियोंको ज्ञान सिखाके ॥ २११ ॥ पुराणोंके आख्यान जाननेमें कुशलता, पुस्तकादिका लिखना और राजाओंको सचिव इतने कर्मोंका अधिकारी कहा गया है ॥ २१२ ॥

सुवर्णाद्यष्टलोहानामुपलोहस्य चापि तु ॥  
 अलंकाराद्यखिलकृत्कवचादिविधायकः ॥ २१३ ॥  
 रत्नमाणिक्यमुक्तानां वेधभेदादिकर्मकृत् ॥  
 परिचर्याकरोऽप्युच्चजातेः पारशवाभिधः ॥  
 क्रमादुत्तमजातीयाः क्षत्रवर्णादिमे त्रयः ॥ २१४ ॥

सुवर्णाणि अष्टलोह और उपलोहादिके अलंकार बनाना, कवच ( बस्तर ) का बनाना ॥ २१३ ॥ रत्न माणिक्य और मोतियोंसे छिद्र करना, उनके भेद जानना और उच्च जातिकी सेवा करना यह पारशवका कर्म है, यह तीनों क्षत्रवर्णसे क्रमसे उत्तम माने गये हैं ॥ २१४ ॥

वैश्यतः क्षत्रियाद्वापि येऽधिका एकजातयः ॥  
 तेषामवैदिकत्वन्तु वचनादेव नान्यथा ॥ २१५ ॥  
 न तावताधमत्वं स्याद्द्विजस्त्रीणामिवात्र हि ॥  
 विप्रक्षत्रियमध्यस्था ब्रह्मसूदाः प्रकीर्तिताः ॥ २१६ ॥  
 वैश्यक्षत्रियमध्यस्था क्षत्रसूदा इतीरिताः ॥  
 वैश्यशूद्रान्तरा ये तु वैश्यसूदाः प्रकीर्तिताः ॥ २१७ ॥  
 शूद्रसूदास्तु वैदेहपर्यन्ताः क्रमशो वराः ।  
 सूदाश्च परिवाहाश्च यथाजात्याखिला अपि ॥ २१८ ॥  
 भोज्यान्नाः पेयपानीया न जातिनियमोऽत्र तु ॥  
 परचित्तानुवृत्तिर्या सा सेवेत्यभिधीयते ॥ २१९ ॥  
 परिचर्या च साचिव्यं दौत्यमित्येव सन्निधिः ॥  
 पुरोऽवस्थितिरूपादिकर्महीनत्वमीक्ष्यते ॥ २२० ॥

जो एक जातिकर्मा वैश्य और क्षत्रियोंसे अधिक हैं उनमें अवैदिकत्व शास्त्रके वचनोंसे है अन्यथा नहीं ॥ २१५ ॥ उनमें उन्नता अधमपना नहीं है वे द्विजस्त्रीके समान धर्मअले हैं, यथा ब्राह्म और क्षत्रियके मध्यके वर्ण ब्राह्मणसूद ( ब्राह्मण रसोह्ये ) कहाते हैं ॥ २१६ ॥

वैश्य और क्षत्रियके मध्यके क्षत्रिय रसोइये वैश्य और शूद्रके मध्यके वैश्य रसोइये कहाते हैं ॥ १२७ ॥ और शूद्र तथा वैदेह जातिके मध्यके शूद्र रसोइये कहाते हैं, यह सूद और परिवाह सब जातियोंमें होते हैं ॥ २१८ ॥ चारों वर्णोंमें इन चार प्रकारके सूदोंका बनाया अन्न क्रमसे ग्राह्य है, इनके हाथका जल भी पिया जा सकता है, ब्राह्मणसूद ब्राह्मणादि तीन वर्णकी, क्षत्रिय सूद दो वर्णकी, और वैश्यसूद अपने वैश्यवर्णकी रसोई करें, आगे जाति का नियम नहीं है, पराये चित्तके अनुकूल वर्तनेका नाम सेवा है ॥ २१९ ॥ सेवा, साचिव्य, दूतपना, नित्य निकट रहना, सम्मुख खडा रहना और रूप यह क्रमसे हीनत्वके बतानेवाले हैं ॥ २२० ॥

परिचर्या तु सम्प्रोक्ता नीचानां सा न शस्यते ॥  
 सभासदत्वं मंत्रित्वं मान्यकर्मनियोज्यता ॥२२१॥  
 साचिव्यमिति दूतत्वं प्रेषणं मानपूर्वकम् ॥  
 परिचर्या नीचजातेः श्ववृत्तिरिति भण्यते ॥२२२॥  
 स्वामिनः सेवकस्यापि श्ववृत्तिः पापकृद्भवतः ॥  
 निवारयेत्ततो राजा ज्ञात्वा जातिविवेचनम् ॥२२३॥

जो परिचर्या कर्म कहा गया है यह नीचोंकी नहीं करनी चाहिये, इसमें कष्ट होता है, सभासद होना, मन्त्री होना तथा दूसरे प्रतिष्ठित पदमें नियुक्त होना ॥ २२१ ॥ साचिव्य, दूतपन, अर्थात्—मानपूर्वक कहींको भेजना इसमें दोष नहीं है यह उच्चसेवा है, और नीच जातिकी सेवा तो श्ववृत्ति कहाती है ॥ २२२ ॥ ऐसे स्वामीके साथ सेवककी श्ववृत्ति पापरूप है, राजाको उचित है कि जातिके त्रिभागको जानकर श्ववृत्तिको निवारण करै, उच्च नीचकी सेवा न करै ऐसा प्रबन्ध करै ॥ २२३ ॥

वैषां वृत्तिकृद्राजा तथा ज्ञात्वा नियोजयेत् ॥  
 नानाकर्मसु विप्रादींस्ततोऽत्रामुत्र शं लभेत् ॥२२४॥  
 जीवाः षोडश जातीयाः सन्ति ये मानुषोत्तमाः ॥  
 तेषां जातिक्रमेणैव मुक्तावानंद इष्यते ॥२२५॥  
 जातिर्नियम्यते तस्मादुच्चनीचसमत्वनतः ॥  
 कर्णं स्पृशेद्दशन्यूने विशत्यूने जलं स्पृशेत् ॥२२६॥  
 विशोत्तरशतन्यूने तावदंगविशोधनम् ॥  
 स्पृष्टे तु मध्यजातीनां सचैलं स्नानमाचरेत् ॥२२७॥

स्पर्शनादन्त्यजातीनां पञ्चगव्यविशोधनम् ॥  
नीचनीचतरेष्वत्र क्रमादुपवसेदपि ॥२२८॥

राजाही सबकी वृत्तिका करनेवाला है, वह इन सबको यथायोग्य नियुक्त करै, अनेक प्रकारके कार्योंमें विप्रादिको नियुक्त करनेसे दोनों लोकमें प्राप्ति होती है ॥ २२४ ॥ सोलह जातिके प्राणी मनुष्योंमें उत्तम माने गये हैं, उनके जाति क्रमसेही नियुक्त होनेसे मुक्तावस्थामें आनन्द प्राप्त होता है ॥ २२५ ॥ जातिके नियमसे ऊंच नीच समानता और जानी जाती है जो अपनेसे दश अंश न्यून हो उसको छूकर कर्ण स्पर्श करै, बीस अंश न्यूनको छूकर जल स्पर्श करै ॥ २२६ ॥ एकसौ बीस अंश न्यूनके स्पर्शमें अंग शुद्धि स्नान करे, मध्य जातिके स्पर्शसे सचैल स्नान करे ॥ २२७ ॥ अन्त्यजोंके स्पर्शसे पञ्चगव्य प्राशन कर शुद्धि होती है, नीचोंसे नीचोंके भी स्पर्श क्रमसे उपवास करै ॥ २२८ ॥

स्पृष्टस्पृष्टे तदर्वाक्तु क्रमादेव विशोधनम् ॥  
भवेदाचारवानेवं ज्ञात्वा जातिविवेचकः ॥२२९॥  
माहिष्यो गणिको ज्योतिः शास्त्राणामुपदेशकः ॥  
भाण्डाररक्षः सैरन्ध्रयो रत्नविक्रीयलेखकः ॥२३०॥  
सेनानीर्वस्त्रहेमादिवणिग्व्यवहृतौ पटुः ॥  
नृपप्रियोधिकारी च न्यायान्यायविवेचकः ॥२३१॥  
उग्रोऽश्वसादिः पादातः शूरः शास्ता दुरात्मनाम् ॥  
धर्मपालः प्रजापालः शस्त्रेणैव स जीवति ॥२३२॥

इनके स्पर्शसे क्रमसे वही ऊपर लिखी शुद्धि है, इस प्रकार जातिके विवेकवाला इन बातोंको जानकर आचारवान् होता है ॥ २२९ ॥ माहिष्य वर्ण, गणक और ज्योतिष-शास्त्रका उपदेश करनेवाला होता है । सैरन्ध्र, भण्डारोंका रक्षक और रत्नोंकी विक्रीका लिखनेवाला होता है ॥ २३० ॥ सेनाका चलानेवाला वस्त्र सुवर्ण और वणिक् व्यवहारमें पटु; राजाका प्रिय अधिकारी न्याय अन्यायका विवेचक होता है अर्थात्-यह इसके अधिकार हैं ॥ २३१ ॥ उग्रजाति पुरुषके कार्य घोड़ेकी सवारी ( कोचवानी ) पैदा, सेनाका प्यादा होता है यह शूर दुरात्माओंको दण्ड देना, धर्मपालक, प्रजापालक शस्त्रधारक कर्मसे आजीविका करनेवाला होता है ॥ २३२ ॥

हस्त्यश्वरथपादातं सेनांगं स्याच्चतुष्टयम् ॥  
चतुरंगस्य सैन्यस्य कार्याकार्यविवेचकः ॥

सारथ्यकृत्सखा राज्ञः सूतो हस्त्यश्चवाहनः ॥  
 करणो लिपिलेखः स्याच्चित्रलेखो वणिग्वरः ॥ २३४ ॥  
 कृषिकृद्ग्रामणीरावीछागव्यवहृतौ पटुः ॥  
 नानाशिल्पकरः स्वोच्चपरिचर्याकरोऽपि सः ॥ २३५ ॥  
 मागधो नृपतिस्तोता हयादिपशुविक्रयी ॥  
 नानावाद्यपटुर्गाता कर्षकश्चित्रलेखकः ॥ २३६ ॥  
 शिल्पवेत्ता च सङ्गीतनटनाट्यकवित्पटुः ॥  
 राज्ञां विनोदकः शूरो यन्ता गजहयादिनाम् ॥ २३७ ॥  
 वैदेहः काष्ठपाषाणक्रयविक्रयशिल्पकृत् ॥  
 ताम्रकांस्यायसादीनां नानाकर्मविधायकः ॥ २३८ ॥

हाथी, घोड़े, रथ, पैदल यह सेनाके चार अंग हैं, ऐसी चतुरङ्ग सेनाके कार्य अकार्यकी विवेचना करने वाला ॥ २३३ ॥ रथका हांकना, राजाका मित्र, हाथी घोड़ोंकी सवारी चलाना यह सूतका कार्य होता है, करणजाति लिपि और चित्रका लिखनेवाला होता है, वणिग्वर ॥ २३४ ॥ कृषिका करनेवाला, ग्राममें वस्तुओंके लेजानेका कार्य करता है, ग्रामणी अर्वा छाग ( बकरों ) का लेन देन करै तथा और भी अनेक प्रकारकी उच्चशिल्प करनेवाला तथा ऊँच वर्णोंकी परिचारकीका काम करता है ॥ २३५ ॥ मागधका कार्य राजाकी स्तुति, घोड़े आदि पशुओंका बेचना; अनेक बाजे बजानेमें चतुर होना, गायक होना खेती तथा चित्रलेखन हैं ॥ २३६ ॥ शिल्पवेत्ता, संगीत नटनाट्यके कार्यमें कुशल, राजाको विनोद करानेवाला, शूर हाथी घोड़े आदिकोंकी सवारी चलाना यह इसका काम है ॥ २३७ ॥ वैदेहका काम काष्ठ पाषाणपर शिल्प करके उनका क्रय विक्रय करना है तथा तांबा, कांसी लोहे आदिके नाना कर्मोंको विधान करना है ॥ २३८ ॥

कौशेयकस्तन्तुवायः कुशलश्चर्मकर्मकृत् ॥  
 हयोऽश्वश्वनरादीनां पल्याणकरणे पटुः ॥ २३९ ॥  
 कर्षको वणिगित्यादिकर्मा च परिचारकः ॥  
 आशोग्नस्तु रजको धावकश्चर्मकृत्तथा ॥ २४० ॥  
 नापितस्तन्तुवायश्च कर्मारः श्वनकोऽपि च ॥  
 कुण्ड्यको वाद्यको व्याधस्तिलकश्चूर्णकृत्तथा ॥ २४१ ॥

वृक्षच्छेदकरो दण्डचदण्डकृद्वाणकुन्तकृत् ॥

मल्लः शिल्पी निशिचरो मृगपक्षिश्वकर्मकृत् ॥ २४२ ॥

जुलाहा ( कौशेयक ) रेशमके वस्त्र बनावै, कपडा बुनै तथा यह चर्मका काम भी करे, हाथी घोड़े ऊंटोंकी जीन आदि बनावै तथा मनुष्योंके निमित्त चर्मकी वस्तुएँ बनावै ॥ २३९ ॥ कर्षक वणिक कर्मका व्यवसाय करै तथा परिचर्या करै, आयोगव भी यही करै धोवी कपडा धोवै, घावक दूतपनका काम करै, चर्मछत् चर्मकी वस्तु बनानेका काम करै ॥ २४० ॥ इसी प्रकार नार्द, जुलाहा, लुहार, स्वनक, कुण्डक, वाद्यक ( बाजा बजानेवाले ), व्याध, तिलक, चूर्णके ( वस्तुओंका चूर्ण करनेवाले ) ॥ २४२ ॥ यह सब अपने नामके अनुसार काम करै, वृक्षच्छेदी दण्डयोग्योंको दण्ड देनेवाले अर्थात्-राजाकी आज्ञासे ताडन करनेवाले, वाण बरछा बजानेवाले, मल्ल, शिल्पी, रात्रिमें विचरनेवाले मृग पक्षी तथा श्वान पोषणका काम करनेवाले स्वनामानुसार कार्य करै ॥ २४२ ॥

धान्यवाहो बलीवर्दवाहनादौ महापटुः ॥

क्षत्ता राज्ञां प्रतिहारः सुरामद्यादिकर्मकृत् ॥ २४३ ॥

चौरादिदण्डचपापानां शिरःपाण्यादिवर्धकः ॥

मल्लश्चूर्णकरो वाजिगजगोमृगपक्षिणाम् ॥ २४४ ॥

परिचर्याकरो राज्ञां शुद्धान्तस्य च रक्षकः ॥

प्रेष्यः पुरःसरः शूरो मल्लः शस्त्रेषु नैपुणः ॥ २४५ ॥

तंतुकृतंतुवायश्च जालकृन्मत्स्यजीवनः ॥

कर्मारश्चर्मरजकः क्रूरकर्मा च यामिकः ॥ २४६ ॥

धान्यवाह गाडीमें बैल, जोतने आदिके कर्ममें चतुरता लाभ करै, क्षत्ताओंका कार्य राजाओंका प्रतिहारी होना तथा सुरा और मद्यका निकालना है ॥ २४३ ॥ वर्धक चौरादिको दण्ड देने, उनके शिर मूंडने तथा पापकर्मियोंके हाथ पैर आदिके छेदन करनेका काम करै, मल्ल और चूर्णकर घोड़े और हाथी तथा मृग पक्षियोंके परिचर्यमें नियुक्त रहै ॥ २४४ ॥ राजाओंकी सेवा तथा शुद्धान्तःपुरकी रक्षाका कार्य करै, प्रेष्य आगे चलनेका काम करै, मल्ल शूर शास्त्रमें निपुणता लाभ करै, ॥ २४५ ॥ तन्तुवाय तन्तुकार्य बुननेका काम करै, मत्स्यजीवी जाल बुननेका काम करै, कर्मार ( चमार ) चर्मका काम करै रजक धोनेका काम करै, यामिक शूर कर्म करै अर्थात्-राजाज्ञासे छेदन भेदन करै ॥ २४६ ॥

ग्रामरक्षो दुर्गरक्षो नाविको मांसविक्रयी ॥

शैलूषो गारुडी गाता नटो रज्ज्वादिकर्मकृत् ॥ २४७ ॥

वैणुको गूढचारश्चेत्यादिकर्मा च भाण्डकः ॥

चाण्डालोमृतजीवी स्याच्चर्मणां रंजकोऽपि हि ॥२४८॥

ग्रामरक्षक ग्रामकी रक्षाको करै, दुर्गरक्षक दुर्गरक्षा करै, नाविक नावका कर्म करै, मांसका बेचनेवाला, शैलष (नाट्यकर्ता) गारुणी ( सर्पके विष उतारनेके मन्त्रोंका ज्ञाता ) ( गातां ऊंचे स्वरसे शब्द करके जगानेवाला ) नट यह स्वनामानुसार कार्य करै, रज्जु आदि कर्मोंका करने वाला ॥२४७॥ वैणुक (बांसके कर्म करनेवाला) गूढचारी और भाण्डक यह भी स्वनामानुसार कार्य करै, चाण्डाल मृत पुरुषके वस्त्र ग्रहण करै और चमडा रङ्गनेका काम करै ॥ २४८ ॥

स्नायुनिष्कासनः शूरः प्रेष्यो राज्ञां पुरः सरः ॥

मृतवस्त्रपरीधानो ग्रामरक्षो बहिश्चरः ॥२४९॥

परिचर्याकरश्चारो व्याधश्च मृगपाचकः ॥

ग्रामकुक्कुटवाराहक्रयविक्रयजीविनः ॥२५०॥

रज्जुकृत्तन्तुवायश्च तन्तुकृत्काष्ठजीविनः ॥

तृणपुष्पफलाहर्ता तथैवोद्यानसेवकः ॥२५१॥

इत्यादिकर्मसंप्रोक्ता इत्थं प्राग्धर्मिणोऽखिलाः ।

विधवा एककल्पाश्चेद्भिक्षुष्यः सूत्रकारिकाः ॥२५२॥

सूत्रचित्रकरावासः कौशेयादिष्वनेकधा ॥

सूपकार्यश्च सैरन्ध्रयो गृहक्षेत्रादिरक्षकाः ॥२५३॥

नानास्वयोगवाणिज्यवृत्तयो जीवितावधि ॥

सुशीलाः स्वैरिणीदूत्यो नर्तक्यो भगजीविकाः ॥२५४॥

शूर स्नायुनिकालनेका काम करै, प्रेष्य राजाके आगे गमन करै, निकुष्टग्राम रक्षक मृतक पुरुषोंके वस्त्र पहरे, और ग्रामसे बाहर विचरै ॥ २४९ ॥ चार गमनागमन रूपसे परिचर्या करै, व्याध मृगोंके पाचनका काम करै, तथा ग्रामसूकर वनके सूकरके क्रयविक्रयसे आजीविका करै ॥ २५० ॥ रज्जुकृत् और तन्तुवाय यह सूत बुननेका रस्सी बनानेका काम करै, काष्ठजीवी काष्ठकी वस्तुएँ बना कर आजीविका करै, उद्यानसेवक ( माली ) बगीचेसे तृण पुष्प फलादि स्वामीके पास लेजानेका काम करै ॥ २५१ ॥ पतिव्रता विधवा भिक्षुकी तथा सूतकातनेवाली ॥ २५२ ॥ यह सूत रंगे, तथा कौशेय वस्त्रोंपर अनेक प्रकारकी चित्रकारी करै, सूपकारिणी रसोई बनावै और सैरन्धी घर क्षेत्रदिकी रक्षा करै ॥२५३॥ इस प्रकार अपने जीवनके लिये और भी अनेक वाणिज्यवृत्ति करै, स्त्रियें सुशीला



उपरोक्त रीतिसे रहें, अन्यथा स्वैरिणी ( कुलटा ) दूती नर्तकी भगजीविनी होकर निर्वाह करती हैं ॥ २५४ ॥

इत्याद्यनेककर्मिण्य एवं सृष्टिरिहेशतुः ॥  
 आद्येभ्योऽथ द्वितीयास्तु चत्वारिंशत्तथाष्ट च ॥२५५॥  
 तावन्त एव चाद्यासु द्वितीयेभ्यश्च जज्ञिरे ।  
 द्वितीयेभ्यो द्वितीयासु द्वात्रिंशदधिकं स्मृतम् ॥२५६॥  
 एवं तृतीया चाद्यासु द्वितीयैरपि संयुताः ।  
 मिलितास्तु चतुश्चत्वारिंशदग्र्यं शतद्वयम् ॥२५७॥  
 केचिन्मातृकुलचाराः केचिज्जनकवृत्तयः ॥  
 संकीर्णवृत्तयश्चान्ये तथा सन्निधिवृत्तयः ॥२५८॥

इत्यादि निरूपकर्म स्त्रियोंकी अनेक वृत्ति है इस प्रकार यह ईश्वरकी सृष्टि है ७३ । ७४ श्लोकोंमें कहे चार वर्णोंसे चार चार पुत्र एकके द्वारा बारह भेदवाले होते हैं इन बारहों द्वारा अनुलोम प्रतिलोमके भेदसे ४८ अडतालिस प्रकारके होते हैं आद्य-वर्णोंका दूसरोंके साथ संयोग होनेसे सन्तान ४८ प्रकारकी होती है ॥ २५५ ॥ तथा इतनेही पहिलियोंमें दूसरोंसे सन्तान भेद प्रगट होते हैं, दूसरियोंसे दूसरियोंमें ३२ भेद होते हैं ॥ २५६ ॥ इसी प्रकार तीसरी पहिलियोंमें तथा दूसरियोंसे संयुक्त होकर दोसौ चवालिस भेदवाली संतति प्रगट करती है ॥ २५७ ॥ इनमें कोई माताके कुलके आचारवाले कोई पिताकी आजीविकावाले कोई संकीर्ण वृत्तिवाले और कोई अपने समीपीकी वृत्तिवाले होते हैं ॥ २५८ ॥

तृतीयेभ्यश्चतुर्थाश्च तेभ्यः पंचमषष्ठकाः ॥  
 एवं नानाविधा लोके मिथोजीवनवृत्तयः ॥२५९॥  
 तेषां नामानि सर्वाणि न कश्चिद्वेदितुं क्षमः ॥  
 यत्र ग्रामे यत्र देशे जातयो याः कथंचन ॥२६०॥  
 वेत्तुं शक्यास्तथा ताभिव्यवहार्यक्रमादिति ॥  
 इति जातिविवेकोऽयं यथावन्मे निरूपितः ॥  
 व्यवहाराद्यथा विष्णुः सृष्टौ विविधकर्मभिः ॥२६१॥

तीसरीसे चौथे छठे इस प्रकारसे लोकमें संकीर्णतासे अनेक प्रकारकी आजीविका करते हैं ॥ २५९ ॥ उन सबके नाम जाननेको कोई समर्थ नहीं है जिस ग्राम-

या देशमें जो कुछ जातियें हैं ॥ २६० ॥ वह २ सब उनके व्यवहारसे जानी जाती हैं इस प्रकार मैंने यथायोग्य जातिका विवेक निरूपण किया, जिस प्रकारसे भगवान् विष्णुमें सृष्टिमें विविध कर्म और व्यवहार निरूपण किये हैं ॥ २६१ ॥

### अथ म्लेच्छजातीनां विशेषलक्षणम् ॥

( उक्त पात्रे सृष्टिखण्डे )

अब म्लेच्छ जातियोंका विशेष लक्षण कहते हैं, पद्मपुराणके सृष्टि खण्डमें कहा है—

ततस्ताक्षर्यमुवाचेदं मुनिर्ब्रह्मवधे भयात् ॥  
उद्धमैतान्सविप्रांश्च म्लेच्छानेतान्समंततः ॥ २६२ ॥

उस समय ब्रह्मवधके भयसे गरुडजीसे मुनिने कहा इन समस्त म्लेच्छोंको ब्राह्मणोंकेसहित आप वमन कर दीजिये अर्थात्—उगल दीजिये ॥ २६२ ॥

वनेषु पर्वतान्तेषु दिक्षु तान्पतगेश्वरः ॥  
उद्धवाम ततः शीघ्रं दोषज्ञः पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥  
ततः सर्वेऽभवन्व्यक्ता अकेशाः श्मश्रुर्जिताः ॥  
यवना भोजनप्रीताः किञ्चिच्छमश्रुयुताश्च ये ॥ २६४ ॥  
अग्नौ च नग्नकाः पापाः दक्षिणे श्यामवाचकाः ॥  
घोराः प्राणिवध प्रीता दुरात्मानो गवाशिनः ॥ २६५ ॥  
नैर्ऋत्ये कुर्वदाः पापा गोब्राह्मणवधोद्यताः ॥  
खर्पराः पश्चिमे पूर्वे निवसन्ति च दारुणाः ॥ २६६ ॥

तब गरुडजीने पिताकी आज्ञासे पर्वत तथा दिशाओंमें शीघ्रतासे उन म्लेच्छोंको उगल दिया ॥ २६३ ॥ वे सब शिरके बाल और मूछोंसे रहित होकर निकल पडे उनमें भोजनमें बड़ी प्रसन्नतावाले यवन कुछ एक श्मश्रुओंके रखनेवाले हैं ॥ २६४ ॥ यह अग्निकोणमें नग्नकमानवाले पापाचरणवाले हैं, दक्षिणमें श्यामनामसे कहे जाहे हैं, यह महाघोर स्वभाववाले प्राणियोंके वधमें प्रसन्न होनेवाले दुरात्मा गोमांसभोजी हैं ॥ २६५ ॥ नैर्ऋत्यमें कुर्वत नामसे यह पापशील गोब्राह्मणोंके वधमें उद्यत रहते हैं, पश्चिम पूर्वमें खर्पर नामसे विख्यात यह दारुण निवास करते हैं ॥ २६६ ॥

वायव्ये तु तरुष्काश्च श्मश्रुपूर्णा गवाशिनः ॥  
अश्वपृष्ठसमारूढाः प्रयुद्धेष्वनिवर्तिनः ॥ २६७ ॥

उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पर्वतवासिनः ॥  
 सर्वभक्षा दुराचारा वधबन्धरताः किल ॥ २६८ ॥  
 ऐशान्यां निरयाः सन्ति कर्तृणां वृक्षवासिनः ॥  
 एते म्लेच्छाःस्थिता दिक्षु घोरास्ते शस्त्रपाणयः ॥ २६९ ॥  
 एषां च स्पर्शमात्रेण सचैलो जलमाविशेत् ॥  
 एतेषां च कलौ देशोऽप्यकाले धर्मवर्जिते ॥ २७० ॥

वायव्यमें तुरुष्क नामसे विख्यात दार्दासे पूर्ण गोभक्षण करते निवास करते हैं, घोड़ोंपर चढ़नेवाले और युद्धसे निवृत्त न होनेवाले हैं ॥ २६७ ॥ उत्तर पर्वतोंके निवासी म्लेच्छ सर्व भक्षी दुराचारी वधबंधमें रहते हैं ॥ २६८ ॥ ईशान दिशाके रहनेवाले मारकाट करनेमें रत वृक्षोंके नीचे रहते हैं यह म्लेच्छ इस दिशाओंके निवासी शस्त्रधारी वनपर्वतोंमें निवास करते हैं ॥ २६९ ॥ इनके स्पर्शमात्रसे वस्त्रोंसहित जलमें स्नान करें जिस समय कलिकी प्रवृत्ति विशेष होगी और देश धर्महीन होगा ॥ २७० ॥

संस्पर्शं च प्रकुर्वन्ति वित्तलोभात्समंततः ॥  
 म्लेच्छास्तान्मोचयित्वा तु क्षुधया परिधीडिताश्च ॥ २७१ ॥

तब धनके लोभसे लोग इनका सब प्रकारसे स्पर्श करेंगे और क्षुधासे पीड़ित हुए म्लेच्छ ही इस कष्टसे इनको छुटानेमें समर्थ होंवेंगे ॥ २७१ ॥

अथ मानवजातिषु दैत्यानिचिह्नान्याह-तत्रैव ।

ताक्षर्यस्योद्धमितानां च अन्येषां गोत्रवासिनाम् ॥  
 कुलजाताः सदा दैत्या येषां शृण्वन्तु कारणम् ॥ २७२ ॥

अब मनुष्य जातिमें दैत्योंके चिह्न कहते हैं-वही लिम्बा है, कि अन्य गोत्रवासी जनोंको जो गरुडजीने उगला उनमें जो दैत्यकुल हुए उसका कारण सुनो ॥ २७२ ॥

दुर्गतिं च मृता यान्ति द्विजस्त्रीशिशुघातिनः ॥  
 गवाशिनो दुरात्मानो ह्यभक्ष्यभक्षणे रताः ॥ २७३ ॥  
 कीटा वान्तं गते तेषां तरुजन्म पिपीलिकाः ॥  
 न मंत्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्विषः ॥ २७४ ॥

द्विज स्त्री और बालकोंके घात करनेवाले मरकर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं, वे दुरात्मा गो भक्षी और अभक्ष्य भक्षणमें प्रीतिवाले ॥ २७३ ॥ अन्तमें कीट पतंगकी गतिमें जाते अर्थात् तरु चैटी आदिमें उनका जन्म होता है वे देवद्वेषी मन्त्र देवता किसीको माननेवाले नहीं होते ॥ २७४ ॥

अग्रजाः सहजास्तेषां सहगृभ्यो ग्रामवृत्तयः ॥  
लोमकेशाः प्रजाकामाः क्रव्यभक्षरता भुवि ॥ २७५ ॥  
साहसाच्च व्रतं दानं स्नानयज्ञादिकं च यत् ॥  
मत्स्यमांसादिषु प्रीता मृषावचनभाषिणः ॥ २७६ ॥  
सदाकामाः सदालोभाः सदाक्रोधमदान्विताः ॥  
वधबंधात्ततोद्वेगाद्ब्यूतसंगीतसंप्रियाः ॥ २७७ ॥  
कुभृत्याः कुजनप्रीताः पूतिगर्ह्यरता नराः ॥  
न देवेषु न वित्तेषु न धर्मश्रवणेषु च ॥ २७८ ॥  
स्तोत्रमंत्रादिके पुण्ये यथाकार्येष्वनिश्चयाः ॥  
बहुरोगा ह्यरोगाश्च बहुरूपपरिच्छदाः ॥ २७९ ॥

उनमें पूर्वसे ही स्वभावमें ग्रामवृत्ति होती है यह एक सरीखे होते हैं, ये लोम केशोंसे युक्त संतानकी कामनावाले मास भक्षणमें निरत होते हैं ॥ २७५ ॥ व्रत दान स्नान और जो यज्ञादिक हैं उनमें इनका द्वेष होता है, मत्स्य मांसमें प्रेम करनेवाले साहसी नित्य मिथ्या वचन बोलनेवाले ॥ २७६ ॥ सदा काम चेष्टावाले, सदा लोभी सदा क्रोधसे युक्त वध, बंध उद्वेग जुआ, और गानेमें अनुरागवाले, ॥ २७७ ॥ कुभृत्य खोटेजनोंमें प्रेम करनेवाले अफ-वित्र तथा निर्दित कर्मोंमें रत, न देवताओंमें न वित्तमें न धर्मश्रवणमें ॥ २७८ ॥ तथा पुण्य-दायक स्तोत्र मन्त्रादिमें निश्चय न रखनेवाले, कार्यमें निश्चय न माननेवाले बहुरोगी, निरोगी तथा अनेक प्रकारके रूप रखनेवाले ॥ २७९ ॥

नरजातिषु दैत्यानां चिह्नान्येतानि भूतले ॥  
न जानन्ति परं लोकं न गुरुं स्व न चापरम् ॥ २८० ॥  
गर्भाभरणमिच्छन्ति नातिथिं न गुरुन्द्बिजान् ॥  
न देवं न सुतं गोत्रं न मित्रं न च बांधवम् ॥ २८१ ॥  
स्वप्ने दानं न जानन्ति भक्षणान्नपरिच्छदम् ॥  
गोपायन्ति धनं यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः ॥ २८२ ॥  
विना पीडां वसुं किञ्चिन्न ददन्ते च राजनि ।  
ते यक्षा दुर्गतिस्थाश्च परार्थे भारवाहकाः ॥ २८३ ॥

भूलोकमें यह मनुष्योंमें दैत्योंके चिह्न जानने, जो परलोक गुरु और अपना पराया नहीं

मानते ॥ २८० ॥ जो केवल गर्भ और आभरणकी इच्छा करते हैं, अतिथि गुरु ब्राह्मण देवता पुत्र गोत्र मित्र बन्धु इनके लिये ॥ २८१ ॥ स्वप्नमें भी दान देना नहीं जानते, भक्षणमात्र अन्न खौर पहरने मात्र बख्ख रखते हैं और धनको बड़ी कृपणतासे जोड़ते हैं वे चररूपी अक्ष हैं ॥ २८२ ॥ जो विना पीडाके राजाको किंचित् धन भी नहीं देते हैं वे भी अक्ष दुर्गतिमें स्थित होते हैं मानो वे पराये निमित्त भार वहन करते हैं ॥ २८३ ॥

प्रेतानां लक्षणं यद्वा सर्वलोकविगर्हितम् ॥  
 स्त्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च शृणुष्वैकमना मयि ॥ २८४ ॥  
 मलपंकधरा नित्यं सत्यशौचविवर्जिताः ॥  
 दंतकुंतलवस्त्राणां वपुषा मलिनास्तथा ॥ २८५ ॥  
 गृहपीठादिपात्राणां सकृच्छौचं न रोचते ॥  
 न पश्यन्ति सुखं स्त्रीणां विशन्ति कानने द्रुतम् ॥ २८६ ॥  
 विरसोच्छिष्टपूतानां भक्षणेऽभिरता भुवि ॥  
 अन्नपानं च शयनमंधकारेषु रोचते ॥ २८७ ॥  
 कदाचिच्छुक्तां नेति कश्चिद्वा शुचितां तनौ ॥  
 लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीदृशं किल ॥ २८८ ॥

अब सब लोकमें निन्दित स्त्री और पुरुषोंमें जो मानों प्रेत ही हैं लक्षण उनके मुझसे शुकमन होकर सुनो ॥ २८४ ॥ जिनका शरीर सदा मैला कीचमें सना रहता है, जो सदा सत्य और शौचसे रहित हैं, जिनके दांत बाल वस्त्र और शरीर मैलसे भरे हैं ॥ २८५ ॥ धरकी चौकी आदि पात्रोंको जो एकवार भी स्वच्छ नहीं करते, जिन्होंने कभी स्त्रीका सुख नहीं देखा, जो सदा बनोंमें विचरत हैं ॥ २८६ ॥ बासी जूठा दुर्गन्धियुक्त अन्नके भक्षणमें प्रेम करते हैं, जिनको अन्धेरेमें अन्नपान और शयन रुचता है ॥ २८७ ॥ जिनको कभी शुक्लता स्वच्छता वा श्वेत वस्त्रोंका धारण वा कभी शरीरमें शुचिता नहीं होती, यह मनुष्यलोकमें साक्षात् प्रेतोंके लक्षण हैं ॥ २८८ ॥

हिताहितं न जानन्ति मित्रामित्रं गुणागुणम् ॥  
 पापपुण्यादिकं स्थानं स्नानं देवद्विजार्चनम् ॥ २८९ ॥  
 अरिमित्रमुदासीनं न विन्दन्ति स्वभावतः ॥  
 मर्त्यस्थाः पशवस्ते च ज्ञायन्ते धीरसंमतैः ॥ २९० ॥

बुद्ध्या हीना ह्यसद्भावास्ते भ्रमन्ति मृषा भुवि ॥  
 यक्षरूपा नरास्त च सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥ २९१ ॥  
 एषां भेदं प्रयच्छामि लक्षणं धरणीतले ॥  
 विजाता मर्त्यलोकेषु पापस्यैवानुरूपतः ॥ २९२ ॥

जो हित अहित मित्र अमित्र गुण अगुण पाप पुण्यादिके स्थान, खान देव ब्राह्मणकी पूजाको नहीं जानते ॥ २८९ ॥ जो स्वभावसे ही शत्रु मित्र उदासीनको नहीं जानते, ऐसे मनुष्य इस लोकमें पशुही समझने चाहिये ऐसी धीरोंकी संमति है ॥ २९० ॥ जो मनुष्य बुद्धिको तिलाञ्जलि दिये निष्प्रयोजन अर्थात् व्यर्थही पृथिवीमें विचरते हैं वे मनुष्य सब धर्मोंसे बहिष्कृत यक्षरूप जानने ॥ २९१ ॥ पृथिवीतलमें इनके लक्षण और भेद तुमसे कहाता हूं यह मर्त्यलोकमें पापके अनुसारही जन्म पाये हुए हैं ॥ २९२ ॥

मलीमसं भुव्यतथ्यं नागरं छलरूपिणम् ॥  
 विषसादिप्रभोक्तारं काकमाहुर्मनीषिणः ॥  
 अभक्ष्ये निरताः पापाः कुक्कुराः पूतिसंप्रियाः ॥ २९३ ॥  
 प्रवृत्ताः सर्वगुह्येषु भये भक्षन्ति जीवने ॥  
 भूम्यां स्वादमर्पा मीनाः संभवाश्च सुरद्विषः ॥ २९४ ॥  
 प्रगृह्य च ततोऽग्रास्ते म्लेच्छान्नभक्षणप्रियाः ॥  
 विशेषेण करीणाञ्च तथा चरणयोधिनाम् ॥ २९५ ॥  
 पोषणे भक्षणे प्रीताः पूतिगर्ह्येषु साधुषु ॥  
 पर्वते च रणे वह्नौ काष्ठसंचयसंग्रहे ॥ २९६ ॥

जो इस जगतमें महामलीन रहते हैं, जो वंचक वेष बनाये चतुरता प्रकाश करते हैं विषस (जूंटे) अन्नके खानेवाले होते हैं वे साक्षात् काग हैं, जो पापी अभक्ष्य भक्षणमें रत दुर्गन्धियुक्त अन्नके खानेवाले हैं वे मनुष्योंमें कुत्ते हैं ॥ २९३ ॥ जो सब गुह्य स्थानोंमें प्रवृत्त होकर जीवनके निमित्त भयसे अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे देवद्रोही जन साक्षात् मछली हैं उनका दैत्योंसे जन्म है ॥ २९४ ॥ जो म्लेच्छोंके प्रिय अन्नग्रहण करनेवाले तथा म्लेच्छोंके भक्षणके पदार्थोंमें प्रेम करनेवाले विशेषकर हाथों और चरणोंसे युद्ध करनेवाले ॥ २९५ ॥ उन्हींके पोषण भक्षणमें प्रीति करनेवाले हैं, निर्दित साधुओंमें प्रेम करनेवाले हैं, पर्वतगमन, युद्ध, अभिदाह, काष्ठसञ्चयमें जिनका मन सदा लगता है ॥ २९६ ॥

विज्ञेयान्ते सदा म्लेच्छाः क्षत्रियाणां भयाकुलाः ॥  
 लोकानां नष्टधर्मे च सत्यशौचविवर्जिते ॥ २९७ ॥  
 कुलीनानां तदा म्लेच्छा भविष्यन्ति च दस्यवः ॥  
 तेषां संसर्गतोऽन्ये च संबन्धादन्नभोजनात् ॥ २९८ ॥  
 मैथुनात्तस्य धोषायां तद्भावं तु व्रजन्ति ते ॥

अथ म्लेच्छानां विशेषलक्षणम्, शिवपुराणे धर्मसंहितायाम् ।

सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च ॥ २९९ ॥  
 धर्मं जघान तेषां वै केशान्यत्वं चकार ह ॥  
 अर्धं शकानां शिरसो मुण्डं कृत्वा विसर्जिताः ॥ ३०० ॥

वह क्षत्रियोंके भयसे व्याकुल म्लेच्छही जानने, लोकोंके धर्मनष्ट होनेसे तथा सत्य-  
 शौचके रहित होनेसे ॥ २९७ ॥ कुलीनोंमें ही म्लेच्छ और दस्यु हो जाते हैं, दूसरे जन-  
 उनके संसर्ग और उनके भोजन करनेसे ॥ २९८ ॥ तथा उनकी स्त्रियोंमें मैथुनसे उसी  
 भावको प्राप्त हो जाते हैं । अब म्लेच्छोंके विशेष लक्षण कहते हैं, शिवपुराणकी धर्मसंहितामें  
 लिखा है—राजा सगरने वसिष्ठजीके वचनके गौरव और अपनी प्रतिज्ञासे ॥ २९९ ॥ उन  
 क्षत्रियोंका धर्मनष्ट कर दिया, और उनके बालोंकी व्यवस्था करदी, शकोंका तो आधा  
 शिर मूंडकर छोड़ दिया ॥ ३०० ॥

यवनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथैव च ॥  
 पारदा मुण्डकेशाश्च पह्लावाः श्मश्रुधारिणः ॥  
 निःस्वाध्यायवपट्टकाराः कृतास्तेन महात्मना ॥  
 ( श्रीभागवते नवमस्कन्धे )

सगरश्चक्रवर्त्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः ॥

यस्तालजंघान्यवनाञ्जशकान्हैहयवर्वरान् ॥ ३०२ ॥

यवन और काम्बोजोंका सब शिर मुण्डवा दिया, और पारदोंके भी बाल मुण्डवा  
 दिये, पहलवोंको ढाढी रहने दी इस प्रकार महात्मा सगरने इनको स्वाध्याय और  
 वषट्कार रहित कर दिया ॥ ३०१ ॥ श्रीमद्भागवतके नवम स्कन्धमें लिखा है कि राजा  
 सगर बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती था जिसके पुत्रोंने यह सागर बनाया है उसने तालजंघ, यवन,  
 शक, हैहय, वर्वर इनको ॥ ३०२ ॥

नावधीद्गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः ॥

मुण्डाञ्जमश्रुधरान्कांश्चिन्मुक्तकेशार्द्धमुण्डितान् ॥

अनन्तर्वाससः कांश्चिदबहिर्वाससोऽपरान् ॥

अथ पद्मे तुरुष्कोत्पत्तिमाह-भूम्युत्तरभागे यौवनावस्थाकामस्तुरं प्राति ।

ययातिरुवाच-

मदीयां त्वं जरां गृह्य यौवनं देहि पुत्रक ॥

तुरुरुवाच-

शरीरं प्राप्यते पुत्र पितुर्मातुः प्रसादतः ॥३०४॥

गुरुके वचनसे मारा नहीं किन्तु उनके वेष विकृत करदिये, किन्हींके केश सर्वथा मूण्ड दिये किन्हींकी डाढी रहने दी, किन्हींके मुक्तकेश कर दिये, किन्हींके आधे बाल मूँडदिये ॥ ३०३ ॥ किन्हींको बाह्यवस्त्रधारी किया किन्हींको एक भीतर कच्छ और ऊपरसे आच्छादक वस्त्रधारी किया ॥

अब पद्मपुराण भूमिखंडके उत्तर भागसे तुरुष्ककी उत्पत्ति कहते हैं यौवन अवस्थाकी कामनासे ययातिने तुरुसे कहा हे पुत्र ! तूम मेरा बुढापा ग्रहण करलो और अपनी युवावस्था मुझे देदो । तुरुने कहा, पिता माताके प्रसादसे पुत्रका शरीर प्राप्त होता है ॥ ३०४ ॥

पित्रोः शुश्रूषणं कार्यं पुत्रैश्चापि विशेषतः ॥

तस्माद्वाक्यं महाराज करिष्ये नैव तेन तु ॥३०५॥

गुरोर्वाक्यं ततः श्रुत्वा तं शशाप रुषान्वितः ॥

ययातिरुवाच-

अवध्वस्तस्त्वयादेशो ममैवं पापचेतन ॥३०६॥

तस्मात्पापी भव त्वं च सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥

शिवशास्त्रविहीनश्च वेदवेदाङ्गवर्जितः ॥३०७॥

विशेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके भोगनेको युवावस्था दीजाय इससे मैं अपनी युवावस्था नहीं दूंगा हे महाराज ! मैं आपका वचन पालन नहीं कर सकता ॥ ३०५ ॥ तुरुके वचन सुनकर राजाने क्रोधित हो उसको शाप दिया । ययातिने कहा हे पापी ! तूने यह हमारी आज्ञा जो नहीं मानी ॥ ३०६ ॥ इस कारण तू पापी संपूर्ण धर्मोंसे बाहर हो शिव शास्त्रसे हीन वेदवेदांगसे रहित हो ॥ ३०७ ॥

सर्वाचारविहीनस्त्वं भविष्यसि न संशयः ॥

ब्रह्मघ्नस्त्वं देवदुष्टः सुरापः सत्यवर्जितः ॥३०८॥



चण्डकर्मप्रकर्ता त्वं भविष्यसि न संशयः ॥  
 सुरालीनः सुरापीथो गोघ्नश्चैव भविष्यसि ॥३०९॥  
 दुष्टकर्मा मुक्तकच्छश्च ब्रह्मद्रेष्ठाऽशिवाकृतिः ॥  
 परदाराभिगामी त्वं महादुष्टश्च लंपटः ॥३१०॥  
 सर्वभूतेषु दुर्मैघाः सत्त्वात्त्वं च भविष्यसि ॥  
 स्वगोत्रा रमणा नारी सर्वधर्मप्रणाशकः ॥३११॥

तू सम्पूर्ण आचरणोंसे हीन हो जायगा इसमें सन्देह नहीं, तू ब्रह्महत्यारा, देवद्रोही, सुरापान करनेवाला, सत्यसे वार्जित होगा ॥ ३०८ ॥ और संशय रहित तू उग्रकर्मोंमें सुरामें लीन सुरा पीनेवाला गोघाती होगा ॥ ३०९ ॥ दुष्टकर्मा, कच्छ, खुला हुआ, ब्रह्मद्रोही, अश्विमुर्ति, परदारार्थमें गमन करनेवाला, महादुष्ट और लम्पट होगा ॥ ३१० ॥ तथा सब प्राणियोंमें दुर्बुद्धि होकर सर्वभक्षी हो जायगा, अपने गोत्रकी स्त्रीमें रमण करेगा इससे तू सब धर्मोंका नाश करनेवाला होगा ॥ ३११ ॥

पुण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्ठविच्च भविष्यसि ॥  
 तव पुत्राश्च पौत्राश्च ईदृशाश्च न संशयः ॥३१२॥  
 भविष्यन्ति ह्यपुण्याश्च मच्छापकलुषीकृताः ॥  
 तव वंशसमुद्भूतास्तुरुष्का म्लेच्छरूपिणः ॥३१३॥  
 ( अन्यजात्युत्पत्तिमाह—ग्रन्थान्तरे )  
 ससर्ज योधान् रोमभ्यः शृगेभ्योऽपि सहस्रशः ॥  
 निश्वासेभ्यः खुराग्रेभ्यः पुच्छाग्रेभ्यश्च वालवेः ॥३१४॥  
 विनिःसृता महायोधाः प्रगृहीतशरासनाः ॥  
 भक्षिता योगिनीवृन्दैर्योनिरंध्रसमुद्भवैः ॥३१५॥

पुण्य और ज्ञानसे विहीन तथा कुष्ठरोगसे आक्रान्त होगा इसी प्रकारके तेरे पुत्र पौत्र होंगे इसमें संदेह नहीं ॥ ३१२ ॥ मेरे शापसे तुम्हारी सन्तान पुण्यरहित और कलुषित होगी, और तेरे वंशमें उत्पन्न हुए तुरुष्क म्लेच्छरूप होंगे ॥ ३१३ ॥ ( ग्रन्थान्तरमें इन जातियोंमें की उत्पत्ति है ) उस गौने अपने रोम, शृङ्ग, निश्वास, खुराग्र और पुच्छसे सहस्रों योद्धा-जोंको सज्जन किया ॥ ३१४ ॥ बड़े बड़े योद्धा धनुष बाण ग्रहण किये प्रगट हुए और योनि रन्ध्रसे उत्पन्न हुई योगिनियोंने तिनको भक्षण किया ॥ ३१५ ॥

अथ राठौराः क्षत्रियाः प्राचीना एवेत्याह—  
ब्रह्मवैवर्ते गणेशखण्डे

भृगुः शंकरमूलेन सोमदत्तं जघान ह ॥  
आययुः समरं कर्तुं कार्तवीर्यं निवार्य च ॥ ३१६ ॥  
राठीयाः शतशश्चैव नरेन्द्राकृतयस्तथा ।  
कृत्वा ते शरजालं च भृगुं चच्छदुरेव च ॥ २१७ ॥

अब राठौर क्षत्रियोंका प्राचीनत्व वर्णन करते हैं, ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्डमें कहा है—

भृगुने शंकरमूलद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कार्तवीर्यको निवारण करके जब समरको आया ॥ ३१६ ॥ उस समय सैकड़ों राठौर उस राजाके साथसे उन्होंने शरजालके द्वारा भृगुको आच्छादन कर दिया इससे राठौरोंकी प्राचीनता सिद्ध है ॥ ३१७ ॥

अथ ज्ञातिबहिष्कृतं नरं शीघ्रं ज्ञातिमध्ये आनयेः  
दित्याह—स्कान्दे ।

ज्ञातित्यक्तो हि कुरुते पापं ज्ञातिविवर्जितः ॥  
तत्पापं ज्ञातिबन्धूनां जायते मनुरब्रवीत् ॥ ३१८ ॥  
ज्ञात्वापि तिहितं कर्म ज्ञातिभिः परिवर्जितम् ॥  
प्रायश्चित्ते पुनर्जातिमानयेन्मनुरब्रवीत् ॥ ३१९ ॥  
ज्ञातित्यक्तं तु पुरुषं ज्ञातिमध्ये समानयेत् ॥  
प्रायश्चित्तेन विधिना नोचेद्भ्रातिं व्रजत्यपि ॥ ३२० ॥

अब जातिसे बाहर किये मनुष्यको शीघ्र ही जातिमें लेना चाहिये इस बातको स्कान्द-पुराणसे कहते हैं—

जातिसे त्यागा हुआ मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके लोगोको लगता है ऐसा मनुने कहा है ॥ ३१८ ॥ जानकर जो कर्म छिपाया गया है इसीसे वह ज्ञातियोंद्वारा वर्जित किया गया, मनुजी कहते हैं कि प्रायश्चित्तसे उनको फिर जातिमें ले लेना चाहिये ॥ ३१९ ॥ जातिसे त्यागे हुए पुरुषको फिर जातिमें ले लेना

१ वर्षसङ्करजातिविवेकाध्यायमें यह श्लोक स्कान्दके नामसे लिखे हैं ।

चाहिये और उससे प्रायश्चित्त करना चाहिये नहीं तो वह सदाको जाता रहैगा, जिसका प्रायश्चित्त विधान हो उसीको जातिमें लेना अन्यथा वह सबको पतित करैगा ॥ ३२० ॥

अथ विवाहे वाहननियमः कथ्यते ।

ब्राह्मणस्य सितो वाजी पीतो वाजी नृपस्य च ॥  
 रक्तो वैश्यस्य वाजी स्याच्छ्यामो वाजी तु पद्भुवः ॥ ३२१ ॥  
 चतुर्णामेव वर्णानां यथावाहं तुरंगमम् ॥  
 अन्यासामिह जातीनां न वाहो वाहनं भवेत् ॥ ३२२ ॥  
 यानमारूह्य न श्रेष्ठमतिक्रामेत्कदाचन ॥  
 अतिक्रामेदपांक्तियो व्रतमौद्दालकं चरेत् ॥ ३२३ ॥

अब विवाहोंमें वाहनका नियम कहते हैं, ब्राह्मणके लिये विवाहमें चढ़नेको श्वेत, घोडा, राजाको पीला, वैश्यको लाल और शूद्रको श्याम घोडा होना चाहिये ॥ ३२१ ॥ चार वर्णोंके जैसे घोडोंके रंग कहे हैं इस प्रकार संकर जातियोंका वाहन नहीं कहा है ॥ ३२२ ॥ वे दूसरी जातियें श्रेष्ठ वाहनपर न चढ़ें जो वे इस बातको अतिक्रमण करें तो उनको पंक्तिसे बाहर कर दिया जाय और औद्दालक व्रत कराया जाय ॥ ३२३ ॥

चतुर्वर्गचिन्तामणौ—

वरणार्थं यथा गच्छेदश्वारूढो भवेद्द्वरः ॥  
 पंचमेऽहनि निर्गन्तुं वडवार्यां समारूहेत् ॥ २२४ ॥

चतुर्वर्गचिन्तामणिमें लिखा है, जो वर घोडेपर चढ़कर विवाहके लिये आवे तो पांचवें दिन वहाँसे निकलनेको घोडीपर चढ़े ॥ ३२४ ॥

वरणं नाम अष्टौ विवाहास्ते च चतुर्वर्णानामेव  
 मिश्रजातीनां न ।

अनुलोमप्रसूतानां षण्णां क्षेत्रोचितो हयः ॥  
 विना निषादमेषां चतुष्पथमहोत्सवः ॥ ३२५ ॥  
 प्रतिलोमप्रसूतानामुच्यते वाहनान्यथ ॥  
 चाण्डालादिविवाहेषु नरो यानं स्ववर्त्मनि ॥ ३२६ ॥  
 क्षत्रुरायोगवस्यापि खरो वाजिं विना तथा ॥  
 एतासां हि विवाहेषु स्वमार्गं वाहनं खरः ॥ ३२७ ॥

( वरण नाम विवाह जो आठ प्रकारके हैं सो यहां लेने, वह आठ प्रकारके ब्राह्म आदि वेवाह चार वर्णोंमें हो सकते हैं, संकर जातियोंमें नहीं )

अनुलोम विधिसे उत्पन्न हुए छः संकरोंको घोडेकी सवारी हो सकती है, पर निषादके लिये अश्वके वाहनका निषेध है, निषादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव है ॥ ३२५ ॥ जो प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए हैं उनके वाहनोंको कहते हैं, चाण्डाल आदिके विवाहमें वे अपने मार्गमें नरयान ले जा सकते हैं ॥ ३२६ ॥ क्षत्रा और आयोगवको खरयानका अधिकार है घोडेका नहीं, इनके विवाहमें स्वमार्गमें खरयान ही कहा गया है ॥ ३२७ ॥

वामीयानं मागधस्य वैदेहस्य क्रमेलकः ॥  
 अश्वयुक्तरथो यानं सूतस्य परिकीर्तितम् ॥३२८॥  
 अष्टादशसमूहेषु मणिकांस्योपजीविनः ॥  
 ये स्थुस्तेषां विवाहेषु यानं वृषभमुच्यते ॥३२९॥  
 न शिरोवेष्टनं तेषां नातपत्रं न चामरम् ॥  
 रंजितो विविधैर्वर्णैर्हयः काष्ठविनिर्मितः ॥३३०॥  
 क्रोडीकृताः स्वजातीयैर्नापिताः षट् स्ववर्त्मनि ॥  
 विवाहे स्वर्णकारोऽपि तद्गृह्णतेस्ववर्त्मनि ॥३३१॥

मागधको घोडी, वैदेहको क्रमेलक ( ऊँट ), सूतको अश्वयुक्त रथ यानका अधिकार है ॥ ३२८ ॥ अठारह समूहोंमें जो मणिकार कांस्यकार आदिक हैं, उनके विवाहोंमें वृषभका यान होना चाहिये ॥ ३२९ ॥ पर इन जातिके वरको पगडी ( चीरा ) चमर और छत्र लगानेका अधिकार नहीं है, हां काष्ठका बनाया हुआ घोडा अनेक वर्णोंसे चित्रितकर संग ले चलें ॥ ३३० ॥ यह नापित आदि छः अपनी २ जातियोंके साथ अपने मार्गमें स्वविषयमें प्रवृत्त हुए बर्त्त, वरको गोदी लेकर चलें । इसी प्रकार स्वर्णकारोंके भी विवाहका विधान है, वे अपने मार्गमें वरको गोदी लेकर चलें ॥ ३३१ ॥

शकटं वृषसंयुक्तं वाहनं तैलयंत्रिणः ॥  
 पर्यको वाहनं प्रोक्तं सूचिकस्य स्ववर्त्मनि ॥३३२॥  
 ईदृग्जातिषु सर्वासु स्वजातिस्कंधरोहणम् ॥  
 जात्यर्णवे—  
 अश्वगजरथोक्षाकं विवाहे वाहनं क्रमात् ॥३३३॥  
 संकीर्णानां विशेषास्तु गदिताः पूर्वसूरिभिः ॥

यं यं कृषिकृतं कर्म तत्तद्वाहनमुच्यते ॥३३४॥

रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च ।

कैवर्ती मेदमिच्छश्च वाहनं खर उच्यते ॥३३५॥

तेलीको बैलोंके छकडेका वाहनका अधिकार है और दर्जीको विवाहमें पर्यकपर बैठना यही उसका वाहन है ॥ ३३२ ॥ इस प्रकारकी सब जातियोंमें अपनी जातिके कंधेपर चढकर विवाहमें जानेका अधिकार है, ( जात्यवर्णमें लिखा है )-विवाहमें चार वर्णोंका क्रमसै घोडा, हाथी, रथ और वृषभ वाहन कहा है ॥ ३३३ ॥ संकीर्ण वर्णोंका पूर्व विद्वानोंने इस प्रकार निरूपण किया है कि जो २ कृषि कर्ममें पशु उपयोगमें लावें वही २ उनका वाहन है ॥ ३३४ ॥ घोबी और चमार नट बुरुड कैवर्त मेद मिच्छ इनकी सवारी गधा है ॥ ३३५ ॥

मिछानां वाहनमुष्ट्रमिति वा ॥ ३३६ ॥

रथकः शिल्पकश्चैव स्वर्णस्तेयी तथापरे ॥

वाहनं वाजिरित्युक्तं सर्ववर्णं वृषः स्मृतः ॥३३७॥

कहीं भीलोंका वाहन ऊँट भी लिखा है ॥ ३३६ ॥ रथ हांकनेवाले स्वर्णस्तेयी तथा दूसरोंका वाहन अश्व कहा है, शेष वर्णोंकी सवारी वृष है ॥ ३३७ ॥

पंथ, मत वा सम्प्रदाय ।

अभ्यागत—यह नाम एक प्रकारके साजुओंका हो गया है; जो जहां तहां ठौर कुठौर सब स्थानोंमें जीम लेते हैं, कहीं पर यह लोग तेरहवींकी जो पत्तल निकाली जाती है उसके जीमनेवाले कहे जाते हैं ।

अलखनामी वा अलेखिया—अलख अलख पुकारकर भीख मांगनेवाली एक सम्प्रदाय है, यह चौंचदार ऊंची टोपी पहनते हैं, कम्बलका लबादा पहनते हैं, कुछ संतोषी भी होते हैं ।

अवधूत—यह शैवसम्प्रदायके संन्यासियोंका एक भेद है, यह लोग दक्षिणमें बहुत हैं; विभूति और रुद्राक्षकी माला धारण करते गेरुए बस्त्र पहिनते हैं, इस संप्रदायकी स्त्रियों अवधूर्तिनी कहाती हैं ।

अतीत—यह एक शैवसम्प्रदायकी भिक्षुक विरक्त मंडली है, यह भी रंगे कपडे पहरते और ममो नारायण कहते हैं, इनमें कोई मरजाय तो दस नामियोंको जिमाते तथा भण्डारा करते हैं ।

परमहंस—श्रीब्रह्मको एक माननेवाली संन्यासी जनोंकी सम्प्रदाय है, यह ब्राह्मण होते हैं ।

अकाली—अकाल पुरुषको माननेवाली सिक्खोंकी एक सम्प्रदाय है, पंजाबमें यह संप्रदाय मानव दृष्टिसे देखी जाती है, यह काले कपड़े पहिनते, शिरपर लोहेका चक्र लगाते गोविन्दसिंह गुरुको अपना पूज्यपुरुष मानते हुए पांच ककार धारण करते हैं, यथा हाथमें लोहेका कड़ा १, कंधा २, कच्छ ३, कर्द ४ ( लुरा ) और केश ५ ( सब शिरपर बाल रखना ) यह इनको मोक्षका साधन समझते हैं, देवीको पूजते झटका ( अपने हाथसे वध कियेका ) मांस खाते हैं यह लोग वीर भी होते हैं ।

अधोरी—यह एक घृणितकर्मा बाबाजियोंका समुदाय है, एक प्रकारके यह लोग धोरी होते हैं, दुकान २ हठसे पैसा मंगते हैं, जो न दे उसके सामने मलमूत्र करदेते हैं, खा पी भी जाते हैं, ये लोग श्मशानोंमें रहते हैं, यन्त्र मंत्र टोना जाननेका भी दावा करते हैं कहते हैं यह पंथ किनारामजीका चलाया है ।

अनन्तपन्थी—यह विचरणशील एक वैष्णवोंकी समुदाय है, रायबरेली सीतापुरमें कुछ २ लोग पाये जाते हैं ।

आकाशमुखी—यह एक शैव सम्प्रदायके साधू हैं, यह सदा अपना मुख आकाशमें किये रहते हैं, इनकी नसें वैसेही रहजाती हैं, जैसा हाथ ऊपरको फैलानेवालेकी रहजाती हैं, उनका हाथ ऊपरको खड़ा रहजाता है, यह बाल बढ़ाते तथा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं ।

आचारी—स्वामी रामनन्दजीके सम्प्रदायवाले आचारी कहाते हैं, इनमें आचारी, संन्यासी, वैरागी, खाकी ऐसे चार भेद हैं इनमें आचारी तो ब्राह्मणही होते हैं, खाकी आदिमें दूसरे वर्ण भी मिलजाते हैं, आचारी लोग सदा ऊनी व रेशमी वस्त्र पीताम्बर आदि पहनते हैं, यह छूतछातका बड़ा परहेज रखते हैं, वे अपनेही हाथका भोजन करते हैं, किसीका स्पर्श भी नहीं करते, स्पर्श होतेही स्नान करते हैं, दूसरे वर्णके लोग यदि इनमें संमिलित हों तो वे इस रूपसे नहीं रह सकते ।

आपापन्थी—खेडी जिलेके मुण्डवां ग्राम निवासी मुन्नादास सुनारका चलाया यह एक पंथ है, मुन्नादासजीमें कुछ चमत्कार होगया था, इसी कारण बहुतसे लोग उनके शिष्य होगये १८३० संबत्के लगभग यह पंथ चला है, युक्त प्रदेशमें यह लोग कोई ८००० आठ सहस्र हैं ।

कानफटा—यह गोरखनाथी सम्प्रदायके अन्तर्गत कालबेलिये वा जोगी कहाते हैं, गुरु गोरखनाथजी बड़े प्रसिद्ध योगी हुए हैं गोरखपुरमें तथा नेपाल और हुगली जिला डमडमके इलाक़ेमें इनके प्रसिद्ध स्थान हैं ।

कनीया जोगी—यह भी एक प्रकारके जोगी हैं, कनफटोंसे मिलते जुलते हैं, यह कहीं सर्प दिखाकर अपनी आजीविका करते हैं ।

कबीरपंथी—महात्मा कबीरको कौन नहीं जानता उनके गंभीर गवेषणासे पूर्ण निर्गुण भजनका स्वाद ऐसा कौन है जिसने न पाया हो, कबीरका एक दो पद प्रायः सभी पुरुषों को याद निकलेगा, इस सम्प्रदायमें चारों वर्ण संमिलित हैं ।

कर्तभिजा—यह बंगाल प्रांतकी एक संप्रदाय है, इसके नेता सद् गोप वंशके अलंकार रामसरनपाल थे, कंचरापारा स्टेशनके समीप गोशवारामें इनकी जन्मभूमि थी वह अपनेको अदृश्य गुरुसे उपदेश प्राप्त हुआ कहते थे, इनके शिष्य मनुष्योंपर धर्म टैक्स बताते थे और अबला जातिपर बहुत सद्दानुभूति रखते थे ।

कष्टसंगी—यह जैनधर्मावलम्बी दिगांवरी संप्रदायका एक भेद है, यह लकड़ीकी मूर्ति पूजते याककी पूंछका ब्रूस बांधते हैं ।

कालवेळिये—यह सर्पोंके पालनेवाले वीन बजाकर फिरनेवाले होते हैं, ये राजपूतानेमें कालवेळिये युक्त प्रदेशोंमें सपेरे कहाते हैं, भगवे कपडे पहनते कानोंमें मुद्रा पहनते हैं गुरु गोरखनाथको मानते हैं ;

कालपन्थी—यह भी एक प्रकार कालका चलाया पन्थ है इसमें निरुष्ट जातिके लोग संमिलित हैं मेरठ जिलेमें यह लोग बहुत हैं अनुमानसे कोई तीन लाख संख्यामें होंगे ।

कूका—यह भी एक नाकपन्थी संप्रदाय है, यह श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिनमें तीनवार खान करते हैं, गुरु नानकजीके शब्दोंको ऊंचे स्वरसे पढ़ते हैं, यह गृहस्थी हैं शिक्खधर्मानुसार इनका विवाह होता है इनका आदिगुरु रामसिंह कहा जाता है, गांव तहणी जिला लुधियानामें इनका गुरुद्वारा है ।

कौल—यह एक वाम मार्गका भेद है, यह तांत्रिक रीतिसे देवीकी उपासना करते हैं, मद्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन यह पांच वस्तु सार मानते हैं, परन्तु इनके आध्यात्मिक अर्थोंसे दूसराही रहस्य प्रगट होता है, तथा मद्यका अर्थ जिह्वाको उलटकर तालुमें लगाकर ब्रह्मांडका रस पीना इत्यादि ।

खाकी—यह भी भिक्षुक साधुओंका समुदाय है, शिरपर जटा मस्तकमें धिभूति और सब शरीरमें ग्राक मली रहती है, मूंजकी कौंधनी बांधते हैं ।

मच्छ—यह एक प्रकारके कुमार रहनेवाले जैन धर्मियोंका समुदाय है, यह घूमते रहते हैं, धर्मशाला जैनाश्रमोंमें ठहर जाते हैं, स्वस्तखाच्छ, गपगच्छ, कलम्बगच्छ, लोकगच्छ, पत्तनीर इनके भेद हैं, गान्धर्व यह गानेवालोंकी एक जाति प्रयागकी रस, गाजीपुर आदिमें पाई जाती है । अनरुख, अरख, रामसी, शाहीमल, हविन, पच, मैय्या, ऊधोगत, वहाजवन, वनाल, बतुरहा, भकवा, क्षत्री, गेंदवारा, कनौजिया, कश्मीरी, खोदारी, मनहो, नमाहरिन, नाभिन, रबीसी, रामसन, रावत, सहमल, सलीयाली गाही, सोमल आदि इनके गोत्र हैं ।

समाजी-यह दयानन्द सरस्वतीका चलाया एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरसे यह आर्य-समाज वा दयानन्दी पन्थ कहाता है, इसमें ३६ जाति तथा ईसाई मुसलमानादि समस्त जातिके लोग संमिलित होसकते हैं, चार मिनटमें मुसलमान, ईसाई आर्य हो जाता है, यह लोग तीर्थ, श्राद्ध, जातिकी जन्मसे व्यवस्था, अवतार, ईश्वरकी प्रतिमा, अर्चा, चौकाछूत आदि कुछ भी नहीं मानते, केवल विधवाविवाह नियोग एक स्त्रीके ग्यारह पति मानते हैं, वे पढेभी वेद चिछाते हैं, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, स्कूल कालिज कन्याका पाठशाला खोलते हैं पर शिक्षा वही सत्यार्थप्रकाशी देते हैं ।

दादूपन्थी-महात्मा दादूजीका चलाया हुआ पन्थ है इसमें गृहस्थी भी होते हैं, इस पंथमें सुन्दरदास नामा एक अच्छा कवि हुआ ।

नानक पन्थी-गुरु नानकजीका चलाया एकपंथ है इसमें पञ्जाबी खत्री विशेष रूपसे संमिलित हैं इस सम्प्रदायके सब शिष्य कहाते हैं, यह पहले सब सनातन धर्मावलम्बी थे, अब जबसे इनमेंसे एक सिंह सम्प्रदाय निकला है, तबसे इनमें बहुत भेद हो गया है, सिंह समाजवाले अपनेको हिन्दू कहनेसे इनकार करते हैं, एक प्रकारसे समस्त पञ्जाब ही शिष्यधर्मा कहा जा सकता है, यह ग्रंथ साहबको पूजते हैं ।

राधास्वामी-यह राधास्वामीके द्वारा तथा उनके शिष्य राय शालिग्राम पोस्टमास्टरके द्वारा प्रचार किया हुआ एक नवीन मत है, यह अपना भेद गुप्त रखते हैं, शांतिमें रहना पसंद करते हैं, गुरुकी उच्छिष्ट प्रसादी चिट्ठीमें बन्द होकर शिष्योंपर पहुंचती है, यह मद्य मांसका किसी प्रकार भी सेवन नहीं करते ।

इन सबके सिवाय चार्वाक, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त अनेक सम्प्रदाय इस भारतमें विद्यमान हैं, जिनके सिद्धान्त वर्णनकी इस पुस्तकमें आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे ग्रंथमें लिखा जायगा ।

जातिविवेककी पुस्तकोंमें चौंसठ कला देखी जाती हैं, इससे हम यहां चौंसठ कलाओंके नाम लिखते हैं शैवतन्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

१ गीतम् २ वाद्यम् ३ नृत्यम् ४ नाट्यम् ५ आलेख्यम् ६ विशेषकच्छेद्यम् ७ तण्डुलकुसुमबलिविकाराः ८ पुष्पास्तरणम् ९ दशनवसनांगरागाः १० मणिभूमिकाकर्म ११ शयनरचनम् १२ उदकवाद्यमुदकघातः १३ चित्रयोगाः १४ माल्यग्रथनविकल्पाः १५ शेखरापीडयोजनम् १६ नेपथ्ययोगाः १७ कर्णपत्रभंगाः १८ सुगन्धयुक्तिः १९ भूषणयोजनम् २० ऐन्द्रजालम् २१ कौचुमारयोगाः २२ हस्तलाघवम् २३ चित्र-



शाकापूपभक्ष्यविकारक्रियाः २४ पानकरसरागासवयोजनम्  
 २५ सूचीवाचकर्म २६ सूत्रक्रीडा २७ वीणाडमरुकवाद्यानि  
 २८ प्रहेलिकाः २९ प्रतिमाला ३० दुर्वचनयोगाः  
 ३१ पुस्तकवाचनम् ३२ नाटकाख्यायिकादर्शनम् ३३  
 काव्यसमस्यापूरणम् ३४ पट्टिकावेत्रबाणविकल्पाः ३५  
 तर्ककर्माणि ३६ तक्षणं ३७ वास्तुविद्या ३८ रूप्यरत्नपरीक्षा  
 ३९ धातुज्ञानम् ४० मणिरागज्ञानम् ४१ आकारज्ञानम्  
 ४२ वृक्षायुर्वेदयोगाः ४३ मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः ४४  
 शुकसारिकाप्रलपनम् ४५ उत्सादनम् ४६ केशमार्जनकौश-  
 लम् ४७ अक्षरमुष्टिकाकथनम् ४८ म्लेच्छितकुतर्कविकल्पाः  
 ४९ देशभाषाज्ञानम् ५० पुष्पशकटिकानिर्मितज्ञानम् ५१  
 पंचमातृकाधारमातृका ५२ संवाच्यम् ५३ मानसीकाव्यक्रिया  
 ५४ अभिधानकोशः ५५ छन्दोज्ञानम् ५६ क्रियाविकल्पाः  
 ५७ छलिकयोगाः ५८ वस्त्रगोपनानि ५९ द्यूतविशेषः ६०  
 आकर्षक्रीडा ६१ बालक्रीडनकानि ६२ वैनायिकीनाम् ६३  
 वैजयिकीनाम् ६४ वैतालिकीनाञ्च विद्यानां ज्ञानम्, इति  
 चतुः षष्टिकलानां नामानि ।

१ गामा २ बजाना ३ नाचना ४ नाट्य करना ५ चित्र लिखना ६ हीरेको वेधना ७  
 चावल फूलोंके रङ्ग निकालना ८ फूलोंका बिछाना ९ दन्त वस्त्र और अङ्गोंका रङ्गना १०  
 मणियोंकी भूमि रचना ११ शयनस्थानकी रचना १२ जलतरङ्ग बजाना वा जलताडन विधि  
 जानना १३ विष उतारना १४ माला आदिका गूँथना ॥ १५ मुकुट आदि बनाना १६  
 नेपथ्य रचना १७ कर्णभूषण रचना १८ सुगंधित पुष्पोंसे तेल बनाना १९ गहनेकी  
 योजना २० इंद्रजाल विद्या २१ बहुरूपियापन, रूपभरना २२ पट्टे गदाका खेल जानना  
 २३ शाक हुए आदि अनेक खाद्य पदार्थोंके बनानेका ज्ञान २४ पीनेके शर्बत  
 आदि बनाना २५ सीनेका काम और लक्ष्यभेद जानना २६ सूत्रक्रीडा २७ वीणा डमरुक  
 बनाना २८ कहानी कहना २९ दूसरेकी बोली बनाकर बोलना ३० छल करना जानना  
 ३१ पुस्तक बाँचना ३२ नाटक आख्यायिका देखना ३३ काव्यकला समस्यापूर्ति जानना

३४ निवाडर डोरी आदि बुनना, वेतवाण आदिका प्रयोग ३५ तर्क कर्म ३६ बदर्ईका काम ३७ शिक्षपविद्या, वस्तुकर्मका ज्ञान ३८ चांदी और रत्नोंकी परीक्षा ३९ धातुज्ञान ४० मणियोंके रूपका ज्ञान ४१ खानकी वस्तुओंकी भूमिकी पहचान ४२ वृक्षोंकी चिकित्सा ४३ मेढा मुर्गे और बटेरोंके लडानेकी विधिका ज्ञान ४४ तोते मैनाका प्रलाप ४५ बैरीका तिरस्कार ४६ मसाले आदिसे धोकर बालोंको शुद्ध करना ४७ मुट्टीमेंकी वस्तु बताना ४८ म्लेच्छ भाषाका ज्ञान, उनके कुतर्कोंका उत्तर देना ४९ देश भाषाका ज्ञान ५० फूलोंकी सवारी वाहन आदिका रचना ५१ यन्त्र निर्माण अक्षर विन्यासादिका ज्ञान ( वा कठपुतरी नचाना ) ५२ वाणीमें प्रवीणता ५३ दूसरोंके मनकी बात जानना वा मनमें काव्य निर्माण कर लेना ५४ शब्दकोषका ज्ञान होना ५५ छन्दोंका ज्ञान ५६ अनेक प्रकारसे कार्यका सिद्ध करना ५७ छलविधि ५८ वस्त्रोंका छिपा देना ५९ द्यूतका विशेष परिज्ञान ६० दूसरेको आकर्षण करना ६१ बालकोंके खेल जानना ६२ विनयसे राजाको प्रसन्न कर लेना ६३ विनयका विचार वा देवताओंको वशमें करना ६४ वैतालिक विद्याका ज्ञान, यह ६४ चौंसठ कला कहाती है, इनके जाननेवाला पुरुष चतुर होता है ।

इति श्रीमुरादाबादवास्तव्यपंडितसुखानन्दमिश्रात्मजविद्यावारिधिपण्डितज्वालाप्रसाद-

मिश्रसङ्कलिते जातिभास्करे चतुर्थखण्डः समाप्तः ।

शुभं भूयात् ।

दोहा—ब्रह्मा शंकर विष्णु श्री,—गणपत गिरा मनाय ॥

जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पूर्ण कियो सुखदाय ॥ १ ॥

संवत शशिवारीशग्रह, भूमि मार्गेशिरमास ॥

कृष्णपक्ष भृगु पंचमी, पूर्ण कियो सुखरास ॥ २ ॥

वसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद ॥

भजन करत हरिको सदा, बुध ज्वालापरसाद ॥ ३ ॥

श्रोता वक्ताके रहै, नित नवमंगल गेह ॥

प्रेम नेम अरु धर्मलखि, करहिं परस्पर नेह ॥ ४ ॥

करुणामय आनन्दनिधि, सकल सुमंगल मूल ॥

जन ज्वालाप्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल ॥ ५ ॥

श्रीरस्तु ।

सम्पूर्णोऽर्थ ग्रन्थः ।

## कथ्य धर्मशास्त्र-ग्रन्थ ।

—०००—

नाम.	की. रु. आ.
अष्टादशस्मृति-मूलमात्र अक्षर मुद्रापत्रा सर्वधर्मनिरूपण युक्त है.	.... ४-०
अष्टादशस्मृति-मूलमात्र छोट्यामुद्रका जिल्द बंधा ....	.... ४-०
अष्टादशस्मृति-भाषाटीकासमेत ग्लेज कागज ....	.... ८-०
अधिमासपरिक्षा ....	.... ०-७
अभिन्नौयानमीमांसा-( अर्थान् विलायत यात्रा ) ....	.... २-०
आह्निकसूत्रावली-श्रीशुकलयजुर्वेदी माध्यन्दिन वाजसनेयिशाम्बावालोंको परमोपयोगी है	४-८
आचारार्क-इसमें ऋग्वेदियोंका आह्निकाचार है ....	.... १-४
आचारादर्श-यजुर्वेदियोंकी आह्निक विधि ....	.... १-४
आचारसूचिका-भाषाटीकासमेत । बूंदीनिवासी पं० गंगासहायजी विरचित ।	०-२
आशौचनिर्णय-( अग्निपुराणोक्त ) इसमें-सूतकोंका निर्णय अच्छी प्रकार किया है	०-२
आशौचनिर्णय-मूलमात्र ....	.... ०-२॥
आशौच निर्णय-भाषाटीकासमेत ....	.... ०-८
एकादशीतिथिव्रतनिर्णय-सप्रमाण जयसिंहकल्पद्रुमसे उद्धृत	.... ०-७
कर्मविपाक-मूलमात्र, ग्लेज कागज ....	.... १-८
कर्मविपाक-नक्षत्रचरणगत-भाषाटीकासमेत।तीन जन्मका वृत्तान्त मालूम होता है ग्लेज	३-०
कर्मसिद्धान्तदीपिका-( कर्मफल भलीभांति बर्णित है )	.... ०-२॥
जन्माष्टमीव्रतनिर्णय-सप्रमाण जयसिंहकल्पद्रुमसे उद्धृत	.... ०-७
जयसिंहकल्पद्रुम-( मूलमात्र धर्मशास्त्रका अपूर्व ग्रंथ )	१४-०
धर्मप्रदीप-मूल सप्रमाण बारहमासोंके तिथ्यादि निर्णय स्पष्ट लिखे गये हैं	२-०
निर्णयसिन्धु--मूलमात्र--टिप्पणी सहित, पंडितोंके देखने योग्य अत्युत्तम ग्लेज	६-०
निर्णयसिन्धु-विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसन्नजी मिश्रकृत सुबोधभाषाटीकासहित	१६-०

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास,  
"श्रीवैकटेश्वर" स्टीम् प्रेस,  
खेतवाडी-बम्बई.

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,  
"लक्ष्मीवैकटेश्वर" स्टीम् प्रेस,  
कल्याण बम्बई.









